

भगवानु ठेकाणु :  
श्री अ. सा. श्वे. स्मानकवाभी  
नेनयाओद्वार समिति  
ठे अरेठिया हूवा राड,  
राजठोट — औराष्ट्र

Published by :  
Shri Akhil Bharat S S  
Jain Shastrodhar Samiti,  
Gardha kura Road, RAJHOT  
(Saurashtra.) W Rly India.

प्रथम आवृत्ति : प्रत १२००  
वीर स न त् : २४६०  
विक्रम स न त् : २०२०  
प स्वी स न : १६१४

ः मुद्रके सुप्रवृत्तान  
जयतिलाल देवयह महेता  
ज न सा र त प्रे स,  
अरेठिया हूवा राड, राजठोट  
( औराष्ट्र )

# भगवतीसूत्र भा. ६ की विषयानुक्रमणिका

अनुक्रमाङ्क	विषय	पृष्ठाङ्क
<b>आठवें शतकका पहला उद्देशां</b>		
१	पहले उद्देशे के विषयोंका विवरण	१— ५
२	पुद्गलों के भेदोंका निरूपण	६— ३९
३	सूक्ष्म पृथ्वीकाय के स्वरूपका निरूपण	४१— २६०
<b>दूसरा उद्देशा</b>		
४	दूसरे उद्देशे के विषयोंका विवरण	२६१— २६६
५	आशीविष नाम के सर्पके स्वरूपका निरूपण	२६६— ३०२
६	धर्मोस्तिकाय आदिकी दुर्विज्ञेयताका निरूपण	३०२— ३०९
७	ज्ञानके भेदोंका निरूपण	३०९— ३९०
८	लब्धिके स्वरूपका निरूपण	३९०— ४८५
९	ज्ञानगोचरका निरूपण	४८५— ५११
१०	अठारह प्रकारके कालादि द्वारोंका निरूपण	५११— ५४२
<b>तीसरा उद्देशा</b>		
११	तीसरे उद्देशे के विषयोंका विवरण	५४३— ५५३
१२	जीवके अच्छेघटाका निरूपण	५५४— ५५९
१३	रत्नप्रभादि पृथिवी के स्वरूपका निरूपण	५५९— ६६९
<b>चौथा उद्देशा</b>		
१४	कायिकी आदिक्रिया का निरूपण	६७०— ५७७
<b>पांचवां उद्देशा</b>		
१५	पांचवे उद्देशेके विषयोंका विवरण	६७८— ६७९
१६	परिग्रहादि क्रियाका निरूपण	६८०— ५९७
१७	स्थूल प्राणातिपातादि प्रत्याख्यानका निरूपण	५९७— ६४४



१८	आजीवकके सिद्धान्तका निरूपण	६४५-६५५
१९	देवसोकका निरूपण	६५५-६५८

## छठा उद्देशा

२०	छठे उद्देशका विषयविवरण	६५९-६६१
२१	निग्रन्थके प्रतिसाम के फलका निरूपण	६६१-६७०
२२	निग्रन्थके दानधर्मका निरूपण	६७१-६८६
२३	निग्रन्थके आराधकताका निरूपण	६८६-७१६
२४	दीपके स्वरूपका निरूपण	७२१-७५०
२५	क्रियाके स्वरूपका निरूपण	७२१-७५०

## सातवा उद्देशा

२६	प्रणेषक्रिया निमित्तक अन्यतीर्थिकोंके मतका निरूपण	७५१-८०६
२७	गतिपथाताध्ययनका निरूपण	८०७-८११

“ असंख्यं जीविय मा पमायए ”



श्री विनोद कुमार वीराणी

(टीक्षा लीधा पढेतां शास्त्राभ्यास करता)

जन्म पोर्टसुदान सा १९६२

टीक्षा

श्री य न - (राजस्थान)

सा २०१३ वैशाख व १२

ता २६-५-५७ र वि वार

निर्वाणु

ई लो टी - (राजस्थान)

सा २०१३ श्रावण शु १२

ता ७-८-५७ सु ध वा ०



## આ બ્ર શ્રી વિનોદકુમારનું સક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર

આ પરમ વૈરાગી અને દયાના પુંજ જેવા આ પુરુષનો જન્મ વિક્રમ સવત ૧૯૬૨ પોર્ટસુદાન (આફ્રિકા) માં કે જ્યાં વીરાણી કુટુંબનો વ્યાપાર આજ દિવસ સુધી ચાલુ છે, ત્યાં થયો હતો.

શ્રી વિનોદકુમારના પુણ્યવાન પિતાશ્રીનું નામ શેઠશ્રી દુર્લભજી શામજી વીરાણી અને મહા ભાગ્યવાન માતૃશ્રીનું નામ બેન મણિબેન વીરાણી બન્નેનું અસલ વતન રાજકોટ ( સૌરાષ્ટ્ર ) છે જેન મણિબેન ધાર્મિક ક્રિયામાં પહેલેથી જ રુચિવાળા હતા, પરંતુ શ્રી વિનોદકુમાર ગર્ભમાં આવ્યા પછી વધારે દૃઢધર્મી અને પ્રિયધર્મી બન્યા હતા.

પૂર્વ ભવના સસ્કારથી શ્રી વિનોદકુમારનું લક્ષ ધાર્મિક અભ્યાસ અને ત્યાગ ભાવ તરફ વધારે હોવા છતાં તેઓશ્રીએ નોનમેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી વ્યવહારિક કેળવણી લીધેલી અને વ્યાપારની પેઢીમાં કુશળતા ખતાવેલી.

તેઓશ્રીએ યુનાઇટેડ કિંગડમ, ફ્રાન્સ, બેલ્જિયમ, હોલેન્ડ, જર્મની, સ્વી-ઝેલેન્ડ, તેમ જ ઇટાલી, ઇજિપ્ત વગેરે દેશોમાં પ્રવાસ કરેલ સાં ૨૦૦૯ના વૈશાખ માસ, સને ૧૯૫૩માં લંડનમાં રાણી એલીઝાબેથના રાજ્યારોહણ પ્રસંગે તેઓશ્રી લંડન ગયા હતા કાશ્મીરનો પ્રવાસ પણ તેમણે કરેલ, દેશ પરદેશ ફરવા છતાં પણ તેમણે કોઈ વખતે પણ કંદમૂળનો આહાર વાપરેલ નહીં.

ઉગતી આવતી યુવાનીમાં તેઓશ્રીએ દુનિયાના રમણીય સ્થળો જેવાં કે કાશ્મીર, ઇજિપ્ત અને યુરોપનાં સુંદર સ્થળોની સુલાકાત લીધી હોવા છતાંએ તેઓને રમણીય સ્થળો કે રમણીય યુવતીઓનું આકર્ષણ થયું નહીં. એ એના પૂર્વભવના ધાર્મિક સસ્કારનો જ રંગ હતો અને એ રંગે જ તેમને તે બધું ન ગમ્યું અને તુરત વતન પાછા ફર્યા અને સાધુ-સાધ્વીજીનાં દર્શન કરવાને ઠેકઠેકાણે ગયા અને તેમના ઉપદેશનો લાભ લીધો અને વૈરાગ્યમાં જ મન લાગ્યું હુંડાકાલ અવસર્પિણિના આ દુષમ નામના પાત્રમાં આરાનું વિચિત્ર વાતાવરણ જેઠ તેમને કંઈક જ્ઞાન થતો કે તુરત જ તેનો ખુલાસો મેળવી લેતા અને ત્યાગ ભાવમાં સ્થિર રહેતા દેશ પરદેશમાં પણ સામાયિક, પ્રતિકંભણ, ચોવિહાર આદિ પચ્ચક્ષ્ણાણુ તેઓ ચૂક્યા નહીં ઊંચી કોટિની શૈયાનો ત્યાગ કરી તેઓ સૂવા માટે માત્ર એક શેતરજી, એક ઓસીકું અને ઓઢવા માટે એક આદર ફક્ત વાપરતા અને પલંગ ઉપર નહીં પણ ભૂમિ પર જ

શયન કરતા અને પહેરવા માટે એક ખાલીનો લેવો અને ઝભો વાસતા, ડાઇ વખતે કબજો પહેરતા બહુ ઠંડી હોય તો વખતે સારો ગરમ કોટ પહેરી લેતા અને મુદ્દપતિ, પાથરલુ, સ્નેહરલુ અને બે ચાર ધાર્મિક પુસ્તકની ઝોળી સાથે રાખતા સહાયમાં નહીં પણ જગલમાં એકાંત જ્યાંમાં વલ્લે જાગે શરીરની અશુભિ દૂર કરવા જતા હાલતાં ચાલતાં, સહાય અને પેશાબ સબંધીમાં લવહવાની બરાબર જતના કરતા.

દેશમાં કે પરદેશમાં જ્યારે તેમને કોઈની સાથે મળવાનું થતું ત્યારે તેમની સાથે અહિંસામય જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ પ્રકટ કર્યાં વગર રહેતા નહીં.

દીક્ષાર્થીઓને જલદી દીક્ષા લેવાની પ્રેરણા કરતા અને એમ જ કહેતા કે જીવનમાં કોઈ ભરોસો નથી 'મસુસ્વયં મીષિય મા પમાયણ' આમુખ્ય તૂટતાં વાર લાગતી નથી જીવન તૂટતું સખાતું નથી માટે ધર્મકરણીમાં સમવમાત્રનો પ્રમાદ ન કરવો એમ એ.

ગોઠણ સપ્રદાયના ધણાખરા પૂં મુનિવશી અને પૂં મહાસ્વીજીઓનો તથા બોટાદ સપ્રદાયના પૂં આચાર્યશ્રી માણેકચંદ્ર મહારાજ અને દરિયાપુરી સપ્રદાયના ચાંત-શાસ્ત્રા પૂં મુનિશ્રી ભાગ્યચંદ્ર મહારાજ ધર્મજી સમના મુખ્ય આચાર્યશ્રીજી આત્મારામજી મહારાજ તપોમય જ્ઞાનનિધિ શાસ્ત્રોદારક બા. ધ પૂં આચાર્ય મહારાજ શ્રી ધાસીલાલજી મહારાજ વગેરે અનેક સાધુ-સાધ્વીઓના ઉપદેશનો તેમજે હાલ લીપિલ મુબઈમાં સ ૨૦૧૧ સાલમાં શ્રી ધર્મસિંહજી મહારાજના સપ્રદાયના પરિતરત્ન શ્રી હાલચંદ્ર મહારાજનો પરિચય થયો હાલચંદ્ર મહારાજ પોતે સસારપણના ત્રણ પુત્રો અને બે પુત્રીઓ એમ કુલ ૬ બહેકે આખા કુટુંબે સયમ જીવીકાર કરેલ તે જાણી તેમને અદૂર્ણત ત્યાગ જાવના પ્રગટ થઈ કે જે કહી ક્ષય પામી નહીં.

આ પહેલાં તેઓ જ્યારે માતા-પિતાની સાથે પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી માણેકચંદ્ર મહારાજના હાથે બોટાદ ગયેલા ત્યારે તેમના ઉપદેશની જે અસર વર્ષ તે પણ મુખ્ય અસર પહેલી હતી અને બીજી અસર તે પૂજ્ય હાલચંદ્ર મહારાજના સંકુટબની દીક્ષા એ હતી આ બેઉ પ્રસંગોએ પૂર્વ જાવની બાકી રહેલી આરાધનાને પૂરી કરવાના નિમિત્તરૂપ હોઈને વખતો વખત તેઓ માતા-પિતા પાસે દીક્ષાની આજ્ઞા માગતા હતા અને તેનો જવાબ તેમના પિતાશ્રી તરફથી એક જ હતો, જે હતું વાર છે સમય પાકવા દીક્ષા જ્ઞાનાસ્વાસ વધારો,

સં ૨૦૧૨ના અષાઠ શુદ્ધ ૧૫ થી શ્રી વિનોદકુમારે ગોંડલ સંપ્રદાયના શાસ્ત્રજ્ઞ પૂ આચાર્યશ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ સાહેબ પાસે વેરાવળ ચાતુર્માસ દરમ્યાન ખાસ નિયમિત રીતે દીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે તેમની પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ કર્યો તેની સાથે પૂ આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજના સંસાર પક્ષના કુટુંબી, દીક્ષાના ભાવિક શ્રી જસરાજભાઈ પણ જ્ઞાનાભ્યાસ કરતા હતા. તેઓએ ત્યાં એવો નિર્ણય કરેલો કે આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ પાસે આપણે બન્નેએ દીક્ષા લેવી, પહેલાં વિનોદકુમારે અને પછી શ્રી જસરાજભાઈએ દીક્ષા લેવી, શ્રી જસરાજભાઈની દીક્ષા તિથિ પૂ શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ સાહેબે સ ૨૦૧૩ના જ્ઞેઠ શુદ્ધ ૫ ને સોમવારે માંગરોલ મુકામે નક્કી કરી શ્રી જસરાજભાઈ વિનોદકુમારને રાજકોટ મળ્યા શ્રી વિનોદકુમારે શ્રી જસરાજભાઈની યથાયોગ્ય સેવા બજાવી, માંગરોલ રવાના કર્યા અને પોતે નિશ્ચયપૂર્વક દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગી પણ તેઓના પિતાશ્રીની એકને એક વાણી સાંભળીને તેમને મનમા આઘાત થયો અને દીક્ષા માટેનો તેમણે ખીજો રસ્તો શોધી કાઢ્યો.

પૂજ્યશ્રી લાલચ દજી મહારાજ અને તેમના શિષ્યોનો પરિચય મુંબઈમાં થયેલ હતો અને ત્યારબાદ કોઈ વખત પત્રવહીવાર પણ થતો હતો છેલ્લા પત્રથી તેમણે જાણેલ હતું, જે પૂ શ્રી લાલચ દજી મહારાજ, ખીચન ગામે પૂ આચાર્ય શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ સાહેબ પાસે જ્ઞાનાભ્યાસ અર્થે ગયા છે પોતાને પિતાશ્રીની આજ્ઞા (દીક્ષા માટે) મળે તેમ નથી અને દીક્ષા તો લેવી જ છે આજ્ઞા વિના કોઈ સાધુ મુનિરાજ દીક્ષા આપશે નહીં અને સ્વયંમેવ દીક્ષા સૌરાષ્ટ્રમાં લઈને આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમજી મહારાજ પાસે જવામાં ઘણાં વિઘ્નો થાશે, એમ ધારીને તેઓએ દૂર રાજસ્થાનમાં ચાલ્યા જવાનું નક્કી કર્યું.

તા ૨૪-૫-૫૭ સં ૨૦૧૩ના વૈશાખ વદ ૧૦ ને શુક્રવારના રોજ સાજના માતુશ્રી સાથે છેલ્લું જમણ કર્યું લોજન કરી, માતુશ્રી સામાયિકમાં બેસી ગયા તે વખતે કોઈને જાણ કર્યા વગર દીક્ષાના વિઘ્નોમાથી બચવા માટે ઘર, કુટુંબ, સૌરાષ્ટ્ર, ભૂમિ અને ગોંડલ સંપ્રદાયનો પણ ત્યાગ કરી તેઓ ખીચન તરફ રવાના થયા.

શ્રી વિનોદમુનિના નિવેદન પરથી માલુમ પડ્યું કે તા ૨૪-૫-૫૭ના રોજ રાત્રે આઠ વાગે ઘેરથી નીકળી, રાજકોટ જંકશને બેઘપુરની ટ્રિકિટ લીધી તા ૨૫-૫-૫૭ના સવારે ૮ વાગ્યે મહેસાણા પહોંચ્યા ત્યાં અઢી કલાક ગાડી પડી રહે છે, તે દરમ્યાન ગામમાં જઈને લોચ કરવા માટેના વાજ રાખીને બાકીના કઠાવી નાખ્યા અને ગાડીમાં બેસી ગયા. મારવાડ જંકશન તથા


એકપુર જ કશન ઘડને તા ૨૬-૫-૫૭ની વહેલી સવારે ડાા વાગ્યે ફોલી પહેાવા ત્યાથી પગે ચાલીને ખીચન ઉપાશ્રયમાં પહેાવા અને ઉપાશ્રયમાં જિરાજતા મુનિવરોના ઇશન કર્યાં વહણા નમસ્કાર કરી મુખયાના પૂછી, બહાર નીકળવા અને પોતાના સામાયિકના કપડાં પહેવાં અને પછી પુસ્તક શ્રી મુનિવરોની સન્મુખ સામાયિક કરવા બેઠા, તેમાં “જાણ નિયમ પચ્છુવાસામિ કુચિહ તિચિદ્દેણ” ના બહલે “જાણ ક્ષીણ પચ્છુવાસામિ તિચિહ તિચિદ્દેણ” બોલ્યા તે શ્રી લાલચદલ મહારાજે સાંભળ્યું અને તેઓશ્રીએ પૂછ્યું કે ‘વિનોદકુમાર! તમે આ શુ કરો છો, તેનો જવાબ આપવાને બહલે “મપ્પાણં ચોસિરામિ” બોલી પાઠ પૂરો કર્યાં અને પછી વિનયપૂર્વક બે હાથ જોડીને બોલ્યા કે ‘સાહેબ! એ તો બની ચૂક્યું અને મેં સ્વચ્છ મેવ દીક્ષા લઈ લીધી, બરાબર જ છે અને તેમાં કાંઈ ફેરફાર થઈ શકે તેમ નથી. આ સિવાય આપશ્રીની બીજી કોઈ પણ પ્રકારની આજ્ઞા હોય તેો ફરમાવો.”

તે જ દિવસે બપોરના શાશ્રણ પૂ મુનિશ્રી સમઘમલજી મહારાજ સાહેબે શ્રી વિનોદકુમાર મુનિને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને સમજાવ્યા કે “તમે જોક સારા જ્ઞાનદાન કુટુંબના વ્યક્તિ છે. તમારી જ્ઞા દીક્ષા અખીકાર કરવાની રીત બરાબર નથી કારણ કે તમારા માતા-પિતાને જ્ઞા હકીકતથી દુ ખ વાક અને તેથી મારી મ મતિ છે કે રબેહરણની ઠાક્રી ઉપરથી કપડું ઠાક્રી નાખો જેથી તમેા શ્રાવક બણાવ અને જરૂર ડે તો શ્રાવકોનો સાથ લઈ શકો, જ્યેમ ગણવાર પૂ મહારાજશ્રીએ સમજાવેલા પરંતુ તેમજે ગણેચ વખત જોક જ ઉત્તર આપેલો કે ‘જે યજુ તે યજુ હવે મારે આગળ શુ કરવું તે ફરમાવો.”

શ્રી વિનોદમુનિના શ્રી સમઘમલજી જેવા મહામુનિના પ્રશ્નના જવાબ પછી ખીચનનો ચતુરિધ સઘ વિચારમાં પડી બયો અને મુનિશ્રીઓ પર સસારીઓનો કોઈ પણ પ્રકારનો જ્ઞા નિષ્કારણ હુમલો ન આવે તે માટે શ્રી વિનોદમુનિને જણાવવામાં આવ્યું કે ‘અમારી મહામતી માટે તમારે બહેર નિવેદન બહાર પાડવાની જરૂર છે ત્વે શ્રી વિનોદમુનિએ પોતાના હસ્તાક્ષરે નિવેદન શ્રી સઘ સમજ પ્રજા ક્યું તેનો સાર નીચે મુજબ છે -

મા ! માતા-પિતા મોહને વશ વધને દીક્ષાની આજ્ઞા આપે તેમ ન હતું અને “ઝસસ્થય ક્ષીચિય મા પમાયણ” ને આધારે જોક ક્ષણ પણ દીક્ષાથી વચિત રહી શકું તેમ નથી, જ્યેમ મને લાગ્યું શ્રી લાલચદલ મહારાજ સાહેબ-વજેરેએ મને મારી દીક્ષા માટે વિચારી પછી કરવાનું કહલ પરંતુ મને

આદ્યસુરખીશ્રીઓ





શ્રી શાંતિલાલ ભગણદાસભાઈ  
અમદાવાદ

(સ્વ) શ્રી ગામજીલાલ વેલજીલાલ  
વીરાણી-રાજકોટ



(સ્વ) શ્રી છગનલાલ ગામજીદાસ લાવસાર - અમદાવાદ



શ્રી ગમજીલાલ શામજીલાલ  
વીરાણી-રાજકોટ.

વચ્ચે બેઠેલા  
લાલાજી કિશનચંદળ સા. જોહરી  
ઉભેલા મુપુત્ર ચિ. મહેતાખચનજી સા જૈન  
તાતા - અનિલકુમાર જૈન (દાયતા)



આદ્યમુરુબીથીઓ



(સ.૧) શ્રીમતી દરખય ડ કાલીદાસ વાલિયા (સ્વ.) શ્રી ર નલભાઈ ગાહનલાલ શાહ  
ભાણુવાદ અમદાવાદ



(સ્વ.) શ્રીમતી દિનેશભાઈ કાતિલાલ શાહ  
અમદાવાદ



શ્રીમતી જે.સી. નભાઈ પાચાલાલભાઈ  
અમદાવાદ



સ્વ શ્રીમતી વ્યાત્કારામ માણેલાલ  
અમદાવાદ.

સમય માત્રનો પ્રમાદ કરવો હીક ન લાગ્યો, તેથી શ્રી અરિહંત લગવંતો તથા શ્રી સિદ્ધ લગવંતોની સાક્ષીએ મારા ગુરુ મહારાજ સમક્ષ પ્રવ્રલ્યની પાઠ ભણીને મારા આત્માના કલ્યાણ માટે દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. સમાજને ખોટો ખ્યાલ ન આવે કે મારી દીક્ષા ક્ષણિક જુસ્સાથી અગર ગેરસમજથી થઈ છે તેથી તથા સમાજમાં જૈનશાસનની પ્રભાવના થાય તે હેતુથી મારે મારો વૃતાંત પ્રગટ કરવો ઉચિત છે

ઉત્તરાધ્યયનજી સૂત્રના ૧૯ મા અધ્યયન પરથી મને લાગ્યું કે મનુષ્ય જીવનનું ખરૂં કર્તવ્ય મોક્ષકળ આપનારી દીક્ષા જ છે.

છેવટ સુધી મે મારા બાપુજી પાસે દીક્ષા માટે આજ્ઞા માગી અને તે વખતે પણ પહેલાની જેમ વાત ઉઠાવી દીધી અને અનત ઉપકારી એવા મારા બાપુજી સમક્ષ હું તેમને કડક ભાષામા પણ કહી શકતો ન હતો અને ખીજી બાજુથી મને થયું કે આયુષ્ય અશાશ્વત છે અને આવા ઉત્તમ કાર્ય માટે જરાપણ પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી. તેથી મેં વિચારીને આ પગલુ લયું છે અને મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે, શ્રી વીરપ્રભુ મહાવીર સ્વામીનો સકળ સંઘ મારા આ કાર્યને અનુમોદશે જ “ તથાસ્તુ ”

રાજકોટમા શ્રી વિનોદકુમારના ગયા પછી પાછળથી ખબર પડી કે વિનોદકુમાર કેમ દેખાતા નથી એટલે તપાસ થવા માંડી ગામમા કયાય પત્તો ન લાગ્યો એટલે બહારગામ તારો કર્યા કયાયથી પણ સંતોષકારક સમાચાર સાપડયા નહી અર્થાત્ પત્તો મળ્યો જ નહીં આમ વિમાસણના પરિણામે પિતાશ્રીને જે મહિના પહેલાની એક વાતની યાદી આવી. તે એ હતી કે તે વખતે શ્રી વિનોદકુમારે આજ્ઞા માગેલી કે “ બાપુજી ! આપની આજ્ઞા હોય તો આ ચાતુર્માસ ખીચન ( રાજસ્થાન ) જાઉં કારણ કે ખીચનમાં પૂ ગુરુમહારાજ શ્રી સમર્થમલજી મહારાજ કે જેઓ સિદ્ધાંત વિશાઠ છે અને અનેકાંતવાદના પૂગ જાણકાર છે, તેઓ ત્યા બિરાજમાન છે જેઓશ્રી પાસે શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવા માટે પૂ શ્રી લાલચદજી મહારાજ આદિ ઠાણા ઠ જવાના છે તો મારી ઇચ્છા પણ ત્યા તેમની પાસે જવાની છે

આ વાતચીતનું સ્મરણ પિતાશ્રીને આવવા સાથે તેઓએ પં. પૂર્ણચંદ્રજી દક્કને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને વિનોદકુમાર માટેની પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી. પંડિતનું આ વાતને સમર્થન ન મળ્યું. તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે થોડા સમય પૂવે વિનોદકુમારે મારી પાસે જાણવા માગ્યું હતું કે, ખીચનમા કેવા પ્રકારની

સત્યવદ છે ? જામ મારી સાથે પણ વાર્તાલાપ થયો હતો અનેના આ પ્રમાણે  
એકમત થતાં પિતાશ્રીએ ખીચન તાર કરવા સૂચના કરી તા ૨૬-૫-૫૭ના  
રાજ પૂર્ણિમાના મહા ખીચન ( રાજસ્થાન ) ઉપર તાર કર્યો

તા ૨૮-૫-૫૭ના રાજ જવાબ આવ્યો કે શ્રી વિનોદભાઈએ ખીચનમાં  
સ્વયંભેવ દીક્ષા શરૂ કરી છે એટલે તેમના પિતાશ્રીએ રાવબહાદુરશ્રી  
એમ પી. સાહેબ, શ્રી કેશવલાલભાઈ પારેખ અને પંડિતજી પૂર્ણચંદ્રજી ઠક્કર એમ  
ત્રણેયને શ્રી વિનોદભાઈને પાછા તેડી લાવવા માટે ખીચન મોકલ્યા તા ૨૮-૫-  
૫૭ના રાજ રવાના થઈ તા ૩૦ ૫-૫૭ના રાજ સવારે હલોદી સ્ટેશને પહોંચ્યા.  
બેઠાકાંઠામાં તેઓ ખીચન ત્રવા કે જ્યાં સ્થિવર મુનિશ્રી શીરોમણજી મહારાજ  
પૂજ્ય પંડિતરત્ન શાસ્ત્ર વિશારદ શ્રી સમયમણજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૮ તથા  
પૂજ્ય તપસ્વી મહારાજ શ્રી લાલાચંદ્રજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ બિરાજતા  
હતા. કુલે સાધુ-સાધ્વીની સખા અનુભવીસથી ત્રીસની હતી

પૂછપરછના જવાબમાં શ્રી વિનોદમુનિએ કેશવલાલભાઈ પારેખને  
કહ્યું કે 'મેં તો દીક્ષા અગીકાર કરી લીધી છે તેમાં કાંઈ ફેરફાર થાય તેમ નથી  
તમો અમારા વીરાજી કુટુંબના કિતૌથી છે અને જો સાચા કિતૌથી હો તો મારા  
પૂ જા અને બાપુજીને સમજાવીને મારી હવે પછીની માટી દીક્ષાની આરા  
અઠવાડિયાની અદર અપાવી ઘો એટલું જ નહીં પણ " સવિ લવ કર શાસન  
રસી ' ની ભાવનામાં અને આજ દિવસ મુખીના મારી ઉપરના ઉપકારના બદ-  
લામાં આગમને અનુલક્ષીને મારી ભાવના એ હોય જ અને છે કે મારી દીક્ષા  
તેઓની દીક્ષાનું નિમિત્ત બને અને મારા માતા-પિતા સદ્ગતિને સાધે. અર્થાત્  
મારી સાથે દીક્ષા લીજે.

આવા દહ જવાબના પરિણામે તે જ સમયે શ્રી વિનોદભાઈને પાછા  
લઈ જવાની ભાવનાને નિષ્ફળતા સાપડી અને તા ૩૧-૫-૫૭ ની રાત્રીના  
રવાના થઈ તા ૨-૬-૫૭ના સવારે મહા પરીવહરૂપ ક્ષેત્રનો અનુભવ કરી,  
શ્રી વિનોદભાઈને પિતાશ્રીને તમામ વાતથી વાકેફ કર્યા

શ્રેણી વખતમાં હલોદીના શ્રી સચે પૂ શ્રી લાલાચંદ્રજી મહારાજને કલે  
દીમાં શોભાસુ કરવાની વિનતી કરી તેનો અસ્વીકાર થવાથી સમ જમણીન  
જન્મે એટલે નિષ્કથ ફેરવે અને અષાઠ શુદ્ધ ૧૩ ના રાજ ખીચનથી વિદાર  
કરી હલોદી આવ્યા.

દીક્ષા પછી અઢી મહિનાને આંતરે ક્લોદી ચોમાસા દરમ્યાન શ્રી વિનોદ-  
મુનિને હાજતે જવાની સંજ્ઞા થઈ અને તે માટે જવા તૈયાર થયા એટલે  
તેમના ગુરુએ કહ્યું કે બહુ ગરમી છે, જરાવાર થોભી જવ એટલે શ્રી વિનોદ-  
મુનિએ રજેહરણ વગેરેની પ્રતિલેખના કરી તે દરમ્યાન ન રોકી શકાય એવી  
હાજત લાગી તેથી ફરી આજ્ઞા માગતાં જણાવ્યું કે મને હાજત બહુ લાગી  
છે તેથી જઈ છું, જલદી પાછો ફરીશ કાળની ગહન ગતિને હું ખૂબ રચના રચવી  
હતી આજે જ હાજતે એકલા જવાનો બનાવ હતો, હંમેશાં તો બધા સાધુઓ  
સાથે મળીને દિશાએ જતા.

હાજતથી મોકળા થઈ પાછા ફરતા હતા, ત્યાં રેલ્વે લાઇન ઉપર બે ગાયો  
આવી રહી હતી ખીજી બાજુથી ટ્રેઈન પણ આવી રહી હતી તેની ંહસલ  
વાગતા છતા પણ ગાયો ખસતી ન હતી. શ્રી વિનોદમુનિનું હૃદય થરથરી  
ઉઠ્યું અને મહા અનુકંપાએ મુનિના હૃદયમાં સ્થાન લીધું હાથમાં રજેહરણ  
લઈ જાનના જોખમની પરવા કર્યા વગર ગાયોને બચાવવા ગયા ગાયોને  
તો બચાવી જ લીધી પરંતુ આ ક્રિયામાં છકાય જવની દયાના સાધનભૂત  
રજેહરણ કે જે વિનોદમુનિને આત્માથી વધારે પ્યારો હતો, તે રેલ્વે લાઇન  
ઉપર પડી ગયો અને શ્રી વિનોદમુનિએ તે પાછો સંપાદાન કરવામા જડવાદને  
સિદ્ધ કરતા રાક્ષસી એન્જનને ઝપાટે આવ્યા અને પોતાનું બલિદાન આપ્યું.  
અરિહત ..અરિહત એવા શબ્દો મુખમાંથી નીકળ્યા અને શરીર તૂટી પડ્યું.  
રક્ત પ્રવાહ છૂટી પડ્યો અને થોડા જ વખતમા પ્રાણાત થઈ ગયો. બધા લોકો  
કહેવા લાગ્યા કે ગૌરક્ષામાં મુનિશ્રીએ પ્રાણ આપ્યાં અંતિમ સમયે મુનિશ્રીના  
ચહેરા પર લબ્ય શાન્તિ જ દેખાતી હતી

હંમેશાં તેઓ જે તરફ હાજતે જતા હતા તે તરફ ક્લોદીથી પોકરણ  
તરફ જવાની રેલ્વે લાઇન હતી આ લાઇન ઉપર રેલ્વે સત્તાવાળાઓએ ફાટક  
મૂકેલ નથી અને ત્યા રસ્તો પણ છે એટલે પશુઓની અવરજવર હોય જ છે  
અને વખતો વખત ત્યા ઢોરો રેલ્વેની હડફેટે ચડી જવાના પ્રસંગ બને છે

ક્લોદી સઘે આ દુર્ઘટનાના ખબર રાજકોટ, ટેલીફોનથી આપ્યા જે  
વખતે ટેલીફોન આવ્યો તે વખતે વિનોદમુનિના પિતાશ્રી બહાર ગયા હતા  
અને માતૃશ્રી મણિબેન સામાયિક-પ્રતિક્રમણમાં બેઠા હતા, માત્ર એક  
નોકર જ ઘરમા હતો કે જેણે ટેલીફોન ઉઠાવ્યો પણ તે કાંઈ ટેલીફોનમાં  
હકીકત સમજી શક્યો નહી અને સાચા સમાચાર મોડા મળ્યા. સ્પેશ્યલ  
પ્લેનથી ક્લોદી પહોંચે તે પહેલા અગ્નિસ્કંકર થઈ ગયો સૂચનાનો ટેલીફોન

સુખવદ છે ? જામ મારી સાથે પણ વાર્તાલાપ થયે હતો અનેના આ પ્રમાણે  
 એકમત થતાં પિતાશ્રીએ ખીચન તાર કરવા સૂચના કરી. તા ૨૬-૫-૫૭ના  
 રાજ પૂર્ણિરાજી માણ ખીચન ( રાજસ્થાન ) ઉપર તાર કર્યો

તા ૨૮-૫-૫૭ના રાજ જવાળ જાઓ કે શ્રી વિનોદલાલજી ખીચનમાં  
 સ્વયં મેવ દીક્ષા ગ્રહણ કરી છે એટલે તેમના પિતાશ્રીએ રાવળહાદુરશ્રી  
 એમ પી. સાહેબ, શ્રી કેશવલાલલાલ પારેખ અને પદ્મિતલ પૂર્ણિયદ્રલ દેવ એમ  
 ત્રણેયને શ્રી વિનોદકુમારને પાછા તેડી લાવવા માટે ખીચન મોકલ્યા તા ૨૮-૫-  
 ૫૭ના રાજ રવાના થઈ તા ૩૦ ૫-૫૭ના રાજ સવારે ફ્લોઈ સ્ટેશને પહોંચ્યા  
 બેજાડીમાં તેઓ ખીચન તથા કે જ્યા સ્થિતર મુનિશ્રી શીરોમલલ મહારાજ  
 પૂર્ણ પદ્મિતરન શાસ્ત્ર વિશારદ શ્રી સમય મલલ મહારાજ આદિ ઠાણા ૮ તથા  
 પૂર્ણ તપસ્વી મહારાજ શ્રી લાલાચંદલ મહારાજ આદિ ઠાણા ૪ ગિરાજતા  
 હતા કુલે સાધુ-સાધ્વીની સખ્યા અઠ્ઠાવીસથી ત્રીસની હતી

પૂછપછના જવાબમાં શ્રી વિનોદમુનિએ કેશવલાલલાલ પારેખને  
 કહ્યું કે મેં તે દીક્ષા જગીકાર કરી લીધી છે તેમાં કાંઈ ફેરફાર થાય તેમ નથી  
 તમે જમારા વીરાણી કુટુંબના હિતૈષી છે અને એ સાચા હિતૈષી હો તો મારા  
 પૂ જા અને બાપુજીને સમજાવીને મારી હવે પછીની માટી દીક્ષાની આરા  
 અઠવાડિયાની અદર અપાવી લો એટલું જ નહીં પણ ' સવિ ભવ ઠરૂ સાસન  
 રશી ' ની ભાવનામાં અને આજ દિવસ મુખીના મારી ઉપરના ઉપકારના બદ-  
 લામાં જાતમને અનુલક્ષીને મારી ભાવના એ હોય જ અને છે કે, મારી દીક્ષા  
 તેઓની દીક્ષાનું નિમિત્ત બને અને મારા માતા-પિતા સદ્ગતિને સાધે. અર્થાત્  
 મારી સાથે દીક્ષા લીજો.

આવા દેહ જવાળના પરિણામે તે જ સમયે શ્રી વિનોદકુમારને પાછા  
 લઈ જવાની ભાવનાને નિષ્ફળતા સાપડી અને તા ૩૧-૫-૫૭ ની રાત્રીના  
 રવાના થઈ તા. ૨-૬-૫૭ના સવારે મહા પરીવહરૂપ ક્ષેત્રનો અનુભવ કરી,  
 શ્રી વિનોદકુમારના પિતાશ્રીને તમામ વાતથી વાકેફ કર્યા

મોઠા વખતમાં ફ્લોઈના શ્રી સમય પૂ શ્રી લાલાચંદલ મહારાજને ફ્લો  
 દીમાં જોમાણુ કરવાની વિનવતી કરી તેનો અસ્વીકાર થવાથી સહ જમગીન  
 જ-એ એટલે નિલુથ ફેરવ્યો અને અપાઠ શુદ્ધ ૧૩ ના રોજ ખીચનથી વિદાર  
 કરી ફ્લોઈ જાવ્યા.

દીક્ષા પછી અઢી મહિનાને આતરે ક્લોહી ચોમાસા દરમ્યાન શ્રી વિનોદ-  
મુનિને હાજતે જવાની સંજ્ઞા થઈ અને તે માટે જવા તૈયાર થયા એટલે  
તેમના ગુરુએ કહ્યું કે બહુ ગરમી છે, જરાવાર થોભી જવ એટલે શ્રી વિનોદ-  
મુનિએ રનેહરણ વગેરેની પતિલેખના કરી તે દરમ્યાન ન રોકી શકાય એવી  
હાજત લાગી તેથી ફરી આજ્ઞા માગતાં જણાવ્યું કે મને હાજત બહુ લાગી  
છે તેથી જાઉં છું, જલદી પાછો ફરીશ કાળની ગહન ગતિને દુઃખદ રચના રચવી  
હતી. આજે જ હાજતે એકલા જવાનો બનાવ હતો, હંમેશાં તો બધા સાધુઓ  
સાથે મળીને દિશાએ જતા.

હાજતથી મોકળા થઈ પાછા ફરતા હતા, ત્યાં રેલ્વે લાઈન ઉપર બે ગાયો  
આવી રહી હતી ખીજી બાજુથી ટ્રેઈન પણ આવી રહી હતી તેની ંહસલ  
વાગતાં છતા પણ ગાયો ખસતી ન હતી. શ્રી વિનોદમુનિનું હૃદય થરથરી  
ઉઠ્યું અને મહા અનુકંપાએ મુનિના હૃદયમાં સ્થાન લીધું હાથમાં રનેહરણ  
લઈ બનના ભોખમની પરવા કર્યા વગર ગાયોને બચાવવા ગયા ગાયોને  
તો બચાવી જ લીધી પરંતુ આ ક્રિયામાં છકાય જીવની દયાના સાધનભૂત  
રનેહરણ કે જે વિનોદમુનિને આત્માથી વધારે પ્યારો હતો, તે રેલ્વે લાઈન  
ઉપર પડી ગયો અને શ્રી વિનોદમુનિએ તે પાછો સંપાદાન કરવામા જડવાદને  
સિદ્ધ કરતા રાક્ષસી એન્જિનને ઝપાટે આંબ્યા અને પોતાનું બલિદાન આપ્યું  
અરિહત ...અરિહત . એવા શબ્દો મુખમાથી નીકળ્યા અને શરીર તૂટી પડ્યું  
રક્ત પ્રવાહ છૂટી પડ્યો અને થોડા જ વખતમા પ્રાણુત થઈ ગયો. બધા લોકો  
કહેવા લાગ્યા કે ગૌરક્ષામા મુનિશ્રીએ પ્રાણુ આપ્યાં અંતિમ સમયે મુનિશ્રીના  
ચહેરા પર ભવ્ય શાન્તિ જ દેખાતી હતી

હંમેશાં તેઓ જે તરફ હાજતે જતા હતા તે તરફ ક્લોહીથી પોકરણ  
તરફ જવાની રેલ્વે લાઈન હતી આ લાઈન ઉપર રેલ્વે સત્તાવાળાઓએ ફાટક  
મૂકેલ નથી અને ત્યા રસ્તો પણ છે એટલે પશુઓની અવરજવર હોય જ છે  
અને વખતો વખત ત્યા ઠોરો રેલ્વેની હડકેટે ચડી જવાના પ્રસંગ બને છે

ક્લોહી સથે આ દુર્ઘટનાના ખબર રાજકોટ, ટેલીફોનથી આપ્યા. જે  
વખતે ટેલીફોન આંબ્યો તે વખતે વિનોદમુનિના પિતાશ્રી બહાર ગયા હતા  
અને માતુશ્રી મણિબેન સામાયિક-પ્રતિક્રમણમા બેઠા હતા, માત્ર એક  
નોકર જ ઘરમા હતો કે જેણે ટેલીફોન ઉઠાવ્યો પણ તે કાંઈ ટેલીફોનમાં  
હકીકત સમજી શક્યો નહી અને સાચા સમાચાર મોડા મળ્યા. સ્પેસ્યલ  
પ્લેનથી ક્લોહી પહોચે તે પહેલા અગ્નિસસ્કાર થઈ ગયો સૂચનાનો ટેલીફોન

અધી" કલાક મોઠા પહોંચ્યો એ સહેલો સમજસર પહોંચ્યો હોત તો માતા-પિતાને શ્રી વિનોદમુનિના શબ્દપે પણ સહેલો જોવાનો અને અતિમ દર્શનનો પ્રયત્ન મળત. પરંતુ અતરાય કર્મ તેમ જન્મ નહી

આથી પ્લેઠનનો પોષામ પડતો મૂઠવામાં જાવ્યો અને માતા-પિતા તા. ૧૪-૮-૧૭૧૧ રોજ ટ્રેમન મારફત કલોલી પહોંચ્યાં, શ્રી દુલ્લભભાઈ અને મણિબેને પૂજ્ય તપસ્વીશ્રી લાલચંદ્ર મહારાજ સાહેબના દર્શન કર્યા

આ પ્રસંગે શ્રી લાલચંદ્ર મહારાજ સાહેબે જવસરને પિછાળીને અને પૈશંનું જોહાજોહ ભૈકસ કરીને શ્રી વિનોદમુનિના માતા-પિતાના સાંત્વન અર્થે ઉપદેશ કર્યો જેનો દુઃખમાં સાર આ પ્રમાણે છે

‘હવે તો એ રત્ન ચાલ્યું ગયું । સમાજનો જ્ઞાશાદીપક જ્યોત્સનાઈ જયો । ઝટ ભીંગીને આથમી જયો । હવે એ દીપ ફરીથી આવી શકે તેમ નથી ’

શ્રી વિનોદમુનિના સસારપક્ષના માતૃશ્રી મણિબેનને મુનિશ્રીએ કહ્યું કે:- બેન । ભાવિ પ્રબળ છે આ જાળતમાં મહાપુરુષોએ પણ હાથ ધોઈ નાખ્યા છે અને સૌને મરણને શરણુ ધવું પડે છે તો પછી આપણા જેવા પામર પાણીનું શું જણુ છે ? હવે તો થોક ફર કરીને આપણે એમના અન્યને આદર્શ જોઈને માત્ર ખીરજ ખરવાની રહી.

૫. શ્રી સુમત્યમલ્લ મહારાજ સાહેબનો જ્ઞાપિત્રાચ :-

પ્રાથમિક તેમ જ અધ્યપકાળના પરિચયથી મને શ્રી વિનોદમુનિના વિશે અનુભવ થયો કે તેમની ધર્મપ્રિયતા અને ધર્માભિલાષા ‘અહિંસા પેમાણુરાગરસે’ નો પરિચય કરાવતી હતી. પ્રાપ્ત સાંસારિક પ્રત્યૂર વૈભવ તરફ તેમની રુચિ દષ્ટિભોક્ષર થતી ન હતી. પરંતુ તેઓ વીતરાગવાણીના સસર્ગથી વિષમવિમુખ ધર્મઠાઈમાં સદા તત્પર અને તસ્લીન રેખાતા હતા આસ પરિચયના અભાવે વૈરાગ્ય પણ તેમની ધારાથી તેમની પ્રમીતિશક્તિ નવા જીવનચર્ચાથી કઠિન ઠાઈ કરવામાં પણ ગભરાટના સ્થાને સુખાનુભવની વૃત્તિ લક્ષમાં આવતી હતી

## હવે

શ્રી વિનોદમુનિના જીવનના જે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે તેનો ખુલાસો કરવામાં આવે છે.

પ્ર. ૧. તેમણે આજ્ઞા વગર સ્વયંમેવ દીક્ષા કેમ લીધી ?

ઉત્તર:- પાંચમા આરાનાં ભદ્રા શેઠાણીના પુત્ર એવંતા (અતિમુક્ત) કુમારને તેની માતૃશ્રીએ દીક્ષાની આજ્ઞા આપવાની તદ્દન ના પાડી એટલે તેણે સ્વયંમેવ દીક્ષા લીધી. ત્યારબાદ ભદ્રા શેઠાણીએ પોતાના કુમારને શુરુને સોંપી દીધા તે જ રાત્રે તેણે ખારમી લીજ્જીની પડિમા અંગીકાર કરી અને શિયાળણીના પરિષદથી કાળ કરો નલ્લીનશુદ્ધ વિમાનમાં ગયા તેવી જ રીતે શ્રી વિનોદકુમાર સ્વયં દીક્ષિત થયા.

પ્ર ૨. આવા વૈરાગી જીવને આવો ભયંકર પરિષદ કેમ આવે ?

ઉત્તર :- કેટલાક ચરમ શરીરી જીવને મરણાતિક ઉપસર્ગ આવેલ છે. જુઓ ગજસુકુમાર મુનિ, મેતારેજ મુનિ, કોશલ મુનિ, કારણ કે તેમની સતામાં હમરો ભવના કર્મ હોવા જોઈએ, ત્યારે તેમને એકદમ મોક્ષ જવું હતું, તે મારણાતિક ઉપસર્ગ આવ્યા વગર એટલા બધા કર્મ કેવી રીતે ખપે ? ખા. પ્ર શ્રી વિનોદમુનિને આવો પરિષદ આવ્યો, જે ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે, તે એકાવતારી જીવ હોય

શ્રી વિનોદમુનિનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર જુદા પુસ્તકથી ગુજરાતી ભાષા તથા હિન્દી ભાષામાં છપાયેલ છે તેમાંથી અહીં સાર રૂપે સંક્ષેપ કરેલ છે.



તા. ૩૦-૧૧-૬૪ ના રોજ

## ઠલાસવાર મેમ્બરોની સંખ્યા

૪૦	આવમુરખીશ્રી	૫૦૦૦ થી વધુ	૨૪મ ભરનારા.
૫૨	મુરખીશ્રી	૧૦૦૦ થી વધુ	૨૪મ ભરનારા
૧૫૨	સહાયક મેમ્બરો	૫૦૦ થી વધુ	૨૪મ ભરનારા.
૫૬૪	લાઇફ મેમ્બરો	૨૫૦ થી વધુ	૨૪મ ભરનારા.
૪૭	બીજા નજરના છુના મેમ્બરો	૧૫૦ થી વધુ	૨૪મ ભરનારા
૮૫૪	કુલ મેમ્બરો.		

હાનવીર મહાશયેને વિનવી કરવામાં આવે છે કે જો ૫૦૦૧ થી આવડું મુંજારક નામ આવમુરખીમાં ફાળલ કરાવી સન્નિતિને સહાયક બને તેમ જમીને આશા છે આવમુરખીને દરેક સૂત્રની બખ્બે કોપી લેટ મળે છે તેમ જ તેઓશ્રીનો દોટો તથા જીવન બન્નિ શાસ્ત્રમાં છાપવામાં આવે છે

\*

હાલમાં પ્રસિદ્ધ ઘનાશં શાસ્ત્રોનાં નામ નીચે મુજબ છે

ભજવલી ભાગ ૬, ૭, ૮. ઠાણાંન સૂત્ર ભા. ૧, ૨  
રાજપશ્રી સૂત્ર ભાગ ૧

તા. ૪-૧૨-૬૪  
રા જ કો ટ.

}

નમ્ર સેવક,  
સાકેશ્વર ભાણ્ણક શેઠ  
મત્રી

# આદ્યસુરુખીશ્રીઓ



સ્વ શેઠશ્રી હરિલાલ અનોપચંદ શાહ  
ખંભાત.



સ્વ. શેઠ તારાચંદજી સાહેવ ગેલડા  
મદ્રાસ.



- ૧ વચ્ચે બેઠેલા મોટાભાઈ શ્રીમાન્ મૂલચંદજી  
જવાહીરલાલજી ખરડિયા
- ૨ બાજુમા બેઠેલા ભાઈ મિશ્રીલાલજી ખરડિયા
- ૩ ઉભેલા સૌથી નાનાભાઈ પૂનમચંદ ખરડિયા

આદ્યમુરબીશીઓ



શ્રી પંચજાન્ય પ્રસાદ પારેખ  
રાજકોટ



કોઠારી ધનરાજિવિજી ધનરાજિવિજી  
રાજકોટ.



શામ્ભી ભિમીસાલજી સાલુન્કે ઇલ સા. સુણિયા  
તથા શામ્ભી જિવતરાજી સાલુન્કે ઇલ સા



(૨૨) શામ્ભી બૌરબીસાલજી સલુન્કે તાત  
બારસી



શ્રી ભીમભાનુ  
સાલુન્કે ઇલ સા

॥ श्री-वीतरागाय नमः ॥

जैनाचार्य-जैनधर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालव्रति-

विरचितया प्रमेयचन्द्रिकाख्यया व्याख्यया

समलङ्कृतं व्याख्याप्रज्ञप्त्यपरनामकम्

## श्री-भगवतीसूत्रम्

( षष्ठो भागः )

॥ अष्टमशतके प्रथमोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम् ॥

पुद्गलानां परिणामः, प्रयोगपरिणतपुद्गलाः, प्रथमदण्डके-एकेन्द्रिय-प्रयोगपरिणतपुद्गलाः, यावत् पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः, नैरयिक प्रयोगपरिणताः, तिर्यक्पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, जलचरादिप्रयोगपरिणताः, मनुष्यप्रयोगपरिणताः, देवप्रयोगपरिणताः, यथा भवनवासि-वानव्यन्त-ज्यौति-

आठवें शतकका पहला उद्देशक

इस अष्टम शतकके प्रथम उद्देशकका विषय विवरण संक्षेपसे इस प्रकारसे है प्रथम उद्देशकमें पुद्गलोंका परिणाम कहा गया है सो उसमें पुद्गल तीन प्रकारके कहे गये हैं इनमें एक प्रकारमें प्रयोगपरिणतपुद्गलोंको भी कहा गया है । इस प्रयोगपरिणत-पुद्गलोंकी प्रकार गणनामें प्रथमदण्डकमें एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गलोंको यावत् पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गलोंको, नैरयिक प्रयोग परिणत पुद्गलोंको, तिर्यग् पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंको, जलचरादि प्रयोग परिणत पुद्गलोंको, मनुष्यप्रयोगपरिणत पुद्गलोंको,

आठमा शतकना पहिलो उद्देशक

अठमा शतकना पहिला उद्देशकनु संक्षिप्त विषय विवरण आ प्रमाण छे-  
पहिला उद्देशकमा पुद्गलाना पञ्चिभनु प्रतिपादन कथुं छे, तेमा पुद्गल त्रय प्रकारना  
कथा छे तेमानो अेक प्रकार प्रयोगपरिणत पुद्गलानो कथो छे आ प्रयोगपरिणत  
पुद्गलाना प्रकार अतावता पहिला दण्डकमा अेकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गलानो लधने  
पञ्चेन्द्रिय पर्यन्तना प्रयोगपरिणतपुद्गलानु, नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गलानु,  
पञ्चेन्द्रिय तिर्यग् प्रयोगपरिणत पुद्गलानुं, जलचरादि प्रयोगपरिणतपुद्गलानुं, मनुष्य

पिक- वैमानिक - प्रयोगपरिणताः । द्वितीयदण्डके-सूक्ष्मपृथिवीकायिकादि प्रयोगपरिणताः, द्वीन्द्रियादिप्रयोगपरिणता, रत्नप्रभादिनैरयिकप्रयोगपरिणता, समूर्च्छिमजलचरादिप्रयोगपरिणताः, समूर्च्छिममनुष्यादिप्रयोगपरिणता, असुरकुमारादिप्रयोगपरिणता, सर्वार्थसिद्धदेशप्रयोगपरिणताः । तृतीयदण्डके सूक्ष्मपृथिवीकायिकादिप्रयोगपरिणता, रत्नप्रभादिनैरयिकप्रयोगपरिणताः जलचरादितिर्यक्प्रयोगपरिणताः, मनुष्यप्रयोगपरिणता, असुरकुमारादिदेशप्रयोगपरिणता । चतुर्थदण्डके - पञ्चमदण्डके - षष्ठदण्डके - सप्तमदण्डकाऽष्टम

देषोके 'भवनघामी, घानव्यन्तर' ज्योतिषिक एव धैमानिक इनके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, कहा गया है । द्वितीयदण्डकमें सूक्ष्म पृथिवीकायिकादि प्रयोग परिणत पुद्गलोंको द्वीन्द्रियादिप्रयोग परिणतपुद्गलोंको, रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंके, नैरयिक आदिकोंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, समूर्च्छिम जलचरादिके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, समूर्च्छिम मनुष्यादिके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, असुरकुमार आदिके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, सर्वार्थसिद्धके देशोंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको तृतीय दण्डकमें सूक्ष्म पृथिवीकायिकादिके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंके नैरयिकानि प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको जलचरादितिर्यक्चोंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, मनुष्योंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको, असुरकुमार आदि देशोंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गलोंको कहा गया है । चतुर्थदण्डकमें, पञ्चमदण्डकमें, छठे

प्रयोगपरिणत पुद्गलानु अन्य भवनघामी, घानव्यन्तर ज्योतिषिक तथा वैमानिक देव प्रयोगपरिणत पुद्गलानु अन्य भवनघामी आभ्यु उ वीज इहमा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक आदिना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु द्वीन्द्रिय आदिना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु, रत्नप्रभा आदि पृथ्वीकायिकाना नारक आदिना प्रयोगशी परिणतपुद्गलानु, समूर्च्छिम जलचर आदिना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु समूर्च्छिम मनुष्य आदिना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु असुरकुमार आदिना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु अन्ये सर्वार्थसिद्ध देशेना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु अन्य भवनघामी आभ्यु उ वीज इहमा सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, आदिना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु रत्नप्रभा आदि पृथ्वीकायिकाना नारकाना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु, जलचरसिद्धि तिथयाना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु, मनुष्येना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु अन्ये असुरकुमार आदि देशेना प्रयोगशी परिणत पुद्गलानु अन्य भवनघामी आभ्यु उ विधा, पच्यमा, छ्वा सातमा, जाठमा अन्ये नभमा

दण्डक - नवमदण्डकाः, मिश्रपरिणतपुद्गलाः, मिश्रपरिणतपुद्गलानां नव  
दण्डकाः, विस्त्रसापरिणतपुद्गलाः, एकद्रव्यपरिणामः, मनःप्रयोगादिपरिणताः,  
आरम्भसत्यमनःप्रयोगादिपरिणताः, आरम्भमृषामनःप्रयोगादिपरिणताः, सत्य-  
वचःप्रयोगादिपरिणताः, औदारिकादिकायप्रयोगपरिणताः, औदारिकायप्रयोग-  
परिणताः, औदारिकमिश्रकायप्रयोगपरिणताः, वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणताः,  
वैक्रियमिश्रकायप्रयोगपरिणताः, आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणताः, आहारक-  
मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणताः, कर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणताः, मिश्रपरिणताः,  
सत्यमनोमिश्रपरिणताः, विस्त्रसापरिणताः, वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-परिणताः,  
संस्थानपरिणताः, द्विद्रव्यपरिणामः मनःप्रयोगादिपरिणते, मिश्रपरिणते  
द्वे द्रव्ये, विस्त्रसापरिणते द्वे द्रव्ये, त्रिद्रव्यपरिणामः मनःप्रयोगादि-

दण्डकमें, सप्तमदण्डकमें, अष्टमदण्डकमें, और नौवें दण्डकमें मिश्र  
परिणत पुद्गलोंका कथन किया गया है। इनके नौ दण्डक कहे गये हैं  
विस्त्रसा परिणत पुद्गल, एकद्रव्य परिणाम, मनःप्रयोगादि परिणत,  
आरंभसत्यमनः प्रयोगादि परिणत, आरंभमृषामनः प्रयोगादि परिणत,  
सत्यवचः प्रयोगादि परिणत, औदारिकादिकायप्रयोगपरिणत, औदा-  
रिकायप्रयोग परिणत, औदारिकमिश्रकायप्रयोग परिणत वैक्रियशरीर-  
कायप्रयोग परिणत वैक्रियमिश्रकायप्रयोगपरिणत, आहारकशरीरकाय-  
प्रयोगपरिणत, आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत, कर्मणशरीरकाय-  
प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत, सत्यमनोमिश्रपरिणत, विस्त्रसा परि-  
णत, वर्ण-गंध-रस-स्पर्श परिणत, संस्थानपरिणत, द्विद्रव्यपरिणत,  
मनःप्रयोगादि परिणत, मिश्रपरिणत दो द्रव्य, विस्त्रसा परिणत दोद्रव्य

१३३मा मिश्र परिणत पुद्गलानु कथन कथुं छे आ रीते तेमना नव दण्डक कखा छे  
विस्त्रसा परिणत पुद्गल, एक द्रव्य परिणाम, मन प्रयोगादि परिणत, आरंभ सत्यमनः  
प्रयोगादि परिणत, आरंभमृषामनः प्रयोगादि परिणत, सत्यवचः प्रयोगादि परिणत,  
औदारिकादि कायप्रयोग परिणत, औदारिक मिश्रकाय प्रयोग परिणत, वैक्रिय-  
शरीरकाय प्रयोग परिणत, वैक्रिय मिश्रकाय प्रयोग परिणत, आहारक शरीरकाय  
प्रयोग परिणत, आहारक मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत, कर्मण शरीरकाय  
प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत, सत्य मनोमिश्र परिणत, विस्त्रसा परिणत, वर्ण-  
गंध-  
रस-स्पर्श परिणत, संस्थान परिणत, द्विद्रव्य परिणत, मनःप्रयोगादि परिणत, मिश्र  
परिणत दो द्रव्य, विस्त्रसा परिणत दो द्रव्य, त्रय द्रव्य परिणाम, मनःप्रयोगादि

परिणतानि त्रीणि द्रव्याणि, चतुर्द्रव्याणां परिणामः, मनःप्रयोगादिपरिणतानि चतुर्द्रव्याणि, पञ्च-यद्-यावत्-अनन्तद्रव्याणामल्पबहुत्वम् ।

अथ अष्टमशतकदशोद्देशकार्यसंग्रहाद्या-—

मूळम्—पोगल १, आसीविस २, रुक्ख ३, किरिय ४, आजीव ५, फासुग ६, मदत्ते ७। पिडिणीय ८, धंध ९, आराहणा १०, य दस अट्टममि सण ॥१॥

छाया-पुद्गलः १ आसीविसः २ वृक्षः ३ क्रिया ४ आजीव ५ प्रासुकम् ६ अदत्तम् ७, प्रत्यनीकः ८ धन्व ९ आराधना १० च दस अष्टमे षष्ठे ॥१॥

टीका-अष्टमशतकस्य दशोद्देशकार्यसंग्रहाद्यामाह-‘पोगल’ इत्यादि ।

‘पोगल’ इति पुद्गलः प्रथमोद्देशके पुद्गलपरिणामवक्तव्यता १,

तीन द्रव्य परिणाम, मनः प्रयोगादि परिणत तीन द्रव्य, चार द्रव्योकि परिणाम मनः प्रयोगादि परिणत चार द्रव्य, पाच, छह, यावत् अनन्तद्रव्योकि परिणाम और अल्प बहुत्व इन सयका कथन ।

दशोद्देशकार्यसंग्रहाद्या-—

पोगल १ आसीविस २ रुक्ख ३ किरिय ४ आजीव ५ फासुग ६ मदत्ते ७ । पिडिणीय ८ धंध ९ आराहणा य १० दस अट्टममि सण ॥ १ ॥

अष्टम शतकमें य दश १० उद्देशक हैं पुद्गल १, आसीविस २, वृक्ष ३ क्रिया ४, आजीव ५, प्रासुक ६, अदत्त ७ प्रत्यनीक ८ धन्व ९ और आराधना १० ।

परिणत त्रयु द्रव्य चार द्रव्योनु परिव्याम, मनःप्रयोगादि परिणत चार द्रव्य, पाच, छ सातवी वधने अनन्त द्रव्योनु परिव्याम अने अल्प बहुत्वनु कथन, आ अधानु आ उद्देशकमा कथन करवामा आम्बु छे आ सातकना से उद्देशकना निधवने प्रकट करती स अर्थआद्या-—

संग्रहमाद्या- पोगल १ आसीविस २ धन्वादि

आधमा सातकमा नीचे प्रभावे इत उद्देशक छे- (१) पुद्गल, (२) आसीविस (३) वृक्ष, (४) क्रिया (५) अल्प, (६) प्रासुक, (७) आद्य, (८) प्रत्यनीक (९) धंध अने (१०) आराधना ।

‘आसीविस’ इति-आशीविषः=सर्पः, द्वितीयोद्देशके आशीविषादिविषय-  
वक्तव्यता २, ‘रुक्ख’ इति वृक्षः-तृतीयोद्देशके संख्यातजीवादिवृक्षसम्बन्धि-  
वक्तव्यता ३, ‘किरिय’ इति क्रिया, चतुर्थोद्देशके कायिक्यादिक्रियासम्बन्धि-  
वक्तव्यता ४, ‘आजीव’ इति आजीवः-पञ्चमोद्देशके आजीविकसम्बन्धि-  
वक्तव्यता ५, ‘फासुग’ इति प्रासुकः-षष्ठोद्देशके प्रासुकदानादिविषयक-  
वक्तव्यता ६, ‘अदत्त’ इति-अदत्तम्-सप्तमोद्देशके अदत्तादानसम्बन्धि-  
वक्तव्यता ७, ‘पडिणीय’ इति प्रत्यनीकः-अष्टमोद्देशके गुर्वादिद्विद्वेषिरूप-  
प्रत्यनीकसम्बन्धिवक्तव्यता ८, ‘वंध’ इति बन्धः-नवमोद्देशके प्रयोगबन्धादि-

टीकार्थ-इस गाथा द्वारा सूत्रकारने इस आठवें शतकके दश १०  
उद्देशकों द्वारा जिस २ विषयका कथन किया गया है वहर अर्थ  
संगृहीत करके प्रकट किया है । ‘पोग्गल’ प्रथम उद्देशकमें पुद्गलके  
परिणामकी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘आसीविस’ द्वितीय उद्दे-  
शकमें आशीविष सर्प आदिके विषयकी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई  
है । ‘रुक्ख’ तृतीय उद्देशकमें संख्यात जीवादि वृक्ष संबंधी वक्तव्यता  
प्रतिपादित हुई है । ‘किरिय’ क्रिया चतुर्थ उद्देशकमें कायिकी आदि  
क्रिया संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘आजीव पंचम उद्देशकमें  
आजीविक संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘फासुग’ छठे उद्देशकमें  
प्रासुक दानादि विषयकवक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ‘अदत्त’ सप्तम उद्दे-  
शकमें अदत्तादान संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ‘पडिणीय’ आठवें  
उद्देशकमें गुर्वादिमें विद्वेषीरूप प्रत्यनीक वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ।

टीकार्थ-आ गाथा द्वारा सूत्रकारे आठमा शतकना इस उद्देशकमा १०  
विषयानु प्रतिपादन करवामा आब्यु छे, ते प्रकट कर्यु छे. पडेवा ‘पोग्गल’ नामना  
उद्देशकमा पुद्गलाना परिणामनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे थील ‘आसीविस’  
उद्देशकमा आशीविष- सर्प आदिना विषयनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे, तील  
‘रुक्ख’ नामना उद्देशकमा संख्यात जीवादि वृक्षनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करवामा  
आब्यु छे यथा ‘किरिय’ नामना उद्देशकमा कायिकी आदि क्रिया संभधी वक्तव्यतानु  
प्रतिपादन कर्यु छे पाचमा ‘आजीव’ नामना उद्देशकमा आजीविक संभधी  
वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे छटा ‘फासुग’ नामना उद्देशकमा प्रासुक दानादिनु  
प्रतिपादन करायु छे. सातमा ‘अदत्त’ नामना उद्देशकमा अदत्तादान संभधी  
वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे आठमा ‘पडिणीय’ नामना उद्देशकमा गुरु आदिमा  
विद्वेषीरूप प्रत्यनीक वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे. नवमा ‘बंध’ नामना उद्देशकमा



परिणतानि भीषि द्रव्याणि, चतुर्द्रव्याणां परिणामः, मनःप्रयोगादिपरिणतानि चतुर्द्रव्याणि, पञ्च-पट-यावत्-अनन्तद्रव्याणामल्पबहुत्वम् ।

अथ अष्टमशतकदशोद्देशकार्यसंग्रहाद्या—

सूक्ष्म-पोग्गल १, आसीविस २, स्वस्व ३, किरिय ४, आ जीव ५, फासुग ६, मदत्ते ७। पिडिणीय ८, बंध ९, आराहणा १०, य दस अट्टममि सए ॥१॥

छाया-पुद्गलः १ आसीविसः २ वृक्षः ३ क्रिया ४ आजीव ५ मासुकम् ६ अदत्तम् ७, प्रत्यनीकः ८ बन्धः ९ आराधना १० च दस अष्टमे श्रुते ॥१॥

टीका-अष्टमशतकस्य दशोद्देशकार्यसंग्रहाद्यामाह-‘पोग्गल’ इत्यादि ।

‘पोग्गल’ इति पुद्गलः प्रयमोद्देशके पुद्गलपरिणामवक्तव्यता १,

तीन द्रव्य परिणाम, मनः प्रयोगादि परिणत तीन द्रव्य, चार द्रव्येकि परिणाम, मनः प्रयोगादि परिणत चार द्रव्य, पांच, छह, यावत् अनन्तद्रव्येकि परिणाम और अल्प बहुत्व इन सयका कथन ।

दशोद्देशकार्यसंग्रहाद्या—

पोग्गल १ आसीविस २ स्वस्व ३ किरिय ४ आजीव ५ फासुग ६ मदत्ते ७ । पिडिणीय ८ बंध ९ आराहणा १० दस अट्टममि सए ॥ १ ॥

अष्टम शतकमें ये दश १० उद्देशक हैं पुद्गल १, आसीविस २, वृक्ष ३ क्रिया ४, आजीव ५, मासुक ६, अदत्त ७ प्रत्यनीक ८ बंध ९ और आराधना १० ।

परिणत त्रय द्रव्य चार द्रव्येनु परिव्याम, मनःप्रयोगादि परिणत चार द्रव्य, पांच, छ सातशी लक्ष्मि अनन्त सर्वान्ना द्रव्येनु परिव्याम अने अल्प बहुत्वनु कथन, आ अधानु आ उद्देशकमा कथन करवामां आशु छ आ कतक न्ते उद्देशकना विषयने प्रकट करती स अक्षरमा—

संग्रहणमा- पोग्गल १ आसीविस २ धन्वदि

आठमां शतकमां नीचे प्रमाणे दस उद्देशक छ— (१) पुद्गल, (२) आसीविस, (३) वृक्ष, (४) क्रिया, (५) अदत्त, (६) मासुक, (७) अत्त, (८) प्रत्यनीक (९) बंध अने (१०) आराधना

‘आसीविस’ इति-आशीविषः=सर्पः, द्वितीयोद्देशके आशीविषादिविषय-  
वक्तव्यता २, ‘रुक्ख’ इति वृक्षः-तृतीयोद्देशके संख्यातजीवादि वृक्षसम्बन्धि-  
वक्तव्यता ३, ‘किरिय’ इति क्रिया, चतुर्थोद्देशके कायिक्यादिक्रियासम्बन्धि-  
वक्तव्यता ४, ‘आजीव’ इति आजीवः-पञ्चमोद्देशके आजीविकसम्बन्धि-  
वक्तव्यता ५, ‘फासुग’ इति प्रासुकः-षष्ठोद्देशके प्रासुकदानादिविषयक-  
वक्तव्यता ६, ‘अदत्त’ इति-अदत्तम्-सप्तमोद्देशके अदत्तादानसम्बन्धि-  
वक्तव्यता ७, ‘पडिणीय’ इति प्रत्यनीकः-अष्टमोद्देशके गुर्वादिद्विद्वेषिरूप-  
प्रत्यनीकसम्बन्धिवक्तव्यता ८, ‘बंध’ इति बन्धः-नवमोद्देशके प्रयोगबन्धादि-

टीकार्थ-इस गाथा द्वारा सूत्रकारने इस आठवें शतकके दश १० उद्देशकों द्वारा जिस २ विषयका कथन किया गया है वह २ अर्थ संगृहीत करके प्रकट किया है । ‘पोग्गल’ प्रथम उद्देशकमें पुद्गलके परिणामकी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘आसीविस’ द्वितीय उद्देशकमें आशीविष सर्प आदिके विषयकी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘रुक्ख’ तृतीय उद्देशकमें संख्यात जीवादि वृक्ष संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘किरिय’ क्रिया चतुर्थ उद्देशकमें कायिकी आदि क्रिया संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘आजीव पंचम उद्देशकमें आजीविक संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है । ‘फासुग’ छठे उद्देशकमें प्रासुक दानादि विषयकवक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ‘अदत्त’ सप्तम उद्देशकमें अदत्तादान संबंधी वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ‘पडिणीय’ आठवें उद्देशकमें गुर्वादिमें विद्वेषीरूप प्रत्यनीक वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ।

टीकार्थ-आ गाथा द्वारा सूत्रकारने आठवां शतकना इस उद्देशकमा १० विषयानु प्रतिपादन करवाभा आब्यु छे, ते प्रकट कर्युं छे. पडेवा ‘पोग्गल’ नामना उद्देशकमा पुद्गलाना परिणामनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे थीना ‘आसीविस’ उद्देशकमा आशीविष-सर्प आदिना विषयनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायुं छे, तीना ‘रुक्ख’ नामना उद्देशकमा संख्यात जीवादि वृक्षनी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करवाभा आब्युं छे. यथा ‘किरिय’ नामना उद्देशकमा कायिकी आदि क्रिया संबंधी वक्तव्यतानु प्रतिपादन कर्युं छे पाचमा ‘आजीव’ नामना उद्देशकमा आजीविक संबंधी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे छटा ‘फासुग’ नामना उद्देशकमा प्रासुक दानादिनु प्रतिपादन करायु छे. सातमा ‘अदत्त’ नामना उद्देशकमा अदत्तादान संबंधी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायु छे. आठमा ‘पडिणीय’ नामना उद्देशकमा गुरु आदिमा विद्वेषीरूप प्रत्यनीक वक्तव्यतानु प्रतिपादन करायुं छे. नवमां ‘बंध’ नामना उद्देशकमा

विषयवक्तव्यता ०, 'आराहणा' इति-आराधना-दशमोद्देशके देशाऽऽराधनादि  
विषयवक्तव्यता वर्तते १० इति ।

पुद्गलमेववक्तव्यता ।

पूर्वस्मिन् सप्तमे शतके दशमोद्देशके पुद्गलादयो भावाः प्ररूपिताः,  
अथात्रापि अष्टमशतकस्य प्रथमोद्देशके प्रकरान्तरेण तानेव प्ररूपयितुमाह-  
'रायगिहे' इत्यादि ।

मूलम्—'रायगिहे जाव एव वयासी — कइविहा ण भते ।  
पोग्गला पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा पोग्गला पण्णत्ता, त  
जहा—पओगपरिणया, मीससापरिणया, वीससापरिणया ॥सू०१॥

छाया—राजगृहे यावत् एवम् अथादीत्-इतिविधाः खलु भवन्त !  
पुद्गलाः ? प्रज्ञाः गौतम ! त्रिविधा पुद्गलाः प्रज्ञाः, तथा-प्रयोगपरिणता,  
मिश्रपरिणताः द्विसप्तपरिणताः ॥सू० १॥

'बव' नीचे उद्देशकमें प्रयोगबंध आदि विषयकी वक्तव्यता प्रतिपादित  
हुई है । 'आराहणा' दशमे उद्देशकमें आराधना आदि विषयकी  
वक्तव्यता प्रतिपादित हुई है ।

पुद्गलमेववक्तव्यता—

'रायगिहे जाव एव वयासी' इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृह नगरमें यावत्  
गौतमने प्रसुप्ते ऐसा पूछा (कइविहाण भते पोग्गला पण्णत्ता) हे  
भवन्त ! पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! तिविहा  
पोग्गला पण्णत्ता) हे गौतम ! पुद्गल तीन प्रकारके कहे गये हैं ।

प्रयोगबंध आदि विषयकी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करवामां आणु ० अने इसमें  
'आराहणा' नामना उद्देशकमें आराधना आदि विषयकी वक्तव्यतानु प्रतिपादन करवामां  
आणु ०

पुद्गलमेववक्तव्यता—

'रायगिहे जाव एव वयासी' इत्यादि—

सूत्रार्थ—(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृह नगरमें भवतीर प्रसु  
पण्णत्ता (यावत्) गौतम स्वामीने भवतीर प्रसुप्ते आ प्रभाये मव पूछ्ये—  
(कइविहाण भते पोग्गला पण्णत्ता ?) हे भवन्त ! पुद्गल केटका प्रकारना कवा ० ?  
(गोयमा ! तिविहा पोग्गला पण्णत्ता) हे गौतम ! पुद्गल त्रय प्रकारना कवा ०

टीका-‘रायगिहे जाव एवं वयासी’-राजगृहे यावत्-नगरे महावीरः सम-  
वसृतः, समवसृतं भगवन्तं वन्दितुं नमस्कर्तुं धर्मोपदेशं श्रोतुं च पर्वत् निर्गच्छति,  
धर्मोपदेशं श्रुत्वा प्रतिगता पर्वत्, ततो गौतमः शुश्रूषमाणः नमस्यन् विनयेन  
प्राञ्जलिपुटः पर्युपासीनः एवं=वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादीत्-‘कइविहा ण भंते !  
पोग्गला पणत्ता ?’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! कतिविधाः=क्रियत्प्रकाराः

(तजहा) वे प्रकार ये हैं (पओगपरिणया, मीससा परिणया, वीससा  
परिणया) प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विस्रसा परिणत ।

टीकार्थ-पहिले सप्तम शतकके दशवे उद्देशकमें पुद्गलादिक भाव  
प्ररूपित किये जा चुके हैं सो उन्हीं पुद्गलादिक भावोंको यहाँ पर  
भी अष्टम शतकके प्रथम उद्देशकमें प्रकारान्तरसे सूत्रकार प्ररूपित  
कर रहे हैं ‘रायगिहे जाव एवं वयासी’ इस सूत्रांशका संबंध इस  
प्रकारसे लगाना चाहिये राजगृह नगरमें महावीर प्रभु पधारे  
महावीर प्रभुको आये हुए सुनकर वन्दना, नमस्कार करनेके  
लिये तथा धर्मोपदेश सुननेके लिये नगरकी परिषद् उनके पास  
आई और धर्मोपदेश सुनकर वहाँसे अपने२ स्थान पर  
वापिस चली गई बादमें गौतमने प्रभुकी सेवा शुश्रूषाकी और फिर  
नमस्कार कर वे विनयसे दोनों हाथ जोडकर उनके समक्ष उचित  
स्थान पर बैठ गये । उनकी पर्युपासना करते हुए फिर उन्होंने  
प्रभुसे इस प्रकार पूछा ‘कइ विहाणं भंते ! पोग्गला पणत्ता’ हे

(तजहा) ते त्रय प्रकारे आ प्रमाणे छे- (पओगपरिणया, मीससा परिणया,  
वीससा परिणया) (१) प्रयोग परिणत, (२) मिश्र परिणत, (३) विस्रसा परिणत.

टीकार्थ-सातमा शतकना इसभा उद्देशकभा पुद्गलादिक भावनी प्ररूपणा करवामा  
आवी छे ओ व पुद्गलादिक भावनु सूत्रकार आठमा शतकना आ पडेला उद्देशकभा  
बिन्न प्रकारे प्रतिपादन करे छे- ‘रायगिहे जाव एव वयासी’ आ सूत्राश द्वारा  
नीचेना सूत्रपाठ प्ररूपण करवामा आये छे- राजगृह नगरभा महावीर प्रभु पधार्या.  
तेमने वंदणा-नमस्कार करवाने तथा तेमने धर्मोपदेश साबणवाने बोडे तेमनी पासे  
आये. धर्मोपदेश साबणीने परिवद विभरार्थ गथ. त्यार बाद गौतम स्वामीये प्रभुनी  
सेवा शुश्रूषा करी त्यार बाद वदणा नमस्कार करीने विनयपूर्वक अपने हाथ नेडीने  
तेये तेमनी समक्ष उचित स्थाने येसी गया, अपने तेमणे महावीर प्रभुने आ प्रमाणे  
अश्र पूछये-‘ कइविहाणं भंते ! पोग्गला पणत्ता ?’ हे भदन्त ! पुद्गल डेटला

सुख पुद्गला महत्ताः ? भगवानाह—‘गोपमा ! त्रिविधा पोग्गला पण्णाचा’ हे गौतम ! त्रिविधा पुद्गलाः प्रज्ञप्ता, तामेव त्रिमकारान् आह—‘तजहा-पयोगपरिणया, मीससा परिणया, बीससापरिणया,’ तद्यथा प्रयोगपरिणयाः प्रयोगेण=जीवव्यापारेण शरीरादितया परिणता, मिश्रपरिणता मिश्रेण प्रयोग विस्त्रसारूपेण परिणताः प्रयोगपरिणाममत्यजन्त एव विस्त्रसया स्वभावेन परिणामान्तरं प्राप्तवन्त जीवरहितकलेष्वरादिरूपा पुद्गलाः मिश्रपरिणता सच्यन्ते। अथवा विस्त्रसया परिणाममापादिता ये औदारिकादिषण्णाः जीवप्रयो

भवन्त ! पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रश्न उनसे कहते हैं कि ‘गोपमा’ हे गौतम ! ‘त्रिविधा पोग्गला पण्णाचा’ पुद्गल तीन प्रकारके कहे गये हैं ‘तजहा’ जो इस प्रकारसे हैं ‘पयोगपरिणया, मीससापरिणया, बीससापरिणया’ प्रयोगपरिणतः, मिश्रपरिणतः और विस्त्रसापरिणतः, इनमें जो पुद्गल जीवके व्यापारसे शरीरादिरूपमें परिणत हो जाते हैं वे प्रयोगपरिणत पुद्गल हैं। प्रयोग और स्वभाव इन दोनोंके सबधसे परिणामको प्राप्त हुए पुद्गल मिश्रपरिणत पुद्गल हैं। मिश्रपरिणत पुद्गल प्रयोग परिणामका त्याग किये बिना ही स्वभाव से परिणामान्तरको प्राप्त होते रहते हैं जैसे मृतकलेष्वरादि पुद्गल अथवा स्वभावसे ही औदारिक आदि रूपवाली वर्गणाएँ जय जीवके प्रयोगरूप व्यापारसे औदारिक आदि शरीररूपमें परिणत हो जाती हैं तब वे मिश्र परिणत कहलाती हैं। यद्यपि औदारिक आदि शरीररूपसे परिणत हुई औदारिकादि वर्गणाएँ

प्राप्तना कर्ता छे।

महावीर प्रश्नो उत्तर ‘गोपमा !’ छे जीवम। ‘त्रिविधा पोग्गला पण्णाचा’ पुद्गलो तस्य प्रकारस्य कथा छे ‘तजहा’ ते तस्य प्रकारे नीचे प्रमाणे छे— ‘पयोग परिणया, मीससा परिणया, बीससा परिणया’ (१) प्रयोग परिणत, (२) मिश्र परिणत अने (३) विस्त्रसा परिणत।

हे पुद्गलो त्वना व्यापारधी शरीरादि रूपे परिणतन पाये छे ते पुद्गलेने प्रयोगपरिणत पुद्गलो कहे छे प्रयोग अने स्वभाव, को जन्नेना अ अवधी परिणतन यमेला पुद्गलेने मिश्र परिणत पुद्गलो कहेछे मिश्र परिणत पुद्गलो प्रयोगपरिणतने त्याग कर्ता बिना स्व स्वभावधी परिणतान्तर (अन्य परिणाम) प्राप्त करता रहे छे जेभके मृत अवस्थादि पुद्गल स्वभाव- स्वभावधी स्व औदारिक आदि रूपवाली वन जन्नेना त्यागै त्वना प्रयोगरूप व्यापारधी औदारिक आदि शरीररूपे परिणतनी अथ छे त्यागै तेभने मिश्र परिणत कहेवासछे जे हे औदारिक आदि शरीररूपे परिणतमेवी औदारिकादि वन जन्नेने प्रयोगपरिणत तस्य कही शक्य छे अर्थां तस्य प्रयोगपरिणत पुद्गलोभा

मेण एकेन्द्रियादिशरीरप्रभृतिपरिणामान्तरं प्रापितास्ते मिश्रपरिणता उच्यन्ते। यद्यपि औदारिकादिशरीरतया परिणताः औदारिकादिवर्गणाः प्रयोगपरिणता अपि व्यपदिश्यन्ते तथापि प्रयोगपरिणतेषु विस्त्रसायाः सत्वेऽपि अविश्रितत्वान्न तयोः प्रयोगविस्त्रसयोरैक्यम्, विस्त्रसापरिणताः स्वभावेन परिणता इत्यर्थः, यथा मेघाः, आतपाः, छायाः, इत्यादयः ॥सू० १॥

मूलम्—‘प्रयोगपरिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पणत्ता, तं जहा—एगिंदियप्रयोगपरिणया, वेइंदियप्रयोगपरिणया जाव पंचिंदियप्रयोगपरिणया । एगिंदियप्रयोगपरिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पणत्ता, तं जहा—पुढविक्काइयएगिंदियप्रयोगपरिणया जाव वणस्सइकाइयएगिंदियप्रयोगपरिणया । पुढविक्काइयएगिंदियप्रयोगपरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता? गोयमा! दुविहा पणत्ता, तं जहा—सुहुमपुढविकाइयएगिंदियप्रयोगपरिणया य वायरपुढविकाइयएगिंदियप्रयोगपरिणयाय, आउक्काइयएगिंदियप्रयोगपरिणया एवं चेव । एवं दुपयओ भेदो

प्रयोगपरिणत भी कही जाती है तो भी प्रयोगपरिणत पुद्गलोंमें विस्त्रसा परिणमन होनेकी सत्ता होने पर भी वह वहां विवक्षित नहीं मानी गई है अतः प्रयोग और विस्त्रसामें एकता नहीं आती है। स्वभावसे जो पुद्गल परिणामान्तरको प्राप्त होते रहते हैं वे विस्त्रसा परिणत पुद्गल हैं जैसे मेघ, आतप (धूप), छाया इत्यादि ॥सू. १॥

विस्त्रसा—परिष्णुमन थवानी सत्ता होवा छतां यल्लु तेने अही विवक्षित मानवामा आवी नथी—तेथी प्रयोग अने विस्त्रस्तमा अश्रता आवती नथी ने उद्गलो स्वभावथी परिष्णुमान्तर प्राप्त करता रहे छे, ते पुद्गलोने विस्त्रसा परिष्णुन पुद्गलो छे छे. नेभेके मेघ, आतप (तडडे), छायाडे वगेरे ॥ सू० १ ॥

जात्र वणस्तइकाडया य । घेदियपओगपरिणया ण पुच्छा ?  
 गोयमा । अणेगविहा पण्णत्ता, त जहा—एव तेइदिय चउ  
 रिदियपओगपरिणयावि । पचिदियपओगपरिणया ण पुच्छा ?  
 गोयमा । चउविहा पण्णत्ता, तं जहा—नेरइय—पचिदियपओग  
 परिणया तिरिक्खजोणिय०, एव मणुस्स० देव० पचिदिय० ।  
 नेरइयपचिदियपओग० पुच्छा ? गोयमा । सत्तविहा पण्णत्ता,  
 न जहा—रयणप्पभापुद्विनेरइयपओगपरिणयावि, जात्र अहे  
 सत्तमपुद्विनेरइयपचिदियपओगपरिणयावि । तिरिक्खजोणिय  
 पचिदियपओगपरिणया ण पुच्छा ? गोयमा । तिविहा  
 पण्णत्ता, त जहा—जलयरपचिदियतिरिक्ख—जोणिय०, थलयर-  
 पचिदियतिरिक्खजोणिय० म्हायरपचिदियतिरिक्ख०, जलयर  
 पचिदियतिरिक्खजोणियपओग० पुच्छा ? गोयमा । दुविहा  
 पण्णत्ता, त जहा—समुच्छिमजलयर० गम्भवक्कतियजलयर० ।  
 थलयर पचिदियतिरिक्ख० पुच्छा ? गोयमा । दुविहा पण्णत्ता,  
 त जहा—चउप्पयथलयर० परिसप्प थलयर० । चउप्पयथलयर०  
 पुच्छा ? गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा—समुच्छिम-  
 चउप्पयथलयर० गम्भवक्कतियचउप्पयथलयर० । एव एएण  
 अमिलावेण परिमप्पा दुविहा पण्णत्ता, त जहा—उरपरि  
 सप्पा य सुयपरिमप्पा य । उरपरिसप्पा दुविहा पण्णत्ता त  
 जहा—समुच्छिमा य, गम्भवक्कतिया य । एय सुयपरिसप्पा वि ।

एवं खहयरा वि । मणुस्सपंचिंदियपओग० पुच्छा ? गोयमा !  
दुविहा पणत्ता, तं जहा—संमुच्छिममणुस्स०, गढभवक्कंतिय-  
मणुस्स० । देवपंचिंदियपओग० पुच्छा ? गोयमा ! चउद्विहा  
पणत्ता, तं जहा—भवणवासिदेवपंचिंदियपओग० एवं जाव  
वेमाणिया । भवणवासिदेवपंचिंदिय० पुच्छा गोयमा ! दस  
विहा पणत्ता, तं जहा—असुरकुमारा जोव थणियकुमारा ।  
एवं एण्णं अभिलावेणं अट्टुविहा वाणमंतरा पिसाया, जाव गंध-  
वा । जोइसिया पंचविहा पणत्ता, तं जहा—चंदविमाणजोइ-  
सिय० जाव ताराविमाणजोइसियदेव० । वेमाणिया दुविहा  
पणत्ता, तं जहा—कप्पोववन्नग० कप्पातीयग वेमाणिय० । कप्पो-  
ववन्नगा दुवालसविहा पणत्ता, तं जहा—सोहम्मकप्पोववन्नग०  
जाव अच्चुयकप्पोववन्नगवेमाणिया कप्पातीय० पुच्छा ? गोयमा !  
दुविहा पणत्ता, तं जहा—गेवेज्जकप्पातीयवे० अणुत्तरोववाइय-  
कप्पातीय वे०, गेवेज्जकप्पातीयगा नवविहा पणत्ता, तं जहा—  
हेट्टिमहेट्टिम—गेवेज्जगकप्पातीयवे० जाव उवरिमउवरिम—गेवे-  
ज्जगकप्पातीय० । अणुत्तरोववाइयकप्पातीयगवेमाणियदेवपंचिं-  
दियपओगपरिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ? गोयमा !  
पंचविहा पणत्ता, तं जहा—विजयअणुत्तरोववाइय० जाव  
परिण० जाव सवट्टुसिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचिंदियपओगपरिणया  
दंडगो ॥ सू. २ ॥



छाया-प्रयोगपरिणता खलु मदन्त ! पुद्गलाः कतिविधा प्रज्ञा ?  
 गौतम ! पञ्चविधा प्रज्ञाः तद्यथा-एकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, द्वीन्द्रियप्रयोग-  
 परिणता, यावत् पञ्चन्द्रियप्रयोगपरिणता । एकन्द्रियप्रयोगपरिणता खलु  
 मदन्त ! पुद्गला कतिविधा प्रज्ञा ? गौतम ! पञ्चविधा प्रज्ञा, तद्यथा-  
 पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता यावत् - एतस्पतिकायिकैकेन्द्रियप्रयोग-  
 परिणताः । पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता खलु मदन्त ! पुद्गलाः

‘पञ्चोपपरिणयाण भन्ते’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (पञ्चोपपरिणयाण भन्ते ! पोगला कइविहा पण्णासा)  
 हे मदन्त ! प्रयोगपरिणत पुद्गल किन्त प्रकारके कहे गये हैं ?  
 (गोयमा ! पंचविहा पण्णासा) हे गौतम ! प्रयोग पुद्गल पांच प्रकार  
 क कहे गये हैं । (तजहा) जा इम प्रकारसे हैं (एगिन्द्रियपञ्चोपपरि-  
 णया, कइन्द्रियपञ्चोपपरिणया जाव पंचिन्द्रिय पञ्चोपपरिणया) एकेन्द्रिय  
 प्रयोग परिणत दोन्द्रियप्रयोग परिणत, यावत् पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 (एगिन्द्रियपञ्चोपपरिणयाण भन्ते ! पोगला कइविहा पण्णासा) हे  
 मदन्त ! एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल किन्त प्रकारके कहे गये  
 हैं ? (गोयमा ! पंचविहा पण्णासा) हे गौतम ! एकेन्द्रिय प्रयोगपरि-  
 णत पुद्गल पांच प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) वे इस प्रकारसे  
 हैं (पृथिवीकायिकैकेन्द्रियपञ्चोपपरिणया जाव एण्णास्मइकायिकैकेन्द्रिय-  
 परिणयाण भन्ते ! पोगला कइविहा पण्णासा)

‘पञ्चोपपरिणयाण भन्ते !’ इत्यादि-

सूत्रार्थ- (पञ्चोपपरिणयाण भन्ते ! पोगला कइविहा पण्णासा ?)  
 हे मदन्त ! प्रयोगपरिणत पुद्गल किन्त प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! पंचविहा पण्णासा)  
 हे गौतम ! प्रयोगपरिणत पुद्गल पांच प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) वे इस प्रकारसे  
 हैं । (एगिन्द्रियपञ्चोपपरिणया, कइन्द्रियपञ्चोपपरिणया, जाव पंचिन्द्रिय पञ्चोपपरिणया) (१) एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (२) द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 (३) त्रैन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (४) चतुर्न्द्रिय प्रयोगपरिणत भन्ते (५) पञ्चन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत (एगिन्द्रियपञ्चोपपरिणयाण भन्ते ! पोगला कइविहा पण्णासा ?)  
 हे मदन्त ! एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल किन्त प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! पंचविहा  
 पण्णासा) हे गौतम ! एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल पांच प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा)  
 वे इस प्रकारसे हैं । (पृथिवीकायिकैकेन्द्रियपञ्चोपपरिणया जाव एण्णास्मइकायिकैकेन्द्रिय-  
 परिणयाण भन्ते ! पोगला कइविहा पण्णासा)

कतिविधाः प्रज्ञाः ? गौतम ! द्विविधा प्रज्ञाः तद्यथा—सूक्ष्मपृथिवीकायिकै  
केन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, वादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । अप्का-  
यिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता एवमेव । एवं द्विपदो भेदो यावत् वनस्पतिकायि-  
काश्च । द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताःखलु पृच्छा ? गौतम ! अनेकविधाः प्रज्ञाः,

द्विपदप्रयोगपरिणता) पृथिवी कायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल,  
यावत् वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल ( पुढविकाइय-  
एगिंदियपओगपरिणयाणं भन्ते ! पोगगला कइविहा पणत्ता ) हे  
भदन्त ! पृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कितने प्रका-  
रके कहे गये हैं ? (गोयमा ! दुविहा पणत्ता) हे गौतम ! पृथिवी-  
कायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं  
(तंजहा) जो इस प्रकारसे हैं (सुहुम पुढविकाइयएगिंदियपओग-  
परिणया य वायर पुढविकाइयएगिंदिय पओगपरिणया य) सूक्ष्म पृथिवी-  
कायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल, वादर पृथिवीकायिक एके-  
न्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल (एव चैव) इसी तरहसे (आउक्काइयएगिं-  
दियपओगपरिणया) अप्कायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकार  
के होते हैं (एवं दुपयओ भेदो जाव वणस्सइकाइया य) इसी तरह  
से यावत् वनस्पतिकायिक प्रयोगपरिणतपुद्गल भी दो प्रकारके  
होते हैं । (वेइंदियपओगपरिणया णं पुच्छा) हे भदन्त ! दो इन्द्रिय  
प्रयोगपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे

( यावत् ) वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ( पुढविकाइयएगिंदिय  
पओगपरिणयाणं भन्ते ! पोगगला कइविहा पणत्ता ? ) हे भदन्त ! पृथ्वीकायिक  
एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! दुविहा पणत्ता)  
हे गौतम ! पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना के प्रकार कहे गये हैं (तंजहा  
ते प्रकारे आ प्रमाणे छे- ( सुहुम पुढविकाइय-एगिंदियपओगपरिणया य वायर  
पुढविकाइय एगिंदियपओगपरिणया य ) (१) सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गल, (२) वादर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल (एवं चैव)  
के न प्रमाणे ( आउक्काइयएगिंदियपओगपरिणया ) अप्कायिक एकेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गलना पण्णे भे प्रकारेना डोय छे (एवं दुपयओ भेदो जाव वणस्सइ-  
काइया य ) के न प्रमाणे वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गलना  
पण्णे भे प्रकार समज्जा ( वेइंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा ) हे भदन्त ! द्वीन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गलना कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (अनेकविहा

तद्यथा- एव श्रीन्द्रियचतुर्न्द्रियप्रयोगपरिणता अपि । पञ्चेन्द्रियप्रयोग  
परिणताः सुखं वृच्छा ? गौतम ! चतुर्विधाः प्रकृताः, तद्यथा-नैरयिक  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणता, तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता, मनुष्य  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणताः देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । नैरयिकपञ्चेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणता मूलं वृच्छा ? गौतम ! मत्तविद्याः प्रकृताः ? तद्यथा-रत्नप्रमापृथिवी

गौतम ! दा इन्द्रिय प्रयोगपरिणतं पुद्गल (अणोऽपिहा पण्णत्ता)  
अनकं प्रकारं कं कहे गये हं । (एव तेइन्द्रिय-चतुर्विन्द्रिय-प्रयोगपरिण  
याधि) इमी तरहसे तेइन्द्रिय और चोइन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंको  
भी जानना चाहिये । (पंचिन्द्रियप्रयोगपरिणतयाणं वृच्छा) हे भदन्त !  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल किमने प्रकारके कहे गये हं ? (गोपमा)  
हे गौतम ! (चतुर्विन्द्रिया पण्णत्ता) पञ्चेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल चार  
प्रकारके कहे गये हं । (संज्ञा) ये इम प्रकारसे हं (नैरयिक पंचिन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणतया तिरिक्ख जाणिय एव मणुस्स देव पंचिन्द्रिय)  
नारकपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, तिर्यंच पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत, इमी  
तरह मनुष्य पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत और देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत  
(नैरयिक पंचिन्द्रियप्रयोग वृच्छा) हे भदन्त ! नैरयिक पंचेन्द्रिय प्रयोग  
परिणत पुद्गल किमने प्रकारके कहे गये हं ? (गोपमा) हे गौतम !  
(मत्तविद्या पण्णत्ता) नैरयिक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल मत्त

पण्णत्ता) इन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना अनेक प्रकार इत्था ७ (एव तेइन्द्रिय-  
चतुर्विन्द्रियप्रयोगपरिणतया पि) अथ प्रभासे ते इन्द्रिय अने अनुविन्द्रिय प्रयोग  
परिणत पुद्गलना विषे पणु सभरुं (पंचिन्द्रिय प्रयोगपरिणतयाणं वृच्छा)  
हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना इत्था प्रकार इत्था ७ । (गोपमा !)  
हे गौतम ! (चतुर्विन्द्रिया पण्णत्ता) पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल-च चार प्रकार इत्था ७  
(संज्ञा) ते चार प्रकार नीचे प्रभासे हं- (नैरयिक पंचिन्द्रियप्रयोगपरिणतया,  
तिरिक्खजाणियं, एव मणुस्सं देवं पंचिन्द्रियं) (१) नारक पञ्चेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत, (२) तिर्यंच पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (३) मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत अने (४) देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत

(नैरयिक पंचिन्द्रिय प्रयोग वृच्छा) हे भदन्त ! नारक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
पुद्गलना इत्था प्रकार इत्था ७ ? (गोपमा) हे गौतम ! (मत्तविद्या पण्णत्ता)  
नारक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना मत्त प्रकार इत्था ७ (संज्ञा) ते प्रकार

नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि यावत् - अयःसप्तमपृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणता अपि । तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः खलु पृच्छा ? गौतम ! त्रिविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा - जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणताः, स्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताः, खेचरपञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताश्च । जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक प्रयोगपरि-

प्रकारके कहे गये हैं । (तं जहा) जो इस प्रकारसे हैं (रयणप्पभापुढवि नेरइयपओगपरिणया वि जाव अहे सत्तमपुढवि नेरइय पंचिदिय-पओगपरिणया वि) रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिक पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत यावत् नीचे सप्तम नरक पृथिवी नैरयिक प्रयोग परिणत पुद्गल (तिरिक्खजोणियपंचिदियपओगपरिणया णं पुच्छा) हे भदन्त ! तिर्यच योनिक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! तिर्यच योनिक पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल (तिविहा पणत्ता) तीन प्रकारके कहे गये हैं । (तंजहा) वे इस प्रकारसे (जलयरपंचिदिय तिरिक्खजोणिय, थलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणिय खहयरपंचिदिय तिरिक्ख) जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिक प्रयोगपरिणत, थलचर पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत और खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यच योनिकप्रयोगपरिणत पुद्गल । (जलयर तिरिक्ख-जोणियपओगपुच्छा) हे भदन्त ! जलचर तिर्यच योनिक पंचेन्द्रिय-प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे

नीचे प्रभाणु छे- ( रयणप्पभापुढविनेरइयपओगपरिणया वि जाव अहे सत्तमपुढवि नेरइय पंचिदियपओगपरिणया वि ) पडेदी रत्नप्रभा पृथ्वीना नारक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलौथी लधने नीचे सातमी पृथ्वीना नारक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल सुधीना सात प्रकार समज्जा ( तिरिक्खजोणियपंचिदिय-पओगपरिणयाणं पुच्छा ) हे भदन्त ! तिर्यचयोनिक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलौना डेट्ठा प्रकार क्खा छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! ( तिविहा पणत्ता-तजहा ) तिर्यचयोनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलौना नीचे प्रभाणु त्रयु प्रकार क्खा छे- जलयर पंचिदिय तिरिक्खजोणिय०, थलयर तिरिक्खजोणिय० पंचिदिय०, खहयरतिरिक्ख पंचिदिय ) (१) जलयर तिर्यचयोनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (२) थलयर तिर्यचयोनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (३) खेचर तिर्यचयोनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल (जलयर तिरिक्खजोणिय पओग० पुच्छा ) हे भदन्त ! जलयर तिर्यचयोनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलौना डेट्ठा प्रकार क्खा छे ?

वताः खलु पृच्छा ? गौतम ! द्वित्रिषा षड्गताः, तद्यथा समूर्च्छिमजलधर  
 पञ्चेन्द्रियतिर्यग्यानिकप्रयोगपरिणता, गर्मजलधरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यानिक  
 प्रयोगपरिणता । स्थलधरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यानिकप्रयोगपरिणता खलु पृच्छा ?  
 गौतम ! द्वित्रिषा षड्गताः तद्यथा—चतुष्पदस्थलधरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यानिक  
 प्रयोगपरिणताः, परिसर्पस्थलधरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यानिकप्रयोगपरिणताः ।  
 चतुष्पदस्थलधरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यानिकप्रयोगपरिणता खलु पृच्छा ? गौतम !  
 द्वित्रिषा षड्गताः, तद्यथा - समूर्च्छिमचतुष्पदस्थलधरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्यो-

हे गौतम ! (दुषिहा पण्णसा) जलधर तिर्यग्यानिकप्रयोग परिणत  
 पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) वे इस प्रकार से हैं  
 (समूर्च्छिम जलधर गन्मयकृतिय जलधर) समूर्च्छिम जलधर  
 पंचेन्द्रिय तिर्यग्य प्रयोगपरिणत, और गर्म जलधरपंचेन्द्रिय तिर्यग्य  
 प्रयोग परिणत पुद्गल (धलयर तिरिक्ख पुच्छा) हे वदन्त ! स्थलधर  
 पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे  
 गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुषिहा पण्णसा) स्थलधर  
 पंचेन्द्रियतिर्यग्यानिक प्रयोगपरिणतपुद्गल दो प्रकारके कहे गये  
 हैं । (तजहा) जो इस प्रकारसे हैं (चतुष्पयधलयर० परिसप्य धलयर०)  
 चतुष्पदस्थलधर पंचेन्द्रिय तिर्यग्यानिक प्रयोगपरिणत पुद्गल  
 (दुषिहा पण्णसा) दो प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) जो इस प्रकार

(गोयमा ! ) हे गौतम ! (दुषिहा पण्णसा) स्थलधर तिर्यग्यानिक पञ्चेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके हैं (तजहा) वे प्रकरोः आ प्रमावो छे-  
 (समूर्च्छिम जलधर, गन्मयकृतिय जलधर०) (१) समूर्च्छिम जलधर तिर्यग्य  
 पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत आने (२) गर्मजलधर तिर्यग्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 पुद्गल (धलयर तिरिक्ख पुच्छा) ? वदन्त ! स्थलधर तिर्यग्यानिक पञ्चेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके हैं ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (दुषिहा  
 पण्णसा-तजहा) स्थलधर तिर्यग्यानिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल दो  
 प्रकारके हैं - (चतुष्पय धलयर० परिसप्य धलयर०) (१) चतुष्पय  
 स्थलधर पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल आने (२) परिसप्य स्थलधर तिर्यग्य पञ्चेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल (चतुष्पय धलयर० पुच्छा) हे वदन्त ! चतुष्पद स्थलधर  
 तिर्यग्यानिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके हैं ? (गोयमा ! )  
 हे गौतम ! चतुष्पद स्थलधर तिर्यग्यानिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल  
 (दुषिहा पण्णसा) दो प्रकारके हैं (तजहा) वे दो प्रकारके आ प्रमावो छे-

निकप्रयोगपरिणताः, गर्भव्युत्क्रान्तिकचतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रियतिर्य-  
ग्योनिकप्रयोगपरिणताश्च । एवम् एतेन अभिलापेन परिसर्पा द्विविधाः  
प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-उरःपरिसर्पाश्च, भुजपरिसर्पाश्च । उरःप्रतिसर्पा द्विविधाः  
प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-संमूर्च्छिमाश्च गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च । एवं भुजपरिसर्पा अपि ।  
एवं खेचरा अपि । मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोग पृच्छा ? गौतम ! द्विविधाः

से हैं । (समुच्छिन्नचतुष्पद स्थलचर०, गवभवककतियचतुष्पद स्थलचर०)  
संमूर्च्छिन्न चतुष्पद स्थलचरपञ्चेन्द्रिय तिर्यच पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत  
पुद्गल और गर्भज चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यच प्रयोग परिणत  
पुद्गल (एवं एणं अभिलापेणं परिसर्पा द्विविहा पणत्ता) इसी प्रकारसे  
इस अभिलाप द्वारा परिसर्प दो प्रकारके कहे गये हैं । (तंजहा) जो  
इस प्रकारसे हैं (उरपरिसर्पा य भुजपरिसर्पा य) उरःपरिसर्प और  
भुजपरिसर्प (उरपरिसर्पा द्विविहा पणत्ता) उरःपरिसर्प दो प्रकारके  
कहे गये हैं (तंजहा) जो इस प्रकारसे हैं (संमूर्च्छिन्माय गवभवककति-  
याय) संमूर्च्छिन्न और गर्भज (एवं भुजपरिसर्पा वि, एवं खेचरा-  
वि) इसी तरहसे भुजपरिसर्प भी और खेचर भी दो प्रकारके कहे  
गये हैं । (मणुस्स पंचिन्द्रियप्रयोग पुच्छा) हे भदन्त ! मनुष्य पञ्चे-  
न्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा)  
हे गौतम ! (द्विविहा पणत्ता) मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल

(समुच्छिन्नचतुष्पद स्थलचर०, गवभवककतियचतुष्पद स्थलचर०) (१) समूर्च्छिन्न  
चतुष्पद स्थलचर तिर्यच पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) गर्भज चतुष्पद  
स्थलचर तिर्यच पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल (एवं एणं अभिलापेणं परिसर्पा  
द्विविहा पणत्ता) अने प्रकारना या अभिलाप द्वारा परिसर्पना पणु मे प्रकार कथा छे.  
(तंजहा) ते मे प्रकारे नीचे प्रमाणे छे- (उरपरिसर्पाय, भुजपरिसर्पा य)  
(१) उरः परिसर्प, अने (२) भुज परिसर्प (उरपरिसर्पा द्विविहा पणत्ता-तंजहा)  
उरः परिसर्पना नीचे प्रमाणे मे प्रकार कथा छे- (संमूर्च्छिन्मा य, गवभवककतिया य)  
(१) समूर्च्छिन्न अने (२) गर्भज (एवं भुजपरिसर्पा वि, एवं खेचरा वि  
अने प्रमाणे भुज परिसर्पना पणु मे प्रकार कथा छे अने खेचरना पणु मे प्रकार कथा छे.  
(मणुस्स पंचिन्द्रियप्रयोग पुच्छा०) हे भदन्त ! मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
पुद्गल कितना प्रकारना कथा छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (द्विविहा पणत्ता-तंजहा)  
मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणे मे प्रकार कथा छे- (संमूर्च्छिन्न

प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-संमूर्च्छितमनुष्पपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, गर्भेषुत्क्रान्तिरुत्पन्नपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः । देवपठेन्द्रियप्रयोगं पृच्छा ? गौतम ! चतुर्विधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-भवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, एष यावत् वैमानिकः । भवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियं पृच्छा ? गौतम ! चतुर्विधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-असुरकुमारा यावत् स्वनितकुमाराः । एषम् एतेन अभिखापेन दो प्रकारके कहे गये हैं (तजहा) ये इस प्रकारसे हैं (समुच्छितमनुष्पसं० गम्भरककतिय मणुस्स०) संमूर्च्छितमनुष्प प्रयोग परिणत पुद्गल, गर्भज मनुष्प पञ्चेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल (देवपञ्चिन्द्रियप्रयोग पृच्छा) हे भदन्त ! देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल कितने प्रकार के कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (चउत्विहा पण्णसा) देवपञ्चेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल चार प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) जो इस प्रकारसे हैं (भवणवासि देवपञ्चिन्द्रियप्रयोग एष जाव वैमाणिया) भवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल यावत् वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल (भवणवासिदेवपञ्चिन्द्रिय पृच्छा) हे भदन्त ! भवनवासिदेव पञ्चेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (इसविहा पण्णसा) भवनवासि देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल दश प्रकारके कहे गये हैं (तजहा) जो इस प्रकारसे हैं (असुरकुमारा जाव यणियकुमारा) असुरकुमार प्रयोगपरिणत पुद्गल यावत् स्वनितकुमार प्रयोग परिणत

मणुस्स०, गम्भरककतिय मणुस्स०) (१) संमूर्च्छितमनुष्प पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल अने (२) गर्भज मनुष्प पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल (देवपञ्चिन्द्रिय प्रयोग पृच्छा) हे भदन्त ! देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ३०वा प्रश्नना ३०वा है (गोयमा ! ) हे गौतम ! (चउत्विहा पण्णसा-सुजहा) देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ३०वा प्रश्नना ३०वा है चार प्रकार ३०वा है- (भवणवासि देवपञ्चिन्द्रिय प्रयोग एष जाव वैमाणिया) भवनवासि देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ३०वा प्रश्नना ३०वा है (भवणवासि देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल) हे भदन्त ! भवनवासि देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ३०वा प्रश्नना ३०वा है (गोयमा ! ) हे गौतम ! (इसविहा पण्णसा-सुजहा) भवनवासि देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ३०वा प्रश्नना ३०वा है इस प्रकार ३०वा है-

(असुरकुमारा जाव यणियकुमारा) असुरकुमार प्रयोगपरिणत पुद्गल ३०वा है

अष्टविधाः वानव्यन्तराः पिशाचाः यावत्-गन्धर्वाः । ज्योतिषिकाः पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा चन्द्रविमानज्योतिषिकाः यावत् ताराविमानज्योतिषिकदेव० । वैमानिका द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-कल्पोपपन्नक० कल्पातीतकवैमानिका० । कल्पोपपन्नका द्वादशविधाः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-सौधर्मकल्पोपपन्नक० यावत् अच्युतकल्पोपपन्नकवैमानिकाः । कल्पातीतकवैमानिकाः खलु पृच्छा ?

पुद्गल (एवं एएणं अभिलाषेणं अट्टविहा वाणमंतरा पिसाया जाव गंधवा जोडसिया पंचविहा पणत्ता, तं जहा-चंद्रविमाण जोडसिय जाव ताराविमाण जोडसियदेव०-वेमाणिया दुविहा पणत्ता, त जहा-कल्पो-ववन्नगा० कल्पातीयग वेमाणिय०) इसी तरहसे इस अभिलाषेणं द्वारा आठ प्रकारके वानव्यन्तर पिशाच यावत् गंधर्व जानना चाहिये. ज्योतिषिक देव पांच प्रकार के कहे गये हैं-जो इस प्रकारके हैं । चन्द्र विमान ज्योतिषिकदेव, यावत् ताराविमान ज्योतिषिक देव-वैमानिक देव दो प्रकारके कहे गये हैं-जो इस प्रकारसे हैं-कल्पोपपन्न वैमानिक देव एवं कल्पातीत वैमानिक देव (कल्पोववन्नगा दुवालसविहा पणत्ता, तं जहा-सोहम्मकल्पोववन्नगा० जाव अच्युतकल्पोववन्नगवेमाणिया) कल्पोपपन्नकवैमानिकदेव १२ प्रकारके कहे गये हैं-सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिक देव, यावत् अच्युत कल्पोपपन्नक वैमानिक देव (कल्पातीय पुच्छा) हे भदन्त ! कल्पातीत वैमानिक देव कितने प्रकारके कहे गये

स्तनितकुमार प्रयोगपरिणत पुद्गल सुधीना इस प्रकार अष्टीं ग्रहणु करवा (एवं एएणं अभिलाषेणं अट्टविहा वाणमंतरा पिसाया जाव गंधवा, जोडसिया पंचविहा पणत्ता, तंजहा-चंद्रविमाण जोडसिय जाव ताराविमाण जोडसिय देव०, वेमाणिया दुविहा पणत्ता, तजहा-कल्पोववन्नगा. कल्पातीयग वेमाणिय.) ये ७ शीते आ अभिलाषेणं द्वारा वानव्यन्तर देवाना नीचे प्रमाणे आठ प्रकार समजवा-पिशाच प्रयोग परिणतथी लधने गंधर्व प्रयोग परिणत पर्यन्तना आठ प्रकार समजवा ज्योतिषिक देवाना नीचे प्रमाणे पाच प्रकार छे- चन्द्रविमान ज्योतिषिक देवथी लधने ताराविमान ज्योतिषिक देव पर्यन्तना पाच प्रकार समजवा वैमानिक देवाना ये प्रकार नीचे प्रमाणे समजवा - (१) कल्पोपपन्नक वैमानिक देवा अन्ये (२) कल्पातीत वैमानिक देवा (कल्पोववन्नगा दुवालसविहा पणत्ता, तंजहा-सोहम्म-कल्पोववन्नगा. जाव अच्युतकल्पोववन्नग वेमाणिया) कल्पोपपन्नक वैमानिक देवाना नीचे प्रमाणे आठ प्रकार कहे छे- सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिक देवथी लधने अच्युत कल्पोपपन्नक देवा पर्यन्तना आठ प्रकार अष्टीं ग्रहणु करवा. (कल्पातीय पुच्छा)



गौतम ! द्विविधा प्रज्ञा, तद्यथा-प्रैवेयककल्पातीतवैमानिका, अनुचरौपपा-  
तिककल्पातीतवैमानिकाः, प्रैवेयककल्पातीतका० नवविधा प्रज्ञाः, तद्यथा-  
अधस्तनाधस्तनप्रैवेयककल्पातीतवैमानिकाः यावत् - उपरितनोपरितनप्रैवेयक  
कल्पातीतवैमानिका । अनुचरौपातिककल्पातीतवैमानिकदेवपठवेन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणता खलु भवन्त ! पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञा ? गौतम !  
पञ्चविधा प्रज्ञाः, तद्यथा-विजयानुचरौपपातिक यावत् पणिणा , यावत् सर्वाय  
सिद्धानुचरौपपातिकदेव पठवेन्द्रिय प्रयोगपरिणता, (दृष्टकः ? प्रथमः) ॥६॥

हे ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णासा) कल्पातीत वैमानिक देव  
दी प्रकारके कहे गये है (तं नहा) जो इस प्रकार से है (गेवेज्ज कल्पा-  
तीय वे० अनुचरोवघाइय कल्पातीयवे०) प्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक  
देव तथा अनुचरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव (गेवेज्जकल्पातीयगा  
नवविहा पण्णासा) प्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव नौ प्रकारके कहे  
गये हैं । (तं जहा) जो इस प्रकार से है (हेट्ठिम हेट्ठिम गेवेज्जकल्पा-  
तीयवे० आव उवरिम उवरिम गेवेज्जकल्पातीय०) अधस्तन अधस्तन  
प्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव यावत् ऊपर ऊपर प्रैवेयक कल्पातीत  
देव (अनुचरोवघाइय कल्पातीयग वैमानिय देव पंचिदियपयोगपरिणया  
ण भन्ते ! योगसा कइविहा पण्णासा) हे भदन्त ! अनुचरौपपातिक  
कल्पातीत वैमानिक देव पठवेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके  
कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहा पण्णासा) अनुचरौप

हे भदन्त ! कल्पातीत वैमानिक देवाना देवा प्रभार क्वा छे ? (गोयमा ।) छे जौतम  
(दुविहा पण्णासा) कल्पातीत वैमानिक देवाना वे प्रभार क्वा छे. (तं नहा) तं वे प्रभार  
आ प्रभावे छे- (गेवेज्जकल्पातीय वे०, अनुचरोवघाइय कल्पातीय वे ) (१)  
त्रैवेयिक कल्पातीत वैमानिक देवा अने (२) अनुचरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवा  
[निवेज्जकल्पातीयगा नवविहा पण्णासा] त्रैवेयिक कल्पातीत वैमानिक देवाना नव प्रभार  
क्वा छे [तं जहा] ते नव प्रभार नीये प्रभावे छे- (हेट्ठिम हेट्ठिम गेवेज्जकल्पातीय  
वे०, आव उवरिम उवरिम गेवेज्ज कल्पातीय) अधस्तन अधस्तन त्रैवेयिक  
कल्पातीत वैमानिक देवा अने उपरीतन उपरीतन त्रैवेयिक कल्पातीत देवा पचन्तना  
नव प्रभार अदी प्रभार क्वा छे (अनुचरोवघाइय कल्पातीयग वैमानिय देव  
पंचिदिय-प्रयोग परिणया ण भन्ते ! योगसा कइविहा पण्णासा) हे भदन्त !  
अनुचरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पठवेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने  
प्रभारना क्वा छे ! [गोयमा ] हे गौतम ! [पंचविहा पण्णासा] तेनाना पांच

टीका-अथ त्रिष्वपि पुद्गलेषु प्रयोगपरिणतानां नामनिर्देशेन नवदण्डकान् प्रदर्शयति-सूक्ष्मैकेन्द्रियादारभ्य सर्वार्थसिद्धदेवपर्यन्तं जीवानां विशेषताभिः प्रयोगपरिणतपुद्गलानां प्रथमो नामद्वारदण्डकः १ । सूक्ष्मपृथिवीकायिकादारभ्य सर्वार्थसिद्धदेवपर्यन्तं पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्वितीयो भेदद्वारदण्डकः २ । औदारिकादिपञ्चशरीरार्णां विशेषताभिः तृतीयः शरीरद्वारदण्डकः ३ ।

पातिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल पांच प्रकारके कहे गहें हैं । (त जहा) जो इस प्रकार से हैं (विजय अणुत्तरोववाहया जाव परिण० जाव सव्वट्ट सिद्ध अणुत्तरोववाहयदेव पंचिन्द्रियपओगपरिणया दंडगो) विजय अनुत्तरौपपातिक देवप्रयोगपरिणत पुद्गल यावत् सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देव पंचेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल-दण्डक ॥ सू० १ ॥

टीकार्थ-प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विलसापरिणत पुद्गलो में से प्रयोग परिणत पुद्गलोंके नामनिर्देशसे सूत्रकार ने नौ दण्डकों में से प्रहाँ पर नमिद्वार नामके दण्डकको दिखलाया है, नौ दण्डक इस प्रकार से हैं-सूक्ष्म एकेन्द्रिय से लेकर सर्वार्थसिद्ध देव तक जीवों की विशेषताओं से प्रयोगपरिणत पुद्गलोंका प्रथम नाम द्वारदण्डक है. सूक्ष्म पृथिवी कायिक से लेकर सर्वार्थसिद्ध देवतक पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेद से दूसरा भेदद्वारदण्डक है । औदारिक आदि पांच शरीरों की विशेषताओं से तीसरा शरीरद्वारदण्डक है ।

प्रकार क्खा छे [तजहा] ते पाथ प्रकार आ प्रमाणे छे- ( विजय अणुत्तरोववाइय० जाव परिण० जाव सव्वट्ट सिद्ध अणुत्तरोववाइ देव पंचिन्द्रियपओगपरिणया दंडगो) विजय अनुत्तरौपपातिक देव प्रयोगपरिणत पुद्गलथी लधने सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देव प्रयोगपरिणत पुद्गल सुधीना पाथ प्रकार अही अडुणु करवा

टीकार्थ- पुद्गलानां त्रय प्रकार जताववामा आन्ये छे- (१) प्रयोगपरिणत, (२) मिश्रपरिणत अने (३) विलसापरिणत पुद्गल. आ त्रय प्रकारमाथी प्रयोगपरिणत पुद्गलानां नामनिर्देशपूर्वक सूत्रकारे नव दंडकमाना नामद्वार नामना दंडकने अही प्रकार कथुं छे ते नव दंडक आ प्रमाणे छे- सूक्ष्म एकेन्द्रियथी लधने सर्वार्थसिद्ध देव पर्यन्तना लवाना विशेषताओथी प्रयोगपरिणत पुद्गलानु प्रथम नामद्वार दंडक छे. सूक्ष्म पृथ्वीकायिकथी लधने सर्वार्थसिद्ध देव सुधीना लवानु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना भेदथी भीणुं लेद्वार दंडक छे औदारिक आदि पांच शरीराना विशेषताओने अनुलक्षीने

पञ्चेन्द्रियाणां विशेषतामिषत्वर्यं इन्द्रियद्वारदण्डकः ४ । औदारिकादिपञ्च शरीराणां स्पर्शादिपञ्चेन्द्रियाणां च विशेषतामिः पञ्चमः शरीरेन्द्रियदण्डकः ५ । वर्षगन्ध-रस-स्पर्शानां, सस्थानानां च विशेषतामिः पञ्चोवर्णादि द्वारदण्डकः ६ । औदारिकादिशरीराणां वर्णादीनां च विशेषतामिः सप्तमं शरीरवर्णादिद्वार दण्डकः ७ । इन्द्रियाणां वर्णादीनां च विशेषतामिरष्टमं इन्द्रियवर्णादिद्वार दण्डकः ८ । शरीराणाम्, इन्द्रियाणां, वर्णादीनां च विशेषतामि नवमः शरीरेन्द्रियवर्णादिद्वारदण्डकः ९, इत्येते नव दण्डकाः ।

सप्त प्रथमं नामद्वारनामकं दण्डकमाह- 'पभोगपरिणयाण' इत्यादि ।

'पभोगपरिणया ण भते ! पोगगना कइविहा पण्णात्ता ?' गौतमः पृच्छति- हे

पञ्चेन्द्रियोंकी विशेषताओं से चौथा इन्द्रिय द्वार दण्डक है । औदा-  
रिकादि पांच शरीरोंकी और स्पर्शादिक पांच इन्द्रियोंकी विशेष-  
ताओंसे पांचवां शरीर इन्द्रियदण्डक है । घर्ण, गन्ध, रस स्पर्शोंकी  
विशेषताओंसे छठा वर्णादि द्वारदण्डक है । औदारिकादि शरीरों  
की और वर्णादिकोंकी विशेषताओं से सातवां शरीरवर्णादि द्वार  
दण्डक है । इन्द्रियों और वर्णादिकों की विशेषताओंसे आठवा इन्द्रिय  
वर्णादि द्वार दण्डक है, शरीरोंकी, इन्द्रियोंकी और वर्णादिकोंकी विशेष-  
ताओं से नौवा शरीरद्वय वर्णादि द्वार दण्डक है । इस प्रकार ये  
नौ दण्डक हैं । इनमें जो पहिला नामद्वारदण्डक है उसे 'पभोग  
परिणयाण भते' इत्यादि मूत्रद्वारा मूत्रकरने दिखलाया है-इसमें गौतम  
स्वामीने मनु से पूछा है कि 'पभोगपरिणयाण भते ! पोगगना कइविहा

शरीरद्वार ६६४ छे पञ्चेन्द्रियोंकी विशेषताओंसे अनुदण्डकीने चौथे इन्द्रियद्वार ६६४ छे  
औदारिकादि पांच शरीरोंकी अने स्पर्श आदि पांच इन्द्रियोंकी विशेषताओंसे  
अनुदण्डकीने पांचवें शरीर-इन्द्रिय ६६४ छे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श अने सस्थानोंकी  
विशेषताओंसे अनुदण्डकीने छठे वर्णादिद्वार ६६४ छे औदारिकादि शरीरोंकी अने  
वर्णादिद्वारोंकी विशेषताओंसे अनुदण्डकीने सातवें शरीरवर्णादि द्वार ६६४ छे इन्द्रियों अने  
वर्णादिद्वारोंकी विशेषताओंसे अनुदण्डकीने आठवें इन्द्रियवर्णादि द्वार ६६४ छे शरीरोंकी,  
इन्द्रियोंकी अने वर्णादिद्वारोंकी विशेषताओंसे अनुदण्डकीने नववें शरीर-इन्द्रिय-वर्णादिद्वार  
६६४ छे आ प्रश्नना आ नव ६६४ छे तेषांशी पदेसु ये नामद्वार ६६४ छे, तेने  
सूत्रद्वारे 'पभोगपरिणयाण भते !' अन्तादि सूत्र दावा अहं श्रुं छे-

गौतम स्वामी आ विभने अनुदण्डकीने भक्तापीर प्रश्नने जेवा प्रश्न पूछे छे-  
'पभोगपरिणयाण भते ! पोगगना कइविहा पण्णात्ता ?' छे अन्त । प्रयोगपरिणय

भदन्त ! प्रयोगपरिणताः खलु पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—  
 'गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता' हे गौतम ! प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पञ्चविधाः  
 प्रज्ञप्ताः, तानेवाह—तं जहा—एगिंदियपओगपरिणया, वेइंदियपओगपरिणया  
 जाव पंचिंदियपओगपरिणया' तद्यथा — एकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, द्वी-  
 न्द्रियप्रयोगपरिणताः यावत् त्रीन्द्रियप्रयोगपरिणताः, चतुरिन्द्रियप्रयोग-  
 परिणताः, पचेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः भवन्ति । गौतमः पृच्छति—  
 'एगिंदियपओगपरिणया णं भंते ? पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ?' हे भदन्त !  
 पञ्चसु उक्तैकेन्द्रियादिप्रयोगपरिणतपुद्गलेषु मध्ये एकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
 खलु पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता'  
 हे गौतम ! एकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, 'तं

पण्णत्ता' हे भदन्त ! प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये  
 हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' पंचविहा पण्णत्ता' हे गौतम !  
 प्रयोग परिणत पुद्गल पांच प्रकारके कहे गये हैं 'तजहा' वे ये हैं  
 'एगिंदिय पओगपरिणया, वेइंदियपओगपरिणया, जाव पंचिंदियपओग-  
 परिणया' एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत, द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत त्रिन्द्रियप्रयोग-  
 परिणत चौइन्द्रिय प्रयोगपरिणत, ओर पंचेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल ।  
 अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं एगिंदियपओगपरिणया णं  
 भंते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता' हे भदन्त ! इन कथित पांच एके-  
 न्द्रियादि प्रयोग परिणत पुद्गलोंमेंसे एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल  
 कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे  
 गौतम ! 'पंचविहा पण्णत्ता' एकेन्द्रिय प्रयोग परिणतपुद्गल पांच

पुद्गल डेटवा प्रकारना क्ख्वा छे? महावीर प्रभुने उत्तर— 'गोयमा ! प चविहा पण्णत्ता'  
 हे गौतम ! प्रयोगपरिणत पुद्गल पांच प्रकारना क्ख्वा छे 'तजहा' ते प्रकारे आ  
 प्रभावे छे— 'एगिंदियपओगपरिणया, वेइंदियपओगपरिणया, जाव पंचिंदिय  
 पओगपरिणया' (१) एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (२) द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (३)  
 त्रीन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (४) चतुरिन्द्रिय प्रयोगपरिणत अने (५) पचेन्द्रिय प्रयोग-  
 परिणत पुद्गल

गौतम स्वामीने अत्र— 'एगिंदियपओगपरिणयाणं भंते ! पोग्गला  
 कइविहा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! ये पांच प्रकारना एकेन्द्रियादि प्रयोगपरिणत  
 पुद्गलदेवाभाथी एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल डेटवा प्रकारना क्ख्वा छे ? उत्तर—  
 'गोयमा !' हे गौतम ! 'पंचविहा पण्णत्ता' एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

जहा' तद्यथा=ते इमे- 'पुढबिकाइयएगिदियपभोगपरिणया जाव वणस्सइ  
 काइयएगिदियपभोगपरिणया' पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, वायु-  
 अप्कायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, तेजःकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता, वायु  
 कायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
 भवन्ति, गौतम पृच्छति - 'पुढबिकाइय - एगिदियपभोगपरिणया ण  
 भते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ?' हे मदन्त ! पृथिवीकायिकै  
 केन्द्रियप्रयोगपरिणता खल्ल पुद्गला कतिविहा मत्तत्ता ? भगवानाह-  
 'गोयमा ! इविहा पण्णत्ता' हे गौतम ! द्विविहा मत्तत्ताः 'त जहा-  
 तद्यथा - 'सुहुमपुढबिकाइयएगिदियपभोगपरिणया य, वादरपुढबिकाइय

प्रकारके कहे गये हैं 'तजहा' वे ये हैं (पुढबिकाइय एगिदिय पभोग-  
 परिणयो जाव वणस्सइकाइय एगिदियपभोगपरिणया) पृथिवीकायिक  
 एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत अप्कायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत, तेजःकायिक  
 एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत, वायुकायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत, और  
 वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल अथ गौतमस्वामी प्रभुसे  
 ऐसा पूछते हैं 'पुढबिकाइय एगिदियपभोगपरिणयाण भते! पोग्गला कइ  
 विहा पण्णत्ता' हे मदन्त! पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल  
 कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं गोयमा ! हे  
 गौतम ! 'इविहा पण्णत्ता' पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) वे ये हैं 'सुहुमपुढबिकाइय-

पाप्य प्रकथना कथां छे 'तजहा' ते पाप्य प्रकथ आ प्रभावे छे-पुढबिकाइय एगिदिय-  
 पभोगपरिणया, जाव वणस्सइकाइयएगिदियपभोगपरिणया' (१) पृथ्वीकायिक  
 केन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (२) अप्कायिक केन्द्रिय प्रयोगपरिणत (३) तेजःकायिक  
 केन्द्रिय प्रयोगपरिणत, (४) वायुकायिक केन्द्रिय प्रयोगपरिणत, अने (५) वनस्पति  
 कायिक केन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल.

गौतम स्वामीने प्र- 'पुढबिकाइयएगिदियपभोगपरिणयाण भते !

पोयमा कइविहा पण्णत्ता ?' हे मदन्त ! पृथ्वीकायिक केन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 पुद्गल केला प्रकथना कथां छे ? उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! 'इविहा पण्णत्ता'  
 पृथ्वीकायिक केन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकथना कथा छे 'तजहा' ते के प्रकथ  
 आ प्रभावे छे- 'सुहुमपुढबिकाइयएगिदियपभोगपरिणया य, वायव

एगिन्दियपओगपरिणया य' सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, बादर-  
पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । 'आउक्काइयएगिन्दियपओगपरिणया एव-  
मेव' पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गलवदेव अप्कायिकैकेन्द्रियप्रयोग  
परिणताः पुद्गला अपि सूक्ष्मवाद्दरभेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः । ' एवं  
दुपयओ भेदो जाव वणस्सइकाइया य' एवम् पृथिव्यप्कायप्रयोग-  
परिणतेषु पुद्गलेष्विव द्विको - द्विपरिणामः द्विपदो वा भेदः सूक्ष्मवाद्दर  
विशेषेणकृत प्रकारो यावत्-तेजस्कायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणतेषु, वायुकायिकै  
केन्द्रियप्रयोगपरिणतेषु वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणतेषु पुद्गलेष्वपि  
बोध्यः । तथाच तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता  
अपि पुद्गलाः सूक्ष्मवाद्दरभेदेन द्विविधा भवन्तीति भावः । गौतमः

एगिन्दियपओगपरिणया य, बादरपुढविकाइयएगिन्दियपओगपरिणयाय'  
सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत, बादर पृथिवी-  
कायिक एकेन्द्रियप्रयोग परिणत 'आउक्काइय एगिन्दियपओगपरि-  
णया एवमेव' पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी तरह  
से ही अप्कायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल भी सूक्ष्मवाद्दरके  
भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं । 'एवं दुपयओ भेदो जाव वणस्सइ-  
काइया य' पृथिवी कायिक एव अप्कायिक प्रयोग परिणत पुद्गलोंमें  
जिस प्रकारसे दो दो भेद कहे गये हैं उसी तरहसे द्विक द्विपरिणाम  
अथवा द्विपद भेद सूक्ष्म वाद्दर विशेषण कृत प्रकार यावत् तेज-  
स्कायिक एकेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गलोंमें, वायुकायिक एकेन्द्रिय  
प्रयोग परिणत पुद्गलोंमें, और वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियप्रयोग परि-  
णत पुद्गलोंमें भी जानना चाहिये । तथा च तेजस्कायिक, वायुकायिक,

पुढविकाइयएगिन्दिय पओगपरिणया य' (१) सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गल अने (२) बादर पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

'आउक्काइय एगिन्दियपओगपरिणया एवमेव' पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गलोंकी जेभ जे अप्कायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी पास सूक्ष्म  
अने बादर ऐवा जे प्रकार जे पडे छे 'एवं दुपयओ भेदो जाव वणस्सइकाइया य'  
जे जे प्रमाणे तेजःकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी, वायुकायिक ऐकेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी अने वनस्पतिकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी पास  
सूक्ष्म अने बादर ऐवा जे जे प्रकारे पडे छे तेभ समजवु ऐटले छे तेजःकायिक,

पृच्छति - 'चेन्द्रियपभोगपरिणया ऽ पृच्छा ' द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणतानां पुद्गलानां पृच्छा-गौतमस्य प्रश्नो विज्ञेयः । तथा च-द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः कतिविधाः मधन्तीति प्रश्नान्नयः । भगवानाह-गोयमा ! अणोगविहा पण्यता ' हे गौतम ! द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः अनेकविधाः= अनेकप्रकारकाः प्रकृताः, द्वीन्द्रियाणां नीलकण्ठमिकादिभेदानानेकविधत्वात् पण्यम्, ' एषं चेन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पभोगपरिणयाधि' एषं=द्वीन्द्रियप्रदेव श्रीन्द्रिय - चतुरिन्द्रिय - प्रयोगपरिणता अपि अनेकविधाः प्रकृताः । तत्र द्वीन्द्रियाणां कृन्धुपिपीलिकादिभेदेन, चतुरिन्द्रियाणां च मक्षिकामण्डकादिभेदेन अनेकविधत्वात् पण्यम् । ' परिन्द्रियपभोगपरिणया ऽ पृच्छा ? पञ्चन्द्रियप्रयोगपरिणतानां पुद्गलानां विषय गौतमस्य पृच्छा ? तथाच-

यनस्पतिपायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत भी पुद्गल सूक्ष्म पादरके भेदसे दो प्रकारके होते हैं । अब गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'चेन्द्रियपभोगपरिणया पृच्छा' हे भद्रन्त ! दो इन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके होते गये हैं ? उत्तरमें प्रश्न पछते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'अणोगविहा पण्यता' दो इन्द्रिय प्रयोग परिणतपुद्गल अनेक प्रकारके होते गये दो इन्द्रिय जीव नीलकण्ठ, कृमिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारके हैं । ' एषं चेन्द्रिय चतुरिन्द्रियपभोगपरिणया धि' द्वीन्द्रियवी तरह चेन्द्रिय और चौद्विन्द्रिय प्रयोग परिणत भी पुद्गल अनेक प्रकारके होते गये हैं । कृन्धु पिपीलिका आदिके भेदसे इन्द्रियोंमें तथा मक्षिका, मण्डक आदिके भेदसे चौद्विन्द्रिय जीवोंमें

वास्तुशक्ति अने वनस्पतिक्रमिके केन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल पण्य सूक्ष्म अने लालरना केवली के प्रकारना देखे छे

गौतम स्वर्गीयके प्रश्न- 'चेन्द्रियपभोगपरिणया पृच्छा' के भद्रन्त ! द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकारना बता छे ?

उत्तर- 'गोयमा ! अणोगविहा पण्यता' हे गौतम ! द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अनेक प्रकारना बता छे । उत्तर के द्वीन्द्रिय अने पण्य सूक्ष्म, कृमिक आदिना लक्षणी अनेक प्रकारना बता छे ।

परिणया धि' द्वीन्द्रियनी केम श्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलके पण्य अनेक प्रकारना बता छे । कृन्धु पिपीलिका (कीली) आदिना केवली त्रीन्द्रिय अने अनेक प्रकारना केवली शक्य छे अने भाषी, मण्डक आदिना केवली चतुरिन्द्रिय अने पण्य अनेक प्रकारना केवली शक्य छे ।

पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? इति प्रश्नः, भगवानाह—‘गोयमा ! चउव्विहा पणत्ता’ हे गौतम ! पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः चतुर्विधाः प्रज्ञप्ता, तानेवाह—‘तं जहा’ तद्यथा—‘नेरइयपंचिंदियपओगपरिणया, तिरिक्ख० एवं मणुस्स०, देव पंचिंदिय०’ नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । ‘नेरइयपंचिंदियपओगपरिणया णं पुच्छा ?’ नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतानां विषये पृच्छा ? तथाच—नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः भदन्त ! कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? इति प्रश्नः, भगवानाह—‘गोयमा ! सत्तविहा पणत्ता’ हे गौतम ! नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोग-

अनेक प्रकारता आइ है ‘पंचिंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं कि ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘चउव्विहा पणत्ता’ पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल चार प्रकारके कहे गये हैं । ‘तं जहा’ वे ये हैं ‘नेरइय पंचिंदिय पओगपरिणया तिरिक्ख, एवं मणुस्स देवपंचिंदिय०’ नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत, तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत, मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत और देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल,

अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘नेरइयपंचिंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल ‘सत्तविहा पणत्ता’ सात प्रकारके कहे गये हैं । ‘तंजहा’ वे ये हैं

गौतम स्वामीने। प्रश्न— ‘पंचिंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारना कथा छे ?

महावीर प्रभुने। उत्तर— ‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘चउव्विहा पणत्ता’ पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल चार प्रकारना कथा छे ‘तंजहा’ ते चार प्रकार नीचे प्रमाणे छे— ‘नेरइयपंचिंदियपओगपरिणया, तिरिक्ख०; एवं मणुस्स०, देवपंचिंदिय.’ [१] नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, [२] तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत, [३] मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत अने [४] देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

गौतम स्वामीने। प्रश्न— ‘नेरइयपंचिंदिय पओगपरिणयाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना कितने प्रकार कथा छे ?



परिणताः पुद्गलाः सप्तविधाः प्रकृताः, तानेवाह-‘त जहा’-तद्यथा-  
 ‘रयण्यमापुद्गलिनैरयपभोगपरिणया वि, जाव अहेसत्तमपुद्गलिनैरय  
 पचिदियपभोगपरिणया वि’ रत्नप्रभापृथिवीनैरयिफप्रयोगपरिणता अपि,  
 यावत्-द्वारामभा० बालुकाप्रभा० पद्मप्रभा० घूमप्रभा० तमप्रभा० अघः  
 मत्तमपृथिवीनैरयिफपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पुद्गला इति । ‘तिरिक्त्व-  
 जोणियपचिदियपभोगपरिणया ण पुच्छा ?’ तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोग-  
 परिणताः स्मृत्तु पुच्छा ? एव ष तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
 कतिविधाः प्रकृता ? इति प्रश्नाः, भगवानाह-गोयमा ! त्रिचिह्ना  
 पणत्ता’ इ गौतम ! तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः त्रिषुधाः  
 प्रकृताः, तानेवाह-‘त जहा’ तद्यथा-‘जलयरपचिदियतिरिक्त्वजोणिय०,

रयण्यमापुद्गलिनैरयपभोग परिणया वि जाव अहे सत्तम  
 पुद्गलि नरय पचिदियपभोगपरिणया वि’ रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक  
 प्रयोगपरिणत’ द्वारामभा पृथिवी नैरयिक प्रयोग परिणत, बालुका  
 प्रभा पृथिवी नैरयिक प्रयोग परिणत, पद्मप्रभा, घूमप्रभा, और अघः  
 मत्तम पृथिवी नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल । अथ गौतम  
 स्वामी प्रश्नसे केसा एउते हैं तिरिक्त्वजोणियपचिदिय पभोगपरि  
 णयाण पुच्छा’ है भदन्त ! तिर्यग्य योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 पुद्गल किन्ते प्रकारके हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम !  
 तिर्यग्ययोनिय प्रयोग परिणत पुद्गल ‘त्रिचिह्ना पणत्ता’ तीन प्रकार  
 के कह गये हैं ‘तजहा’ ये इस प्रकारसे हैं जलयरपचिदियतिरिक्त्व

भद्वती० प्रश्नता उत्तर- ‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘मत्तपिह्ना पणत्ता’ तिरयि  
 पचिदिय प्रयोगपरिणत पुद्गलान् आन प्रकृताः ३ ‘त जहा’ ते आन प्रकृताः न्दीये  
 प्रभात् ३- ‘रयण्यमापुद्गलिनैरयपभोगपरिणया वि, जाव अहे सत्तम  
 पुद्गलि नरय पचिदिय पभोगपरिणया वि’ (१) रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिक प्रयोग  
 परिणत, (२) द्वारामभा पृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत, (३) बालुकाप्रभा पृथिवी नैरयिक  
 प्रयोगपरिणत (४ थी ७) पद्मप्रभा० घूमप्रभा०, तमप्रभा० अघः न्दीये सत्तमपृथिवी  
 (तमप्रभा प्रभा) तिरिक्त्व पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

गौतम स्वामीना प्रश्न- ‘तिरिक्त्वजोणिय पचिदिय पभोगपरिणयाण पुच्छा’  
 ? भद्वती ! तिर्यग्ययोनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ३ प्रकृताः कथा ३ ?  
 उत्तर- गोयमा !’ हे गौतम ! तिरिक्त्व पणत्ता’ तिर्यग्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोग  
 परिणत पुद्गल त्रय प्रकारके कथा ३ ‘त जहा’ त त्रय प्रकृताः न्दीये प्रभात् ३

थलयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिय० खहयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिय०' जलचर-  
पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताः, स्थलचरपंचेन्द्रियतिर्यग्योनिकप्रयोगपरि-  
णताः, खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणताश्च । जलयरपंचिन्द्रियतिरि-  
क्खजोणियपओग० पुच्छा' जलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणतानां पृच्छा,  
ते कतिविधाः ? इति प्रश्नः, भगवानाह—' गोयमा ! दुविहा पणत्ता '  
हे गौतम ! जलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गला द्विविधाः  
प्रज्ञप्ताः, ' तं जहा '-तद्यथा—' समुच्छिमजलयर० गवभवक्कतियजलयर० '  
समुच्छिमजलचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताः गर्भव्युत्क्रान्तिकजलचर  
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताश्च गर्भजा इत्यर्थः, ' थलयर तिरि-  
क्ख० पुच्छा ? स्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतानां पुद्गलानां

जोणिय० थलयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिय, खहयरपंचिन्द्रियतिरि-  
क्ख'० जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणत, स्थलचरपंचेन्द्रिय  
तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत, खेचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोग  
परिणत पुद्गल ' जलयरतिरिक्खजोणियपओग पुच्छा ' हे भदन्त  
जलचर तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके  
हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! दुविहा पणत्ता'  
जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके हैं  
'तंजहा' वे ये हैं 'समुच्छिम जलयरगवभवक्कतिय जलयर० समुच्छिम  
जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल और गर्भव्यु-  
त्क्रान्तिक जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल गर्भज  
'थलयर तिरिक्ख० पुच्छा' हे भदन्त ! स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक

'जलयरपंचिन्द्रियतिरिक्ख जोणिय,, थलयरपंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिय,, खहयर-  
पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणिय.' (१) जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत,  
स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत, अने जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक  
प्रयोगपरिणत पुद्गल

गौतम आशीने। प्रश्न— 'जलयरतिरिक्खजोणियपओग० पुच्छा.'  
हे भदन्त ! जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकारना होयछे ?  
उत्तर— 'गोयमा !' हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता' जलचर तिर्यग्योनिक  
पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकारना कथा छे— 'तंजहा' ते के प्रकार आ  
प्रमाणे छे— 'समुच्छिम जलयर,, गवभवक्कतिय जलयर' (१) समुच्छिम जलचर  
तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) गर्भव्युत्क्रान्तिक (गर्भज)  
जलचर तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल.

पृच्छा ? तेषां कतिमदाः ? इति प्रश्न मगवानाह—‘गोयमा ! दुषिहा पण्णात्ता’ हे गौतम ! स्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः द्विविधाः प्रहृष्टा, ‘त जहा’ तद्यथा—‘अउप्ययथलयर०, परिसप्ययलयर०’ अतुप्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, परिसर्पस्थलचरतिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता इ । ‘अउप्ययथलयर० पृच्छा’ अतुप्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताना पुद्गलानां पृच्छा ? तथा च ते अतुप्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता कतिविधाः प्रहृष्टाः ? मगवानाह—‘गोयमा ! दुषिहा पण्णात्ता’ हे गौतम ! ते अतुप्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गला द्विविधा प्रहृष्टाः, ‘त जहा’—तद्यथा—‘समुच्छिमअउप्ययथलयर०, गग्गमवक्कत्तियचउप्ययथलयर०’ समुप्रयोगपरिणत पुद्गल कित्तने प्रकारे कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘दुषिहा पण्णात्ता’ स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं ‘तजहा’ वे ये हैं ‘अउप्यय थलयर परिसप्ययलयर’ अतुप्पदस्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल और परिसर्पस्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल, अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं ‘अउप्यय थलयर० पृच्छा’ हे भदन्त ! अतुप्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल कित्तने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘दुषिहा पण्णात्ता’ अतुप्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोग परिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं । ‘तजहा’ वे ये हैं ‘समुच्छिम अउप्यय थलयर० गग्गमवक्कत्तियचउप्यय

गौतम स्वामीना प्रश्न—‘अउप्ययथलयर० पृच्छा’ के अन्त ! स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल डेटवा प्रकार कया छे ?

उत्तर—‘दुषिहा पण्णात्ता-तजहा’ के गौतम ! स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे अभावे ने प्रकार कया छे—‘अउप्यय थलयर, परिसप्य थलयर’ (१) अतुप्पद (अपेय) स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) परिसर्प स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

गौतम स्वामीना प्रश्न—‘अउप्यय थलयर० पृच्छा’ के अन्त ! अतुप्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना डेटवा प्रकार कया छे ?

उत्तर—‘गोयमा !’ के गौतम ! ‘दुषिहा पण्णात्ता-तजहा’ अतुप्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे अभावे ने प्रकार कया छे—

च्छिन्नचतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताः, गर्भव्युत्क्रान्तिक-  
चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकप्रयोगपरिणताश्च । ' एवं एएणं अभि-  
लावेणं परिसप्पा दुविहा पणत्ता' एवम् चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकवदेव एतेन  
अभिलापेन=उपर्युक्ताभिलापक्रमेण परिसर्पाः परिसर्पस्थलचरतिर्यग्योनिक-  
पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पुद्गलाः द्विधाः प्रज्ञप्ताः, तानेवाह-'तंजहा'-  
तद्यथा-'उरपरिसप्पा य भुजपरिसप्पा य' उरःपरिसर्पाश्च, उरसा वक्षःस्थलेन  
परिसर्पन्ति गच्छन्तीति उरःपरिसर्पाः सर्पादयः, भुजपरिसर्पाश्च, भुजाभ्यां  
परिसर्पन्तीति भुजपरिसर्पाः गोधानकुलादयः । 'उरपरिसप्पा दुविहा पणत्ता'  
उरःपरिसर्पाः द्विविधाः प्रज्ञप्ताः 'तं जहा' तद्यथा-'संमुच्छिन्ना य, गवभवक्कं-

प्यथलयर०' संमुच्छिन्न चतुष्पद स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यग्यो-  
निक प्रयोग परिणत एव गर्भव्युत्क्रान्तिक चतुष्पद स्थलचर पचेन्द्रिय  
तिर्यग्योनिक प्रयोग परिणत पुद्गल 'एव एएणं अभिलावेणं परिस-  
प्पा दुविहा पणत्ता' चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक की तरह ही इस  
उपर्युक्त अभिलापक्रमसे परिसर्प स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक  
प्रयोग परिणत भी पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं । 'तंजहा' जो  
इस प्रकारसे हैं । 'उरपरिसप्पाय भुजपरिसप्पाय' एक उरः परिसर्प  
दूसरा भुज परिसर्प उरःपरिसर्प वक्षस्थलसे सरकते हैं जैसे सर्प  
आदि, और भुजपरिसर्प भुजाओंके बलसे चलते हैं जैसे गोधा नकुल  
आदि इनमें 'उरपरिसप्पा दुविहा पणत्ता' उरः परिसर्प दो प्रकार  
के कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'संमुच्छिन्नाय गवभव-

'संमुच्छिन्न चतुष्पदस्थलचर०, गवभवक्कतिय चतुष्पद स्थलचर०' [१] संमुच्छिन्न  
चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक पचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल अने [२] गर्भव्युत्क्रान्तिक  
[गर्भं] चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक पचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल 'एव एएणं  
अभिलावेण परिसप्पा दुविहा पणत्ता' चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक की  
उपर्युक्त अभिलापक्रमसे परिसर्प स्थलचर पचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक  
प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकार कहे गये हैं 'तंजहा' ते दो प्रकार आ प्रमाणे छे- 'उरपरिसप्पाय  
भुजपरिसप्पाय य' [१] उर परिसर्प अने [२] भुज परिसर्प सर्पा आदिने उर. परिसर्प  
स्थलचर कहे छे, ते छातीथी सरके छे अेक नतनी धो, नोणिया आदिने भुजपरिसर्प  
कहे छे तेआ भुजस्थली अणथी सरके छे 'उरपरिसप्पा दुविहा पणत्ता-तंजहा-'  
तेआथी उर. परिसर्पना दो प्रकारे नीचे प्रमाणे कहे छे- 'संमुच्छिन्ना य, गवभव-

पृच्छा ? तेषां कतिमदा ? इति प्रश्न भगवानाह—‘गायमा ! दुषिहा पण्णात्ता’  
 हे गौतम ! स्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता द्विविधाः प्रदप्ता,  
 ‘त जहा’ तद्यथा—‘चउप्पययल्लयर०, परिसप्पयल्लयर०’ चतुप्पदस्थलचर  
 तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, परिसर्पम्भल्लचर तिर्यग्योनिक पञ्चे  
 न्द्रियप्रयोगपरिणता अ । ‘चउप्पययल्लयर० पुच्छा’ चतुप्पदस्थलचर  
 तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतानां पुद्गलानां पृच्छा ? तथा च ते चतु  
 प्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता कतिविधा प्रदप्ता ?  
 भगवानाह—‘गायमा ! दुषिहा पण्णात्ता’ हे गौतम ! ते चतुप्पदस्थलचर  
 तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला द्विविधा प्रदप्ता, ‘त जहा’-  
 तद्यथा - ‘समुच्छिमचउप्पययल्लयर०, गम्मयककतियचउप्पययल्लयर०’ समु  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल किन्तु प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रसु कहते  
 हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘दुषिहा पण्णात्ता’ स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्य  
 ग्योनिकप्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं ‘तजहा’ वे ये हैं  
 ‘चउप्पय यल्लयर परिसप्पयल्लयर’ चतुप्पदस्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल और परिसर्प स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोग  
 परिणत पुद्गल, अथ गौतमस्वामी प्रसुसे ऐसा पूछते हैं ‘चउप्पय  
 यल्लयर० पुच्छा’ हे मनुज ! चतुप्पद स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय  
 प्रयोग परिणत पुद्गल किन्तु प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रसु  
 कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘दुषिहा पण्णात्ता’ चतुप्पद स्थलचर  
 पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोग परिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये  
 हैं । ‘तजहा’ वे ये हैं ‘समुच्छिम चउप्पय यल्लयर० गम्मयककतियचउ

औतम स्वामीने अह— ‘धम्मपरतिरिससु पुच्छा’ के अन्त । स्थलचर  
 पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं ?

उत्तर— ‘दुषिहा पण्णात्ता-तजहा’ के औतम ! स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गलाना नीचे प्रमाणों में प्रकार कहे गये— ‘चउप्पय यल्लयर, परिसप्प  
 यल्लयर’ (१) चतुप्पद (चोपद) स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल  
 अथ (२) परिसर्प स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

औतम स्वामीने अह— ‘चउप्पय यल्लयर० पुच्छा’ के अन्त । चतुप्पद  
 स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलाना दो प्रकारके कहे गये हैं ?

उत्तर— ‘गायमा !’ के औतम ! ‘दुषिहा पण्णात्ता-तजहा’ चतुप्पद स्थलचर  
 तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलाना नीचे प्रमाणों में प्रकार कहे गये—

मणुस्स०' संमूर्च्छिममनुष्यपचेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्य-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । गौतमः पृच्छति- 'देवपंचेन्द्रियपओगपुच्छा' देव-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोग० पृच्छा ? एवं च - देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह- 'गोयमा ! चउव्विहा पणत्ता' हे गौतम !  
चतुर्विधा देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता, प्रज्ञप्ताः, तानेवाह- 'तं जहा' तत्रथा-  
' भवणवासिदेवपंचिन्द्रियपओग०, एवं जाव वेमाणिया' भवनवासि- देव-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, एवं यावत् - वानव्यन्तरदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
ज्योतिषिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः वैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च ।  
' भवणवासिदेवपंचिन्द्रिय पुच्छा' भवनवासिदेव पञ्चेन्द्रिय० पृच्छा, तथा

संमूर्च्छिम मनुष्य पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल और दूसरे  
गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल. अब गौतम  
प्रश्नुसे ऐसा पूछते हैं 'देवपंचिन्द्रियपओगपुच्छा' हे भदन्त ! देवपञ्चे  
न्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें  
प्रश्नु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'चउव्विहा पणत्ता' देवपंचेन्द्रिय  
प्रयोग परिणत पुद्गल चार प्रकारके कहे गये हैं । 'तंजहा' जो इस  
प्रकार से हैं ' भवणवासि देवपंचिन्द्रियपओग., एव जाव वेमाणिया'  
भवनवासी देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल, वानव्यन्तर देव-  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल, ज्योतिषिक देवपंचेन्द्रिय प्रयोग परि-  
णत पुद्गल, और वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल  
' भवणवासिदेव पंचिन्द्रिय पुच्छा' हे भदन्त ! भवनपतिदेव पचेन्द्रिय

पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने [२] गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल.

गौतम स्वामीने प्रश्न- ' देव पंचिन्द्रियपओग. पुच्छा' हे भदन्त !  
देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारना कथा छे ?

उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'चउव्विहा पणत्ता' देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गल चार प्रकारना कथा छे 'तंजहा' ते चार प्रकारे नीचे प्रमाणे छे-  
' भवणवासि देव पंचिन्द्रिय पओग०, एव जाव वेमाणिया' भवनवासी देव  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल, [२] वानव्यन्तर देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल,  
[३] ज्योतिषिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने [४] वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गल

गौतम स्वामीने प्रश्न- ' भवणवासि देव पंचिन्द्रिय पुच्छा' हे भदन्त !  
भवनपति देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारना कथा छे ?

त्रिया य' समूर्च्छिमाश्च गमभ्युत्क्रान्तिकाश्च 'एष ह्यपरिस्रप्ता वि' एषम्=  
 उरपरिस्रपत्तं सुजपरिस्रपा अपि समूर्च्छिम-गर्मभ्युत्क्रान्तिकमदन द्विविधा  
 प्रकृताः । 'एष खड्गपरा वि' एषम्=जलपर-स्थलपर-तिर्यग्योनिकप्रदस खेचरा  
 अपि=खेचरतिर्यग्योनिकप्रदोन्त्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला अपि समू  
 च्छिम-गर्मभ्युत्क्रान्तिकमदन द्विविधाः प्रकृताः । गौतमः पृच्छति-'मणु  
 म्परिचिदियपभागं पुच्छा ?' मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोग पृच्छा, तथा च  
 मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता मन्त पत्रिविधा प्रकृता ? महाशानाह-  
 'गायमा ! द्विविधा पण्णात्' इ गौतम ! मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता  
 द्विविधा प्रकृता, 'त जहा'-तत्रया-'समूर्च्छिममणुस्म' गन्मयकृतिय

कृतिया य' एक समूर्च्छिम औ गमर गर्भभ्युत्क्रान्तिक गर्भज 'एष  
 सुपरिस्रप्ता वि' उर परिस्रपकी तरह सुजपरिस्रप भी समूर्च्छिम  
 औ गर्भभ्युत्क्रान्तिकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं । (एष खेच  
 रा वि) जलपर स्थलपर तिर्यग्योनिक की तरह ही खेचर तिर्यग्यो  
 निक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल भी समूर्च्छिम एष गर्भभ्युत्क्रान्  
 तिकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं । अथ गौतमस्वामी मनु  
 सेमा पृच्छते है 'मणुम्परिचिदियपभागपुच्छा' इ मन्त ! मनु  
 पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल किसने प्रकारके कहे गये हैं  
 उच्यते मनु कहते हैं 'गायमा' है गौतम ! 'द्विविधा पण्णात्' मनु  
 पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल दो प्रकारसे कहे गये हैं 'तंजहा  
 जा इम प्रकारसे है 'समूर्च्छिम मणुस्म गन्मयकृतिय मणुस्म' ए

कृतिया य' [१] समूर्च्छिम अने [२] गर्भभ्युत्क्रान्तिक [जलपर] 'ए  
 सुपरिस्रप्ता वि' के ल प्रमाणे सुज परिस्रपना पणु के प्रकार है- [१] समूर्च्छि  
 मने [२] गर्भभ्युत्क्रान्तिक ना दोधा के प्रकारना कथा है 'एष खड्गपरा वि  
 खेचर अने स्थलपर निव व्योनिहनी जम अंतर निव व्योनिह पञ्चेन्द्रिय प्र  
 पत्रिभु पुद्गलना पणु समूर्च्छिम अने गर्भभ्युत्क्रान्तिक दोधा के प्रकार कथा है  
 नीतम स्वार्थिना प्र- 'मणुम् परिचिदियपभागपुच्छा' के ल  
 मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल प्रकृता प्रकृता कथा है ?  
 मन्तपर प्रथुना उच्यते- 'गायमा !' है गौतम ! 'द्विविधा पण्णात्' म  
 पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकारना कथा है 'तंजहा' ने के प्रकृता  
 प्रमाणे है- 'समूर्च्छिममणुस्म' गन्मयकृतिय मणुस्म' [१] समूर्च्छिम म

मणुस्स०' संमूर्च्छिममनुष्यपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्य-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । गौतमः पृच्छति— ' देवपंचेन्द्रियपओगपुच्छा ' देव-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोग० पृच्छा ? एवं च - देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—'गोयमा ! चउव्विहा पणत्ता' हे गौतम !  
चतुर्विधा देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता, प्रज्ञप्ताः, तानेवाह—'तं जहा ' तद्यथा—  
' भवणवासिदेवपंचिन्द्रियपओग०, एवं जाव वेमाणिया ' भवनवामि— देव-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, एवं यावत् - वानव्यन्तरदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
ज्योतिषिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः वैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च ।  
' भवणवासिदेवपंचिन्द्रिय पुच्छा ' भवनवासिदेव पञ्चेन्द्रिय० पृच्छा, तथा

संमूर्च्छिम मनुष्य पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल और दूसरे  
गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल. अब गौतम  
प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'देवपंचिन्द्रियपओगपुच्छा' हे भदन्त ! देवपञ्चे  
न्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें  
प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'चउव्विहा पणत्ता' देवपंचेन्द्रिय  
प्रयोग परिणत पुद्गल चार प्रकारके कहे गये हैं । 'तंजहा' जो इस  
प्रकार से हैं ' भवणवासि देवपंचिन्द्रियपओग., एव जाव वेमाणिया '  
भवनवासी देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल, वानव्यन्तर देव-  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल, ज्योतिषिक देवपंचेन्द्रिय प्रयोग परि-  
णत पुद्गल, और वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल  
'भवणवासिदेव पंचिन्द्रिय पुच्छा' हे भदन्त ! भवनपतिदेव पञ्चेन्द्रिय

पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने [२] गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल.

गौतम स्वामीने प्रश्न— ' देव पंचिन्द्रियपओग. पुच्छा ' हे भदन्त !

देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये ?

उत्तर— 'गोयमा !' हे गौतम ! 'चउव्विहा पणत्ता' देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गल चार प्रकारके कहे गये 'तंजहा' के चार प्रकारके नीचे प्रमाणों से—  
'भवणवासि देव पंचिन्द्रिय पओग०, एव जाव वेमाणिया' भवनवासी देव  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल, [२] वानव्यन्तर देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल,  
[३] ज्योतिषिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने [४] वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गल.

गौतम स्वामीने प्रश्न— ' भवणवासि देव पंचिन्द्रिय पुच्छा ' हे भदन्त !  
भवनपति देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये ?



तिया य' समूर्च्छिमाम गमव्युत्क्रान्तिपाथ 'एष भुयपरिसप्पा वि' एषम्= उरःपरिसर्पवत् भुजपरिमर्पा अपि समूर्च्छिम-गर्मव्युत्क्रान्तिप्रभेदेन द्विविधाः प्रकृताः । 'एव सुह्यरा वि' एषम्=जलधर-स्थलधर-तिर्यग्योनिकप्रदेश खेचरा अपि=खेचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गला अपि समूर्च्छिम-गर्मव्युत्क्रान्तिकप्रभेदेन द्विविधाः प्रकृताः । गौतमः पृच्छति-'मणुस्सर्पचिदियपओग० पुच्छा ?' मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोग पृच्छा, तथा च मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः भदन्त कतिषिधा प्रकृता ? मगनानाह-'गोयमा ! दुविहा पण्णाचा' हे गौतम ! मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः द्विविधाः प्रकृताः, 'तं महा'-सुयया-'समुच्छिममणुस्स० गन्मवककतिय

कतिया य' एक समूर्च्छिम और दूसरे गर्मव्युत्क्रान्तिक गर्मज 'एष भुयपरिसप्पा वि' उरः परिसर्पकी तरह भुजपरिमर्प भी समूर्च्छिम और गर्मव्युत्क्रान्तिकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं । (एवं सुह्यरा वि) जलधर स्थलधर तिर्यग्योनिक की तरह ही खेचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल भी समूर्च्छिम एष गर्मव्युत्क्रान्तिकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं । अथ गौतमस्वामी मणुसे ऐसा पूछते हैं 'मणुस्सर्पचिदियपओगपुच्छा' हे भदन्त ! मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें मणु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'दुविहा पण्णाचा' मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल दो प्रकारसे कहे गये हैं 'तजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'समुच्छिम मणुस्स गन्मवककतिय मणुस्स' एक

कतिया य' [१] समूर्च्छिम अने [२] गर्मव्युत्क्रान्तिक [गर्मज] 'एष भुयपरिसप्पा वि' के अन्तर्गत भुजपरिमर्प पक्ष के प्रकार हैं- [१] समूर्च्छिम अने [२] गर्मव्युत्क्रान्तिक ना खेचरी के प्रकारना कहा है 'एव सुह्यरा वि' जलधर अने स्थलधर तिर्यग्योनिकनी अने खेचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गलना पक्ष समूर्च्छिम अने गर्मव्युत्क्रान्तिना खेचरी के प्रकार कहा है गौतम स्वामीना अने 'मणुस्स सर्पचिदियपओगपुच्छा' के अन्तर्गत मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकारना कहा है ? महावीर मणुने उत्तर- 'गोयमा !' के गौतम ! 'दुविहा पण्णाचा' मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल के प्रकारना कहा है 'तजहा' के अन्तर्गत भी प्रकृति है- 'समुच्छिममणुस्स० गन्मवककतिय मणुस्स' [१] समूर्च्छिम मनुष्य

मणुस्स०' संमूर्च्छिममनुष्यपचेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्य-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । गौतमः पृच्छति— ' देवपंचेन्द्रियपओगपुच्छा ' देव-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोग० पृच्छा ? एवं च - देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—'गोयमा ! चउव्विहा पणत्ता' हे गौतम !  
चतुर्विधा देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, प्रज्ञप्ताः, तानेवाह—'तं जहा' तद्यथा—  
' भवणवासिदेवपंचिन्द्रियपओग०, एवं जाव वेमाणिया ' भवनवासि— देव-  
पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, एवं यावत् - वानव्यन्तरदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
ज्योतिषिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः वैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च ।  
' भवणवासिदेवपंचिन्द्रिय पुच्छा ' भवनवासिदेव पञ्चेन्द्रिय० पृच्छा, तथा

संमूर्च्छिम मनुष्य पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल और दूसरे  
गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्यपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल. अब गौतम  
प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'देवपंचिन्द्रियपओगपुच्छा' हे भदन्त ! देवपञ्चे  
न्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें  
प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'चउव्विहा पणत्ता' देवपंचेन्द्रिय  
प्रयोग परिणत पुद्गल चार प्रकारके कहे गये हैं । 'तंजहा' जो इस  
प्रकार से हैं 'भवणवासि देवपंचिन्द्रियपओग., एव जाव वेमाणिया'  
भवनवासी देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल, वानव्यन्तर देव-  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल, ज्योतिषिक देवपंचेन्द्रिय प्रयोग परि-  
णत पुद्गल, और वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल  
'भवणवासिदेव पंचिन्द्रिय पुच्छा' हे भदन्त ! भवनपतिदेव पञ्चेन्द्रिय

पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने [२] गर्भव्युत्क्रान्तिक मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल.

गौतम स्वामीने प्रश्न— ' देव पंचिन्द्रियपओग. पुच्छा ' हे भदन्त !  
देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारना कथा छे ?

उत्तर— 'गोयमा !' हे गौतम ! 'चउव्विहा पणत्ता' देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गल चार प्रकारना कथा छे 'तंजहा' ते चार प्रकारे नीचे प्रमाणे छे—  
'भवणवासि देव पंचिन्द्रिय पओग०, एव जाव वेमाणिया' भवनवासी देव  
पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल, [२] वानव्यन्तर देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल,  
[३] ज्योतिषिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने [४] वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गल.

गौतम स्वामीने प्रश्न— ' भवणवासि देव पंचिन्द्रिय पुच्छा ' हे भदन्त !  
भवनपति देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारना कथा छे ?

च भवनपतिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गलाः कृतिविधाः प्रहृष्टा ? भगवानाह - 'गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता' हे गौतम ! भवनपतिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः दसविधाः प्रहृष्टाः 'त जहा' - तद्यथा- 'असुरकुमारा जाव यणियकुमारा' असुरकुमाराः १, यावत् - नागकुमारा २, सुवर्णकुमाराः ३, विष्णुकुमाराः ४, अग्निकुमाराः ५, द्वीपकुमारा ६, उदधि-कुमाराः ७, विष्णुकुमारा ८, वायुकुमाराः ९, स्तनितकुमाराः १० । 'एषं एषण अमिलावेणअट्टविहा घाणमतरा-पिसाया जाव गण्णत्ता' एष रीत्या एतेन अमिलावेण उक्तमवनवास्यालापक्रमेण अष्टविधा वानव्यन्तराः प्रहृष्टाः, तद्यथा-पिशाचा १ यावत् मूताः २, यक्षाः ३, राक्षसाः ४, किन्नराः ५, किम्बुरुपाः ६, महोरगा ७, गन्धर्वाः ८, । 'जोइसिया पचविहा पण्णत्ता' ज्योतिषिकः पञ्चेविधाः प्रहृष्टाः 'त जहा' - तद्यथा- 'खंदिमाणनोइसियं नाम वाराविमाणनोइ

प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! भवनपति देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल 'दसविहा पण्णत्ता' दस प्रकारके कहे गये हैं । 'तजहा' वे इस प्रकार से हैं असुरकुमारा जाव यणियकुमारा' असुरकुमार नागकुमार, सुवर्णकुमार, विष्णुकुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधि कुमार, विष्णुकुमार, वायुकुमार और स्तनितकुमार । 'एष एषण अमिलावेण अट्टविहा घाणमतरा पिसाया जाव गण्णत्ता, इस उक्त भवनवासीके आलापक क्रमके अनुसार आठ प्रकारके वानव्यन्तर कहे गये हैं । जो इस प्रकारसे हैं पिशाच मृत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्बुरुष, महोरग और गधध, 'जोइसिया पचविहा पण्णत्ता' ज्योतिषिक पाँच प्रकारके कहे गये हैं जो इस प्रकारसे हैं 'खंदिमाण

उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'दसविहा पण्णत्ता-तजहा' भवनपतिदेव

पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलानां नीचे प्रमाणे इस प्रकार कहे हैं- 'असुरकुमारा जाव यणियकुमारा' (१) असुरकुमार, (२) नागकुमार (३) सुवर्णकुमार (४) विष्णुकुमार, (५) अग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, (७) उदधिकुमार (८) विष्णुकुमार (९) वायुकुमार अने (१०) स्तनितकुमार पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल. 'एष एषण अमिलावेण अट्टविहा घाणमतरा पिसाया जाव गण्णत्ता' उपर्युक्त भवनपतिदेव आलापक क्रमानुसार वानव्यन्तर देवे पक्ष आठ प्रकारके कहे हैं- (१) पिशाच (२) यक्ष (३) मृत, (४) राक्षस, (५) किन्नर (६) किम्बुरुष (७) महोरग अने (८) गधध 'जोइसिया पचविहा पण्णत्ता' ज्योतिषिक देवानां नीचे प्रमाणे पाँच प्रकार के-

सियदेव० ' चन्द्रविमानज्योतिषिकदेवाः यावत् सूर्यविमानज्योतिषिकदेवाः, ग्रहविमानज्योतिषिकदेवाः नक्षत्रविमानज्योतिषिकदेवाः, ताराविमानज्योतिषिकदेवाः, इति । एवं ' वेमाणिया दुविहा पणत्ता ' वैमानिक-देवा द्विविधाः प्रज्ञप्ताः ' तं जहा '-तद्यथा-' कप्पोववन्नग० कप्पातीय-गवेमाणि० ' कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवाः, कल्पातीतकवैमानिकदेवाः । ' कप्पो-वगा दुवालसविहा पणत्ता' कल्पोपपन्नकाः वैमानिकदेवाः षाडशविधाः प्रज्ञप्ताः 'त जहा-' तद्यथा-' सौहम्मकप्पोववन्नग० जाव अच्चुयकप्पोववन्नगवेमा-णिया ' - सौधर्मकल्पोपपन्नकवैमानिकदेवाः १, यावत्-ईशानकल्पोपपन्नकाः २, सनत्कुमारकल्पोपपन्नकाः ३, माहेन्द्रकल्पोपपन्नकाः ४, ब्रह्मलोककल्पोप-पन्नकाः ५, लान्तककल्पोपपन्नकाः ६, महाशुककल्पोपपन्नकाः ७, सहस्रार-

जोइसिय जाव तारा विमाण जोइसिय देव,' चंद्रविमान ज्योतिषिक-देव सूर्यविमान ज्योतिषिक देव, ग्रहविमान ज्योतिषिक देव, नक्षत्र-विमान ज्योतिषिकदेव, तारा विमान ज्योतिषिकदेव एवं वेमाणिया दुविहा पणत्ता' वैमानिक देव दो प्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकार से हैं 'कप्पोववन्नग कप्पातीयग वेमाणिय' कल्पोपपन्न वैमा-निक देव, और कल्पातीत वैमानिक देव 'कप्पोवगा दुवालसविहा पणत्ता' कल्पोपपन्न वैमानिक देव १२ वारहप्रकारके कहे गये हैं 'तजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'सौहम्मकप्पोववन्नग०, जाव अच्चुयकप्पोववन्नग-वेमाणिया' सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिक ईशानकल्पोपपन्नक देव, सनत्कुमार कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, माहेन्द्र कल्पोपपन्नक वैमानिक-

' चंद्रविमाण जोइसिय, जाव ताराविमाण जोइसिय देव. ' (१) चन्द्रविमान न्योतिषिक देव, (२) सूर्यविमान न्योतिषिक देव, (३) ग्रहविमान न्योतिषिक देव, (४) नक्षत्रविमान न्योतिषिक देव अने (५) ताराविमान न्योतिषिक देव 'एवं वेमाणिया दुविहा पणत्ता' ये १२ रीते वैमानिक देवाना के प्रकार कथा छे

'तंजहा' ते के प्रकारे नीचे प्रमाणे-'कप्पोववन्नग. कप्पातीयग वेमाणिय०.' (१) कल्पोपन्न वैमानिक देवो अने (२) कल्पातीत वैमानिक देवो. 'कप्पोवगा दुवाल-सविहा पणत्ता' कल्पोपपन्न वैमानिक देवाना आर प्रकार कथा छे. 'त जहा' ते आर प्रकार नीचे प्रमाणे छे-'सौहम्मकप्पोववन्नग०, जाव अच्चुयकप्पोववन्नगवेमाणिया' (१) सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (२) ईशान कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (३) सनत्कुमार कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (४) माहेन्द्रकल्पोपपन्न वैमानिक देव, (५)

ष भवनपतिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः कतिविधाः प्रश्न्याः ? भगवानाह - 'गोयमा ! दसविहा पण्णचा' हे गौतम ! भवनवासिदेव-पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः दसविधाः प्रश्न्याः 'तं जहा' - तद्यथा- 'असुरकुमारा जाव यणियकुमारा' असुरकुमाराः १, यावत् - नागकुमारा २, सुवर्णकुमाराः ३, विपुत्कुमाराः ४, अग्निकुमाराः ५, ग्रीपकुमारा ६, उदधि कुमाराः ७, दिक्कुमाराः ८, वायुकुमाराः ९, स्तनितकुमाराः १० । 'एष पण्ण अमिलावेण अट्टविहा षाणमंतरा-पिसाया जाव गण्णचा' एव रीत्या एतन् अमिलापेन उक्तमवनवास्यालापकक्रमेण अष्टविधाः वानस्पन्तराः प्रश्न्याः, तद्यथा-पिशाचा १ यावत् भूताः २, यक्षाः ३, राक्षसाः ४, किन्नराः ५, किम्पुरुपाः ६ महोरगाः ७, गन्धर्वाः ८, । 'जोइसिया पचविहा पण्णचा' ज्योतिषिका पञ्चेविधाः प्रश्न्याः 'तं जहा' - तद्यथा- 'चंदिमाणमाइसियं चाव ताराधिमाणमाइ

प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! भवनपति देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल 'दसविहा पण्णचा' दस प्रकारके कहे गये हैं । 'तंजहा' वे इस प्रकार से हैं असुरकुमारा जाव यणियकुमारा' असुरकुमार नागकुमार, सुवर्णकुमार, विपुत्कुमार, अग्निकुमार, ग्रीपकुमार, उदधि कुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार और स्तनितकुमार । 'एष पण्ण अमिलावेण अट्टविहा षाणमंतरा पिसाया जाव गण्णचा, इस उक्त भवनवासीके आलापक क्रमके अनुसार आठ प्रकारके वानस्पन्तर कहे गये हैं । जो इस प्रकारसे हैं पिशाच भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग और गन्धर्व, 'जोइसिया पचविहा पण्णचा' ज्योतिषिक पाँच प्रकारके कहे गये हैं जो इस प्रकारसे हैं 'चंदिमाण

उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'दसविहा पण्णचा-तंजहा' भवनपतिदेव

पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रभाषे इस प्रकार कहा है- 'असुरकुमारा जाव यणियकुमारा' (१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुवर्णकुमार (४) विपुत्कुमार, (५) अग्निकुमार, (६) ग्रीपकुमार, (७) उदधिकुमार (८) दिक्कुमार, (९) वायुकुमार अने (१०) स्तनितकुमार पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल 'एष पण्ण अमिलावेण अट्टविहा षाणमंतरा पिसाया जाव गण्णचा' उपर्युक्त भवनपतिना आलापक क्रमानुसार वानस्पन्तर हेतुः पद्य आठ प्रकारना कहा है- (१) पिशाच (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) किन्नर (६) किम्पुरुष (७) महोरग अने (८) गन्धर्व 'जोइसिया पचविहा पण्णचा' ज्योतिषिक हेतुना नीचे प्रभाषे पाँच प्रकार के-

सियदेव० ' चन्द्रविमानज्योतिषिकदेवाः यावत् सूर्यविमानज्योतिषिकदेवाः, ग्रहविमानज्योतिषिकदेवाः नक्षत्रविमानज्योतिषिकदेवाः, ताराविमानज्योतिषिकदेवाः, इति । एवं ' वेमाणिया दुविहा पणत्ता ' वैमानिक-देवा द्विविधाः प्रज्ञप्ताः ' तं जहा '-तद्यथा-' कप्पोववन्नग० कप्पातीय-गवेमाणि० ' कल्पोपपन्नकवैमानिकदेवाः, कल्पातीतकवैमानिकदेवाः । ' कप्पो-वगा दुवालसविहा पणत्ता' कल्पोपपन्नकाः वैमानिकदेवाः द्वादशविधाः प्रज्ञप्ताः 'त जहा-' तद्यथा-' सोहम्मकप्पोववन्नग० जाव अच्चुयकप्पोववन्नगवेमा-णिया ' - सौधर्मकल्पोपपन्नकवैमानिकदेवाः १, यावत्-ईशानकल्पोपपन्नकाः २, सनत्कुमारकल्पोपपन्नकाः ३, माहेन्द्रकल्पोपपन्नकाः ४, ब्रह्मलोककल्पोप-पन्नकाः ५, लान्तककल्पोपपन्नकाः ६, महाशुक्रकल्पोपपन्नकाः ७, सहस्रार-

जोइसिय जाव तारा विमाण जोइसिय देव,' चंद्रविमान ज्योतिषिक-देव सूर्यविमान ज्योतिषिक देव, ग्रहविमान ज्योतिषिक देव, नक्षत्र-विमान ज्योतिषिकदेव, तारा विमान ज्योतिषिकदेव एवं वेमाणिया दुविहा पणत्ता' वैमानिक देव दो प्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकार से हैं 'कप्पोववन्नग कप्पातीयग वेमाणिय' कल्पोपपन्न वैमा-निक देव, और कल्पातीत वैमानिक देव 'कप्पोवगा दुवालसविहा पणत्ता' कल्पोपपन्न वैमानिक देव १२ बारहप्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'सोहम्मकप्पोववन्नग०, जाव अच्चुयकप्पोववन्नग-वेमाणिया' सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिक ईशानकल्पोपपन्नक देव, सनत्कुमार कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, माहेन्द्र कल्पोपपन्नक वैमानिक-

' चंद्रविमाण जोइसिय, जाव ताराविमाण जोइसिय देव. ' (१) चन्द्रविमान ज्योतिषिक देव, (२) सूर्यविमान ज्योतिषिक देव, (३) ग्रहविमान ज्योतिषिक देव, (४) नक्षत्रविमान ज्योतिषिक देव अने (५) ताराविमान ज्योतिषिक देव 'एवं वेमाणिया दुविहा पणत्ता' के १२ रीते वैमानिक देवाना के प्रकार कथा छे

'तंजहा' ते के प्रकारे नीचे प्रमाणे-'कप्पोववन्नग. कप्पातीयग वेमाणिय०.' (१) कल्पोपपन्न वैमानिक देवे अने (२) कल्पातीत वैमानिक देवे 'कप्पोवगा दुवाल-सविहा पणत्ता' कल्पोपपन्न वैमानिक देवाना आर प्रकार कथा छे 'त जहा' ते आर प्रकार नीचे प्रमाणे छे-'सोहम्मकप्पोववन्नग०, जाव अच्चुयकप्पोववन्नगवेमाणिया' (१) सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (२) ईशान कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (३) सनत्कुमार कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (४) माहेन्द्रकल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (५)

कल्पोपपन्नकाः ८, आनतकल्पोपपन्नकाः ९, माप्यतकल्पोपपन्नकाः १०,  
 आरणकल्पोपपन्नका ११, अच्युतकल्पोपपन्नकाः वैमानिकदेवाः १२,  
 'कृष्पातीय० गोयमा ! दुविहा पण्णा' हे गौतम ! कल्पातीतकवैमानिक  
 देवाः द्विविधाः मद्गताः, 'तं जहा'-तयया-'गेवेज्जगकृष्पातीयवे० अणु-  
 चरोवनाइयकृष्पातीयवे०' श्रैवेयककल्पातीतकवैमानिकदेवा, अनुचरीपपातिक  
 कल्पातीतकवैमानिकदेवा, 'गेवेज्जगकृष्पातीयगा नवविहा पण्णा' श्रैवेयक-  
 कल्पातीतका वैमानिकदेवा नवविधाः मद्गता 'तं जहा' तयया- हेडिम-  
 हेडिमगेवेज्जगकृष्पातीयगवे०, जाष उवरिमउवरिमगेवेज्जगकृष्पातीय०'  
 अपस्तनापस्तनश्रैवेयककल्पातीतकवैमानिकदशास्त्रिकाः यावत् मध्यममध्यम

वेध, ब्रह्मलोक कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, छान्तक कल्पोपपन्नक वैमा-  
 निक वेध, महाशुक कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, सहस्रारकल्पोपपन्नक  
 वैमानिक वेध, आनत कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, माप्यतकल्पोपपन्नक  
 वैमानिकवेध' आरण कल्पोपपन्नकवैमानिकदेव, और अच्युतकल्पोपपन्नक  
 वैमानिक वेध, 'कृष्पातीय गोयमा दुविहा पण्णा' हे गौतम ! कल्पा-  
 तीत वैमानिक वेध दो प्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकार  
 से हैं 'गेवेज्जगकृष्पातीय वे० अणुचरोवनाइय कृष्पातीय वे०' श्रैवेयक  
 कृष्पातीतक वैमानिकवेध और अनुचरीपपातिक कल्पातीतक वैमानिक  
 वेध 'गेवेज्जगकृष्पातीयगा नवविहा पण्णा' श्रैवेयक कल्पातीतक वैमा-  
 निकवेध नौप्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'हेडिम  
 हेडिम गेवेज्जगकृष्पातीयग वे जाष उवरिम उवरिम गेवेज्जगकृष्पातीय'  
 अपस्तनापस्तन श्रैवेयक कृष्पातीत वैमानिकवेध, यावत् उपरिमोः

ब्रह्मलोक कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, (९) छान्तक कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध (१०)  
 महाशुक कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, (८) सहस्रार कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध (६)  
 आनत कल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, (१०) माप्यतकल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, (११)  
 अणुचरोवनाइयकल्पोपपन्नक वैमानिक वेध, (१२) अच्युतकल्पोपपन्नक वैमानिक वेध 'कृष्पातीय  
 गोयमा ! दुविहा पण्णा-तं जहा' हे गौतम ! कल्पातीत देवाना नीचे प्रमाणे से  
 प्रथम कथा है-गेवेज्जग कृष्पातीय वे० अणुचरोवनाइय कृष्पातीय वे०' (१)  
 श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक वेध जने (२) अनुचरीपपातिक कृष्पातीत वैमानिक वेध  
 'गेवेज्जगकृष्पातीयगा नवविहा पण्णा' श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देवाना नव  
 प्रथम कथा है 'तं जहा' ते नव प्रथम नीचे प्रमाणे से-हेडिम हेडिम गेवेज्जग-  
 कृष्पातीयग व जाष उवरिम उवरिम गेवेज्जगकृष्पातीय' श्रैवेयक नीचेना प्रथम श्रैवेयक  
 विधानोपपन्नक वेध श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक वेध उ ज्य मध्यम श्रैवेयक विधानोपपन्नक

ग्रैवेयककल्पातीतकवैमानिकदेवास्तिकाः, उपरिमोपरिमग्रैवेयककल्पातीतक-  
वैमानिकदेवास्तिकाः । गौतमः पृच्छति—‘अणुत्तरोववाइयकप्पातीयगवेमाणियदेव-  
पंचिदियपओगपरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ?’ हे भदन्त !  
अनुत्तरौपपातिककल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः कतिविधाः  
प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—‘गोयमा ! पंचविहा पणत्ता ’ हे गौतम ! अनु-  
त्तरौपपातिककल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः  
‘ त जहा - ’ तद्यथा - ‘ विजय-अणुत्तरोववाइय०, जाव परिणया  
जाव सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचिदियपओगपरिणया ’ विजयानुत्तरौप-

परिम ग्रैवेयक कल्पातीत वैमानिकदेव३ यहां यावत् शब्दसे मध्यम-  
मध्यम ग्रैवेयक कल्पातीत वैमानिकदेव३ ग्रहण किये गये हैं अब  
गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘अणुत्तरोववाइय कप्पातीयगवेमा-  
णिय देवपंचिदियपओग परिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता’  
हे भदन्त ! अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिकदेव पंचेन्द्रियप्रयोग-  
परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं  
‘गोयमा’ हे गौतम ? ‘पंचविहा पणत्ता’ अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत  
वैमानिक देवपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल पांच प्रकार के कहे  
गये हैं । ‘तजहा’ जो इस प्रकारसे हैं ‘विजय अणुत्तरोववाइय० जाव  
परिणया जाव सव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय देवपंचिदिय पओगपरिणया’  
विजय अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत, वैजयन्त अनु-  
त्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत जयन्त अनुत्तरौपपातिक

रहेता ग्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देवो उ, अने सौथी उपरना त्रयु ग्रैवेयक विमानोभा  
रहेता ग्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देवो उ आ रीते तेभना ८ प्रकार कइया छे  
गौतम स्वामीने प्रश्न— ‘ अणुत्तरोववाइयकप्पातीयगवेमाणियदेवपंचिदियपओग-  
परिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ?’ हे भदन्त ! अनुत्तरौपपातिक  
कल्पातीतवैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल केटला प्रकारना कइया छे ?

उत्तर—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘पंचविहा पणत्ता—त जहा’ अनुत्तरौपपातिक  
कल्पातीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणे पांच प्रकार  
कइया छे—‘विजय अणुत्तरोववाइय जाव परिणया, जाव सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय०  
देवपंचिदिय पओगपरिणया’ (१) विजय अनुत्तरौपपातिक देव पञ्चेन्द्रियप्रयोग  
परिणत, (२) वैजयन्त अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रिय प्रयोग परिणत, (३) जयन्त



कल्पोपपन्नकाः ८, आनतकल्पोपपन्नकाः ९, प्राप्यतकल्पोपपन्नकाः १  
 आरण्यकल्पोपपन्नकाः ११, अच्युतकल्पोपपन्नकाः वैमानिकदेवाः ।  
 'कल्पातीय० गोयमा ! दुविहा पण्यचा' हे गौतम ! कल्पातीतकल्पवैमा  
 देवाः द्विविधाः प्रहस्ता, 'सं जहा' -सयया- 'गेवेज्जगकल्पातीयवे० ।  
 चरोनवाइमकल्पातीयवे०' श्रैवेयककल्पातीतकल्पवैमानिकदेवा, अनुचरोपपा  
 कल्पातीतकल्पवैमानिकदेवा, 'गेवेज्जगकल्पातीयगा नवविहा पण्यचा' श्रैवे  
 कल्पातीतका वैमानिकदेवाः नवविधाः प्रहस्ता 'तं जहा' सयया- हे  
 हेद्विमगेवेज्जगकल्पातीयवे०, जाय उवरिमउवरिमगेवेज्जगकल्पाती  
 अपस्तनाऽपस्तनश्रैवेयककल्पातीतकल्पवैमानिकदेवास्त्रिकाः यावत् मध्यम

देव, प्रह्मलोक कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, सान्तक कल्पोपपन्नक  
 निक देव, महाशुक कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, सहस्रारकल्पोप  
 वैमानिक देव, आनत कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, प्राणतकल्पोप  
 वैमानिकदेव' आरण्य कल्पोपपन्नकवैमानिकदेव, और अच्युतकल्पोप  
 वैमानिक देव, 'कल्पातीय गोयमा दुविहा पण्यचा' हे गौतम !  
 तीत वैमानिक देव दो प्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस  
 सं हैं 'गेवेज्जगकल्पातीय वे० अनुचरोपपाय कल्पातीय वे०' श्रै  
 कल्पातीतक वैमानिकदेव और अनुचरोपपातिक कल्पातीतक दे  
 वय 'गेवेज्जगकल्पातीयगा नवविहा पण्यचा' श्रैवेयक कल्पातीतक  
 निकदेव नौप्रकारके कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकारसे हैं '  
 हेद्विम गेवेज्जगकल्पातीयगे वे जाय उवरिम उवरिम गेवेज्जगकल्प  
 अपस्तनापस्तन श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिकदेवसे, यावत् उ

प्रहस्तोऽहोपपन्नक वैमानिक देव, (९) सान्तक कल्पोपपन्नक वैमानिक दे  
 महाशुक कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (८) सहस्रार कल्पोपपन्न वैमानिक दे  
 आनत कल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (१०) प्राणतकल्पोपपन्नक वैमानिक देव  
 आरण्यकल्पोपपन्नक वैमानिक देव, (१२) अच्युतकल्पोपपन्नक वैमानिक देव 'कल्  
 गोयमा ! दुविहा पण्यचा-सं जहा' हे गौतम ! कल्पातीत देवान् नीचे प्रथ  
 प्रकार कहा है-गेवेज्जग कल्पातीय वे० अनुचरोपपाय कल्पातीय वे०  
 श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव आने (२) अनुचरोपपातिक कल्पातीत वैमा  
 'गेवेज्जगकल्पातीयगा नवविहा पण्यचा' श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक दे  
 प्रकार कहां है 'तं जहा' ते नव प्रकार नीचे आये हैं-हेद्विम हेद्विम  
 कल्पातीयगे व- जाय उवरिम उवरिम गेवेज्जगकल्पातीय' सीधी नीचे न  
 विमानोत्पत्तं कहेता श्रैवेयक कल्पातीत वैमानिक देव उ मध्य मध्यम श्रैवेयक (१

, चन्द्रादितारापर्यन्त-  
दियावत्-अच्युतपर्यन्त-  
रु-मध्यमत्रिक-उपरितन-  
मानाः ८१, प्रज्ञप्ताः  
२+९+५=८१ इति सर्व-  
इति फलितम् ॥सू. २॥

सुहृमपुढविकाइय०' इत्यादि ।  
गपरिणया णं भंते !

दुविहा पण्णत्ता-पज्ज-  
या य अपज्जत्तगसुहृम-  
त्यरपुढवीकाइयएगिंदिय०  
ब्रहा पोग्गला-सुहृमा य,  
गणियत्ता । वेइंदियपओग-  
ब्रहा पण्णत्ता, तं जहा-पज्ज-

के हैं । वानव्यन्तरदेव पिशाचसे  
हैं । ज्योतिषिकदेव चन्द्रसे लेकर  
। वैमानिकदेव सौधर्मसे लेकर  
के हैं । अधस्तनत्रिक मध्यमत्रिक  
एक नौप्रकारके हैं । अनुत्तर विजय  
इस तरह १०+३+७+५+५+२+१०+८  
कर एकासी भेद नामद्वारमें जीवोंके

अने गधर्व सुधीना ८ प्रकार छे । ज्योतिषिक देवोना  
पाय प्रकार छे वैमानिक देवोना सौधर्मथी लधने अच्युत  
अधस्तनत्रिक, मध्यमत्रिक अने उपरितनत्रिकना लेइथी  
प्रकार छे विजय आदि अनुत्तरविमानवासी देवोना पाय प्रकार  
७+५+५+२+१०+८+५+१२+६+५=८१ आ दीते नामद्वारमा  
॥ ८१ लेह थाय छे ॥सू० २॥



गन्धर्वपर्यन्तभेदेन वानव्यन्तरा देवा अष्टविधाः ५०, चन्द्रादितारापर्यन्त-  
भेदेन ज्योतिषिका देवा पञ्चविधाः ५५, सौधर्मादियावत्-अच्युतपर्यन्त-  
भेदेन वैमानिका देवाः द्वादशविधाः ६७, अधस्तनत्रिक-मध्यमत्रिक-उपरितन-  
त्रिकभेदेन नव ग्रैवेयकाः ७६, पञ्च अनुत्तरविमानाः ८१, प्रज्ञप्ताः  
१०+३+७+५+५+२+१०+८+५+१२+९+५=८१ इति सर्व-  
समेलनेन एकाशीतिर्भेदाः नामद्वारे जीवानां भवन्तीति फलितम् ॥ सू. २ ॥

अथ भेदद्वारनामक द्वितीयं दण्डक प्ररूपयितुमाह-‘सुहुमपुढविकाइय०’ इत्यादि ।

मूलम्-सुहुमपुढवीकाइयएगिंदियपओगपरिणया णं भंते !

पोग्गला कइविहा पणत्ता ? गोयसा ! दुविहा पणत्ता-पज्ज-  
त्तगसुहुमपुढवीकाइय - जाव - परिणया य अपज्जत्तगसुहुम-  
पुढवीकाइय-जाव-परिणया य । वायरपुढवीकाइयएगिंदिय०  
जाव-वणस्सइकाइया एक्केक्का दुविहा पोग्गला-सुहुमा य,  
वायरा य, पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा य भाणियवा । वेइंदियपओग-  
परिणया णं पुच्छा ? गोयसा ! दुविहा पणत्ता, तं जहा-पज्ज-

स्तनितकुमार तकके भेदसे १० प्रकारके हैं । वानव्यन्तरदेव पिशाचसे  
लेकर गन्धर्वतकके भेदसे ८ प्रकारके हैं । ज्योतिषिकदेव चन्द्रसे लेकर  
तारातकके भेदसे पांच प्रकारके हैं । वैमानिकदेव सौधर्मसे लेकर  
अच्युत तकके भेदसे १२ प्रकारके हैं । अधस्तनत्रिक मध्यमत्रिक  
और उपरितनत्रिकके भेदसे ग्रैवेयक नौप्रकारके हैं । अनुत्तर विजय  
आदिके भेदसे ५ प्रकारके हैं । इस तरह १०+३+७+५+५+२+१०+८  
५+१२+९+५=८१ सब मिलकर एकासी भेद नामद्वारमें जीवोंके  
होजाते हैं ॥ सू० २ ॥

वानव्यन्तर देवाना पिशाचथी लछने गधर्व सुधीना ८ प्रकार छे. ज्योतिषिक देवाना  
चन्द्रथी लछने तारा सुधीना पाय प्रकार छे वैमानिक देवाना सौधर्मथी लछने अच्युत  
पर्यन्तना आर प्रकार छे अधस्तनत्रिक, मध्यमत्रिक अने उपरितनत्रिकना लेइथी  
अवेयकवासी देवाना नव प्रकार छे विजय आदि अनुत्तरविमानवासी देवाना पाय प्रकार  
छे आ रीते १०+३+७+५+५+२+१०+८+५+१२+९+५=८१ आ रीते नामद्वारमा  
अथां भणीने छेवाना ८१ लेह थाय छे ॥ सू० २ ॥

त्तगर्वेदियपभोगपरिणया य, अपञ्जत्तगजावपरिणया य ।  
 एव तेइदिया वि । एव चउररदिया वि । रयणप्पभापुढवी  
 नेरइय० पुच्छा ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता,—त जहा—पञ्जत्त  
 गरयणप्पभापुढवीजावपरिणया य, अपञ्जत्तगजावपरिणया य,  
 एव जाव अहेसत्तमा । समुच्छिमजलयरतिरिक्खपुच्छा ?  
 गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पञ्जत्तग० अपञ्जत्तग० ।  
 एव गब्भवक्कतिया वि । समुच्छिमचउप्पयथलयरा, एव चैव  
 गब्भवक्कतियाय । एव जाव—समुच्छिमखहयरगब्भवक्कतिया  
 य एक्केक्के पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा य भाणियद्वा । समुच्छिम  
 मणुस्सपच्चिदिय० पुच्छा ? गोयमा ! एगविहा पण्णत्ता, अपञ्ज-  
 त्तगा चैव । गब्भवक्कतियमणुस्सपच्चिदिय० पुच्छा ? गोयमा ।  
 दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पञ्जत्तगगब्भवक्कतिया वि, अपञ्जत्त  
 गगब्भवक्कतिया वि । असुरकुमारभवणवासिदेवाण पुच्छा ?  
 गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा—पञ्जत्तगअसुरकुमार०  
 अपञ्जत्तगअसुरकुमार० एव जाव थणियकुमारा पञ्जत्तगा अप  
 ज्जत्तगा य । एवं एएण अमिलावेण दुयएण भेएण पिसाया  
 य जाव गभद्वा, चंदा जाव ताराविमाणा० । सोहम्मकप्पोवगा  
 जाव अच्चुओ । हिट्टमहिट्टमगेवेज्जगकप्पासीय जाव  
 उवरिमउवरिमगेविज्ज०, विजय अणुत्तरो० जाव० सव्वट्ट  
 सिद्धकप्पातीय० पुच्छा ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा  
 पञ्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरो० अपञ्जत्तगसव्वट्टजावपरिणया वि  
 ॥ सू० ३ ॥ (२ दडगो)

छाया-सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः खलु भदन्त ! पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! द्विविधाः प्रज्ञप्ताः-पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक-यावत्-परिणताश्च अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक-यावत्-परिणताश्च, वादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रिय० यावत् वनस्पतिकायिकाः । एकैके द्विविधाः पुद्गलाः-सूक्ष्माश्च, वादराश्च, पर्याप्तकाः, अपर्याप्तकाश्च भणितव्याः । द्वीन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः खलु पृच्छ ? गौतम ! द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-पर्याप्तकद्वीन्द्रिय-

सुहुमपुढविकाइय' इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(सुहुमपुढविकाइय एगिंदियपओगपरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ) हे भदन्त सूक्ष्म पृथिवीकायिके एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पणत्ता) सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं (पज्जत्तगसुहुम पुढविकाइय जाव परिणया य, अपज्जत्तगसुहुमपुढविकाइय जाव परिणया य) एक पर्याप्तक सूक्ष्म-पृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल और दूसरे अपर्याप्तक-सूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल (वायरपुढविकाइय-एगिंदिय० जाव वणस्सइकाइया एक्केका दुविहा पोग्गला सुहुमाय वायराय, पज्जत्तगा, अपज्जत्तगाय भाणियव्वा) वादरपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय यावत् वनस्पतिकायिक ये सब एकएक दो दो प्रकारके हैं सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्तक (वेइंदियपओगपरिणयाणं पुच्छा) हे भदन्त !

'सुहुम पुढविकाइय' इत्यादि-

सूत्रार्थ-(सुहुमपुढविकाइय एगिंदियपओगपरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ?) हे भदन्त ! सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल केटला प्रकारना इह्या छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (दुविहा पणत्ता) सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गलना नीचे प्रमाणे जे प्रकार इह्या छे- (पज्जत्तगसुहुमपुढविकाइय जाव परिणया य, अपज्जत्तगसुहुमपुढविकाइय जाव परिणया य) (१) पर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिकऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल, (२) अपर्याप्तक सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल (वायरपुढविकाइय एगिंदिय० वणस्सइकाइया एक्केका दुविहा पोग्गला सुहुमा य- वायरा य, पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा य भाणियव्वा) वादर पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियना पण्य पर्याप्तक अने अपर्याप्तक जेवा जे प्रकार ते वनस्पतिकाय पर्यन्तना प्रत्येक ऐकेन्द्रियोना सूक्ष्म अने वादर जेवा जे प्रकार छे, अने ते प्रत्येकना सूक्ष्मना अने वादरना पण्य पर्याप्तक अने अपर्याप्तक

प्रयोगपरिणताद्य, अपर्याप्तक-यावत्-परिणताय । एष श्रीन्द्रिया अपि । एष  
 तत्रिन्द्रिया अपि । रत्नप्रभापृथिवीनैरयिक० पुच्छा ? गौतम ! द्विविधाः  
 प्रस्ताः, उग्रया-पयोत्तररत्नप्रभापृथिवी-यावत् परिणताद्य, अपर्याप्तक-यावत्  
 परिणताद्य, एष यावत् अगः समी० । गमूर्च्छिमज्जघरतिर्यद० पुच्छा,  
 दोइन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल कित्ने प्रकारके हैं ? (गोयमा) हे गौतम  
 (दुविहा पण्णात्ता-संजहा पञ्चसयद्दियपओगपरिणया य अपञ्चसग जाय  
 परिणयाय) दो इन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं  
 एक पर्याप्तक दोइन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल और दूसरे अपर्याप्तक  
 दोइन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल (एष तद्विद्या चि) इसी प्रकारसे ते  
 त्रियोंको भी जानना चाहिये (एष अउरिन्द्रिया चि) दोइन्द्रियोंका भी  
 जानना चाहिये । (रयणप्पभा पुडयि नेरइय० पुच्छा) हे मदान्त !  
 रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल कित्ने प्रकारके कहे  
 गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णात्ता) रत्नप्रभा पृथिवी  
 नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं (संजहा) जो  
 इस प्रकारसे हैं (पञ्चसगरयणप्पभापुडयिनरइय जाय परिणयाय, अप  
 ञ्चसगजाय परिणयाय) पर्याप्तरत्नप्रभा पृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत  
 पुद्गल और अपर्याप्त रत्नप्रभा पृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल  
 (एष जाय अहे सत्तमा) इसी तरहसे यावत् अघः मसम पृथिवीतक  
 ओवा के प्रकार पडे ७ (बइदियपभागपरिणयाण पुच्छा) हे मदान्त ! दोइस्य प्रयोग  
 परिणत पुद्गल केवा प्रकारना ७ ? (गायमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णात्ता-  
 संजहा-पञ्चसगयेइदियपओगपरिणया य, अपञ्चसग जाय परिणया य)  
 दोइस्य प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणों के प्रकार केवा है-(१) पर्याप्तक इन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक दोइस्य प्रयोगपरिणत पुद्गल (एष सेई  
 दिया चि) अने प्रमाणों तें इन्द्रियोंना विषयभा पञ्चसग एवं (एष अउरिन्द्रिया चि)  
 अउरिन्द्रियोंना विषयभा पञ्च ओ १ प्रमाणों समज्ज । (रयणप्पभापुडयि नेरइय  
 पुच्छा) हे मदान्त ! रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल केवा प्रकारके  
 केवा ७ ? (गायमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णात्ता संजहा) रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक  
 प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणों के प्रकार केवा है-(पञ्चसगरयणप्पभापुडयि  
 नेरइय जाय परिणया य, अपञ्चसग जाय परिणया य) (१) पर्याप्तक रत्नप्रभा  
 पृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक प्रयोग  
 परिणत पुद्गल (एष जाय अहे सत्तमा) अने प्रमाणों यावत्भी पृथिवी सुधीना

गौतम ! द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-पर्याप्तक० अपर्याप्तक०, एवं गर्भव्युत्क्रान्तिका अपि, संमूर्च्छिमचतुष्पदस्थलचराः, एवं चैव गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च, एवं यावत् संमूर्च्छिमखेचराः गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च. एकैके पर्याप्तकाश्च, अपर्याप्तकाश्च भणितव्याः । संमूर्च्छिममनुष्यपचेन्द्रिग० पृच्छा ? गौतम ! एकविधाः प्रज्ञप्ताः,

जानना चाहिये । संमुच्छिम जलचर तिरिक्खपुच्छा) हे भदन्त ! संमूर्च्छिम जलचर तिर्यच्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके हैं? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पणत्ता) संमूर्च्छिम जलचर तिर्यच्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके हैं (तंजहा) जो इस प्रकारके हैं (पज्जत्तग० अपज्जत्तग० एवं गवभवक्कतियावि) पर्याप्तक संमूर्च्छिमजलचर तिर्यच्योनिक प्रयोग परिणत पुद्गल एवं अपर्याप्तक संमूर्च्छिमजलचर तिर्यच्योनिकप्रयोगपरिणत पुद्गल इसी प्रकारसे गर्भजजलचर भी जानना चाहिये । (संमुच्छिमचउप्पय थलघरा एवंचेव गवभवक्कतिया य) संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर तथा गर्भज चतुष्पद स्थलचर जीव भी जानना चाहिये । (एवं जाव संमुच्छिमखहयरगवभवक्कतिया य एक्केक्के पज्जत्तगाय अपज्जत्तगाय भाणियव्वा) इसी तरहसे यावत् संमूर्च्छिम खेचर तथा गर्भज खेचर जीव भी जानना चाहिये । ये सब जलचरादि तिर्यच पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे दोदो प्रकारके होते हैं । यहाँ पर सूक्ष्म, वाद्व ये दोभेद नहीं होते हैं क्योंकि ये

नेरयिक्के विषे समञ्जु (संमुच्छिम जलचर तिरिक्ख पुच्छा) हे भदन्त ! संमूर्च्छिम जलचर तिर्यच्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके हैं? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (दुविहा पणत्ता-तंजहा) संमूर्च्छिम जलचर तिर्यच्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणों के प्रकार कहे हैं-

(पज्जत्तग० अपज्जत्तग० -एवं गवभवक्कतिया वि) (१) पर्याप्तक संमूर्च्छिम जलचरतिर्यच्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक संमूर्च्छिमजलचरतिर्यच्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल ये न प्रमाणों गल्लंज जलचरना विषयमा पणु समञ्जु (संमुच्छिम चउप्पय थलघरा एव चैव गवभवक्कतिया य) संमूर्च्छिम चतुष्पद स्थलचर तथा गल्लंज चतुष्पद स्थलचरना पणु एवा न के प्रकार समञ्जा ( एवं जाव संमुच्छिम खहयर गवभवक्कतिया य एक्केक्के पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य भाणियव्वा ) ये न प्रमाणों संमूर्च्छिम जेयं तथा गल्लंज जेयं पर्याप्तता श्रवणा विषयमा पणु समञ्जु ते अथां जलचरादि तिर्यच्योमा प्रत्येक तिर्यचना पर्याप्तक अने अपर्याप्तक एवा के के प्रकारे डाय छे अही सूक्ष्म अने



अपर्याप्तका एव । गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपचेन्द्रिय० पूच्छा ? गौतम ! द्वि  
 त्रियाः प्रज्ञाः तद्यथा-पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिका अपि, अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्ति-  
 का अपि । असुरकुमारभवनवासिदेवाः खलु पूच्छा ? गौतम ! त्रिविधाः प्रज्ञा

स्थावर लकेन्द्रियमें ही होते हैं । (संशुद्धिम मणुस्स पंचिदिय पुच्छा)  
 हे भद्रन्त ! समूर्च्छिम मनुष्य पचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल कितने  
 प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (एगविहा पण्णात्ता अप  
 ज्ञसगा सेय) समूर्च्छिम मनुष्य पचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल एक  
 प्रकारके कहे गये हैं जो इस प्रकारसे हैं अपर्याप्त समूर्च्छिम मनुष्य  
 पचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल । ( गन्भवकतिपमणुस्सप चिदिय पुच्छा )  
 हे भद्रन्त ! गर्भजमनुष्य पचेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रका  
 रके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णात्ता) गर्भजमनु  
 ष्य पचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा)  
 जो इस प्रकारसे हैं । ( पञ्चसगगन्भवकतिपया वि, अपजज्ञसगगन्भ-  
 वकतिपया वि) पर्याप्तकगर्भजप्रयोगपरिणत पुद्गल, एवं अपर्याप्तकगर्भज  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल ( असुरकुमारभयणवासिदेवाण पुच्छा ) हे  
 भद्रन्त ! असुरकुमार भवनवासि द्वयप्रयाग परिणत पुद्गल कितने  
 प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णात्ता) असुर  
 कुमार भवनवासि द्वयप्रयाग परिणत पुद्गल दो प्रकारके कहे गये

जाएँ आ जे जेह डोता नतीं गरजु डे ते न जेह तो रथावर लकेन्द्रिय लवेभा व  
 लकयी शो छे (समूर्च्छिम मणुस्सपंचिदिय पुच्छा) डे भन्त । समूर्च्छिम  
 मनुष्य पचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल केरवा प्रशरना कया छे ? (गोयमा ! ) डे गौतम !  
 (एगविहा पण्णात्ता-अपजज्ञसगा सेय) समूर्च्छिम मनुष्य पचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 पुद्गलकेरवा वि प्रभाजे कय न प्रशर कया छे - अपर्याप्त समूर्च्छिम मनुष्य पचेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल (ग-भवकतिपमणुस्सप चिदिय पुच्छा) डे भन्त । जल न  
 मनुष्य पचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल केरवा प्रशरना कया ? (गोयमा ! ) डे गौतम !  
 (दुविहा पण्णात्ता तजहा) कय न मनुष्यपचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलकेरवा नीजे  
 प्रभाजे जे प्रशर कया छे - (पञ्चसगगन्भवकतिपया वि, अपजज्ञसगगन्भवकतिपया  
 वि) (१) प १११ कय न मनुष्य प्रयोगपरिणत पुद्गल केरवा (२) अपर्याप्त कय न मनुष्य  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल (असुरकुमार भयणवासिदेवाण पुच्छा) डे भन्त । असुर-  
 कुमार भवनवासि द्वय प्रयोगपरिणत पुद्गल केरवा प्रशरना कया छे ? (गोयमा ! )  
 न गौतम ! (दुविहा पण्णात्ता-तजहा) असुरकुमार भवनवासिद्वय प्रयोगपरिणत पुद्गल

तद्यथा-पर्याप्तकासुरकुमार० अपर्याप्तकासुरकुमार०, एवं यावत् स्तनित-  
कुमाराः पर्याप्तकाः, अपर्याप्तकाश्च । एवम् एतेन अभिलापेन द्विपदेन भेदेन  
पिशाचाश्च, यावत्-गन्धर्वाश्च । चन्द्राः यावत् ताराविमानानि, सौधर्मकल्पोपप-  
न्नका यावत् अच्युताः । अधस्तनाधस्तनग्रैवेयककल्पातीतक० यावत् उपरितनो-  
परितनग्रैवेयक० विजयानुत्तर० यावत्-अपराजित० । सर्वार्थसिद्धकल्पातीतक०

हैं । (तंजहा) जो इस प्रकारसे हैं (पञ्जत्तग असुरकुमार० अपञ्जत्तग  
असुरकुमार० एव जाव थणियकुमारा पञ्जत्तगा, अपञ्जत्तगा) पर्याप्तक  
असुरकुमार प्रयोगपरिणत पुद्गल, अपर्याप्तक असुरकुमार प्रयोग-  
परिणत पुद्गल इसी तरहसे यावत् स्तनितकुमार पर्याप्तक अपर्याप्तक  
जानना चाहिये । (एवं एणं अभिलावेणं दुपणं भेणं पिसाया य  
जाव गंधवा, चंदा जाव तारा विमाणा०) इसी तरहसे इस अभि-  
लापके द्वारा पिशाचोंके दो भेद यावत् गंधर्वोंतक जानना चाहिये ।  
चंद्रमाके दोभेद यावत् ताराविमानोंतक जानना चाहिये । (सोहम्मकप्पोत्र-  
गा जाव अच्चुओ हिट्ठिम-हिट्ठिम गेवेज्जगकप्पातीथ जाव उवरिमउव-  
रिमगेवेज्ज०, विजय अणुत्तरो० जाव० अपराजिय० सब्वट्टिसिद्धकप्पा-  
तीय पुच्छा,) सौधर्मकल्पोपपन्नकसे लेकर यावत् अच्युत कल्पोपपन्नक-  
तक तथा अधस्तनाधस्तन ग्रैवेयक कल्पातीतसे लेकर यावत् उपरिमो-  
परिमग्रैवेयक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणतपुद्गलतक तथा विजयअनुत्तरौ-

गलना नीचे प्रमाणों के प्रकार कथा छे-(पञ्जत्तग असुरकुमार०, अपञ्जत्तग असुर-  
कुमार०-एवं जाव थणियकुमारा पञ्जत्तगा, अपञ्जत्तगा) (१) पर्याप्तक असुर-  
कुमार प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक असुरकुमार प्रयोगपरिणत पुद्गल  
अने ७ प्रमाणों स्तनितकुमार सुधीना लवनपति देवोना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना  
लेखी छे छे प्रकार समजवा (एवं एणं अभिलावेणं दुपणं भेणं पिसाया य  
जाव गंधवा, चंदा जाव ताराविमाणा०) अने ७ प्रकारना अभिलापों द्वारा  
पिशाचथी गंधर्व पर्याप्ततना वानव्यन्तरोना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना लेखी  
छे प्रकारों समजवा चन्द्रमाथी ताराविमानों सुधीना न्योतिषिकोना पणु अने ७ छे  
प्रकारों समजवा

(सोहम्मकप्पोत्रगा जाव अच्चुओ-हिट्ठिम हिट्ठिम गेवेज्जग कप्पातीय जाव  
उवरिम उवरिम गेवेज्ज०, विजय अणुत्तरौ० जाव अपराजिय० सब्वट्टिसिद्ध  
कप्पातीय पुच्छा) सौधर्मकल्पोपपन्नकथी लधने अच्युतकल्पोपपन्नक सुधीना तथा  
नीचेना त्रणु ग्रैवेयकथी लधने उपरना त्रणु ग्रैवेयक सुधीना कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत

पूजा ? गौतम ! द्विविधाः प्रज्ञाः, तथा-पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तर०  
अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धप्रयोगपरिणता अपि ( द्वितीयो दण्डकः ) ॥६०॥ ३॥

टीका-‘सुहृमपुत्रविकाइयपणिंदियपभोगपरिणया ण भते ! पांगला कइ  
विहा पण्णाचा ’ गौतमः पूच्छति-हे भदन्त ! मूढमपुत्रविकाइयकेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणता खल्ल पुद्गला कविविधा प्रज्ञप्ता ? भगवानाह-‘गोयमा !

पपातिकसे लेकर यावत् अपराजित अनुत्तरोपपातिकतक दो दो भेद  
जानना चाहिये । अर्थात् इन सयके पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे दो  
भेद होते हैं । अब यहाँ पर गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछत हैं हे भदन्त !  
सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल कितने  
प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (दुविहा पण्णाचा) सर्वार्थ  
सिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल दो प्रकारके  
कहे गये हैं (तजहा) जो इस प्रकारसे हैं (पञ्जससव्यद्वमिद्ध अणुसरो०  
अपञ्जससव्यद्व जाष परिणया पि० दइगो, पर्याप्तसर्वार्थसिद्ध अनु  
त्तरोपपातिक, यावत् अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिकदेव प्रयोग  
परिणत इस तरहसे दो दण्डक जानना चाहिये ।

टीकार्थ-मद्धार नामरा जो द्वितीय दण्डक है उसकी मरुपणा  
करनेके लिये मुख्यकारण यह ‘सुहृमपुत्रविकाइय’ खत्र कहा है इसमें  
गौतमने प्रश्नसे ऐसा पूछाहै कि ‘सुहृमपुत्रविकाइय पणिंदियपभोगपरिण

पुद्गलाना तथा विवयथी लघने अपराजित पर्याप्ताना अनुत्तरोपपातिकदेव प्रयोगपरिणत  
पुद्गलाना वे वे प्रकार समन्वय ज्येष्ठे के ते प्रत्येकना पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना  
वेदथी वे, वे प्रकार बाय के हवे जौतम स्वामी भदानीर प्रश्नने पूछे थे के दे  
कान्त ! सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीतदेवप्रयोगपरिणत पुद्गल के देना प्रकारना  
कथा छे ? (गोयमा ! ) हे जौतम ! (दुविहा पण्णाचा) सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक  
कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल वे प्रकारना कथा छे (तजहा) ते वे प्रकारना  
प्रमाणे छे-(पञ्जससव्यद्वसिद्ध अणुसरो० अपञ्जससव्यद्व जाष परिणया वि  
र दइगो) (१) पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक अने (२) अपर्याप्त सर्वार्थ  
सिद्ध अनुत्तरोपपातिकदेव प्रयोगपरिणत पुद्गलना ही रीते वे दइक समन्वय

टीकाथ-कोइरार नामनु ने भीणु दइक छे तेनी प्रश्नक कएवाने भये स्थारि  
अप ‘सुहृमपुत्रविकाइय’ धत्तारि सूत्र कथा छे-

जौतमस्वामी अप विवयने अनुदक्षीने भदानीर प्रश्नने ज्येष्ठे प्र पूछे छे हे-  
‘सुहृमपुत्रविकाइय पणिंदिय पभोगपरिणयाण भते ! पोगगला कविविहा पण्णाचा !’

दुविहा पणत्ता' हे गौतम ! सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, 'पञ्जत्तगसुहुम पुढ्वीकाइय० जाव परिणया य, अपञ्जत्तगसुहुमपुढ्वीकाइय जाव परिणया य' पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, वायरपुढ्वीकाइयएगिंदिय-जाव-वणस्मइकाइया' अत्र पाठसंकोचादेवं वाच्यम्-पर्याप्तकवादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, अपर्याप्तकवादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, यावत्-पर्याप्तकसूक्ष्मापृकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, अपर्याप्तकसूक्ष्मापृकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च, पर्याप्तकवादराप-

या णं भन्ते ! पोगगला कइविहा पणत्ता' हे भदन्त ! सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत जो पुद्गल हैं वे कितने प्रकारके कहे गये हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु उनसे कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता' सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं । 'पञ्जत्तग सुहुमपुढ्वीकाइय जाव परिणया य, अपञ्जत्तगसुहुमपुढ्वीकाइय जाव परिणया य' एकतो पर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत और दूसरे अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत 'वायरपुढ्वीकाइयएगिंदिय जाव वणस्मइकाइया' यहां पर पाठसंकोचसे ऐसा जानना चाहिये पर्याप्तक वादरपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत, अपर्याप्तक वादरपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत, पर्याप्तक सूक्ष्म अपृकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत

हे भदन्त ! सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत ने पुद्गलको छे तेमना डेटला प्रकार कइ छे ? तेनो उत्तर आपता मडावीर प्रभु कइ छे- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता' सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणे मे प्रकार कइ छे- 'पञ्जत्तग सुहुमपुढ्वीकाइय जाव परिणया य, अपञ्जत्तगसुहुमपुढ्वीकाइय जाव परिणया य' (१) पर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल 'वायरपुढ्वीकाइयएगिंदिय० जाव वणस्मइकाइया' अही सक्षिप्तर्मा ने सूत्रपाठ आप्थे छे तेनो स पूर्यु पाठ आ प्रमाणे समजवो-आदर पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना पण् मे लेह छे- (१) पर्याप्तक आदर पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत अने (२) अपर्याप्तक आदर पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल मे न प्रमाणे अपृकायिक आदिना नीचे प्रमाणे लेहो छे- पर्याप्तक सूक्ष्म अपृकायिक



‘एककेका दुविहा पोग्गला-मुहुमा य, वादरा य, पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा य भाणि-  
यत्त्वा’ एकैके द्विविधाः पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः-सूक्ष्माश्च, वादराश्च, पर्याप्तकाश्च, अ-  
पर्याप्तकाश्च भणितव्याः, तथा च सर्वार्थसिद्धदेवपर्यन्तः पर्याप्तकविशेषणविशिष्टो  
द्वितीयो ढण्डकः । तत्र एकैकस्मिन् काये सूक्ष्मवादरभेदात्-द्विविधाः पुद्गलाः  
वक्तव्याः । ते च प्रत्येकं पर्याप्तकापर्याप्तक भेदात् पुनर्द्विविधाः वक्तव्या  
इति भावः, तथैव दर्शिताश्च । ‘एककेका दुविहा’ इत्यादिना । ‘वेइंदिय-  
पओगपरिणया णं पुच्छा, द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताः खलु पृच्छा ? तथा च द्वीन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणताः, कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह-‘गोयमा ! दुविहा पणत्ता’  
हे गौतम ! द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताः द्विविधाः प्रज्ञप्ताः ‘तं जहा’ तद्यथा ‘पज्ज-  
त्तगवेइंदियपओगपरिणया य, अपज्जत्तग जाव परिणया य’ पर्याप्तकद्वीन्द्रियप्रयोग-

दो विशेषणोंसे विशिष्ट द्वितीय ढण्डक हो जाता है । इसमें एक एक  
कायमें सूक्ष्म, वादरके भेदसे दो दो प्रकारके पुद्गल कहना चाहिये  
और ये दो दो प्रकारके पुद्गल भी प्रत्येक पर्याप्तक अपर्याप्तकके  
भेदसे पुनः दोदो प्रकारके और कहना चाहिये यही बात ‘एककेका  
दुविहा पोग्गला’ इस सूत्रद्वारा प्रकट की गई है । ‘वेइंदियपओगपरिण-  
या णं पुच्छा’ हे भदन्त ! दोद्वीन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके  
कहे गये हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम !  
‘दुविहा पणत्ता’ दोद्वीन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल दो प्रकारके कहे गये हैं  
‘तं जहा’ जो इस प्रकारसे हैं ‘पज्जत्तगवेइंदियपओगपरिणयाय, अपज्ज-  
त्तग जाव परिणयाय’ पर्याप्तक द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल, अपर्याप्तक

अपज्जत्तगा य’ आ सूत्रात् द्वारा व्यक्त की छे आ रीते सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौप-  
पातिकहेव पर्यन्तनु पर्याप्तक अने अपर्याप्तक विशेषणोवाणु भीणु द उक अनी नाथ छे  
तेमा ओक ओक प्राथमा सूक्ष्म अने वादरना लेइथी जे, जे प्रकार कहेवा नाथये अने  
ते अन्ने प्रकारना पुद्गलोना (सूक्ष्म अने वादर पुद्गलोना) पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्त-  
कना लेइथी जे जे प्रकार कहेवा लेइथे जे वात ‘एककेका दुविहा पोग्गला’  
आ सूत्रद्वारा प्रकट करवाया आवा छे

गौतम स्वामीने प्रश्न-‘वेइंदिय पओगपरिणया णं पुच्छा’ जे भदन्त ! द्वीन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारना कहे छे ? उत्तर-‘गोयमा !’ जे गौतम ।  
‘दुविहा पणत्ता-तजहा’ द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोना नीचे प्रमाणे जे प्रकार  
कहे छे-पज्जत्तग-वेइंदिय पओगपरिणया य, अपज्जत्तग वेइंदियपओगपरिणया य’  
(१) पर्याप्तक द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत

परिणताम्, अपर्याप्तकद्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताम् । 'एवं तेइदिया वि । एष द्वीन्द्रिय  
 वदेव त्रीन्द्रिया अपि, क्षुरिन्द्रिय/ अपि पर्याप्तकार्याप्तकमदेन द्विविधा मङ्गताः  
 यावत् प्रयोगपरिणताम् । 'रयण्यप्पमापुडवीनरइय० पुच्छा ?' रत्नप्रमापृथिवी  
 नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः खलु पुच्छा ? तथा च-ते कतिविधा मङ्गता ?  
 मगधानाह- 'गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता,' हे गौतम ! द्विविधाः मङ्गता, 'तं  
 जहा' तद्यथा- 'पञ्चसगरयण्यप्पमापुडवी जाव-परिणया य, अपञ्चसग जाव परि  
 णया य । एष जाव अहे सत्तमा' पर्याप्तकरत्नप्रमापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोग  
 परिणताम्, अपर्याप्तकरत्नप्रमापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताम्, एव  
 रत्नप्रमापृथिवीनैरयिकवदेव यावत् - शर्कराममा-बाळकाममा-पङ्कममा-धूमममा-

द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल एव तेइदिया वि' एष चउरिदिया वि'  
 त्रीन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गलको तरह तेइन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल  
 और चोइन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल नी पर्याप्तक और अपर्याप्तकके  
 भेदसे दोर प्रकारके कहे गये हैं । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे पूछते हैं  
 कि 'रयण्यप्पमापुडवी नैरइय पुच्छा हे भदन्त ! रत्नप्रमा पृथिवी  
 नैरयिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ?  
 इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'दुविहा पण्णत्ता'  
 रत्नप्रमापृथिवी नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल दो प्रकारके  
 कहे गये हैं 'तंजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'पञ्चसगरयण्यप्पमापुडवी जाव  
 परिणया य अपञ्चसग जाव परिणया य, एष जाव अहे सत्तमा' पर्या  
 प्तक रत्नप्रमा पृथिवी नैरयिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल और  
 अपर्याप्तकरत्नप्रमापृथिवी नैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल इन्ही

उक्त एव तेइदिया वि, एष चउरिदिया वि' त्रीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलनी  
 एव त्रीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अने क्षुरिन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना पञ्च  
 पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना भेदथी ले, ले प्रश्न कला ले

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'रयण्यप्पमा पुडवी नैरइय० पुच्छा' के कन्त !  
 रत्नप्रमापृथिवी नैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल केटला प्रकारना कला ले ?

उत्तर- गोयमा !' के गौतम ! दुविहा पण्णत्ता-तमहा' रत्नप्रमापृथिवी  
 ने विं प्रयोगपरिणत पुद्गलना नीचे प्रमाणे ले प्रश्न कला उ- 'पञ्चसगरयण्यप्पमा  
 पुडवी जाव परिणया य, अपञ्चसग जाव परिणया य-एष जाव अहे सत्तमा'  
 (१) पर्याप्तक रत्नप्रमापृथिवीनैरयिक प्रयोगपरिणत पुद्गल अने (२) अपर्याप्तक रत्न  
 प्रमापृथिवी विं पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल अने ए प्रमाणे एष सत्तमा, बाळकाममा,

तमःप्रभा-तमस्तमःप्रभाख्याधःसप्तम०, पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः ।  
 'समुच्छिमजलयरतिरिक्ख० पुच्छा ? समूर्च्छिमजलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोग  
 परिणताःखलु पृच्छा ? तथा च ते कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह- 'गोयमा !  
 दुविहा पणत्ता' हे गौतम ! ते समूर्च्छिमजलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोग-  
 परिणताः पुद्गला द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तानेवाह- 'तं जहा'-तद्यथा- 'पज्जत्तग०  
 अपज्जत्तग०' पर्याप्तकसमूर्च्छिमजलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः,  
 अपर्याप्तकसमूर्च्छिमजलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च । 'एवं गव्भ-  
 वक्कंतिया वि' एवं समूर्च्छिमजलचरतिर्यग्योनिकवदेव गर्भवपुत्क्रान्तिकाः=गर्भजा

तरहसे यावत् गर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा तमःप्रभा और  
 तमस्तमप्रभा इन नीचेकी सात पृथिवियां पर्याप्तक और अपर्याप्तकके  
 भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं । 'समुच्छिमजलयरतिरिक्खपुच्छा'  
 अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि हे भदन्त ! समूर्च्छिम जलचर  
 पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक प्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये  
 हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता' वे  
 समूर्च्छिम जलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल दो  
 प्रकारके कहे गये हैं । 'तजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'पज्जत्तग. अप-  
 ज्जत्तग०' पर्याप्तक समूर्च्छिम जलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग  
 परिणत एव अपर्याप्तक समूर्च्छिम जलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय-  
 प्रयोगपरिणत 'एवं गव्भवक्कंतिया वि' समूर्च्छिमजलचर तिर्यग्योनिक  
 की तरह ही गर्भज भी जलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत  
 पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेद से दो प्रकारके हैं । तथा (समुच्छि-

पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तम.प्रभा, अने तमस्तमप्रभा, आ नीचेकी सात पृथ्वीकोना  
 नारडोना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना लेख्थी ये, ये प्रकार समजवा

गौतम स्वाभीने प्रश्न-'समुच्छिम जलयर तिरिक्ख पुच्छा' हे भन्त !  
 समूर्च्छिमजलयर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल डेटला प्रकारना क्ख्या छे ?

उत्तर-'गोयमा !' हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता-तजहा' समूर्च्छिम जलयर  
 तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गला नीचे प्रमायुं ये प्रकार उक्ता छे-

'पज्जत्तग० अपज्जत्तग०' (१) पर्याप्तक समूर्च्छिम जलयर तिर्यग्योनिक  
 पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत, अने (२) अपर्याप्तक समूर्च्छिम जलयर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत पुद्गल 'एवं गव्भवक्कंतिया वि' समूर्च्छिम जलयर तिर्यग्योनिकनी  
 नेम गर्भज जलयर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना पणु पर्याप्तक अने



अपि जलचरतिर्यग्यानिक्पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला पर्याप्तकापया  
 प्तकमदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः । तथा 'समुच्छिन्नचतुष्पदस्थलचरा' समुच्छिन्न-  
 चतुष्पदस्थलचरा अपि तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पर्याप्तकापर्याप्तक  
 मदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः । 'एष वैव गन्मवक्कतिया वि' एवमेव समुच्छिन्न-  
 चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकवदेव गर्भस्युत्क्रान्तिका अपि चतुष्पदस्थलचरतिर्य  
 ग्योनिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पर्याप्तकापर्याप्तकमेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः ।  
 'एव जाव समुच्छिन्नसह्यरगम्भवक्कतिया य, एककेक्के पञ्जत्तगा य  
 अपञ्जत्तगा य भाणियक्का' एव चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकवदेव यावत्-  
 द्विविधपरिसर्पस्थलचरतिर्यग्योनिकमध्ये समुच्छिन्नोपरिसर्पस्थलचरतिर्यग्यो  
 निरुपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पर्याप्तकापर्याप्तकमेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ता ।

मध्यउप्यय यलयग) समुच्छिन्न चतुष्पद स्थलचर पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत  
 पुद्गल नी पर्याप्तक अपर्याप्तकके मेदसे दो प्रकारके कहे मये हैं 'एवं वैव  
 गन्मवक्क तिया वि' समुच्छिन्नचतुष्पद स्थलचरतिर्यग्योनिकके जैसे ही  
 गर्भज भी चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्यानिक् पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्  
 गल पर्याप्तक अपर्याप्तकके मेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं 'एव जाव  
 समुच्छिन्नसह्यर गन्मवक्कतिया य एककेक्के पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा य  
 भाणियक्का' चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिकके जैसे ही यावत् द्विविध  
 परिसर्प स्थलचर तिर्यग्यानिक् पुद्गलोके बीचमें समुच्छिन्न उरपरि  
 सर्पस्थलचर तिर्यग्यानिक् पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल भी पर्याप्तक  
 अपर्याप्तकके मेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं इसी तरहसे गर्भज उरः

अपर्याप्तका मेदसी के प्रकार क्का ७ तथा 'समुच्छिन्न चतुष्पदस्थलचरा' समुच्छिन्न च  
 तुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना पञ्च पर्याप्तक मने अपर्याप्तका  
 मेदसी के प्रकार क्का ७ 'एवमेव गन्मवक्कतिया वि' समुच्छिन्न च तुष्पद  
 स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना पञ्च पर्याप्तक मने  
 अपर्याप्तका मेदसी के प्रकार क्का ७ 'एवं जाव समुच्छिन्न  
 सह्यरगम्भवक्कतिया य एककेक्के पञ्जत्तगा य अपञ्जत्तगा य भाणियक्का'  
 चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिकके मने मने प्रकारना परिसर्प स्थलचर  
 निय अर्थेनिक पुद्गलना विषयमां पञ्च समस्तुं जेहे के समुच्छिन्न उरः परिसर्प  
 स्थलचर निय अर्थेनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलना पञ्च पर्याप्तक मने अपर्या  
 प्तका मेदसी के प्रकार ७ मने उरः परिसर्प स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय

एवं गर्भव्युत्क्रान्तिकोरःपरिसर्पस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः । एवं समूर्च्छिमभुजपरिसर्पस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः । तथा गर्भव्युत्क्रान्तिकभुजपरिसर्पस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताश्च पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रज्ञप्ताः । एवं समूर्च्छिमखेचराः, गर्भव्युत्क्रातिकखेचराः, तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः एकैके प्रत्येकं पर्याप्तकाश्च, अपर्याप्तकाश्च भणितव्याः । 'संमुच्छिममणुस्सपंचिदिय० पुच्छा ?' समूर्च्छिममनुष्यपञ्चेन्द्रिय० पृच्छा ? तथा च-समूर्च्छिममनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ?, भगवानाह- 'गोयमा ! एगविहा पणत्ता, अपज्जत्तगाचेव' हे गौतम ! समूर्च्छिममनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः एकविधाः अपर्याप्तका एव प्रज्ञप्ताः, नतु पर्याप्तका इत्यर्थः अपर्याप्तावस्थायामेव मरणधर्मकत्वात्, 'गन्भवक्कंतियमणुस्सपंचिदिय० पुच्छा ?' तथा च-गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत

परिसर्प स्थलचरतिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गलभी पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे दोप्रकारके कहे गये हैं । तथा समूर्च्छिम खेचर तथा गर्भजखेचर पर्याप्तक अपर्याप्तक भेदवाले कहे गये हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'संमुच्छिम मणुस्स पंचिदिय पुच्छा' हे भदन्त ! समूर्च्छिम मनुष्य पञ्चेन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगविहा पणत्ता' अपज्जत्तगा चेव' समूर्च्छिम मनुष्यपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल एक प्रकारके ही अर्थात् अपर्याप्तक ही कहे गये हैं पर्याप्तक नहीं क्योंकि अपर्याप्तावस्थामें ही वे मरणधर्मवाले होते हैं । 'गन्भवक्कंतिय मणुस्सपंचिदियपुच्छा' अब गौतमने प्रभुसे

अभोगपरिणत पुद्गलना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना लेदथी ये प्रकार छे अे न प्रमाणे समूर्च्छिम खेचर तथा गर्भज खेचरना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना लेदथी अण्णे प्रकार क्खी छे

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'संमुच्छिममणुस्स पंचिदिय पुच्छा' हे भदन्त ! समूर्च्छिम मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल केदला प्रकारना क्खी छे ? उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! एगविहा पणत्ता, अपज्जत्तगाचेव' समूर्च्छिम मनुष्य पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल अेक न प्रकारना क्खी छे- तेअने अपर्याप्तक न क्खी छे, पर्याप्तक क्खी नथी काण्णु के अपर्याप्तावस्थामा न तेअो मरणधर्मवाणा होय छे

अपि जलचरतिर्यग्यानिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रकृताः । तथा 'समुच्छिमचतुष्पदस्थलचरा' समुच्छिमचतुष्पदस्थलचरा अपि तिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रकृताः । 'एव चैव गन्मवकृतिया वि' एवमेव समुच्छिमचतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रकृताः । 'एव जाव समुच्छिमसहृयरगन्मवकृतिया य, एककेशके पञ्चतगा य अपञ्चतगा य भाणियव्या' एव चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रकृताः । 'एव जाव समुच्छिमसहृयरगन्मवकृतिया य, एककेशके पञ्चतगा य अपञ्चतगा य भाणियव्या' एव चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पर्याप्तकापर्याप्तकभेदेन द्विविधाः प्रकृताः ।

मचउपय यल्यग) समुच्छिम चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल नी पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे मये हैं 'एव चैव गन्मवकृतिया वि' समुच्छिमचतुष्पद स्थलचरतिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं 'एव जाव समुच्छिमसहृयर गन्मवकृतिया य एककेशके पञ्चतगा य अपञ्चतगा य भाणियव्या' चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल नी पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं इसी तरहसे गन्मज उरः

अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं तथा 'समुच्छिम चतुष्पदस्थलचरा' समुच्छिम चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल नी पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं 'एव चैव गन्मवकृतिया वि' समुच्छिम चतुष्पद स्थलचर पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल नी पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं 'एव जाव समुच्छिमसहृयर गन्मवकृतिया य एककेशके पञ्चतगा य अपञ्चतगा य भाणियव्या' चतुष्पद स्थलचर तिर्यग्योनिरूपणपञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल नी पर्याप्तक अपर्याप्तकके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं इसी तरहसे गन्मज उरः

દેવપન્ચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતાઃ, અપર્યાપ્તકાસુરકુમાર ભવનવામિદેવપન્ચેન્દ્રિયપ્રયોગ-  
પરિણતાશ્ચ, 'એવં જાવ યણિયકુમારા પઙ્ગત્તગા અપઙ્ગત્તગાય' એવમ્ અસુરકુમાર-  
ભવનપતિદેવદેવ યાવત્-નાગકુમાર સુવર્ણકુમાર-વિદ્યુત્કુમારા-Sગ્નિકુમાર-દ્વીપ-  
કુમારો-દધિકુમાર-દિવકુમાર-વાયુકુમાર-સ્તનિતકુમારભવનવાસિદેવપન્ચેન્દ્રિય-  
પ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ પર્યાપ્તકાશ્ચ અપર્યાપ્તકાશ્ચ ભવન્તિ । ' એવં એણં  
અભિલાવેણં દુયએણં મેએણં પિસાયા ય જાવ ગંધવ્વા' એવમ્ અસુરકુમારાદિભવનપતિ-  
દેવદેવ એતેન અભિલાપેન ઉપર્યુક્તાલાપક્રમેણ દ્વિકેન દ્વિવિથ્રેન પર્યાપ્તકાપર્યાપ્તક-  
રૂપેણ મેદેન પિશાચાશ્ચ યાવત્-ભૂત-યક્ષ-રાક્ષસ-કિન્નર-કિમ્પુરુષ-મહોરગ-ગન્ધર્વ-  
વાનવ્યન્તરપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ પર્યાપ્તકા અપર્યાપ્તકાશ્ચ પ્રજ્ઞપ્તાઃ, 'ચંદા જાવ  
તારાવિમાણં' ચન્દ્રાઃ યાવત્-સૂર્ય-ગ્રહ-નક્ષત્ર-તારાવિમાનજ્યોતિપિકદેવપ્રયોગ-

ન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ ઔર અપર્યાપ્તક અસુરકુમાર ભવનપતિદેવ  
પંચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતપુદ્ગલ, (એવં જાવ યણિયકુમારા પઙ્ગત્તગા અપ-  
ઙ્ગત્તગાય) અસુરકુમાર ભવનપતિદેવોંકી તરહ હી યાવત્ નાગકુમાર,  
સુવર્ણકુમાર, વિદ્યુત્કુમાર, અગ્નિકુમાર, દ્વીપકુમાર, ઉદધિકુમાર, દિવકુ-  
માર, વાયુકુમાર, ઔર સ્તનિતકુમાર યે સવ ભવનવાસિદેવ પંચેન્દ્રિય  
પ્રયોગપરિણતપુદ્ગલ પર્યાપ્તક ઔર અપર્યાપ્તક હોતે હેં । (એવં એણં  
અભિલાવેણં દુયએણં મેએણં પિસાયા ય જાવ ગંધવ્વા) અસુરકુમારાદિ  
ભવનપતિદેવ જિસ પ્રકારસે પર્યાપ્તક ઔર અપર્યાપ્તક કહે ગયે હેં  
ઉસી તરહસે પિશાચ યાવત્ ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિમ્પુરુષ,  
મહોરગ, ગંધર્વ યે જો વાનવ્યન્તર પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ હેં વે મી  
પર્યાપ્તક એવં અપર્યાપ્તક હોતે હેં । 'ચંદા જાવ તારાવિમાણં' ચંદ્ર

કુમારં' (૧) પર્યાપ્તક અસુરકુમાર ભવનપતિદેવ પંચેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ  
અને (૨) અપર્યાપ્તક અસુરકુમાર ભવનપતિદેવ પંચેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ.

'એવં જાવ યણિયકુમારા પઙ્ગત્તગા, અપઙ્ગત્તગાય' અસુરકુમાર ભવનપતિની  
નેમ જ નાગકુમાર, સુવર્ણકુમાર, વિદ્યુત્કુમાર, અગ્નિકુમાર, દ્વીપકુમાર, ઉદધિકુમાર,  
દિક્કુમાર અને વાયુકુમાર, સ્તનિતકુમાર, આ બધા ભવનપતિ દેવો પશુ પર્યાપ્તક અને  
અપર્યાપ્તક હોય છે 'એવં એણં અભિલાવેણ દુયએણં મેએણ પિસાયા ય જાવ  
ગંધવ્વા' અસુરકુમારાદિ ભવનપતિદેવોને નેમ પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક કહ્યા છે એ જ  
પ્રમાણે પિશાચ, ભૂત, યક્ષ, રાક્ષસ, કિન્નર, કિમ્પુરુષ, મહોરગ અને ગંધર્વ, એ આઠે  
વાનવ્યન્તરપ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ પશુ પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક કહ્યા છે 'ચંદા જાવ



देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, अपर्याप्तकासुरकुमार भवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोग-  
परिणताश्च, 'एवं जाव थणियकुमारा पज्जत्तगा अपज्जत्तगाय' एवम् असुरकुमार-  
भवनपतिदेववदेव यावत्-नागकुमार सुवर्णकुमार-विद्युत्कुमारा-ऽग्निकुमार-द्वीप-  
कुमारो-दधिकुमार-दिवकुमार-वायुकुमार-स्तनितकुमारभवनवासिदेवपञ्चेन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्याप्तकाश्च अपर्याप्तकाश्च भवन्ति । ' एवं एएणं  
अभिलावेणं दुयएणं भेएणं पिसाया य जाव गंधव्वा' एवम् असुरकुमारादिभवनपति-  
देववदेव एतेन अभिलापेन उपर्युक्तालापक्रमेण द्विकेन द्विविधेन पर्याप्तकापर्यप्तक-  
रूपेण भेदेन पिशाचाश्च यावत्-भूत-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किम्पुरुष-महोरग-गन्धर्व-  
वानव्यन्तरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्च प्रज्ञप्ताः, 'चंदा जाव  
ताराविमाण०' चन्द्राः यावत्-सूर्य-ग्रह-नक्षत्र-ताराविमानज्योतिषिकदेवप्रयोग-

न्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल और अपर्याप्तक असुरकुमार भवनपतिदेव  
पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल, (एवं जाव थणियकुमारा पज्जत्तगा अप-  
ज्जत्तगाय) असुरकुमार भवनपतिदेवोंकी तरह ही यावत् नागकुमार,  
सुवर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कु-  
मार, वायुकुमार, और स्तनितकुमार ये सब भवनवासिदेव पंचेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणतपुद्गल पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं । (एवं एएणं  
अभिलावेणं दुयएणं भेएण पिसाया य जाव गंधव्वा) असुरकुमारादि  
भवनपतिदेव जिस प्रकारसे पर्याप्तक और अपर्याप्तक कहे गये हैं  
उसी तरहसे पिशाच यावत् भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष,  
महोरग, गंधर्व ये जो वानव्यन्तर प्रयोगपरिणत पुद्गल हैं वे भी  
पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक होते हैं । 'चंदा जाव ताराविमाण०' चंद्र

कुमार०' (१) पर्याप्तक असुरकुमार भवनपतिदेव पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल  
अने (२) अपर्याप्तक असुरकुमार भवनपतिदेव पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल

'एवं जाव थणियकुमारा पज्जत्तगा, अपज्जत्तगा य' असुरकुमार भवनपतिनी  
नेम न नागकुमार, सुवर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार,  
दिक्कुमार अने वायुकुमार, स्तनितकुमार, आ ज्जा भवनपति देवो पणु पर्याप्तक अने  
अपर्याप्तक छाय छे 'एवं एएणं अभिलावेणं दुयएणं भेएणं पिसाया य जाव  
गंधव्वा' असुरकुमारादि भवनपतिदेवोने नेम पर्याप्तक अने अपर्याप्तक छह्या छे अने न  
प्रमाणे पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग अने गंधर्व, अने आठे  
वानव्यन्तरप्रयोगपरिणत पुद्गल पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तक छह्या छे 'चंदा जाव

परिणताः पुद्गलाः पर्याप्तकाश्च, अपर्याप्तकाश्च प्रकृताः । 'साहम्मकप्पोदवक्षणा  
 जाय अच्युता' सौधमकल्पोपपक्षका यावत्-ईशान सनत्कुमार माहेन्द्र-ब्रह्मलोक  
 सान्तक महाशुक्र सहस्रार-ऽऽनत प्राणता ऽऽरणा ऽच्युत-धैमानिकदेवप्रयोगपरिण  
 ताश्च पुद्गलाः पर्याप्तकाः, अपर्याप्तकाश्च प्रकृता । एवं 'द्विद्विमद्विद्विमगेवेज्जग  
 कल्पातीय० जाय-उपरिमउपरिमगेवञ्ज०' अधस्तनाधस्तनत्रिक्रमैवेयककल्पातीतक  
 देवप्रयोगपरिणताः यावत्-मध्यममध्यमत्रिक्रमैवयककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणताः  
 उपरिमोपरिमत्रिक्रमैवयककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणताश्च पुद्गलाः पर्याप्तकाः,  
 अपर्याप्तकाश्च प्रकृताः । एष 'विजय-अणुत्तरो० जाय अपराजिय०'  
 विजयानुत्तरोपपातिककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणता यावत् - विजयन्तानुत्तरोप

यावत्-सूर्य, प्रह, नभश्च, तारानिमान ये सप ज्योतिषिकदेव प्रयोग  
 परिणत पुद्गल पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं । 'साहम्मकप्पोय  
 वक्षणा जाय अच्युता' सौधमकल्पोपपक्षक यावत् ईशान, सनत्कुमार,  
 माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, सान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण  
 एष भच्युत ये सप धैमानिकदेव प्रयोगपरिणतपुद्गल पर्याप्तक और  
 अपर्याप्तक जात हैं । 'एवं द्विद्विमद्विद्विम गेयेज्जगकल्पातीय जाय  
 उपरिम उपरिम गेयेज' अधस्तनाधस्तन त्रिक्रमैवेयक कल्पातीत  
 द्यप्रयोगपरिणतपुद्गल यावत् उपरिमापरिमत्रिक्रमैवयक कल्पातीत  
 द्यप्रयोगपरिणत पुद्गल ये सप पर्याप्तक एव अपर्याप्तक कहे गये  
 हैं । (एवं विजय अणुत्तरा जाय अपराजिय०,) ३मी तरफ विजय अनु  
 त्तरोपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत त्रैजयन्त अनुत्तरोपपातिक

तारानिमान०' अ ६, सूय २५, नक्षत्र अने ताशब्दा, अे पाये ज्योतिषिकदेव  
 प्रयोगपरिणत पुद्गला पक्ष पर्याप्तक अने अपर्याप्तक होय छ 'साहम्मकप्पोदवक्षणा  
 जाय अच्युता' नौधम ईशान, सनत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्मलोक सान्तक, महाशुक्र, सहस्रार  
 आनत प्राणत आरण्य अने अच्युत अे जाये कल्पोपपक्षक सौधमिकदेव प्रयोगपरिणत  
 पुद्गलत पक्ष पर्याप्तक अने अपर्याप्तक अे अे केलवत्त होय छ 'एवं द्विद्विम द्विद्विम  
 गयज्जग कल्पातीय जाय उपरिम उपरिम गेवञ्ज' द्विदिना त्रजे शैवेयक कल्पातीत  
 देवप्रयोग परिणत पुद्गल त्रजे मध्यम शैवेयक कल्पातीतदेव प्रयोगपरिणत पुद्गल अने  
 त्रजे उपरिमा शैवेयक कल्पातीतदेव प्रयोगपरिणत पुद्गलत पक्ष पर्याप्तक अने अपर्याप्तक  
 होय छ आ हीत नने शैवेयक कल्पातीत देव प्रयोगपरिणत पुद्गलतना पर्याप्तक अने  
 अपर्याप्तकना केलवा जल्पने प्रसार होय छ 'एवं विजय अणुत्तरो० जाय अपराजिय'  
 अ ७ अभाये विजय अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल शैवेयक

पातिककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणताः, जयन्तानुत्तरौपपातिककल्पातीतकदेव-  
प्रयोगपरिणताः, अपराजितानुत्तरौपपातिककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणताश्च पुद्-  
गलाः पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्च प्रज्ञप्ताः । 'सर्व्वद्विसिद्धकल्पातीय० पुच्छा ?'  
सर्व्वार्थसिद्धकल्पातीतक पृच्छा ?' तथा च-सर्व्वार्थसिद्धकल्पातीतकदेवप्रयोग-  
परिणताः पुद्गलाः कृतिविधाः प्रज्ञप्ताः 'भगवानाह- 'गोयमा ! दुविहा पणत्ता'  
हे गौतम ! ते द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तानेवाह- 'तजहा' -तद्यथा- 'पञ्जत्तगसव्व  
द्विसिद्धअणुत्तरो० अपञ्जत्तगसव्वद्वि० जाव परिणयावि२ दंडगा' पर्याप्तक-  
सर्व्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणताश्च, अपर्याप्तकसर्व्वार्थ-  
सिद्ध०यावत्-अनुत्तरौपपातिककल्पातीतकदेवप्रयोगपरिणताश्च पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः।  
इति द्वितीयो दण्डकः२ । तथा च-द्वितीये भेदद्वारके जीवानाम् १६१ एक-

कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत, जयन्त अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देव-  
प्रयोगपरिणत, अपराजित, अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरि-  
णतपुद्गल ये सव पर्याप्तक और अपर्याप्तक कहे गये हैं । 'सर्व्वद्वि-  
सिद्धकल्पातीय० पुच्छा' हे भदन्त ! सर्व्वार्थसिद्धकल्पातीत देवप्रयोगपरि-  
णतपुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा'  
हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता' ये दोप्रकारके कहे गये हैं 'तजहा'  
जो इस प्रकारसे हैं 'पञ्जत्तगसव्वद्विसिद्ध जाव परिणया वि२ दंडगा'  
पर्याप्तक सर्व्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणतपुद्गल  
एवं अपर्याप्तक सर्व्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवप्रयोग-  
परिणत पुद्गल इस प्रकारसे ये दोदण्डक हैं इस भेदद्वार दण्डकमें  
जीवोंके १६१ भेद प्रतिपादित किये गये हैं वे इस प्रकारसे हैं प्रथम

अनुत्तरौपपातिक कल्पातीतदेव प्रयोगपरिणत पुद्गल, जयन्त अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत  
देवप्रयोगपरिणत पुद्गल, अने अपराजित अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत  
पुद्गल पञ्च पर्याप्तक अने अपर्याप्तक होय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'सर्व्वद्विसिद्धकल्पातीय० पुच्छा' हे भदन्त !  
सर्व्वार्थसिद्धकल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ?

उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'दुविहा पणत्ता-तजहा' तेमना पञ्च नीचे  
प्रमाणे से प्रकार कहे छे- 'पञ्जत्तगसव्वद्विसिद्ध जाव परिणया वि२ दंडगा'  
(१) पर्याप्तकसर्व्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल अने  
अपर्याप्तक सर्व्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवप्रयोगपरिणत पुद्गल आ  
प्रमाणे से भेद से दण्डक छे आ भेदद्वारमा एवोना १६१ भेदोनु प्रतिपादन करायु छे ते



पृथक्कृत मेदाः भवन्ति, सपाङ्गि-प्रथमे दण्डके कयितानां जीवानाम् ८१  
एकश्रीतिमेदानां मध्ये समूर्च्छिमगनुप्यभिन्नानाम् अश्रीतिजीवानां पर्याप्तका  
पर्याप्तकमेवेन १६० पृथुसुश्रुत मेदाः, समूर्च्छिममनुप्यस्य च अपर्याप्तकानामै  
को१ मेदाः, इति सर्वमेकनेन १६१ एकपृथुसुश्रुत मेदा भवन्तीति ॥मृ० ३॥

मृष्म - जे अपज्जत्तासुहुमपुढवीकाइयएगिदियपओग  
परिणया ते ओरालियतेयाकम्मगसरीरप्पओगपरिणया, जे पज्ज-  
त्तासुहुम० जाव परिणया ते ओरालियतेयाकम्मगसरीरप्पओग  
परिणया, एव जाव चउरिंदिया पज्जत्ता, नवर जे पज्जत्तवा  
यरवाउकाइयएगिदियपओगपरिणया ते ओरालियवेउवियते  
याकम्मसरीर-जाव-परिणया, सेस त चेव । जे अपज्जत्तरयण-  
प्पभापुढविनेरइयपचिंदिय पओगपरिणया ते वेउवियतेया  
कम्मसरीरप्पओगपरिणया । एव पज्जत्तया वि । एवं जाव  
अहे सत्तमा । जे अपज्जत्तगसमुच्छिम जलयर-जावपरिणया  
ते ओरालियतेयाकम्मासरीर-जाव-परिणया । एव पज्जत्तगा  
वि । गम्भवक्कतिया अपज्जत्तया एव चेष । पज्जत्तया  
ण एव चेष, नवर सरीरगाणि चत्तारि जहा धायरवाउ

दण्डकमें कथित जीवोकि ८१ मनेकि यीवमें समूर्च्छिम मनुप्योसे भिन्न  
८० जीवोकि पर्याप्तक और अपर्याप्तकके मेदस १६० मेद होत हैं  
तथा समूर्च्छिम मनुप्यका एक अपर्याप्तक मेद ही होता हैं इस तरह  
सय मिलकर १६१ मेद हो जाते हैं ॥ ३ ॥

वेदो नीचे प्रमाणे छे- पदेवा इउठमां एवेना जे ८१ वेदे उवा तेमांथी सभूमिछिम  
मनुप्य विवायता ८ एवेना पर्याप्तक मने अपर्याप्तकना वेदथी १६० वेद थाव छे  
नभूमिछिम मनुप्यमा जेउ अपर्याप्तक वेद ए होव छे. आ रीने जमा मणीने १६१  
वेद थाव छे ॥सु ३॥

क्वाइयाणं पञ्जत्तगाणं । एवं जहा जलयरेसु चत्तारि आलावगा भणिया, एवं चउप्पयउरपरिसप्पभुयपरिसप्पखहयरेसु वि चत्तारि आलावगा भाणियद्वा । जे संमुच्छिममणुस्सपंचिंदिय-पओगपरिणया ते ओरालियतेयाकम्मासरीरप्पओगपरिणया । एवं गवभवक्कंतिया वि, अपज्जत्तगा वि, पज्जत्तगा वि एवं चेव, नवरं सरीरगाणि पंच भाणियद्वाणि । जे अपज्जत्ता असुर-कुमारभवणवासि० जहा नेरइया तहेव । एवं पज्जत्तगा वि । एवं दुयएणं भेएणं जाव थणियकुमारा । एवं पिताया जाव गंधवा । चंदा जाव ताराविमाणा । सोहम्मो कप्पो जाव अच्चुओ । हेट्टिमहेट्टिमगेवेज्ज-जाव-उवरिमउवरिमगेवेज्ज० । विजयअणुत्तरोववाइए जाव सबट्टिसिद्धअणु० । एक्केक्केणं दुयओ भेदो भाणियव्वो जाव जे पज्जत्तसबट्टिसिद्धअणुत्तरो-ववाइया जाव परिणया ते वेउव्वियतेयाकम्मासरीरपओगपरि-णया (दंडगा ३) ॥ सू. ४ ॥

छाया- ये अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणतास्ते औदारिक-तैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः, ये पर्याप्तसूक्ष्मयावत् परिणतास्ते औदारिक-

‘जे अपज्जत्ता सुहुम पुढवीकाइय एगिंदिय’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- ( जे अपज्जत्तासुहुमपुढवीकाइयएगिंदियपओगपरिणया ते ओरालियतेयाकम्मगसरीरप्पओगपरिणया ) जो अपर्याप्तक सूक्ष्म-पृथिवीकाय एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल हैं वे औदारिक तैजस

“ जे अपज्जत्तासुहुमपुढवीकाइयएगिंदिय ” इत्यादि-

सूत्रार्थ- ( जे अपज्जत्तासुहुमपुढवीकाइयएगिंदियपओगपरिणया ते ओरालिय - तेयाकम्मगसरीरपओगपरिणया ) जे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल होय छे, तेओ औदारिक, तैजस अने कार्मण्ये ओ तेषु

तजमकार्मणमयागपरिणताः । एष यावत् चतुरिन्द्रिया पर्याप्ता, नवर य पर्याप्तवाद्वायुकायिकैकेन्द्रिय प्रयोगपरिणताम्त औदारिकवैक्रियवैजसकार्मण शरीर-यावत्-परिणता, शप तदेष । य अपयाप्तक नममाप्रथिनीनैरयिकपञ्चे और कार्मण इनतीन शरीरके प्रयोगोंसे परिणामको प्राप्त हुए होते हैं । (जे पञ्जसा सुदृम० जाव परिणया ते ओरालियतेयाकम्मग मरीरप्यभोगपरिणया एष जाव चतुरिन्द्रिया पञ्जसा) तथा जो पुद्गल पर्याप्तक मृक्षमपृथिवीकाय एकेन्द्रियमयोगपरिणत हैं वे औदारिक, तजम और कार्मण इनतीन शरीरके प्रयोगोंसे परिणत हुए होते हैं । इसी तरहसे यावत् चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये । (णयर-जे पञ्जसावापरयाउकायगिन्द्रियपभोगपरिणया ते आरालियतेवच्चिय तेयाकम्ममरीर जाव परिणया सेम तं चव) परन्तु यहाँ पर जा विशेषता है यह यह है कि जो पुद्गल पर्याप्त वाद्वायुकायिक एकन्द्रियमयोगपरिणत हैं वे औदारिक, वैक्रिय, तजम और कार्मण इन ४ शरीरके प्रयोगोंसे परिणत हुए होते हैं । चाक्रीका और मयकथन पढ़िछे जैसा ही जानना चाहिये । (जे अप-जसरायणप्यभा पुन्धीनरइय पंचिन्द्रियपभोग परिणया ते वेउच्चिय तेया कम्ममरीरप्यभोगपरिणया) जो पुद्गल अपर्याप्तक रत्नमभापृथिवी

शरीरिना प्रयोगशी परिलुभन यथेवा देव छ (जे पञ्जसा सुदृम जाव परिणया ते आगदिय तथाकम्मगमरीरप्यभोगपरिणया-एव जाव चतुरिन्द्रिया पञ्जसा) तथा ७ पर्याप्तक सुदृम पृथिवीकाय केन्द्रिय प्रयोगपरिलुभन पुद्गल देव छ तेम्मे औदारिक तैरय अन काम लु के तपु शरीरिना प्रयोगशी परिलुभन यथेवा देव छ के ८ प्रमादे चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक सुधीना अवा विषे अम लु नवर - जे पञ्जसावापरयाउकायगिन्द्रियपभोगपरिणया ते आरालियतेवच्चियतया-कम्ममरीर जाव परिणया - सस तं चव) पण अही केन्धी ७ विवेरता अमलपी के ७ पुद्गल पर्याप्तक आइर वायुकायिक केन्द्रिय प्रयोगपरिलुभन देव छ ते औदारिक तैरय अन काम लु के आर शरीरिना प्रयोगशी परिलुभन यथेवा देव छ आहीनु ममसत कथन आनग कला प्रमादे ७ अमलपुं (जे अपजसरायणप्यभा पुद्गलपर्याप्तक पुन्धीनरइय पंचिन्द्रियपभोगपरिणया ते वेउच्चियतयाकम्म मरीर-प्यभोगपरिणया) ७ अपर्याप्त रत्नमभा पृथिवीकाय केन्द्रिय प्रयोगपरिलुभन

न्द्रियप्रयोगपरिणतास्ते वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः । एवं पर्याप्तका अपि । एवं यावत् अधःसप्तमी १ । ये अपर्याप्तकसंमूर्च्छिमजलचरयावत् परिणतास्ते औदारिकतैजसकार्मणशरीरयावत्-परिणता । एवं पर्याप्तका अपि । गर्भव्युत्क्रान्तिका अपर्याप्तका एवमेव, पर्याप्तकाः खलु एवमेव, नवरं शरीरकाणिचत्वारि यथा वादरवायुकायिकानां पर्याप्तकानाम् । एवं यथा जलचरेषु चत्वारः आलापकाः भणिताः । एवं चतुष्पदोरःपरिसर्प-भुजपरिसर्प-

नारक पंचेन्द्रियप्रयोग परिणत हैं वे वैक्रिय, तैजस एवं कार्मण शरीर के प्रयोगसे परिणत हैं (एवं पञ्जत्तया वि) इसी प्रकारसे पर्याप्त नारक भी जानना चाहिये । (एवं जाव अहे सत्तमा ) इसी प्रकारसे यावत् अधः सप्तम नरकतक जानना चाहिये । (जे अपञ्जत्तगसंमुच्छिम जलयर जाव परिणया ते ओगलिय तेया कस्मासरीर. जाव परिणया एवं पञ्जत्तगा वि) जो पुद्गल अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलचर प्रयोगपरिणत हैं, वे औदारिक, तैजस और कार्मण शरीर-प्रयोग परिणत हैं । इसी तरहसे पर्याप्तक संमूर्च्छिमजलचर भी जानना चाहिये । (गवभवककंतिया अपञ्जत्तगा एवं चेव) गर्भज अपर्याप्तभी इसी प्रकारसे जानना चाहिये । (पञ्जत्तयाणं एव चेव) गर्भज पर्याप्तक भी इसी तरहसे जानना चाहिये । (नवरं सरीरगाणी चत्तारी जहा वायरवाडक्काइयाणं पञ्जत्तगा णं) परन्तु यहांपर विशेषता यही है कि पर्याप्तक वादर वायुकायिकोंकी तरह इनके चार शरीर होते हैं ।

पुद्गलो छे, ते वैक्रिय, तेजस अने धार्मण शरीरना प्रयोगथी परिणुत थयेला होय छे. ( एव पञ्जत्तया वि ) अे न प्रमाणे पर्याप्तक नाउ विषे पणु समजवु ( एवं जाव अहे सत्तमा ) अे न प्रमाणे नीचे सातमी नरकना नारक सुधीनु कथन समजवु. जे अपञ्जत्तगसंमुच्छिमजलयर जाव परिणया - ते ओरान्त्रियतेयाकस्मा सरीर० जाव परिणया एवं पञ्जत्तगा वि ) अे पुद्गल अपर्याप्त संमूर्च्छिम जलयर प्रयोगपरिणुत छे, तेओ औदारिक, तेजस अने धार्मण शरीरना प्रयोगथी परिणुत होय छे अे न प्रमाणे पर्याप्तक संमूर्च्छिम जलयर विषे पणु समजवुं (गवभवक कंतिया अपञ्जत्तगा एवं चेव) गर्भज अपर्याप्तक विषे पणु अे न कथन समजवुं पञ्जत्तयाणं एवं चेव) गर्भज पर्याप्तक विषे पणु अे न प्रमाणे समजवु ( एव सरीरगाणि चत्तारि जहा वायरवाडक्काइयाणं पञ्जत्तगाणं ) पणु अही अेटलीन विशेषता समजवी छे पर्याप्तक वादर वायुकायिकनी अे न तेमना चार प्रकारना शरीरहोयछे.

स्त्रेचरेष्वपि चत्वार आलापका मणितव्याः । ये समूर्च्छिममनुष्यपठचेन्द्रियप्रयोग परिणतास्ते औदारिकतैजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणता, एष गर्मभ्युत्क्रान्तिका अपि । अपर्याप्तका अपि । पर्याप्तका अपि । एषमेव, नवरं शरीरकाणि पञ्च मणितव्यानि । ये अपर्याप्तका असुरकुमारमवनवासिनो यथा नैरयिका स्तयैष । एव पर्याप्तका अपि । एष द्विपदन भेदेन यावत् स्तनितकुमाराः ।

(एष जहा जलयरेसु चत्वारि आलापगा भणिया एवं चउप्पयउरपरि सप्पयहयरेसु वि चत्वारि आलापगा भाणियव्वा) इम तरहसे जैसे जलचरोमिं चार आलापक कहे गय हैं उसी तरहसे चतुप्पयउरपरिसर्प, भुजपरिसर्प और खेचर इनमें भी चार आलापक कहवेना चाहिये (जे समूर्च्छिममणुस्स पंचिदियपभोगपरिणया ते ओरालिय तेया कम्मा सरीरप्पभोगपरिणया) जो पुद्गल समूर्च्छिम मनुष्य पचेन्द्रिय प्रयोग परिणत हैं वे औदारिक, तैजस और कर्मण शरीर प्रयोग परिणत हैं (एष गग्मयककतिया वि, अपज्जजत्तगा वि, पज्जजत्तगा वि एष वेव नवरं सरीरगाणि, पंच भाणियव्वाणि) इसी तरह गर्मज अपर्याप्तकको और गर्मज पर्याप्तकको भी जानना चाहिये । परंतु जो विशेषता है वह इस प्रकारसे है कि इनके पांच शरीर होते हैं । (जे अपज्जजत्तगा असुरकुमार भवणवासि जहा नेरइया तहेव, एष पज्जजत्तगा वि,) जैसा नैरयिकोके सवधमें कहा गया है उसी प्रकारसे अपर्याप्तक,

(एष जहा जलयरंसु चत्वारि आलापगा भणिया - एष चउप्पयउरपरिसप्प यउपरिसप्प सुइयरंसु चत्वारि आलापगा भाणियव्वा) जलचरोमिं विषयभा नेवा चार आलापक कहेवाभा आन्वा उे जेन प्रहारना चार आलापकेः अतुप्पइ, उरपरिसर्प भुजपरिसर्प अने जेवरना विषयभा पयु कहेवा जेउंजे (जे समूर्च्छिममणुस्स पंचिदियपभोगपरिणया ते ओरालिय तेयाकम्मा सरीरप्पभोगपरिणया) ए समूर्च्छिम मनुष्य पचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल होय उे ते औदारिक, तैजस अने कर्मणशरीर प्रयोगपरिणत होय उे (एष गग्मयक कतिया वि अपज्जजत्तगा वि, पज्जजत्तगा वि, एष नव-नवरं सरीरगाणि पंच भाणियव्वाणि) जे ए प्रभावे जेन ए अपर्याप्तक अने जेन ए पर्याप्तक मनुष्योना विषे पयु समभुं, पयु अही जेहदी ए विशेषता उे उे जेने प्रहारना चार ए मनुष्योना पांच प्रहारना शरीर होय उे (जे अपज्जजत्तगा असुरकुमारभवणवासि जहा नेरइया तहेव, एष पज्जजत्तगा वि) जेनुं नरहोना विषयभा इयु उे जेनुं ए इवन अपर्याप्तक अने पर्याप्तक असुरकुमार

एवं पिशाचाः यावत् गन्धर्वाः । चन्द्रा यावत् ताराविमानानि । सौधर्मः कल्पः  
यावत् अन्युतः, अधस्तनाग्रस्तनग्रैवेयक० यावत् उपरितनोपरितनग्रैवेयक० ।  
विजयानुत्तरोपपातिक० यावत् सर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिक० एकैकेन द्विपदो भेदो  
भाणितव्यः, यावत् ये पर्याप्तकाः सर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिक० यावत् परिणताः,  
ते वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः, तृतीयो दण्डकः ३॥ सू० ४ ॥

पर्याप्तक, असुरकुमार भवनवासी देवोंके संबंधमें भी जानना चाहिये ।  
(एव द्रुपणं भेषणं जाव शणियकुमारा एवं पिशाया जाव गंधर्वा) इस  
तरह इन दो भेदों द्वारा यावत् स्तनितकुमारोंकोभी, जानना चाहिये ।  
तथा इसी तरहसे पिशाचोंको यावत् गंधर्वोंकोभी जानना चाहिये ।  
इसी तरहसे (चंद्रा जाव ताराविमाना) चंद्राको यावत् ताराविमानोंको  
(सोहम्मो कर्पो, जाव अचुओ, हेट्टिमहेट्टिम गोवेज्ज जाव उवरिम  
उवरिम गोवेज्ज०) सौधर्मकल्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके १२ कल्पों  
को, अधोवर्ती तीनग्रैवेयकोंको, यावत् ऊपरके तीनग्रैवेयकोंको, (विजय  
अणुत्तरोववाइए जाव सव्वट्टसिद्ध अणु०, एककेक्केण दुयओ भेदो  
भाणियच्चो जाव जे पज्जत्ता सव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइया जाव परि-  
णया ते वेउच्चिया तेया कम्मा सरीरप्पओग परिणया) विजय अनु-  
त्तरोपपातिक यावत् सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक इन पांच अनुत्त-  
विमानोंकोभी दो दो भेदवाला कहना चाहिये । इस तरह जो पुद्गल  
यावत् अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देवप्रयोगपरिणत हैं वे

लवनपति देवो विधे पणु समणु (एव द्रुपणं भेषणं जाव शणियकुमारा-एवं  
पिशाया जाव गंधर्वा) ये न प्रमाणे आ भे लेद्धे द्वारा स्तनितकुमार पर्यन्तना  
लवनपतिदेवोनु तथा पिशाचयो लधने गंधर्व पर्यन्तना वानव्यन्तरेणु पणु इथन समणु  
(चंद्रा जाव ताराविमाना) अन्धयो लधने ताराविमान पर्यन्तना तथोतिथिधेने,  
(सोहम्मो कर्पो, जाव अचुओ, हेट्टिमहेट्टिम गोवेज्ज जाव उवरिमउवरिम  
गोवेज्ज.) सौधर्मकल्पथी लधने अच्युत पर्यन्तना आरे इत्थेने, नीत्थेना तणु ग्रैवेयधेने,  
अथम तणु ग्रैवेयधेने अने उपरना तणु ग्रैवेयधेने, (विजय अणुत्तरोववाइ ए जाव  
सव्वट्ट सिद्ध अणु., एककेक्केणं दुयओ भेदो भाणियच्चो जाव जे पज्जत्ता  
सव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइया जाव परिणया - ते वेउच्चिया तेया कम्मा  
सरीरप्पओगपरिणया ) विजय अनुत्तरोपपातिकथी लधने सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोप-  
पातिक पर्यन्तना पाथ विमानेने पणु अणुत्ते लेद्धवाणा इद्धेवा जेधुत्थे आ रीते जे  
पुद्गलो अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिके देव पर्यन्तना प्रयोगपरिणत छे, तेत्थे

ટીકા-અપ શરીરદ્વારમાધિસ્યવૃત્તીય દણ્ડકમાહ-‘જે અપવ્રજસગા’ ઇત્યાદિ । ‘જે અપવ્રજસગા સુદુમપુટ્તવીકાઙ્ગયર્ગિદિયપમોગપરિણયા, તે ઓરાલિયતેયા કમ્મગસરીરવ્પમોગપરિણયા,’ ય અપર્યાપ્તકમ્મપૃથિવીકાયિક્કેન્દ્રિયપ્રયોગ પરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ મહ્ગ્ગાસ્તે ઔદારિકતૈજસકાર્મણશરીરપ્રયોગપરિણતા ણ્વ મવન્તિ ન ત્વ આહારવ્યવેક્રિયશરીરપ્રયોગપરિણતાઃ । ઔદારિકતૈજસકાર્મણશરીરાર્ણા પ્રયોગૌ પરિણતા પરિણામ માપ્તાઃ ય તે તયા । ઇષ જે પવ્રજસાસુદુમ ૦ જાર વિક્રિય, તૈજસ ઓર કાર્મણ શરીર પ્રયોગપરિણત હૈ તથા જો પુદ્ગલ પર્યાસ સર્વાર્થસિદ્ધ અનુસરોપપાતિક દેવપ્રયોગપરિણત હૈ ઘે શ્રી વિક્રિય તૈજસ ઓર કાર્મણ શરીરપ્રયોગપરિણત હૈ । (દણ્ડગા ૩) હમ મપાર તોન દણ્ડક વહે જા શુકે હૈ ।

ટીકાર્થ-હમ સુત્રદ્વારા સૂત્રકારને શરીરદ્વારકો ધ્યાત્રિત કરવે વહ તૈમરા દણ્ડક કઠા હૈ હમને વહ મમજ્ઞાયા ગયા હૈ કિ ‘જે અપ વ્રજસગાસુદુમપુટ્તવીકાઙ્ગયર્ગિદિયપમોગપરિણયા તે ઓરાલિય, તેયા, કમ્મગ સરીરવ્પમોગપરિણયા’ જો અપર્યાપ્તકમ્મપૃથિવીકાયિક્કેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણત હૈ ઘ ઔદારિક, તૈજસ ઓર કાર્મણ શરીર ઇનતીન શરીરકિ પ્રયોગસે શ્રી પરિણત ઠાતે હૈ આહારવ્ય ઓર વિક્રિય શરીરકે પ્રયોગસે પરિણત નશી હોતે હૈ । ઔદારિક, તૈજસ ઓર કાર્મણ ઇન તીનો શરીરકે પ્રયોગોસે પરિણામકો જો પ્રાપ્ત હુવ્ હૈ ઘે ઔદારિક તૈજસકાર્મણ શરીર પ્રયોગ પરિણત પુદ્ગલ હૈ । તાત્પર્ય કહનેકા વહ વેક્રિય, તૈજસ, અને કામ જ શરીર પ્રયોગપરિણત દેવ છે અને ? પુદ્ગલો પશ્ચિ મર્વાર્થસિદ્ધ અનુસરોપપાતિક દેવ પવન્તના પ્રયોગપરિણત દેવ છે, તેઓ પવ્ વેક્રિય, તૈજસ અને કામ જ શરીર પ્રયોગપરિણત દેવ છે (દણ્ડગા ૩) આ પ્રમાણે ત્રણ દેવકે કહેવામા આવી ગયા છે

ટીકાર્થ- આ સુત્ર દ્વારા સુત્રકારે શરીરદ્વારને અનુલક્ષીને આ ત્રીણ દેવકે કહ્યું છે તેમા જે શાત સમબલવામા આવી છે કે ‘જે અપવ્રજસગા સુદુમ પુટ્તવીકાઙ્ગયર્ગિદિય પમોગપરિણયા-તે ઓરાલિય, તેયાકમ્મગસરીરવ્પમોગપરિણયા’ જે અપર્યાપ્તકમ્મપૃથિવીકાયિક્કેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત દેવ છે તેઓ ઔદારિક, તૈજસ અને કામ જ, આ ત્રણ શરીરના પ્રયોગથી જ પરિણત દેવ છે તેઓ આહાર અને વેક્રિયશરીરના પ્રયોગથી પરિણત દેવતા નથી. ઔદારિક તૈજસ અને કામ જ, આ ત્રણે શરીરના પ્રયોગથી પરિણમન પામેલા જે પુદ્ગલો દેવ છે તેમને ઔદારિક તૈજસ કામ જ શરીર પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ કહે છે આ કમને આવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે-

परिणया ते ओरालियतेयाकम्मगसरीरप्पओगपरिणया' ये पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवी-  
कायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः प्रवृत्तास्ते औदारिकतैजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणता  
एव भवन्ति 'एव जाव चउरिंदिया पज्जत्ता' एवं सूक्ष्मपृथिवीकायिकवदेव वादर-  
पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पर्याप्तका अपर्याप्तकाश्च पुद्गलाः, औ-  
दारिकतैजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, तेषामपि औदारिकादिशरीर-

हैं कि पृथ्वीकाय एकेन्द्रियके भेद प्रकट किये जाचुके हैं एक सूक्ष्म  
पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय और दूसरा वादर पृथ्वीकाय एकेन्द्रिय इन दोनों  
के भी पर्याप्त और अपर्याप्त ये दोभेद और हैं। जो सूक्ष्म पृथ्वी-  
काय एकेन्द्रिय अपर्याप्त है उसके औदारिक, तैजस और कर्मण ये  
तीन शरीर होते हैं। आहारक और वैक्रिय ये दो शरीर नहीं होते  
हैं। 'जे पज्जत्ता सुहुमं जाव परिणया ते ओरालिय, तेया, कम्मग  
सरीरप्पओगपरिणया' तथा जो पर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकाय एकेन्द्रियके  
प्रयोगद्वारा परिणत होते हैं अर्थात् जो सूक्ष्मपृथ्वीकाय एकेन्द्रियजीव  
पर्याप्तक हैं वे भी इन औदारिक, तैजस और कर्मण शरीरप्रयोग  
परिणत ही होते हैं। अर्थात् वे भी इन तीन शरीरवाले हो होते  
हैं। इसी तरहसे अन्यत्र भी समझना चाहिये 'एवं जाव चउरिंदियां  
पज्जत्ता' सूक्ष्मपृथिवीकायिक जीवोंकी तरहसे ही वादरपृथिवीकायिक  
एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक औदारिक, तैजस  
और कर्मण शरीरप्रयोगपरिणतपुद्गल ही होते हैं। क्योंकि इनमें भी  
औदारिक आदि तीन शरीरोंकी सत्ता रहती है। इसी तरहसे सूक्ष्म,

अेकेन्द्रियना लेहो पडेहा प्रकट करवामा आवी गया छे- (१) सूक्ष्म अेकेन्द्रिय अने  
(२) वादर अेकेन्द्रिय आ अन्नेना पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तक अेवा अे लेह पडे छे.  
तेमाथी अे सूक्ष्म अेकेन्द्रिय अपर्याप्त छे, तेना औदारिक, तैजस अने कर्मणु अे त्रणु  
शरीर होय छे- आहारक अने वैक्रियशरीर होता नथ। 'जे पज्जत्ता सुहुमं जाव  
परिणया ते ओरालिय, तेयाकम्मग सरीरप्पओगपरिणया' तथा अे पर्याप्तक  
पुद्गल सूक्ष्म अेकेन्द्रियना प्रयोग द्वारा परिणत होय छे- अेटले डे अे सूक्ष्म अेकेन्द्रिय  
अेवा पर्याप्तक होय छे, तेमा पणु औदारिक, तैजस अने कर्मणुशरीर प्रयोगपरिणत  
होय छे-अेटले डे तेमा पणु त्रणु शरीरवाणा अे होय छे अे अे प्रमाणु अन्यत्र पणु  
समणु 'एवं जाव चउरिंदिया पज्जत्ता' सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेवानी अेअे अे  
वादर पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पर्याप्तक अने अपर्याप्तक पुद्गल पणु औदारिक  
तैजस अने कर्मणु शरीर प्रयोगपरिणत अे होय छे, कर्मणु डे तेमाभा पणु औदारिक



પ્રયમ્બેષ મન્વાન્, તથા સુક્ષ્મવાદરાઃ અપ્યાપ્તકાઃ પચાપ્તકાઃ ચત્રચિંચામ્પિ  
 આકાષિક-તજ કાષિક-વાયુકાષિક યનસ્પતિકાષિકેન્દ્રિય-ટ્રીટ્રિય પ્રીન્દ્રિય-  
 પત્રિન્દ્રિય-પચાગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ, ઔદારિકૈર્જનમકામણમ્ગીરપ્રયોગપરિણતા ણ  
 મશન્તિ, કિન્તુ વાદરપર્યાપ્તકાણુનામ આદારકષર્જનરોચત્તપ્ય પ્રતિપાદયિતુમાદ  
 -નર્ષ જે પઞ્જનવાયરવાઝકાઙ્ગિદિયપ્રયોગપરિણતા તે આરાધિકઝઙ્ગિય  
 તયાકમ્મગમરી(-જાય-પરિણયા' નર્ષ વિગમ્તુ ય પર્યાપ્તકવાદરવાયુકાષિકેક  
 ન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ મહ્તામ્તે ઔદારિકૈર્ક્રિયતૈર્જનમકર્મણમ્ગીર-યાચ્ત્

વાદર, પચાપ્ત ધોર અપર્યાપ્ત સુક્ષ્મચાપ્ત ઔર સુક્ષ્મઅપર્યાપ્ત,  
 વાદરપર્યાપ્ત ધોર વાદર અપર્યાપ્ત તેસ જો અકાષિક, તજ કાષિક, વાયુ  
 કાષિક યનસ્પતિકાષિકેન્દ્રિયજીય હિં, ઔર પચાપ્ત, ધોર અપચાપ્તક  
 જો ટ્રીટ્રિય, તેટ્રિય ઔર ચોટ્રિય જીય હિં ઇન્કે પ્રચાગસ પરિણત  
 જો પુદ્ગલ હિં યે ઔદારિક, મેજસ ઔર કાર્મણમ્ગીરપ્રયોગપરિણત  
 ની ણોગ હિં । કિન્તુ વાદરપચાપ્તક વાયુકાષિક જીવોક આદારક  
 ણીકો છાદ્ધર ઔદારિક, ઘેત્રિય, તેજસ ઔર કાર્મણ ય વાર  
 શરીર હોત હિં ઇમ વાનકા દિમ્બાનકે સિયે મુદ્રકાર કહતે હિં ફિ  
 ' નર્ષ જે પઞ્જનવાયરવાઝકાઙ્ગિદિયપ્રયોગપરિણતા તે આરાધિયા,  
 ઘેઝઙ્ગિયા, તયા, કમ્મગમરીર જાય પરિણયા' જા વાદર પચાપ્તક  
 પ્કન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતપુદ્ગલ ઘાત હિં ય ઔદારિક, ઘેક્રિય તેજસ ઔર  
 કાર્મણપ્રયોગ ઘાત હિં ણમા જો કળા ગયા હિં સો ઇમ કથનમે પર્યાપ્ત

આદિ ત્વ શરીરિની સત્તા ૬૬ છે આજ પ્રમાણ સુક્ષ્મ વાદર પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્તક  
 એમને છે સુક્ષ્મ પર્યાપ્ત અને સુક્ષ્મ અપર્યાપ્તક વાદર પર્યાપ્ત અને વાદર અપર્યાપ્તક એનાં જ  
 અપકાષિક તજ કાષિક વાયુકાષિક અને યનસ્પતિકાષિક એકેન્દ્રિય છતાં છે અને પર્યાપ્ત  
 અને અપર્યાપ્તક જ ટ્રીટ્રિય ત્રીટ્રિય અને ચોટ્રિય-ત્રય છતાં છે તેમના પ્રયોગથી પરિણત  
 જે પુદ્ગલા ઘાત છે, તેમને ત્વ ઔદારિક તેજસ અને કાર્મણ શરીર પ્રયોગપરિણત જ  
 ઘાત છે પરન્તુ વાદર પર્યાપ્તક વાયુકાષિક છતાંને આદાર શરીર સિવાયના ઔદારિક,  
 તેજસ કાર્મણ અને ઘેક્રિય એ ત્યાં શરીર ઘાત છે એ જ વાત સ્પષ્ટાર આ સુદ્ધાર  
 મહત્તરી છે - ' નર્ષ જે પઞ્જનવાયરવાઝકાઙ્ગિદિયપ્રયોગપરિણતા તે  
 આરાધિયા, ઘેઝઙ્ગિયા, તયા, કમ્મગમરીર જાય પરિણયા' આજ પર્યાપ્તક એકેન્દ્રિય  
 પ્રયોગપરિણત / પુદ્ગલા ઘાત છે તેમને ઔદારિક ઘેક્રિય તેજસ અને કાર્મણ પ્રયોગ  
 ઘાત આજ જ કથન કરવાનાં આશુ છે તે કથનમાં વાદર વાયુકાષિક એકેન્દ્રિયપ્રયોગ-

-प्रयोगपरिणताः अपि भवन्ति, न तु आहारकशरीरप्रयोगपरिणताः 'सेस तं चैव' शेषं पर्याप्तकवाद्वायुकायिकातिरिक्त सर्वं यावत् पर्याप्तकचतुरिन्द्रियपर्यन्तं तदेव पूर्वोक्तौदारिकादिशरीरत्रयप्रयोगपरिणतपुद्गलवदेवेति, 'जे अपञ्जत्तरयणप्पभापुह्वीनेरइयपंचिंदियपओगपरिणया ते वेउन्विय तेयाकम्म सरीरप्पओगपरिणया' ये अपर्याप्तकरत्नप्रभापृथिवीनैरयिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः ते वैक्रिय-तैजस-कार्मण-शरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, न तु आहारकौदारिकशरीरप्रयोगपरिणताः, नैरयिकाणामाहारकौदारिकशरीराभावान्, यस्य

वाद्वायुकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षा विशेषता है और वह ऐसी है कि पर्याप्तक वाद्वायुकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल औदारिक, वैक्रिय, तैजस, कार्मण शरीरप्रयोगपरिणतभी होते हैं वे आहारक शरीरप्रयोगपरिणत नहीं होते हैं। 'सेस तंचैव' पर्याप्तक वाद्वायुकायिक से अतिरिक्त और सब कथन पर्याप्तक चोइन्द्रिय पर्यन्त जैसा कहा गया है वैसा ही जानना चाहिये। अर्थात् पर्याप्तक वाद्वा पृथिवीकाय एकेन्द्रियसे लेकर पर्याप्तक चोइन्द्रियतक जीवोंमें औदारिक आदि शरीरत्रय प्रयोगपरिणतपुद्गल युक्तता ही है। 'अपञ्जत्तरयणप्पभापुह्वी नेरइयपंचिंदियपओगपरिणया ते वेउन्वियतेयाकम्मसरीरप्पओगपरिणया' अब प्रभु ऐसा समझाते हैं कि जो पुद्गल अपर्याप्तक रत्नप्रभापृथिवी नैरयिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत हैं वे वैक्रिय, तैजस और कार्मण इन तीन शरीरोंके प्रयोगों से परिणत ही होते हैं। आहारक और औदारिक इन दो शरीरोंके प्रयोगसे परिणत नहीं होते हैं। क्योंकि नारकोंको औदारिक एवं

परिणत पुद्गलोंकी अपेक्षासे ऐसी विशेषता छे डे 'पर्याप्तक वाद्वा वायुकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल औदारिक, वैक्रिय, तैजस अने कार्मण शरीर प्रयोगपरिणत पणु डोय छे- तेओ आहारक शरीर प्रयोगपरिणत होता नथी 'सेस तंचैव' पर्याप्तक वाद्वा वायुकायिक सिवायना पर्याप्तक चतुरिन्द्रिय पर्यन्तना भाडीना छुवाभा औ रिड, तैजस अने कार्मण शरीर प्रयोगपरिणत पुद्गलयुक्तता न छे तेम समज्जु

'अपञ्जत्तरयणप्पभापुह्वीनेरइयपंचिंदियपओगपरिणया ते वेउन्विय तेयाकम्मसरीरप्पओगपरिणया' डेवे भडवीर प्रभु ओवु समज्जवे छे डे न पुद्गल अपर्याप्तक रत्नप्रभा पृथ्वी नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत डोय छे, तेओ वैक्रिय, तैजस अने कार्मण ओ तणु शरीरना प्रयोगथी परिणत न छे डोय छे- आहारक अने औदारिक शरीरना प्रयोगथी परिणत होता नथी डारणु डे नारकोंने औदारिक अने

प्रयस्यैव सत्त्वात्, तस्यैव सूक्ष्मवादाः। अपर्याप्तका पर्याप्तकाश्च चतुर्विधा अपि  
 अक्कायिक-तेज'कायिक-वायुकायिक वनस्पतिकायिकैकेन्द्रिय-डीन्द्रिय श्रीन्द्रिय-  
 चतुरिन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः पुद्गला, औदारिक'तैजस'कामणशरीरप्रयोगपरिणता एष  
 भवन्ति, किन्तु वादपर्याप्तकवायुनाम् आहारकवर्जशरीर(चतुष्टय प्रतिपादयितुमाह  
 -नवरं जे पञ्चतवापरवाउकाइयएगिंदियपभोगपरिणया ते ओरास्त्रियवेउश्रिय  
 तेयाकम्मगसरीर-आव-परिणया' नवरं विशेषस्तु ये पर्याप्तकवादरवायुकायिकैके  
 न्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला मण्ण्णास्ते औदारिकवैक्रियतैमसकामणशरीर-यावत्

वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त सूक्ष्मपर्याप्त और सूक्ष्मअपर्याप्त,  
 वादरपर्याप्त और वादर अपर्याप्त ऐसे जो अक्कायिक, तेज'कायिक, वायु  
 कायिक वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियजीव हैं, और पर्याप्त, और अपर्याप्तक  
 जो दोइन्द्रिय, त्रैन्द्रिय और चौरिन्द्रिय जीव हैं इनके प्रयोगसे परिणत  
 जो पुद्गल हैं वे औदारिक, तैजस और कामणशरीरप्रयोगपरिणत  
 ही होते हैं। किन्तु वादरपर्याप्तक वायुकायिक जीवोंके आहारक  
 शरीरको छाडकर औदारिक, वैश्रिय, तैजस और कामण य चार  
 शरीर होते हैं इस बातको दिखानेके लिये सूत्रकार कहते हैं कि  
 'नवरं जे पञ्चतवापरवाउकाइय एगिंदियपभोगपरिणया ते ओरालिया,  
 वेउश्रिया, तेया, कम्मगसरीर आव परिणया' जो वादर पर्याप्तक  
 एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल होते हैं वे औदारिक, वैक्रिय तैजस और  
 कामणप्रयोग होत हैं एसा जो कहा गया है सो उस कथनमें पर्याप्त

आदि त्रय शरीरिणी सत्त्वा दहेते जे न प्रभावे सूक्ष्म वादर पर्याप्तक अने अपर्याप्तक  
 कोटमेके सूक्ष्म पर्याप्तक अने सूक्ष्म अपर्याप्तक वादर पर्याप्त अने वादर अपर्याप्तक जेवा न  
 अपर्याप्तिक तेज'कायिक वायुकायिक अने वनस्पतिकायिक कोडेन्द्रिय श्रुवांते अने पर्याप्त  
 अने अपर्याप्तक जे दोइन्द्रिय श्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय श्रुवांते तेमना प्रयोगयी परिणत  
 जे पुद्गलहे होयते तेज्जा पञ्च औदारिक तैजस अने कामण शरीर प्रयोगपरिणत न  
 होयते परन्तु वादर पर्याप्तक वायुकायिक श्रुवेने आहार शरीर सिवायना औदारिक,  
 तैजस कामण अने वैश्रिय जे चार शरीर होयते जे न वात सूत्रकारे ज्ञा सूत्रकारे  
 प्रक' शरीर जे- ' नवरं जे पञ्चतवापरवाउकाइयएगिंदियपभोगपरिणया ते  
 ओरालिया, वरुश्रिया, तेया, कम्मगसरीर आव परिणया' वादर पर्याप्तक कोडेन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत न पुद्गलहे होयते तेज्जा औदारिक वैश्रिय तैजस अने कामण प्रयोग  
 होयते आरु न कथन करवामां आण्यु जे ते कथना वादर वायुकायिक कोडेन्द्रियप्रयोग-

શરીરપ્રયોગપરિણતાઃ । ‘જે અપજ્જત્તગસમુચ્છિમજલચર-જાવ-પરિણયા તે ઓરાલિય તેયાકમ્માસરીર-જાવ-પરિણયા’ એ અપર્યાપ્તકસંમૂચ્છિમજલચર-યાવત્ તિર્યગ્યોનિકપચ્ચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ તે ઔદારિક-તૈજસ-કાર્મણશરીરયાવત્પ્રયોગપરિણતા એવ ભવન્તિ, ન તુ આહારકવૈક્રિયશરીર-પ્રયોગપરિણતાઃ, સંમૂચ્છિમજલચરાણામ્ આહારકવૈક્રિયશરીરાભાવાત્, ‘એવં પજ્જત્તગા વિ’ એવમ્ અપર્યાપ્તકસંમૂચ્છિમજલચરતિર્યગ્યોનિકપચ્ચેન્દ્રિયપ્રયોગ-પરિણતપુદ્ગલવદેવ પર્યાપ્તકા અપિ-પર્યાપ્તકસંમૂચ્છિમજલચરતિર્યગ્યોનિક-પચ્ચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતા અપિ પુદ્ગલાઃ ઔદારિકતૈજસકાર્મણશરીરપ્રયોગપરિણતા એવ ભવન્તિ । ‘ગઁભવવકંતિયા અપજ્જત્તયા એવં ચેવ’ ગર્ભવ્યુત્ક્રાન્તિકાઃ

તૈજસ ઓર કાર્મણ ઇનતીન શરીરોંકે પ્રયોગસે પરિણત હી હોતે હૈં, આહારક ઓર ઔદારિક શરીરોંકે પ્રયોગોંસે પરિણત નહીં હોતે હૈં । ‘જે અપજ્જત્તગસમુચ્છિમજલચર જાવ પરિણયા તે ઓરાલિય તેયા કમ્મા સરીર જાવ પરિણયા’ જો અપર્યાપ્તક સંમૂચ્છિમ જલચર તિર્ય-ગ્યોનિક પંચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતપુદ્ગલ કહે ગયે હૈં, વે ઔદારિક, તૈજસ ઓર કાર્મણ શરીરપ્રયોગપરિણત હી હોતે હૈં આહારક એવં વૈક્રિય શરીરપ્રયોગપરિણત નહીં હોતે હૈં । ક્યોંકિ સંમૂચ્છિમજલચર જીવોંકે આહારક એવ વૈક્રિય શરીર નહીં હોતે હૈં । ‘એવં પજ્જત્તગાવિ’ અપર્યાપ્તક સંમૂચ્છિમ જલચર તિર્યગ્યોનિક પંચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણત પુદ્ગલોંકી તરહસે હી પર્યાપ્તક ભી-પર્યાપ્તક સંમૂચ્છિમ જલચર તિર્યગ્યોનિક પચેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણત ભી પુદ્ગલ ઔદારિક, તૈજસ ઓર કાર્મણ શરીરોંકે પ્રયોગ સે પરિણત હી હોતે હૈં । ‘ગઁભવવકંતિયા

પણુ શરીરોના પ્રયોગથી જ પરિણત હોય છે, તે પુદ્ગલો આહારક અને ઔદારિક શરીરોના પ્રયોગથી પરિણત હોતા નથી

‘જે અપજ્જત્તગસમુચ્છિમ જલચર જાવ પરિણયા તે ઓરાલિય તેયાકમ્મા સરીર જાવ પરિણયા’ જે અપર્યાપ્તક સંમૂચ્છિમ જલચર તિર્યગ્યોનિક પંચેન્દ્રિય પ્રયોગ પુદ્ગલો કલા છે, તેઓ ઔદારિક તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર પ્રયોગપરિણત જ હોય છે- આહારક અને વૈક્રિય શરીર પ્રયોગપરિણત હોતા નથી, કારણુ કે સંમૂચ્છિમ જલચર હોવેને આહારક અને વૈક્રિય શરીર હોતા નથી.

‘એવં પજ્જત્તગા વિ’ અપર્યાપ્તક સંમૂચ્છિમ જલચર તિર્યગ્યોનિક પચેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલોની જેમ પર્યાપ્તક સંમૂચ્છિમ જલચર તિર્યગ્યોનિક પંચેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ પણુ ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણુ શરીરના પ્રયોગથી જ પરિણત

यावत्ति शरीराणि भवन्ति तस्य तावन्तः शरीरप्रयोगपरिणता एव पुद्गला भवन्ति इति भाष । 'एव पञ्चमया वि' एवम् अपर्याप्तकस्त्वप्रमापृथिवीनैरयिकवदेव पर्याप्तक अपि—पर्याप्तकस्त्वप्रमापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पुद्गला वैक्रिय—तैजस—कार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति नत्वाहारकौदारिक शरीरप्रयोगपरिणता इति भाषः, 'एव जाव अहेसत्तमा' एवम्—अपर्याप्तक—पर्याप्तकस्त्वप्रमापृथिवीनैरयिकपठवेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गलवदेव यावत् — ये अपर्याप्तकपर्याप्तकशर्कराममा वासुकाममा—पङ्कममा घूमममा—तमःप्रमा तमस्तमः प्रमाख्याघःसप्तमपृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गला' मङ्गलाः, ते वैक्रिय—तैजस—कार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, न तु आहारकौदारिक

आहारक शरीर नहीं होता है । औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्य चोको होता है तथा आहारकशरीर छोटे गुणस्थानवर्ती किसी स्वास मुनिराजको होता है । जिस जीवके जितने शरीर होते हैं उसके उतने ही शरीरोंके प्रयोगसे परिणत पुद्गल होते हैं । 'एव पञ्चमया वि' अपर्याप्तक रत्नप्रमा पृथिवीके नैरयिकोंकी तरहसे ही पर्याप्तक रत्नप्रमा पृथिवी नैरयिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल वैक्रिय, तैजस और कार्मण शरीरप्रयोगपरिणत ही होते हैं आहारक और औदारिक शरीरप्रयोगपरिणत नहीं होते हैं । 'एव जाव अहे सत्तमा' अपर्याप्तक एव पर्याप्तक रत्नप्रमा पृथिवी नैरयिक पठवेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी तरहसे ही अपर्याप्तक पर्याप्तक वासुकाममा, वासुकाममा, पङ्कममा, घूमममा, तमःप्रमा और तमस्तमः प्रमा इन छह पृथिवियोंके नैरयिक पञ्चेन्द्रियप्रयोग परिणत जो पुद्गल कहे गये हैं वे वैक्रिय,

आहारक शरीरके सम्भाव होते। नही औदारिक शरीर मनुष्ये अने तिर्यचोके डोष छे तथा आहारक शरीर छोटा गुणस्थानवर्ती शार्ध भास मुनिराजके न डोष छे ने उतने उतना शरीर होय छे ते उतने उतना शरीरके प्रयोगसे परिणत पुद्गलके डोष छे एव पञ्चमया वि' अपर्याप्तक रत्नप्रमा पृथिवीके नैरयिकोंकी तरहसे ही पर्याप्तक रत्नप्रमा पृथिवीके नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल पञ्च वैक्रिय, तैजस अने कार्मण शरीर प्रयोगपरिणत न होय छे—आहारक अने औदारिक शरीर प्रयोगपरिणत होय नही।

'एव जाव अहे सत्तमा' पर्याप्तक अने अपर्याप्तक रत्नप्रमा पृथिवीके नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी तरहसे ही अपर्याप्तक अने पर्याप्तक वासुकाममा, वासुकाममा, पङ्कममा घूमममा, तमःप्रमा अने तमस्तमःप्रमा आ छे पृथिवीके नैरयिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत न होय छे तेजे पञ्च वैक्रिय, तैजस अने कार्मण के

शरीरप्रयोगपरिणताः । 'जे अपञ्जत्तगसंमुच्छिमजलयर- जाव-परिणया ते ओरालियतेयाकम्मासरीर-जाव-परिणया' ये अपर्याप्तकसंमुच्छिमजलयर-यावत् तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः ते औदारिक-तैजस-कार्मणशरीरयावत्प्रयोगपरिणता एव भवन्ति, न तु आहारकवैक्रियशरीर-प्रयोगपरिणताः, संमुच्छिमजलचरणाम् आहारकवैक्रियशरीराभावात्, 'एवं पञ्जत्तगा वि' एवम् अपर्याप्तकसंमुच्छिमजलयरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोग-परिणतपुद्गलवदेव पर्याप्तका अपि-पर्याप्तकसंमुच्छिमजलयरतिर्यग्योनिक-पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पुद्गलाः औदारिकतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति । 'गवभवक्कंतिया अपञ्जत्तया एवं चेव' गर्भव्युत्क्रान्तिकाः

तैजस और कार्मण इनतीन शरीरोंके प्रयोगसे परिणत ही होते हैं, आहारक और औदारिक शरीरोंके प्रयोगोंसे परिणत नहीं होते हैं । 'जे अपञ्जत्तगसंमुच्छिमजलयर जाव परिणया ते ओरालिय तेया कम्मा सरीर जाव परिणया' जो अपर्याप्तक संमुच्छिम जलचर तिर्य-ग्योनिक पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कहे गये हैं, वे औदारिक, तैजस और कार्मण शरीरप्रयोगपरिणत ही होते हैं आहारक एवं वैक्रिय शरीरप्रयोगपरिणत नहीं होते हैं । क्योंकि संमुच्छिमजलयर जीवोंके आहारक एवं वैक्रिय शरीर नहीं होते हैं । 'एवं पञ्जत्तगावि' अपर्याप्तक संमुच्छिम जलचर तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी तरहसे ही पर्याप्तक भी-पर्याप्तक संमुच्छिम जलचर तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत भी पुद्गल औदारिक, तैजस और कार्मण शरीरके प्रयोग से परिणत ही होते हैं । 'गवभवक्कंतिया

त्रयु शरीराना प्रयोगथी न परिणुत होय छे, ते पुद्गला आहारक अने औदारिक शरीराना प्रयोगथी परिणुत होता नथी.

'जे अपञ्जत्तगसंमुच्छिम जलयर जाव परिणया ते ओरालिय तेयाकम्मा सरीर जाव परिणया' जे अपर्याप्तक संमुच्छिम जलयर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोग पुद्गला कहे छे, तेयो औदारिक तैजस अने कार्मण शरीर प्रयोगपरिणुत न होय छे- आहारक अने वैक्रिय शरीर प्रयोगपरिणुत होता नथी, कारण छे संमुच्छिम जलयर छेवने आहारक अने वैक्रिय शरीर होता नथी.

'एवं पञ्जत्तगा वि' अपर्याप्तक संमुच्छिम जलयर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणुत पुद्गलानी जे पर्याप्तक संमुच्छिम जलयर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणुत पुद्गल पण्ये औदारिक, तैजस अने कार्मण शरीराना प्रयोगथी न परिणुत

अपर्याप्तकाः एवमेव, समूर्च्छिमजलचरवदेत्ययाः, अपर्याप्तकार्मजलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला आहारकौदारिकतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणता भवन्ति, 'पञ्जत्तया ण एव चैव' पर्याप्तका अपि भगजलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः एवमेव औदारिक-वैक्रिय-तैजस-कार्मणशरीरप्रयोगपरिणता भवन्ति, तदेवाह—'नयरं सरीरगाणि चत्तारि जहा वायरवाउक्काइयाणं पञ्जत्तगाण' नयरं समूर्च्छिमजलचरापेक्षया गर्भज्युत्कान्तिफनानां गर्भजलचरतिर्यग्योनिकानाम्, विशेषस्तु शरीराणि चत्तारि भवन्ति औदारिकादिमेदात् तानिचोक्तान्येव, यथा वादरवायुकायिकानाम् पर्याप्तकानाम् औदारिकवैक्रियतैजसकार्मणशरीराणि प्रदत्तानि तथा एवामपि बोध्यम् ।

अपञ्जत्तया एव चैव' समूर्च्छिम जलचरकी तरहसे ही अपर्याप्तक गर्भजलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल औदारिक, तैजस, और कार्मण इन तान शरीरके प्रयोगोंसे परिणत होत हैं । 'पञ्जत्तया ण एव चैव' पर्याप्तक भी गर्भजलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल औदारिकवैक्रिय, तैजस और कार्मण इनचार शरीरके प्रयोगोंसे परिणत होत हैं । इसी बातको सूत्रकार यों प्रकट करते हैं 'नयरं सरीरगाणि चत्तारि जहा वायरवाउक्काइयाणं पञ्जत्तगाण' समूर्च्छिमजलचरकी अपेक्षा गर्भजलचरतिर्यग्योनिक पर्याप्तकमें यही विशेषता है कि इनके औदारिक, वैक्रिय, तैजस एव कार्मण ये चार शरीरतक हो सकते हैं । जैसे पर्याप्तक वादरवायुकायिक जीवके औदारिक, वैक्रिय, तैजस और कार्मण ये चार शरीर होते हैं इसी

हेतु है 'गन्मपकृतिया अपञ्जत्तया एव चैव' समूर्च्छिम जलचरनी जेभ ज अपर्याप्तक जल ज जलचर निर्भजेनिक पञ्चेन्द्रिय अथेअपरिणत पुद्गल पञ्च औदारिक वैक्रिय, तैजस जने कार्मण जे चार शरीराना प्रथेअभी परिणत हेतु है 'पञ्जत्तयाण एव चैव' अर्थात् जल ज जलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय अथेअपरिणत पुद्गल पञ्च औदारिक वैक्रिय, तैजस जने कार्मण जे चार शरीराना प्रथेअभी परिणत हेतु है जे ज बात सुत्रभारे नीचेना सूत्रदारा प्रकट करी है—'नयरं सरीरगाणि चत्तारि जहा वायरवाउक्काइयाण पञ्जत्तगाण' समूर्च्छिम जलचरी इरता जल ज जलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय अथेअपरिणत पुद्गल पञ्च औदारिक वैक्रिय, तैजस जने कार्मण जे चार शरीर हेतु शो है जेही रीते पर्याप्तक वादर वायुकायिक जेने औदारिक वैक्रिय तैजस जने कार्मण जे चार शरीर हेतु शो है जे ज प्रभवे जल ज जलचराने पञ्च ते चार शरीर हेतु शो है

‘एवं जहा जलयरेसु चत्तारि आलावगा भणिया, एवं चउप्पयउरपरिसप्प-  
भुयपरिसप्पखहयरेसु वि चत्तारि आलावगा भाणियच्चा’ एवं चतुष्पदोरः  
परिसर्प-भुजपरिसर्प-खेचरेपु अपि चत्वार आलापकाः भणितव्याः, तथा च-  
अपर्याप्तकाः १, पर्याप्तकाश्च २, समूर्च्छिमाः ३, गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च ४,  
चतुष्पदस्थलचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः यथायोग्यम्  
औदारिकतैजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणताः, औदारिकवैक्रियतैजसकर्मणशरीर-  
प्रयोगपरिणताश्चेत्यर्थः, तथा उरःपरिसर्पाः भुजपरिसर्पाश्च स्थलचरतिर्यग्यो-  
निकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः समूर्च्छिमाः गर्भव्युत्क्रान्तिकाश्च पुद्गलाः यथा  
संभवम् औदारिक-तैजस कर्मणशरीरप्रयोगपरिणता औदारिक-वैक्रिय-तैजस-

तद्गहसे इनके भी ये चार होते हैं । ‘एवं जहा जलयरेसु चत्तारि  
आलावगा भणिया, एवं चउप्पयउरपरिसप्पभुयपरिसप्पखहयरेसु  
चत्तारि आलावगा भाणियच्चा’ जिस प्रकार पंचेन्द्रिय जलचर जीवोंके  
विषयमें चार आलापक कहे गये हैं’ इसी तरहसे चतुष्पद, उरःपरि-  
सर्प, भुजपरिसर्प एवं खेचरोंमें भी चार आलापक कह देना चाहिये।  
तथाच अपर्याप्तक, पर्याप्तक, समूर्च्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक जो चतुष्पद  
स्थलचर तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल हैं वे यथायोग्य औदारिक  
तैजस एवं कर्मण शरीर प्रयोगपरिणत होते हैं तथा औदारिक, वैक्रिय,  
तैजस और कर्मणशरीरप्रयोगपरिणत भी होते हैं । तथा जो उरः  
परिसर्प और भुजपरिसर्प स्थलचर तिर्यग्योनिक पंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत  
हैं, तथा समूर्च्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक हैं वे यथासंभव औदारिक,  
तैजस, कर्मणशरीरप्रयोगपरिणत होते हैं और औदारिक, वैक्रिय,

‘एवं जहा जलयरेसु चत्तारि आलावगा भणिया, एवं चउप्पय-  
उरपरिसप्प भुयपरिसप्प खहयरेसु चत्तारि आलावगा भाणियच्चा’ ने रीते  
पञ्चेन्द्रिय जलचर जीवों विषे चार आलापकों कहे छे, ओ न रीते चतुष्पद,  
उरःपरिसर्प, भुजपरिसर्प, अने पेर्यर विषे पण्य चार आलापकों कहेवा नेछंओ  
नेभके- अपर्याप्तक, पर्याप्तक, समूर्च्छिम अने गर्भन ने चतुष्पद स्थलचर  
तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलौ छे, तेओ यथायोग्य औदारिक,  
तैजस अने कर्मण शरीर प्रयोगपरिणत होय छे, तथा औदारिक, तैजस, वैक्रिय अने  
कर्मण शरीर प्रयोगपरिणत पण्य होय छे. ने उरःपरिसर्प अने भुजपरिसर्प  
स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत समूर्च्छिम पुद्गल अने गर्भन  
पुद्गल छे, तेओ यथासंभव औदारिक, तैजस अने कर्मण शरीर प्रयोगपरिणत



कर्मणश्शरीरप्रयोगपरिणताश्च भवन्तीति भावः । एष खेचरा अपि समृच्छिमाः गर्मव्युत्क्रान्तिका अपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च यावत् प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः यथासमयम् औदारिकादिप्रयौ-दारिकादिष्वतुःशरीरप्रयोगपरिणता भवन्ति । 'जे समृच्छिममणुस्सपंचिदियपओगपरिणया ते ओरालियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया' ये समृच्छिममणुस्सपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञाः त औदारिक-सैनस-कर्मणश्शरीरप्रयोगपरिणताः भवन्ति, 'एव गन्मयकंतिपा वि अपज्जत्तगा वि पज्जत्तगा वि एवं वेव' एवम् समृच्छिममणुस्सपंचेव गर्मव्युत्क्रान्तिका अपि गर्ममणुस्सपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि अपर्याप्तका अपि अपर्याप्तकमणुस्सपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः औदारिकसैनसकर्मणश्शरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, गर्मव्युत्क्रान्तिका अपि अपर्याप्तका मणुस्सपंचेन्द्रिय

तैजस एवं कर्मणश्शरीरप्रयोगपरिणत भी होते हैं । इसी तरह से अपर्याप्तक, और पर्याप्तक जो खेचर समृच्छिम तथा गर्मज प्रयोगपरिणतपुद्गल हैं, वे भी यथासमय औदारिक आदि तीन शरीर प्रयोगपरिणत, तथा औदारिक आदि चारशरीरप्रयोगपरिणत होते हैं । 'जे समृच्छिममणुस्सपंचिदियपओगपरिणया ते ओरालियतेया कम्मा सरीरपओगपरिणया' तथा जो समृच्छिम मणुस्सपंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणतपुद्गल कहे गये हैं वे औदारिक, तैजस एवं कर्मणश्शरीरप्रयोगपरिणत होते हैं । 'एव गन्मयकंतिपा वि अपज्जत्तगा वि पज्जत्तगा वि एवं वेव' समृच्छिम मणुस्सपंच की तरह ही गर्मव्युत्क्रान्तिक भी-गर्मजअपर्याप्तकमणुस्सपंचेन्द्रियप्रयोगपरिणत भी पुद्गल औदारिक, तैजस, कर्मणश्शरीरप्रयोगपरिणत होते हैं । क्यों कि गर्मज

हेतु है अने औदारिक, वैदिक, तेजस अने कर्मणश्शरीर प्रयोगपरिणत पणु हेतु है अने प्रभावे अपर्याप्तक अने पर्याप्तक ने जेकर समृच्छिम तथा प्रभावे प्रयोगपरिणत पुद्गल हेतु है तेको पणु यथासमय औदारिक आदि पणु शरीर प्रयोगपरिणत पणु हेतु है अने औदारिक आदि चार शरीर प्रयोगपरिणत पणु हेतु है

जे समृच्छिममणुस्सपंचिदिय पओगपरिणया ते ओरालियतेया कम्मा सरीरपओगपरिणया' ने समृच्छिम मणुस्सपंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल हेतु है तेको औदारिक तेजस अने कर्मणश्शरीर प्रयोगपरिणत हेतु है 'एव गन्मयकंतिपा वि अपज्जत्तगा वि पज्जत्तगा वि एवं वेव' समृच्छिम मणुस्सपंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल हेतु है औदारिक, तेजस अने कर्मणश्शरीर प्रयोगपरिणत हेतु है कर्मणश्शरीर प्रयोगपरिणत हेतु है

शरीराभावात् त्रिशरीरा एवेति भावः। पर्याप्तकास्तु गर्भव्युत्क्रान्तिका मनुष्याः  
 च पञ्चशरीरका भवन्ति, तदाह—‘नवरं शरीरगाणि पंच भाणियव्वाणि’ नवरम्  
 पर्याप्तकापेक्षया पर्याप्तकमनुष्याणाम् शरीराणि पञ्च औदारिकादीनि शणित  
 नि. ‘अत्र पञ्च शरीराणीतिकथनं सर्वजीवापेक्षयाऽन्यन्तव्यम्, अन्यथा  
 स्य जीवस्य तु एकदा चत्वार्येव शरीराणि भवितुमर्हन्ति, न तु पञ्च, वैक्रिया-  
 कयोर्द्वयोरेकत्रैकसमयेऽन्यथायित्वादिति ‘जे अपज्जत्ता असुरकुमारभवणवासि०  
 ण नेरइया तहेव, एवं पज्जत्तगा वि’ ये अपर्याप्तकामुरकुमारभवनवासिदेव-

ने पर भी अपर्याप्तक मनुष्यों के वैक्रिय और आहारक ये दो  
 शरीर नहीं होते हैं। इसलिये वे यहां औदारिक आदि तीन शरीर  
 ले कहे गये हैं। परन्तु जो गर्भज मनुष्य पर्याप्तक होते हैं वे ही  
 च शरीर वाले होते हैं। यही बात सूत्रकारने ‘नवरं शरीरगाणि  
 च भाणियव्वाणि’ इस सूत्र द्वारा प्रकट की हैं—कि अपर्याप्तक-  
 मनुष्यों की अपेक्षा पर्याप्तक मनुष्यों में यही विशेषता है कि उनके  
 च शरीर होते हैं। पांच शरीर के होने का यह कथन नाना जीवोंकी  
 अपेक्षासे कहा गया जानना चाहिये, क्यों कि एक जीवके ज्यादा से  
 ज्यादा चार शरीर तक ही हो सकते हैं क्योंकि आहारक हो तो वैक्रिय  
 नहीं और वैक्रिय हो तो आहारक नहीं होता है ऐसा सिद्धान्त का  
 तथन है। ‘जे अपज्जत्ता असुरकुमारभवणवासि जहा नेरइया तहेव,

मनुष्योने वैक्रिय अने आहारक शरीर होता नथी, ते कारणे तेमने अडी औदारिक  
 आदि त्रयु शरीरवाणा उवा छे पणु जे गर्भज मनुष्य पर्याप्तक होय छे, तेमो पांचे  
 शरीरवाणा होय छे. जे न वात सूत्रकारे आ सूत्रपाठ द्वारा व्यक्त करी छे—  
 ‘नवरं शरीरगाणि पंच भाणियव्वाणि’ अपर्याप्तक मनुष्यो करता पर्याप्तक  
 मनुष्योमा आ प्रमाणे विशेषता होय छे— पर्याप्तक मनुष्योने पांचे शरीर होथं शके छे  
 पांच शरीर होवा विषेनु आ कथन विविध जवानी अपेक्षासे करवामा आच्युं छे  
 जेम समजवुं, कारणे छे जेक जवने वधारेमा वधारे चार शरीर होथं शके छे वैक्रिय  
 होय तो आहारक नही, अने आहारक होय त्तारे वैक्रिय नही जेक समयमा जेठ शरीर  
 नही थथं शके जेवुं सिद्धान्तनु कथन छे

पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः यथा नैरयिकाः मद्यन्तास्तथैव ते वैक्रियतैजस  
 कार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एष भवन्ति, एव पर्याप्तका अपि पर्याप्तकासुरकुमार  
 भवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गलाः वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोग  
 परिणता एव भवन्ति, 'एव दुपणं मेण जाव थणियकुमारा' एवं द्विक्रम  
 द्विपदेन वा पर्याप्तकापर्याप्तकरूपेण भवेन यावत्-नागकुमारादारभ्य स्तनित  
 कुमारपर्यन्तं भवनवासिदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वैक्रियतैजसकार्मण  
 शरीरप्रयोगपरिणता एष भवन्ति, 'एष पिसाया जाव गंधवा' एवम् असुर  
 कुमारादिभवनपतिदेवदेव पिशाचाः यावत्-अपर्याप्तकाः पर्याप्तकाश्च गन्धर्वाः  
 पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गलाः वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एष

एवं पञ्चजगता वि' जो भवनवासी स्वर्गी अपर्याप्तकअसुरकुमारदेव  
 पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल हैं, वे सब नैरयिकों कि तरह वैक्रिय,  
 तैजस और कार्मणशरीर प्रयोगपरिणत ही होते हैं। इसी तरह  
 पर्याप्तक असुरकुमार भवनवासिदेव पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल भी  
 वैक्रिय, तैजस, एवं कार्मण शरीरप्रयोग परिणत ही होते हैं। 'एवं  
 दुपणं मेण जाव थणियकुमारा' इसी तरह से पर्याप्तक अपर्याप्त  
 करूप भेद को लेकर नागकुमार से लगाकर स्तनितकुमार तक भवन  
 वासिदेव पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल वैक्रिय, तैजस एव कार्मणशरीर  
 प्रयोगपरिणत ही होते हैं। इसी तरह से 'पिसाया जाव गंधवा'  
 अर्थात् असुरकुमार आदि भवनपति देवों को तरह से ही अपर्याप्तक  
 पर्याप्तकपिशाच यावत् गंधर्व पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल वैक्रिय,

'जे अपञ्चजा असुरकुमारभवनवासि महा नैरयिया तथैव, एवं पञ्चजगता वि'  
 ने भवनवासी । जेही अपर्याप्तक असुरकुमार देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल ०  
 तेही नैरयिकी जेव वैक्रिय, तैजस जने कामजु शरीर प्रयोगपरिणत ए देव ०  
 जे ए प्रभाजे पर्याप्तक असुरकुमार भवनवासी देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल पञ्च  
 वैक्रिय, तैजस जने कामजु शरीर प्रयोगपरिणत ए देव ० - 'एवं दुपणं मेण  
 जाव थणियकुमारा' जे ए प्रभाजे पर्याप्तक जने अपर्याप्तकरूप जेही अपेक्षाजे  
 नागकुमारी जेहने स्तनितकुमार पर्यन्तना भवनवासी देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत  
 पुद्गल पञ्च वैक्रिय तैजस जने कामजु शरीर प्रयोगपरिणत ए देव ० जे ए प्रभाजे  
 'पिसाया जाव गंधवा' अपर्याप्तक जने पर्याप्तक पिशाचही जेहि भवन पञ्चजगता  
 पञ्चजगता देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल पञ्च वैक्रिय तैजस जने कामजु शरीर

ભવન્તિ । ‘ચંદા જાવ તારાવિમાણા’ ચન્દ્રાઃ યાવત્-અપર્યાપ્તકાઃ પર્યાપ્તકાઃ સૂર્યગ્રહનક્ષત્રતારાવિમાનદેવપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ વૈક્રિયતૈજસકાર્મણશરીર-પ્રયોગપરિણતા એવ ભવન્તિ । ‘સોહમ્મો કપ્પો જાવ અચ્ચુઓ’ સૌધર્મઃ કલ્પઃ યાવત્-અચ્યુતઃ સૌધર્મ-કલ્પાદારભ્યાચ્યુતપર્યન્તં પર્યાપ્તકા અપર્યાપ્તકા વૈમાનિક-દેવપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ વૈક્રિયતૈજસકાર્મણશરીરપ્રયોગપરિણતા એવ ભવન્તિ । ‘હેટ્ઠિમહેટ્ઠિમ-ગેવેજ્જં જાવ ઉવરિમઉવરિમગેવેજ્જં’ અધસ્તનાધસ્તનત્રિક-ગ્રૈવેયકં યાવત્-અપર્યાપ્તકાઃ પર્યાપ્તકાઃ મધ્યમમધ્યમત્રિકગ્રૈવેયકોપરિમોપરિમત્રિક-ગ્રૈવેયકદેવપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ વૈક્રિયતૈજસકાર્મણશરીરપ્રયોગપરિણતા એવ ભવન્તિ । વિજયઅણુત્તરોવવાહ્યં જાવ સન્વટ્ઠસિદ્ધઅણું’ વિજયાનુત્તરૌપપાત્તિકં

તૈજસ એવં કાર્મણશરીરપ્રયોગપરિણત હી હોતે હૈં । ‘ચંદા જાવ તારા વિમાણા’ ઈસી તરહ સે અપર્યાપ્તકપર્યાપ્તક, ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર ઓર તારા વિમાનદેવપ્રયોગપરિણત જો પુદ્ગલ હૈં, વે વૈક્રિય, તૈજસ ઓર કાર્મણ શરીરપ્રયોગપરિણત હી હોતે હૈં । ‘સોહમ્મોકપ્પો જાવ અચ્ચુઓ’ ઈસી પ્રકારસે સૌધર્મકલ્પસે લેકર અચ્યુત કલ્પતક પર્યાપ્તક અપર્યાપ્તક વૈમાનિક દેવપ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ વૈક્રિય, તૈજસ, કાર્મણશરીરપ્રયોગ-પરિણત હી હોતે હૈં । હેટ્ઠિમહેટ્ઠિમ ગેવેજ્જં જાવ ઉવરિમ ઉવરિમગેવેજ્જં ઈસીતરહસે અધસ્તનાધસ્તનત્રિક ગ્રૈવેયકસે લેકર યાવત્ અપર્યાપ્તક પર્યાપ્તક ઉપરિમોપરિમત્રિક ગ્રૈવેયક દેવપ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ વૈક્રિય, તૈજસ, કાર્મણશરીરપ્રયોગપરિણત હી હોતે હૈં । ‘વિજય અણુત્તરોવવા-હ્યજાવ સન્વટ્ઠસિદ્ધ અણું’ વિજય અનુત્તરૌપપાત્તિક યાવત્ અપર્યા-

પ્રયોગપરિણુત જ હોય છે ‘ચંદા જાવ તારાવિમાણા’ એ જ પ્રમાણે અપર્યાપ્તક અને પર્યાપ્તક ચન્દ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાવિમાન દેવ પ્રયોગપરિણુત જે પુદ્ગલ હોય છે, તેઓ વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણ શરીર પ્રયોગપરિણુત જ હોય છે. ‘સોહમ્મો કપ્પો જાવ અચ્ચુઓ’ એ જ પ્રમાણે સૌધર્મકલ્પથી લઈને અચ્યુતકલ્પ પર્યન્તના બારે કલ્પોના પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક વૈમાનિક દેવ પ્રયોગપરિણુત પુદ્ગલ પણ વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણ શરીર પ્રયોગપરિણુત જ હોય છે. ‘હેટ્ઠિમ હેટ્ઠિમ ગેવેજ્જં જાવ ઉવરિમ ઉવરિમ ગેવેજ્જં’ એ જ પ્રમાણે અધસ્તન (નીચેના) ત્રણ ગ્રૈવેયકના, મધ્યમ ત્રણ ગ્રૈવેયકના અને ઉપરિતન (સૌથી ઉપરના) ત્રણ ગ્રૈવેયકના અપર્યાપ્તક અને પર્યાપ્તક દેવ પ્રયોગપરિણુત પુદ્ગલ પણ વૈક્રિય, તૈજસ અને કાર્મણ શરીર પ્રયોગપરિણુત જ હોય છે.

यावत् अपर्याप्तकपर्याप्तकदेवप्रयोगपरिणता पुद्गलाः वैक्रियतैजसकार्मणशरीर  
प्रयोगपरिणता एव भवन्ति । एव जयन्तानुचरौपपातिकदेवप्रयोगपरिणताः  
पुद्गलाः वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एव, जयन्तानुचरौपपातिकदेव  
प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः, अपराजितानु  
चरौपपातिकदेवप्रयोगपरिणताः पुद्गला वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः,  
सर्वार्थसिद्धानुचरौपपातिकदेवप्रयोगपरिणताः वैक्रियतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरि  
णता एव । एवकेवकेणं द्रुयभो मेधो भाणियष्वो, एकैकेन प्रत्येकं द्विपदः  
पर्याप्तकापर्याप्तकरूपो मेधो मणिसव्यः 'जाय जे पञ्चसम्बद्धसिद्धअणुचरोष  
पाइया जाव परिणया ते चउभियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया', यावत्-ये

प्तक पर्याप्तक देवप्रयोगपरिणतपुद्गल वैक्रिय, तैजस एव कार्मण  
शरीरप्रयोगपरिणत ही होधे हैं । इसी तरहसे वैजयन्त अनुचरौप-  
पातिक देवप्रयोगपरिणतपुद्गल वैक्रिय, तैजस, एव कार्मणशरीरप्रयोग  
परिणत ही होते हैं । जयन्त अनुचरौपपातिक देवप्रयोगपरिणत पुद्-  
गल वैक्रिय तैजस एव कार्मणशरीरप्रयोग परिणत ही होते हैं ।  
अपराजित अनुचरौपपातिक देवप्रयोगपरिणत पुद्गल वैक्रिय, तैजस  
एव कार्मण शरीरप्रयोगपरिणत ही होते हैं । सर्वार्थसिद्ध अनुचरौ-  
पपातिक देवप्रयोगपरिणत पुद्गल वैक्रिय, तैजस एव कार्मणशरीर  
प्रयोगपरिणत ही होते हैं । 'एवकेवकेण द्रुयभो मेधो भाणियष्वो'  
इसी तरह एक एक करके प्रत्येकका पर्याप्तक अपर्याप्तकरूप भेद  
कहना चाहिये । 'जाय जे पञ्चसम्बद्धसिद्धअणुचरायवाइया जाव  
परिणया ते चउभिय तेया कम्मा सरीरपओगपरिणया' यावत् जो

'विजय वैजयन्त जयन्त अपराजियाण अणुचरोचनाइ जाव सम्बद्धसिद्ध अणु०'  
विजय अनुचरौपपातिक अपर्याप्तक अने पर्याप्तक देव प्रयोगपरिणत पुद्गल पणु वैक्रिय  
तैजस अने कामणु शरीर प्रयोगपरिणत एव होधे अने अणु अणु वैजयन्त अनुचरौपपातिक  
देव प्रयोगपरिणत पुद्गल पणु वैक्रिय तैजस अने कामणु शरीर प्रयोगपरिणत एव होधे  
अने अणु अणु जयन्त, अपराजित अने सर्वार्थसिद्ध अनुचरौपपातिक अपर्याप्तक  
अने पर्याप्तक देव प्रयोगपरिणत पुद्गल पणु वैक्रिय, तैजस अने कामणु शरीर  
प्रयोग परिणत एव होधे 'एवकेवकेण द्रुयभो मेधो भाणियष्वो' आ रीते वाइइरती  
इइकना पर्याप्तक अने अपर्याप्तक एव वेइनु अणु अणु अणु 'जाय जे पञ्चस  
सम्बद्धसिद्ध अणुचरोषवाइया जाव परिणया ते चउभिय तेया कम्मा सरीर

अपर्याप्ताः सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिकदेवप्रयोगपरिणताः पुद्गलास्ते वैक्रिय-  
तैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, एवं ये च पर्याप्तकाः सर्वार्थ-  
सिद्धानुत्तरौपपातिक० यावत् प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः ते वैक्रियतैजसकार्मण-  
शरीरप्रयोगपरिणता एव भवन्ति न तु आहारकौदारिकशरीरप्रयोगपरिणताः, इति  
तृतीयो दण्डकः ३॥

तथा च-तृतीयदण्डके शरीरद्वारके एकपष्ट्यधिकशत (१६१) जीवभेदानाम्  
एकनवत्यधिकचतुःशतानि (४९१) शरीराणि भवन्ति, तथाहि-द्वितीयदण्डकोक्तैक-  
पष्ट्यधिकशतजीवभेदमध्ये वायुकायस्यैकः, गर्भजतिर्यग्योनिकानां पञ्च, गर्भज-  
मनुष्याणामेकः, इत्येतत्सप्तभिन्नानां चतुःपञ्चाशदधिकशत (१५४) जीवभेदानां  
प्रत्येकं शरीरत्रयभेदेन द्विपष्ट्यधिकचतुःशतानि ४६२ शरीराणि, वायुकायस्य

अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवप्रयोगपरिणतपुद्गल हैं वे  
वैक्रिय, तैजस एवं कार्मणशरीरप्रयोग परिणत ही होते हैं इसी  
तरह जो पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवप्रयोगपरिणतपुद्गल  
होते हैं वे वैक्रिय तैजस एवं कार्मणशरीर प्रयोगपरिणत ही होते  
हैं। आहारक और औदारिक शरीरप्रयोग परिणत नहीं होते हैं।  
इस तरह यह तृतीय दण्डक कहा गया है। तथाच शरीरद्वारवाले  
इस तृतीय दण्डकमें १६१ जीव भेदोंके ४९१ शरीर होते हैं। जो  
इस प्रकारसे हैं द्वितीयदण्डकमें कथित १६१ जीव भेदोंके बीचमें  
वायुकायका एक, गर्भजतिर्यग्योनिकोंके पांच, गर्भजमनुष्योंका एक,  
उन सातसे भिन्न वाकीके १५४ जीव भेदोंके प्रत्येकके शरीरत्रयके

प्रयोगपरिणता' अपर्याप्तक न्योतिषिकोत्थी लभने अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध पर्याप्तना  
अनुत्तरौपपातिक देव प्रयोगपरिणत ने पुद्गलो होय छे, ते वैक्रिय, तैजस अने कार्मण  
शरीर प्रयोगपरिणत न होय छे अने प्रमाणे पर्याप्तक न्योतिषिकोत्थी लभने पर्याप्तक  
सर्वार्थसिद्ध पर्याप्तना अनुत्तरौपपातिक देव प्रयोगपरिणत पुद्गलो वैक्रिय, तैजस अने  
कार्मण शरीर प्रयोगपरिणत न होय छे- ते पुद्गलो आहारक अने औदारिक शरीर  
प्रयोगपरिणत होता नथी आ प्रमाणे तीन दंडकु प्रतिपादन पूरुं थाय छे  
शरीरद्वारवाला आ तीन दंडकमां अथवा १६१ लेहोना ४९१ शरीर कथा छे  
ते ४६१ शरीर नीचे प्रमाणे समजा- तीन दंडकमां ने १६१ अथलेहो कथा छे  
तेमाथी अके वायुकायिक अथलेह, पांच तिर्यग्योनिक अथभेद, अने अके गर्भज मनुष्य  
अथभेद, अने सात अथलेह सिवायना १५४ अथलेहोना प्रत्येकना शरीरत्रयना भेदथी

औदारिकचैक्रियतैजसकर्मणरूपाणि चत्वारि ४ शरीराणि, पञ्चानां गर्भज  
तिर्यग्योनिकानां प्रत्येकं शरीरचतुष्टयमेवेन चिञ्चतिः २० शरीराणि, गर्भज  
मनुष्यस्य च पञ्च आहारकौ-दारिक-चैक्रिय-तैजस-कर्मण-शरीराणि, इति  
सर्वं समेत्तनेन  $४६२+४+२०+५=४९१$  एकनवत्यधिकषष्टुःशतानि शरीराणि  
मयन्ति ॥सू० ४॥

अपेन्द्रियद्वारमधिकृत्य चतुर्षदष्टकमाह-‘जे अपञ्जघा’ इत्यादि ।

मूयम्-‘जे अपञ्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिदियपओगपरि  
णया ते फासिदियपओगपरिणया, जे पञ्चत्तसुहुमपुढविकाइया  
एव चेव । जे अपञ्जत्तघायरपुढविकाइया एव चेव । एव पञ्ज  
त्तगा वि, एव चउक्कएण भेएण जाव वणस्सइकाइया ।  
जे अपञ्जत्ता वेइदियपओगपरिणया ते जिञ्चिदियफासिदिय  
पओगपरिणया । जे पञ्जत्ता वेइदिया एव चेव । एव जाव चउ-  
रिदिया, नवर एक्केक्क इदिय वहुडेयव्व, जाव अपञ्जत्त  
रयणप्पभापुढविनेरइयपचिदियपओपपरिणया ते सोइदिय-च-  
क्खिदय-घाणिदिय-जिञ्चिदिय-फासिदियपओगपरिणया । एव  
पञ्जत्तगावि । एव सव्वे भाणियघा, तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवा

मेवसे ४६२ शरीर हाते हैं । वायुकायिकके औदारिक, चैक्रिय, तैजस  
और कर्मणरूप चारशरीर, तथा पाँच गर्भज तिर्यग्योनिकोके प्रत्येक  
के शरीरचतुष्टयके मेवसे भीम २० शरीर होते हैं । गर्भजमनुष्यके  
औदारिक, चैक्रिय, तैजस, आहारक और कर्मण शरीर होते हैं ।  
इस तरह  $४६२+४+२०+५=४९१$  शरीर हो जाते हैं ॥सू० ४॥

कुल ४६२ शरीर काय ॐ वायुकायिकने औदारिक, चैक्रिय, तैजस आने आम चतुष्टय आर  
शरीर होय ॐ पञ्च प्रकारना गर्भज तिय कोर्मा प्रभेदने आर, आर शरीर होय ॐ  
तेषी वेभना २० शरीर काय ॐ मकल मनुष्यने औदारिक, चैक्रिय, तैजस, आहारक  
आने कर्मण के पाय शरीर होय ॐ आर हीते  $४६२+४+२०+५=४९१$  शरीर  
काय ॐ ॥सू० ४॥

जाव जे पज्जत्तसवट्ट सिद्ध-अणुत्तरोववाइय० जाव परिणया ते सो-  
इंदिय-चक्रिंदिय-जाव परिणया (दंडगा ४ ) ॥ सू. ५॥

छाया-ये अपर्याप्तकाः सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, ते  
स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः । ये पर्याप्तकाः सूक्ष्मपृथिवीकायिका एवमेव । ये  
अपर्याप्तकाः वाटरपृथिवीकायिकाः एवमेव, एवं पर्याप्तका अपि । एवं  
चतुष्केण भेदेन यावत् वनस्पतिकायिकाः । ये अपर्याप्तकाः द्वीन्द्रियप्रयोग-

‘जे अपज्जत्ता सुहुम पुढविकाइयएगिंदिय’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(जे अपज्जत्ता सुहुम पुढविकाइय एगिंदिय०) जो पुद्गल  
अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगसे परिणत हैं (ते फासिं-  
दियप्रयोगपरिणया) वे पुद्गल स्पर्शन इन्द्रियप्रयोगसे परिणत होते  
हैं । (जे पज्जत्ता सुहुमपुढविकाइया एवं चैव) इसी तरह जो पुद्गल  
पर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत होते हैं, वे पुद्गल  
भी एक स्पर्शन इन्द्रिय प्रयोगसे परिणत होते हैं । (जे अपज्जत्ता  
वाटर पुढविकाइया एवचैव, एवं पज्जत्तगा वि, एवं चउक्केणं भेएणं  
जाव वणस्सइकाइया) जो पुद्गल अपर्याप्त वाटरपृथिवीकायिक प्रयोग-  
परिणत होते हैं वे भी इसी प्रकारसे होते हैं । जो पुद्गल पर्याप्तक  
वाटर पृथिवीकायिक प्रयोगपरिणत होते हैं वे भी इसी प्रकारके होते  
हैं । इसी तरहके चार भेद यावत् वनस्पतिकायिकोंके जानना चाहिये।

‘जे अपज्जत्ता सुहुम पुढविकाइयएगिंदिय’ इत्यादि-

सूत्रार्थ-(जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिंदिय.) ने पुद्गलो अपर्याप्तक  
सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगथी परिणत होय छे, (ते फासिंदिय प्रयोगपरिणया)  
ते पुद्गलो स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगथी परिणत होय छे, (जे पज्जत्ता सुहुम पुढविकाइया  
एवं चैव) ओ न प्रमाणे ने पुद्गलो पर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत होय छे, ते पुद्गलो पणु ऐकली स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी न परिणत होय छे.  
(जे अपज्जत्ता वाटरपुढविकाइया एवं चैव, एवं पज्जत्तगा वि, एवं चउक्केणं  
भेएणं जाव वणस्सइकाइया) ने पुद्गलो अपर्याप्त वाटरपृथ्वीकायिक प्रयोगपरिणत  
होय छे, तेओ पणु ओ न प्रकारना (स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिणत) होय छे ने पुद्गल  
पर्याप्तक वाटरपृथ्वीकायिक प्रयोगपरिणत होय छे, तेओ पणु ओ न प्रकारना होय छे.  
अपुष्पिक, तेनःकायिक, वायुकायिक अने व-स्पतिकायिकना उपर्युक्त चार भेद विषे पणु



परिणताः, ते मिहेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः । ये पर्याप्तकाः द्वीन्द्रिया एवमेव । एव यावत् चतुरिन्द्रियाः, नवरम् एकैकमिन्द्रिय वृद्धयितव्यम्, यावत् अपर्याप्तकाः रत्नप्रमापृथिवीनैरपिकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः ते श्रोत्रेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय-निह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः । एव पर्याप्तका

(जे अपञ्जस्ता वेइदियपभोगपरिणया ते जिर्मिभदियफासिदियपभोग परिणया ) जो पुद्गल अपयाप्त वेइन्द्रियप्रयोगपरिणत होते हे, वे पुद्गल जिहा इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं । (जे पञ्जस्ता वेइदिया एव शेष) जो पुद्गल पर्याप्त वेइन्द्रिय प्रयोगपरिणत होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं । (एव जाव चतुरिन्द्रिया नवरं एवकेका इदियं वृद्धयेयम्) इसी तरहसे यावत् चोइन्द्रिय जीवोंको भी जानना चाहिये । परन्तु इनमें एकएक इन्द्रियकी वृद्धि करनी चाहिये । अर्थात् तेइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां कहनी चाहिये और चोइन्द्रिय जीवोंके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां कहनी चाहिये । (जाव अपञ्जस्ता रयणप्यभापुडवी नैरइयपंचिदियपभोगपारणया ते सोइदिय चर्किस्वदियघाणिदियजिर्मिभदियफासिदियपभोगपरिणया ) यावत् जो पुद्गल अपर्याप्त रत्नप्रमा पृथिवी नारक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत होते हैं वे श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिहाइन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं । (एव पञ्जत्वगा वि) इसी

मे ७ प्रमाप्ते समभवु. (जे अपञ्जस्ता वेइदियपभोगपरिणया ते जिर्मिभदिय फासिदियपभोगपरिणया) ७ पुद्गलते अपर्याप्त द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत होयते तेमे निह्वेन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगशी परिणत होयते । (जे पञ्जस्ता वेइदिया एव शेष) ७ पुद्गलते पर्याप्त द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत होयते, ते पञ्च कोवा ७ होयते । (एव जाव चतुरिन्द्रिया-नवरं एकैकक इदियं वृद्धयेयम्) को ७ प्रमाप्ते चतुरिन्द्रिय पयन्तना एते विषे समभवु परन्तु तेभं ओके इन्द्रियनी वृद्धि करनी कोउये. कोउते के तेइन्द्रिय एतेने स्पर्शेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय अने रसनाइन्द्रिय अहेवी कोउये अने चक्षुइन्द्रिय एतेने स्पर्शेन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय अने चक्षुइन्द्रिय अहेवी कोउये. (जाव अपञ्जस्ता रयणप्यभा पुडविनैरइयपंचिदिय पभोगपरिणया ते सोइदिय, चर्किस्वदिय, घाणिदिय, जिर्मिभदिय, फासिदिय पभोगपरिणया) यावत् ७ पुद्गलते अपर्याप्तक इत्प्रमा पृथ्वीनारक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत होयते ते पुद्गलते श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगशी परिणत होयते ।

अपि । एवं सर्वे भणितव्याः । तिर्यग्योनिक-मनुष्य-देवाः यावत् वे पर्याप्ताः सर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिकाः यावत् परिणताः, श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-परिणताः (चतुर्थो दण्डकः ४) ॥सू० ५॥

टीका-‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिदियपओगपरिणया ते फासि-दियपओगपरिणया’ चे अपर्याप्तकाः सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गला प्रज्ञप्ताः, ते नियमतः स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति नतु चक्षुःश्रोत्रादीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पृथिवीकायिकादेः स्पर्शरूपस्यैव एकेन्द्रियस्य

तरहसे पर्याप्तक नारकप्रयोगपरिणत पुद्गलोंको भी जानना चाहिये । ( एवं सत्त्वे भाणियव्वा तिरिक्खजोणियमणुसदेवा जाव जे पज्जत्ता सव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव परिणया ते सोइंदिय चक्खिदिय जाव परिणया, दंडगा ४) इसी प्रकारसे समस्त तिर्यग्योको, मनुष्योंको और देवोंको जानना चाहिये । यावत् जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिकदेवप्रयोगपरिणत होते हैं वे श्रोत्रेन्द्रिय चक्षुइन्द्रिय यावत् परिणत हैं । दण्डक ४

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा सूत्रकारने इन्द्रियद्वारको लेकर चतुर्थदण्डक कहा है इसमें यह कहा गया है कि ‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइय-एगिदियपओगपरिणया ते फासिदियपओगपरिणया’ जो अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कहे गये हैं वे नियम से एक स्पर्शन इन्द्रिय प्रयोगपरिणत ही होते हैं चक्षु श्रोत्रादि इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत नहीं होते क्योंकि पृथिवीकायिक आदिके

(एव पज्जत्ता वि) येन प्रमाणे पर्याप्तक नारक प्रयोगपरिणत पुद्गलो विषे यत्तु समञ्जु (एव सत्त्वे भाणियव्वा तिरिक्खजोणियमणुसदेवा जाव जे पज्जत्ता सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव परिणया ते सोइंदिय चक्खिदिय जाव परिणया, दंडगा ४) येन प्रमाणे समस्त तिर्यग्यो, मनुष्यो अने देवो विषे समञ्जु (यावत्) ने पुद्गलो पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देव प्रयोगपरिणत होय छे, ते पुद्गलो श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय आदि, पाये इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे आ प्रमाणे योत्तु दंडक समञ्जु

टीकार्थ- आ सूत्र द्वारा सूत्रकारने इन्द्रियद्वारने अनुलक्षीने योथा दंडकनु प्रतिपादन कथुं छे तेभा कथुं छे के- ‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिदियपओग-परिणया ते फासिदियपओगपरिणया’ ने अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल कथा छे, ते नियमथी ने एक स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिणत न होय छे ते पुद्गलो चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होता तथा कारण के पृथ्वीकायिक

परिणता, ते जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः । ये पर्याप्तकाः श्रोत्रिन्द्रिया एवमेव । एव यावत् चतुरिन्द्रियाः, नवरम् एकैकमिन्द्रियं वदयितव्यम्, यावत् अपर्याप्तकाः रत्नप्रमापृथिवीनैरत्येकपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः ते भ्रौंकेन्द्रियं चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय-निह्येन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रिय-प्रयोगपरिणता । एव पर्याप्तका

(जे अपञ्जसा वेद्दियपभोगपरिणया ते जिह्विन्द्रियफासिदियपभोग परिणया ) जो पुद्गल अपर्याप्त वेद्दियप्रयोगपरिणत होते हे, वे पुद्गल जिह्वा इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं । (जे पञ्जसा वेद्दिया एव चेष) जो पुद्गल पर्याप्त वेद्दिय प्रयोगपरिणत होते हैं वे भी ऐसे ही होते हैं । (एव जाव चक्षुरिन्द्रिया नवरं एकैकम् इन्द्रियं वदयेयम्) इसी तरहसे यावत् चोद्दिय जीयोको भी जानना चाहिये । परन्तु इनमें एकएक इन्द्रियकी वृद्धि करनी चाहिये । अर्थात् तेइन्द्रिय जीयोके स्पर्शन, रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियां कहनी चाहिये और चोद्दिय जीयोके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियां कहनी चाहिये । (जाव अपञ्जसा रयणप्यभापुहवी नैरइयपंचिदियपभोगपरिणया ते सोद्दिय चकिंस्वदियघाणिदियजिह्विन्द्रियफासिदियपभोगपरिणया ) यावत् जो पुद्गल अपर्याप्त रत्नप्रमा पृथिवी नारक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत होते हैं वे आधेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं । (एव पञ्जसगा वि) इसी

जे न प्रभावे समञ्जं (जे अपञ्जसा वेद्दियपभोगपरिणया ते जिह्विन्द्रिय फासिदियपभोगपरिणया) न पुद्गल इन्द्रिय प्रयोगपरिणत होता है तेजो विह्वेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगकी परिणत होता है (जे पञ्जसा वेद्दिया एव चेष) न पुद्गल पर्याप्त इन्द्रिय प्रयोगपरिणत होता है, ते वल्लु जेवां न होता है (एव जाव चक्षुरिन्द्रिया-नवरं एकैकम् इन्द्रियं वदयेयम्) जे न प्रभावे चतुरिन्द्रिय भवन्ताना एते विषे समञ्जं परन्तु तेभं जेके इन्द्रियकी वृद्धि करनी जेके जेके तेइन्द्रिय एतेने स्पर्शेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनाइन्द्रिय कहेवी जेके जेके चतुरिन्द्रिय एतेने स्पर्शेन्द्रिय, रसनाइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुइन्द्रिय कहेवी जेके जेके (जाव अपञ्जसा रयणप्यभापुहवी नैरइयपंचिदिय पभोगपरिणया ते सोद्दिय, चकिंस्वदिय, घाणिदिय, जिह्विन्द्रिय, फासिदिय पभोगपरिणया) यावत् न पुद्गल अपर्याप्त रत्नप्रमा पृथिवीनारक पंचेन्द्रिय प्रयोगपरिणत होता है ते पुद्गल भ्रौंकेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगकी परिणत होता है

अपि । एवं सर्वे भणितव्याः । तिर्यग्योनिक-मनुष्य-देवाः यावत् ये पर्याप्ताः  
सर्वार्थसिद्धानुत्तरोपपातिकाः यावत् परिणताः, श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-  
परिणताः (चतुर्थो दण्डकः ४) ॥सू० ५॥

टीका-‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिदियपओगपरिणया ते फारिं-  
दियपओगपरिणया’ ये अपर्याप्तकाः सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
पुद्गला प्रज्ञप्ताः, ते नियमतः स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति नतु  
चक्षुःश्रोत्रादीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पृथिवीकायिकादेः स्पर्शरूपस्यैव एकेन्द्रियस्य

तरहसे पर्याप्तक नारकप्रयोगपरिणत पुद्गलोंको भी जानना चाहिये ।  
( एवं सबवे भाणियन्वा तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवा जाव जे पज्जत्ता  
सव्वहिसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव परिणया ते सोइंदिय चक्खिदिय जाव  
परिणया, दंडगा४) इसी प्रकारसे समस्त तिर्यञ्चोंको, मनुष्योंको और  
देवोंको जानना चाहिये । यावत् जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनु-  
त्तरोपपातिकदेवप्रयोगपरिणत होते हैं वे श्रोत्रेन्द्रिय चक्षुइन्द्रिय  
यावत् परिणत हैं । दण्डक ४

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा सूत्रकारने इन्द्रियद्वारको लेकर चतुर्थदण्डक  
कहा है इसमें यह कहा गया है कि ‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइय-  
एगिदियपओगपरिणया ते फारिंदियपओगपरिणया’ जो अपर्याप्त  
सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कहे गये हैं वे नियम  
से एक स्पर्शन इन्द्रिय प्रयोगपरिणत ही होते हैं चक्षु श्रोत्रआदि  
इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत नहीं होते क्योंकि पृथिवीकायिक आदिके

(एव पज्जत्ता वि) येन प्रमाणे पर्याप्तक नारक प्रयोगपरिणत पुद्गलो विषे पथु समञ्जुं  
( एव सबवे भाणियन्वा तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवा जाव जे पज्जत्ता  
सव्वहिसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव परिणया ते सोइंदिय चक्खिदिय जाव  
परिणया, दंडगा ४) येन प्रमाणे समस्त तिर्यं ये, मनुष्ये अने देवा विषे समञ्जु  
( यावत् ) ने पुद्गलो पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देव प्रयोगपरिणत होय छे,  
ते पुद्गलो श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय आदि पाये इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे  
आ प्रमाणे येषु दंडक समञ्जुं

टीकार्थ- आ सूत्र द्वारा सूत्रकारने इन्द्रियद्वारने अनुलक्षिने यथा दंडकनु प्रतिपादन  
कथं छे तेषां कथं छे- ‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढविकाइयएगिदियपओग-  
परिणया ते फारिंदियपओगपरिणया’ ने अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय  
प्रयोगपरिणत पुद्गल कथा छे, ते नियमथी न अथ स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिणत न होय छे.  
ते पुद्गलो चक्षु श्रोत्र आदि इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होता नथी कारणे ते पृथ्वीकायिक

सत्त्वेन तत्प्रयोगपरिणतानां पुद्गलानां स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणतत्वस्यैव समवाय एव 'जे पञ्जचा सुहृमपुढविकाइया एव वेव' चे पर्याप्तताः सूक्ष्मपृथिवी कायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः ते एवमेव-नियमतः स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति । 'जे अपञ्जचा वायरपुढविकाइया एव वेव' य अपर्याप्तताः वादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गला प्रज्ञप्तास्ते एवमेव-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्तीत्यर्थ । 'एव पञ्जचगा वि' एव=

एक स्पर्शन इन्द्रियका ही समझाव होता है । अतः तत्प्रयोगपरिणत पुद्गलोंमें स्पर्श न इन्द्रियप्रयोगपरिणतता का ही समझ होता है । 'एव जे पञ्जचा सुहृमपुढविकाइया एव वेव' तथा जो पर्याप्तक सूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल कहे गये हैं, वे भी नियमसे एक स्पर्शन इन्द्रियप्रयोगपरिणत ही होते हैं । यहाँ सूत्रमें जो 'जे अपञ्जचा' ऐसा बहुवचन विशेषण पुद्गलोंका नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पर्याप्तक और अपर्याप्तक पुद्गल नहीं होते हैं पर्याप्तक अपर्याप्तक ता जीव होते हैं अतः यहाँ पर विशेषण पुद्गलोंका न करक भीषोंका ही किया गया है क्योंकि पर्याप्तक जीव द्वारा गृहीत जो पुद्गल हैं वे, पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीव द्वारा गृहीत पुद्गल अपर्याप्तक मान लिए जाते हैं । जे अपञ्जचा वायरपुढविकाइया एव वेव' जो पुद्गल अपर्याप्तक वादरपृथिवीकायिककी एकेन्द्रियके प्रयोग परिणत कहे गये हैं, वे भी केवल एक स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे

आदिन जेके स्पर्शेन्द्रियने न सहभाव होत छे तेही तेना प्रयोगही परिकृत पुद्गलैम स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिवृत्तता न समधी शके छे । 'एव जे पञ्जचा सुहृमपुढविकाइया एव वेव' तथा जे पर्याप्तक सूक्ष्म पृथिवीकायिक जेकेन्द्रिय प्रयोगपरिवृत्त पुद्गलैम कहे छे तेज्जे पञ्च निवमधी न स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिवृत्त न होत छे अही जे 'जे अपञ्जचा' जेजु जे पुद्गलैनु लहुवचननाशु विशेषण आपवोभां आवु छे तेने जेनु विशेषण समजनु कालु के पुद्गलै पर्याप्तक जेने अपर्याप्तक होला नही पञ्च एव पर्याप्तक जेने अपर्याप्तक देव छे तेही अही पर्याप्तक जेने अपर्याप्तक, आ जेने विशेषण जेने लख पठे छे तेम समजनु कालु के पर्याप्तक एव द्वारा गृहीत जे पुद्गलै छे तेमने पर्याप्तक जेने अपर्याप्तक एव द्वारा गृहीत जे पुद्गलै छे तेमने अपर्याप्तक मान देवार्थ आवे छे । 'जे अपञ्जचा वायरपुढविकाइया एव वेव' जे पुद्गलै अपर्याप्तक नहए पृथिवीकायिक जेकेन्द्रिय प्रयोगपरिवृत्त कहे छे, तेज्जे पञ्च जे

तथैव अपर्याप्तकादरपृथिवीकायिकवदेव पर्याप्तका अपि वादरपृथिवीकायिकै  
केन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति ।  
एव चउक्कणं भेएणं जाव वणस्सइकाइया' एवं प्रकारेण चतुष्केण भेदेन  
सूक्ष्म-वादर-पर्याप्तका-पर्याप्तकरूपेण चतुर्विधाः यावत्-अप्कायिक-तैजस-  
कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः स्पर्शे-  
न्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति । 'जे अपज्जत्ता वेइंदिय पओगपरिणया ते  
जिर्विभदियफासिंदियपओगपरिणया' ये अपर्याप्तकाः द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः ते जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता भवन्ति, तथा 'जे  
पज्जत्ता वेइंदिया एवं चेव' ये पर्याप्तकाः द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
प्रज्ञप्ताः ते एवमेव-द्वीन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति 'एवं जाव चउरिंदिया'

परिणत ही होते हैं । 'एव पज्जत्तगा वि' अपर्याप्तक वादरपृथिवी-  
कायिक की तरहसे ही पर्याप्तक वादरपृथिवीकायिक एकेन्द्रियप्रयोग-  
परिणतपुद्गल भी केवल एक स्पर्शन इन्द्रियप्रयोगपरिणत ही होते  
हैं । 'एव चउक्कणं भेएणं जाव वणस्सइकाइया' इस तरह सूक्ष्म,  
वादर, पर्याप्तक अपर्याप्तकरूप चार भेदसे चार प्रकारके अप्कायिक,  
तैजसकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल  
एक केवल स्पर्शन इन्द्रियप्रयोग परिणत ही होते हैं । 'जे अपज्जत्तगा  
वेइंदियपओगपरिणया ते जिर्विभदिय फासिंदियपओगपरिणया' जो  
अपर्याप्तक वेइन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल कहे गये हैं, वे जिह्वाइन्द्रिय  
और स्पर्शनइन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं तथा 'जे पज्जत्ता  
वेइंदिया एवं चेव' जो पुद्गल पर्याप्तक वेइन्द्रिय जीवकी दो इन्द्रियोंके  
प्रयोगसे परिणत कहे गये हैं वे भी जिह्वा इन्द्रिय और स्पर्शनइन्द्रिय  
इन दोइन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत होते हैं 'एवं जाव चउरिंदिया'

स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगात्थी न परिणत होय छे. 'एव पज्जत्तगा वि' अपर्याप्तक वादर  
पृथ्वीकायिकनी न्मे न पर्याप्तक वादर पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलो। पयु  
ऐक मात्र स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिणत न होय छे 'एव चउक्कणं भेएणं जाव  
वणस्सइकाइया' ऐ न प्रभासे सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक अने अपर्याप्तकरूप चार भेदनी  
अपेक्षासे अप्कायिक, तैजसकायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिक ऐकेन्द्रिय प्रयोग-  
परिणत पुद्गलो। पयु ऐक मात्र स्पर्शेन्द्रिय प्रयोगपरिणत न होय छे 'जे अपज्जत्तगा  
वेइंदिय पओगपरिणया' ते जिर्विभदियफासिंदियपओगपरिणया' न अपर्याप्तक  
द्वीन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलो। किंवा छे, तेयो जिह्वाइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगात्थी

મર્યાદન તત્ત્વયાગપરિણતાનાં પુદ્ગલાનાં સ્પર્શેન્દ્રિયમયોગપરિણતત્ત્વસ્યૈવ સમઘાત્ ।  
 एष 'जे पञ्जत्ता सुहृमपुढविकाइया एषं खेष' ये पर्याप्तताः सूक्ष्मपृथिवी  
 कायिकैकेन्द्रियमयागपरिणता पुद्गला मद्गताः ते एषमन-नियमतः स्पर्श  
 न्द्रियमयोगपरिणता एव भवन्ति । 'जे अपञ्जत्ता वायरपुढविकाइया एष खेष'  
 य अपयाप्तका वादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियमयोगपरिणताः पुद्गला मद्गतास्ते  
 एषमेव-स्पर्शन्द्रियमयोगपरिणता एव भवन्तीत्यर्थ । 'एष पञ्जत्ता चि' एष=

एष स्पષ્ટાન ઇન્દ્રિયકા હી સદ્ઘાથ હોતા હૈ । અતઃ તત્ત્વયોગપરિણત  
 પુદ્ગલોમિં સ્પષ્ટાન ઇન્દ્રિયમયોગપરિણતતા કા હી સમઘ હોતા હૈ । 'एष  
 जे पञ्जत्ता सुहृमपुढविकाइया एष खेष ) तथा जो पर्याप्तता सूक्ष्म  
 पृथिवीकायिक एकेन्द्रियमयागपरिणतपुद्गल कहे गये हैं, वे भी नियमसे  
 एक स्पर्शन इन्द्रियमयोगपरिणत ही होते हैं । यहाँ सूत्रमें जो 'जे  
 अपञ्जत्ता' ऐसा बहुरूपचन विशेषण पुद्गलोंका नहीं समझना चाहिए,  
 क्योंकि पर्याप्तक और अपयाप्तक पुद्गल नहीं होते हैं पर्याप्तक  
 अपयाप्तक ता जीव होते हैं अतः यहाँ पर विशेषण पुद्गलोंका न  
 करके जीवोंका ही किया गया है क्योंकि पर्याप्तक जीव द्वारा ग्रहीत  
 जो पुद्गल हैं वे, पर्याप्तक और अपयाप्तक जीव द्वारा ग्रहीत पुद्गल  
 अपयाप्तक मान लिय जाते हैं । जे अपञ्जत्ता वायरपुढविकाइया एष  
 खेष' जा पुद्गल अपयाप्तक वादरपृथिवीकायिककी एकेन्द्रियके प्रयोग  
 परिणत कहे गये हैं, य भी फेरल एक स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे

આદિન એક સ્પર્શન્દ્રિયને જ સહકાર દેવ છે તેથી તેના પ્રયોગથી પરિણત પુદ્ગલોમાં  
 સ્પર્શન્દ્રિય પ્રયોગપરિણતતા જ સમાવી શકે છે । 'एष जे पञ्जत्ता सुहृमपुढविकाइया  
 एष खेष तथा ? पर्याप्तक सूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गल  
 तेनो एष नियमयो ज स्पर्शे इव प्रयोगपरिणत / देव છે આદી ને 'जे अपञ्जत्ता'  
 એવું ? પ્રયોગોનું બહુવચનવાળું વિશેષણ આપવામાં આવ્યું છે તેને એવોનું વિશેષણ  
 સમ વું કારણ કે પ્રયોગો પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક એવા નથી પણ એવ પર્યાપ્તક અને  
 અપર્યાપ્તક એવ છે તેથી આદી પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક આ બન્ને વિશેષણો એવને  
 કાણ પડે છે તેમ સમજવું કારણ કે પર્યાપ્તક એવ દ્વારા ગ્રહીત ને પ્રયોગો છે તેમને  
 પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક એવ દ્વારા ગ્રહીત ને પ્રયોગો છે તેમને અપર્યાપ્તક માની  
 લેવામાં આવે છે । 'जे अपञ्जत्ता वायरपुढविकाइया' एष - खेष' ને પ્રયોગો  
 અપર્યાપ્તક વાદર પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત કલ છે, તેને પણ એક

प्राणेन्द्रिय-जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति । एवं पञ्जत्तगा वि' एवम् अपर्याप्तकवदेव ये पर्याप्तका रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः पुद्गलास्ते श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, 'एवं सव्वे भाणियव्वा' एवं-रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकवदेव, सर्वे शर्कराप्रभा-वालुकाप्रभा-पङ्कप्रभा-धूमप्रभा-तमःप्रभा-तमस्तमःप्रभापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्याप्तकाः अपर्याप्तकाश्च श्रोत्रादिपञ्चेन्द्रिय-प्रयोगपरिणता भवन्ति । एवं 'तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवा जाव' ये तिर्यग्योनिकमनुष्यदेवा यावत् पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः मङ्गलास्तास्ते श्रोत्रादिपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति 'जाव' इति यावत्पदेन भवन-

इन्द्रिय, इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत ही होते हैं 'एवं पञ्जत्तगा वि' तथा अपर्याप्तककी तरह ही पर्याप्तक रत्नप्रभापृथिवीगत नैरयिककी पंचेन्द्रियोंके प्रयोग से परिणत हुए पुद्गल भी श्रोत्रेन्द्रियादि पांचों इन्द्रियों के प्रयोग से ही परिणत होते हैं । 'एव सव्वे भाणियव्वा' रत्नप्रभापृथिवी के नैरयिकोंकी तरह से ही अवशिष्ट शर्करा-प्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, तमस्तमःप्रभा पृथिवीके नैरयिकोंकी पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गल चाहे वे पर्याप्तक हों चाहे अपर्याप्तक हों श्रोत्रादिक पांचों इन्द्रियोंके प्रयोग से परिणत होते हैं । 'तिरिक्ख जोणियमणुस्स देवा जाव' इसी तरह से जो पुद्गल तिर्यग्योनिकोंकी, मनुष्योंकी, देवोंकी पांचों इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत कहे गये हैं वे श्रोत्रादि पांचों इन्द्रियोंके प्रयोगसे

कहा छे ते पुद्गले। श्रोत्रेन्द्रिय, अक्षुधेन्द्रिय, धात्रेन्द्रिय, रसनन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी-पाये धेन्द्रियोना प्रयोगथी-परिणत डोय छे 'एव पञ्जत्तगा वि' अपर्याप्तक नारडोनी जेम पर्याप्तक रत्नप्रभा पृथ्वीना नारडोनी पांच धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत पुद्गले। पणु श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत डोय छे. 'एव सव्वे भाणियव्वा' रत्नप्रभा पृथ्वीना नारडोनी जेम न आडीनी शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा अने तमस्तमःप्रभा पृथ्वीना नारडोनी पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत थयेला पर्याप्तक अने अपर्याप्तक पुद्गले। पणु श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत डोय छे

'तिरिक्खजोणिय मणुस्स देवा जाव' ये न प्रभात्रे न पुद्गले। तिर्यग्योनिक अधोनी, मनुष्योनी अने देवोनी पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत कहा छे, ते पुद्गले। पणु श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत डोय छे. अर्ही 'जाव' (पर्यन्त)



एवम् श्रीन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गलवदेव यावत्-श्रीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
 घ्राण-रसन-स्पर्शन-स्पर्शरूपमीन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, तत्र चतुरिन्द्रिया-  
 चक्षुर्घ्राणरसनस्पर्शनरूपचतुरिन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः चतुरिन्द्रियप्रयोग  
 परिणता एव भवन्ति, 'णवर एककेक इदिय वइदेयव्व' नवरम् विज्ञेय उत्तरो-  
 उत्तरम् एकैकमिन्द्रिय घ्राणादिरूप पर्दयितव्यम्, 'जाव अपज्जसा रणप्पमापुडवी  
 नेरइयपंचिदियपमोगपरिणया ते मोइदिय-चक्खिदिय-घाण्णिदिय-भिर्म्मिदिय-  
 फासिंदियपमागपरिणया' यावत्- ये अपयात्तकारत्नमप्रापृथिवीनैरयिक  
 पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः खलु पुद्गलाः प्रज्ञप्तास्ते ओत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-

श्रीन्द्रियप्रयोग परिणत पुद्गलोंकी तरहसे ही यावत्-श्रीन्द्रियजीवोंकी  
 तीन इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणतपुद्गल घ्राण, रसन, स्पर्शनरूप श्रीन्द्रिय  
 प्रयोगपरिणत ही हुआ करते हैं। तथा चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन  
 रूप चतुरीन्द्रियप्रयोगपरिणतपुद्गल चतुरिन्द्रियप्रयोगपरिणत ही होते  
 हैं 'णवर एककेक इदिय वइदेयव्व' यहापर विज्ञेयता केवल इतनी  
 ही है। व इनमें एक एक इन्द्रियकी वृद्धि करनी चाहिये अर्थात्  
 ते इन्द्रिय जीवोंमें घ्राण की और चौरिन्द्रिय जीवोंमें चक्षुइन्द्रियकी  
 अधिकता करलेनी चाहिये। 'जाव अपज्जसा रणप्पमापुडवी  
 नेरइयपंचिदियपमोगपरिणया ते मोइदियचक्खिदियघाण्णिदिय  
 फासिंदियपमागपरिणया' यावत्-जो पुद्गल अपर्याप्तक रत्नप्रभा  
 पृथिवीगत नारककी पचेन्द्रियोंके प्रयोग से परिणत हुए कहे गये  
 हैं वे ओत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय, स्पर्शन

परिणत होय ॐ 'एव जाव चठरिंदिया' जे न प्रमाजे श्रीन्द्रिय जेवानी जव  
 छिन्दियेना प्रमेजधी परिणत उअव्वो। प्रमेजिन्द्रिय, रसनेन्द्रिय जने रूपेन्द्रिय प्रमेज  
 परिणत होय ॐ जने चतुरिन्द्रिय जेवानी जार छिन्दियेना प्रमेजधी परिणत उअव्वो।  
 चक्षु प्रमा रसना जने रसना, आ जार छिन्दियेना प्रमेजधी परिणत होय ॐ  
 दीइयो। इत्ता श्रीन्द्रिय जने चतुरिन्द्रिय जेवोभा जेवोनी न बिधेयता ॐ ३ दीन्द्रिय  
 जवा इत्ता श्रीन्द्रियभा जे ३ छिन्द्रिय-चक्षुइन्द्रिय वपारे होय ॐ जने चतुरिन्द्रिय जेवोभा  
 जमुन्द्रिय जने प्रमेजिन्द्रिय वपारे होय ॐ जे न वाग सत्तारे 'णवर एककेक इदिय  
 वइदेयव्व' आ सत्ताइ हास प्रकट करी ॐ

जाव अपज्जसा रणप्पमा पुडवी नेरइय पंचिदियपमोगपरिणया ते  
 साइन्द्रिय - चक्खिदिय - घाण्णिदिय - भिर्म्मिदिय - फासिंदिय पमागपरिणया'  
 न पुअव्वो। अपर्याप्तक रत्नप्रभा पुडवीना नारकणी पचेन्द्रियेना प्रमेजधी परिणत भवेता

प्राणेन्द्रिय-जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति । एवं पञ्जत्तगा वि' एवम् अपर्याप्तकवदेव ये पर्याप्तका रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः पुद्गलास्ते श्रोत्रादीन्द्रियपञ्चकप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, 'एवं सव्वे भाणियव्वा' एवं-रत्नप्रभापृथिवीनैरयिकवदेव, सर्वे शर्कराप्रभा-वालुकाप्रभा-पङ्कप्रभा-धूमप्रभा-तमःप्रभा-तमस्तमःप्रभापृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्याप्तकाः अपर्याप्तकाश्च श्रोत्रादिपञ्चेन्द्रिय-प्रयोगपरिणता भवन्ति । एवं 'तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवा जाव' ये तिर्यग्योनिकमनुष्यदेवा यावत् पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्तास्ते श्रोत्रादिपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति 'जाव' इति यावत्पदेन भवन-

इन्द्रिय, इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत ही होते हैं 'एवं पञ्जत्तगा वि' तथा अपर्याप्तककी तरह ही पर्याप्तक रत्नप्रभापृथिवीगत नैरयिककी पंचेन्द्रियोंके प्रयोग से परिणत हुए पुद्गल भी श्रोत्रेन्द्रियादि पांचों इन्द्रियों के प्रयोग से ही परिणत होते हैं । 'एव सव्वे भाणियव्वा' रत्नप्रभापृथिवी के नैरयिकोंकी तरह से ही अवशिष्ट शर्करा-प्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, तमस्तमःप्रभा पृथिवीके नैरयिकोंकी पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत हुए पुद्गल चाहे वे पर्याप्तक हों चाहे अपर्याप्तक हों श्रोत्रादिक पांचों इन्द्रियोंके प्रयोग से परिणत होते हैं । 'तिरिक्ख जोणियमणुस्स देवा जाव' इसी तरह से जो पुद्गल तिर्यग्योनिकोंकी, मनुष्योंकी, देवोंकी पांचों इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत कहे गये हैं वे श्रोत्रादि पांचों इन्द्रियोंके प्रयोगसे

कहा छे ते पुद्गलो श्रोत्रेन्द्रिय, अक्षुधेन्द्रिय, धाणुन्द्रिय, रसनन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी-पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी-परिणत होय छे 'एव पञ्जत्तगा वि' अपर्याप्तक नारडोनी जेम पर्याप्तक रत्नप्रभा पृथ्वीना नारडोनी पांच धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत पुद्गलो पणु श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे 'एव सव्वे भाणियव्वा' रत्नप्रभा पृथ्वीना नारडोनी जेम जे आडीनी शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा अने तमस्तमःप्रभा पृथ्वीना नारडोनी पांच धेन्द्रियना प्रयोगथी परिणत थयेता पर्याप्तक अने अपर्याप्तक पुद्गलो पणु श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे

'तिरिक्खजोणिय मणुस्स देवा जाव' जे जे प्रभाणु जे पुद्गलो तिर्यग्योनिक जेवानी, मनुष्योनी अने देवानी पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत कहा छे, ते पुद्गलो पणु श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांचे धेन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे. अर्थात् 'जाव (पर्याप्त)

वासिदेवानारभ्यापराजितानुचरोपपातिकदेषपर्यन्ता देवाः श्रोत्रादिपञ्चेन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणता भवन्ति । तथा—'जे पञ्जसप्तद्वसिद्धअणुचरोवचाइय  
जाय परिणया ते सोइदिय-चर्मिखदिय-जाय-परिणया' य पर्याप्तकसर्वार्थ  
सिद्धानुचरोपपातिक-यावत्-देवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गलाः प्रह्वताः ते  
आत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-घ्राणेन्द्रिय-जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता  
एव भवन्तीति भाषः । इति चतुर्थो दण्डक ४ । तथा च चतुर्थे दण्डके  
इन्द्रियद्वारदण्डके जीवानाम् १६१-एकपृष्पिफसतभदानां, ७१३ - प्रयो  
वशाधिकसप्तशतानि इन्द्रियाणि आभित्य जीवमेदा भवन्ति, तथाहि-१६१

परिणत होते हैं । 'जाय' इस पदसे भयनघासी देवों से लगाकर  
अपराजित अनुचरोपपातिक तक समस्त देवोंकी जो ओत्रादिक पांच  
इन्द्रियां हैं, उन मय इन्द्रियोंके प्रयोग से परिणत जो पुद्गल कहे  
गये हैं वे सय पुद्गल चाहे पर्याप्तक हों चाहे अपर्याप्तक हों ओत्रा-  
दिक पांचों इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत होते हैं । तथा 'जे पञ्चचा  
सन्वद्वसिद्ध अणुचरोवचाइय जाय परिणया ते सोइदियचर्मिखदिय जाय  
परिणया' जो पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुचरोपपातिक देवोंकी पांच  
इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे सय ओत्रन्द्रिय, चक्षु  
इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोग  
से परिणत होते हैं । इस प्रकार से वह चौथा दण्डक है । इन्द्रिय  
द्वारघाळे इस अतुर्पदण्डकमें जीवोंके १६१ भेदोंके ७१३ भेद इन्द्रियों  
को लेकर कहे गये हैं—जो इस प्रकारसे हैं—इन १६१ जीवोंके भेदोंमें

पञ्चो अपनवासी देवा, वान-वन्तरो, वेमार्जितो, श्रेविक इत्यादीत देवा अने अपराजित  
अनुचरोपपातिक पर्यन्ताना अनुचर विमानवासी देवाना पञ्चोत्तक अने अपर्याप्तक  
पुद्गलाने श्रोत्रेन्द्रिय चक्षुन्द्रिय, आक्षेन्द्रिय रसनेन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रिय, अने पञ्च इन्द्रियेना  
प्रयोगशी परिणत कइया छे । तथा 'जे पञ्चचा सन्वद्वसिद्धअणुचरोवचाइय भाष  
परिणया ते सोइदिय, चर्मिखदिय जाय परिणया' पञ्चसिद्ध अनुचरोप-  
पातिक देवानो पांच इन्द्रियेना प्रयोगशी परिणत के पुद्गलौ कइया छे । ते अथ  
चक्षुन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, आक्षेन्द्रिय जिह्वाइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियेना - पांच इन्द्रियेना -  
प्रयोगशी परिणत होय के आ प्रमाद्ये आ आहु इच्छे छे । इन्द्रियद्वारपर्याप्तकाना आहु  
इच्छेमां देवाना १११ वेदने अनुचराने इन्द्रियेनी अपिशाजे नीचे प्रमाद्ये ७१३ वेद  
कइया छे । श्रोत्रेन्द्रियेना २० वेदने । अने । विक्षेन्द्रियेना ३ वेदने आहु करीने । आक्षेन्द्रियेना

एकषष्ट्यधिकशतजीवभेदेषु विंशतिम् एकेन्द्रियभेदान्, पट्ट च विकलेन्द्रिय भेदान् वर्जयित्वा अवशिष्टानाम् १३५ पञ्चत्रिंशदधिकशतजीवभेदानाम् प्रत्येकं पञ्च पञ्च इन्द्रियाणि इति ६७५ पञ्चसप्तत्यधिकपट्टशतानि इन्द्रियाणि, एकेन्द्रियाणां विंशतिभेदानाम् २० विंशतिरिन्द्रियाणि, त्रयाणां विकलेन्द्रियाणाम् षड्भेदानाम् १८ अष्टादश इन्द्रियाणि, सर्वसंमेलनेन त्रयो- दशाधिकसप्तशतानि (७१३) इन्द्रियाणि भवन्ति ॥सू० ५॥

अथ शरीरेन्द्रियनामकं पञ्चमं दण्डकमाह—‘जे अपज्जत्त’ इत्यादि ।

मूलम्—‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियओरालियतेय- कम्मासररूपपओगपरिणया ते फासिंदियपओगपरिणया । जे पज्जत्तसुहुम० एवं चेव वायर० अपज्जत्ता एवं चेव । एवं पज्जत्तगा वि । एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि, जाव—जे थ पज्जत्तसव्वट्टसिद्ध- अणुत्तरोववाइय-जाव--देवप चिंदियवेउव्वियतेयाकम्मासररपओ- गपरिणया ते सोइंदियचक्खिंदिय जाव फासिंदियपओग- परिणया (दंडगा ५) सू. ६ ॥

से एकेन्द्रियके बीस २० भेदोंको और विकलेन्द्रियके ६ भेदोंको कम करके बाको के बचे हुए १३५ जीव भेदोंमें से प्रत्येक जीव के साथ ५ इन्द्रियोंसे गुणा करने पर ६७५ इन्द्रियां हो जाती हैं । इनमें एकेन्द्रियके २० भेदोंकी २० इन्द्रियोंको और विकलेन्द्रियोंके ३ तीन भेदों की १८ इन्द्रियोंको मिलाने से सब इन्द्रिया ७१३ हो जाती हैं ॥सू.५॥

१३५ ज्वलभेदोभा प्रत्येक ज्वले ५ धन्द्रियो छाय छे माटे १३५ ज्वलभेदोनी ६७५ धन्द्रियो थाय छे तेभा ज्वलभेदोना २० भेदोनी (पृथ्वीकायिड आदि प्राय ज्वलभेदोना सूक्ष्म, आदर, पर्याप्त अने अपर्याप्त जेवा आर, आर भेद छोवाथी कुल २० भेद थाय छे) २० धन्द्रियोने हीन्द्रियना के भेदोनी ४ धन्द्रियोने, त्रीन्द्रियना के भेदोनी (पर्याप्त अने अपर्याप्त भेदोनी) ६ धन्द्रियोने अने अतुरिन्द्रियना के भेदोनी आठ धन्द्रियोने — आ रीते विकलेन्द्रियनी १८ धन्द्रियोने—उभेरवाथी कुल ७१३ धन्द्रियो थाय छे ॥ सू. ५ ॥

छाया - ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकेकेन्द्रियोदारिकतैजसकार्मणशरीर  
प्रयोगपरिणताः, ते स्पष्टेन्द्रियमयोगपरिणताः । ये पर्याप्तकसूक्ष्म०  
एवमेव वादर०, अपर्याप्तका एवमेव । एष पर्याप्तका अपि । एषम् एतेन  
अमिलापेन यस्य यानि इन्द्रियाणि शरीराणि च तानि अभितन्पानि, यावत्  
ये च पर्याप्तकाः सर्वाधिसिद्धानुसारीपर्याप्तक० यावत्-देवपञ्चेन्द्रिय वैक्रिय-

‘जे अपञ्जता सुहृमपुढविकाइय पर्गिदिय’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (जे अपञ्जता सुहृमपुढविकाइय पर्गिदिय ओरालिय तेया कम्मा  
सरीरप्पभोगपरिणया ते फासिदियपभोगपरिणया, जे पञ्जता सुहृम०  
एवं चेष, वायर पञ्जता एवं चेष०) जो पुद्गल अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवी  
कायिक एकेन्द्रिके औदारिक, तैजस, कार्मण शरीरके प्रयोगसे परिणत  
कहे गये हैं वे केवल एक स्पर्शन इन्द्रियके ही प्रयोगसे परिणत होते  
हैं । जो पुद्गल पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रिके औदारिक, तैजस  
कार्मण शरीर के प्रयोग से परिणत कहे गये हैं, वे पुद्गल भी केवल  
एक स्पर्शन इन्द्रियके ही प्रयोगसे परिणत होते हैं । इसी तरह से  
अपर्याप्तक वादरपृथिवीकायिक और पर्याप्तक वादरपृथिवीकायिक भी  
जानना चाहिये । (एवं एषम अमिलावेण जस्स जइंदियाणि सरीराणि  
य ताणि भाणियन्थाणि) इस तरह इस अमिलाप द्वारा जिस जीवके  
जितनी इन्द्रियां और जितने शरीर हों, उनके उतनी इन्द्रियां और

‘जे अपञ्जता सुहृमपुढविकाइय पर्गिदिय’ इत्यादि-

सूत्रार्थ- (जे अपञ्जता सुहृमपुढविकाइय पर्गिदिय ओरालिय तेया कम्मा  
सरीरप्पभोगपरिणया ते फासिदियपभोगपरिणया, जे पञ्जता सुहृम एवं चेष  
वायर पञ्जता एव चेष) १ पुद्गलो अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रिक  
औदारिक तैजस अने कार्मण शरीरना प्रयोगशी परिणत कइया छे, तेजो इतत एकेही  
अपर्याप्तकना प्रयोगशी ए परिणत बाब छे जे पुद्गलो पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक  
एकेन्द्रिकना औदारिक, तैजस अने कार्मण शरीरना प्रयोगशी परिणत कइया छे, ते  
पुद्गलो पण इतत एकेहीन्द्रिकना प्रयोगशी ए परिणत होय छे जे ए प्रमावे अपर्याप्त  
वादर पृथिवीकायिक अने पर्याप्त वादर पृथिवीकायिक पुद्गलो विवे पणु समञ्जसु-  
(एव एषम अमिलावेण जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियन्थाणि)  
ना प्रमावना अमिलाप द्वारा जे छवने केटली इन्द्रियो अने केटलां शरीर होय, तेमने  
केटली इन्द्रियो अने केटलां शरीर होय छे, जेम अवेवु अवेवु- (वाव जे पुञ्जता

तैजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणतास्ते श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-स्पर्शेन्द्रिय-प्रयोगपरिणताः (पञ्चमो दण्डकः ५) ॥सू० ६॥

टीका-‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियओरालियतेयकम्मासरीर-पओगपरिणया ते फासिंदियपओगपरिणया’ ये अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवी-कायिकेकेन्द्रियौदारिकतैजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्तास्ते केवल स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, एवं ‘जे पज्जत्तसुहुम० एवं

उतने शरीर कहना चाहिये. (जाव जे य पज्जत्ता सव्वट्टसिद्धअणुत्तरो ववाइय जाव देवपंचिदिय पओगपरिणया दंडगा ५) यावत् जो पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देवोंकी पांच इन्द्रियोंके एवं वैक्रिय तैजस और कर्मण शरीरके प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय यावत् स्पर्शन इन्द्रिय इन पांच इन्द्रियों के प्रयोग से परिणत होते हैं। इस प्रकार यह पांचवां दण्डक है।

टीकार्थ-इस सूत्र द्वारा सूत्रकारने शरीरेन्द्रियनामका पांचवां दण्डक कहा है-इसमें उन्होंने यह कहा है कि ‘जे अपज्जत्ता सुहुमपुढवी-काइयएगिंदिय ‘ओरालिय तेयाकम्मा सरीरपओगपरिणया ते फासिं दियपओगपरिणया’ जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिककी एक इन्द्रियके प्रयोग से तथा उसके औदारिक, तैजस और कर्मण शरीर के प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय

सव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव देव पंचिदियवेउन्विय तेयाकम्मा सरीरपओग-परिणया ते सोइंदियचक्खिंदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया दंडगा ५) यावत् जे पुद्गलो पर्याप्त सवार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक देवोनी पांच इन्द्रियोना प्रयोगथी अने वैक्रिय, तैजस अने कर्मण शरीरना प्रयोगथी परिणत होवानु कळु छे, ते पुद्गलो श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, धरुइन्द्रिय, बिडुवाठेन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रिय, आ पांच इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे आ प्रकारनु आ पाचसुं दंडक छे

टीकार्थ-आ सूत्रद्वारा सूत्रकारे शरीरेन्द्रिय नामना पाचमा दंडकनु प्रतिपादन कर्तुं छे तेओ कहे छे के- ‘जे अपज्जत्तगा सुहुमपुढविकाइय एगिंदियओरालिय तेयाकम्मा सरीरपओगपरिणया ते फासिंदियपओगपरिणया’ जे पुद्गलो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिकनी ऐकेन्द्रियना प्रयोगथी तथा तेना औदारिक, तैजस अने कर्मण शरीरना प्रयोगथी परिणत थयेता कळा छे, ते पुद्गलो ऐक मात्र स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी न परिणत होय छे- अन्य इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होता नथी, कारण के



प्रयोगपरिणता एव भवन्ति । 'एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि' एवं रीत्या एतेन उपर्युक्तेन अभिलापेन यस्य यानि इन्द्रियाणि शरीराणि च प्रज्ञप्तानि तस्य तानि इन्द्रियाणि शरीराणि च भणितव्यानि, 'जाव जे य पज्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयं जाव देवपंचिंदियवेउच्चियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते सोइंदिय-चक्खिदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया' यावत्-सूक्ष्मावादराः पर्याप्तकाः अपर्याप्तकाश्च अप्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मण-शरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्तामतेऽपि केवलं स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, एव द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-प्रयोगपरिणता

णत हुए कहे गये हैं, वे भी केवल एक स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे ही परिणत होते हैं । 'एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि' इस प्रकार इस अभिलापके द्वारा जिस जीव के जितनी इन्द्रियां और जितने शरीर कहे गये हैं उस जीव के उतनी इन्द्रियां और उतने शरीर कहना चाहिये । 'जाव जे य पज्जत्ता सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयं जाव देव पंचिंदिय वेउच्चियतेया कम्मासरीरपओगपरिणया ते सोइंदिय चक्खिदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया' यावत्-सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक इनकी जो एक इन्द्रिय और औदारिक, तैजस एवं कार्मण शरीर हैं, इन सबके प्रयोग से जो पुद्गल परिणत हुए कहे गये हैं वे सब पुद्गल भी केवल एकस्पर्शन इन्द्रिय के प्रयोग से ही परिणत होते हैं । इसी तरह से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियों के प्रयोग से

'एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि' आ प्रकारना अभिलाप द्वारा जे एवने जेटली छिन्द्रियो अने जेटला शरीर कखा छे, ते एवने जेटली छिन्द्रियो अने जेटला शरीर कडेवा जेधजे 'जाव जे य पज्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइ य जाव देव पंचिंदियवेउच्चियतेयाकम्मा सरीरपओगपरिणया ते सोइंदियचक्खिदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया' यावत् - सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक अने अपर्याप्तक अप्कायिक, वायुकायिक, तेजस्कायिक अने वनस्पतिकायिकनी जेके छिन्द्रियना प्रयोगथी अने औदारिक, तैजस अने कार्मण शरीरना प्रयोगथी परिणत जे पुद्गलकी कखा छे, ते पुद्गलकी पणु जेके मात्र स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी जे परिणत होय छे, जे जे प्रमाणे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रियना



चेय' ये पर्याप्तमृक्षमृषिषीकापिकैकेन्द्रियौदारिकर्तजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः मग्नस्तास्ते एवमय, केवल स्वप्नेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति। 'वादर० अपज्जत्ता एव चेय' ये अपर्याप्तवादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियौदारिकर्तजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः मग्नस्तास्ते एवमेष केवलस्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति। 'एव पज्जत्ता वि' एवम् अपर्याप्तमृक्षमृषिषीकापिकैकेन्द्रियौदारिकर्तजसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः मग्नस्तास्तेऽपि केवलं स्वर्शेन्द्रिय

के प्रयोगसे ही परिणत होते हैं। अन्य इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत नहीं होते हैं। क्योंकि इनके अन्य इन्द्रियां होती नहीं हैं। इसी तरह 'जे पज्जत्ता सुद्धम० एव चेय' जो पुद्गल पर्याप्त मृक्षमृषिषीकापिकै एकइन्द्रियके प्रयोगसे तथा औदारिक, तेजस और कामणशरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वही केवल एक स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे ही परिणत होते हैं। 'वायरअपज्जत्ता एव चेय०' जो पुद्गल अपर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रिय और औदारिक, तेजस एव कामण शरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे भी केवल एक स्पर्शन इन्द्रियके ही प्रयोगसे परिणत होते हैं। अन्य इन्द्रियोंके प्रयोगसे नहीं क्योंकि एक स्पर्शन इन्द्रिय के सिवाय और इन्द्रियां इनमें होती नहीं हैं। 'एव पज्जत्ता वि' इसी तरहस जो पुद्गल पर्याप्तक वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे तथा औदारिक, तेजस और कामण शरीरके प्रयोगसे परि

तेमने नील इन्द्रियां होती नहीं। जे व प्रजाजे 'जे पज्जत्ता सुद्धम एव चेय' ७ पुद्गल पर्याप्त मृक्षमृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे तथा औदारिक, तेजस एव कामण शरीरके प्रयोगसे परिणत किये जाते हैं, ते पुद्गल पर्याप्त मृक्षमृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं। 'वायरअपज्जत्ता एव चेय' जे पुद्गल अपर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे तथा औदारिक, तेजस एव कामण शरीरके प्रयोगसे परिणत किये जाते हैं, ते पुद्गल अपर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं। अन्य इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत नहीं होते हैं। 'एव पज्जत्ता वि' जे व प्रजाजे जे पुद्गल पर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे तथा औदारिक, तेजस एव कामण शरीरके प्रयोगसे परिणत किये जाते हैं, ते पुद्गल पर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं। 'वायरअपज्जत्ता एव चेय' जे पुद्गल अपर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे तथा औदारिक, तेजस एव कामण शरीरके प्रयोगसे परिणत किये जाते हैं, ते पुद्गल अपर्याप्त वादरपृषिषीकापिकैकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं।

प्रयोगपरिणता एव भवन्ति । 'एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि' एवं रीत्या एतेन उपर्युक्तेन अभिलापेन यस्य यानि इन्द्रियाणि शरीराणि च प्रज्ञप्तानि तस्य तानि इन्द्रियाणि शरीराणि च भणितव्यानि, 'जाव जे य पज्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयं जाव देव पंचिंदियवेउव्वियतेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते सोइंदिय-चक्खिदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया' यावत्-सूक्ष्मावादराः पर्याप्तकाः अपर्याप्तकाश्च अप्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मण-शरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्ताम्तेऽपि केवलं स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणता एव भवन्ति, एवं द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-प्रयोगपरिणता

णत हुए कहे गये हैं, वे भी केवल एक स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे ही परिणत होते हैं । 'एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि' इस प्रकार इस अभिलापके द्वारा जिस जीव के जितनी इन्द्रियां और जितने शरीर कहे गये हैं उस जीव के उतनी इन्द्रियां और उतने शरीर कहना चाहिये । 'जाव जे य पज्जत्ता सव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयं जाव देव पंचिंदिय वेउव्वियतेया कम्मासरीरपओगपरिणया ते सोइंदिय चक्खिदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया' यावत्-सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक इनकी जो एक इन्द्रिय और औदारिक, तैजस एवं कार्मण शरीर हैं, इन सबके प्रयोग से जो पुद्गल परिणत हुए कहे गये हैं वे सब पुद्गल भी केवल एकस्पर्शन इन्द्रिय के प्रयोग से ही परिणत होते हैं । इसी तरह से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियों के प्रयोग से

'एवं एएणं अभिलावेणं जस्स जइंदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि' आ प्रज्ञप्ता अभिलाप द्वारा जे छवने जेटली धन्द्रियो अने जेटला शरीर कखा छे, ते छवने जेटली धन्द्रियो अने जेटला शरीर कडेवा जेधज्जे 'जाव जे य पज्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइ य जाव देव पंचिंदियवेउव्वियतेयाकम्मा सरीरपओगपरिणया ते सोइंदियचक्खिदिय जाव फासिंदियपओगपरिणया' यावत् - सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक अने अपर्याप्तक अप्कायिक, वायुकायिक, तेजस्कायिक अने वनस्पतिकायिकनी जेक धन्द्रियना प्रयोगथी अने औदारिक, तैजस अने कार्मण शरीरना प्रयोगथी परिणत जे-पुद्गलौ कखा छे, ते पुद्गलौ पणु जेक मात्र स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी जे परिणत होय छे, जे प्रमाणे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, अने चतुरिन्द्रियना



चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-घ्राणेन्द्रिय जिहवेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः भवन्तीति पञ्चमो दण्डकः (५) तथा च-पञ्चमे, दण्डके शरीरेन्द्रियद्वारे एकनवत्यधिकचतुःशत(४९१)जीवानां पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रपरिमितानि (२१७५) इन्द्रियाणि भवन्ति, तथाहि-शरीराणाम् ४९१-एकनवत्यधिकचतुःशतभेदानां मध्ये ४१२-द्वादशाधिकचतुःशतशरीराणाम् प्रत्येकं पञ्च पञ्च इन्द्रियाणि भवन्तीति षष्ठ्यधिकसहस्रद्वयम् २०६० । एकेन्द्रियाणाम्-६१ एकषष्टि-शरीराणाम् ६१ एकषष्टिरिन्द्रियाणि । त्रयाणां च विकलेन्द्रियाणाम् अष्टादश-१८ शरीराणाम् ५४ चतुःपञ्चाशद् इन्द्रियाणि भवन्ति । सर्वसंमेलनेन शरीरस्य पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रपरिमितानि २१७५ इन्द्रियाणि जातानि ? ॥सू० ६॥

हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल श्रोत्रादिक पांच इन्द्रियोंके-श्रोत्रइन्द्रिय-चक्षु इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा इन्द्रिय, स्पर्शन इन्द्रिय इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत होते हैं । इस प्रकार यह पांचवां दण्डक है। शरीर इन्द्रिय द्वारवाले इस पांचवें दण्डकमें ४९१ जीवोंकी २१९५ इन्द्रियां होती हैं ऐसा प्रकट किया गया है । ४९१ शरीरोंके भेदोंके बीचमेंसे ४१२ शरीरोंकी प्रत्येककी ५-५ इन्द्रियां होती हैं । अतः ४१२ को ५से गुणा करने पर २०६० इन्द्रियां हो जाती हैं । एकेन्द्रियोंकी ६१ इन्द्रियों और तीन विकलेन्द्रियोंके १८ शरीरोंकी ५४ इन्द्रियां होती हैं इस प्रकार २०६० + ६१ + ५४ = २१७५ इन्द्रियां हो जाती हैं ॥ सू. ६ ॥

अने धर्मेषु शरीरेना प्रयोगथी परिणत थयेला जे पुद्गलो कथा छे, ते पुद्गलो पञ्च श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय जिह्वाइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रिय, जे पाच इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे आ प्रकारतुं आ पाचसुं दंडक समजवु. शरीरइन्द्रिय द्वारवाणा आ पांचमा दंडका ४९१ जीवानी २१७५ इन्द्रियो होय छे जेवुं प्रकट कयुं छे. ते इन्द्रियो नीचे प्रमाणे समजवी- शरीरना जे ४९१ जेदा कथा छे, तेमाथी ४१२ शरीरे पाच, पांच इन्द्रियोवाणा होय छे तथा ४१२ ने पाच वडे शुभता तेमनी २०६० इन्द्रियो थाय छे जेकेन्द्रियोनी ६१ इन्द्रियो अने त्रय विकलेन्द्रियोना १८ शरीरेनी ५४ इन्द्रियो थाय छे आ रीते २०६० + ६१ + ५४ = २१७५ इन्द्रियो थाय छे ॥ सू ६ ॥

अपि पुद्गलाः यथायोग्यं वक्तव्याः, एवं रत्नमभादिमत्सुनैरयिर्कपर्याप्तका  
 पयाप्तकपञ्चेन्द्रियमयोगपरिणता पुद्गला भ्रात्रादिपञ्चेन्द्रियमयोगपरिणताः  
 चाभ्याः, एवं जयचरादितिर्ग्यानिष्-मनुष्य-मवनपति-वानप्यन्तर-उपोति  
 पिक - धैमानिकपर्याप्तकापर्याप्तक - नर्घप्रययक - विजय - धैजयन्त- जयन्ता-  
 पराजितदेवशरीरमयोगपरिणता अपि पुद्गलाः वक्तव्याः । ये च पर्याप्तकाः  
 अपर्याप्तकाम सवार्थसिद्धानुभवीपपातिष - यावत् - कल्पातीतकदेशपञ्चेन्द्रिय  
 पक्रिय-तमस-धर्मणशरीरमयोगपरिणताः पुद्गला मगताः ते धोत्रेन्द्रिय-

परिणत कश्च गये पुद्गलो के विषयमें भी यथायोग्यरीत न जान लेना  
 चाहिये । इसी तरह से रत्नप्रमा आदि सुप्त पर्याप्तक अपयाप्तक नरयिक  
 जीवोंकी पांच इन्द्रियों के प्रयोग से परिणत कहे गये पुद्गल उनकी  
 श्रोत्रादिक पांच इन्द्रियों के प्रयोगसे परिणत होते हैं ऐसा जानना  
 चाहिये । इसी तरह से पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक जायचरादि तिर्यग्यानिष्,  
 मनुष्य, भयनपति, घानप्यन्तर उपातिपिक और धैमानिकदेव इनकी  
 पांच इन्द्रियोंके आर यथा याग्य औदारिक आदि शरीरोंके प्रयोगसे  
 परिणत हुए जा पुद्गल कहे गये हैं, य सो यथायोग्य श्रोत्रादिक  
 इन्द्रियांक प्रयोगसे परिणत होते हैं । इसी तरहसे पर्याप्तक एवं  
 अपर्याप्तक, नर्घप्रययक, विजय, धैजयन्त, जयन्त, अपराजितपासी  
 देवोंकी इन्द्रियिक तथा शरीरक प्रयोगसे जो पुद्गल परिणत हुए  
 गये हैं, ये तथा पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक सवार्थसिद्ध अनुत्तर  
 विमानधाम्नी श्रियोंकी पांच इन्द्रियोंके तथा शरीरोंके प्रयोगसे धैक्रिय,  
 तमस एवं धर्मण इन तीन शरीरियि प्रयोगसे जो पुद्गल परिणत  
 प्रयोगकी प्रसिद्धा धर्मणा ७ पुद्गलता १७५ छ ते पुद्गलता विषे पञ्च यथायोग्य रीते  
 प्रमत्त लवु अ ७ प्रमाप्ते रत्नमभा अपि नाशोऽय पर्याप्तक अने अपर्याप्तक नारक  
 छवानी पांच इन्द्रियोंके प्रयोगकी परिणत कइतां पुद्गलता पञ्च तेमनी श्रोत्रादिक पांच  
 इन्द्रियोंके प्रयोगकी प्रसिद्धा दत्त छ अथ प्रमत्तलवु अ ७ प्रमाप्ते पर्याप्तक अने  
 अपर्याप्तक लक्ष्यर अपि तिर्यग्यानी मनुष्योनी भवनपति देवानी, वानप्यन्तर देवानी,  
 अने निषिधानी अने धैमानिक देवोनी पांच इन्द्रियोंके प्रयोगकी अने यथायोग्य औदारिक  
 अपि शरीरान्ता प्रयोगकी प्रसिद्धा धर्मणा ७ पुद्गलता १७५ छ, त पुद्गलता पञ्च  
 श्रोत्रादिक पांच इन्द्रियोंके प्रयोगकी प्रसिद्धा दत्त छ अ ७ प्रमाप्ते पर्याप्तक अने  
 अपर्याप्तक, नर्घ प्रययक देवानी तथा विजय, धैजयन्त जयन्त, अपराजित अने  
 सवार्थसिद्ध अनुत्तर विमानधाम्नी देवानी पांच इन्द्रियोंके प्रयोगकी तथा धैक्रिय, तमस

चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-घ्राणेन्द्रिय जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः भवन्तीति पञ्चमो दण्डकः (५) तथा च-पञ्चमे। दण्डके शरीरेन्द्रियद्वारे एकनवत्यधिक-चतुःशत(४९१)जीवानां पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रपरिमितानि (२१७५) इन्द्रियाणि भवन्ति, तथाहि-शरीराणाम् ४९१-एकनवत्यधिकचतुःशतभेदानां मध्ये ४१२-द्वादशाधिकचतुःशतशरीराणाम् प्रत्येकं पञ्च पञ्च इन्द्रियाणि भवन्तीति षष्ठ्यधिकसहस्रद्वयम् २०६० । एकेन्द्रियाणाम्-६१ एकषष्टि-शरीराणाम् ६१ एकषष्टिरिन्द्रियाणि । त्रयाणां च विकलेन्द्रियाणाम् अष्टादश-१८ शरीराणाम् ५४ चतुःपञ्चाशद् इन्द्रियाणि भवन्ति । सर्वसंमेलनेन शरीरस्य पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रपरिमितानि २१७५ इन्द्रियाणि जातानि ? ॥सू० ६॥

हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल श्रोत्रादिक पांच इन्द्रियोंके-श्रोत्रइन्द्रिय-चक्षु इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा इन्द्रिय, स्पर्शन इन्द्रिय इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत होते हैं । इस प्रकार यह पांचवां दण्डक है। शरीर इन्द्रिय द्वारवाले इस पांचवें दण्डकमें ४९१ जीवोंकी २१७५ इन्द्रियां होती हैं ऐसा प्रकट किया गया है । ४९१ शरीरोंके भेदोंके बीचमेंसे ४१२ शरीरोंकी प्रत्येककी ५-५ इन्द्रियां होती हैं । अतः ४१२ को ५से गुणा करने पर २०६० इन्द्रियां हो जाती हैं । एकेन्द्रियोंकी ६१ इन्द्रियों और तीन विकलेन्द्रियोंके १८ शरीरोंकी ५४ इन्द्रियां होती हैं इस प्रकार  $२०६० + ६१ + ५४ = २१७५$  इन्द्रियां हो जाती हैं ॥ सू. ६ ॥

अने कार्मण्य शरीराना प्रयोगथी परिष्कृत थयेला ने पुद्गलतो कर्ष्यां छे, ते पुद्गलतो पाण्यु श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय जिह्वाइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रिय, अने पाण्यु इन्द्रियोना प्रयोगथी परिष्कृत होय छे. आ प्रकारनु आ पाण्यु इंडक समजवु. शरीरइन्द्रिय द्वारवाणा आ पाण्युमा ६३३मा ४६१ श्रवणी २१७५ इन्द्रियो होय छे अणु प्रकट कथुं छे ते इन्द्रियो नीये प्रमाणे समजवी- शरीराना ने ४६१ लेका कथा छे, तेमाथी ४१२ शरीरा पाण्यु, पाण्यु इन्द्रियोवाणा होय छे तेथी ४१२ ने पाण्यु वडे गुणुता तेमनी २०६० इन्द्रियो थाय छे अणुइन्द्रियोनी ६१ इन्द्रियो अने त्रय विकलेन्द्रियोना १८ शरीराना ५४ इन्द्रियो थाय छे आ रीते  $२०६० + ६१ + ५४ = २१७५$  इन्द्रियो थाय छे ॥ सू. ६ ॥

अपि पुद्गलाः यथायोग्यं वक्तव्या, एवं रत्नप्रभादिसप्तनैरयिकपर्याप्तका-  
पर्याप्तकपञ्चेन्द्रियमयोगपरिणताः पुद्गला धाम्नादिपञ्चेन्द्रियमयोगपरिणताः  
घोष्याः, एष जन्मधरादितिर्यग्योनिक-मनुष्य-भवनपति-वानन्यन्तर-ज्योति-  
पिक - वैमानिकपर्याप्तकापर्याप्तक - नवग्रहैवेयक - विजय - वैजयन्त- जयन्ता-  
पराजितदेवधरीरमयोगपरिणता अपि पुद्गलाः वक्तव्याः । ये च पर्याप्तकाः  
अपर्याप्तकाश्च सर्वार्यसिद्धानुत्तरीपपातिक - यावत् - फल्पातीतकदेवपञ्चेन्द्रिय  
वैक्रिय-तैजस-कार्मणधरीरमयोगपरिणताः पुद्गला मगधा ते धोघेन्द्रिय-

परिणत कहे गये पुद्गलों के विषयमें भी यथायोग्यरीत में जान लेना  
चाहिये । इसी तरह से रत्नप्रभा आदि सप्त पर्याप्तक अपर्याप्तक नरयिक  
जीवोंकी पांच इन्द्रियों के प्रयोग से परिणत कहे गये पुद्गल उनकी  
ओआदिक पांच इन्द्रियों के प्रयोगसे परिणत होते हैं ऐसा जानना  
चाहिये । इसी तरह से पर्याप्तक एष अपर्याप्तक जल्मधरादि तिर्यग्योनिक,  
मनुष्य, भवनपति, वानन्यन्तर ज्योतिपिक और वैमानिकदेव इनकी  
पांच इन्द्रियोंके और यथा योग्य औदारिक आदि शरीरोंके प्रयोगसे  
परिणत हुए जा पुद्गल कहे गये हैं, वे भी यथायोग्य ओआदिक  
इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत होते हैं । इसी तरहसे पर्याप्तक एष  
अपर्याप्तक, नवग्रहैवेयक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजितपासी  
देवोंकी इन्द्रियेके तथा शरीरके प्रयोगसे जो पुद्गल परिणत हुए  
गये हैं, वे तथा पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक सर्वार्यसिद्ध अनुत्तर  
विमानवासी देवोंकी पांच इन्द्रियोंके तथा शरीरोंके प्रयोगसे वैक्रिय,  
तैजस एष कार्मण इन तीन शरीरोंके प्रयोगसे जो पुद्गल परिणत

प्रयोजनी भस्त्रित कथेता के पुद्गलदे। कथा छे ते पुद्गलदे। विवे फल मगधेज रति  
समष्ट देवु के न प्रभादे रत्नप्रभा आदि नारोना पर्याप्तक अने अपर्याप्तक नाम  
छवनी पांच इन्द्रियोना प्रयोगशी परिणत कहेता पुद्गलदे। फल तेमनी ओआदिक पांच  
इन्द्रियोना प्रयोजनी परिणत होय छे जेम सम रतु के न प्रभादे पर्याप्तक अने  
अपर्याप्तक जल्मधरा आदि तिर्यग्योनी मनुष्योनी भवनपति देवोनी, वानन्यन्तर देवोनी,  
अने निभिमनी अने वैमानिक देवोनी पांच इन्द्रियोना प्रयोजनी अने नवग्रहैवेयक औदारिक  
आदि शरीरिना प्रयोजनी परिणत कथेता के पुद्गलदे। कथा छे, ते पुद्गलदे। फल  
ओआदिक पांच इन्द्रियोना प्रयोजनी परिणत होय छे। के न प्रभादे पर्याप्तक अने  
अपर्याप्तक, नव ग्रहैवेयक देवोनी तथा विजय, वैजयन्त जयन्त, अपराजित अने  
सर्वार्यसिद्ध अनुत्तर विमानवासी देवोनी पांच इन्द्रियोना प्रयोजनी तथा वैक्रिय तैजस

चक्षुरिन्द्रिय-यावत्-घ्राणेन्द्रिय जिह्वेन्द्रिय-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः भवन्तीति पञ्चमो दण्डकः (५) तथा च-पञ्चमे, दण्डके शरीरेन्द्रियद्वारे एकनवत्यधिक-चतुःशत(४९१)जीवानां पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रपरिमितानि (२१७५) इन्द्रियाणि भवन्ति, तथाहि-शरीराणाम् ४९१-एकनवत्यधिकचतुःशतभेदानां मध्ये ४१२-द्वादशाधिकचतुःशतशरीराणाम् प्रत्येकं पञ्च पञ्च इन्द्रियाणि भवन्तीति षष्ठ्यधिकसहस्रद्वयम् २०६० । एकेन्द्रियाणाम्-६१ एकषष्टि-शरीराणाम् ६१ एकषष्टिरिन्द्रियाणि । त्रयाणां च विकलेन्द्रियाणाम् अष्टादश-१८ शरीराणाम् ५४ चतुःपञ्चाशद् इन्द्रियाणि भवन्ति । सर्वसंमेलनेन शरीरस्य पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्रपरिमितानि २१७५ इन्द्रियाणि जातानि ? ॥ सू० ६ ॥

हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल श्रोत्रादिक पांच इन्द्रियोंके-श्रोत्रइन्द्रिय-चक्षु इन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, जिह्वा इन्द्रिय, स्पर्शन इन्द्रिय इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत होते हैं । इस प्रकार यह पांचवां दण्डक है। शरीर इन्द्रिय द्वारवाले इस पांचवें दण्डकमें ४९१ जीवोंकी २१९५ इन्द्रियां होती हैं ऐसा प्रकट किया गया है । ४९१ शरीरोंके भेदोंके बीचमेंसे ४१२ शरीरोंकी प्रत्येककी ५-५ इन्द्रियां होती हैं । अतः ४१२ को ५से गुणा करने पर २०६० इन्द्रियां हो जाती हैं । एकेन्द्रियोंकी ६१ इन्द्रियों और तीन विकलेन्द्रियोंके १८ शरीरोंकी ५४ इन्द्रियां होती हैं इस प्रकार  $२०६० + ६१ + ५४ = २१७५$  इन्द्रियां हो जाती हैं ॥ सू. ६ ॥

अने धर्मणु शरीराना प्रयोगथी परिणत थयेला ने पुद्गलो कल्या छे, ते पुद्गलो पणु श्रोत्रन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय जिह्वाइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रिय, अने पाच इन्द्रियोना प्रयोगथी परिणत होय छे आ प्रकारनुं आ पाचसुं ६३३ समजवु. शरीरइन्द्रिय द्वारवाणा आ पाचमा ६३३मा ४६१ जीवानी २१७५ इन्द्रियो होय छे अणु प्रकट कथुं छे ते इन्द्रियो नीये प्रमाणे समजवी- शरीराना ने ४६१ लेला कल्या छे, तेमाथी ४१२ शरीरा पाच, पाच इन्द्रियोवाणा होय छे तेथी ४१२ ने पाच वडे गुणता तेमनी २०६० इन्द्रियो थाय छे अणुइन्द्रियोनी ६१ इन्द्रियो अने तणु विकलेन्द्रियोना १८ शरीराना ५४ इन्द्रियो थाय छे आ रीते  $२०६० + ६१ + ५४ = २१७५$  इन्द्रियो थाय छे ॥ सू ६ ॥



अथ सर्वादिद्वारमाह—'जे अपञ्जरा' इत्यादि ।

मूल्म्— जे अपञ्जत्तसुद्धमपुढविकाइयपगिंदियपओगपरिणया ते चण्णओ कालवन्नपरिणया वि नील० लोहिय० हालिइ० सुक्किइ० । गधओ सुब्भिगधपरिणया वि, दुब्भिगधपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड्डयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अबिलरसपरिणया वि, मद्धरसपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरि० जाव लुक्खफासपरि० । सठाणओ परिमढलसठाणपरिणयावि षट्ठ० तस० चउरस० आययसठाणपरिणया वि । जे पञ्जत्तसुद्धमपुढवि० एव चेव, एव जहाणुपुढ्वीण नेयध जाव जे पञ्जत्तसधट्ठसिद्धअणुत्तरोव घाइय—जाव—परिणया वि । ते षट्ठओ कालवन्नपरिणयावि, जाव आययसठाणपरिणया वि (दढगा ६) ॥सू० ७॥

छाया—ये अपर्याप्तकपृक्षमपृथिवीकायिकेकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः ते पर्वतः कालवर्णपरिणता भवि, नील० लोहित० हारिद्र० शुक्र० । गधतः सुरमिग 'जे अपञ्जत्तसुद्धमपुढविकाइय पगिंदिय पओगपरिणया' इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जे अपञ्जरा सुद्धमपुढविकाइयपगिंदियपओगपरिणया ते चण्णओ कालवन्नपरिणया वि, नील० लोहिय० हालिइ सुक्किइ) जा पुद्गल अपर्याप्त पृक्षमपृथिवीकायिक अपेन्द्रिय प्रयोगसे परिणत होते हैं वे घर्णकी अपेक्षा कालेघर्णरूपमें, नीलेघर्णरूपमें, रक्तघर्णरूपमें, पीतघर्ण रूपमें और शुक्लघर्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं । ( गधओ

'जे अपञ्जत्तसुद्धमपुढविकाइयपगिंदियपओगपरिणया' धर्यादि—

सूत्रार्थ - ( जे अपञ्जत्तसुद्धमपुढविकाइयपगिंदियपओगपरिणया ते चण्णओ कालवन्नपरिणया वि, नील० लोहिय० हालिइ० सुक्किइ० ) ते पुद्गलो अपर्याप्त पृक्षमपृथिवीकायिकेकेन्द्रिय प्रयोगसे परिणत होते हैं, तेको वर्णकी अपेक्षासे कालेघर्ण रूपमें, नीलेघर्ण रूपमें, रक्तघर्ण रूपमें, पीतघर्ण रूपमें और शुक्लघर्ण रूपमें भी परिणत हो जाते हैं । ( गधओ सुब्भिगधपरिणया वि,

न्धपरिणता अपि, दुरभिगन्धपरिणता अपि । रसतः तित्तरसपरिणता अपि, कटुकरसपरिणता अपि, कषायरसपरिणता अपि, अम्लरसपरिणता अपि, मधुररसपरिणता अपि । स्पर्शतः कर्कशस्पर्शपरिणता यावत् रूक्षस्पर्श परिणताः । संस्थानतः परिमण्डलसंस्थानपरिणता अपि, वृत्तसंस्थानपरिणता अपि, त्र्यस्रसंस्थानपरिणता अपि, चतुरस्रसंस्थानपरिणता अपि, आयतसंस्थानपरिणता अपि । ये पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवी० एवमेव । एवं यथानुपूर्व्यां ज्ञातव्यं यावत्

सुब्धिगन्धपरिणया वि, दुब्धिगन्धपरिणया वि ) गन्धकी अपेक्षा सुरभिगन्धरूपमें भी एवं दुरभिगन्धरूपमें भी परिणत हो जाते हैं । (रसओ तित्तरसपरिणया वि, कटुयरसपरिणया वि, अंबिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि) रसकी अपेक्षा वे तित्तरसरूपमें, कटुकरसरूपमें, कषायरसरूपमें, अम्लरसरूपमें, और मधुररसरूपमें भी परिणत होजाते हैं । ( फासओ-कक्खडफास परि० जाव लुक्ख फासपरि० ) स्पर्शकी अपेक्षा वे कर्कशस्पर्शरूपमें, यावत् रूक्षस्पर्शरूक्षमें भी परिणत होजाते हैं । ( संठाणओ-परिमंडलसंठाणपरिणया, वि, वट्ट० तंस चउरंस० आययसंठाणपरिणया वि) संस्थानकी अपेक्षा वे परिमंडल संस्थानरूपमें, वृत्त (गोल संस्थानरूपमें, त्र्यस्रसंस्थानरूपमें, चतुरस्रसंस्थानरूपमें और आयतसंस्थानरूपमें भी परिणत हो जाते हैं । ( जे पज्जत्तसुहुमपुढवी० एवं चेव-एव जहाणुपुव्वीए नेयव्वं-जाव जे पज्जत्तसव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव परिणया वि ते वण्णओ

दुब्धिगन्धपरिणया वि ) गन्धकी अपेक्षाये ते पुढगत्तो सुग धइये पणु परिणुमे छे अने दुर्ग धइये पणु परिणुमे छे (रसओ तित्तरस परिणया वि, कटुयरस परिणया वि, कषायरस परिणया वि, अंबिलरस परिणया वि, महुररस परिणया वि) रसकी अपेक्षाये तेयो तिकत (तीभा) रसइये, कडवा रसइये, कषाय (तुरा) रसइये, भाटा रसइये अने मधुर रसइये पणु परिणुमे छे (फासओ-कक्खड फास परि० जाव लुक्खफास परि०) स्पर्शकी अपेक्षाये तेयो कर्कश (कठोर) स्पर्शइये पणु परिणुमे छे अने रूक्ष स्पर्शइये पणु परिणुमे छे ( संठाणओ - परिमंडलसंठाण परिणया वि, वट्ट० तंस० चउरंस० आययसंठाणपरिणया वि ) संस्थानकी (आकारकी) अपेक्षाये तेयो परिमंडल संस्थानइये पणु परिणुमे छे, चतुरस्र (चतुष्कोण) संस्थानइये पणु परिणुमे छे अने आयत संस्थानइये पणु परिणुमे छे ( जे पज्जत्तसुहुम० पुढवि० एव चेव-एवं जहाणुपुव्वीए नेयव्वं-जाव जे पज्जत्तसव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव परिणया वि - ते वण्णओ कालवन्न

ये पर्याप्तक्रमवर्धिसिद्धानुत्तरोपपातिकाः यावत् परिणता अपि ते वर्णतः काल  
वर्णपरिणता अपि, यावत्-आयतसस्थानपरिणता अपि, (गणो दण्डकः ६)॥६०७॥

टीका-‘जे अपञ्चसुहृमपुदविकाइयएगिदियपआगपरिणया ते पञ्चओ  
कालवर्णपरिणयावि नील० लोहिय० हाडि० सुफिद्ध०’ ये अपर्याप्तक्रम  
पृथिवीकायिकैकेन्द्रियमयागपरिणताः पुद्गलाः मग्नता स्ते वर्णतः कालवर्णपरिणता

कालवर्ण परिणया वि जाय आययसठाणपरिणया वि) जो सुद्गल  
पर्याप्त सुस्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं ये इमी  
प्रकारसे जानना चाहिये और इमी प्रकारसे ही स्वयकथन उनमें क्रम  
पूर्वक लगालेना चाहिये यावत् जो पुद्गल पर्याप्त सर्वाधिसिद्ध अनु  
त्तरोपपातिक यावत् प्रयोगपरिणत होते हैं ये वर्णकी अपेक्षा कालेव  
र्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं यावत् सस्थानरूपसे भी परिणत हो  
जाते हैं । (दंडगा ६) यह छद्म दण्डक है।

टीकार्थ-सुत्रकारने हम सुत्रद्वारा वर्णादिद्वार नामका छद्म दण्डकका  
कथन किया है इसमें उन्होंने यह कहा है कि ‘जे अपञ्चसुहृमपुदविक  
काइयएगिदियपओगपरिणया ते पञ्चओ कालवर्णपरिणया वि नील  
वर्णपरिणया वि, लोहियवर्णपरिणया वि, हाडिवर्णपरिणया वि,  
सुफिद्धवर्णपरिणया वि’ जो पुद्गल अपर्याप्त सुहृमपृथिवीकायिक एके  
न्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल वर्णकी अपेक्षा

परिणया वि, जाय आययसठाण परिणया वि) ने पुद्गलको प्राप्त सूक्ष्म पृथ्वी-  
कायिक केन्द्रियता कथन प्रमाणे समन्वयं वज्र, वधे रस, स्पश आने सस्थान विषयक  
समस्त कथन अनुक्रमे उपर कथा प्रमाणे समन्वयं सर्वाधिसिद्ध अनुत्तरोपपातिका  
देव वर्णताना समस्त लोकोत्त कथन जेन प्रमाणे समन्वयं सर्वाधिसिद्ध अनुत्तरोपपातिक  
देव पञ्चताना लोकोत्त पुद्गलको विषये ज्ञा प्रमाणे कथन समन्वयं- ‘ते पुद्गलौ वर्णनी  
अपेक्षाजे काल आदि उपर्युक्त वज्र इति परिणमे छे, त्वाधी लघने आसत सस्थानरूपे  
पञ्च परिणमे छे, त्वा सुधीनुं उपर्युक्त समस्त कथन मद्यु कर्तुं. (दंडगा ६)  
ज्वा प्रमाणे छु इति समन्वयं

टीकार्थ- सूत्रकारे ज्ञा सूत्रद्वारा वर्णादि द्वार नामका छद्म दण्डक  
प्रतिपादन कर्तुं छे- ‘जे अपञ्चसुहृमपुदविकाइयएगिदियपओगपरिणया-  
ते पञ्चओ कालवर्णपरिणया वि, नीलवर्णपरिणया वि, लोहियवर्ण  
परिणया वि, हाडिवर्णपरिणया वि, सुफिद्धवर्णपरिणया वि’ ने पुद्गलको  
अपवाप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक, केन्द्रियवत् प्रयोगधी परिणत अपेक्षा कथा छे, ते पुद्गलौ

अपि, नीलवर्णपरिणता अपि, लोहितवर्णपरिणता अपि, हारिद्रवर्णपरिणता अपि, शुक्लवर्णपरिणता अपि भवन्ति । एवं 'गंधओ सुन्निभगंधपरिणया त्रि, दुन्निभगंधपरिणया त्रि' ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलास्ते गन्धतः सुरभिगन्धपरिणता अपि, दुरभिगन्धपरिणता अपि भवन्ति । एवं 'रसओ तित्तरसपरिणया त्रि, कडुयरसपरिणया त्रि, कसायरसप० अंचिलरसप० महुररसप०' ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्तास्ते रसतस्तिक्तरसपरिणता अपि, कटुकरसपरिणता अपि,

कालेवर्णरूपसे भी परिणत होते हैं, नीलवर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं, लोहित लाल वर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं हारिद्रवर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं, शुक्लवर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं, 'एवं गंधओ-सुन्निभगंधपरिणया त्रि, दुन्निभगंध परिणया त्रि' इसी तरह वे पुद्गल गंधगुणकी अपेक्षा सुगंधिरूपमें भी परिणत रहा करते हैं, दुरभिगंधरूपमें भी परिणत रहा करते हैं अथवा इस पूर्वोक्त कथनका तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है कि जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए हैं वे पुद्गल वर्णसे कालादिवर्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं-गंधसे सुगंधिरूप में एवं दुरभिगंधरूप में भी परिणत हो जाते हैं । 'एवं रसओ-तित्तरसपरिणया त्रि, कडुयरस परिणया त्रि, कसायरसपरिणया त्रि, अंचिलरसपरिणया त्रि, महुररसपरिणया त्रि०' इसी तरह से वे ही अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत कहे गये पुद्गल

वर्णोंनी अपेक्षाओंके क्षणावर्णोंइसे पक्ष परिशुभे छे, नीलवर्णोंइसे पक्ष परिशुभे छे, लालवर्णोंइसे पक्ष परिशुभे छे, पीलावर्णोंइसे पक्ष परिशुभे छे अने शुक्लवर्णोंइसे पक्ष परिशुभे छे 'एवं गंधओ-सुन्निभगंध परिणया त्रि, दुन्निभगंधपरिणया त्रि' ते पुद्गलो गंधगुणोंनी अपेक्षाओंके सुगंधोंइसे पक्ष परिशुभे पामतां रहे छे अने दुर्गंधोंइसे पक्ष परिशुभे पामतां रहे छे. अथवा आ कथननुं तात्पर्यं अंतुं पक्ष यथं शक्ये छे ते पुद्गलो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना प्रयोगशी परिशुभे यथां छे, ते पुद्गलो क्षणादि वर्णोंइसे परिशुभी नय छे. अने गंधोंनी अपेक्षाओंके सुगंधोंइसे अने दुर्गंधोंइसे परिशुभी नय छे. 'एवं रसओ-तित्तरसपरिणया त्रि, कडुयरसपरिणया त्रि, कसायरसपरिणया त्रि, अंचिलरसपरिणया त्रि, महुररसपरिणया त्रि' अने प्रमाणे ते अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना प्रयोगशी परिशुभे यथां छे, तेओ रस (स्वाद) नी अपेक्षाओंके तीथा

य पर्याप्तकर्मवर्षसिद्धानुत्तरीयपाठिकाः यावत् परिणता अपि तै वर्षतः काय  
वर्णपरिणता अपि, यावत्-आयससम्यानपरिणता अपि, (पद्यो दण्डकः ६)। सू०७।

टीका- 'जे अपञ्चसुहुमपुडविकाइयपगिदियपओगपरिणया ते पञ्चओ  
कायवर्णपरिणयावि नील० लोहिय० इन्द्रिय० सुक्लि०' ये अपर्याप्तकर्मसु  
पृथिवीकापिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः मगधा स्ते वर्णतः कायवर्णपरिणता

कालवर्ण परिणया वि जाव आयससंठाणपरिणया वि) जो पुद्गल  
पयास सुस्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं वे इसी  
प्रकारसे जानना चाहिये और इसी प्रकारसे ही सचकयन उनमें क्रम  
पूर्वक लगातेना चाहिये यावत् जो पुद्गल पर्याप्त सर्वायसिद्ध अनु  
त्तरीयपातिक यावत् प्रयोगपरिणत होते हैं वे वर्णकी अपेक्षा कालव  
र्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं यावत् सस्थानरूपसे भी परिणत हो  
जाते हैं । (दंडगा ६) यह छटा दण्डक है।

टीकार्थ-सुधरारने इस सुधरारा वर्णादिठार नामका छटा दण्डकका  
कयन किया है इसमें उन्होंने यह कहा है कि 'जे अपञ्चसुहुमपुडवि  
काइयपगिदियपओगपरिणया ते पञ्चओ कायवर्णपरिणया वि नील  
वर्णपरिणया वि, लोहियवर्णपरिणया वि, इन्द्रियवर्णपरिणया वि,  
सुक्लिद्वयवर्णपरिणया वि' जो पुद्गल अपर्याप्त सुस्मपृथिवीकायिक एके  
न्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए होते हैं, वे पुद्गल वर्णकी अपेक्षा

परिणया वि, जाव आयससंठाण परिणया वि) ने पुद्गलको पर्याप्त सुस्म इन्दी-  
कायिक एकेन्द्रियका कयन प्रभाये समजवुं वल अथ, इय, इयस' अने सस्थान विषयके  
समस्त कयन अनुक्रमे उपर कथा प्रभाये समजवुं. सर्वायसिद्ध अनुत्तरीय विभातवासी  
देव चयन्तान्ना समस्त कयनेवुं कयन जेव प्रभाये समजवुं सर्वायसिद्ध अनुत्तरीयपातिक  
देव चयन्तान्ना कयनेवा पुद्गलकी विषे आ प्रभाये कयन समजवुं- 'ते पुद्गलको वलनी  
अपेक्षाके कयन कयि उपयुक्त वलरूपे परिणते ७, तथाकी कयने आपत सस्थानरूपी  
पय परिणते ७, तथा सुधीनुं उपरुक्त समस्त कयन मज्ज कयवुं. (दंडगा ६)  
आ प्रभाये उक्त कयन समजवुं

टीकार्थ- सूत्रकार आ सूत्रकारा वलरूपि कार नामका उक्त कयवुं नीचे प्रभाये  
प्रतिपादन कयुं छे- 'जे अपञ्चसुहुमपुडविकाइयपगिदियपओगपरिणया-  
त कयनका कायवर्णपरिणया वि, नीलवर्णपरिणया वि, लोहियवर्ण  
परिणया वि, इन्द्रियवर्णपरिणया वि, सुक्लिद्वयवर्णपरिणया वि' ने पुद्गलको  
अपर्याप्त सुस्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत कयनेवा कयवुं ७, ते पुद्गलको

अपि, नीलवर्णपरिणता अपि, लोहितवर्णपरिणता अपि, हारिद्रवर्णपरिणता अपि, शुक्लवर्णपरिणता अपि भवन्ति । एवं 'गंधओ सुव्भिगंधपरिणया वि, दुव्भिगंधपरिणया वि' ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलास्ते गन्धतः सुरभिगन्धपरिणता अपि, दुरभिगन्धपरिणता अपि भवन्ति । एवं 'रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसप० अंबिल-रसप० महुररसप०' ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञास्ते रसतस्तिक्तरसपरिणता अपि, कटुकरसपरिणता अपि,

कालेवर्णरूपसे भी परिणत होते हैं, नीलवर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं, लोहित लाल वर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं हारिद्र-वर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं, शुक्लवर्णरूपसे भी परिणत रहा करते हैं, 'एवं गंधओ-सुव्भिगंधपरिणया वि, दुव्भिगंध परिणया वि' इसी तरह वे पुद्गल गंधगुणकी अपेक्षा सुगंधिरूपमें भी परिणत रहा करते हैं, दुरभिगंधरूपमें भी परिणत रहा करते हैं अथवा इस पूर्वोक्त कथनका तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है कि जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए हैं वे पुद्गल वर्णसे कालादिवर्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं-गंधसे सुगंधिरूप में एवं दुरभिगंधरूप में भी परिणत हो जाते हैं । 'एवं रसओ-तित्तरसपरिणया वि, कडुयरस परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अंबिल-रसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि०' इसी तरह से वे ही अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत कहे गये पुद्गल

वर्णोंकी अपेक्षाओंमें कालावर्णरूपमें पक्ष परिशुभे छे, नीलवर्णरूपमें पक्ष परिशुभे छे, लाववर्णरूपमें पक्ष परिशुभे छे, पीलावर्णरूपमें पक्ष परिशुभे छे अने शुक्लवर्णरूपमें पक्ष परिशुभे छे 'एवं गंधओ-सुव्भिगंध परिणया वि, दुव्भिगंधपरिणया वि' से पुद्गलों गंधगुणोंकी अपेक्षाओंमें सुगंधरूपमें पक्ष परिशुभे पामता रहे छे अने दुर्गंधरूपमें पक्ष परिशुभे पामता रहे छे अथवा आ कथननु तात्पर्य अस्तु पक्ष यथं शक्य छे के ने पुद्गलों अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना प्रयोगशी परिशुभे तथा डोय छे, ते पुद्गलों कालादि वर्णरूपमें परिशुभी लय छे अने गंधोंकी अपेक्षाओंमें सुगंधरूपमें अने दुर्गंधरूपमें परिशुभी लय छे. 'एवं रसओ-तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अंबिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि' अने प्रमाणों से अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना प्रयोगशी परिशुभे अथवा ने पुद्गलों डोय छे, तेषों रस (स्वाद) की अपेक्षाओंमें तीव्र

कषायरसपरिणता अपि, अम्लरसपरिणता अपि, मधुररसपरिणता अपि भवन्ति। तथा 'फासओ कक्ख्वफासपरि० भाव लुक्ख्वफासपरि०' य अपयौप्तकसूक्ष्म पृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रवृत्तास्ते स्पर्शतः कर्कशस्पर्श परिणता अपि, यावत्-मृदुस्पर्शपरिणता अपि, गुरुस्पर्शपरिणता अपि, लघुस्पर्श परिणता अपि, शीतस्पर्शपरिणता अपि, उष्णस्पर्शपरिणता अपि, स्निग्धस्पर्श परिणता अपि, रूक्षस्पर्शपरिणता अपि भवन्ति। तथैव 'संठाणओ परिमडलसंठाणपरिणया वि, षट्० तस, चउरंस० आययसंठाणपरिणयावि' य अप यौप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रवृत्तास्ते सस्यानतः

रसकी अपेक्षा से तिक्त रसमें परिणत होते हैं या हो जाते हैं-अन्यत्र भी इसी प्रकार से समझना चाहिये-कटु रस में परिणत हो जाते हैं, कषाय रसरूप में भी परिणत हो जाते हैं, अम्ल (एखा) रसरूप में भी परिणत हो जाते हैं, मधुररसरूप में भी परिणत हो जाते हैं। तथा 'फासओ कक्ख्वफासपरि० भाव लुक्ख्वफासपरि०) वे ही पुद्गल जो अपयौप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोग से परिणत कहे गये हैं स्पर्शकी अपेक्षा से कर्कशस्पर्शरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, यावत्-मृदु (कोमल) स्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं, गुरु स्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं, लघुस्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं, शीतस्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं, उष्णस्पर्शरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, स्निग्धस्पर्शरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, रूक्षस्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं। (संठाणओ परिमडलसंठाणपरिणया वि, षट्०, तस०, चउरंस० आयय संठाणपरिणयावि' तथा वे ही पुद्गल जो अपयौप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं संस्थानकी अपेक्षा से

रसरूपे पक्ष परिवर्तनी भाव से कषया रसरूपे पक्ष परिवर्तनी भाव से कषाय (दुरा) रसरूपे पक्ष परिवर्तनी भाव से आरा रसरूपे पक्ष परिवर्तनी भाव से अने मधुर रसरूपे पक्ष परिवर्तनी भाव से तस 'फासओ कक्ख्वफास परि० भाव लुक्ख्वफास परिणया' जो अपयौप्तक सूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत भवेत्ता पुद्गलके, स्पर्शकी अपेक्षासे कर्कश स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से मृदु कोमल स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से गुरु स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से, लघु स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से शीत स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से उष्ण स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से स्निग्ध (सुवाणो) स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से अने रूक्ष (अठण्णु) स्पर्शरूपे पक्ष परिवर्तने से 'संठाणओ परिमडलसंठाणपरिणया वि, षट्०, तस०, चउरंस०, आययसंठाणपरिणया वि'

પરિમંડલસંસ્થાનપરિણતા અપિ, વૃત્તસંસ્થાનપરિણતા અપિ, ત્ર્યસ્રસંસ્થાનપરિણતા અપિ, ચતુરસ્રસંસ્થાનપરિણતા અપિ આયતસંસ્થાનપરિણતા અપિ યવન્તિ । અથ પર્યાપ્તસૂત્રમાહ-‘જે, પજ્જત્તસુહુમપુઢવિં એવં ચેવ’ યે પર્યાપ્તસૂક્ષ્મપૃથ્વીકાયિકૈકેન્દ્રિયપ્રયોગપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ પ્રજ્ઞાસ્તે એવમેવ’ તથાચ-વર્ણતઃ કાલવર્ણપરિણતા અપિ, નીલવર્ણપરિણતા અપિ, લોહિતવર્ણપરિણતા અપિ, હારિદ્રવર્ણપરિણતા અપિ, શુક્લવર્ણપરિણતા અપિ । ગન્ધતઃ સુરભિગન્ધપરિણતા અપિ, દુરભિગન્ધપરિણતા અપિ । રસતસ્તિત્તરસપરિણતા અપિ, કઢુકરસપરિ-

પરિમંડલસંસ્થાનરૂપ મેં ઓ પરિણત હો જાતે હેં, વૃત્ત (ગોલ) સંસ્થાન રૂપ મેં ઓ પરિણત હો જાતે હેં, ત્ર્યસ્રસંસ્થાનરૂપ મેં ઓ પરિણત હો જાતે હેં, ચતુરસ્રસંસ્થાનરૂપ મેં ઓ પરિણત હો જાતે હેં, આયતસંસ્થાન રૂપ મેં ઓ પરિણત હો જાતે હેં ।

‘જે પજ્જત્તસુહુમપુઢવિં એવં ચેવ’ જો પુદ્ગલ પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મપૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિયકે પ્રયોગસે પરિણત હુણ કહે ગયે હેં વે ઓ એસે હી હોતે હેં-તથા ચ વે વર્ણસે કાલે વર્ણકે રૂપમેં ઓ પરિણમ જાતે હેં, નીલ વર્ણકે રૂપમેં ઓ પરિણમ જાતે હેં, લોહિત(લાલ)વર્ણકે રૂપમેં ઓ પરિણમ જાતે હેં, હારિદ્ર(પીલે)વર્ણકે રૂપમેં ઓ પરિણમ જાતે હેં, ઓર શુક્લવર્ણકે રૂપમેં ઓ પરિણમ જાતે હેં । ગંધ સે વે હી પુદ્ગલ સુરભિગંધરૂપમેં ઓ ઓર દુરભિગંધરૂપમેં ઓ પરિણમ જાતે હેં । રસ સે-વે હી પુદ્ગલ તિત્તરસ મેં ઓ પરિણમ જાતે હેં, કઢુક (કઢુવા) રસ મેં ઓ પરિણમ જાતે હેં,

એ જ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિય પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલો સંસ્થાન (આકાર)ની અપેક્ષાએ પરિમંડલ સંસ્થાનરૂપે પણ પરિણમે છે, વૃત્ત (ગોળ) સંસ્થાનરૂપે પણ પરિણમે છે, ત્ર્યસ્ર (ત્રિકોણાકાર) સંસ્થાનરૂપે પણ પરિણમે છે, ચતુરસ્ર (ચતુષ્કોણ) સંસ્થાનરૂપે પણ પરિણમે છે અને આયત સંસ્થાનરૂપે પણ પરિણમે છે

‘જે પજ્જત્તસુહુમપુઢવિં એવં ચેવ’ એ પુદ્ગલો પર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિયના પ્રયોગથી પરિણત થયેલા કલા છે, તે પુદ્ગલો પણ અપર્યાપ્ત પુદ્ગલોના જેવા જ હોય છે એટલે કે તે પુદ્ગલો વર્ણની અપેક્ષાએ કાળાવર્ણરૂપે પણ પરિણમે છે, નીલાવર્ણરૂપે પણ પરિણમે છે, લોહિત (લાલ) વર્ણરૂપે પણ પરિણમે છે, પીળાવર્ણરૂપે પણ પરિણમે છે અને શુક્લ (સફેદ) વર્ણરૂપે પણ પરિણમે છે તે પુદ્ગલો ગંધની અપેક્ષાએ સુગંધરૂપે પણ પરિણમે છે અને હર્ગંધરૂપે પણ પરિણમે છે રસની અપેક્ષાએ તે પુદ્ગલો તિત્તરસરૂપે પણ પરિણમે છે, કઢુકરસરૂપે પણ પરિણમે છે, દુરારસરૂપે પણ પરિણમે છે, આટારસરૂપે પણ પરિણમે છે અને અધુરસરૂપે પણ પરિણમે છે । સ્પર્શની



णता अपि, कपायरसपरिणता अपि, अम्लरसपरिणता अपि, मधुररसपरिणता अपि । स्पर्शतः ककशस्पर्शपरिणता अपि, मृदुस्पर्शपरिणता अपि, यावत्-गुरु छद्गुशीतोष्णास्निग्धरूक्षस्पर्शपरिणता अपि भवन्ति । सस्थानत परिमण्डल-सस्थानपरिणता अपि, वृत्तसस्थानपरिणता अपि, त्र्यस्रसस्थानपरिणता अपि, चतुरस्रसस्थानपरिणता अपि, आयतसस्थानपरिणता अपि भवन्ति । 'एष जहाणु पुष्पीप नेयव्वं' एषम्=अपयांससूक्ष्मपृथिवीकायिकत्रदेव ययानुपूर्व्यां=पूर्वोक्तानुपूर्व्यां, घर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-सस्थानरूपयाऽत्र पर्याप्तविपयाऽपि ज्ञातव्यम् । क्रियत् पर्यन्तमित्याह-'जाव' इति, यावत्-य चादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियमयोगपरि-

कपायरसमें भी परिणम जाते हैं, अम्लरस में भी परिणम जाते हैं और मधुररस में भी परिणम जाते हैं । स्पर्श से - वे ही पुद्गल कर्कश स्पर्श में भी परिणम जाते हैं, मृदुस्पर्श रूप में भी परिणम जाते हैं, यावत्-गुरु, लघु, शीतोष्ण, स्निग्ध, रूक्ष स्पर्श में भी परिणम जाते हैं । सस्थान से-वे ही पुद्गल परिमण्डल सस्थान में भी परिणम जाते हैं, वृत्तसस्थानमें भी परिणत हो जाते हैं, त्र्यस्र-सिख्द्रे सस्थानमें भी परिणम जाते हैं, चतुरस्र चौकोर सस्थानमें भी परिणम जाते हैं, एवं आयत संस्थानमें भी परिणत होजाते हैं । 'एष जहाणुपुष्पीप नेयव्वं' इस तरह अपयांस सूक्ष्मपृथिवीकायिककी तरहसे ही, घर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान इन सबके परिणमन विषयका घर्णन क्रमानुसार पर्याप्तके विषयमें भी जानना चाहिये । अर्थात् जैसा वजन अभी अभी घर्ण, गन्ध, आदिके परिणमनके विषयमें अपयांस सूक्ष्मपृथिवीकायिकमें क्रिया गया है उसी प्रकारका वजन इन सबके परिणमन होनेके विषयका पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिकमें भी

अपिधाव्ये ते पुद्गलो कश्चरपशरूपे परिक्रमे ऐ, अद्वरपशरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ, अरु लघु, शीत, लघु, स्निग्ध लक्षणा इक्षरपशरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ सरथान-(व्याहार)पी अपिधाव्ये ते पुद्गलो परिमण्डल सस्थानरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ वृत्त (गोलाकार) सस्थानरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ, त्र्यस्र-त्रिकोणकार-सस्थानरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ, चतुरस्र-चतुर्भोज - सस्थानरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ अने आवित सस्थानरूपे पक्ष परिक्रमे ऐ 'एष जहाणुपुष्पीप नेयव्वं' अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिकना पुद्गलैवात्त वक्ष, अक्ष, पक्ष, रूपे अने सस्थानना परिक्रमन विवेककेतुं पक्षुन कश्चामां व्याप्तु ऐ अरेतुं ए वक्षुन पर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिकना पुद्गलैवात्त वक्ष, अक्ष, पक्ष, रूपे अने सस्थानना परिक्रमन विवेककेतुं पक्षु सभक्तुं इन्द्राःपुष्पाःपुं अक्षस्यै क्षेपन 'जाविं जे' पक्षमससिञ्जु-

परिणया वि ते वन्नओ कालवर्णपरिणया वि जाव आययसंठाणपरिणया वि' ये पर्याप्तकापर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक० यावत्-कल्पातीतक-वैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि पुद्गलाः प्रज्ञप्तास्ते वर्णतः कालवर्णपरिणता अपि, यावत्-नीलादिवर्णपरिणता अपि, गन्धतः सुरभिगन्धादिपरिणता अपि, रसत स्तित्तादिरसपरिणता अपि, स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरिणता अपि, संस्थानतः परिमण्डलाद्यायतपर्यन्तसंस्थानपरिणता अपि भवन्ति, (पष्ठो दण्डकः ६)

‘जे पज्जत्तसन्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव परिणया वि ते वन्नओ कालवर्णपरिणया वि जाव आययसंठाणपरिणया वि’ जो पर्याप्तक अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक यावत् - कल्पातीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल कहे गये हैं वे वर्णकी अपेक्षा काले वर्णरूप में भी परिणत होते हैं, यावत् नीलादिवर्णरूप में परिणत हो जाते हैं, गंधकी अपेक्षा से वे सुरभिगंधादिरूपमें भी परिणत हो जाते हैं-वदल जाते हैं, रसकी अपेक्षा से वे तित्तादिरसरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, स्पर्शकी अपेक्षा से-वे कर्कश आदिस्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं और संस्थान की अपेक्षा से भी वे परिमण्डल आदि संस्थान से लेकर आयतसंस्थानतकके रूप में भी परिणत जाते हैं। इस प्रकार यह छट्ठा दण्डक है। तथा च-वर्णादि द्वारवाले इस छठे दण्डक में-एकेन्द्रिय पृथिवीकायिक आदि पांच स्थावर सूक्ष्म और वादर के भेद से १० प्रकारके कहे गये हैं, विकलेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय

‘जे पज्जत्तसन्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव परिणया वि ते वर्णओ कालवर्णपरिणया वि जाव आययसंठाणपरिणया वि’ जे पर्याप्तक अने अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रिय प्रयोगपरिणत पुद्गलो वर्णनी अपेक्षाये काणा वर्णुंइपे पणु परिणुमे छे, नील वर्णुंइपे पणु परिणुमे छे, लाल वर्णुंइपे पणु परिणुमे छे, पीणा वर्णुंइपे पणु परिणुमे छे अने सक्केह वर्णुंइपे पणु परिणुमे छे गंधनी अपेक्षाये ते पुद्गलो सुगंधइपे पणु परिणुमे छे अने दुर्गंधइपे पणु परिणुमे छे, रसनी अपेक्षाये ते पुद्गलो तिक्तादि रसइपे परिणुमे छे अने स्पर्शनी अपेक्षाये कर्कश आदि स्पर्शइपे परिणुमे छे ते पुद्गलो संस्थाननी अपेक्षाये परिमण्डल संस्थानथी लधने आयत पर्यन्तना संस्थानइपे परिणुमे छे- आत्प्रकारना-वर्णादि द्वारवाणा आ छट्ठा दण्डकमा एकेन्द्रिय पृथ्वीकायिक आदि पांच स्थावर जवोना सूक्ष्म अने वादरना लेहथी १० प्रकार कहे छे विकलेन्द्रिय जवोना द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने अतुरिन्द्रियना भेदथी उ प्रकार कहे छे।

न्द्रिय-पर्याप्तकापर्याप्तकररत्नप्रमादिसप्तनैरयिकपञ्चेन्द्रिय - जलधर - स्यसधर -  
 खेचरपञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिफ - पञ्चेन्द्रियमनुष्य - भवनपरस्यगुरुकुमारादिदेवपञ्चे  
 न्द्रिय-ज्ञानच्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिक-नवग्रहैयक-विजय-धैजयन्त जयन्ता-  
 अपराजितदेवपञ्चेन्द्रिय प्रयागपरिणताः पुद्गला अपि षण्णः फाल्गुनिर्घर्णप्रयाग  
 परिणताः, गन्धत मुरभिगन्धादिप्रयोगपरिणताः, रसतन्त्रिकादिरसपरिणताः  
 स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरिणताः, सस्थानतः परिमण्डलमम्प्यानाद्विपरिणता अपि  
 भवन्तीति भावः । एव 'जे पञ्चकपञ्चसःसन्धद्विसिद्धप्रगुगरावशाडय० ज्ञान

अतुगिन्द्रियके पर्याप्तक अपर्याप्तक रत्नप्रमा आदि मात्र नरकोके नैर  
 यिक पचन्द्रियके, जलधर, स्यसधर, खेचर उरपरिमर्प-सुजपगिमर्प  
 पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिफके, पञ्चेन्द्रिय मनुष्यके, भवनपति असुरकुमार  
 आदि देवपचन्द्रियके, ज्ञानच्यन्तरके, ज्योतिषिकके, नवग्रहैयकके,  
 विजय, धैजयन्त, जयन्त, अपराजित देवपचन्द्रियके प्रयोगसे परिणत  
 कहे गये पुद्गलार्थे विषयमें भी जानना चाहिये अर्थात् ये भी पुद्गल  
 घर्णकी अपेक्षा फाल्गु आदि घर्णरूपमें भी परिणत होते हैं, गन्धकी  
 अपेक्षा मुरभिगन्धरूपमें भी और दुरभिगन्धरूपमें भी परिणत होते  
 हैं, रसकी अपेक्षा तिकादि रसरूपमें भी परिणत होते हैं, स्पर्शकी  
 अपेक्षा कर्कशादि स्पर्शरूप में भी परिणत हो जाते हैं, सस्थानकी  
 अपेक्षा परिमण्डल सम्प्यानरूप में भी परिणत हो जाते हैं' यह सब  
 कथन कहा पर 'पायत्' शब्दसे ग्रहण किया गया है ।

श्री ६६, तन्त्रिन्द्रिय अने अतुगिन्द्रिय प्रयोगपरिणत पर्याप्तक अने अपर्याप्तक अने  
 पुद्गलके विषे पञ्च सनसत्तुं जेतुं अ अमस्त कथन रत्नप्रमा आदि सात नरकोका  
 पर्याप्त अने अपर्याप्त नैरयिक पञ्चेन्द्रियता, जलधर, स्यसधर अने खेचर पञ्चेन्द्रिय  
 तिर्गोनिफके, पञ्चेन्द्रिय मनुष्यता, भवनपति असुरकुमार आदि देवपञ्चेन्द्रियता,  
 ज्ञानच्यन्तरता ज्योतिषिकता, वैमानिकता नवग्रहैयक विमानवाणी देवता अने  
 विजय धैजयन्त जयन्त, तथा अपराजित अनुत्तरीपर्याप्त देवपञ्चेन्द्रियता प्रयोगकी  
 परिणत पुद्गलदेवता विषयमां पञ्च सनसत्तुं जेतुं के ते पुद्गलके पञ्च पञ्चनी अपेक्षाके  
 द्वारा आदि पञ्च रूपे परिणते हैं अर्थात् अपेक्षाके मुख कथना दुर्लभरूपे परिणते हैं  
 रसनी अपेक्षाके निकल (लीला) आदि रूपे परिणते हैं स्पर्शनी अपेक्षाके कर्कश  
 आदि स्पर्श रूपे परिणते हैं अने सस्थाननी अपेक्षाके परिमण्डल आदि सस्थानरूपे पञ्च  
 परिणते हैं आ सनसत् कथन, अर्थात् 'जाय (पायत्)' शब्दी मन्त्रके अन्तर्गत है ।

अथ शरीरवर्णादिनामकं सप्तमं दण्डकमाह—‘जे अपज्जत्त’ इत्यादि ।

मूलम्—‘ जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०काइयएगिंदियओरालिय-  
तेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्नपरि० जाव  
आययसंठाणपरि० । जे पज्जत्तसुहुमपुढवि० एवं चेव, एवं  
जहाणुपुढीए नेयव्वं, जस्स जइ सरीराणि जाव-जे पज्जत्तसव्वट्ट-  
सिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचिंदियवेउद्वियतेयाकम्मा सरीर० जाव  
परिणया ते वण्णओ कालवन्नपरिणया वि जाव आययसंठाण-  
परिणया वि (दंडगा ७) ॥सू० ८॥

छाया—ये अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिक—तैजस-कार्मणशरीर-  
प्रयोगपरिणताः ते वर्णतः कालवर्णपरिणताः यावत् आयतसंस्थानपरिणताः ।

होते हैं । १६१ जीव भेदोंके साथ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एवं संस्थान  
इन २५ का गुणा करने पर  $१६१ \times २५ = ४०२५$  भेद हो जाते हैं ॥सू.७॥

‘ जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि० एगिंदिय ओरालियतेयाकम्मा  
सरीरपओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्न परि० जाव आययसंठाणपरि०)  
जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय के औदारिक, तैजस  
और कार्मणशरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे वर्णकी  
अपेक्षा कालवर्णरूप में यावत् आयत संस्थानरूप में भी परिणत जाते

जे २५ कुल लेहो छे तेना शुष्काकार करवाथी (१६१×२५) कुल ४०२५ लेह थाय छे.  
(वर्णना ५ लेह + गंधना २ लेह + रसना ५ लेह + स्पर्शना ८ लेह + संस्थानना  
५ लेह = २५ लेह) ॥ सू. ७ ॥

‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०’ इत्यादि—

सूत्रार्थ— ( जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि० एगिंदिय ओरालिय—तेयाकम्मा  
सरीरपओगपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण परि० जाव आययसंठाण परि०)  
जे पुद्गलो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना औदारिक, तैजस अने कार्मण  
शरीरना प्रयोगथी परिणत थयेला कक्षां छे, ‘ते पुद्गलो वर्णनी अपेक्षाये कालवर्णरूपे’  
अहीथी शङ्क करीने ‘आयत संस्थानरूपे पणु परिणते छे’ त्यां सुधीनुं पहिलाना सूत्रमां

तथा च षष्ठ दण्डके षष्ठीद्वारे जीवानाम् १६१-एकषष्ठ्यधिकसप्तमेदानो  
 वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श - संस्थानरूपपञ्चविंशतिभेदगुणिते पञ्चविंशत्यधिकषट्शुः  
 सङ्ख्याणि ४०२५ भवन्ति, तयादि-वर्णाः पञ्च ५, गार्घी द्वौ २, रसाः पञ्च  
 ५, स्पर्शा अष्टौ ८, संस्थानानि पञ्च ५। १६१ × २५ = ४०२५ पञ्चविंशत्य-  
 ष्ट्यधिकषट्शुःसङ्ख्याणि जायते ॥६० ॥

और चौद्विन्द्रिय के भेद से तीन प्रकार हैं, प्रथम रत्नप्रभा भावि  
 सात वृषिविद्योमें रहनेवाले मारक जीव सात प्रकारके हैं, सशीतिर्येष  
 पंचेन्द्रिय पांच प्रकारके हैं, असशी तिर्यश्च पंचेन्द्रिय पांच प्रकारके हैं।  
 गर्भज और संसृष्टिम के भेद से मनुष्य दो प्रकारके हैं, भयनपति  
 वृष असुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तकके भेदसे दस प्रकारके हैं,  
 ज्योतिषिक देव चन्द्रसे लेकर तारा तकके भेदसे पांच प्रकारके हैं।  
 वैमानिक देव सौधर्मसे लेकर अप्युततकके भेद से १२ धारह प्रकार  
 के हैं, अघस्तनत्रिक-मध्यमत्रिक और उपरितनत्रिकके भेद से प्रवेयक  
 नौ प्रकारके हैं, अनुचरविजयआदिके भेदसे पांच प्रकारके हैं। इस  
 तरह १०+३+७+५+५+२+१०+८+६+१२+९+५ = ८१ जीवों के इकासी  
 भेद हो जाते हैं। जीवोंके ८१ भेदोंके बीचमें संसृष्टिम मनुष्यों से  
 मिक ८० जीवोंके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे १६० एकसौ साठ  
 भेद होते हैं तथा संसृष्टिम मनुष्यका एक ऐसे १६१ भेद जीवोंके

प्रथम रत्नप्रभा भावि सात भूमीजोभां रहते। नारहोना ७ प्रकार कथा ॥ सप्त  
 तिर्यक् पंचेन्द्रिय लोचना ५ प्रकार कथा ॥ असशी तिर्यक् पंचेन्द्रिय पांच प्रकार  
 ॥ अशौच करने संसृष्टिमना कोठपी मनुष्योना ७ प्रकार कथा ॥ असुरकुमारभी लडने  
 स्तनितकुमार पञ्चान्ता १० प्रकारना भयनपति देवा कथा ॥ ज्योतिषिक देवोना  
 अदृशी ताश पञ्चान्ता पांच प्रकार कथा ॥ वानव्यन्तर देवोना ८ प्रकार कथा ॥  
 सौधर्म भी अप्युत पञ्चान्ता १२ प्रकारना वैमानिक देवा कथा ॥ प्रवेयक अप्यातीत  
 देवोना ६ प्रकार कथा ॥ (३ नीक्षिना प्रवेयक विधानो + ३ मध्यम प्रवेयक विधानो +  
 ३ उपरितन प्रवेयक विधानो) अनुचर विमानवासी देवोना विन्ध, आदि पांच प्रकार  
 कथा ॥ आ शीते १०+३+७+५+५+२+१०+८+६+१२+९+५=८१ लोचना ज्योतिषिक  
 सेड भाय ॥ लोचना आ से ८१ सेड कथा ॥ तेमाना संसृष्टिम मनुष्य सिवाय  
 ८० प्रकारना लोचना पर्याप्तक करने अपर्याप्तकना कोठपी १६० प्रकार भाय ॥  
 संसृष्टिम मनुष्योना ज्योतिषिक प्रकार (अपर्याप्तक) कोठ ॥ आ शीते लोचना कुं १६१  
 सेड भाय ॥ आ १६१ प्रकारना लोकेडो काँडे पणु मेष, रथ, रथिण, लोने संस्थान

अथ शरीरवर्णादिनामकं सप्तमं दण्डकमाह—‘जे अपज्जत्त’ इत्यादि ।

मूलम्—‘ जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०काइयएगिंदियओरालिय-  
तेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्नपरि० जाव  
आययसंठाणपरि० । जे पज्जत्तसुहुमपुढवि० एवं चेव, एवं  
जहाणुपुवीए नेयव्वं, जस्स जइ सरीराणि जाव-जे पज्जत्तसव्वट्ट-  
सिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचिंदियवेउद्वियतेयाकम्मा सरीर० जाव  
परिणया ते वण्णओ कालवन्नपरिणया वि जाव आययसंठाण-  
परिणया वि (दंडगा ७) ॥सू० ८॥

छाया—ये अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिक—तैजस-कर्मणशरीर-  
प्रयोगपरिणताः ते वर्णतः कालवर्णपरिणताः यावत् आयतसंस्थानपरिणताः ।

होते हैं । १६१ जीव भेदोंके साथ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एवं संस्थान  
इन २५ का गुणा करने पर १६१×२५=४०२५ भेद हो जाते हैं ॥सू.७॥

‘ जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि० एगिंदिय ओरालियतेयाकम्मा  
सरीरपओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्न परि० जाव आययसंठाणपरि०)  
जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय के औदारिक, तैजस  
और कर्मणशरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे वर्णकी  
अपेक्षा कालवर्णरूप में यावत् आयत संस्थानरूप में भी परिणत जाते

वे २५ कुल लेहो छे तेनो गुणाकर करवाथी (१६१×२५) कुल ४०२५ लेह थाय छे.  
(वर्णना ५ लेह + गंधना २ लेह + रसना ५ लेह + स्पर्शना ८ लेह + संस्थानना  
५ लेह = २५ लेह) ॥ सू ७ ॥

‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०’ इत्यादि—

सूत्रार्थ— ( जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि० एगिंदिय ओरालिय — तेयाकम्मा  
सरीरपओगपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण परि० जाव आययसंठाण परि०)  
वे पुद्गलो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियना औदारिक, तैजस अने कर्मण  
शरीरना प्रयोगथी परिणत थयेला क्खां छे, ‘ते पुद्गलो वर्णनी अपेक्षाअे कालवर्णरूपे’  
अही थी शरु करीने ‘आयत संस्थानरूपे पणु परिणुअे छे’ त्यां सुधीनुं पडेलाना सूत्रमां

एथा च पष्ठ दण्डके षष्ठादिद्वारे जीवानाम् १६१-एकपष्टयधिकततमदानां षष्ठा-गघ-ररा-स्पर्श - संस्थानरूपप्रवृत्तिभेदगुणितो पञ्चविंशत्यधिकषट्ठ-रास्त्राणि ४०२५ भवन्ति, तथाहि-षष्ठाः पञ्च ५, गघौ द्वौ २, रराः पञ्च ५, स्पर्शाः अष्टौ ८, तस्यानानि पञ्च ५ । १६१ × २५ = ४०२५ पञ्चविंशत्य-धिकषट्ठरास्त्राणि जायते ॥सू०॥७॥

और पौष्टन्द्रिय के भेद से तीन प्रकार हैं, प्रथम रत्नमन्त्रा आदि सात पृथिवियोंमें रहनेवाले नारक जीव सात प्रकारके हैं, मंशीतिर्यन्त्र पंचेन्द्रिय पांच प्रकारके हैं, वास्तुशी तिर्यक्ष पंचेन्द्रिय पांच प्रकारके हैं । गर्भज और संमूर्च्छिम के भेद से मनुष्य दो प्रकारके हैं, भयनपति देव असुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तकके भेदसे दस प्रकारके हैं, ज्योतिषिक देव चन्द्रस लेकर तारा तकके भेदसे पांच प्रकारके हैं । धिमानिक देव मीधर्मसे लेकर अच्युततकके भेद से १२ धारण प्रकार के हैं, अधरतनत्रिक-मध्यमत्रिक और उपरितनत्रिकके भेद से छपेपक नौ प्रकारके हैं, अनुपारयिजयआदिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं । इस तरह १०+३+७+५+५+२+१०+८+८+१२+९+५ = ८१ जीवों के इण्णामी भेद हो जाते हैं । जीवोंके ८१ भेदोंके धीनमें संमूर्च्छिम मनुष्यों से भिन्न ८० जीवोंके पर्याप्तक और अपर्याप्तकके भेदसे १६० प्रकारों साठ भेद होते हैं तथा संमूर्च्छिम मनुष्यका एक ऐसे १६१ भेद जीवों के

प्रकार रत्नमन्त्रा आदि सात पृथिवीजोगां रहिता नारकेना ७ प्रकार क्वा ७ सही तिमंश पश्चिन्दिम एवेना ५ प्रकार क्वा ७ अक्षरी तिथिंश पश्चिन्द्रिय पांच प्रकारना ७ षष्ठांश अने सगुणितगना दोहरी मनुष्यीना ७ प्रकार क्वा ७ असुरकुमारशी तर्धने स्तनितकुमार पर्यन्तना १० प्रकारना भयनपति देवा क्वा ७ ज्योतिषिक देवाना अक्षरी तारा पर्यन्तना पांच प्रकार क्वा ७ वानव्यन्तरे देवाना ८ प्रकार क्वा ७ शीमगमी अच्युत पर्यन्तना ग्यार प्रकारना वैगानिक देवा क्वा ७ शिवेक ३५पासीत देवाना ६ प्रकार क्वा ७ (३ नीथिना शिवेक विधाने + ३ गभ्यग शिवेक विधाने + ३ उपरितन शिवेक विधाने) अनुपार विमानवाशी देवाना विज्य, आदि पांच प्रकार क्वा ७ आ शीते १०+३+७+५+५+२+१०+८+८+१२+९+५=८१ एवेना ओक्याशी सेर थाय ७ एवेना आ ने ८१ वेर क्वा ७ तोगीना सगुणितग मनुष्य सिवायना ८० प्रकारना एवेना पर्याप्तक अने अपर्याप्तकना दोहरी १६० प्रकार थाय ७ संमूर्च्छिम मनुष्येना ओक ७ प्रकार (अपर्याप्तक) होय ७ आ शीते एवेना कुंभ १६१ वेर थाय ७ आ १६१ प्रकारना एवेना साधे मनु भेद, रघ, रपश, अने सस्थानना

अथ शरीरवर्णादिनामकं सप्तमं दण्डकमाह—‘जे अपज्जत्त’ इत्यादि ।

मूलम्—‘ जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०काइयएगिंदियओरालिय-  
तेयाकम्मासरीरपओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्नपरि० जाव  
आययसंठाणपरि० । जे पज्जत्तसुहुमपुढवि० एवं चेव, एवं  
जहाणुपुढीए नेयवं, जस्स जइ सरीराणि जाव-जे पज्जत्तसवट्ट-  
सिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचिंदियवेउद्वियतेयाकम्मा सरीर० जाव  
परिणया ते वण्णओ कालवन्नपरिणया वि जाव आययसंठाण-  
परिणया वि (दंडगा ७) ॥सू० ८॥

छाया—ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिक-तैजस-कर्मणशरीर-  
प्रयोगपरिणताः ते वर्णतः कालवर्णपरिणताः यावत् आयतसंस्थानपरिणताः ।

होते हैं । १६१ जीव भेदोंके साथ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एवं संस्थान  
इन २५ का गुणा करने पर १६१×२५=४०२५ भेद हो जाते हैं ॥ग्र.७॥

‘ जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि० एगिंदिय ओरालियतेयाकम्मा  
सरीरपओगपरिणया ते वन्नओ कालवन्न परि० जाव आययसंठाणपरि०)  
जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय के औदारिक, तैजस  
और कर्मणशरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे वर्णकी  
अपेक्षा कालवर्णरूप में यावत् आयत संस्थानरूप में भी परिणत जाते

वे २५ कुल भेदों छे तेनो शुष्माकार क्वाथी (१६१×२५) कुल ४०२५ भेद थाय छे.  
(वर्णना ५ भेद + गंधना २ भेद + रसना ५ भेद + स्पर्शना ८ भेद + संस्थानना  
५ भेद = २५ भेद) ॥ सू. ७ ॥

‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि०’ इत्यादि—

सूत्रार्थ— ( जे अपज्जत्तसुहुमपुढवि० एगिंदिय ओरालिय — तेयाकम्मा  
सरीरपओगपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण परि० जाव आययसंठाण परि०)  
वे पुद्गलो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना औदारिक, तैजस अने कर्मण  
शरीरना प्रयोगथी परिणत थयेला क्वां छे, ‘ते पुद्गलो वर्णनी अपेक्षाअे कालवर्णइये’  
अहीथी शइ करीने ‘आयत संस्थानइये पणु परिणते छे’ त्यां सुधीनुं पडेलांना सुत्रमां



ये पर्याप्तकर्मपृथिवी० एषमेव । एवं यधानुपूर्व्यां ज्ञातव्यं यस्य यानि शरीराणि यावत् ये पर्याप्तकर्मार्थमिद्वानुत्तरीपपातिकदेवपञ्चेन्द्रियतेजसकर्मणश्चरीर० यावत् परिणताः ते वर्णतः कालवर्णपरिणता अपि, यावत् आयतसस्थानपरिणता अपि, (सप्तमो दण्डकः ७) ॥मू० ८॥

टीका (जे अज्जससुद्धमपुद्विषिकाइयगिंदियभोराभियतेयाकम्मसरीरपओगपरिणया ते घण्णओ कालवन्नपरि० जाव आययराठाणपरि० ) ये अपर्यां

हैं । (जे पज्जससुद्धमपुद्वि० एष वेव, एष जहाणुपुच्चीए नेयव्यं) जो पर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिकप्रयोगपरिणत पुद्गल रहे गये हैं, वे भी इसी प्रकार से जानना चाहिये । इसी तरह से क्रमशः सप्त कथन जानना चाहिये । (जस जइ सरीराणि जाय जे पज्जस-सम्यद्वसिद्ध अणुसरोपवाइय वेवपिंदिय वेउच्चिय तेयाकम्मसरीरा जाय परिणया ते घण्णओ कालवन्नपरिणया वि जाय आययराठाणपरिणया वि) जिसके जितने शरीर होते हैं उन्मके उतने शरीर कहना चाहिये । यावत् जो पुद्गल पर्याप्तमार्थमिद्ध अनुत्तरीपपातिकदेव पंचेन्द्रियके वैक्रिय, तेजस, कर्मणश्चरीरके प्रयोगसे परिणत होते रहे गये हैं वे वर्णकी अपेक्षा कालवर्णरूपमें भी परिणत होजाते हैं, यावत् सस्थान की अपेक्षा आयतसस्थानतकके रूपमें भी परिणत जाते हैं । (दंडगा ७) इस प्रकार यह सातवां दण्डक है ।

टीकार्थ-सूत्रकारने इस सूत्रद्वारा शरीर वर्णादि नामका सातवां

आपिण्ड कथन ३६५ ३२३ (जे पज्जससुद्धम पुद्वि० एष वेव, एष जहाणुपुच्चीए नेयव्यं ) ने पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकायिक प्रयोगपरिणत पुद्गलका कथा, तेमने विवे पणु अपर्याप्तक ७तु ए कथन समजतु ओ ए प्रभाजे अनुक्रमे जणु कथन समजतु

(जस जइ सरीराणि जाय जे पज्जससम्यद्वसिद्ध अणुसरोपवाइय वेवपिंदियवेउच्चियतेयाकम्म सरीर जाय परिणया ते घण्णओ कालवन्नपरिणया वि जाय आययराठाण परिणया वि) नेना नेटका शरीर होथ, तेना नेटका शरीर होवेना समज्जे. यावत् ७ पुद्वि० पर्याप्त सनावसिद्ध अनुत्तरीपपातिक देव पंचेन्द्रियना वैक्रिय तेजस आने कर्मणु शरीरना प्रयोगभी परिलुप्त कथा छे, ते पुद्गलका वजुनी अपेक्षाके कथा वजुपे पणु परिलुप्त छे त्यांशी शइ करीने सस्थाननी अपेक्षाके आयत सस्थान पर्याप्तताक सस्थानपे पणु परिलुप्ति छे, त्यां सुधीनु कथन ३६५ ३२३ (दंडगा ७) आ प्रारतु आ सातसु ३६६ समजतु

टीकार्थ - सूत्रकारे आ सूत्रद्वारा शरीरवर्णादि नामना सातवां कथन नीचे प्रभाजे

सकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
प्रज्ञप्तास्ते वर्णतः कालवर्णपरिणताः, यावत्-नीलादिवर्णपरिणताः, गन्धतः सुरभि-  
गन्धादिपरिणताः, रसतस्तिक्तादिरसपरिणताः, स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरि-  
णताः, संस्थानतः परिमण्डलाद्यायतपर्यन्तसंस्थानपरिणता अपि भवन्ति । 'जे

दण्डक कहा है इसमें यह कहा है कि 'जे अपज्जत्तसुहुमपुढविण्णि-  
दियओरालिय तेयाकम्मसरीर पओगपरिणया ते वण्णओ कालवन्नपरि०  
जाव आययसंठाणपरि०' जो पुद्गल अपर्थासकसूक्ष्म पृथिवीकायिक एके-  
न्द्रियके औदारिक, तैजस और कार्मणशरीरके प्रयोगसे परिणत हुए  
कहे गये हैं, वे पुद्गल वर्णकी अपेक्षासे कालवर्णरूपमें भी परिणत  
हो जाते हैं, यावत् नीलादिवर्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, गंधकी  
अपेक्षासे वे ही पुद्गल सुरभिगंधरूपमें भी परिणत हो जाते हैं,  
दुरभिगंधरूपमें भी परिणत जाते हैं । रसकी अपेक्षासे वे ही पुद्गल  
तिक्तादि रसके रूपमें भी बदल जाते हैं, स्पर्शकी अपेक्षासे वे ही  
पुद्गल कर्कश आदि ८ प्रकारके स्पर्शरूपमें भी परिणत हो जाते हैं ।  
तात्पर्य कहनेका यही है कि यदि कोई यहां पर ऐसी आशंका करे  
कि अपर्थासक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक आदि तीन  
शरीरोंके प्रयोगसे जो परिणत हुए पुद्गल कहे गये हैं अर्थात् उस  
एकेन्द्रियजीवद्वारा जो पुद्गल औदारिक आदि तीन शरीररूपमें परि-

प्रतिपादन कर्तुं छे- 'जे अपज्जत्तसुहुमपुढविण्णिदियओरालियतेयाकम्मसरीर-  
पओगपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण परि० जाव आययसंठाण परि०'  
ने पुद्गलके अपर्थासक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय छेयाना औदारिक, तैजस अने कार्मण  
शरीरना प्रयोगथी परिणत थयेवा कळा छे, ते पुद्गलओ वण्णुनी अपेक्षाअये कणावण्णुइपे  
पणु परिणुमे छे अने नीलथी लधने सङ्केध पर्यन्तना वण्णुइपे पणु परिणुमे छे. गंधनी  
अपेक्षाअये ते पुद्गलओ सुगंधइपे पणु परिणुमे छे अने दुर्गंधइपे पणु परिणुमे छे.  
रसनी अपेक्षाअये ते पुद्गलओ तिक्तथी लधने मधुर पर्यन्तना पाये रसइपे परिणुमे छे.  
स्पर्शनी अपेक्षाअये ते पुद्गलओ कर्कश आदि आठ प्रकारना स्पर्शइपे पणु परिणुमे छे  
अने ते पुद्गलओ परिमण्डल आदि पाय संस्थानइपे पणु परिणुमन पाये छे.

शंका- अपर्थासक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना औदारिक आदि त्रय शरीराना  
प्रयोगथी परिणत ने पुद्गलओ कळा छे - अटले के ते एकेन्द्रिय एवद्वारा ने पुद्गलाने  
औदारिक आदि त्रय शरीरइपे परिणुभाववामां आव्यां छे, ते पुद्गलओ रप, रस आदि  
शुण्णथी रहित होय छे. ते अतुं केनी रीते संभवी शके ?

ये पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवी० एवमेव । एवं यथानुपूर्व्यां ज्ञातव्यं यस्य यानि शरीराणि यावत् ये पर्याप्तकसर्वाथसिद्धानुचरोपपातिकदेवपञ्चेन्द्रियतैजसकार्मणशरीर० यावत् परिणताः ते वर्णतः कालवर्णपरिणता अपि, यावत् आयतसस्थानपरिणता अपि, (सप्तमो दण्डकः ७) ॥मू० ८॥

टीका (जे अपञ्चसुहृमपुद्बि० एवं चैव, एव जहाणुपुर्वीए नेयञ्च) जो पर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकाधिकप्रयोगपरिणत पुद्गल कहे गये हैं, वे भी इसी प्रकार से जानना चाहिये । इसी तरह से क्रमशः सब कथन जानना चाहिये । (जस जह शरीराणि जाव जे पञ्चस-सव्यद्वसिद्ध अणुसरोववाइय वैषंपर्विदिय वेडञ्चिय तेयाकम्मसरीरा जाव परिणया ते षण्णओ कालवर्णपरिणया वि जाव आययसठाणपरिणया वि) किसके जितने शरीर होते हैं उसके उतने शरीर कहना चाहिये । यावत् जा पुद्गल पर्याप्तसर्वाथसिद्ध अनुचरोपपातिकदेव पञ्चेन्द्रियके वैक्रिय, तैजस, कर्मजशरीरके प्रयोगसे परिणत होते कहे गये हैं वे वर्णकी अपेक्षा कालवर्णरूपमें भी परिणत होजाते हैं, यावत् सस्थान की अपेक्षा आयतसस्थानतकके रूपमें भी परिणत जाते हैं । दण्डगा ७) इस प्रकार यह सातवां दण्डक है ।

टीकार्थ—सूत्रकारने इस सूत्रद्वारा शरीर वर्णादि नामका सातवां

आपेक्षक अर्थक ३२वें (जे पञ्चसुहृम पुद्बि० एवं चैव, एव जहाणुपुर्वीए नेयञ्च) के पर्याप्त सूक्ष्म पृथिवीकाधिक प्रयोगपरिणत पुद्गलके अर्थके, तैजसे विषे पञ्च अपर्याप्तके नेवुं ए अर्थक समञ्चतुं जे ए प्रभावे अनुक्रमेण ७वुं अर्थक समञ्चतुं

(जस जह शरीराणि जाव जे पञ्चससव्यद्वसिद्ध अणुसरोववाइय वैषंपर्विदियवेडञ्चियतेयाकम्मसरीरा जाव परिणया ते षण्णओ कालवर्णपरिणया वि जाव आययसठाणपरिणया वि) केना नेटका शरीर केव, तेना नेटका शरीर केवेना लभजे यावत् ने पुद्गलके पर्याप्त सर्वाथसिद्ध अनुचरोपपातिक देव पञ्चेन्द्रियना पर्विक, तेजस जाने तैजस शरीरना प्रयोगशी परिणत अर्थात्, ते पुद्गलके वक्षुनी अपेक्षितके अणा वक्षुइपी पञ्च परिणत ७' त्यांशी शह शरीने 'सस्थाननी अपेक्षितके आयत सस्थान पर्याप्तना सस्थानइपी पञ्च परिणत ७' त्यां सुधीनुं अर्थक अर्थक ३२वें (दण्डगा ७) का प्रभावतुं का सातवुं दण्डक अर्थक

टीकार्थ—सूत्रकारने सूत्रद्वारा शरीरवर्णादि नामका सातवां दण्डक नीचे प्रभावे

एकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः  
पद्मसास्ते वर्णतः कालवर्णपरिणताः, यावत्-नीलादिवर्णपरिणताः, गन्धतः सुरभि-  
गन्धादिपरिणताः, रसतस्तिक्तादिरसपरिणताः, स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरि-  
णताः, संस्थानतः परिमण्डलाद्यायतपर्यन्तसंस्थानपरिणता अपि भवन्ति । 'जे

दण्डक कहा है इसमें यह कहा है कि 'जे अपज्जत्तसुहुमपुढविण्णिदिद्यओरालिय तेयाकम्मसरीर पओगपरिणया ते वण्णओ कालवन्नपरि० जाव आययसंठाणपरि०' जो पुद्गल अपर्याप्तसूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक, तैजस और कार्मणशरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल वर्णकी अपेक्षासे कालेवर्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, यावत् नीलादिवर्णरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, गंधकी अपेक्षासे वे ही पुद्गल सुरभिगंधरूपमें भी परिणत हो जाते हैं, सुरभिगंधरूपमें भी परिणत जाते हैं । रसकी अपेक्षासे वे ही पुद्गल तिक्तादि रसके रूपमें भी बदल जाते हैं, स्पर्शकी अपेक्षासे वे ही पुद्गल कर्कश आदि ८ प्रकारके स्पर्शरूपमें भी परिणत हो जाते हैं । तात्पर्य कहनेका यही है कि यदि कोई यहां पर ऐसी आशंका करे कि अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक आदि तीन शरीरोंके प्रयोगसे जो परिणत हुए पुद्गल कहे गये हैं अर्थात् उस एकेन्द्रियजीवद्वारा जो पुद्गल औदारिक आदि तीन शरीररूपमें परि-

प्रतिपादन कथुं छे- 'जे अपज्जत्तसुहुमपुढविण्णिदिद्यओरालियतेयाकम्मसरीरपओगपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण परि० जाव आययसंठाण परि०' ने पुद्गलेक अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय जिवेना औदारिक, तैजस अने कार्मण शरीरना प्रयोगथी परिणत थयेवा कखा छे, ते पुद्गलेा वणुनी अपेक्षाअे कणावणुइपे पणु परिणुमे छे अने नीलथी लधने सइए पर्यन्तना वणुइपे पणु परिणुमे छे. गंधनी अपेक्षाअे ते पुद्गलेा सुगंधइपे पणु परिणुमे छे अने दुर्गंधइपे पणु परिणुमे छे रसनी अपेक्षाअे ते पुद्गलेा तिक्तथी लधने मधुर पर्यन्तना पाअे रसइपे परिणुमे छे. स्पर्शनी अपेक्षाअे ते पुद्गलेा कर्कश आदि आठ प्रकारना स्पर्शइपे पणु परिणुमे छे अने ते पुद्गलेा परिमंडल आदि पाअे संस्थानइपे पणु परिणुमन पाअे छे.

शंका- अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना औदारिक आदि त्रय शरीराना प्रयोगथी परिणत ने पुद्गलेा कखा छे - ओटले के ते एकेन्द्रिय जिवद्वारा ने पुद्गलेाने औदारिक आदि त्रय शरीराने परिणुभाववामां आव्यां छे, ते पुद्गलेा रप, रस आदि शुभेथी रहित होय छे तो ओवु केवी रीते संभवी शके ?

પદ્મપદ્મહુમપુદ્ગલિં 'एष खेव' ये पर्याप्तकर्मसुक्ष्मपृथिवीकार्यिकैकेन्द्रियौदारिक-  
 वैजसकार्मण्यशरीरमयोगपरिणताः पुद्गलाः मद्गतास्ते एषमेव-वर्णतः काष्ठादि  
 वर्णपरिणताः, गणतः सुरभ्याविगन्धपरिणताः रसवस्तिक्तादिरसपरिणताः,  
 स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरिणताः, सस्थानत परिमण्डलादिसस्थानपरिणता

ળામાયે ગયે છે કે પુદ્ગલ રૂપ રસાદિગુણોસે હીન હોતે હોંગે? સો ઇસકે  
 ऊपर सूत्रकार उससे समझा रहे हैं कि ऐसी यात नहीं है क्योंकि  
 'स्पर्शरसगन्धवर्णान्तः पुद्गलाः' के अनुसार पुद्गलोंमें ये चारगुण  
 होते ही हैं-इसी लिये ये पुद्गल रूप रसादिगुणवाले होते हैं-उनमें  
 एक भी गुण कम नहीं होता है। हां ऐसा भ्रम होता है कि  
 एकगुण दूसरे निम्नजातीय गुणस्वमें परिणमन नहीं करता है स्वजाति  
 में वह परिणमन कर लेता है जैसे स्वहारस मिष्टरसरूपमें, हरावर्ण  
 पीलेवर्णरूपमें कोमलस्पर्श कठोर स्पर्शरूप में और सुगन्ध  
 दुर्गन्धरूपमें परिणम जाता है। यही विषय यहां पर प्रकट किया  
 गया है। 'जे पद्मपद्महुमपुद्वलिं एषखेव' इमी तरहसे जो पुद्गल  
 पर्याप्तक, सुक्ष्मपृथिवीकार्यिक एकेन्द्रियके औदारिक, वैजस और  
 कार्मण्य शरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे भी ऐसे ही होते  
 हैं अर्थात् धर्मकी अपेक्षा वे काष्ठादि वर्णरूपमें भी परिणत होते  
 हैं, गणकी अपेक्षा से वे सुरभिर्गन्धरूप में भी सुरभिर्गन्धरूपमें भी  
 परिणत होते हैं, रसकी अपेक्षा से तिक्तादिरस रूपमें परिणत होते  
 हैं, और स्पर्शकी अपेक्षा से कर्कशा आदि स्पर्शके रूपमें भी परिणत

સમાધાન- તેઓ રૂપ રસ આદિથી રહિત હોતા નથી. કારણ કે સ્પર્શરસગંધ  
 વર્ણવન્તઃ પુદ્ગલા ' એ કથન અનુસાર પુદ્ગલોમાં એ આર સુલો અવસ્થા હોય છે  
 તેમાં એક પણ સુલોનો અભાવ હોતો નથી. તેથી જ તેમને રૂપ, રસાદિ સુલુવળ્ય કહ્યાં  
 છે. હા, એવું અવશ્ય સહની શકે છે કે એક સુલુ વીજા જુદી ભવિતિના સુલુરૂપે  
 પરિવ્રમન પામતો નથી તે સ્વભાવિતિના જ પરિવ્રમન પામે છે. જેમકે ખાટો રસ મધુર  
 રસરૂપે, લીલોવણ પીળા વણરૂપે, ઠોમલ રસ્ય કઠોર રસ્યરૂપે, અને સુગંધ દુર્ગંધરૂપે  
 પરિવ્રમી બાધ છે એ જ વિષય બધી પ્રકટ કરવામાં આપ્યો છે.

'जे पद्मपद्महुमपुद्वलिं एषखेव' એ જ પ્રભાવે એ પુદ્ગલો પદ્મપદ્મક  
 સુક્ષ્મપૃથ્વીકાર્યિક એકેન્દ્રિયના ઔદારિક તેજસ અને કાર્મણ્ય શરીરના પ્રયોગથી પરિવ્રત  
 થયેલા કહ્યાં છે તે પુદ્ગલો ત્રિણે પણ એવું જ કથન સમજવું. એટલે કે તે પુદ્ગલો  
 વળની અપેક્ષાએ કાળા આદિ પાંચ વર્ણરૂપે પરિવ્રમી છે. ગણની અપેક્ષાએ સુગંધરૂપે  
 પણ પરિવ્રમી છે અને દુર્ગંધરૂપે પણ પરિવ્રમી છે, રસની અપેક્ષાએ તિક્ત (લીલા)  
 આદિ પાંચ રસરૂપે પરિવ્રમી છે, કર્કશની અપેક્ષાએ કર્કશથી લઈને રક્ત પદ્મવન્તા આદિ

अपि भवन्ति, 'एवं जहाणुपुञ्जीए नेयव्वं जस्स जइ सरीराणि जाव' एवम् पर्याप्तक-  
सूक्ष्मपृथिवीकायिकवदेव यथानुपूर्व्या यथानुक्रमेण ज्ञातव्यानि यस्य यानि यावन्ति  
शरीराणि तस्य तावन्ति शरीराणि यावत्-ये पुद्गलाः अपर्याप्तकवाटरपृथिवी-  
कायिकैकेन्द्रियौदारिक तैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणताः प्रज्ञप्तास्ते वर्णगन्धरस-  
स्पर्शसंस्थानतः कालादिवर्ण-सुरभ्यादिगन्ध-तित्तादिरस-कर्कशादिस्पर्श-परि-  
मण्डलादिसंस्थानपरिणताः, ये च पुद्गलाः पर्याप्तकवाटरपृथिवीकायिकै-  
केन्द्रियौदारिकतैजसकार्मणशरीरप्रयोगपरिणतास्ते कालादिवर्ण सुरभ्यादिगन्ध-

होते हैं । तथा-संस्थान-आकारकी अपेक्षा वे परिमंडलसंस्थान से  
लेकर आयतसंस्थानतकके रूपमें भी परिणत होते हैं । 'एवं जहाणु  
पुञ्जीए नेयव्वं जस्स जइसरीराणि जाव' पर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिककी  
तरह से ही यथाक्रम जिसके जितने शरीर होते हैं उसके उनसे ही  
शरीर जानना चाहिये. यहां यावत् पदके पाठसे इस प्रकारका कथन  
गृहीत हुआ है-जो पुद्गल अपर्याप्तक वाटर पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय  
के औदारिक, तैजस और कार्मण शरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे  
गये हैं, वे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से काला  
दि वर्णरूपमें, सुरभि आदि गंधरूप में, तित्तादि रसरूपमें कर्कश  
आदि स्पर्शरूप में और परिमंडल आदि संस्थानरूप में परिणत होते  
हैं, तथा जो पुद्गल पर्याप्तक वाटरपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक  
तैजस एवं कार्मण शरीरके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे  
वर्णकी अपेक्षा काले आदि वर्णके रूपमें, गंधकी अपेक्षा सुरभि आदि

स्पर्शरूपे परिणते छे अने संस्थानकी अपेक्षासे परिमंडल संस्थानकी लक्षणे आयत  
संस्थान पर्यन्तना पात्र संस्थानरूपे परिणते छे 'एवं जहाणुपुञ्जीए नेयव्वं जस्स  
जइ सरीराणि जाव' पर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिककी नेम अनुक्रमे ने श्रवणा नेटला  
शरीर होय ते श्रवणा नेटला न शरीर समन्वा लोभसे अहा 'जाव यावत्' पदकी  
नीचेनु कथम अक्षु कखानु छे- 'ने पुद्गलो अपर्याप्तक वाटर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना  
औदारिक, तैजस अने कार्मण शरीरना प्रयोगी परिणत थयेला क्खे छे, ते पुद्गलो  
वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अने संस्थानकी अपेक्षासे काला आदि वर्णरूपे, सुरभि आदि  
गंधरूपे, तीष्णा आदि रसरूपे, कर्कश आदि स्पर्शरूपे अने परिमंडल आदि संस्थानरूपे  
परिणते छे, अने ने पुद्गलो पर्याप्तक वाटर पृथ्वीकायिक एकेन्द्रियना औदारिक, तैजस  
अने कार्मण शरीरना प्रयोगी परिणत थयेला क्खे छे, ते पुद्गलो वर्णकी अपेक्षासे  
काला आदि वर्णरूपे, गंधकी अपेक्षासे सुरभि अथवा दुर्गंधरूपे, रसकी अपेक्षासे

विकादिरम - कफाद्यादिस्पर्शा - परिमण्डलादिसस्यानपरिणता अपि मन्वतीति  
 मात्र । एष पयासहापयासकसूक्ष्मबादराफ्कापिक-तेजस्फायिक-वायुकापिक-  
 वनस्पतिकापिकैकन्द्रियोद्धारिकत्रैमसकर्मणशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः, एष  
 पयासकापयासकधीन्द्रिय - श्रीन्द्रिय - चतुरिन्द्रियोद्धारिकादिशरीरप्रयोगपरिणता  
 पुद्गलाः, पर्यासापयासकान्नप्रमादिसप्तनैरयिकपञ्चेन्द्रियैर्वक्रियादिशरीरप्रयोग  
 परिणता पुद्गलाः, पर्यासापयासकसमूर्च्छिम - गर्मजतिर्वर्ग्योनिकमनुष्य  
 पञ्चेन्द्रियाहारफादिशरीरप्रयोगपरिणता पुद्गलाः, असुरकुमागादिमन्वनासि-

गंधके रूपमें, रसकी अपेक्षा तिन्कादि रसके रूपमें, स्पर्शकी अपेक्षा  
 कर्का आदि स्पर्शक रूपमें और सस्यानकी अपेक्षा परिमण्डल आदि  
 सस्यानक रूपमें भी परिणत होते हैं । इसी प्रकारसे पर्यासक अपर्या-  
 सक सूक्ष्मयादर पसे अप्कायिक, तेजस्फायिक, वायुकायिक और वन  
 स्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक, तेजस, और कर्मण शरीरके  
 प्रयोगसे परिणत हुए जा पुद्गल कहे गये हैं, तथा जो पुद्गल  
 पयासक अपर्यासक धीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रियके औदारिक आदि  
 शरीरग्रयके प्रयागस परिणत हुए कहे गये हैं, तथा जो पुद्गल पर्यासक  
 अपर्यासक रसप्रमादि सप्तपृषिचीगतनैरयिक पञ्चेन्द्रियक वैक्रियादि  
 शरीरग्रयक प्रयागस परिणत हुए कहे गये हैं, तथा जो पुद्गल  
 पर्यासक अपर्यासक समूर्च्छिम, गर्मज तिर्यग्योनिक जीर्षके औदारिक  
 आदि शरीरग्रयके प्रयागस परिणत हुए कहे गये हैं, इसी तरहसे  
 मनुष्य पञ्चेन्द्रियके आहारक आदि शरीरके प्रयोगसे परिणत हुए

दीप्ता आदि रसरूपे, रसशनी अपेक्षाके कर्का आदि रसरूपे अने सस्यानकी  
 अपेक्षाके परिमण्डल आदि सस्यानरूपे परिणत के के अ अकारणुं कथन पर्याप्तक अने  
 अपर्याप्तक अनवरथावागा सूक्ष्म अने आदर अप्कायिक, तेजस्फायिक वायुकायिक अने  
 वनस्पतिकायिक केन्द्रिय, तथा औदारिक तेजस अने ममपु शरीरना प्रयोगकी परिणतक  
 पुद्गला इहा के तेमना विषे पणु सभभवुं केतुं अ कथन पर्याप्तक अने अपर्याप्तक  
 धीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय शरीरना औदारिक आदि तन्नु शरीरना प्रयोगकी  
 पुद्गलके परिणत कथेता इहा के तथा ने पुद्गलके पर्याप्तक अने अपर्याप्तक  
 शरीरना आदि सात पृषिजीना नरक पञ्चेन्द्रियना वैक्रिय आदि तन्नु शरीरना प्रयोगकी  
 परिणत कथेता इहा के तथा ने पुद्गलके पर्याप्तक अने अपर्याप्तक समूर्च्छिम तथा  
 गर्मज तिर्यग्योनिक शरीरना औदारिक आदि तन्नु शरीरना प्रयोगकी परिणत कथेता  
 इहा के, ते पुद्गला विष पणु सभभवुं के अ अकारणुं मनुष्य पञ्चेन्द्रियना आहारक  
 आदि शरीरना प्रयोगकी परिणत कथेता पुद्गलके विषे पणु सभभवुं, तथा असुरकुमार

वानव्यन्तर - ज्योतिषिक - वैमानिकपर्याप्तकापर्याप्तकपञ्चेन्द्रियवैक्रियादिशरीर-  
प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः, पर्याप्तापर्याप्तकग्रैवेयक-विजय-वैजयन्त-जयन्ता-  
पराजितपञ्चेन्द्रियानुत्तरौपपातिकवैक्रियादिशरीरप्रयोगपरिणताः पुद्गलाश्च  
वर्णगन्धरसस्पर्शसंस्थानतः कालादिवर्ण-सुरभ्यादिगन्ध-तिक्तादिरस-कर्कशादि-  
स्पर्श-परिमण्डलादिसंस्थानपरिणता भवन्ति । 'जे पञ्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववा-  
इयदेवपंचिंदियवेउव्विय-तेया-कम्मा-सरीर० जावपरिणया ते वण्णओ कालवण्ण-  
परिणया वि, जाव आययसंठाणपरिणया वि' ये पुद्गलाः पर्याप्तकापर्याप्तक-

कहे गये हैं, असुरकुमार आदि भवनवासी, पिशाच आदि वानव्य-  
न्तर, सूर्यचन्द्रादिज्योतिषिक और सौधर्मादिक कल्पवासी वैमानिक  
देव इन सब पर्याप्तक अपर्याप्तक देव पंचेन्द्रियोंके वैक्रिय आदि शरीर  
के प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, तथा पर्याप्तक अपर्याप्तक नव  
ग्रैवेयकवासी, एवं विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित इन चार  
अनुत्तर विमानवासी देव पंचेन्द्रियोंके वैक्रिय आदि शरीरके प्रयोगसे  
परिणत हुए कहे गये हैं सो ये सब पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्श एव  
संस्थानकी अपेक्षा से कालादिवर्णके रूपमें, सुरभि आदि गंधके रूपमें-  
तिक्तादिरसके रूपमें, कर्कश आदि स्पर्शकेरूपमें, और परिमंडल आदि  
संस्थानके रूपमें परिणत होते हैं । तथा 'जे पञ्जत्तसव्वट्टसिद्ध  
अणुत्तरोववाइय पंचिंदियवेउव्विय तेयाकम्मसरीरा जाव परिणया  
ते वण्णओ, कालवण्णपरिणया वि, जाव आययसंठाणपरिणया वि'

आदि भवनपतिना, पिशाच आदि वानव्यन्तराना, सूर्यचन्द्रादिक ज्योतिषिकाना, अने  
सौधर्मे आदि कल्पवासी वैमानिक देवाना, ये भधा पर्याप्तक अने अपर्याप्तक देव  
पञ्चेन्द्रियाना वैक्रिय आदि शरीरना प्रयोगशी परिणत थयेला पुद्गला तथा पर्याप्तक अने  
अपर्याप्तक नव ग्रैवेयकवासी देवाना अने विजय, वैजयन्त, जयन्त अने अपराजित,  
आ चार अनुत्तर विमानवासी देव पंचेन्द्रियाना वैक्रिय आदि शरीरना प्रयोगशी परिणत  
थयेला ने पुद्गला कथा छे ते पुद्गला वर्णनी अपेक्षाअे काला आदि वर्णरूपे, गंधनी  
अपेक्षाअे सुगंध अथवा दुर्गंधरूपे, रसनी अपेक्षाअे तीभा आदि रसरूपे, स्पर्शनी  
अपेक्षाअे कर्कश आदि स्पर्शरूपे अने संस्थाननी अपेक्षाअे परिमंडल आदि संस्थानरूपे  
परिणते छे' तथा 'जे पञ्जत्तसव्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइयपंचिंदियवेउव्विय-  
तेयाकम्मसरीरा जाव परिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, जाव  
आययसंठाण परिणया वि' ने पुद्गला पर्याप्तक, अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर



सवार्थसिद्धान्तुनीपपातिकदेवपञ्चन्द्रियभेदिय-तैजस-धर्मणारीर० यावन्-प्रयोग  
परिणताम्ने षण्ठः काष्ठादिर्षणपरिणता अपि, यावन्-नीलादिर्षण परिणता अपि,  
गन्धः घृत्त्यादिगन्धपरिणता अपि, रसवस्तिक्तास्त्रिसपरिणता अपि, स्पर्शतः  
कर्कशादिस्पष्टापिणता अपि, संस्थानतः परिमण्टमाघायतपर्यन्तगस्थानपरिणता  
अपि भवन्तीति भावः । (सप्तमो दण्डक ७) पथ च मसुमे दण्डक शरीरस्य  
षणादिद्वारक ४९१-७७-भवत्यधिकवस्तुःशतशरीराणामूर्षण-गन्ध-रस-स्पर्श सं  
स्थानागपयश्चिंशति मदैर्गुणितान् गुणनपश्चात् (१००७५) चतुष्टवारिदधिक  
पट्टगत (३४४) इमेन एकप्रियदधिकपत्रशतोत्तरप्रत्रशमद्वेषाणि (११६३१)  
भवन्ति, तथाहि-यद्यपि (४९१) एकनवत्यधिकवस्तुःशतसंस्थानाम् षणादिपश्चिंश  
स्या (०७) गुणिते सति (१००७५) पञ्चसप्तत्यधिकछिद्यतोत्तरद्वान्मद्वेषाणि,  
इत्येतन्मस्या भवन्ति, तथापि (१६१) एकपट्टनधिकवस्तुनधर्मणशरीरस्य चतुः

जो पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तक स्वार्थसिद्ध विमानधामी देवपंचेन्द्रिय  
के छेदिय, तैजस ग्यं धर्मण इनतीन शरीरेकें प्रयोगसे परिणत  
दृष्ट फहे गय हैं, व भी यर्णकी अपेक्षासे पालादियणके रूपमें, र्णकी  
अपेक्षासे मुरभि आदि गंधके रूपमें, रसकी अपेक्षासे तिक्तादि रसके  
रूपमें, स्पर्शकी अपेक्षा कर्कशादि स्पष्टके रूपमें, और मस्थानकी  
अपभ्रास परिमण्टल मस्थानस छेकर आयतमस्थानके रूपमें भी परि  
णत हात हैं । इस प्रकार यह भातर्या दण्डक है । शरीरस्यपी  
षणादि दारग्याले इस मतस दण्डकमें ४०१ शरीरामे पांचयर्ण गंध,  
रस, स्पर्श, और मस्थान ० इन ०५का गुणा करनेपर ११६३१  
शरीरके यर्ण आदि आ जाते हैं । यद्यपि ४०१में २५का गुणा करनेपर  
१२२६० गमी मरुगा आती है फिर भी यहाँ पर जो ११६३१

विमानवाची देवपंचेन्द्रियना वैदिक, तैजस आने धर्मण शरीरना प्रयोगधी वस्ति  
धनेता दोष ७, ते पुद्गलता वल वलनी अपेक्षाके कारण आदि वलुंरूपे, अंधनी  
अपेक्षाके मुरभि आदि गंधरूपे रसनी अपेक्षाके तीजा आदि रसरूपे, स्पर्शनी  
अपेक्षाके कर्कशा आदि स्पष्टरूपे आने मस्थाननी अपेक्षाके परिमण्टलधी लघने आयत  
मस्थान पथ वना मस्थानरूपे वलुंरूपे छे आ प्रकारनुं आ सातायु ६४७ छे  
शरीरना वलुंरुदि दारवाजा आ सातर्मा ६४७ शरीरिना ११६३१ केर कर्मां छे  
पाच वलुं, वे अंध, पांच रस ८ स्पर्श आने पांच मस्थान, जे वीते ४६१ ने २५  
वटे लघुवाधी १२२५५ गुणाकार आवे छे छतां वलुं अदी के ११६३१ केर कर्मां छे

प्रमेयचन्द्रिका टीका श.८ उ. १ सू० ९ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् ११३

शित्वस्यैव सत्त्वेन अपस्पर्शेषु चतुर्णाम् अभावेन एकपट्टयधिकैकशत-(१६१)-संख्या  
चतुर्भिरेव गुणिता (१६१×४=६४४) चतुश्चत्वारिंशदधिकपट्टशतरूपा भवति,  
इत्येतत्संख्याहासेन एकत्रिंशदधिकपट्टशतोत्तरैकादशसहस्राणि (११६३१) शरीरव-  
र्णानि भवन्तीति ॥सू० ८॥

अथेन्द्रियवर्णादिनामकमष्टमं दण्डकमाह-‘जे अपज्जत्त’ इत्यादि ।

मूलम् - जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदिय-  
पओगपरिणया ते वण्णओ कालवन्नपरिणया जाव आययसंठाण-  
परिणया वि । जे पज्जत्तसुहुमपुढविकाइय० एवं चेव । एवं जहाणु-  
पुवीए जस्स जइ इंदियाणि तस्स तत्तियाणि भाणियवाणि जाव  
जे पज्जत्तसवट्टसिद्धअणुत्तरजावदेवपंचिदिय - सोइंदिय - जाव-  
फासिंदियपओगपरिणया वि । ते वन्नओ कालवन्नपरिणया वि  
जाव आययसंठाणपरिणया वि ( दंडगा८ ) ॥ सू० ९ ॥

छान्या - ये अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियस्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः  
वर्णतः कालवर्णपरिणताः यावत् आयतसंस्थानपरिणता अपि । ये पर्याप्तक-  
संख्या कही गई है उसका कारण यह है कि १६१ कार्मणशरीरमें  
चार स्पर्श ही होते हैं आठ स्पर्श नहीं होते, इसकारण आठ स्पर्शोंमेंसे  
चार स्पर्शोंके अभाव होनेके कारण १६१को ४से ही गुणित  
किया गया है सो प्राप्त हुई ६४४ संख्याको १२२७५मेंसे कम करने  
पर ११६३१की संख्या आजाती है । अतः ये ११६३१ शरीरके  
वर्ण आदि आजाते हैं ॥सू. ८॥

‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदिय’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ-( जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदियपओग

तेनु कारण नीचे प्रमाणे छे- १६१ कार्मण शरीरमा चार व स्पर्श थाय छे - आठ  
स्पर्श थता नथी, तेथी १६१ × ४ = ६४४ प्रकारना स्पर्शेनि अभाव होवाथी  
१२२७५ भाथी ६४४ भाए करवाथी ११६३१ लेह थाय छे. आ रीते ते शरीराना  
वर्णादिनी अपेक्षाये ११६३१ लेह थाय छे अथ समज्जुं ॥ सू ८ ॥

‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदिय’ इत्यादि-

सूत्रार्थ- (जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदियपओगपरिणया-

सूक्ष्मपृथिवीकायिक० एवमेव । एवं यथानुपूर्व्यां यस्य यानि इन्द्रियाणि तस्य तावन्ति भगितव्यानि, यावत् ये पर्याप्तकर्तार्यसिद्धानुत्तर-यावत्देवपञ्चेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय-यावत्-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः अपि । ते घर्णतः कालवर्णपरिणता अपि यावत् आयततमस्यानपरिणता अपि, (अष्टमो दण्डकः ८) ॥५० ९॥

परिणया ते घण्णओ कालवर्णपरिणया जाय भाषयसठाणपरिणया वि) जो पुद्गल अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियकी स्पर्शानेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, ये घर्णकी अपेक्षासे काले घर्णके रूपमें भी परिणत होते हैं, यावत् आयततमस्यानके रूपमें भी परिणत होत हैं । (जे पञ्चससुहृमपुद्गही एव भेष, एव जहाणुपुष्पिए जस्त जइ इदियाणि तस्त तसियाणि भाणियव्याणि) जो पुद्गल पर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियकी स्पर्शानेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, ये भी इसी तरहसे जानना चाहिये इसी तरहसे क्रमश जिस जीवकी जितनी इन्द्रियां होती हैं उस जीवके उतनी इन्द्रियां कहनी चाहिये । (जाय जे पञ्चसम्बुद्धसिद्ध अनुत्तर भाष देवपंचिदिय सोइंदिय जाय फासिदियपओगपरिणया वि, ते वण्णओ कालवर्णपरिणयावि जाय भाषयसठाणपरिणयावि) यावत् जो पुद्गल पर्याप्तक मर्तार्यसिद्ध अनुत्तरविमानवामी देवपंचेन्द्रियोंकी श्रोत्रेन्द्रियसे छेकर स्पर्शानेन्द्रियतकक प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे

ते घण्णओ कालवर्णपरिणया जाय भाषयसठाणपरिणया वि) जो पुद्गल अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक श्रोत्रेन्द्रियकी स्पर्शानेन्द्रियके प्रयोगसे परिणत होते हैं, ये भी इसी तरहसे जानना चाहिये इसी तरहसे क्रमश जिस जीवकी जितनी इन्द्रियां होती हैं उस जीवके उतनी इन्द्रियां कहनी चाहिये । (जाय जे पञ्चसम्बुद्धसिद्ध अनुत्तर भाष देवपंचिदिय सोइंदिय जाय फासिदिय पओगपरिणया वि, ते घण्णओ कालवर्णपरिणया वि जाय भाषयसठाणपरिणया वि) यावत् जो पुद्गल पर्याप्तक मर्तार्यसिद्ध अनुत्तरविमानवामी देवपंचेन्द्रियोंकी श्रोत्रेन्द्रियसे छेकर स्पर्शानेन्द्रियतकक प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे

टीका—‘जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदियपओगपरिणया ते वन्नओ कालवणपरिणया जाव आययसंठाणपरिणयावि’ ये पुद्गलाः अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियस्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः प्रज्ञप्ताः, ते वर्णतः कालवर्णपरिणता अपि यावत्—नीलादिवर्णपरिणता अपि, गन्धतः सुरभ्यादिगन्धपरिणता अपि, रसतस्तिक्तादिरसपरिणता अपि, स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरिणता अपि, संस्थानतः परिमण्डलादिसंस्थानपरिणताः, आयतसंस्थानपरिणता

वर्णकी अपेक्षासे कालेवर्ण आदि वर्णरूपमें भी परिणत होते हैं यावत् आयतसंस्थान के रूपमें भी परिणत होते हैं ।

टीकार्थ—इस सूत्रद्वारा सूत्रकारने यह इन्द्रियवर्णादि नामवाला आठवां दण्डक कहा है—इस में यह प्रकट किया गया है कि ‘अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदियपओगपरिणया—ते वन्नओ कालवणपरिणया जाव आययसंठाणपरिणया वि’ जो पुद्गल अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियकी एक स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं जो पुद्गल वर्ण की अपेक्षा काले आदिवर्णवाले भी होते हैं, यावत् नीलादिवर्णवाले भी होते हैं, गंधकी अपेक्षा-सुरभिगंधवाले भी होते हैं, दुर्भिगंधवाले भी होते हैं, रसकी अपेक्षा वे तिक्तादि रसवाले भी होते हैं, स्पर्शकी अपेक्षा वे कर्कश स्पर्श आदिवाले भी होते हैं और संस्थान की अपेक्षा वे परिमंडल आदि संस्था-

प्रयोगथी परिणुत थयेला क्ख्हा छे, ते पुद्गलेा ‘वर्णुनी अपेक्षाअे काणा आदि वर्णुइपे परिणुमे छे’, अहीथी शइ करीने ‘आयत संस्थानरूपे पणु परिणुमे छे’, त्या सुधीनु पूर्वोक्त कथन अही प्रकळु कवु

टीकार्थ—आ सूत्रद्वारा सूत्रकारे इन्द्रियवर्णादि नामना आठमा दंडकनु नीचे प्रमाणे प्रतिपादन कथुं छे— ‘अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियफासिंदियपओगपरिणया, ते वणणओ कालवणपरिणया जाव आययसंठाणपरिणया वि’ जे पुद्गलेा अपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियनी ऐक स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी परिणुत थयेला क्ख्हा छे, ते पुद्गलेा वर्णुनी अपेक्षाअे काणा आदि वर्णुवाणा पणु होय छे, अने नीलथी लधने सईह पर्यन्तना वर्णुवाणा पणु होय छे, गधनी अपेक्षाअे ते पुद्गलेा सुरभिगंध (सुगंध) वाणां पणु होय छे अने दुर्गंधवाणां पणु होय छे, रसनी अपेक्षाअे ते पुद्गलेा तिक्त (तीभा) आदि पांय रसवाणा होय छे, स्पर्शनी अपेक्षाअे कर्कश आदि आठ स्पर्शवाणा होय छे अने संस्थाननी अपेक्षाअे परिमंडलथी लधने आयत संस्थान पर्यन्तना संस्थानवाणां पणु होय छे.

अपि भवन्ति । 'जे पञ्चसुहृमपुढविकाइय० एवचेव' ये पुद्गलाः पर्याप्तकयूस्म  
 पृथिवीकायिकेकेन्द्रियस्पर्शेन्द्रियमयागपरिणताः मज्ञप्ताः, ते एवमेव-वर्णतः  
 कालादिचर्मापरिणता, गन्धतः सुरमिपादिगन्धपरिणताः, रसवस्तिक्तादिरसपरि  
 णता, स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शापरिणता, सस्थानतः परिमण्डलादिस स्थान-  
 परिणता अपि भवन्ति । 'एव जहाणुपुन्वीए जस्त जइ इन्द्रियाणि तस्त तच्चियाणि  
 भाणियन्वाणि जाव' एव यथापुनूर्या=यथानुक्रमेण यस्य यानि इन्द्रियाणि भवन्ति  
 तस्य तावन्ति मणितव्यानि यावत्-ये पुद्गला पर्याप्तपर्याप्तकषादरपृथिवीका  
 यिकेकेन्द्रियस्पर्शेन्द्रियमयोगपरिणताः मज्ञप्तास्ते कामादिचर्मा-सुरम्यादिगन्ध

नवाले भी होते हैं । आयतसंस्थानवाले भी होते हैं । 'जे पञ्चस  
 सुहृमपुढवि एव चेव' जो पुद्गल पर्याप्तक युक्तपृथिवीकायिक एकेन्द्रिय  
 की स्पष्टान इन्द्रिय के मयोग से परिणत हुए कहे गये हैं वे भी  
 वर्ण की अपेक्षा कालादि वर्णवाले, गन्ध की अपेक्षा सुरमि भादि गन्ध  
 वाले, रसकी अपेक्षा तिक्तादिरसवाले, स्पर्शकी अपेक्षा कर्कशादि  
 स्पर्शावाले एवं सस्थान की अपेक्षा परिमण्डल भादि संस्थान वाले  
 होते हैं । 'एव जहाणुपुन्वीए जस्त जइ इन्द्रियाणि तस्त तच्चियाणि  
 भाणियन्वाणि जाव' जिस रजोघ के निम्न २ इन्द्रिया क्रमशः कही  
 गई हैं उस २ जीव के उन २ इन्द्रियों का कथन कर लेना चाहिये ।  
 यावत्-जो पुद्गल पर्याप्तक अपयाप्तक वादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय  
 की स्पष्टान इन्द्रिय के मयोग से परिणत हुए कहे गये हैं, वे काल

'जे पञ्चसुहृमपुढवि एव चेव' ? पञ्चसुहृम पर्याप्तक सुहृम इन्ध्यायिक  
 कोन्द्रियनी स्पष्टेन्द्रियना प्रयोगभी परिकृत भवेत्ता कथां ७, तेजो पञ्च वज्रनी  
 अपेक्षणे कथा आदि पञ्चवाजां मधनी अपेक्षणे सुरमि आदि मधवाजां रसनी  
 अपेक्षणे तीभा आदि रसवाजां रशनी अपेक्षणे कश आदि रशवाजां अने  
 सस्थानना अपेक्षणे परिमण्डल आदि सस्थानवाजां होय ७

'एव जहाणुपुन्वीए जस्त जइ इन्द्रियाणि तस्त तच्चियाणि भाणियन्वाणि  
 जाव' जे अ प्रभावे कभश ने ? एवने नेटली धन्दिमे कही ७, ते ते एवने  
 कोटली धन्दिमे कही जेधजे. जेभडे पर्याप्तक, अपयाप्तक, लाए पुन्वीकायिक कोन्द्रियनी  
 स्पष्टेन्द्रियना प्रयोगभी परिकृत ने पुरभवेत्ता कथां ७ तेजो कथा आदि पञ्चवाजां,  
 सुरमि आदि मधवाजां तीभा आदि रसवाजां, कश आदि रशवाजां अने परिमण्डल  
 आदि सस्थानवाजां होय ७ जेअ समञ्जसु. जे अ प्रभावे सुहृम अने लाइए, पर्याप्तक,  
 अपयाप्तक अपूर्वविक, तेजस्वविक, वायुविक अने वनस्पतिविक कोन्द्रिय एवनी;  
 जेअ स्पष्टेन्द्रियना प्रयोगभी परिकृत भवेत्ता पुरभवेत्ता पञ्च रशनी अपेक्षणे कथां ७

तित्तादिरस-कर्कशादिस्पर्श-परिमण्डलादिसंस्थानपरिणता अपि । एवं सूक्ष्म-  
वादरपर्याप्तापर्याप्तकाष्कायिक-तेजःकायिक - वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियस्पर्शेन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरिणता अपि । एवं  
पर्याप्तकापर्याप्तक द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जिह्वाघ्राणचक्षुरिन्द्रियप्रयोग-  
परिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरिणता अपि भवन्ति । एवं  
रत्नप्रभाद्यधःसप्तमीपर्यन्तपृथिवीपर्याप्तापर्याप्तकनैरयिकपञ्चेन्द्रिय श्रोत्र - चक्षु-  
घ्राण जिह्वास्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरि-

आदि वर्णवाले, सुरभि आदि गंधवाले, तित्तादि रसवाले, कर्कशा  
आदि स्पर्शवाले, और परिमंडल आदि संस्थानवाले होते हैं ऐसा  
जानना चाहिये । इसी तरह से सूक्ष्म वादर पर्याप्तक अपर्याप्तक  
अपकायिक, तेजःकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय  
जीव की एक स्पर्शन इन्द्रिय के प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं  
वे भी वर्णादि की अपेक्षा से कालादिवर्णवाले होते हैं ऐसा जानना  
चाहिये । इसी तरह से जो पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय,  
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों की स्पर्शनेन्द्रिय जिह्वाइन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय  
और चक्षुरिन्द्रिय इन इन्द्रियों के प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं,  
वे पुद्गल भी वर्ण की अपेक्षा कालादि वर्णवाले होते हैं । इसी तरह  
से जो पुद्गल रत्नप्रभापृथिवी से लेकर सप्तमपृथिवीगत पर्याप्तक  
अपर्याप्तक नैरयिक पंचेन्द्रियों की श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, और  
स्पर्शन इन पांच इन्द्रियों के प्रयोगों से परिणत हुए कहे गये

वर्णवाणा होय छे, वगेरे पूर्वोक्त समस्त कथन अहुणु करवुं ओ न प्रभाणु पर्याप्तक  
अने अपर्याप्तक द्वीन्द्रियलवानी घ्राणुइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी परिणुत थयेला,  
त्रीन्द्रिय लवानी जिह्वाइन्द्रिय, घ्राणुइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी परिणुत थयेला  
अने चतुरिन्द्रिय लवानी चक्षुइन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय, घ्राणुइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना  
प्रयोगथी परिणुत थयेला पुद्गले। पणु वर्णुनी अपेक्षाअये काला आदि वर्णुवाणां होय  
छे, धत्यादि समस्त कथन अहुणु करवुं ओ न प्रभाणु ने पुद्गले। रत्नप्रभा आदि सात  
पृथ्वीना नारकपञ्चेन्द्रियेनी श्रोत्र, चक्षु, घ्राणु, जिह्वा अने स्पर्श आ पाये धन्द्रियेना  
प्रयोगथी परिणुत थयेला कथा छे, ते पुद्गले। पणु वर्णुदिनी अपेक्षाअये काला आदि  
वर्णुवाणा होय छे ओ न प्रभाणु ने पुद्गले। पर्याप्तक अने अपर्याप्तक नदत्तर आदि  
तिथेयानी पञ्चेन्द्रियेनी अने मनुष्यपञ्चेन्द्रियेना श्रोत्रथी लधने स्पर्श पर्यन्तनी पांच  
इन्द्रियेना प्रयोगथी परिणुत थयेला। होय छे, ते पुद्गले। पणु वर्णुनी अपेक्षाअये काला



तित्तादिरस-कर्कशादिस्पर्श-परिमण्डलादिसंस्थानपरिणता अपि । एवं सूक्ष्म-  
वाद्रपर्याप्तापर्याप्तकाप्कायिक-तेजःकायिक - वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियस्पर्शेन्द्रिय-  
प्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरिणता अपि । एवं  
पर्याप्तकापर्याप्तक द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय जिह्वाघ्राणचक्षुरिन्द्रियप्रयोग-  
परिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरिणता अपि भवन्ति । एवं  
रत्नप्रभाद्यःसप्तमीपर्यन्तपृथिवीपर्याप्तापर्याप्तकनैरयिकपञ्चेन्द्रिय श्रोत्र - चक्षु-  
घ्राण जिह्वास्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरि-

आदि वर्णवाले, सुरभि आदि गंधवाले, तित्तादि रसवाले, कर्कश  
आदि स्पर्शवाले, और परिमंडल आदि संस्थानवाले होते हैं ऐसा  
जानना चाहिये । इसी तरह से सूक्ष्म वाद्र पर्याप्तक अपर्याप्तक  
अप्कायिक, तेजःकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय  
जीव की एक स्पर्शन इन्द्रिय के प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं  
वे भी वर्णादि की अपेक्षा से कालादिवर्णवाले होते हैं ऐसा जानना  
चाहिये । इसी तरह से जो पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय,  
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों की स्पर्शनेन्द्रिय जिह्वाइन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय  
और चक्षुरिन्द्रिय इन इन्द्रियों के प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं,  
वे पुद्गल भी वर्ण की अपेक्षा कालादि वर्णवाले होते हैं । इसी तरह  
से जो पुद्गल रत्नप्रभापृथिवी से लेकर सप्तमपृथिवीगत पर्याप्तक  
अपर्याप्तक नैरयिक पंचेन्द्रियों की श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, और  
स्पर्शन इन पांच इन्द्रियों के प्रयोगों से परिणत हुए कहे गये

वर्णवाणा होय छे, वगेरे पूर्वोक्त समस्त कथन अहणु करवु ओ न प्रभाणु पर्याप्तक  
अने अपर्याप्तक द्वीन्द्रियलवोनी घ्राणुन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी परिणुत थयेला,  
त्रीन्द्रिय लवोनी जिह्वाइन्द्रिय, घ्राणुन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी परिणुत थयेला  
अने चतुरिन्द्रिय लवोनी चक्षुइन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय, घ्राणुन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना  
प्रयोगथी परिणुत थयेला पुद्गलो पणु वर्णुनी अपेक्षाओे काणा आदि वर्णुवाणां होय  
छे, धत्सादि समस्त कथन अहणु करवु ओ न प्रभाणु ने पुद्गलो रत्नप्रभा आदि सात  
पृथ्वीना नारकपञ्चेन्द्रियोनी श्रोत्र, चक्षु, घ्राणु, जिह्वा अने स्पर्श आ पाये धन्द्रियोना  
प्रयोगथी परिणुत थयेला कर्का छे, ते पुद्गलो पणु वर्णुदिनी अपेक्षाओे काणा आदि  
वर्णुवाणा होय छे ओ न प्रभाणु ने पुद्गलो पर्याप्तक अने अपर्याप्तक नैरयिक आदि  
तियुंयोनी पञ्चेन्द्रियोनी अने अनुभयपञ्चेन्द्रियोना श्रोत्रथी लधने स्पर्श पर्यन्तनी पांच  
धन्द्रियोना प्रयोगथी परिणुत थयेला होय छे, ते पुद्गलो पणु वर्णुनी अपेक्षाओे काणा



गता अपि भवन्ति । एवं पर्याप्तापर्याप्तकप्रलम्बरादितिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रिय-  
मनुष्यपञ्चेन्द्रिय-भोत्रादि स्पर्शांतेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः घर्णादितः  
कालादिवर्णादिपरिणता अपि भवन्ति । एवं पर्याप्तकापर्याप्तकमन्त्रपति-धान  
व्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिक नक्षत्रवेद्यक-विजय-वैजयन्त जयन्ता-ऽपराजितानु  
चरौपपातिकद्वेषपञ्चेन्द्रिय-भोत्रादीन्द्रियप्रयोगपरिणता पुद्गलाः घर्णादितः  
कालादिवर्णपरिणता अपि भवन्तीति भावः । 'जे पञ्चसम्बद्धसिद्धअणुचरो०  
जाय देवपंचिदिय-सोइदिय-जाय-फासिदियपभोगपरिणया वि ते वन्नभो  
कालवन्नपरिणया वि भाव आययसठाणपरिणया वि' ये पुद्गलाः पर्याप्तक-  
पर्याप्तकसर्वांसिदानुचरौपपातिक-यावत् - कल्पातीतकदेषपञ्चेन्द्रिय-भोत्रेन्द्रिय-

हैं वे पुद्गल भी घर्णादि की अपेक्षा काले भादिवर्णादि घाले होते हैं ।  
इसी तरह से जो पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तक प्रलम्ब आदि तिर्यग्योनि  
घाले पञ्चेन्द्रियों की, मनुष्यपंचिन्द्रियों की ओत्रादिस्पर्शान्त इन्द्रियों के  
प्रयोग से परिणत हुए कहे गये हैं वे भी घर्णादि गुणों की  
अपेक्षासे कालादि घर्णादिघाले होते हैं । इसी तरहसे जो पुद्गल  
पर्याप्तक अपर्याप्तक भयनपति, धानव्यन्तर, ज्योतिषिक, वैमानिक,  
नक्षत्रवेद्यक, विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित्वासी देवपञ्चेन्द्रि-  
योंकी ओत्रादिक पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे  
पुद्गल घर्णादिककी अपेक्षासे कालादिवर्ण घाले भी होते हैं ।  
इसी तरहसे 'जे पञ्चसम्बद्धसिद्ध अणुचर जाय देवपंचिदियसोइदिय  
जाय फासिदियपभोगपरिणया वि ते वन्नभो कालवन्नपरिणया वि जाय  
आययसठाणपरिणया वि' जो पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तक सर्वांसि-  
सिद्ध अनुचरौपपातिक कल्पातीत पञ्चेन्द्रियदेवोंकी ओत्रइन्द्रिय यावत्

आदि वस्तुवाणों होय छे, अन्तर्हि पूर्वोक्त कल्प कही पद्य मन्त्र कर्तुं जे न प्रभावे  
जे पुद्गल पर्याप्तक - अपर्याप्तक भयनपति धानव्यन्तर, ज्योतिषिक, वैमानिक,  
नक्षत्रवेद्यक विजय, वैजयन्त, जयन्त अने अपराजित्वासी अनुचर विमानवासी  
देवपञ्चेन्द्रियनी ओत्र आदि पांच इन्द्रियेन प्रयोगेयी परिणत भवेत्ता कल्प छे ते  
पुद्गल पद्य वस्तुवाणि अपेक्षासे अणु आदि वस्तुवाणों होय छे जे न प्रभावे  
'जे पञ्चसम्बद्धसिद्ध अणुचर जाय देवपंचिदियसोइदिय भाव फासिदिय-  
पभोगपरिणया वि ते वन्नभो कालवन्नपरिणया वि जाय आययसठाण  
परिणया वि' जे पुद्गल पर्याप्तक अने अपर्याप्तक सर्वांसिद्ध अनुचरौपपातिक  
कल्पातीत पञ्चेन्द्रिय देवोंकी ओत्र, अणु, विद्यवा, धातु अने स्वयं जे जाय इन्द्रियेन।

यावत्-चक्षु-घ्राण-जिह्वा-स्पर्शोन्द्रियप्रयोगपरिणता अपि ते वर्णतः कालवर्णपरिणता अपि यावत् नीलादिवर्णपरिणता अपि, गन्धतः सुरभ्यादिगन्धपरिणता अपि, रसतस्तिक्तादिरसपरिणता अपि, स्पर्शतः कर्कशादिस्पर्शपरिणता अपि, संस्थानतः परिमण्डलादिसंस्थानपरिणता अपि भवन्ति । इति अष्टमो दण्डकः ८।

अत्रोन्द्रियवर्णादिद्वारे त्रयोदशधिकसप्तशते (७१३)न्द्रियाणां वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-संस्थानारूपपञ्चविंशतिसंख्यकभेदैर्गुणने  $७१३ \times २५ = १७८२५$ ) पञ्चविंशत्यधिकाष्टशतोत्तरसप्तदशसहस्राणि वर्णादयो भवन्ति इति-॥सू० ९॥

अथ शरीरेन्द्रियवर्णादिनामकं नवमं दण्डकमाह-‘जे अपज्जत्त’ इत्यादि ।

मूलम्-जे अपज्जत्तसुहुमपुढविकाइयएगिंदियओगलियतेया-कम्माफासिंदियपओगपरिणया ते वण्णओ कालवन्नपरिणयावि जाव आययसंठाण० । जे पज्जत्तसुहुमपुढवि० एवं चेव । एवं

चक्षुइन्द्रिय, घ्राणइन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय एवं स्पर्शनइन्द्रिय इन पांच इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे वर्णकी अपेक्षासे काले-वर्णरूपसे परिणत भी होते हैं, यावत् नीलादि वर्णरूपसे परिणत भी होते हैं, गंधकी अपेक्षासे वे सुरभिगंधरूपसे और दुरभिगंधरूपसे परिणत भी होते हैं, स्पर्शकी अपेक्षासेवे कर्कश आदि स्पर्शरूपसे परिणत भी होते हैं, तथा संस्थानकी अपेक्षासे वे परिमंडल आदि संस्थानकेरूपसे परिणत भी होते हैं । इसप्रकारसे यह आठवां दण्डक कहा गया है । इन्द्रियवर्णादि द्वारवाले इस आठवें दण्डकमें इन्द्रिय-वर्णादिकोंके भेद १७८२५ हैं ऐसा कहा गया है जो इस प्रकारसे जानना चाहिये ७१३ इन्द्रियोंके साथ ५वर्ण, २गंध, ५रस, ८स्पर्श और ५ संस्थान इन पचीस भेदोंका गुणा किया गया है अतः पूर्वोक्त संख्या निष्पन्न हो जाती है ॥ सू. ९ ॥

प्रयोगी परिणत भवेत्ता क्ख्यां छे, तेओ वरुणी अपेक्षाओे काणाथी लधने सईह पयन्तना पाये वरुण्णै, गंधनी अपेक्षाओे सुरभिगंध अने दुर्गंधइये, रसनी अपेक्षाओे तिक्तादि पांच रसइये, स्पर्शनी अपेक्षाओे कर्कश आदि आठ स्पर्शइये अने संस्थाननी अपेक्षाओे परिमंडली-लधने आयत पर्यन्तना संस्थानइये परिणते छे. आ प्रकारना धन्द्रिय-वर्णादिओेना कुल १७८२५ लेह भताव्या छे ते लेहे नीचे प्रमाणे लखुवा- ७१३ धन्द्रियोनी साथे पांच वर्ण, २ गंध, पांच रस, ८ स्पर्श अने पांच संस्थान, ओे रीते कुल २५ लेहेना शुभाकार करवाथी १७८२५ लेह थई जय छे ॥ सू. ९ ॥

जहाणुपुष्पीए जस्त जह सरीराणि इदियाणि य तस्त तइ भाणि  
 यवाणि जाव जे पञ्चसन्धुसिद्धअणुत्तरोववाइय-जाव-देव-  
 पंचिदियवेउवियतेयाकम्मासोइदिय-जाव-फांसिदियपओगपरि  
 णया ते षण्णओ कालवधपरि० जाव आययसठाणपरिणया  
 वि । (दहगा ९) एव एव नव दहगा ९ ॥ सू० १० ॥

जाया-ये अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मणस्प  
 शैन्द्रियमयोगपरिणतास्ते षण्ण कामवर्णपरिणता अपि, यावत् आयतसंस्थान-

‘जे अपञ्चसन्धुसुहमपुडवीकाइयएगिदिय ओरास्त्रिय’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- ( जे अपञ्चसन्धुसुहमपुडविकाइयएगिदियओरास्त्रियतेयाकम्मा  
 फांसिदियपओगपरिणया ते षण्णओ कालवधपरिणया वि जाव आय  
 यसठाणपरिणया वि य ) जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एके  
 न्द्रियके औदारिक तैजस, कार्मण इनतीन शरीरोंके और एक स्पर्शन  
 इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे षण्णकी अपेक्षासे काले-  
 षण्णरूपमें भी परिणत यावत् आयतसंस्थानरूपमें भी परिणत होते हैं  
 ( जे पञ्चसन्धुसुहमपुडवी० एव देव, एव जहाणुपुष्पीए जस्त जह सरी  
 राणि इदियाणि य तस्त तइ भाणियव्वाणि, जाव जे पञ्चसन्धुसिद्ध  
 अणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिदियवेउवियतेयाकम्मा सोइदियजाव  
 फांसिदियपओगपरि० ते षण्णओ कालवधपरि० जाव आययसठाण

‘जे अपञ्चसन्धुसुहमपुडविकाइयएगिदिय ओरास्त्रिय’ इत्यादि-

सूत्रार्थ - ( जे अपञ्चसन्धुसुहमपुडविकाइयएगिदियओरास्त्रिय तेयाकम्मा  
 फांसिदियपओगपरिणया-ते षण्णओ कालवधपरिणया वि, जाव आयय-  
 सठाणपरिणया वि य ) जे पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक केन्द्रियना  
 औदारिक तैजस आने कामण, जे त्रय शरीराना आने जेके शरीरैन्द्रियना प्रयोगशी  
 परिणत यवैशा इत्यादि ते पुद्गलसे ‘पुद्गली अपेक्षासे काल वध रूपे परिणत है’,  
 जहाँथी शरीराने संस्थाननी अपेक्षासे यावत् संस्थानरूपे त्रय परिणत है’  
 त्वा सुधीनु पूर्वोक्तं अथ अहंशु इतुं.

( जे पञ्चसन्धुसुहमपुडवी० एव देव, एव जहाणुपुष्पीए जस्त जह  
 सरीराणि इदियाणि य तस्त तइ भाणियव्वाणि, जाव जे पञ्चसन्धुसिद्ध  
 अणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिदिय वेउवियतेयाकम्मा सोइदिय जाव

पमेयचन्द्रिका टीका श. ८३.१ सू. १० सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १२१

परिणता अपि । ये पर्याप्तकसूक्ष्मपृथ्वी० एवमेव । एवं यथानुपूर्व्या यम्य यानि शरीराणि इन्द्रियाणि च तस्य तानि भणितव्यानि यावत् ये पर्याप्त-सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक यावत्-देवपञ्चेन्द्रिय-वैक्रिय-तैजस-कर्मण-श्रोत्रेन्द्रिय-यावत् स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः, ते वर्णतः कालवर्णपरिणताः यावत् आयत-संस्थानपरिणता अपि । एवम् एते नवदण्डकाः ९ ॥सू० १०॥

टीका - 'जे अपज्जत्तमुहुमपुढविकाडयएगिदियओरालियतेयाकम्माफा-मिदियपओगपरिणया ते वण्णओ कालवन्नपरिणया वि जाव आययसंठाण०'

परिणयावि०) इसी तरह उनपुद्गलोंको भी जानना चाहिये जो पुद्गल पर्याप्त सूक्ष्मपृथ्वीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक, तैजस और कर्मण इनतीन शरीरोंके और एक स्पर्शनइन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं। इसी प्रकारसे क्रमशः सब और कथन जानना चाहिये इस तरह जिस जीवके जितने शरीर, जितनी इन्द्रियां होती हैं उस-जीवके उतने शरीर और उतनी इन्द्रियां कहनी चाहिये। यावत् जो पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमानवासी देवपंचेन्द्रिय हैं उनके वैक्रिय, तैजस, कर्मणशरीरके प्रयोगसे. यावत् स्पर्शनइन्द्रियके प्रयोगसे परि-णत हुए जो पुद्गल कहे गये हैं वे पुद्गलवर्णकी अपेक्षासे काले-वर्णकेरूपमेंभी परिणत होते हैं यावत् आयतसंस्थानकेरूपमेंभी परिणत होते हैं। (एवं एए नव दंडगा) इस तरह ये नौ दण्डक हैं।

फारसिदिय पओगपरि० ते वण्णओ कालवण्णपरि० जाव आययसंठाणपरिणयावि०) पर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक ऐकेन्द्रियना औदारिक, तैजस अने कर्मण, ऐ वण्ण शरीरिनी ऐक स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी पण्णित थयेवा पुद्गलेना वण्णदि विधे पण्ण अपर्याप्तक पुद्गले नेवु न कथन ममज्जुं ऐ न प्रकान्नु कथन अनुकमे अधां एवे विधे ममज्जुं आ वण्णन क्कती वपते ने एवने नेट्ठां शरीर अने नेट्ठी इन्द्रियो छेय छे, ते एवना ऐट्ठा शरीर अने ऐट्ठी इन्द्रियो इडेवी

आ प्रकान्नु कथन सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमानवासी देवा सुधीना एवे विधे ममज्जुं सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमानवासी पचेन्द्रिय देवना वैक्रिय, तैजस अने कर्मण शरीरिनी श्रोत्र, अक्ष, स्सना, श्राणु अने स्पर्श, ऐ पाये इन्द्रियोना प्रयोगथी पण्णित थयेवा ने पुद्गले इह्या छे, ते पुद्गले पण्ण वण्णनी अपेक्षाये काला आदि वण्णेषे परिणमे छे, यावत् संस्थाननी अपेक्षाये आयत संस्थानेषे पण्ण पण्णमे छे ( एवं एए नव दंडगा ) आ रीते ते नव दंडक ममज्जवा

યે પુદ્ગલાઃ અપર્યાપ્તક સૂક્ષ્મપૃથિવીકાયિકૈકેન્દ્રિયૌદારિકૈતૈનસકાર્મણ શરીરસ્પર્શોન્દ્રિયમયોગપરિણતાઃ પ્રજ્ઞાસ્તે વર્ણત કાલ્પવર્ણપરિણતા અપિ, યાવત્-નીનાત્રિવર્ણપરિણતા અપિ ગન્ધત સુરભ્યાદિગન્ધપરિણતા અપિ, રતતસ્તિક્તા દ્વિસપરિણતા અપિ, સ્પર્શત કર્કશાદિસ્પન્નપરિણતા અપિ, સસ્થાનતઃ પરિમશ્કલાદિસસ્થાનપરિણતા અપિ મયન્તિ । ‘ જે પઞ્જતસુદ્દુમપુઢવિ૦ ઇષ સેવ ’ ય પુદ્ગલાઃ પર્યાપ્તક સૂક્ષ્મપૃથિવીકાયિકૈકેન્દ્રિયૌદારિકૈતૈનસકાર્મણ શરીર-સ્પર્શોન્દ્રિયમયોગપરિણતાઃ પ્રજ્ઞાસ્તે ઇવમેવ-વર્ણાદિત કાનાદિવર્ણાદિ

ટીકાર્થ-આ સૂત્રદ્વારા સૂત્રકારને શરીર, ઇન્દ્રિય, વર્ણ આદિ નામ ઘાળા યદ્દ નૌવા દણ્ડક કહ્યા છે ક્ષમનેં ડન્હોને યદ્દ કહ્યા છે ક્ષિ ‘ જે અપ્જ્જતસુદ્દુમપુઢવિકાઇયર્ગિદિય ધોરાલિયતેયાકમ્મા ફાસિદિયપઓ ગપરિણયા તે ઘણ્ણમા કાલ્પવર્ણપરિણયા યિ જાઘ આયસઠાણ પ૦ ’ જો પુદ્ગલ અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મપૃથિવીકાયિક એકેન્દ્રિયકે ઔદારિક, તૈજસ કાર્મણશરીર ઇષ સ્પર્શન ઇન્દ્રિયકે પ્રયોગસે પરિણત કુપ કહે ગયે છે, યે પુદ્ગલ વર્ણકી અપેક્ષાસે કાલેવર્ણરૂપમેં ણી પરિણત હોતે છે યાવત્ નીલાદિવર્ણરૂપમેં ણી પરિણત હોતે છે, ગચકી અપેક્ષા યે તિક્તાદિરસરૂપ મેં ણી પરિણત હોતે છે, સ્પર્શકી અપેક્ષાસે કર્કશાઆદિ સ્પર્શરૂપમેં ણી પારણત હાતે છે, સસ્થાનકી અપેક્ષા યે પરિમશ્કલા આદિ સસ્થાનરૂપમેં ણી પરિણત હોતે છે એસે કહે ગયે છે ‘ જે પઞ્જતસુદ્દુમપુઢવિ૦ ઇષસેવ ’ જો પુદ્ગલ પર્યાપ્તક સૂક્ષ્મપૃથિવીકાયિક એકેન્દ્રિયકે ઔદારિક, તૈજસ,

ટીકાર્થ-આ સૂત્રદ્વારા સૂત્રકારે શરણ ઈન્દ્રિય, વર્ણાદિ નામવાળા નવમ ડક્કનું નોવે પ્રમાણે પ્રતિપાલન કયું છે-

‘ જે અપ્જ્જતસુદ્દુમપુઢવિકાઇયર્ગિદિય ધોરાલિયતેયાકમ્મા ફાસિદિય પઓગપરિણયા તે ઘણ્ણમા કાલ્પવર્ણપરિણયા યિ જાઘ આયસઠાણપરિણયા યિ ’ જે પુદ્ગલો અપર્યાપ્ત સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિયના ઔદારિક, તૈજસ અને કામણ શરીર અને સ્પર્શોન્દ્રિયના પ્રયોગથી પરિણત અવેલા કહ્યાં છે તે પુદ્ગલો વચ્ચની અપેક્ષાએ કાલ, નીલ લાલ પીળા અને સફેદ વગરૂપે પરિણમે છે ગચની અપેક્ષાએ સુન્નિવધ અથવા દુર્ગંધરૂપે પણ પરિણમે છે રસની અપેક્ષાએ તિક્ત (ટીંખા) આદિ રસરૂપે પણ પરિણમે છે રસનાની અપેક્ષાએ કકશ આદિ રસરૂપે પરિણમે છે અને સસ્થાનની અપેક્ષાએ પરિમશ્કલો લાને આગ પગ-તાના સસ્થાનરૂપે પણ પરિણમે છે ‘ જે પઞ્જતસુદ્દુમપુઢવિ૦ ઇષ સેવ ’ જે પુદ્ગલો પર્યાપ્તક સૂક્ષ્મ પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિયના ઔદારિક તૈજસ અને કામણ શરીરના પ્રયોગથી તથા સ્પર્શોન્દ્રિયના

પરિણતા અપિ ભવન્તિ, 'एवं जहाणुपुञ्जीए जस्स जइ सरीराणि इंद्रियाणि य तस्स तड भाणियञ्जाणि जाव' एवं यथानुपूर्व्या—यथानुक्रमेण यस्य जीवस्य यानि शरीराणि इन्द्रियाणि च तस्य तानि भणितव्यानि यावत्—ये पुद्गलाः पर्वाप्तकापर्याप्तकवादरपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मणशरीर—स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पक्ष्मवास्ते वर्णादितः कालादिवर्णादिपरिणता अपि । एव पर्याप्तकापर्याप्तकसूक्ष्मवादराष्कायिक—तैजस्कायिक—वायुकायिक—वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकतैजसकार्मणशरीर—स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वर्णादित कालादि-

કાર્મણ ઇન તોન શરીરોંકે પ્રયોગેસે, તથા સ્પર્શાન ઇન્દ્રિયકે પ્રયોગસે પરિણત હુણ કહે ગયે હૈં, વે બી ણેસે હી હોતે કહે ગયે હૈં । અર્થાત્ વર્ણાદિકી અપેક્ષાસે વે કાલાદિવર્ણાદિરૂપમેંબી પરિણત હોતે હૈં ' एवं जहाणुपुञ्जीए जस्स जइ सरीराणि इंद्रियाणि य तस्स तड भाणियञ्जाणि जाव' इसी तरहसे जिस जीवके जितने शरीर और जितनी इन्द्रियां कहीं गई है उस जीवके उतने शरीर और इन्द्रियोंके विषयमें अनुक्रम से जानलेना चाहिये । यावत्—जो पुद्गल पर्याप्तक अपर्याप्तक वादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक, तैजस, कार्मण इन शरीरोंके एवं स्पर्शन इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हँ वे वर्णादिक रूपमेंभी परिणत होते कहे गये हँ । इसी तरहसे पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्मवादर अपूकायिक, तैजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक, तैजस, कार्मण इन तीन शरीरोंके प्रयोगसे और

પ્રયોગથી પરિણત થયેલા કહ્યા છે, તે પુદ્ગલો પણ એવા જ હોય છે એટલે કે વર્ણાદિના અપેક્ષાએ તેઓ કાળા આદિ વર્ણરૂપે પરિણમે છે, ઇત્યાદિ પૂર્વોક્ત સમસ્ત કથન આહીં પણ મહત્ત્વ ધરવું 'एवं जहाणुपुञ्जीए जस्स जइ सरीराणि इंद्रियाणि य तस्स तड भाणियञ्जाणि जाव' એ પ્રમાણે જે જીવને જેટલા શરીર અને જેટલી ઇન્દ્રિયો કહેવામા આવી છે, તે જીવના જેટલા શરીર અને જેટલી ઇન્દ્રિયોના વિષયમા અનુક્રમે કથન કરવું ભેદપ્રમાણે જેમકે— જે પુદ્ગલો પર્યાપ્તક અને અપર્યાપ્તક બાદર પૃથ્વીકાયિક એકેન્દ્રિયના ઔદારિક તૈજસ અને કાર્મણ શરીરોના અને સ્પર્શેન્દ્રિયના પ્રયોગથી પરિણત થયેલા કહ્યા છે, તે પુદ્ગલો વર્ણાદિની અપેક્ષાએ કાળા આદિ વર્ણાદિરૂપે પણ પરિણમે છે એ જ પ્રમાણે પ્રથમિક—અપર્યાપ્તક સૂક્ષ્મ અને બાદર અપર્યાપ્તક, તૈજસ્કાયિક, વાયુકાયિક અને વનસ્પતિકાયિક એકેન્દ્રિયના ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણ શરીરોના પ્રયોગથી અને સ્પર્શેન્દ્રિયના પ્રયોગથી પરિણત થયેલા કહ્યા છે, તે પુદ્ગલો

पर्णादिपरिणता अपि । पद्यं पर्याप्तकडीन्द्रिय-प्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियोदारिकादि  
 क्षरीर-चक्षुरादीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्णादितः कालादियर्णादिपरिणता  
 अपि । पद्य रत्नप्रभाद्यःगण्ठमीर्णं तृणिकीनैरगिनचैक्रियाक्षररीरपञ्चेन्द्रिय-  
 भ्रोमादीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्णादितः कालादियर्णादिपरिणता  
 अपि । पद्य पर्याप्तप्राप्याप्तक गण्ठपति-गान्धन्तर-ज्योतिषिक-  
 याहारकाक्षररीर-भ्राप्रादीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः पर्णादितः कालादि  
 र्णादिपरिणता अपि, पद्य पर्याप्तप्राप्याप्तक गण्ठपति-गान्धन्तर-ज्योतिषिक-

वर्जन इन्द्रियके प्रयोगसे पर्णादिककी अपेक्षा कालादियर्णादिरूपमें भी  
 परिणत होते कहे गये हैं । इसी तरहसे पर्याप्तक अपर्णाप्तक  
 डीन्द्रिय, प्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवोंके औदारिक आदि शरीरत्रयके  
 पद्य चक्षुरादि इन्द्रियके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे  
 घणादिक की अपेक्षा न कालादियर्णादिरूपमें भी परिणत होते  
 कहे गये हैं । इसी तरह से रत्नप्रभापृथिवी स लेकर अभः  
 सप्तमपृथिवीसप्तक नैरगिन जीवोंके पैक्रियादि शरीर और भ्रोगादिक  
 पद्य इन्द्रियोंके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे पर्णादिककी अपेक्षा  
 से कालादि पर्णादिरूपमें भी परिणत होते कहे गये हैं । इसी तरह  
 से पर्याप्तक, अपर्णाप्तक जलचरादि तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय जीवोंके,  
 मनुष्योंके, आहारक आदि शरीरोंके पद्य भ्रोगादिक इन्द्रियोंके प्रयोग  
 से परिणत हुए कहे गये हैं-य पर्णादिककी अपेक्षा से कालादियर्णादि  
 रूपमें परिणत होने कहे गये हैं । इसी तरहसे पर्याप्तक, अपर्णाप्तक

वर्णादिनी अपेक्षाक काला आदि वर्णादिके पद्य परिणत यान्त्रिक अने प्रभाके  
 पर्याप्तक अने अपर्णाप्तक डीन्द्रिय प्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय ज्योती औदारिक आदि पद्य  
 क्षरीराना प्रयोगसे अने अक्षरान्द्रिय आदि पद्य अक्षराना प्रयोगसे परिणत यनेला  
 पुद्गलसे पद्य वर्णादिनी अपेक्षाक काला आदि वर्णादिके परिणत है अने प्रभाके  
 रत्नप्रभा पृथिवी तर्जने नीचनी सातगी पृथ्वी सुधीना नाशक ज्योतीना वैदिक आदि  
 शरीर अने भ्रोगादिक पद्य अक्षराना प्रयोगसे परिणत यनेला पुद्गलसे वर्णादिनी  
 अपेक्षाके काला आदि वर्णादिके पद्य परिणत है अने शमन्तु अने प्रभाके  
 पर्याप्तक अने अपर्णाप्तक जलचरादि तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय ज्योती अने मनुष्योंना  
 अन्तराक्षर आदि क्षरीराना प्रयोगसे अने अक्षरान्द्रिय आदि पद्य अक्षराना प्रयोगसे  
 परिणत यनेला पुद्गलसे पद्य वर्णादिनी अपेक्षाक कालावर्णादिके परिणत है अन्तराक्षर  
 पुद्गलसे कथन आदी अक्षर अने अने पर्याप्तक अपर्णाप्तक  
 गान्धन्तर ज्योतिषिक, पैमानक, नवभेदेयक अने विषय आदि अनुत्तरीपर्याप्तक

वैमानिक-नवग्रैवेयक - विजयाद्यनुत्तरौपपातिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियादिशरीरश्रोत्रादीन्द्रिय - वैक्रियादिशरीर-श्रोत्रादीन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः वर्णादितः कालादिवर्णादिपरिणता अपि भवन्ति, 'जे पञ्जत्तसन्वट्टसिद्धअणुत्तरोववाइय-जाव-देवपंचिदिय-वेउव्विय-तेया कम्मासोइंदिय-जाव-फासिंदियपओगपरि० ते वण्णओ कालवण्णपरि० जाव आययसठाणपरिणया वि' । ये पुद्गलाः पर्याप्तकार्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक-यावत् कल्पातीतकदेवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियतैजसकार्मणशरीर-श्रोत्रेन्द्रिय-यावत्-चक्षुर्ग्राणजिह्वा-स्पर्शेन्द्रियप्रयोगपरिणताः पुद्गलाः प्रज्ञप्ताः ते वर्णतः कालादिवर्णपरिणता, यावत्-नीलादिवर्णपरिणताः, गन्धतः सुरभ्यादिगन्धपरिणताः, रसतस्तिक्तादिरसपरि-

भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिपिक, वैमानिक, नवग्रैवेयक, विजयादि अनुत्तरौपपातिक देव इनके वैक्रियादि शरीरके प्रयोगसे और श्रोत्रादिक इन्द्रियोंके प्रयोगसे जो पुद्गल परिणत हुए कहे गये हैं, वे पुद्गल वर्णादिककी अपेक्षासे कालादिवर्णादिरूपमें भी परिणत होते कहे गये हैं । 'जे पञ्जत्तसन्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिदिय वेउव्वियतेयाकम्मा, सोइं य जाव फासिंदियपओगपरि० ते वण्णओ कालवण्ण परि० जाव आययसठाणपरिणया वि' जो पुद्गल पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक यावत् कल्पातीत देवपंचेन्द्रिय के वैक्रिय, तैजस, कार्मणशरीर, और श्रोत्रेन्द्रिय, यावत्-चक्षुरिन्द्रिय, ग्राणइन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय, स्पर्शनइन्द्रिय इनके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं, वे वर्णादिककी अपेक्षासे कालादिवर्णरूपमें भी परिणत होते कहे गये हैं, यावत्-गंधकी अपेक्षासे वे सुरभिआदि गंधरूपमें भी परि-

देवपञ्चेन्द्रियना वैक्रिय आदि शरीरेना प्रयोगथी, तथा श्रोत्रेन्द्रिय आदि पांच इन्द्रियोना प्रयोगथी ने पुद्गलो परिणत थयेला कइया छे, ते पुद्गलो वर्णादिनी अपेक्षाओे काला आदि वर्णादिओे परिणत छे ओम समजतु 'जे पञ्जत्तसन्वट्टसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिदिय वेउव्विय तेयाकम्मा, सोइंदिय जाव फासिंदिय पओगपरिणया, ते वण्णओ कालवण्णपरिणया जाव आययसठाणपरिणया वि' ने पुद्गलो पर्याप्तक अने अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपञ्चेन्द्रियना वैक्रिय, तैजस अने कार्मण शरीरेना प्रयोगथी अने श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुइन्द्रिय, ग्राणइन्द्रिय, जिह्वाइन्द्रिय अने स्पर्शेन्द्रियना प्रयोगथी परिणत थयेला कइया छे, ते पुद्गलो वर्णादिनी अपेक्षाओे काला आदि पांच वर्णाओे, गंधनी अपेक्षाओे सुरसिगंध



णताः, स्पर्शश्च कर्कशादिस्पर्शपरिणताः, सस्यानत परिमण्डलादिसस्यानपरि  
 गता अपि भवन्ति । (नवमो दण्डक ९) 'एव एव नव दण्डगा । एवपकारेण  
 एते नव दण्डका भवन्ति । तत्र नवमे दण्डके शरीरेन्द्रियाणां षण्णादिद्वारके  
 पञ्चसप्तत्यधिकैकशतोत्तरद्विसहस्र (२१७५) परिमितशरीरेन्द्रियाणां षण्णगघरस  
 स्पर्शसस्थानभेदैः पञ्चविंशतिसंख्यैर्गुणने यद्यपि- $२१७५ \times ०५ = ५४३७५$   
 पञ्चसप्तत्यधिकत्रिंशतोत्तरचतुः पञ्चाशत्सहस्रपरिमिता भेदा भवन्ति, तथापि  
 एकपटघषिकैकशतस स्यान्ति (१६१) कार्मणशरीराणि चतुः स्पर्श  
 युक्ताः एव भवन्ति ननु अष्टस्पर्शयुक्तानि, अत एव तत्र  $७१३ \times ४ = २८५२$   
 द्विपञ्चाशदधिकशतोत्तरद्विसहस्रसंख्यकशरीरेन्द्रियाणां न्यूनताकरणेन शरीरे  
 न्द्रियाणां प्रयोविंशत्युत्तर पञ्चशताधिकैकपञ्चाशत्सहस्र(५१५२३)संख्यका षण्णाद्यां

णत होते कहे गये हैं, रसकी अपेक्षासे वे तिक्तादि रसस्वमें भी परिणत  
 होते कहे गये हैं । स्पर्शकी अपेक्षासे वे कर्कशा आदि स्पर्शरूपमें  
 परिणत होते हुए कहे गये हैं । सस्यानकी अपेक्षासे वे परिमण्डल  
 सस्थानसे लेकर आयतसस्थानतकमी परिणत होते कहे गये हैं । इस  
 प्रकारसे यह नौवां दण्डक कहा गया है । यहाँतर (एव एव नव  
 दण्डगा) य नौ दण्डक होते हैं । इस शरीर, इन्द्रिय, और षणादि  
 द्वारवाले नौवें दण्डकमें २१७५ परिमित शरीर और इन्द्रियोंके भेदों  
 के साथ षण्ण, गंध, रस, स्पर्श एवं सस्यानके २५ भेदोंका गुणा करने  
 पर ५४३७५ की संख्या आती है फिरभी ५१५२३ जो भेद कहे गये हैं  
 उनमें कारण यह है कि १६१ प्रमाण कार्मण शरीरमें ८ स्पर्श नहीं  
 होते हैं चार ही स्पर्श होते हैं अतएव  $७१३ \times ४ = २८५२$ को कम कर,

अथवा कुर्जघाते, रसकी अपेक्षासे तिक्तादि पांच रसके, रसकी अपेक्षासे कर्कशा  
 आदि स्पर्शके अने सस्थानकी अपेक्षासे परिमण्डलकी लक्ष्णे आयत पञ्चान्त  
 सस्थानके परिणते से ज्ञा प्रमाण आ नवमु ६३३ संभवतु अही सुधीना प्रकरणेभा  
 एव एव नव दण्डगा' का प्रमाण नव दण्डेनु प्रतिपादन अथवा अणु अ-  
 न्य शरीर इन्द्रिय अने वस्तुदि द्वारवाला नवगां ६३३भा २१७५ शरीर अने इन्द्रियेना  
 कोरे साथे षण्ण, गंध, रस, स्पर्श अने सस्थानना २५ कोरेना गुणाकार अथवा  
 ५४३७५ कोरे साथे, उता पणु अही तेभना ५१५२३ कोरे। अथवा अणु अ-  
 तेनु अणु नीधे प्रमाणे अ- १६१ प्रमाण अणु शरीरेभा ८ प्रमाणे रस्य यत्  
 नथी पणु ४ प्रमाणे अ रस्य साथे तेथी  $७१३ \times ४ = २८५२$ ने ५४३७५ साथी

प्रमेयचन्द्रिका टीका अ.८ उ.१ सू.११ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १२७

भवन्तीति । सर्वस मेलनेन प्रयोगपरिणतपुद्गलाः (८८६२५) पञ्चविंशत्यधिक-  
पद्मशतोत्तराष्टाशीति सहस्राणि भेदा भवन्ति ॥सू० १०॥

नवदण्डकैः प्रयोगपरिणत पुद्गल भेदनिरूपणानन्तरं मिश्रपरिणतपुद्गलान्  
निरूपयितुमाह—‘मीसापरिणया णं भंते’ इत्यादि ।

मूलम्—मीसापरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ?  
गोयसा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा—एगिंदियमीसापरिणया  
जाव पंचिंदियमीसापरिणया । एगिंदियमीसापरिणया णं भंते !  
पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ? गोयसा ! एवं जहा पओगपरिण-  
एहिं नव दंडगा भणिया, एवं मीसापरिणएहि वि नव दंडगा  
भणिया, तहेव सव्वं निरवसेसं, नवरं अभिलावो मीसापरिणया  
भाणियव्वं, सेसं तं चेव, जाव जे पज्जत्तसव्वट्टुसिद्धअणुत्तर—  
जाव—आययसंठाण परिणया वि ॥ सू० ११ ॥

छाया-मिश्रपरिणताः खलु भदन्त ! पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ?  
गौतम ! पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—एकेन्द्रियमिश्रपरिणताः यावत्—पञ्चेन्द्रिय-

नेसे शरीर और इन्द्रियोंके वर्णादिक ५१५२३ ही होते हैं । सबके  
मिलानेसे प्रयोगपरिणत पुद्गल ८८६२५ भेदवाले होते हैं ॥सू०१०॥

‘मीसापरिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—( मीसापरिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ) हे  
भदन्त ! मिश्रपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयसा)  
हे गौतम ! (पंचविहा पण्णत्ता) पांच प्रकारके कहे गये हैं । (तंजहा)  
जो इस प्रकारसे हैं । (एगिंदियमीसापरिणयाजाव पंचिंदियमीसा-

आफ़ करवाथी शरीर अने इन्द्रियोना वर्णादिक ५१५२३ बेद व थाय छे नव दंडकां  
अतावेला अर्धां बेदोना सरवाणो करवाथी प्रयोगपरिणत पुद्गलोना कुल ८८६२५ बेद  
थाय छे ॥ सू १० ॥

‘मीसापरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा’ इत्यादि—

सूत्रार्थ— ( मीसा परिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ? )  
हे भदन्त ! मिश्रपरिणत पुद्गलो केटला प्रकारना कइयां छे ? (गोयसा!) हे गौतम !  
पंचविहा पण्णत्ता) मिश्रपरिणत पुद्गलोना पाय प्रकार अथा छे (तजहा) ते पाय

मिथपरिणताः । एकेन्द्रियमिथपरिणताः स्वल्प भदन्त ! पुद्गला कतिविधाः  
 पञ्चधाः ? गौतम ! एष यथा प्रयोगपरिणतैः नव दण्डका भण्डिताः, एव मिथ  
 परिणतैरपि नव दण्डका भण्डिताः, तथैव सर्वे निरवशापम्, नवरम् अभिन्नापः  
 मिथपरिणताः इति भण्डितव्यम् शेष तदेव, यान्त्र य पर्याप्तकसर्वावसिद्धान्त  
 चरो० यावत् आयतसंस्थानपरिणता अपि ॥२॥

परिणता) एकेन्द्रिय मिथपरिणत यावत् पचेन्द्रियमिथपरिणत (एगिं  
 दिय मीमापरिणताण भते ! पोमाला कइविहा पण्णाचा) हे भदन्त !  
 एकेन्द्रिय मिथपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके पहे गये हैं ? (गोयमा)  
 हे गौतम ! (एष जहा पयोगपरिणतहिं नव दंडगा भाणियन्वा) जिम्  
 प्रकारसे प्रयोग परिणत पुद्गलोंको लेकर नौ दण्डक कहे गये हैं उसी  
 प्रकारसे मिथपरिणत पुद्गलोंको लेकर भी नव दण्डक कहना चाहिये ।  
 (तद्वेष सर्वं निरवसेस नवरं अभिन्नापो मीमा परिणता भाणियन्व  
 सेसं स चेष जाय जे पञ्चमव्यवृत्तिद अणुचर जाय आयसठाण  
 परिणता यि) हा दण्डकोंमें समस्तकथन प्रयोगपरिणत पुद्गलोंके जैसा  
 ही जानना चाहिये । प्रयोगपरिणतपुद्गलोंकी अपेक्षा इन मिथपरि  
 णत पुद्गलोंमें यदि कोई विशेषता है तो वह मिथपरिणत इस शब्दके  
 उच्चारण करनेको लेकर है । अर्थात् मिथपरिणत पुद्गल विषयक जो  
 आलापक कहा जायेगा उसमें (प्रयोगपरिणतपुद्गल) इस शब्दकी  
 जगह 'मिथपरिणतपुद्गल' ऐसा शब्द प्रयुक्तकर कहा जायेगा चाकीकर

प्रश्न नीचे प्रश्न ७- (एगिंदिय मीमा परिणता माप पचिंदिय मीमापरिणता)  
 एकेन्द्रिय मिथपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके पहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम !  
 (एष जहा पयोगपरिणतहिं नव दंडगा भण्डिता, एव मीमापरिणतहिं सि नव  
 दंडगा भाणियन्वा) जैसा प्रकारसे प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षा नव दंडका  
 कहे गये हैं उसी प्रकारसे मिथपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षा भी नव दंडका  
 कहना चाहिये । (तद्वेष सर्वं निरवसेस-नवरं अभिन्नापो मीमापरिणता भाणियन्व  
 सेसं स चेष जाय जे पञ्चमव्यवृत्तिद अणुचर जाय आयसठाणपरिणता यि)  
 हा दण्डकोंमें समस्तकथन प्रयोगपरिणत पुद्गलोंके जैसा ही जानना चाहिये ।  
 प्रयोगपरिणतपुद्गलोंकी अपेक्षा इन मिथपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षा नव दंडका  
 कहे गये हैं उसी प्रकारसे मिथपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षा भी नव दंडका  
 कहना चाहिये । (तद्वेष सर्वं निरवसेस-नवरं अभिन्नापो मीमापरिणता भाणियन्व  
 सेसं स चेष जाय जे पञ्चमव्यवृत्तिद अणुचर जाय आयसठाणपरिणता यि)  
 हा दण्डकोंमें समस्तकथन प्रयोगपरिणत पुद्गलोंके जैसा ही जानना चाहिये ।

ટીકા-‘મીસાપરિણયા ણં મંતે ! પોગ્ગલા કઙ્ગિહા પ્પણ્ણત્તા ?’ ગૌતમઃ  
 પૃચ્છતિ- હે ભદન્ત ! મિશ્રપરિણતાઃ સ્વલ્લુ પુદ્ગલાઃ કતિત્રિધાઃ પ્રજ્ઞપ્તાઃ ?  
 ભગવાનાહ-ગોયમા ! પંચત્રિહા પ્પણ્ણત્તા, તં જહા-‘એગિંદિયમીસાપરિણયા જાવ  
 પંચિંદિયમીસાપરિણયા’ હે ગૌતમ ! મિશ્રપરિણતાઃ પુદ્ગલાઃ પચ્ચત્રિધાઃ પ્રજ્ઞપ્તા’,  
 તથથા-એકેન્દ્રિયમિશ્રપરિણતાઃ યાવત્-દ્વીન્દ્રિયમિશ્રપરિણતાઃ, ત્રીન્દ્રિયમિશ્રપરિ-  
 ણતાઃ, ચતુરિન્દ્રિયમિશ્રપરિણતાઃ પચ્ચેન્દ્રિયમિશ્રપરિણતાશ્ચ ભવન્તિ । ગૌતમ પૃચ્છતિ-

સવ કથન પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલ જૈસા હી ઉન આલાપકોમ્મૈ રહેગા  
 યાવત્ જો મિશ્રપરિણત પુદ્ગલ પર્યાપ્ત સર્વાર્થસિદ્ધ અનુત્તરવિમાનવાસી  
 પંચેન્દ્રિય દેવોંકે પ્રયોગસે પરિણત હુપ્ કહે ગયે હૈં વે યાવત્ આયત  
 સસ્થાન પર્ણિણત મી હોતે હૈં એસે મી કહે ગયે હૈં ।

ટીકાર્થ-નવદ્વંડકોં દ્વારા પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલોંકે ભેદોંકા નિરૂપણ  
 કરનેકે વાદ અવ સૂત્રકાર મિશ્રપરિણત પુદ્ગલોંકા નિરૂપણ કર રહે હૈં  
 હસમ્મૈ ગૌતમને ઉનસે એસા પૂછા હૈ કિ ‘મીસા પરિણયા ણં મંતે !  
 પોગ્ગલા કઙ્ગિહા પ્પણ્ણત્તા’ હે ભદન્ત ! જો મિશ્રપરિણત પુદ્ગલ કહે  
 ગયે હૈં વે કિતને પ્રકારકે હોતે હૈં ? હમ્મકે ઉત્તરમ્મૈ પ્રશ્નુ ઉનસે કહતે  
 હૈં ‘ગોયમા’ હે ગૌતમ ! ‘પંચત્રિહા પ્પણ્ણત્તા’ મિશ્રપરિણતપુદ્ગલ પાંચ  
 પ્રકારકે કહે ગયે હૈં । ‘તજહા’ જો હસ પ્રકારસે હૈં ‘એગિંદિયમીસા-  
 પરિણયા જાવ પંચિંદિયમીસાપરિણયા’ એકેન્દ્રિયમિશ્રપરિણત યાવત્  
 દ્વીન્દ્રિયમિશ્રપરિણત, ત્રીન્દ્રિયમિશ્રપરિણત, ચતુરિન્દ્રિયમિશ્રપરિણત

‘મિશ્રપરિણત પુદ્ગલો’ કહેવા ભેદમ્મે ણાટીનુ સમસ્ત કથન પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલોના  
 કથન પ્રમાણે જ સમજવું યાવત જે મિશ્ર પરિણત પુદ્ગલો પર્યાપ્ત સર્વાર્થસિદ્ધ અનુત્તર  
 વિમાનવાસી પચેન્દ્રિય દેવોના પ્રયોગથી પરિણત થયેલા કહ્યા છે, તે પુદ્ગલો (યાવત)  
 આયત સસ્થાન પરણત પણ હોય છે એમ સમજવુ

ટીકાર્થ- નવ દ્વંડો દ્વારા પ્રયોગપરિણત પુદ્ગલોના ભેદોનું નિરૂપણ કરીને હવે  
 સૂત્રકાર મિશ્રપરિણત પુદ્ગલોનું નિરૂપણ કરે છે-આ વિષયને અનુલક્ષીને ગૌતમ સ્વામી  
 મહાવીર પ્રશ્નને એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કે-‘મીસાપરિણયા ણં મંતે ! પોગ્ગલા કઙ્ગિહા  
 પ્પણ્ણત્તા?) હે ભદન્ત’ જે પુદ્ગલો મિશ્રપરિણત કહ્યા છે, તેમના કેટલા પ્રકાર હોય છે?  
 મહાવીર પ્રશ્નને ઉત્તર- ‘ગોયમા !’ હે ગૌતમ ! ‘પંચત્રિહા પ્પણ્ણત્તા તંજહા’  
 મિશ્રપરિણત પુદ્ગલોના નીચે પ્રમાણે પાચ પ્રકાર કહ્યા છે- ‘એગિંદિય મીસાપરિણયા,  
 જાવ પંચિંદિય મીસાપરિણયા’ (૧) એકેન્દ્રિય મિશ્રપરિણત, (૨) દ્વીન્દ્રિય મિશ્ર-  
 પરિણત, (૩) ત્રીન્દ્રિય મિશ્રપરિણત, (૪) ચતુરિન્દ્રિય મિશ્રપરિણત અને (૫)  
 પચેન્દ્રિય મિશ્રપરિણત

मिश्रपरिणता । एकेन्द्रियमिश्रपरिणता स्वल् मदन्त ! पुद्गलाः क्वचिन्विषा  
 पण्णाः ? गौतम ! एष यथा प्रयोगपरिणतैः नव दण्डका भण्डिताः, एवं मिश्र-  
 परिणतैरपि नव दण्डका भण्डिताः, तथैव सर्वे निरवशेषम्, नवरम् अमिन्नायः  
 मिश्रपरिणता इति मणितव्यम् श्रेय तदेष, यावत् ये पर्याप्तकसर्पापसिद्धाद्  
 चरो० यावत् आयसस स्थानपरिणता अपि ॥सू० ११॥

परिणया) एकेन्द्रिय मिश्रपरिणत यावत् पञ्चेन्द्रियमिश्रपरिणत (पर्णि-  
 दिय मीमापरिणयाण मते ! पोगला क्वचिन्विहा पण्णा) हे मदन्त !  
 एकेन्द्रिय मिश्रपरिणतपुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा)  
 हे गौतम ! (एष जहा पयोगपरिणतर्हि नव दण्डका भाणियव्वा) जिस  
 प्रकारसे प्रयोग परिणत पुद्गलोंको लेकर नौ दण्डक कहे गये हैं उसी  
 प्रकारसे मिश्रपरिणत पुद्गलोंको लेकर भी नव दण्डक कहना चाहिये ।  
 (सहेव सव्व निरवसेसं नवरं अमिन्नायो मीसा परिणया भाणियव्वं  
 सेसं त चेव जाव जे पञ्चसव्वद्वसिद्ध अणुत्तर जाव आयससंठाण  
 परिणया वि) इन दण्डकोंमें समस्तकथन प्रयोगपरिणत पुद्गलोंके जैसा  
 ही जानना चाहिये । प्रयोगपरिणतपुद्गलोंकी अपेक्षा इन मिश्रपरि-  
 णत पुद्गलोंमें यदि कोई विशेषता है तो वह मिश्रपरिणत इस शब्दके  
 उच्चारण करनेसे लेकर है । अर्थात् मिश्रपरिणत पुद्गल विषयक जो  
 आलापक कहा जावेगा उसमें (प्रयोगपरिणतपुद्गल) इस शब्दकी  
 जगह 'मिश्रपरिणतपुद्गल' ऐसा शब्द प्रयुक्तकर कहा जावेगा बन्तीस

प्रश्न नीचे प्रश्न है - (पर्णदिय मीसा परिणया वाप पर्णदिय मीसापरिणया)  
 एकेन्द्रिय मिश्रपरिणत कितने पञ्चेन्द्रिय मिश्रपरिणत पणन्तना याव प्रश्न सभक  
 (पर्णदिय मीसापरिणयाण मते ! पोगला क्वचिन्विहा पण्णा) हे मदन्त !  
 एकेन्द्रिय मिश्रपरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! ) हे गौतम !  
 (एवं जहा पयोगपरिणतर्हि नवदण्डका भणिया, एष मीसापरिणतर्हि वि नव  
 दण्डका भाणियव्वा) जे रीते प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षासे नव दण्डका कहे गये हैं  
 तैसे ही मिश्रपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षासे पणु नव दण्डका कहेवा चाहिये ।  
 (सहेव सव्व निरवसेसं-नवरं अमिन्नायो मीसापरिणया भाणियव्वं सस तचेव  
 जाव जे पञ्चसव्वद्वसिद्ध अणुत्तर जाव आयससंठाणपरिणया वि)  
 या इहोमां समस्त कथन प्रयोग परिणत पुद्गलोंकी अपेक्षासे नव दण्डका  
 प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षासे नव दण्डका कहेवा चाहिये ।  
 आलापक विषयता है - या आलापकमां प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षासे नव

टीका—‘मीसापरिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ?’ गौतमः पृच्छति— हे भदन्त ! मिश्रपरिणताः खलु पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—गोयमा ! पंचविहा पणत्ता, तं जहा—एगिंदियमीसापरिणया जाव पंचिंदियमीसापरिणया’ हे गौतम ! मिश्रपरिणताः पुद्गलाः पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—एकेन्द्रियमिश्रपरिणताः यावत्—द्वीन्द्रियमिश्रपरिणताः, त्रीन्द्रियमिश्रपरिणताः, चतुरिन्द्रियमिश्रपरिणताः पञ्चेन्द्रियमिश्रपरिणताश्च भवन्ति । गौतम पृच्छति—

सब कथन प्रयोगपरिणत पुद्गल जैसा ही उन आलापकोंमें रहेगा यावत जो मिश्रपरिणत पुद्गल पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरविमानवासी पंचेन्द्रिय देवोंके प्रयोगसे परिणत हुए कहे गये हैं वे यावत् आयत सस्थान परिणत भी होते हैं ऐसे भी कहे गये हैं ।

टीकार्थ—नवदण्डकों द्वारा प्रयोगपरिणत पुद्गलोंके भेदोंका निरूपण करनेके बाद अब सूत्रकार मिश्रपरिणत पुद्गलोंका निरूपण कर रहे हैं इसमें गौतमने उनसे ऐसा पूछा है कि ‘मीसा परिणया णं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता’ हे भदन्त ! जो मिश्रपरिणत पुद्गल कहे गये हैं वे कितने प्रकारके होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु उनसे कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पंचविहा पणत्ता’ मिश्रपरिणतपुद्गल पांच प्रकारके कहे गये हैं । ‘तजहा’ जो इस प्रकारसे हैं ‘एगिंदियमीसापरिणया जाव पंचिंदियमीसापरिणया’ एकेन्द्रियमिश्रपरिणत यावत् द्वीन्द्रियमिश्रपरिणत, त्रीन्द्रियमिश्रपरिणत, चतुरिन्द्रियमिश्रपरिणत

‘मिश्रपरिणत पुद्गलो’ कहेवा लोभये णाकीनु समत्त कथन प्रयोगपरिणत पुद्गलोना कथन प्रभाणे न समञ्जुं यावत ने मिश्र परिणत पुद्गलो पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमानवासी पंचेन्द्रिय देवाना प्रयोगथी परिणत थयेवा कहा छे, ते पुद्गलो (यावत्) आयत सस्थान परिणत पणु होय छे जेभ समञ्जु

टीकार्थ— नव दण्डों द्वारा प्रयोगपरिणत पुद्गलोना लोभोनु निरूपण करीने हुवे सूत्रकार मिश्रपरिणत पुद्गलोनु निरूपण करे छे—आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवा प्रश्न पूछे छे क— ‘मीसापरिणयाणं भंते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता?’ हे भदन्त’ ने पुद्गलो मिश्रपरिणत कहा छे, तेमना कटवा प्रकार होय छे?

महावीर प्रभुने उत्तर— ‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘पंचविहा पणत्ता तंजहा’ मिश्रपरिणत पुद्गलोना नीचे प्रभाणे पाथ प्रकार कहा छे— ‘एगिंदिय मीसापरिणया, जाव पंचिंदिय मीसापरिणया’ (१) एकेन्द्रिय मिश्रपरिणत, (२) द्वीन्द्रिय मिश्रपरिणत, (३) त्रीन्द्रिय मिश्रपरिणत, (४) चतुरिन्द्रिय मिश्रपरिणत अने (५) पंचेन्द्रिय मिश्रपरिणत



परिणतविषयको भणितव्यः 'सेसं तं चेव, जाव-' शेषमवशिष्टम् तदेव-प्रयोग-  
परिणतपुद्गलविषयकपूर्वोक्तवक्तव्यतावदेवात्रापि यथायोग्यं सूक्ष्मवादर-  
पर्याप्तकापर्याप्तकविषयकं बोध्यम्, यावत्-रत्नप्रभादि पृथिवीनैरयिकपञ्चेन्द्रिय-  
मिश्रपरिणताः अपर्याप्तकपर्याप्तकजलचरादितिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियमिश्रपरि-  
णताः, पर्याप्तकापर्याप्तकमनुष्यपञ्चेन्द्रियमिश्रपरिणताः पर्याप्तकापर्याप्तका-  
सुरकुमारादिभवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिषिक - वैमानिक-नवग्रैवेयक-विजयाद्य-  
नुत्तरौपपातिकदेवपञ्चेन्द्रियमिश्रपरिणताश्च पुद्गलाः भवन्ति । एवं जे पज्जत्त  
सव्वट्टसिद्धअणुत्तरो० जाव आययसंठाणपरिणया वि' ये पुद्गलाः पर्याप्तक  
सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक- यावत् - कल्पातीतकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियतैजसकार्मण-

लाप कहना चाहिये । 'सेसं तंचेव जाव' अवशिष्ट सबवक्तव्यता  
प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी वक्तव्यताके समान ही यहां पर मिश्रपरिणत  
पुद्गलोंमें यथायोग्य सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक, अपर्याप्तक विषयक  
वक्तव्यता जाननी चाहिये । यावत् रत्नप्रभा आदि पृथिवीके नैरयिक  
पंचेन्द्रियोंके मिश्रपरिणतपुद्गल, पर्याप्तक, अपर्याप्तक जलचरादि पंचे-  
न्द्रियके मिश्रपरिणतपुद्गल, पर्याप्तक अपर्याप्तक मनुष्य पंचेन्द्रियों  
के मिश्र परिणत पुद्गल, पर्याप्तक अपर्याप्तक असुरकुमार  
आदि भवनपतिके, वानव्यन्तरोंके, ज्योतिषिकोंके, वैमानिकोंके,  
नवग्रैवेयकोंके और विजयादि अनुत्तर विमानवासी देवपंचेन्द्रियोंके  
मिश्रपरिणतपुद्गल, इसी तरहसे 'जे पज्जत्तसव्वट्टसिद्ध अणुत्तर  
जाव आययसंठाण परिणया वि' पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तर विमान-

'सेस तंचेव जाव' आधीनु समस्त कथन प्रयोगपरिणत पुद्गलोना कथन प्रभाषे  
समञ्जसु ओटले के यथायोग्य सूक्ष्म, भाद्र, पर्याप्तक, अपर्याप्तक पृथ्वीकाय आदि  
ओकेन्द्रिय मिश्रप्रयोग परिणत पुद्गलो तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय  
मिश्रप्रयोग परिणत पुद्गलो विषेनु कथन पक्ष प्रयोगपरिणत पुद्गलोना कथन प्रभाषे  
समञ्जसु तथा रत्नप्रभा आदि पृथ्वीओना नैरयिक पंचेन्द्रियोना मिश्रपरिणत पुद्गल,  
पर्याप्तक, अपर्याप्तक जलचरादि पंचेन्द्रियना मिश्रपरिणत पुद्गल, पर्याप्तक अने  
अपर्याप्तक मनुष्य पंचेन्द्रियना मिश्रपरिणत पुद्गल, पर्याप्तक अने अपर्याप्तक  
असुरकुमार आदि भवनपतिना, वानव्यन्तरोना, ज्योतिषिकोना, वैमानिकोना, नवग्रैवेयक  
अने विजय आदि अनुत्तर विमानवासी पंचेन्द्रियदेवोना मिश्रपरिणत पुद्गलोनु कथन  
पक्ष प्रयोगपरिणत पुद्गलोना कथन प्रभाषे न समञ्जसु ओ न प्रभाषे 'जे पज्जत्त-  
सव्वट्टसिद्ध अणुत्तर जाव आययसंठाणपरिणया वि', अपर्याप्तक अने पर्याप्तक



शरीर-श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुर्घ्राण-जिह्वास्पर्शेन्द्रियमिधपरिणताः प्रकृताः । ते षण्णतः कालादिदर्शनपरिणता अपि, गन्धत-सुरभ्यादिगन्धपरिणता अपि, रसतस्त्वक्तादिरसपरिणता अपि, स्पर्शत कर्कशादिस्पर्शपरिणता अपि, सम्पानतः परिमण्डलादारभ्यागतसंस्थानपरिणता अपि भवन्ति । तथा च प्रयोगपरिणतपुद्गल-मेदवदेव मिधपरिणतपुद्गला अपि पञ्चविंशत्यधिकपदस्यतोत्तराष्टाशीति सङ्ख्याणि (८८६२५) भवन्तीति ॥सू० ११॥

त्रिससापरिणतपुद्गलवत्कण्ठता ।

मिधपरिणतपुद्गलमन्त्रिरूपानन्तरम् त्रिससापरिणतपुद्गलान्निरूपयितुमाह-त्रीससापरिणयाण भवे' इत्यादि ।

मूल्म्-त्रीससा परिणया ण भवे । पोगला कइविहा पञ्चत्ता ? गोयमा । पचविहा पञ्चत्ता-तजहा-यन्नपरिणया, गधपरिणया, रसपरिणया, फात्तपरिणया, सठाणपरिणया । जे यन्नपरिणया ते पचविहा पञ्चत्ता, तजहा-कालवन्नपरिणया, जाव सुक्किळ वन्नपरिणया । जे गधपरिणया ते कुविहा पञ्चत्ता, त जहा-सुब्भि

घासी कृपातीत देवपचेन्द्रियेके वैकिण, तैजस, कामण शरीरके एव श्रोत्रइन्द्रिय, चक्षु, घ्राण, जिह्वा, स्पर्शनइन्द्रिय इनके प्रयोगसे मिध रूपमे परिणत हुए पुद्गल दर्शनकी अपेक्षासे कालादिदर्शनरूपमें भी परिणत होते हैं गधकी अपेक्षासे सुरभि आदिरूपमें, रसकी अपेक्षासे तिक्तादि रसरूपमें, स्पर्शकी अपेक्षासे कर्कशा आदि स्पर्शरूपमें भी परिणत होते हैं सम्पानकी अपेक्षासे परिमण्डल सम्पान, वृचसम्पान त्र्यस्रसम्पान, चतुरस्रसम्पान आगतसम्पानरूपमें भी परिणत होते हैं । तथाच प्रयोगपरिणत पुद्गलोंकी तरहसे ही मिधपरिणत पुद्गल भी ८८६२५ होते हैं ॥सू० ११॥

सर्वांसिद्ध अनुचरोपपत्तिक देवचेन्द्रियेणा वैकिण तैजस जने कामेण शरीरा जने श्रोत्र, चक्षु, घ्राण विद्वेषा जने स्पर्श जे पाथे चन्द्रियेणा प्रवेजथी मिधरूपे परिकृत घनेहा पुद्गलसे वलनी अपेक्षासे कला आदि वलरूपे पञ्च परिकृते छे, गधनी अपेक्षासे सुरभि आदि गधरूपे, रसनी अपेक्षासे तिक्तादि रसरूपे, स्पर्शनी अपेक्षासे कर्कशा आदि स्पर्शरूपे जने संस्थाननी अपेक्षासे परिमण्डल सम्पान, जेठ सम्पान, मिधण सम्पान, वीजण सम्पान जने आधत सम्पानरूपे पञ्च परिकृते छे प्रयोगपरिकृत पुद्गलसेनी जेठ मिधपरिकृत पुद्गलसेना पञ्च ८८६२५ वेड कथि छे ॥ सू. ११ ॥

गंधपरिणया वि, दुब्धिगंधपरिणया वि । एवं जहा पन्नवणापए तहेव निरवसेसं जाव जे संठाणओ आयय संठाणपरिणयाते वण्णओ कालवन्नपरिणया वि, जावल्लवन्नफासपरिणया वि ।सू०१२।

छाया-विस्त्रसापरिणताः खलु भदन्त ! पुद्गलाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-वर्णपरिणताः, गन्धपरिणताः, रसपरिणताः, स्पर्शपरिणताः, संस्थानपरिणताः । ये वर्णपरिणतास्ते पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-कालवर्णपरिणताः, यावत्-शुक्लवर्णपरिणताः । ये गन्धपरिणतास्ते द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-सुरभिगन्धपरिणता अपि दुरभिगन्धपरिणता अपि ।

### विस्त्रसापरिणतपुद्गलवक्तव्यता-

‘वीससा परिणयाणं भन्ते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता इत्यादि ।

सूत्रार्थ-( वीससापरिणयाणं भन्ते ! पोग्गला कइविहा पन्नत्ता ) हे भदन्त ! विस्त्रसापरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! विस्त्रसापरिणतपुद्गल (पंचविहा पन्नत्ता) पांच प्रकारके कहे गये हैं । ( तंजहा ) जो इस प्रकारसे हैं (वन्नपरिणया, गंधपरिणया, रसपरिणया, फासपरिणया, संठाणपरिणया) वर्णपरिणत, गंधपरिणत, रसपरिणत, स्पर्शपरिणत और संस्थानपरिणत । ( जे वन्नपरिणया ते पंचविहा पणत्ता) जो विस्त्रसा परिणत पुद्गल वर्णपरिणत कहे गये हैं वे पांच प्रकारके होते हैं (तंजहा) जो इस प्रकारसे हैं (कालवन्नपरिणया, जाव सुक्किल्लवन्नपरिणया) कालवर्णपरिणत, यावत् शुक्लवर्णपरिणत (जे गंधपरिणया ते दुविहा पन्नत्ता) जो गंधवर्णपरिणत हैं वे

### विस्त्रसापरिणत पुद्गलोनी वक्तव्यता-

‘वीससा परिणयाण भन्ते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता’ इत्यादि-

सूत्रार्थ-( वीससा परिणयाणं भन्ते ! पोग्गला कइविहा पणत्ता ? )

हे भदन्त ! विस्त्रसापरिणत पुद्गल कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! विस्त्रसापरिणत पुद्गल (पंचविहा पणत्ता) पांच प्रकारके कहे गये हैं, (तंजहा) ते प्रकारके नीचे प्रमाणे छे- (वण्णपरिणया, गंधपरिणया, रसपरिणया, फासपरिणया, संठाणपरिणया) (१) वर्णपरिणत, (२) गंधपरिणत, (३) रसपरिणत, (४) स्पर्शपरिणत अने (५) संस्थानपरिणत (जे वन्नपरिणया ते पंचविहा पणत्ता-तंजहा) वे विस्त्रसापरिणत पुद्गलोने वर्णपरिणत कहेवार्सा आव्या छे तेभना नीचे प्रमाणे पांच प्रकार कहे छे- ( कालवण्णपरिणया जाव सुक्किल्लवण्णपरिणया ) आजावर्णपरिणत, यावत् शुक्लवर्णपरिणत (जे गंधपरिणया ते दुविहा पणत्ता)

एव यथा प्रज्ञापनापदे तथैव निरयत्सेपम्, यावत् य स स्यान्तः आयत्तसंस्थान  
परिणतास्ते घर्णतः काल्यव्यपरिणया अपि यावत्-रुक्षस्पर्शपरिणता अपि  
नीका-‘धीसमापरिणया ण भंते ! पोग्गला कइयिहा पण्णत्ता !’ गौतमः  
पृच्छति हे भद्र ! निस्सत्तापरिणाः निस्ससया=स्वभावेन परिणताः=परिणतिं प्राप्ताः  
खलु पुद्गलाः कतिविधाः प्रवृत्ताः ? मगवानाह-‘गोयमा ! पंरविहा पण्णत्ता,’

दो प्रकारके कहे गये हैं । (सजाग) जो इस प्रकारसे हैं (सुभिर्गंध  
परिणया धि, दुग्भिर्गंधपरिणया धि) सुरभिर्गंधपरिणत भी और दुर्  
भिर्गंधपरिणत भी ( एव जहा पञ्चवणाए तथैव निरयत्सेसं जाय जे  
सठाणओ आयत्तसठाणपरिणया ते घण्णओ काल्यव्यपरिणया धि जाय  
लुक्कलफासपरिणया धि ) इस प्रकार प्रज्ञापनापदमें जैसा कहा गया है  
उसी तरहसे यहाँपर भी समस्त कथन जानना चाहिये । यावत् जो  
यिस्समापरिणत पुद्गल रास्थानकी अपेक्षासे आयत्त संस्थानपरिणत  
फहे गये हैं य घर्णकी अपेक्षासे काल्यव्यपरिणत भी कहे गये हैं यावत्  
रुक्षस्पर्श परिणत भी कहे गये हैं ।

तीकार्य-सुत्रकारने इस सुत्रभाग मिश्रपरिणत पुद्गलोंके भेदोंका  
निरूपण करनेके बाद निस्सत्ता परिणतपुद्गलोंका निरूपण किया है  
इसमें गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘धीसत्ता परिणया ण भंते !  
पोग्गला कइयिहा पण्णत्ता’ है भद्र ! जो पुद्गल यिस्सत्ता परिणत

ने अंधपरिणत पुद्गला छ तेजना वे प्रधार क्वा छ (संजहा) ते मे प्रधारि अ  
प्रभावे छ- ( दुग्भिर्गंधपरिणया धि, सुभिर्गंधपरिणया धि ) (१) सुत्तभिर्गंध  
परिणत अने (२) दुर्गंधभिर्गंध (दुर्गंध) परिणत (एवं जहा पञ्चवणाए तथैव  
निरयत्तसं जाय जे सठाणओ आयत्तसठाणपरिणया ते घण्णओ काल्यव्य  
परिणया धि जाय लुक्कलफासपरिणया धि ) आ प्रभावे प्रज्ञापनापदमां ने  
प्रधारिनुं कथन करवामा आत्थुं छ, अने अ प्रभावे अदी पण समस्त कथन समञ्जसुं  
'अ' निस्सत्तापरिणत पुद्गत संस्थाननी अपेक्षासे आयत्त संस्थान परिणत हुंवेवामां  
आत्थुं छ ते पुद्गतो वज्जनी अपेक्षासे काल्यव्य रूपे परिणत पण्णत्ता क्वा छ यावत्  
रुक्षस्पर्श परिणत पण्णत्ता छ त्वां सुधीनुं कथन म लुं करवुं

टीकाथ- परेलां सुवमां मिश्रपरिणत पुद्गलानुं निरूपण करवामां आत्थुं छ  
दने यथाह निस्सत्तापरिणत पुद्गलानुं निरूपण नीमे प्रभावे करे छ-

भेतम एवामीना प्रभ-‘धीसत्तापरिणयाण भंत ! पोग्गला कइ विहा पण्णत्ता ?  
? अहन्त ! निस्सत्तापरिणत पुद्गत वेत्ता प्रधारि क्वा छ ? (निस्सत्तापरिणत भेतमे  
रुक्षस्पर्श परिणतिं प्राप्तेना पुद्गले)

हे गौतम ! विस्रसापरिणताः खलु पुद्गलाः पञ्चविधाः=पञ्चप्रकारकाः प्रज्ञप्ताः, तं जहा' तद्यथा-‘वन्नपरिणया, गंधपरिणया, रसपरिणया, फासपरिणया, संठाणपरिणया’ वर्णपरिणताः, गन्धपरिणता, रसपरिणताः, स्पर्शपरिणताः, संस्थानपरिणताश्च भवन्ति, ‘जे वन्नपरिणया ते पंचविहा पणत्ता’, ये पुद्गलाः वर्णपरिणतास्ते पञ्चविधाः प्रज्ञप्ताः, ‘तंजहा’ तद्यथा-‘कालवन्नपरिणया जाव सुक्किल्लवन्नपरिणया’ कालवर्णपरिणताः, यावत्-नीलवर्णपरिणताः, हरिद्रावर्ण परिणताः, लोहितवर्ण परिणताः, शुक्लवर्णपरिणताः भवन्ति । ‘जे गंधपरिणया ते दुविहा पणत्ता’ ये पुद्गलाः गन्धपरिणताः, ते द्विविधा प्रज्ञप्ताः, ‘तं जहा’ तद्यथा-‘सुब्भिगंधपरिणया वि, दुब्भिगंधपरिणया वि’ सुरभिगन्धपरिणता अपि, दुरभिगन्ध-

कहे गये हैं वे कितने प्रकारके होते हैं ? विस्रसा परिणतका तात्पर्य स्वभावसे परिणतिको प्राप्त हुए पुद्गलोंसे । इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ ! पंचविहा पणत्ता’ विस्रसापरिणत पुद्गल पांच प्रकारके होते हैं ‘तंजहा’ जो इस प्रकारसे हैं ‘वन्नपरिणया, गंधपरिणया, रसपरिणया, फासपरिणया, संठाणपरिणया’ वर्णपरिणत, गंधपरिणत, रसपरिणत, स्पर्शपरिणत और संस्थानपरिणत ‘जे वन्नपरिणया ते पंचविहा पणत्ता’ जो वर्णपरिणत पुद्गल हैं वे पांच प्रकारके हैं ‘तंजहा’ जो इस प्रकारसे हैं ‘कालवण्ण परिणया जाव सुक्किल्लवन्नपरिणया’ कालवर्णपरिणत, नीलवर्णपरिणत, लोहितवर्णपरिणत, हरिद्रावर्णपरिणत, शुक्लवर्णपरिणत, जे गंधपरिणया ते दुविहापणत्ता’ जो जो पुद्गल गंधपरिणत हैं वे दो प्रकारके हैं ‘तंजहा’ जैसे ‘सुब्भिगंधपरिणया वि, दुब्भिगंधपरिणया वि’ सुरभिगंधपरिणत भी और

महावीर प्रभुने उत्तर- ‘गोयमा ! पंचविहा पणत्ता’ हे गौतम ! विस्रसा परिणत पाच प्रकारना होय छे ‘तंजहा’ ते पाच प्रकारे नीचे प्रमाणे छे- ‘वण्णपरिणया, गंधपरिणया, रसपरिणया, फासपरिणया, संठाणपरिणया’ वण्णपरिणत, गंधपरिणत, रसपरिणत, स्पर्शपरिणत अने संस्थानपरिणत ‘जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पणत्ता-तंजहा’ ते वण्णपरिणत पुद्गले कथा छे, तेमना नीचे प्रमाणे पाच प्रकार छे- ‘कालवण्णपरिणया जाव सुक्किल्लवण्णपरिणया’ कालवण्णपरिणत, नीलवण्णपरिणत, लोहितवण्णपरिणत, हरिद्रावण्णपरिणत, शुक्लवण्णपरिणत अने गंधपरिणत ‘जे गंधपरिणया ते दुविहा पणत्ता-तंजहा’ गंधपरिणत ते पुद्गले कथा छे, तेमना नीचे प्रमाणे दो प्रकार छे- ‘सुब्भिगंधपरिणया, दुब्भिगंधपरिणया वि’

पणिता अपि, 'पत्र जहा पञ्चणापण महेश निरयसस जाय' एव यथा  
 प्रदपनाया प्रयमे पट विद्वसापरिणतपुद्गलमडा प्रतिपादितास्तथेवाऽपि निर  
 योप वक्तव्यम्, यावत्-य पुद्गला रमपणिताः, त पठत्रिषाः प्रदताः-  
 तदथा-नित्तसपरिणता अपि, कदुरमपरिणता अपि, कपायसपरिणता अपि,  
 अम्परमपरिणता अपि, मधुरसपरिणता अपि भवन्ति । य पुद्गला स्पर्श-  
 परिणतास्त अष्टविधा प्रदता-मधया-कर्कशस्पर्शपरिणताः, मृदुस्पर्शपरिणता,  
 गुरुस्पर्शपरिणता, लघुस्पर्शपरिणता, शीतस्पर्शपरिणताः, उष्णस्पर्शपरिणता  
 म्निगमस्पर्शपरिणताः, म्भस्पर्शपरिणताश्च भवन्ति । 'जे सटाणओ आयय-  
 मटाणपरिणया ते बग्गओ काव्वसपरिणया वि, जाय लुक्कफासपरिणया वि'  
 य पुद्गलाः म्भानत आयतमम्भानपरिणताः प्रदताम्भ वर्णतः फल्लवर्णपरि

दुग्निगंधपरिणत श्री 'ग्य जहा पञ्चणापण महेश निरयसस जाय'  
 गिम प्रकारम प्रजापनाक प्रथमपदमें विद्वसापरिणतपुद्गलके मेदकह  
 गय ह उसी महस यहाँ परमी सपूर्ण कथन जानना चाहिये यावत्  
 जा पुद्गल रमपरिणत हैं य पांच प्रकारके हैं इनमें नित्तसपरिणत  
 श्री हैं, कदुरम परिणत श्री हैं, कपायसपरिणत श्री हैं, अम्परम  
 परिणत श्री हैं मधुरस परिणत श्री हैं । जो पुद्गल स्पर्शपरिणत  
 हैं य आठ प्रकारके हैं जैम कर्कशस्पर्शपरिणत, मृदुस्पर्शपरिणत,  
 गुरुस्पर्शपरिणत, लघुस्पर्शपरिणत, शीतस्पर्शपरिणत, उष्णस्पर्शपरिणत  
 म्निगमस्पर्शपरिणत, म्भस्पर्शपरिणत, 'जे सटाणओ आययमटाण  
 परिणया न घण्णओ काव्वसपरिणया वि जाय लुक्कफासपरिणया वि'

(१) शुभधर्मादिपुत्र अने (२) दुर्धर्मादिपुत्र 'एव जहा पञ्चणापण महेश  
 निरयसस जाय' ॥ अभाजे प्रजापताना प्रथम पाया विद्वसापरिणत पुद्गलमेव मेद  
 हरेनाभा आया उ, जेव अभाजे अदी पय अमरुत कथन अमरुतु जेमेके के  
 पुद्गलाने अक्षयि, पुद्गल हका उ तमना फल प्रकल नदि अभाजे उ- (१) निर  
 म्भपरिणत (२) कदुरमपरिणत, (३) कपाय (पुश) सपरिणत, (४) अम्भ (अम)  
 सपरिणत अने (५) मधुरमपरिणत रथपरिणत पुद्गलाना अल अभाजे नीमि  
 प्रथम उ-

(१) कर्कशस्पर्शपरिणत, (२) मृदुस्पर्श परिणत, (३) गुरुस्पर्श परिणत, (४)  
 लघुस्पर्श परिणत, (५) शीतस्पर्श परिणत, (६) उष्णस्पर्श परिणत, (७) म्निगमस्पर्श  
 परिणत अने ( ) म्भस्पर्श परिणत 'जे सटाणओ आययमटाणपरिणया ते  
 बग्गओ काव्वसपरिणया वि जाय लुक्कफासपरिणया वि' ॥ पुद्गल

प्रमेयचन्द्रिका टीका श. ८ उ. १ सू. १२ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १३७

णता अपि, यावत्-नीलवर्णपरिणता अपि, हरिद्रावर्णपरिणता अपि, लोहितवर्ण-  
परिणता अपि, शुक्लवर्णपरिणता अपि । गन्धतः सुरभिदुरभिगन्धपरिणता  
अपि । रसतः तिक्त-कटुक-कषाया-म्ल-मधुररसपरिणता अपि । स्पर्शतः कर्कश-  
मृदु-गुरु-लघु-शीतोष्ण-स्निग्ध-रूक्षस्पर्शपरिणता अपि भवन्ति । सर्वे विश्वसा-  
परिणतपुद्गलाः त्रिंशदुत्तरपञ्चशतसंख्यकाः (५३०) संजाताः । प्रयोग-  
मिश्रविश्वसापरिणताश्च अशीत्युत्तरसप्तशताधिक सप्तमसति सदसोत्तरैकलक्षसंख्यकाः  
(१७७७८०) भवन्ति ॥सू० १२॥

एकपुद्गलद्रव्यपरिणामवक्तव्यता ।

अथ नवभिर्दण्डकैरेकपुद्गलद्रव्यपरिणामवक्तव्यतामाह- 'एगे भंते !' इत्यादि ।

मूलम्-एगे भंते ! द्रव्ये किं पओगपरिणए, सीसापरिणए,  
वीससा परिणए ? गोयमा ! पओगपरिणए वा, सीसापरिणए वा,  
वीससापरिणए वा । जइ पओगपरिणए किं मणप्पओगपरिणए,

जो पुद्गल संस्थानकी अपेक्षा आयत संस्थानपरिणत होते हैं, वे  
वर्णकी अपेक्षासे कालवर्णपरिणत भी होते हैं यावत्-नीलवर्णपरि-  
णत भी होते हैं, हरिद्रावर्णपरिणतभी होते हैं । शुक्लवर्णपरिणत  
भी होते हैं । गन्धकी अपेक्षासे वे सुरभिगंध और दुरभिगंधरूपमें  
भी परिणत होते हैं । रसकी अपेक्षासे वे तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल  
मधुररस परिणत भी होते हैं । स्पर्शकी अपेक्षासे वे कर्कश, मृदु,  
गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध रूक्षस्पर्शपरिणत भी होते हैं । ये  
समस्त विश्वसापरिणतपुद्गल ५३० हैं । प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत  
और विश्वसा परिणत पुद्गल सब मिलकर १७७७८० हैं ॥सू.१२॥

संस्थानकी अपेक्षासे आयत (लांबा)संस्थान परिणत होय छे, ते पुद्गलो वरु नी अपेक्षासे  
श्यामवर्ण परिणत पयु होय छे, नीलवर्ण परिणत पयु होय छे, लालवर्ण परिणत पयु  
होय छे, पीलावर्ण परिणत पयु होय छे अने शुक्लवर्ण परिणत पयु होय छे गंधनी  
अपेक्षासे ते पुद्गलो सुगंधपरिणत पयु होय छे अने दुर्गंधपरिणत पयु होय छे.  
रसनी अपेक्षासे ते पुद्गलो तीखा, कडावा, तुरा, भाटा अने मधुररस परिणत पयु  
होय छे स्पर्शनी अपेक्षासे ते पुद्गलो कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध  
अने रूक्षस्पर्श परिणत पयु होय छे ते समस्त विश्वसापरिणत पुद्गलोना ५३० नेह छे  
प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत अने विश्वसा परिणत पुद्गलोना एकदरे १७७७८०  
नेह छे. ॥ सू. १२ ॥

ध्यप्यओगपरिणए, कायप्यओगपरिणए ? गोयमा ! मणप्यओग  
 परिणए वा, वयप्यओगपरिणए वा, कायप्यओगपरिणए वा ।  
 जइ मणप्यओगपरिणए किं सच्चमणप्यओगपरिणए, मोसमणप्य  
 ओगपरिणए, सच्चामोसमणप्यओगपरिणए, असच्चामोसमणप्य  
 ओगपरिणए ? गोयमा ! सच्चमणप्यओगपरिणए वा, मोसमणप्य  
 ओगपरिणए वा, सच्चामोसमणप्यओगपरिणए वा, असच्चामोस  
 मणप्यओगपरिणए वा । जइ सच्चमणप्यओगपरिणए किं आरभ  
 सच्चमणप्यओगपरिणए, अणारभसच्चामणप्यओगपरिणए, सारभ  
 सच्चमणप्यओगपरिणए, असारभसच्चमणप्यओगपरिणए, समा  
 रभसच्चमणप्यओगपरिणए, असमारभसच्चमणप्यओगपरिणए ?  
 गोयमा ! आरभसच्चमणप्यओगपरिणए वा, जाव असमारभ  
 सच्चमणप्यओगपरिणए वा । जइ मोसमणप्यओगपरिणए किं  
 आरभमोसमणप्यओगपरिणए वा ? एव जहा सच्चेणं तहा  
 मोसेणावि । एव सच्चामोसमणप्यओगपरिणए वि । जइ ध्य  
 प्यओगपरिणए किं सच्चव्यप्यओगपरिणए, मोसव्यप्यओगपरि  
 णए० ? एव जहा मणप्यओगपरिणए तहा वयप्यओगपरिणए  
 वि जाव असमारभवयप्यओगपरिणए वा । जइ कायप्यओगपरि  
 णए किं ओरालिय सरीरकायप्यओगपरिणए ओरालियमीसा  
 सरीरकायप्यओग० वेडवियसरीरकायप्यओग० वेडवियमीसासरीर  
 कायप्यओगपरिणए, आहारगसरीरकायप्यओगपरिणए, आहार

गमीसासरीरकायप्पओगपरिणए, कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए ?  
गोयमा ! ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए वा, जाव कम्मासरीर-  
कायप्पओगपरिणए वा । जइ ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए  
किं एगिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए, एवं जाव पंचिं-  
दियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए वा, वेइंदिय—जाव—परि-  
णए वा, जाव पंचिंदिय जाव परिणए वा । जइ एगिंदियओ-  
रालियसरीरकायप्पओगपरिणए किं पुढविक्काइयएगिंदियजाव  
परिणए जाव वणस्सइकाइयएगिंदियओरालियसरीरकायप्प-  
ओगपरिणए ? गोयमा ! पुढविक्काइयएगिंदियपओगजाव  
परिणए वा जाव वणस्सइकाइयएगिंदिय जाव परिणए वा ।  
जइ पुढविक्काइयएगिंदियओरालियसरीर जाव परिणए किं सुहुम-  
पुढविक्काइय जाव परिणए, बादरपुढविक्काइयएगिंदिय—जाव  
परिणए ? गोयमा ! सुहुमपुढविक्काइयएगिंदिय—जाव—परिणए  
वा, बायरपुढविक्काइयजावपरिणए वा । जइ सुहुमपुढविक्काइय  
जाव परिणए किं पज्जत्तसुहुमपुढवि—जाव परिणए, अपज्जत्तसुहुम-  
पुढवि—जाव—परिणए ? गोयमा ! पज्जत्तसुहुमपुढविक्काइय—जाव  
परिणए वा, अपज्जत्तसुहुमपुढविक्काइय—जाव परिणए वा, एवं  
वायरे वि, एवं जाव वणस्सइकाइयाणं चउक्कओ भेदो ।  
वेइंदिय—तेइंदिय—उरिंदियाणं दुयओ भेओ पज्जत्तगा य,  
अपज्जत्तगा य, जइ पंचिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरि-



ण किं तिरिक्खज्जोणियपच्चिडियओगलियसरीरकायप्पओग  
परिणण मणुस्सपच्चिडिय-जाव-परिणण ? गोयमा ! तिरिक्ख  
जोणिय-जाव-परिणण वा, मणुस्सपच्चिडिय-जाव-परिणण वा ।  
जइतिरिक्ख ज्जोणिय जाव परिणण किं जलयरतिरिक्खज्जोणिय  
जाव परिणण वा, थलयर०, ग्हयर०, एणं चउक्कओ भेओ जाव  
त्वह्यराण । जइ मणुस्सपच्चिडिय-जाव-परिणण किं समुच्छिम  
मणुस्सपच्चिडिय-जाव-परिणण, गव्भवक्कतियमणुस्स-जाव-परि  
णण ? गोयमा ! दोसुवि । जइ गव्भवक्कतियमणुस्स जाव  
परिणण किं पञ्जत्तगव्भवक्कतिय-जाव-परिणण, अपञ्जत्तगव्भव  
क्कतियमणुस्सपच्चिडियओगलियसरीरकायप्पओगपरिणण ? गो  
यमा ! पञ्जत्तगव्भवक्कतिय-जाव-परिणण वा ? ॥सु० १३॥

छाया-एष मदन्त ! इव्य किं प्रयोगपरिणतम्, मिश्रपरिणतम्, पित्तसा  
परिणतम् ? गौतम ! प्रयोगपरिणतं वा, पित्तसापरिणतं वा । यदि प्रयोग

एष पुद्गलस्यैकीपरिणामवक्ष्यता-

‘एगो संते ! इव्ये किंप्रयोगपरिणण’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- ( एगो संते ! इव्ये किंप्रयोगपरिणण, मीमापरिणण, बीम  
सापरिणण ) हे मदन्त ! एषस्य क्या प्रयोगपरिणतं होता है, या  
मिश्रपरिणतं होता है, या पित्तसापरिणतं होता है ? ( गायमा ) हे  
गौतम ! ( प्रयोगपरिणण वा, मीमापरिणण वा, बीमसा परिणण वा )  
एषस्यप्रयोगपरिणण भी होता है मिश्रपरिणतं भी होता है या

एष पुद्गलस्यैकीपरिणामवक्ष्यता-

एगो मम ! इव्य किं प्रयोगपरिणण’ इत्यादि-

सूत्रार्थ- ( एगो मम ! इव्य किं प्रयोगपरिणण, मीमापरिणण, बीमसा  
परिणण ) हे मदन्त ! एष १०५ सु प्रयोगपरिणण दोष उ ! हे मिश्रपरिणण दोष  
? हे पित्तसापरिणण दोष उ ! ( गायमा ! ) हे गौतम ! ( प्रयोगपरिणण, मीमा  
परिणण वा, बीमसापरिणण वा ) एष १५ प्रयोगपरिणण पक्ष दोष उ मिश्र

परिणतं किं मनःप्रयोगपरिणतम्, वचःप्रयोगपरिणतम्, कायप्रयोगपरिणतम् ?  
 गौतम ! मनःप्रयोगपरिणतं वा, वचःप्रयोगपरिणतं वा, कायप्रयोगपरिणतं वा ।  
 यदि मनःप्रयोगपरिणतं किं सत्यमनःप्रयोगपरिणतम्, मृषामनःप्रयोगपरिणतम्,  
 सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतम्, असत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतम् ? गौतम ! सत्य-  
 मनःप्रयोगपरिणतं वा, मृषामनःप्रयोगपरिणतं वा, सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतं

विश्वसापरिणत भी होता है । (जड़पओगपरिणए किं मणप्पओगपरि  
 णए, वयप्पओगपरिणए, कायप्पओगपरिणए) हे भदन्त ! यदि एक-  
 द्रव्यप्रयोगपरिणत होता है तो क्या वहमनः प्रयोगपरिणत होता है ?  
 या वचनप्रयोगपरिणत होता है, या कायप्रयोगपरिणत होता है ?  
 (गोयमा) हे गौतम ! (मणप्पओगपरिणए वा, वह एक द्रव्य मनः  
 प्रयोगपरिणत होता है या वचनप्रयोगपरिणत होता है या कायप्रयोग-  
 परिणत होता है । (जड़मणप्पओगपरिणए किं सच्चमणप्पओगपरिणए  
 वा, मोसमणप्पओगपरिणए वा, सच्चामोसमणप्पओगपरिणए वा,  
 असच्चामोसमणप्पओगपरिणए वा) हे भदन्त ! यदि वह एक द्रव्य  
 मनःप्रयोगपरिणत होता है, तो क्या सत्यमनः प्रयोगपरिणत होता है ?  
 या असत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है ? या उभयमनःप्रयोगपरिणत  
 होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सच्चमणप्पओगपरिणए वा, मोसमण-  
 प्पओगपरिणए वा, सच्चामोसमणप्पओगपरिणए वा, असच्चामोसमण-

परिणत पणु होय छे अने विश्वसापरिणत पणु होय छे (जड़ पओगपरिणए किं  
 मणप्पओगपरिणए, वयप्पओगपरिणए, कायप्पओगपरिणए ?) हे भदन्त ! जे  
 ओक द्रव्य प्रयोगपरिणत होय छे, तो शु ते मनःप्रयोगपरिणत होय छे ? के वचन-  
 प्रयोगपरिणत पणु होय छे ? के कायप्रयोगपरिणत होय छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम !  
 (मणप्पओगपरिणए वा, वयप्पओगपरिणए वा, कायप्पओगपरिणए वा )  
 ते ओक द्रव्य मनः प्रयोगपरिणत पणु होय छे, वचन प्रयोगपरिणत पणु होय छे अने  
 काय प्रयोगपरिणत पणु होय छे ( जड़ मणप्पओगपरिणए किं सच्चमणप्पओग-  
 परिणए, मोसमणप्पओगपरिणए वा, सच्चामोसमणप्पओगपरिणए वा ? )  
 हे भदन्त ! जे ते ओक द्रव्य मनः प्रयोगपरिणत होय छे, तो शु सत्यमनः प्रयोग-  
 परिणत होय छे ? के असत्यमनः प्रयोगपरिणत होय छे ? के उभयमनः प्रयोगपरिणत  
 होय छे ? के अनुभयमनः प्रयोगपरिणत होय छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम !  
 (सच्चमणप्पओगपरिणए वा, मोसमणप्पओगपरिणए वा, सच्चामोसमणप्पओग-



यदि-मृषामनःप्रयोगपरिणतं किम् आरंभमृषामनःप्रयोगपरिणतं वा, एवं यथा-सत्येन, तथा मृषाऽपि । एवं सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतेनापि, एवम् असत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतेनापि । यदि वचःप्रयोगपरिणतं किं सत्यवचःप्रयोगपरिणतम्, मृषावचःप्रयोगपरिणतम् ? एवं यथा-मनःप्रयोगपरिणतं तथा वचःप्रयोगपरिणत-मपि, यावत्-असमारंभवचःप्रयोगपरिणतं वा ।

असमारंभमनः प्रयोगपरिणत भी होता है । (जइ मोसमणप्पओग-परिणए किं आरंभ मोसमणप्पओपपरिणए वा) हे भदन्त ! यदिवह एकद्रव्य मृषामनःप्रयोगपरिणत होता है तो क्या वह आरंभ मृषा-मनःप्रयोगपरिणत होता है ? (एवं जहा सच्चेणं तहा मोस्सेणावि) हे गौतम ! जैसा सत्यमनःप्रयोगपरिणतके विषयमें कहा गया है, उसी तरहसे मृषामनःप्रयोगपरिणतके विषयमें भी जानना चाहिये । (एव सच्चामोसमणप्पओगेण वि, एवं असच्चामोसमणप्पओगेण वि) इसी तरहसे सत्यमृषामनःप्रयोगके विषयमें और असत्यामृषामनःप्रयोगके विषयमें भी जानना चाहिये (जइवचयप्पओगपरिणए किं सच्चवचयप्प-ओगपरिणए मोसवचयप्पओगपरिणए, ) हे भदन्त यदि वह एकद्रव्य वचनप्रयोग परिणत होता है तो क्या वह सत्यवचनप्रयोगपरिणत होता है या मृषावचनप्रयोग होता है. । (एवं जहा मणप्पओगपरिणए तहा वचयप्पओगपरिणए वि जाव असमारंभवचयप्पओगपरिणएवा) हे गौतम ! जैसा मनः प्रयोगपरिणतके विषयमें कहा गया है वैसाही वचनप्रयो-

डोय छे (जइ मोसमणप्पओगपरिणए किं आरंभ मोसमणप्पओगपरिणए वा ?) हे भदन्त ! ने ते अेक द्रव्य मृषामनः प्रयोगपरिणत डोय छे, तो शुं ते आरंभ मृषामनः प्रयोगपरिणत डोय छे ? ( एवं जहा सच्चेणं तहा मोस्सेणा वि ) हे गौतम ! नेवु सत्यमन प्रयोगपरिणतना विषयमां क्खुं छे, अेवुं न कथन मृषामन प्रयोगपरिणतना विषयमां पणुं समञ्जु ( एवं सच्चामोसमणप्पओगेण वि, एवं असच्चामोसमणप्पओगेण वि) अे न प्रभाणु सत्यमृषामनः प्रयोगना विषयमां अेने असत्यामृषामनः प्रयोगना विषयमां पणुं समञ्जु ( जइ वचयप्पओगपरिणए किं सच्चवचयप्पओग परिणए, मोसवचयप्पओगपरिणए ? ) हे भदन्त ! ने ते अेक द्रव्य वचन प्रयोगपरिणत डोय छे, तो शुं सत्यवचन प्रयोग परिणत डोय छे, क मृषावचन प्रयोगपरिणत डोय छे ? ( एवं जहा मणप्पओगपरिणए-तहा वचयप्प ओगपरिणए वि जाव असमारंभवचयप्पओगपरिणए वा ) हे गौतम ! नेवुं म-प्रयोगपरिणतना विषयमां क्खुं छे, अेवुं न वचन प्रयोगपरिणतना विषयमां पणुं

યદિ કાયમયાગપરિણત કિમ્ ઔદારિકશરીરકાયમયોગપરિણતમ્, ઔદારિકમિશ્રશરીરકાયમયોગપરિણતમ્, પૈક્રિયશરીરકાયમયોગપરિણતમ્, પૈક્રિયમિશ્રશરીરકાયમયોગપરિણતમ્, આહારકશરીરકાયમયોગપરિણતમ્, આહારકમિશ્રશરીરકાયમયોગપરિણતમ્, કાર્મણશરીરકાયમયોગપરિણતમ્ ? ગૌતમ ! ઔદારિકશરીરકાયમયોગપરિણત વા, યાવત્-કાર્મણશરીરકાયમયાગપરિણત વા । યદિ

ગપરિણતકે વિપયમેં શ્રી જ્ઞાનના વ્યાહિયે । યાયત યદ્ ઇક દ્રવ્ય અમમારંભયજનમયોગપરિણત હોતા છે । (જહ્કાવપ્પઓગપરિણત્ કિં ઓરાલિયમીસાસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, ઓરાલિયમીસાસરીરકાયવ્પઓગપેઝવિયમસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, ઓરાલિયમીસાસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, આહારકસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, આહારગમીસાસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, કમ્માસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્,) તે અદન્ત । યદિ યા ઇક દ્રવ્યકાયમયોગપરિણત હોતા છે તો યયા શ્ચ ઔદારિક શરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? યા ઔદારિકમિશ્રશરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? યા પૈક્રિય શરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? યા પૈક્રિય મિશ્રશરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? યા આહારક શરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? યા આહારક મિશ્રશરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? યા કાર્મણશરીરકાયમયોગપરિણત હોતા છે ? (ગોયમા) છે ગૌતમ ! (ઓરાલિય સરીરકાયવ્પઓગપરિણત વા, જ્ઞાય કમ્મા સરીરકાયવ્પઓગપરિણત વા)

અમજ્જુ તે ભેદ દ્રવ્ય અમમારંભ-વજન પ્રયોગપરિણત પલ્લ દેવ છે, ત્વાં શુષીતું કથન અદ્ધુ ૪૨૩

(જહ્ કાયવ્પઓગપરિણત્ કિં ઓરાલિયસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, આરાલિયમીસાસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, પેઝવિયસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, ઓરાલિયમીસાસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, આહારગમીસાસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, આહારકસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્, કમ્માસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્ ) એ અન્ત ! એ તે ભેદ દ્રવ્ય કાયમયોગપરિણત દેવ છે તે શુ તે ઔદારિક શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? કે ઔદારિક મિશ્ર શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? કે પૈક્રિય શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? કે પૈક્રિય મિશ્ર શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? કે આહારક શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? કે આહારક મિશ્ર શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? કે કાર્મણ શરીરકાય પ્રયોગપરિણત દેવ છે ? (ગોયમા) છે ગૌતમ ! (ઓરાલિયસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્ વા, જ્ઞાય કમ્માસરીરકાયવ્પઓગપરિણત્ વા) તે ભેદ દ્રવ્ય ઔદારિક શરીરકાય પ્રયોગપરિણત પલ્લ દેવ છે, યાવત્ કામજ્જુ શરીર પ્રયોગપરિણત પલ્લ દેવ છે

औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं किम् एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतम् , एवं यावत्-पञ्चेन्द्रियौदारिक-यावत्-परिणतम् ? गौतम ! एकेन्द्रियौदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणतं वा, द्वीन्द्रिय-यावत्-परिणतं वा, यावत् पञ्चेन्द्रिय-यावत्-परिणतं वा ।

यदि एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं किं पृथिवीकायिकैकेन्द्रिय-यावत्-परिणतं, यावत्-वनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं वह एक द्रव्य औदारिक शरीर कायप्रयोगपरिणत भी होता है अथवा यावत् कर्मणशरीरप्रयोगपरिणत भी होता है । (जइ ओरालियसरीर-कायप्रयोगपरिणत किं एगिंदिय ओरालियसरीरकायप्रयोगपरिणत एवं जाव पंचिंदिय ओरालिय जाव परिणत) हे भदन्त वह एक द्रव्य औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है तो क्या वह एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है । अथवा यावत् पंचेन्द्रियके औदारिकशरीर कायप्रयोग परिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (एगिंदियओरालियसरीरकायप्रयोगपरिणत वा, वेइंदियजाव परिणत वा जाव पंचिंदिय जाव परिणत वा) वह एक द्रव्य एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत भी होता है । अथवा दोइन्द्रियके औदारिक शरीर कायप्रयोगपरिणत भी होता है । अथवा यावत् पंचेन्द्रियके औदारिक-शरीरकायप्रयोगपरिणत भी होता है । ( जइ एगिंदियओरालियसरीर-कायप्रयोगपरिणत किं पुढविकाइय एगिंदिय जाव परिणत जाव

( जइ ओरालियसरीरकायप्रयोगपरिणत किं एगिंदियओरालियसरीर-कायप्रयोगपरिणत, एवं जाव पंचिंदिय ओरालिय जाव परिणत ) हे भदन्त ! ते एक द्रव्य ते औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत होय छे, ते शु ते अइन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत होय छे, ते द्वीन्द्रियना, त्रीन्द्रियना, चतुरिन्द्रियना, ते पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत होय छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! ( एगिंदिय ओरालिय सरीरकायप्रयोगपरिणत वा, वेइंदिय जाव परिणत वा, जाव पंचिंदिय जाव परिणत वा ) ते एक द्रव्य अइन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत पद्य होय छे, द्वीन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत पद्य होय छे, अते पञ्चेन्द्रिय पर्यन्तना अथवा औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत पद्य होय छे ( जइ एगिंदिय ओरालियसरीर कायप्रयोगपरिणत किं पुढविकाइय एगिंदिय जाव परिणत जाव वनस्पतिकाइय एगिंदिय ओरालिय-

वा ? गौतम ! पृथिवीकायिकैकन्द्रियप्रयोग-यावत् परिणतं वा, यावत्-वनस्पति-  
कायिकैकन्द्रिययावत्-परिणतं वा,

यदि पृथिवीकायिकैकन्द्रियोद्धारिकशरीरयावत्-परिणतं किं सूक्ष्मपृथिवीकायि-  
कयावत् परिणतं, यादृशपृथिवीकायिकैकन्द्रिययावत् परिणतम् ? गौतम ! सूक्ष्म-  
पृथिवीकायिकैकन्द्रिययावत्-परिणतं वा, यादृशपृथिवीकायिकयावत्-परिणतं वा ।

यणम्महाकाश्यपमिन्द्रियभागमिन्द्रियशरीरकायप्रयोगपरिणतम् ) हे मन्त !  
यह एकद्रव्य यदि एकन्द्रियक औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत होता  
है तो क्या यह पृथिवीकायिक एकन्द्रियक औदारिक शरीरकायप्रयोग  
परिणत होता है ? या यावत् वनस्पतिकायिक एकन्द्रियके औदारिक  
शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है ? (गौतम) हे गौतम ! (पृथिवीकाश्य-  
पमिन्द्रियभाग जाय परिणतं वा, जाय यणम्महा काश्य-  
पमिन्द्रिय जाय परिणतं वा ) यह एक द्रव्य पृथिवीकायिक एकन्द्रि-  
यके औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत भी होता है या यावत् वन-  
स्पतिकायिक एकन्द्रियक औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत भी होता है  
(यह पृथिवीकाश्यपमिन्द्रियभागमिन्द्रिय शरीरकाय परिणतं किं सूक्ष्मपृथ-  
िवीकाश्य जाय परिणतं यादृशपृथिवीकाश्यपमिन्द्रिय जाय परिणतं ) हे  
मन्त ! यदि यह एक द्रव्य पृथिवीकायिक एकन्द्रियके औदारिक  
शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है तो क्या यह सूक्ष्मपृथिवीकायिक  
शरीरकायप्रयोगपरिणत ? ) हे मन्त ! ते अथ सूक्ष्म जे अन्दिन्द्रियना औदारिक  
शरीरकाय प्रयोगपरिणत है न छे ता सु ते अन्दिन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगशी  
परिणत दाव छे ? हे अन्दिन्द्रियना-शी द्रव्यना-अनु वि द्रव्यना अथवा पन्दिन्द्रियना शरीरकाय  
प्रो भी परिणत दाव छे ?

(गौतम ! ) हे गौतम ! ( पृथिवीकाश्यपमिन्द्रियप्रयोग जाय  
परिणतं वा, तत्र यणम्महाकाश्यपमिन्द्रिय जाय परिणतं वा )  
न मेव । पृथिवीकाश्यपमिन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगशी पञ्च परिणत दाव छे  
अन वनस्पतिकायिक पयन्तना औ द्रव्यना औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणत पञ्च दाव छे-  
( यह पृथिवीकाश्यपमिन्द्रियभागमिन्द्रियशरीर जाय परिणतं, किं सूक्ष्म  
पृथिवीकाश्य जाय परिणतं यादृश पृथिवीकाश्यपमिन्द्रिय जाय परिणतं )

यदि सूक्ष्मपृथिवीकायिकायावत् परिणतं किम् पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीयावत्-परिणतम्, अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीयावत्-परिणतम् ? गौतम ! पर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकायावत्परिणतं वा, अपर्याप्तकसूक्ष्मपृथिवीकायिकायावत्-परिणत वा, एवं

एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायके प्रयोगसे परिणत होता है ? या बादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायके प्रयोगसे परिणत होता है ? ( गोयमा ) हे गौतम ! (सुहुमपुढवीकाइय एगिंदिय जाव परिणए, बादरपुढविकाइय जाव परिणए) वह एक द्रव्य सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरके प्रयोगसे परिणत भी होता है या बादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरके काय प्रयोगसे भी परिणत होता है । (जइ सुहुमपुढवीकाइय जाव परिणए किं पज्जत्त सुहुमपुढवि जाव परिणए, अपज्जत्त सुहुमपुढविजाव परिणए) हे भदन्त ! यदि वह एकद्रव्य सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीररूप कायप्रयोगसे परिणत होता है तो क्या वह पर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होता है या अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होता है ? (गोयमा ! पज्जत्तसुहुमपुढविकाइय जाव परिणए वा, अपज्जत्त सुहुमपुढविकाइय परिणए) हे गौतम ! वह एकद्रव्य पर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिकशरीररूपकायप्रयोगसे भी परिणत होता है, और अपर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक

(गोयमा ! ) हे गौतम ! (सुहुम पुढविकाइय एगिंदिय जाव परिणए, बादर पुढविकाइय जाव परिणए) ते अेक द्रव्य सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगथा पथु परिणत होय अे अने भादर पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीरना कायप्रयोगथा पथु परिणत होय अे (जइ सुहुम पुढविकाइय जाव परिणए किं पज्जत्त सुहुमपुढवि जाव परिणए, अपज्जत्त सुहुम पुढवि जाव परिणए ?) हे भदन्त ! जे ते अेक द्रव्य सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथा परिणत यतु होय, ते श्रं ते पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथा परिणत थाय अे, अे अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथा परिणत थाय अे ? (गोयमा ! पज्जत्त सुहुम पुढविकाइय जाव परिणए वा, अपज्जत्त सुहुम पुढविकाइय परिणए.) हे गौतम ! ते अेक द्रव्य पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथा पथु परिणत थाय अे, अने अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अेकेन्द्रियना औदारिक शरीररूप



घादरऽपि । गघ यावत् वनस्पतिक्रापिकानां घनुष्को मद्ः, छीन्द्रिय-श्रीन्द्रिय-  
चत्तरिन्द्रियाणां द्विको मद् -पर्याप्तकम् अपर्याप्तकम् ।

यदि पृथ्वेन्द्रियोत्तरिकशरीरफायप्रयोगपरिणत किं तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियो  
त्तरिकशरीरफायप्रयोगपरिणत, मनुष्यपञ्चेन्द्रिययावत्-परिणतम् ? गौतम !  
तिर्यग्योनिकयावत्परिणत वा, मनुष्यपञ्चेन्द्रिययावत् परिणत वा ।

गघेन्द्रियके औदारिक शरीररूपकायप्रयोगसे भी परिणत होता है ।  
(गघ घान्ने पि) इसी तरहसे वह एक द्रव्य पयाप्त अपर्याप्त पृथिवीकापिक  
घान्ने गघेन्द्रियके औदारिक शरीररूपकायप्रयोगसेभी परिणत होता है  
गेमा जानना चाहिये । (गघ जाय यणस्मइकाग्याण चउक्कओ मेदा)  
इसी तरहसे वह एक द्रव्य यावत् सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्मअपर्याप्त पादुर  
पर्याप्त घादर अपयाप्त, यावत् वनस्पतिक्रापिकके इन चारभेदोंके  
औदारिक शरीररूप फायप्रयोगसे परिणत होता है यह कथन भी  
जानना चाहिये । (यइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चत्तरिन्द्रियाणं दुयओ मेदो पज्जस  
गाय अपज्जतगाय) इसी तरहसे वह एक द्रव्य येइन्द्रिय, तेइन्द्रिय  
और चाइन्द्रिय जीवोंके पर्याप्त अपयाप्त फ औदारिक शरीररूप-  
कायप्रयोगसे परिणत होता है गेमा भी जानना चाहिये । (जइ पच्चि  
दिय ओरात्थिय मरीरकायप्पओगपरिणत् किं तिरिकम्बजोणिय पच्चिदिय  
ओरात्थिय मरीरकायप्पओगपरिणत् किं मणुस्सपच्चिदिय जाय परिणत्) है  
नइत्त ! यदि वह एक द्रव्य पंचेन्द्रिय जीवके औदारिक शरीररूपकायके

हाथप्रयोगभी पञ्च परिणत थाय है (एय घादने वि) जे ए प्रमात्ते ते जे इ इत्य  
पर्याप्त अने अपर्याप्त वादर इरीशक्ति जेकेन्द्रियता औदारिक शरीररूप हाथप्रयोगभी  
पञ्च परिणत थाय है जे म प्रमात्तु (गघ जाय यणस्मइकाग्याणं चउक्कओ मने)  
जे म प्रमात्ते ते जे इ इत्य अ म पर्याप्त सूक्ष्म अपर्याप्त वादर पर्याप्त अने  
वादर अपर्याप्तइय, वादर कोरणात्ता अपर्याप्तियः वायुप्रथिय, तेवत्तइयिक्क अने वनस्पतिक्रापिक  
जेकेन्द्रियता औदारिक शरीररूप हाथप्रयोगभी पञ्च परिणत थाय है जे म प्रमात्तु

(यन्त्रिय, तइन्द्रिय, चत्तरिन्द्रियाणं दुयओ मेदो पज्जतगा य अपज्जतगा य)  
जे / प्रमात्ते ते जे इ इत्य शीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अने चत्तरिन्द्रिय श्रवणा पर्याप्तक अने  
अपयाप्तता औदारिक शरीररूप हाथप्रयोगभी पञ्च परिणत थाय है जे म प्रमात्तु

(जइ पच्चिदिय ओरात्थिय मरीरकायप्पओग परिणत्, किं तिरिकम्बजोणिय  
पच्चिदियओरात्थिय मरीरकायप्पओगपरिणत्, मणुस्सपच्चिदिय जाय परिणत् ?)  
ह जानता ! तो ते अइ इत्य पंचेन्द्रिय श्रवणा औदारिक शरीररूप हाथता प्रयोगभी

यदि तिर्यग्योनिकयावत्-परिणत किम् जलचरतिर्यग्योनिकयावत्-परिणत वा, स्थलचर० खेचर०, एव चतुष्को भेदो यावत् खेचराणाम् । यदि मनुष्य-

प्रयोगसे परिणत होता है तो क्या वह तिर्यच योनिक पंचेन्द्रिय औदारिक शरीररूप कायप्रयोगसे परिणत होता है ? कि मनुष्य पंचेन्द्रियके औदारिक शरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्स पंचिदिय जाव परिणए वा) वह एक द्रव्य तिर्यच योनिक औदारिक शरीररूपकायके प्रयोग से भी परिणत होता है, तथा मनुष्यपंचेन्द्रियके औदारिक शरीररूप कायके प्रयोगसे भी परिणत होता है । (जइतिरिक्खजोणिय जाव परिणए, किं जलयरतिरिक्ख जोणिय जाव परिणए वा, थलयर० खहयर०) हे अदन्त ! यदि वह एकद्रव्य तिर्यचयोनिक शरीररूपकायके प्रयोगसे परिणत होता है तो क्या वह जलचर तिर्यचयोनिकके औदारिक शरीररूप कायके प्रयोगसे परिणत होता है ? स्थलचर तिर्यच योनिकके औदारिक शरीररूप कायके प्रयोगसे होता है ? या खेचर तिर्यचयोनिकके औदारिक शरीररूप कायके प्रयोगसे परिणत होता है ? (एवं चउक्कओ भेदो जाव खहयराणं) हे गौतम ! पूर्वमें जैसा कहा गया है उसी तरहसे खेचरोंके चारभेदोंके समृच्छिस, गर्भज,

परिणत थाय छे, तो शु ते तिर्यचयोनिक पंचेन्द्रिय लोवोना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथी परिणत थाय छे, के मनुष्य पंचेन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? (गोयमा!) हे गौतम ! (तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपंचिदिय जाव परिणए वा ) ते एक द्रव्य तिर्यचयोनिक लोवोना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथी पणु परिणत थाय छे, अने मनुष्य पंचेन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगथी पणु परिणत थाय छे (जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए, किं जलयर तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, थलयर०, खहयर० ) हे अदन्त ! ने ते एक द्रव्य तिर्यचयोनिकना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी परिणत थाय छे, तो शु ते जलयर तिर्यचयोनिकना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी परिणत थाय छे, के स्थलयर तिर्यचयोनिकना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी परिणत थाय छे, के जेयर तिर्यचयोनिकना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी परिणत थाय छे ? ( एवं चउक्कओ भेदो जाव खहयराणं ) हे गौतम ! ते एक द्रव्य जलयर, स्थलयर अने जेयर, ये त्रणे प्रकारना नियंथोना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी परिणत थाय छे ये न प्रमाणे जेयर प्यन्तना चार भेदाना

पच्येन्द्रिययावत्-परिणत किम् समुच्छिन्नमनुष्यपच्येन्द्रिययावत्-परिणत सम  
 व्युत्क्रान्तिकमनुष्ययावत्-परिणतम् ? गौतम । द्वयोरपि ।

यदि गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्ययावत्-परिणत किं पर्याप्तकर्मव्युत्क्रान्तिक-  
 यावत् - परिणतम्, अपर्याप्तकर्मव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपच्येन्द्रियौदारिकशरीरकाय

पयाप्त, अपर्याप्तक विषयस्य भी जानना शालिय । (जह मणुस्स पचिं  
 दिव जाय परिणत किं संमुच्छिन्न मणुस्स पचिंदिय जाय परिणत  
 गन्मयत्तितियमणुस्स जाय परिणत ? हे भवन्त ! यदि यह एक द्रव्य  
 मनुष्य पच्येन्द्रियक औदारिक शरीररूप कायप्रयोगसे परिणत होता  
 है ता क्या यह समुच्छिन्न मनुष्य पच्येन्द्रियक औदारिक शरीररूप  
 कायक प्रयोगसे परिणत होता है ? या गर्भज मनुष्यके औदारिक  
 शरीररूपकायक प्रयोगसे परिणत होता है ? (गायमा) ह गौतम ।  
 (शासुचि) यह एक द्रव्य समुच्छिन्न मनुष्यपच्येन्द्रियक पच्य गर्भज मनुष्य  
 पच्येन्द्रियक औदारिक शरीररूप कायक प्रयोगसे परिणत होता है ।  
 (जह गन्मयत्तिय मणुस्स जाय परिणत किं पञ्जसगन्मयत्तिय जाय  
 परिणत' अवज्जसगन्मयत्तिय मणुस्स पचिंदिय आगलिय शरीरकाय  
 पञ्जसगपरिणत) ह भवन्त ! यदि यह एक द्रव्य गर्भज मनुष्यके  
 औदारिकशरीररूप कायक प्रयोगसे परिणत जाता है ता क्या यह  
 पर्याप्त गर्भज मनुष्य के औदारिक शरीररूप कायक प्रयोगसे परिणत

(अगुच्छिन्न, जलं च पच्येन्द्रियं च अने अपच्येन्द्रियं) विषयस्य यत् अमच्छि  
 (जह मणुस्स पचिंदिय जाय परिणत किं संमुच्छिन्न मणुस्स पचिंदिय जाय  
 परिणत, गन्मयत्तितिय मणुस्स जाय परिणत ?) दे भवन्त ! ने ते अहं द्रव्य  
 मनुष्य पच्येन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायप्रयोगसे परिणत जाय छ, तो तु ते  
 अगुच्छिन्न मनुष्य पच्येन्द्रियना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगसे परिणत जाय छ,  
 हे जलं च मनुष्यना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगसे परिणत जाय छ ? (गायमा)  
 ह गौतम । (शासुचि) ते अहं द्रव्य अगुच्छिन्न मनुष्य पच्येन्द्रियना औदारिक  
 शरीररूप कायप्रयोगसे यत् परिणत जाय छ अने जलं च मनुष्य पच्येन्द्रियना औदारिक  
 शरीररूप कायप्रयोगसे यत् परिणत जाय छ (जह गन्मयत्तिय मणुस्स जाय  
 परिणत किं पञ्जसगन्मयत्तिय मणुस्स जाय परिणत' अवज्जसगन्मयत्तिय  
 मणुस्सपचिंदिय आगलियशरीरकायपञ्जसगपरिणत ? ) दे भवन्त ! ने ते  
 अहं द्रव्य पर्याप्त जलं च मनुष्यना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगसे परिणत जाय छ,  
 तो तु ते अपर्याप्त जलं च मनुष्यना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगसे परिणत

प्रमेयचन्द्रिका टीका श.८ उ.१ सू.१३ सूक्ष्मपृथिवीकायस्वरूपनिरूपणम् १५१

प्रयोगपरिणतम् ? गौतम ! पर्याप्तकर्मव्युत्क्रान्तिकयावत् परिणतं वा, अपर्याप्तकर्मव्युत्क्रान्तिकयावत्-परिणतम् ॥सू० १३॥

टीका-‘एगे भंते ! दव्वे किं पओगपरिणए, मीसापरिणए, वीससापरिणए ?’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! एकं पुद्गलद्रव्यं किं प्रयोगपरिणतं भवति, मिश्रपरिणतं भवति, विस्त्रसापरिणतं भवति ? भगवानाह-‘गोयमा ! पओगपरिणए वा, मीसापरिणए वा, वीससापरिणए वा’ हे गौतम ! एकं पुद्गल-

होता है ? या अपर्याप्त गर्भज मनुष्यके औदारिक शरीररूपकायके प्रयोगसे परिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पञ्जत्तगवभवकतिय जाव परिणए वा अपञ्जत्तगवभवकतिय जाव परिणए वा) वह एकद्रव्य पर्याप्त गर्भज मनुष्यके औदारिक शरीररूपकायके प्रयोगसे भी परिणत होता है और अपर्याप्त गर्भज मनुष्यके औदारिक शरीररूप कायके प्रयोगसे भी परिणत होता है ॥

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा सूत्रकारने नौ दण्डकोंमें से प्रथम दण्डकको लेकर एक पुद्गल द्रव्यके परिणामकी वक्तव्यताका प्रतिपादन किया है इसमें गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘एगे भंते ! दव्वे किं पओगपरिणए, मीसापरिणए, वीससापरिणए ?’ हे भदन्त ! एक पुद्गल द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है ? या मिश्रपरिणत होता है ? या विस्त्रसा परिणत होता है ? उत्तरमें गौतमसे प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पओगपरिणए वा, मीसापरिणए वा’ एक पुद्गल द्रव्यप्रयोगपरिणत

थाय छे, के अपर्याप्त गर्भज मनुष्यना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी परिणत थाय छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! ( पञ्जत्तगवभवकतिय जाव परिणए वा, अपञ्जत्तगवभवकतिय जाव परिणए वा ) ते एक द्रव्य पर्याप्त गर्भज मनुष्यना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी पण परिणत थाय छे, अने अपर्याप्त गर्भज मनुष्यना औदारिक शरीररूप कायना प्रयोगथी पण परिणत थाय छे

टीकार्थ- सूत्रकारे आ सूत्रद्वारा नव दण्डोंमें से पहला दण्डके अनुलक्षिने एक पुद्गल द्रव्यना परिणाम (परिणमन) नी वक्तव्यतानुं प्रतिपादन कयुं छे- आ विषयने अनुलक्षिने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे- ‘एगे भंते ! दव्वे किं पओगपरिणए, मीसापरिणए, वीससापरिणए ?’ हे भदन्त ! एक पुद्गलद्रव्य शु प्रयोगपरिणत होय छे, के मिश्रपरिणत होय छे, के विस्त्रसापरिणत होय छे ? उत्तर- ‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘पओगपरिणए वा,

पञ्चेन्द्रियपात्रन्-परिणत किम् समृच्छिममनुप्यपञ्चेन्द्रियपात्रन्-परिणत सम-  
 च्युत्क्रान्तिकमनुप्यपात्रन्-परिणतम् ? गौतम ! इयोरपि ।

यदि गर्भस्युत्क्रान्तिकमनुप्यपात्रन्-परिणत किं पयासकगर्भस्युत्क्रान्तिक  
 पात्रन् - परिणतम्, अपयासकगर्भस्युत्क्रान्तिकमनुप्यपञ्चेन्द्रियोद्धारिफररीरकाप

पयास, अपयासक चिप्रयमे मी जानना पान्त्रिय । (जइ मणुस्स पवि  
 दिय जाव परिणत किं मनुच्छिम मणुस्स पविन्द्रिय जाव परिणत  
 गन्मयकनियमणुस्स जाव परिणत ? इ भदन्त ! यदि यह एक द्रव्य  
 मनुप्य पञ्चेन्द्रियक औत्तरिक शरीररूप कायमयोगस परिणत होता  
 है ता क्या यह समृच्छिम मनुप्य पञ्चेन्द्रियके औत्तरिक शरीररूप  
 कायके प्रयोगसे परिणत होता है ? या गर्भज मनुप्यके औत्तरिक  
 शरीररूपकायके प्रयोगसे परिणत होता है ? (गायमा) हे गौतम !  
 (शामुपि) यह एक द्रव्य समृच्छिम मनुप्यपञ्चेन्द्रियके गर्भ गर्भज मनुप्य  
 पञ्चेन्द्रियक औत्तरिक शरीररूप कायके प्रयोगसे परिणत होता है ।  
 (जइ गन्मयकनिय मणुस्स जाव परिणत किं पञ्चसगन्मयकनिय जाव  
 परिणत) अपञ्चसगन्मयकनिय मणुस्स पविन्द्रिय आगलिय मरीरकाय  
 णभागपरिणत) इ भदन्त ! यदि यह एक द्रव्य गर्भज मनुप्यके  
 औत्तरिकशरीररूप कायके प्रयोगसे परिणत होता है ता क्या यह  
 पयास गर्भज मनुप्य के औत्तरिक शरीररूप कायके प्रयोगसे परिणत

(अभुच्छिम, गर्भज पयासक अन अपयासक) चिप्रयमे पञ्च अभुच्छि  
 (जइ मणुस्स पविन्द्रिय जाव परिणत किं समृच्छिम मणुस्स पविन्द्रिय जाव  
 परिणत, गन्मयकनिय मणुस्स जाव परिणत ?) हे भदन्त ! ने ते जेइ इत्थं  
 मनुप्य पञ्चेन्द्रियना ओत्तरिक शरीररूप कायप्रयत्नया परिणत भाव छ, ते तु तं  
 अभुच्छिम मनुप्य पञ्चेन्द्रियना ओत्तरिक शरीररूप कायना प्रयत्नया परिणत भाव छ,  
 हे भदन्त मनुप्यना ओत्तरिक शरीररूप कायना प्रयत्नया परिणत भाव छ ? (गायमा)  
 हे गौतम (शामुपि) ते अक इत्थं अभुच्छिम मनुप्य पञ्चेन्द्रियना ओत्तरिक  
 शरीररूप कायप्रयत्नया पञ्च परिणत भाव छ अने भदन्त मनुप्य पञ्चेन्द्रियना ओत्तरिक  
 शरीररूप कायप्रयत्नया पञ्च परिणत भाव छ (जइ गन्मयकनिय मणुस्स जाव  
 परिणत किं पञ्चसगन्मयकनिय मणुस्स जाव परिणत अपञ्चसगन्मयकनिय  
 मणुस्सपविन्द्रिय आगलियमरीरकायणभागपरिणत ? ) हे भदन्त ! ने ते  
 अक इत्थं पयासक मनुप्यना ओत्तरिक शरीररूप कायना प्रयत्नया परिणत भाव छ,  
 ते तु ते पयासक मनुप्यना ओत्तरिक शरीररूप कायना प्रयत्नया परिणत

कायप्पओगपरिणत्तं वा' हे गौतम । प्रयोगपरिणत्तं द्रव्यं मनःप्रयोगपरिणत्तं वा, वचःप्रयोगपरिणत्तं वा, कायप्रयोगपरिणत्तं वापि भवति. तत्र मनोवर्गणाद्रव्यं पर्यादाय मनोयोगेन मनस्तया परिणामिताः द्रव्यपुद्गलाः मनःप्रयोगपरिणताः उच्यन्ते, भाषाद्रव्यं पर्यादाय वचनयोगेन भाषारूपेण परिणम्य वहिर्निःसार्यमाणा द्रव्यपुद्गलाः वाक्प्रयोगपरिणता उच्यन्ते. काययोगेन पर्यादाय औदारिकादि-शरीररूपेण परिणामिता द्रव्यपुद्गलाः कायप्रयोगपरिणता उच्यन्ते इति भावः ।

गौतमः पृच्छति- 'जइ मणप्पओगपरिणत्तं किं सच्चमणप्पओगपरिणत्तं, सोसमणप्पओगपरिणत्तं, सच्चामोसमणप्पओगपरिणत्तं, असच्चामोसमणप्पओगपरिणत्तं' हे भदन्त ! यद् द्रव्यं मनःप्रयोगपरिणत्तं तद् किं सत्यमनःप्रयोगपरिणत्तं भवति, मृपामनःप्रयोग-

परिणत्तं वा, कायप्पओगपरिणत्तं वा' प्रयोगपरिणत्तं वद् द्रव्यं मनःप्रयोगपरिणत्तं होना है, या वचनप्रयोगपरिणत्तं होता है, कायप्रयोगपरिणत्तं होता है । मनोवर्गणारूप द्रव्यको ग्रहण करके मनोयोगद्वारा मनरूप से परिणाम को प्राप्त हुए द्रव्यपुद्गल मनःप्रयोगपरिणत्तं कहे जाते हैं । भाषाद्रव्यको ग्रहण करके वचनरूपयोग द्वारा भाषाके रूपमें परिणाम कर बाहर निकाले गये द्रव्यपुद्गलवाक्प्रयोगपरिणत्तं कहे जाते हैं । काययोग से शरीरवर्गणाको ग्रहण करके औदारिक आदि शरीररूपसे परिणामको प्राप्त कराये गये जो द्रव्यपुद्गल हैं वे कायप्रयोगपरिणत्तं पुद्गल द्रव्य कहे जाते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभु से पूछते हैं 'जइ मणप्पओगपरिणत्तं किं सच्चमणप्पओगपरिणत्तं, सोसमणप्पओगपरिणत्तं सच्चामोसमणप्पओगपरिणत्तं, असच्चामोसमणप्पओगपरिणत्तं' हे भदन्त ! जो द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत्तं कहा गया है वह क्या सत्यमनःप्रयोग-

परिणत्तं वा, कायप्पओगपरिणत्तं वा' प्रयोगपरिणत्तं ते द्रव्यं मनः प्रयोगपरिणत्तं पल्लु होय छे, वचन प्रयोगपरिणत्तं पल्लु होय छे अने काय प्रयोगपरिणत्तं पल्लु होय छे. मनोवर्गणारूप द्रव्यने अडल्लु करीने मनोयोग द्वारा मनःपे परिणामन पासेला द्रव्य पुद्गलने मनः प्रयोगपरिणत्तं छे छे भाषाद्रव्यने अडल्लु करीने वचनरूप योग द्वारा भाषाउपे परिणामानीने गदार काठवामा आवेला द्रव्यपुद्गलने वचनप्रयोग परिणत्तं छे छे काययोगवी शरीरवर्गणाने अडल्लु करीने औदारिक आदि शरीररूपे परिणामन पासेला द्रव्यपुद्गलने काय प्रयोगपरिणत्तं पुद्गलद्रव्य छे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'जइ मणप्पओगपरिणत्तं किं सच्चमणप्पओगपरिणत्तं, सोसमणप्पओगपरिणत्तं, सच्चामोसमणप्पओगपरिणत्तं, असच्चामोसमणप्पओगपरिणत्तं' हे भदन्त ले द्रव्यं मनः प्रयोगपरिणत्तं होय, तो शु ते सत्य मनः

द्रव्यं प्रयोगपरिणत वा अपि भवति, मिश्रपरिणत वा-अपि भवति, विस्त्रसा परिणत वा-अपि भवति, तत्र जीवध्यापारेणोदारिकादिसरीररूपेण परिणत प्रयोगपरिणतम् १, प्रयोगविस्त्रसाभ्यां मिश्रित परिणत जीवधरहितकलेघरं मिश्र-परिणतमुच्यते २, विस्त्रसाया=स्वभावेन परिणत विस्त्रसापरिणतम् अन्नपटलादि-कम् ३। गौतमः पृच्छति 'जइ पओगपरिणए किं मणप्पओगपरिणए, वइप्पओग-परिणए, कायप्पओगपरिणए ? हे भदन्त ! यत् पुद्गलद्रव्य प्रयोगपरिणत एत् किं मनःप्रयोगपरिणत भवति, सचःप्रयोगपरिणत भवति, कायप्रयोगपरिणत भवति ? मगवानाह-'गोयमा ! मणप्पओगपरिणए वा, वइप्पओगपरिणए वा,

होता है या मिश्रपरिणत होता है, विस्त्रसापरिणत होता है । जीवके ध्यापारसे पुद्गलका औदारिक आदि शरीरके रूपमें जो परिणामन होता है वह प्रयोगपरिणत पुद्गल द्रव्य कहा गया है । प्रयोग और स्वभाव इन दोनोंके संघसे परिणामको प्राप्त हुआ जीवधरहित कलेघर मिश्रपरिणत कहा गया है । स्वभावसे ही परिणामको प्राप्त हुआ अन्नपटल आदि द्रव्य विस्त्रसा परिणत कहा गया है । अथ गौतम मनु से ऐसा पूछते हैं-'जइपओगपरिणए किं मणप्पओगपरिणए, वइप्पओगपरिणए, कायप्पओगपरिणए' हे भदन्त ! जो पुद्गलद्रव्यप्रयोग परिणत होता है वह क्या मनः प्रयोगपरिणत होता है ? या सचन प्रयोगपरिणत होता है ? या कायप्रयोगपरिणत होता है ? उत्तरमें मनु कहते हैं कि 'गोयमा' है गौतम । 'मणप्पओगपरिणए वा, वइप्पओग

मीसापरिणए वा, वीससापरिणए वा' अर्थात् पुद्गलद्रव्य प्रयोगपरिणत पक्ष होय ॥ मिश्रपरिणत पक्ष होय ॥ अने विस्त्रसापरिणत पक्ष होय ॥

उपना ध्यापारस्थी पुद्गलानु औदारिक आदि शरीररूपे के परिणामन वाय ॥ तने प्रयोगपरिणत पुद्गलद्रव्य कहेवामां आणु ॥ प्रयोग अने स्वभाव के अन्तर्गत सचनके परिणामन पायेला उत्तरदित कसेवसने मिश्रपरिणत कहेवामां आणु ॥ स्वाभावस्थी व परिणामन पायेला अन्नपटल आदि द्रव्यने विस्त्रसापरिणत कहेवामां आणु ॥

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'जइ पओगपरिणए किं मणप्पओगपरिणए, वइप्पओगपरिणए कायप्पओगपरिणए ?' के उत्तर- 'हे भदन्त ! के पुद्गलद्रव्य प्रयोग परिणत होय ॥, ते तुं मनः प्रयोगपरिणत होय ॥ ? के सचन प्रयोगपरिणत होय ॥ ? के काय प्रयोगपरिणत होय ॥ ?

उत्तर- 'गोयमा !' के गौतम । मणप्पओगपरिणए वा, वइप्पओग-

कायप्पओगपरिणए वा' हे गौतम ! प्रयोगपरिणतं द्रव्यं मनःप्रयोगपरिणतं वा, वचःप्रयोगपरिणतं वा, कायप्रयोगपरिणतं चापि भवति, तत्र मनोवर्गणाद्रव्यं पर्यादाय मनोयोगेन मनस्तया परिणामिताः द्रव्यपुद्गलाः मनःप्रयोगपरिणताः उच्यन्ते, भाषाद्रव्यं पर्यादाय वचनयोगेन भाषारूपेण परिणम्य वहिर्निःसार्यमाणा द्रव्यपुद्गलाः वाक्प्रयोगपरिणता उच्यन्ते, काययोगेन पर्यादाय औदारिकादि-शरीररूपेण परिणामिता द्रव्यपुद्गलाः कायप्रयोगपरिणता उच्यन्ते इति भावः । गौतमः पृच्छति- 'जइ मणप्पओगपरिणए किं सच्चमणप्पओगपरिणए, सोसमणप्पओगप०, सच्चामोसमणप्पओग०, असच्चामोसमणप्पओग० ' हे भदन्त ! यद् द्रव्यं मनःप्रयोगपरिणतं तत् किं सत्यमनःप्रयोगपरिणतं भवति, मृपामनःप्रयोग-

परिणए वा, कायप्पओगपरिणए वा' प्रयोगपरिणत वह द्रव्य मनःप्रयोग परिणत होता है, या वचनप्रयोगपरिणत होता है, कायप्रयोगपरिणत होता है । मनोवर्गणारूप द्रव्यको ग्रहण करके मनोयोगद्वारा मनरूप से परिणाम को प्राप्त हुए द्रव्यपुद्गल मनःप्रयोगपरिणत कहे जाते हैं । भाषाद्रव्यको ग्रहण करके वचनरूपयोग द्वारा भाषाके रूपमें परिणाम कर बाहर निकाले गये द्रव्यपुद्गलवाक्प्रयोगपरिणत कहे जाते हैं । काययोग से शरीरवर्गणाको ग्रहण करके औदारिक आदि शरीररूपसे परिणामको प्राप्त कराये गये जो द्रव्यपुद्गल हैं वे कायप्रयोगपरिणत पुद्गल द्रव्य कहे जाते हैं । अब गौतमस्वामी प्रश्न से पूछते हैं 'जइ मणप्पओगपरिणए किं सच्चमणप्पओगपरिणए, सोसमणप्पओगपरिणए सच्चामोसमणप्पओगपरिणए, असच्चामोसमणप्पओगपरिणए०' हे भदन्त ! जो द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत कहा गया है वह क्या सत्यमनःप्रयोग-

परिणए वा, कायप्पओगपरिणए वा' प्रयोगपरिणत ते द्रव्य मनः प्रयोगपरिणत पणु होय छे, वचन प्रयोगपरिणत पणु होय छे अने काय प्रयोगपरिणत पणु होय छे मनोवर्गणारूप द्रव्यने ग्रहण करीने मनोयोग द्वारा मनरूपे परिणमन पावेला द्रव्य पुद्गलने मन प्रयोगपरिणत कडे छे भाषाद्रव्यने ग्रहण करीने वचनरूप योग द्वारा भाषारूपे परिणमावीने अहार काढवामा आवेला द्रव्यपुद्गलने वचनप्रयोग परिणत कडे छे काययोगशी शरीरवर्गणाने ग्रहण करीने औदारिक आदि शरीररूपे परिणमन पावेला द्रव्यपुद्गलने काय प्रयोगपरिणत पुद्गलद्रव्य कडे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'जइ मणप्पओगपरिणए किं सच्चमणप्पओगपरिणए, सोसमणप्पओगपरिणए, सच्चामोसमणप्पओगपरिणए, असच्चामोसमणप्पओगपरिणए०' हे भदन्त ने द्रव्य मनः प्रयोगपरिणत होय, तो शु ते सत्य मनः





परिणतमुच्यते ३, सत्यासत्योभयाभ्यां वर्जितम् असत्यामृषामनःप्रयोगपरिणत-  
मुच्यते ४, व्यवहारमनःप्रयोगपरिणतं भवति-इति भावः । गौतमः पृच्छति-  
'जइ सच्चमणप्पओगपरिणए किं आरंभ-सच्चमणप्पओगपरि० १, अणारंभसच्चमण-  
प्पओगपरि० २, सारंभसच्चमणप्पओग० ३, असारंभसच्चमण० ४, समारंभसच्चमणप्पओग-  
परि० ५, असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणए ६?' यद् द्वयं सत्यमनःप्रयोगपरिणतं तत्  
किम् ? १ आरम्भ-सत्यमनःप्रयोगपरिणतं भवति, २ अनारम्भ-सत्यमनःप्रयोग-

इस तरह दोनों प्रकारके प्रयोगसे मिश्रित हो वह उभयमनः प्रयोग कहा  
गया है, इस उभयमनः प्रयोग से जो पुद्गल द्रव्यपरिणत होता है वह  
उभयमनःप्रयोगपरिणत द्रव्य कहा गया है । जो मन प्रयोग नसत्य हो और  
न असत्य हो. किन्तु दोनों से सत्य असत्य इन दोनों प्रकारों से रहित  
हो वह मनःप्रयोग असत्यामृषामनः प्रयोग है इस असत्या मृषामनः  
प्रयोग से परिणत हुआ जो द्रव्य है वह असत्यामृषामनः प्रयोग-  
परिणत कहा गया है । अर्थात् वह व्यवहारमनःप्रयोगपरिणत होता  
है । अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं- 'जइ सच्चमणप्पओग-  
परिणए किं आरंभसच्चमणप्पओगपरिणए, अणारंभसच्चमणप्पओग-  
परिणए, सारंभसच्चमणप्पओगपरिणए, असारंभसच्चमणप्पओगपरि-  
णए, समारंभसच्चमणप्पओगपरिणए, असमारंभसच्चमणप्पओगपरि-  
णए ?' जो द्रव्य सत्यमनः प्रयोगपरिणत होता है, वह क्या आरम्भ  
सत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है ? अथवा अनारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणत

उभयमनः प्रयोग कहे छे आ उभयमनः प्रयोगथी ने पुद्गलद्रव्य परिणत वाय छे  
तेने उभयमनः प्रयोगपरिणत द्रव्य (सत्यमृषामनः प्रयोगपरिणत) कहे छे ने मन प्रयोग  
सत्य यथु न होय अने असत्य यथु न होय - परन्तु सत्य अने असत्य, ओ भन्नेथी  
रहित होय छे, ते मन प्रयोगने असत्य मृषामनः प्रयोग कहे छे आ असत्यामृषामनः  
प्रयोगथा परिणत थयेछु ने द्रव्य छे तेने असत्यामृषामन. प्रयोगपरिणत कहे छे.  
ओटके छे ते व्यवहारमन प्रयोगपरिणत होय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'जइ सच्चमणप्पओगपरिणए किं आरंभसच्चमण-  
प्पओगपरिणए, अणारंभसच्चमणप्पओगपरिणए, सारंभसच्चमणप्पओगपरिणए,  
असारंभसच्चमणप्पओगपरिणए, समारंभसच्चमणप्पओगपरिणए, असमारंभ  
सच्चमणप्पओगपरिणए?' ने द्रव्य सत्यमनः प्रयोगपरिणत होय छे, ते शु. आरंभ

परिणत भवति, ३ सरम्म-सत्यमनःप्रयोगपरिणत भवति, ४ असरम्म-सत्यमनः प्रयोगपरिणत भवति, ५ समारम्म-सत्यमन प्रयोगपरिणत भवति, ६ असमार म्-सत्यमन प्रयोगपरिणत भवति १, भगवानाह-‘गोयमा ! भारंम-सद्यमणप्य आगपरिणए वा, जाव असमारम-सद्यमणप्यभागपरिणए वा’ हे गौतम ! सत्यमनः प्रयोगपरिणत द्रव्यम् आरम्मसत्यमनःप्रयोगपरिणत वा भवति, यावत्-अनारम्म सत्यमनःप्रयोगपरिणत वा भवति, सरम्मसत्यमनःप्रयोगपरिणत वा भवति, असरम्मसत्यमनःप्रयोगपरिणत वा भवति, समारम्मसत्यमन प्रयोगपरिणत वा भवति, असमारम्म सत्यमन-प्रयोगपरिणत वा भवति, तत्र आरम्भः-प्राणातिपातः सद्बिषये मनोव्यापारलक्षणमन प्रयोगेण परिणाममाप्तद्रव्यपदुद्गमः आरम्म

होता है ? अथवा सरंभ सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है ? अथवा असरम्मसत्यमनः प्रयोगपरिणत होता है ? अथवा समारंभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत होता है ? अथवा असमारंभ सत्य मनःप्रयोग परिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रसु कहते हैं-‘गायमा’ हे गौतम ! आरभसद्यमणप्य ओगपरिणए वा जाव असमारभसद्यमणप्यभागपरिणए वा ’ सत्यमनः प्रयोगपरिणत जो द्रव्य होता है वह आरम्मसत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, अथवा यावत्-अनारभसत्यमनः प्रयोगपरिणत होता है, या सरंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत होता है, या असरंभसत्यमनः प्रयोग परिणत होता है, या समारंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत भी होता है, या असमारंभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत भी होता है । प्राणातिपात का नाम आरंभ है, इस आरंभ में मनका जो व्यापार है वह आरंभ

सत्यमन प्रयोगपरिणत होय छे । ३ अनारभ सत्यमन प्रयोगपरिणत होय छे । ४ समारभ सत्यमन प्रयोगपरिणत होय छे । ५ असरभ सत्यमन प्रयोगपरिणत होय छे । ६ असमारभ सत्यमन प्रयोगपरिणत होय छे ।

महावीर प्रभुने उत्तर-‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘आरंभसद्यमणप्यओगपरिणए वा जाव असमारंभसद्यमणप्यओगपरिणए वा ’ ने इत्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत होय छे ते आरभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत पद्य होय छे, अनारभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत पद्य होय छे, सरभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत पद्य होय छे असरभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत पद्य होय छे, समारभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत पद्य होय छे अने असमारभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत पद्य होय छे

प्राणातिपातत आरभ हडे छे ते आरभविषयक मननेने ने व्यापार (प्रवृत्ति) होय छे तने आरभभन प्रयोग हडे छे अने आ प्रारना भनःप्रयोगवा परिणमन

सत्यमनःप्रयोगपरिणत उच्यते, एवमन्येऽपि पृथ्व विज्ञेया किन्तु न वरम्—अनारम्भः प्राणातिपातविरमणम्, संरम्भः प्राणातिपातसंकल्पः, असंरम्भः प्राणातिपातसंकल्पविरमणम्, समारम्भः परितापनम्, असमारम्भः अपरितापनम् । गौतमः पृच्छति—‘जइ मोसमणप्पओगपरिणए किं आरंभमोसमणप्पओगपरिणए वा ?’ हे भदन्त ! यद् द्रव्यं मृषामनःप्रयोगपरिणतं तत् किम् आरम्भमृषामनःप्रयोगपरिणतं वा भवति ?—‘एवं जहा सच्चेणं तहामोसेण वि’ एवं यथा—सत्येन सत्यपदेन प्रश्नोत्तररूपा अभिलाषाः प्रतिपादिताः तथा मृषावदेनापि अभिलाषा वक्तव्याः, तथा च

मनःप्रयोग है. इस प्रकारके मनः प्रयोग से परिणामको प्राप्त जो द्रव्य पुद्गल है वह आरंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत कहा गया है । इसी प्रकारसे अन्य भी पांच जानना चाहिये । प्राणातिपात से विरमण-दूर होना—प्राणातिपातका त्याग करना—इसका नाम अनारंभ है, तथा प्राणातिपात करनेका संकल्प करना इसका नाम संरंभ है, प्राणातिपात करनेके संकल्पका त्याग करना इसका नाम असंरंभ है, जीवोंको पीडा पहुंचाना—परितापित करना इसका नाम समारंभ है, जीवोंको पीडा नहीं पहुंचाना—परितापित नहीं करना इसका नाम असमारंभ है । गौतमस्वामी प्रश्नु से पूछते हैं—‘जइमोसमणप्पओगपरिणए किं आरंभमोसमणप्पओगपरिणए वा’ हे भदन्त ! जो द्रव्यमृषामनः प्रयोग से परिणत कहा गया है वह क्या आरंभमृषामनः प्रयोगपरिणत होता है ? अथवा अनारंभमृषामनः प्रयोगपरिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं कि—एवं जहा सच्चेणं तहा मोसेण वि’ हे गौतम ! जिस

पामेखु ने द्रव्यपुद्गल होय छे तेने आरंभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत कहे छे अने प्रमाखे भीअं पाय विषे पणु समजवुं प्राणातिपात करवाने स कटप करवे तेनु नाम संरंभ छे, प्राणातिपात करवाने स कटपने त्याग करवे तेनु नाम असंरंभ छे अने पीडा पहुँचाने तेनु नाम समारंभ छे अने अने पीडा न पहुँचाने तेनु नाम असमारंभ छे

गौतम स्वामीने प्रश्न—‘जइ मोसमणप्पओगपरिणए किं आरंभमोसमणप्पओगपरिणए वा ?’ हे भदन्त ! ने द्रव्य मृषामनः प्रयोगपरिणत कहेवाभां आयु छे, ते शुं आरंभ मृषामनः प्रयोगपरिणत होय छे ? हे अनारंभ मृषामनः प्रयोगपरिणत होय छे ? इत्यादि उपर्युक्त ६ प्रश्नो अही समजवा

उत्तर—‘एवं जहा सच्चेणं तहा मोसेण वि’ हे गौतम ! ने रीते सत्यमनः प्रयोगपरिणत द्रव्यना विषे अलिहाय (प्रश्नोत्तरे) कहेवाभां आयु छे, अने रीते

મૃપામન પ્રયોગપરિણત દ્રવ્યમ્ આરમ્મમૃપામનઃપ્રયોગપરિણત વા મશતિ, અના  
રમ્મમૃપામનઃ પ્રયોગપરિણત વા મશતિ, સરમ્મમૃપામનઃપ્રયોગપરિણત વા મશતિ,  
અસરમ્મમૃપામનઃપ્રયોગપરિણત વા મશતિ, સમારમ્મમૃપામનઃપ્રયોગપરિણત વા  
મશતિ, અસમારમ્મમૃપામન પ્રયોગપરિણત વા મશતિ, ટ્ઠિ માવઃ 'एव सच्चामोसमणप्पओगपरिणयेण वि, एवं असच्चामोसमणप्पओगपरिणएणवि' एवं सत्प-  
मृपामनःप्रयोगपरिणतेनापि उपयुक्ताःपट्ठाभाषकाः वक्तव्या , एवम् असत्यामृपा  
मनःप्रयोगपरिणतेनापि पट् आभाषकाः । वक्तव्याः गौतम पृच्छति- 'अइ  
वइप्पओगपरिणए किं सच्चवइप्पओगपरिणए, मोसवयप्पओगपरिणए० ?' यद्

તરહુ સે સત્પકો લેકર અમિલાપ કહે ગયે હૈ, ઉમી પ્રકાર સે મૃપા  
કો લેકર મી અમિલાપ કરના ચાહિયે । તયા અ-મૃપામનઃપ્રયોગ  
પરિણત જો દ્રવ્ય હોતા હૈ ઘહ આરમ્મમૃપામન પ્રયોગ પરિણત  
મી હોતા હૈ, યા અનારમ્મમૃપામનઃ પ્રયોગ પરિણત મી હોતા હૈ,  
યા સરમ્મમૃપામન પ્રયોગપરિણત હોતા હૈ, અસરમ્મમૃપામનઃ  
પ્રયોગ પરિણત હોતા હૈ । સમારમ્મમૃપામનઃપ્રયોગપરિણત હોતા હૈ યા  
અસમારમ્મમૃપામન પ્રયોગપરિણત હોતા હૈ । 'एव सच्चामोसमणप्प  
ओगपरिणए वि, एव असच्चामोसमणप्पओगपरिणए वि' इसी तरहसे  
व आभाषक सत्यामृपामनःप्रयोगपरिणतके साथ मी कहना चाहिये  
और असत्यामृपाःमनप्रयोगपरिणतके साथमी कहना चाहिये । अब  
गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'अइ वइप्पओगपरिणए किं सच्चवइप्प  
ओगपरिणए, मोसवइप्पओगपरिणए०' हे मदन्त ! जा द्रव्य घञः

મૃપામન. પ્રયોગપરિણત ને દ્રવ્ય (વધુ પલુ અમિલાપ સમજવા નેપડે-

મૃપામન. પ્રયોગપરિણત ને દ્રવ્ય હોય છે, તે આરભ મૃપામન. પ્રયોગપરિણત  
પલુ હોય છે અનારભ મૃપામન. પ્રયોગપરિણત પલુ હોય છે સરભમૃપામન પ્રયોગ  
પરિણત પલુ હોય છે અસરભ મૃપામન. પ્રયોગપરિણત પલુ હોય છે સમારભ-  
મૃપામન. પ્રયોગપરિણત પલુ હોય છે અને અસમારભ મૃપામનઃ પ્રયોગપરિણત પલુ  
હોય છે એવ સચ્ચામોસમણપ્પઓગપરિણએ વિ, એવ અસચ્ચામોસમણપ્પઓગપરિણએ વિ  
આ પ્રકારના ૬ અભાષક સત્યામૃપામન પ્રયોગપરિણત સાથે પલુ કહેવા બેઠબે અને  
અસત્યામૃપામન. પ્રયોગપરિણતની સાથે પલુ કહેવા બેઠબે.

ગોતમ સ્વામીનેા પ્રશ્ન- 'अइ वइप्पओगपरिणए किं सच्चवइप्पओगपरिणए,  
मोसवइप्पओगपरिणए ?' हे मदन्त ! नै द्रव्य वचनप्रयोगपरिणत होय छै ।  
ते शु सत्य वचन प्रयोग परिणत होय छै ? ते मृपा वचन प्रयोग परिणत होय छै

द्रव्यं वचःप्रयोगपरिणतं तत् किं सत्यवचःप्रयोगपरिणतं भवति, मृषावचः-  
प्रयोगपरिणतं भवति ? ' एवं जहा मणप्पओगपरिणण, तहा वयप्प-  
ओगपरिणण वि' एवं यथा मनःप्रयोगपरिणतेन तथा वचःप्रयोगपरिणतेनापि  
यथामनःप्रयोगपरिणतेनालापका उक्ताः तथा वचःप्रयोगपरिणतेनापि आलापकाः  
षड् वक्तव्या इत्यर्थः 'जाव असमारंभवयप्पओगपरिणण वा' यावत्-वचःप्रयोग-  
परिणत द्रव्यं सत्यवचःप्रयोगपरिणत वा भवति, मृषावचःप्रयोगपरिणत वा  
भवति, सत्यमृषावचःप्रयोगपरिणतं वा भवति, असत्यामृषावचःप्रयोगपरिणत वा  
भवति, एवम् आरंभवचःप्रयोगपरिणतं वा भवति, अनारंभवचःप्रयोगपरिणतं  
वा भवति, संरम्भवचःप्रयोगपरिणत वा भवति, असंरम्भवचःप्रयोगपरिणतं वा  
भवति, समारम्भवचःप्रयोगपरिणतं वा भवति, असमारम्भवचःप्रयोगपरिणतं वा

प्रयोगपरिणत होता है, वह क्या सत्यवचनप्रयोगपरिणत होता है,  
या मृषावचःप्रयोगपरिणत होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'एवं जहा  
मणप्पओगपरिणण तहा वयप्पओगपरिणण वि' हे गौतम ! जिसप्रकार  
मनःप्रयोग परिणतका कथन किया गया है, उसी प्रकारका वचन  
प्रयोगपरिणतका भी कहदेना चाहिये । तात्पर्य कहनेका यह है कि  
जिस प्रकारसे ६ आलापक मनः प्रयोगपरिणतके साथ कहे हैं उसी  
प्रकारसे ६ आलापक वचःप्रयोगपरिणतके साथ भी कहना चाहिये ।  
'जाव असमारंभ वयप्पओगपरिणण वा' यावत् ( वचःप्रयोगपरिणत  
द्रव्य सत्यवचनप्रयोगपरिणत होता है, या मृषावचनप्रयोगपरिणत होता  
है, सत्यमृषावचःप्रयोगपरिणत होता है, असत्यामृषावचःप्रयोगपरिणत  
होता है । इसी तरहसे वह आरंभवचःप्रयोगपरिणत होता है । संरं-  
भवचःप्रयोगपरिणत होता है असंरंभवचःप्रयोगपरिणत होता है, तथा

उत्तर-एवं जहा मणप्पओगपरिणण तहा वयप्पओगपरिणण वि' हे गौतम !  
जैसी रीते मनःप्रयोगपरिणत द्रव्यनी साथे छ आलापक कहेवाभा आब्या छे, जेव  
प्रमाणे वचनप्रयोगपरिणत द्रव्यनी साथे पणु छ आलापक, कहेवा जेधमे 'जाव अस-  
मारंभवयप्पओगपरिणण वा' जेट्ते के वचनप्रयोगपरिणत द्रव्य सत्यवचन  
प्रयोगपरिणत पणु होय छे, मृषावचनप्रयोगपरिणत पणु होय छे, सत्यमृषावचनप्रयोग-  
परिणत पणु होय छे, असत्यामृषावचनप्रयोग परिणत पणु होय छे जेव प्रमाणे ते  
आरंभवचःप्रयोगपरिणत पणु होय छे, अनारंभवचःप्रयोगपरिणत पणु होय छे, संरं-  
भवचःप्रयोगपरिणत पणु होय छे, असंरंभवचःप्रयोगपरिणत पणु होय छे, समारंभवचः  
प्रयोगपरिणत पणु होय छे अने असमारंभवचःप्रयोगपरिणत पणु होय छे

भवति, गौतमः पृच्छति—'अहं कायप्ययोगपरिणतं तत् किम् औदारिकशरीर  
कायप्रयोगपरिणतम् ? औदारिकशरीरमेव पुद्गलस्कन्धरूपत्वेनोपचीयमानत्वात्  
कायस्तस्य प्रयोग, औदारिकशरीरस्य वा कायप्रयोगेन परिणतं तच्चया,  
अयं औदारिकशरीरकायप्रयोगं पर्याप्तकस्यैव विज्ञेयोनं तु अपर्याप्तकस्य, इत्याश्रय,  
प्रज्ञापनायाः पौडस्यपदपर्यालोचनया तु—इत्य प्रतिभाति यत् वैक्रियनिर्माणकाले  
वैक्रियमिन्द्र वैक्रियावौदारिके प्रवेशकाले च औदारिकमिन्द्र च भवति । एतन्मिन्द्र

असमारंभध्वःप्रयोगपरिणतं हाता है । अथ गौतम पूछते हैं 'अहंका-  
यप्ययोगपरिणतं किं औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं' जो द्रव्य-  
कायप्रयोगपरिणतं होता है यह क्या औदारिक शरीररूपकायप्रयोगपरि-  
णतं होता है ? तात्पर्य इसका यह है कि पुद्गलस्कन्धरूप होनेसे  
औदारिक शरीर यहा कायरूप कहा गया है कायका तात्पर्य होता है  
यह प्रवेशी । औदारिक शरीर बहुत प्रवेशीवाला है । बहुत प्रवेशीवाला  
यह इसलिये है कि वह पुद्गल परिमाणोंका एक समूहरूप स्कन्ध  
है इस औदारिकशरीर रूपकायप्रयोगसे अथवा औदारिक शरीरक  
कायप्रयोगसे परिणत जो द्रव्य है यह औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत  
द्रव्य है यह औदारिक शरीर कायप्रयोग पर्याप्तक जीवके ही होता है  
अपर्याप्तक जीवके नहीं प्रज्ञापनाके सोलहवें १६ पदका विचार करनेसे  
पेसा मालूम होता है की वैक्रिय बनाते समय वैक्रियमिन्द्र और वैक्रियसे  
औदारिकमें आते समय औदारिक मिन्द्र होता है । इसी प्रकार

गौतम स्वामीने प्रश्न—'अहं कायप्ययोगपरिणतं किं औदारिकशरीर  
कायप्रयोगपरिणतं ?' के उत्तर । ने द्रव्य कायप्रयोगपरिणतं होना है ते शु  
औदारिक शरीररूप कायप्रयोगपरिणतं होना है । आ कथनं तात्पर्य नीचे प्रमाणे है  
पुद्गल स्कन्धरूप होवापी औदारिक शरीरने कही कथन कहेवाभां आशु है काय  
केते बहुप्रदेशी औदारिक शरीर कथु प्रवेशीवाणु होवते, ते बहु प्रवेशीवाणु केते  
आ कथु है ते पुद्गलपरमाणुजोना केते कथनरूप स्कन्ध है आ औदारिक शरीररूप  
कायप्रयोगमी अथवा औदारिक शरीरना कायप्रयोगमी परिणत ने द्रव्य है तेने औदारिक  
शरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्य कहे है आ औदारिक शरीरकायप्रयोग पर्याप्त कथेभावा  
स कथी कहे है अपर्याप्तक कथेभा स कथी कथता नहीं प्रज्ञापना सेकथना पर ने  
विचार कथता केतु अथुव है ते— वैक्रिय बनावती वप्रते वैक्रियमिन्द्र जाने वैक्रियमी  
औदारिकमें आवता औदारिकमिन्द्र कथ है केव रीते अकारक बनावती वप्रते

आहारकनिर्माणकाले आहारकमिश्रम् आहारकादौदारिके प्रवेशकाले च औदारिकमिश्रं भवति । इत्थमेव नारकदेवयोः पर्याप्तकेऽपि भवधारणीयादुत्तरवैक्रियनिर्माणकालेवैक्रियमिश्रं भवति इति विज्ञेयम् । एवं तदेव कायप्रयोगपरिणतद्रव्यं किम् 'ओरालियमीसासरीरकायप्पओग०' औदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतम् ? औदारिकमुत्पत्तिकालेऽसम्पूर्णं सत् कार्मणमिश्रं शरीरमेव कायस्तस्यप्रयोगः, औदारिकमिश्रशरीरस्य वा कायप्रयोगस्तेन परिणत यत्तथा ।

उक्तंच—“ जोएण कम्मएणं आहारेई अणंतरं जीवो ।

तेणं परं मीसेणं जाव सरीरस्स निप्पत्ती ॥ ”

छाया—योगेन कार्मणेन आहरति अनन्तरं जीवः ।

तेन परं मिश्रेण यावत् शरीरस्य निष्पत्तिः ॥

आहारक बनाते समय आहारक मिश्र और फिर औदारिकमें आते समय औदारिकमिश्र होता है । नारक और देवोंके पर्याप्तमें भवधारणीयसे उत्तर वैक्रिय करते समय वैक्रिय मिश्र होता है । ओरालिय मीसा सरीरकाय०' इसका भाव यह है कि जब औदारिकशरीर उत्पत्तिके समयमें अपूर्णवस्थामें कार्मणशरीरके साथ मिश्र होता है तब वही शरीर औदारिकमिश्र शरीर कहलाता है औदारिकमिश्रशरीररूप कायके प्रयोगसे अथवा औदारिक मिश्रशरीरके कायप्रयोगसे परिणत जो द्रव्य है वह औदारिक मिश्रशरीर कायप्रयोग परिणत द्रव्य है । कहा भी है 'जोएण' इत्यादि ।

परभवमें उत्पत्तिके समयमें विग्रहगतिमें जीव प्रथम कार्मण योगद्वारा आहार ग्रहण करता है इसके बाद जबतक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तबतक वह औदारिक मिश्रयोगद्वारा आहार करता है।

आहारकमिश्र अने पाछा औदारिकमा आपती वपते औदारिकमिश्र थाप छे. नारक अने देवोना पर्याप्तना भवधारणीयथी उत्तर वैक्रिय करती वपते वैक्रियमिश्र थाप छे 'ओरालियमीसासरीरकाय०' आसूत्राशनेो भावार्थ नीचे प्रमाणे छे उत्पत्तिना समये अपूर्णवस्थामा न्यादे औदारिक शरीर कार्मणशरीरनी साथे मिश्र होय छे, त्यादे ते शरीरने औदारिकमिश्रशरीर कहेवाय छे आ औदारिकमिश्र शरीरना कायप्रयोगथी परिणत ने द्रव्य छे, तेने औदारिकमिश्रशरीर कायप्रयोगपरिणत कहे छे ते औदारिकमिश्रकायप्रयोग अपर्याप्तक अवमान संभवी शके छे

इह पणु छे—'जोएण' इत्यादि—

परभवमा उत्पत्तिना समये विग्रहगतिमा एव पदेवा कार्मणयोगद्वारा आहार ग्रहण करे छे त्यरणाए न्यासुधी शरीर पर्याप्ति पूर्ण यती नथी त्यासुधी ते औदारिक-



પથ કાર્મણેનાપિ ઔદારિકશરીરસ્ય મિશ્રતા ઘોષ્યા, ઉત્પત્યપેક્ષયા ઔદારિકશરીરસ્ય પ્રધાનત્વાત્, યદા સુ ઔદારિકશરીરી વૈક્રિયલઘ્નિસમ્પન્નો મન્તિ પચ્ચેન્દ્રિયતિર્યગ્ચોનિક, પર્યાપ્તવાદરવાયુકાયિકો ઘા વૈક્રિય ફરાતિ સદા ઔદારિકકાયયથોને સિદ્ધનેવ પ્રવેશાન વિસિપ્ય વૈક્રિયશરીરયોગ્યાન પુદ્ગલાન પર્યાદાય વૈક્રિયશરીરપર્યાપ્તયા યાવદ્ ન પર્યાપ્તિ પ્રાપ્નોતિ તાવદ્ વૈક્રિયેગ સહ ઔદારિકશરીરસ્ય મિશ્રતા વિદ્યેયા મારમ્મફળયા ઔદારિકશરીરમ્ય પ્રધાનત્વાત્, ઇષમ્ આહારકેણ સદાપિ ઔદારિકશરીરસ્ય મિશ્રતા ઘોષ્યા ઇતિ મસ્તુતસન્દર્ભાશ્રય, એન ક્ષિમ્ કાયમયોગપરિણતમેવ દ્રવ્યમ્-‘વેઠઞ્ચિયસરીર કાયપ્પયોગ૦’ વૈક્રિયશરીરકાયપ્રયોગપરિણત મન્તિ ? વૈક્રિયકાયપ્રયોગમ્

इन्ही तरह कामणशरीरके साथ भी औदारिक शरीरकी मिश्रता यहाँ जाननी चाहिये। क्योंकि उत्पत्तिकी अपेक्षास औदारिक शरीरकी प्रधानता है। जब औदारिक शरीरघाला मनुष्य, अथवा पंचेन्द्रिय तिर्यग्च, या पर्याप्तवादर वायुकायिकजीव वैक्रिय लघ्निसंपन्न होता है और वैक्रिय शरीरका निर्माण करता है तब यह औदारिक काययोगमें रहता हुआ ही आत्मप्रदेशोको विस्तारकर वैक्रिय शरीरके घाम्य पुद्गलोंको ग्रहण करता है और जयतक वैक्रिय शरीर पर्याप्तिको यह पूर्ण नहीं करलेता है तबतक वैक्रियके साथ औदारिक शरीरकी मिश्रता हानेसे उसे औदारिकमिश्रकायप्रयोग जानना चाहिये। क्योंकि मारमक हानेके कारण औदारिकशरीरकी प्रधानता है। इसी तरहसे आहारकके साथ भी औदारिक शरीरकी मिश्रता जाननी चाहिये। इस तरहसे यह मस्तुत सदर्मका आशय है। ‘वेठञ्चियसरीरकाय

મિશ્રયોગ દ્વારા આહાર પ્રદણ કરે છે આ રીતે કામણ શરીરની સાથે ઔદારિક શરીરની મિશ્રતા બંધી સમજવી કાણુ ઉત્પત્તિની અપેક્ષાએ ઔદારિક શરીરની પ્રધાનતા છે એવારે ઔદારિક શરીરવાળે મનુષ્ય અથવા પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યગ્ચ અથવા પર્યાપ્ત વાસ્ત વાયુકાયિકજીવ વૈક્રિયલઘ્નિવાળે હોય છે અને વૈક્રિયશરીરનું નિર્માણ કરે છે, ત્યારે તે ઔદારિકકાયયોગમાં રહીને જ આત્મપ્રદેશોને વિસ્તારીને વૈક્રિયશરીરને યોગ પુદ્ગલોને પ્રદણ કરે છે અને લઘ્નિમી તે વૈક્રિયશરીર પર્યાપ્તિને પૂણ કરી લેવા નથી, ત્યજુધી વૈક્રિયની સાથે ઔદારિક શરીરની મિશ્રતા હોવાથી તેને ઔદારિકમિશ્રકાયપ્રયોગ સમજવો નોંધમ કાણુકે પ્રારંભક હોવાને લીધે ઔદારિક શરીરની પ્રધાનતા છે. એવ પ્રમાણે આદારકની સાથે પણ ઔદારિક શરીરની મિશ્રતા સમજવી મસ્તુત સદર્મને આ પ્રકરને આશય છે ‘વેઠઞ્ચિયસરીરકાયપ્પયોગ૦’ એવ પ્રમાણે જે દ્રવ્ય કાયપ્રયોગ

वैक्रियपर्याप्तकस्यैव विज्ञेयः, तथा तदेव द्रव्यम् 'वेउन्वियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए' किं वैक्रियमिश्रसरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति, अयं च वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगो देवनारकेषु जायमानस्य अपर्याप्तकस्यैव वैक्रियशरीरस्य मिश्रणं च कर्मणेनैव बोध्यम्, लब्धिजन्यवैक्रियशरीरं परित्यजतः औदारिकं शरीरं पर्यादानस्य तु औदारिकोपादानाय प्रवृत्तेः वैक्रियस्यैव प्रधानत्वात् औदारिकेणापि सद् वैक्रियस्य मिश्रणं संभवति, तत्रापि वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगो ज्ञातव्य इति भावः, एवं कायप्रयोगपरिणतमेव द्रव्यं किम् - 'आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, आहारगमीसासरीरकायप्पओगपरिणए कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए ?' आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? अत्राहारकशरीरकायप्रयोगः आहारकशरीरनिष्पत्तौ

प्पओग०' इसी तरहसे जो द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होता है वही क्या वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है ? वैक्रियकायप्रयोग वैक्रिय पर्याप्तजीवके ही होता है । तथा वही द्रव्य क्या ' वेउन्वियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए' वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है इसका भाव यह है कि यह वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगदेव, और नारकोंमें उत्पन्न होते हुए अपर्याप्तक जीवके ही होता है । वहां पर वैक्रिय शरीरकी मिश्रता कर्मणके साथ है । तथा लब्धिजन्य वैक्रिय शरीरका परित्याग करते हुए, और औदारिक शरीरको ग्रहण करते हुए औदारिक शरीरवाले जीवके वैक्रियशरीरकी प्रधानता होनेसे औदारिकके भी साथ वैक्रियका मिश्रण होता है । इसलिये वहां पर भी वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग जानना चाहिये । 'आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, आहारगमीसासरीरकायप्पओगपरिणए, कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए

परिणत होय छे, अथ श्रुं वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? (वैक्रियपर्याप्त जीवने अ स कर्षी शक्ये छे) तथा अथ श्रुं ' वेउन्वियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए ?' वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोगपरिणत होय छे ? आ कथनेने भावार्थ नीचे प्रमाण छे आ वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग देव अने नारकोमा उत्पन्न तथा अपर्याप्तक जीवमा अ याय छे अर्था वैक्रियशरीरकी मिश्रता कर्मणकी साथे छे तथा लब्धिजन्य वैक्रियशरीरकी परित्याग करीने औदारिक शरीरने अग्रणी करीता औदारिक शरीरवाला जीवमा वैक्रियशरीरकी प्रधानता होवाथी औदारिककी साथे यथु वैक्रियकी मिश्रता रहे छे तेथी त्यां यथु वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग समजवेने लोभये, 'आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, आहारगमीसासरीरकायप्पओगपरिणए, कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए' अथ प्रमाणे ने द्रव्य

सत्यामव विज्ञेयः, तदानीं तस्यैव प्राधान्यात्, एवम् तदव द्रव्यं किम् आहारकमिभ  
 शरीरकायप्रयोगपरिणत भवति, आहारकमिभशरीरकायप्रयोगश्च औदारिकेण सह  
 आहारकस्य मिश्रणकाले भवति, स चाहारकस्यागेनीदारिकग्रहणामिमुख्यस्य बोध्याः,  
 तथा च यदा आहारकशरीरी स्वकार्यं समाप्य पुनर्गौदारिकशरीरमुपादत्ते तदाऽऽहा-  
 रकस्य प्राधान्यात्, औदारिकप्रवेशा-मुख्यत्वात् यावत् सर्वेषु आहारक न परित्यजति

इसी प्रकारसे जो द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होता है वही द्रव्य क्या  
 आहारक शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है? या आहारक मिश्रशरीरकाय  
 प्रयोग परिणत होता है? या कार्मण शरीरकाय प्रयोगपरिणत होता है?  
 यहाँ पर आहारक शरीरकायप्रयोग आहारक शरीरकी निष्पत्ति होनेपर  
 ही होता है। मयागका तात्पर्य उसके व्यापारसे है यह आहारकसबसे म्या  
 पाग आहारकशरीरकी उत्पत्ति होने पर ही होती है। अतः उस व्यापार  
 में उस समय उसकी ही प्रधानता रहती है। कायप्रयोगपरिणतद्रव्य  
 क्या आहारकमिभ शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है? इसका तात्पर्य  
 यह है कि यह आहारकमिभकायप्रयोग औदारिक के साथ आहारककी  
 मिश्रता होने पर होता है। जीव आहारकशरीरका त्यागकर जब  
 औदारिक शरीरको ग्रहण करता है तब यह होता है। अर्थात् आ-  
 हारक शरीरवाला जीव अपने कार्यको समाप्त करके पुनः औदारिक  
 शरीरको ग्रहण करने लगता है तब आहारककी प्रधानता रहती है  
 और औदारिक शरीरको ग्रहण करनेमें इसका व्यापार रहता है, इस

कायप्रयोग परित्यक्त द्रव्यं च ज्ञेयं द्रव्यं तु आहारक शरीरकायप्रयोग परित्यक्त द्रव्यं च ।  
 हे आहारक मिश्रशरीरकाय प्रयोगपरित्यक्त द्रव्यं च ? हे अमल शरीरकायप्रयोगपरित्यक्त द्रव्यं  
 च ? अर्थात् आहारक शरीरकायप्रयोग आहारक शरीरकी निष्पत्ति (रचना) यदा च यावत्  
 प्रवेशतु तदप्य आहारक मध्ये च त्वृत्ति यावत् च ते आहारक शरीरको व्यापार  
 (प्रवृत्ति) आहारक शरीरकी उत्पत्ति यावत् च यावत् च तेषां ते व्यापारमां ते समये  
 तेनी प्रधानता रहे च

कायप्रयोग परित्यक्त द्रव्यं तु आहारकमिभशरीर कायप्रयोग परित्यक्त द्रव्यं च ।  
 या प्रवेशतु तदप्य नीचे प्रमाणं च - या आहारकमिभकायप्रयोग औदारिकनी साथ  
 आहारकनी मिश्रता यदा ही यावत् च एव आहारक शरीरको त्याग करीने त्याग  
 औदारिक शरीरको ग्रहण करे च त्याग ज्ञेयुं चने च ज्ञेयते हे आहारक शरीरकाय एव  
 योजना करने पूरा करीने करीया औदारिकशरीरको ग्रहण करना चाहे च त्याग  
 आहारकनी प्रधानता रहे च, चने औदारिक ग्रहण कल्पानी तेनी प्रवृत्ति रहे च - ते

तावत् औदारिकेण सह मिश्रणमित्याशयः, एवं तदेव कायप्रयोगपरिणतं द्रव्यम् कर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? अत्र कर्मणशरीरकायप्रयोगो विग्रहगत्यापन्नस्य सर्वसंसारिणः, समुद्घातगतस्य केवलिनश्च तृतीय-चतुर्थ-पञ्चम-समयेषु भवति, तदुक्तम् - 'कर्मणशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च' इति । भगवानाह- 'गोयमा ! ओरोलियसरीरकायप्पओगपरिणए वा' जाव कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए वा' हे गौतम ! तत् कायप्रयोगपरिणत द्रव्यम् औदारिक

कारण जब्तक इसका सर्वथा परित्याग नहीं हो जाता है तबतक इसकी मिश्रता औदारिक शरीरके साथ रहती है । इससे वहाँ आहारक मिश्रकायप्रयोग जानना चाहिये । वही कायप्रयोगपरिणत द्रव्य क्या कर्मण शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है यहाँ पर कर्मण शरीरकाय प्रयोग विग्रहगति में समस्तसंसारी जीवोंको और समुद्घात करते हुए केवलज्ञानीको तीसरे, चौथे और पांचवे समय में होता है । कहा भी है-कर्मणशरीरयोगी चतुर्थके, पंचमे, तृतीये, च" । इन सब पूर्वोक्त प्रश्नोंके उत्तर में-कि कायप्रयोगपरिणत द्रव्य क्या औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है ? वैक्रिय शरीर कायप्रयोगपरिणत होता है ? वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है ? आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है ? आहारकमिश्रशरीर कायप्रयोगपरिणत होता है ? कर्मणशरीरकायप्रयोग परिणत होता है ? प्रभु अब गौतमसे कहते हैं, हे गौतम ! 'ओरोलियसरीरकायप्पओग

ओरलु न्यां सुधी तेना सर्वथा परित्याग थध नतो नथी त्यासुधी तेनी मिश्रता औदारिक शरीरनी साथे रहे छे आ परिस्थितिमां त्यां आहारकमिश्रकायप्रयोग समन्वये ओधमे ओन कायप्रयोगपरिणत द्रव्य शु कर्मणकायप्रयोग परिणत होय छे ? अही ओ वात ध्यानमा राभवो नेवी छे के कर्मणशरीरकाय प्रयोग विग्रहगतिमा समस्त संसारी ओयो द्वारा थाय छे अने समुद्घात केवलज्ञानी द्वारा त्रीण, चोथा अने पाचमा समयमा थाय छे कलु पलु छे के " कर्मणशरीरयोगी चतुर्थे, पंचमे तृतीये च " हवे गौतम स्वामीना पूर्वोक्त प्रश्नो इरीथी आपवामा आवे छे - हे भन्त ! कायप्रयोगपरिणत द्रव्य शु औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? के औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? के वैक्रिय शरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? के वैक्रिय मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? के आहारक शरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? के कर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणत होय छे ? आ प्रश्नोने उत्तर आपता महावीर प्रलु कहे छे के " गोयमा ! हे गौतम ! "ओरोलियसरीरकायप्पओगपरिणए वा, जाव कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए वा"

शरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, यावत् - औदारिकमिश्रशरीरकाय  
 प्रयोगपरिणत वा भवति, वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, वैक्रिय  
 मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत वा आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा, आहारक  
 मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत वा, कर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भव  
 तीति भावः, गौतमः पृच्छति - 'अइ ओराळियसरीरकायप्पओगपरिणए  
 किं एगिंदियओराळियसरीरकायप्पओगपरिणए एव जाव पचिंदियओराळिय  
 जाव परि०?' हे मदन्त ! यद् द्रव्यम् औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिण तत्  
 किम् एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? एवं-तयैष किं  
 यावत्-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ?

परिणए वा जाव कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए वा' कायप्रयोग परि  
 णत वह द्रव्य औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है, अथवा-  
 औदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है या वैक्रियशरीरकाय-  
 प्रयोगपरिणत होता है, वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है या  
 आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणत होता है। या आहारक मिश्र  
 शरीरकायप्रयोगपरिणत होता है। अथ गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा  
 पूछते हैं कि-'अइ ओराळियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदिय  
 ओराळिय सरीरकायप्पओगपरिणए एवं जाव पचिंदियओराळिय जाव  
 परिणए' हे मदन्त ! जो द्रव्य औदारिक शरीरकायप्रयोग परिणत होता  
 है यह क्या एकेन्द्रियजीवके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता

कायप्रयोगपरिणत त इय औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय ॐ औदारिक-  
 मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय ॐ वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय ॐ  
 वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय ॐ आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय ॐ  
 ॐ आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय ॐ अतः काम सुशरीरकायप्रयोगपरिणत  
 पणु होय ॐ

मौतम स्वामीने प्रश्न- अइ ओराळियसरीरकायप्पओगपरिणए एव जाव  
 पचिंदियओराळिय जाव परिणए? " ॐ मदन्त ! ये इय औदारिकशरीरकाय-  
 प्रयोगपरिणत होय ॐ ते शु त्रीन्द्रिय एवना औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत होय ॐ ?  
 ॐ द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय अतः चतुरिन्द्रिय एवना औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत होय ॐ ?  
 ॐ पचेन्द्रिय एवना औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत होय ॐ ?

महात्मीर प्रश्नुना उत्तर - " गायमा " हे मौतम ! " एगिंदियओराळिय  
 सरिरकायप्पयागपरिणए वा, पचिंदियजावपरिणए वा जावपचिंदिय जाव परिणए वा'  
 ॐ इय औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु परिणत होय ॐ, ते इय त्रीन्द्रिय एवना औदा-

पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? भगवानाह - 'गोयमा !  
एगिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए वा, वेइंदिय-जाव-परिणए वा,  
जाव पंचिंदिय जाव परिणए वा,' हे गौतम ! औदारिकशरीरकायप्रयोग-  
परिणत द्रव्यम् एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति,  
द्वीन्द्रिय-यावत्-औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा, यावत् - त्रीन्द्रिय -  
चतुरिन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा, पञ्चेन्द्रिय-यावत्-औदारिक-  
शरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति ? गौतमः पृच्छति - 'जइ एगिंदिय-  
ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए किं पुढविक्काइयएगिंदिय-जाव-परिणए,  
जाव वणस्सइकाइयएगिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए वा ?' हे  
भदन्त ! यद् द्रव्यम् एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं तत् किम्

है ? अथवा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव के औदारिक शरीर  
कायप्रयोग से परिणत होता है ? या पंचेन्द्रिय जीवके औदारिक  
शरीरकायप्रयोग से परिणत होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं-  
'गोयमा' हे गौतम ! 'एगिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए  
वा, वेइंदिय जाव परिणए वा, जाव पंचिंदिय जाव परिणए वा' जो  
द्रव्य औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है, वह द्रव्य एके-  
न्द्रिय जीवके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है या द्विन्द्रिय  
के औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय  
और पंचेन्द्रिय जीवके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता  
है । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ एगिंदियओरालिय-  
सरीरकायप्पओगपरिणए, किं पुढविक्काइयएगिंदियजाव परिणए, जाव  
वणस्सइकाइयएगिंदिय ओरालिय सरीरकायप्पओगपरिणए' हे भदन्त !  
जो द्रव्य एकेन्द्रिय जीवके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता  
है सो क्या वह पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवके औदारिक शरीरकाय-

रिक्कशरीरकायप्रयोगथी पणु परिणुत थाय छे, द्वीन्द्रिय ज्वना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी  
पणु परिणुत थाय छे, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अने पञ्चेन्द्रिय ज्वना औदारिकशरीरकाय  
प्रयोगथी पणु परिणुत थाय छे

गौतम स्वामीने प्रश्न - "जइ एगिंदिय ओरालियसरीरकायप्पओग-  
परिणए, किं पुढविक्काइय एगिंदिय जाव परिणए, जाव वणस्सइकाइय  
ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए ?" हे भदन्त ! जे द्रव्य एकेन्द्रिय ज्वना  
औदारिकशरीरकायप्रयोगथी परिणुत होय छे, ते थु पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय ज्वना

पृथिवीकायिकैकेन्द्रिय-यावत् औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा, यावत्-  
अपकायिक-तेजस्कायिक- वायुकायिक - घनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीर  
कायप्रयोगपरिणत वा भवति ? मगवानाह- ' गायमा ! पुढविकाइयर्गिदिय  
पयोग-जाव-परिणए वा, जाव षणस्सइकाइयर्गिदिय-जाव-परिणए वा '  
हे गौतम ! एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम् पृथिवीकायिकै  
केन्द्रिय यावत्-औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, यावत्-अपकायिक  
तेजस्कायिक-वायुकायिक-घनस्पतिकायिकैकेन्द्रिय यावत्-औदारिकशरीरकाय-  
प्रयोगपरिणत वा भवति, गौतमः पृच्छति- ' अइ पुढविकाइयर्गिदिय-  
ओरास्सियसरीर-जाव-परिणए किं सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए, वायर  
पुढविकाइय र्गिदिय जाव परिणए ? ' हे मदन्त ! यद् द्रव्यं पृथिवीकायिकै

प्रयोगसे परिणत होता है ? या यावत् अपकायिक, तेजस्कायिक, वायु  
कायिक, घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परि  
णत होता है ? उत्तरमें मनु कहते हैं ' गायमा ' हे गौतम ! ' पुढवि-  
काइय र्गिदियपयोग जाव परिणए वा जाव षणस्सइकाइय र्गिदिय  
जाव परिणए वा ' वह पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवके औदारिक शरी  
रकायप्रयोगसे भी परिणत होता है, यावत् अपकायिक, तेजस्कायिक,  
वायुकायिक, घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे  
भी परिणत होता है । अब गौतमस्वामी मनुसे ऐसा पूछते हैं कि  
अइ पुढविकाइय र्गिदियओरास्सियसरीरकाय परिणए किं सुहुम-  
पुढविकाइय जाव परिणए, वायरपुढविकाइय र्गिदिय जाव परिणए ' हे  
मदन्त ! जो द्रव्यं पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयो-

औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ? अथ अपकायिक तेजस्कायिक वायुकायिक  
अने घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियना औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ?

उत्तर - " गायमा " हे गौतम ! " पुढविकाइय र्गिदियपयोग जाव  
परिणए वा, जाव षणस्सइकाइय र्गिदिय जाव परिणए वा " ते द्रव्यं  
पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय एवना औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ? अने  
अपकायिक तेजस्कायिक वायुकायिक, घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगसे  
परिणत होय ?

गौतम स्वामीना अह- " अइ पुढविकाइय र्गिदिय ओरास्सियसरीर  
जाव परिणए, किं सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए, वायरपुढविकाइय  
र्गिदिय जाव परिणए ? ' हे मदन्त ! ते द्रव्यं पृथिवीकायिक एकेन्द्रियना औदारिक

केन्द्रियौदारिकशरीर-यवत्- कायप्रयोगपरिणत तत्किम् सूक्ष्मपृथिवीकायिक यावत्-एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति ? बादरपृथिवीकायिकै केन्द्रियौदारिक-यावत्- शरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! सुहुमपुढविकाइयएगिंदिय-जाव परिणए वा, वायरपुढविकाइय जाव परिणए वा' हे गौतम ! पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम् सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रिय यावत्-औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा बादरपृथिवीकायिक-यावत् एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, गौतमः पृच्छति- 'जइ सुहुमपुढविकाइय-जाव-परिणए किं पज्जत्सुहुमपुढवि-जाव-परिणए, अपज्जत्सुहुमपुढवि-जाव-परिणए?' हे भदन्त ! यद् द्रव्यं सूक्ष्मपृथिवीकायिक-यावत्-एकेन्द्रियौदारिकशरीर-

गसे परिणत होता है, वह क्या सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या बादरपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए वा' पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्य सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है और बादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी होता है । अब गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'जइ सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है वह क्या 'पज्जत्सुहुमपुढविजाव परिणए ? अपज्जत्सुहुमपुढवि

शरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे, ते शु सूक्ष्म पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे ? के भादर पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे

उत्तर- " गोयमा " हे गौतम ! " सुहुमपुढविकाइयं जाव परिणए वा, "

अथाहि पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी परिणत द्रव्य सूक्ष्मपृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी पण परिणत होय छे अने भादर पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी पण परिणत होय छे

गौतम स्वामीना प्रश्न - जइ सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए " हे भदन्त ! के द्रव्य सूक्ष्मपृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिक शरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे, ते शु "पज्जत्सुहुमपुढवि जाव परिणए ? अपज्जत्सुहुमपुढवि जाव परिणए ? "



पृथिवीकायिकैकेन्द्रिय-यावत् औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा, यावत्  
 अप्कायिक-तेजस्कायिक-वायुकायिक-घनस्पतिकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीर  
 कायप्रयोगपरिणत वा भवति ? भगवानाह- ' गायमा ! पुढबिकाइयर्गिदिय  
 पभोग-भाव-परिणए वा, भाव षणस्सइकाइयर्गिदिय-भाव-परिणए वा '  
 हे गौतम ! एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम् पृथिवीकायिकै  
 केन्द्रिय यावत्-औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, यावत्-अप्कायिक  
 तेजस्कायिक-वायुकायिक-घनस्पतिकायिकैकेन्द्रिय यावत्-औदारिकशरीरकाय  
 प्रयोगपरिणत वा भवति, गौतमः पृच्छति- ' अइ पुढबिकाइयर्गिदिय-  
 ओराखियसरीर-भाव-परिणए किं सुहुमपुढबिकाइय भाव परिणए, बापर  
 पुढबिकाइय र्गिदिय भाव परिणए ? ' हे भदन्त ! यद् द्रव्यं पृथिवीकायिकै

प्रयोगसे परिणत होता है ? या यावत् अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायु  
 कायिक, घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परि  
 णत होता है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'पुढबि  
 काइय र्गिदियपभोग जाव परिणए वा जाव षणस्सइकाइय र्गिदिय  
 भाव परिणए वा' यह पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवके औदारिक शरी  
 रकायप्रयोगसे भी परिणत होता है, यावत् अप्कायिक, तेजस्कायिक,  
 वायुकायिक, घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे  
 भी परिणत होता है । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पृच्छते हैं कि  
 अइ पुढबिकाइय र्गिदियओराखियसरीरकाय परिणए किं सुहुम  
 पुढबिकाइय जाव परिणए, बापरपुढबिकाइय र्गिदिय जाव परिणए' हे  
 भदन्त ! जो द्रव्यं पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयो-

ओदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ? अथ अप्कायिक तेजस्कायिक, वायुकायिक  
 अने घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ?

उत्तर - " गोयमा " हे गौतम ! "पुढबिकाइय र्गिदियपभोग भाव  
 परिणए वा, जाव षणस्सइकाइय र्गिदिय भाव परिणए वा" ते द्रव्यं  
 पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय एवमा औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ? अने  
 अप्कायिक तेजस्कायिक वायुकायिक अने घनस्पतिकायिक एकेन्द्रियके औदारिकशरीरकायप्रयोगसे  
 परिणत होय ?

गौतम स्वामीना प्रश्न- " अइ पुढबिकाइय र्गिदिय ओराखियसरीर  
 भाव परिणए, किं सुहुमपुढबिकाइय भाव परिणए, बापरपुढबिकाइय  
 र्गिदिय भाव परिणए ? हे भदन्त ! अ इत्ये पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक-

केन्द्रियौदारिकशरीर-यावत्-कायप्रयोगपरिणत तत्किम् सूक्ष्मपृथिवीकायिक यावत्-एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति ? वादरपृथिवीकायिकै केन्द्रियौदारिक-यावत्-शरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! सुहुमपुढविकाइयएगिदिय-जाव परिणए वा, वायरपुढविकाइय जाव परिणए वा' हे गौतम ! पृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोग-परिणत द्रव्यम् सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रिय यावत्-औदारिकशरीरकायप्रयोग-परिणतं वा वादरपृथिवीकायिक-यावत् एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोग-परिणत वा भवति, गौतमः पृच्छति- 'जइ सुहुमपुढविकाइय-जाव-परिणए किं पज्जत्तसुहुमपुढवि-जाव-परिणए, अपज्जत्तसुहुमपुढवि-जाव-परिणए?' हे भदन्त ! यद् द्रव्यं सूक्ष्मपृथिवीकायिक-यावत्-एकेन्द्रियौदारिकशरीर-

गसे परिणत होता है, वह क्या सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदा-रिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या वादरपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए वा' पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्य सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है और वादर पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी होता है । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है वह क्या 'पज्जत्तसुहुमपुढविजाव परिणए ? अपज्जत्तसुहुमपुढवि

शरीरकायप्रयोगथी परिणुत होय छे, ते शु सूक्ष्म पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीर-कायप्रयोगथी परिणुत होय छे ? छे भादर पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकाय-प्रयोगथी परिणुत होय छे

उत्तर- " गोयमा " हे गौतम ! " सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए वा, " धत्तादि पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी परिणुत द्रव्य सूक्ष्म-पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी पण परिणुत होय छे अने भादर पृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगथी पण परिणुत होय छे

गौतम स्वामीने प्रभु - जइ सुहुमपुढविकाइय जाव परिणए " हे भदन्त ! के द्रव्य सूक्ष्मपृथ्वीकायिके अकेन्द्रियना औदारिक शरीरकायप्रयोगथी परिणुत होय छे, ते शु -पज्जत्तसुहुमपुढवि जाव परिणए ? अपज्जत्तसुहुमपुढवि जाव परिणए ? "

कायप्रयोगपरिणतं तत् किम् पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवी यावत् कायिकैकेन्द्रियौ शारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवी - यावत्-कायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? भगवानाह - 'गोयमा ! पञ्चसुहृमपुढविक्काइय-जाव परिणए वा, अपञ्चसुहृमपुढविक्काइय-जाव-परिणए वा' हे गौतम ! सूक्ष्मपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यं पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक - यावत्-एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक-यावत्-एकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, 'एव वायरे वि' एवं सूक्ष्मपृथिवीकायिक-यावत्-परिणतद्रव्यवदेव वादरोऽपि, पर्याप्तकायप्रयोगपरिणतपृथिवीकायिकैकेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं चाऽपि द्रव्यं

जाव परिणए' पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है, या अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें प्रसुक्त होते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! पञ्चसुहृमपुढविक्काइयजाव परिणए वा, अपञ्चसुहृमपुढविक्काइय जाव परिणए वा' यह सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्यं पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है और अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे भी परिणत होता है । 'एव वायरे वि' सूक्ष्मपृथिवीकायिक यावत् परिणत द्रव्यकी तरह ही पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकन्द्रियके औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परि

पर्याप्त सूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत वाव ७ । ३ अ-पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत वाव ७ -

उत्तर - "गोयमा" हे गौतम ! "पञ्चसुहृमपुढविक्काइय जाव परिणए वा, अपञ्चसुहृमपुढविक्काइय जाव परिणए वा" ते सूक्ष्म पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिकशरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्यं पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत पञ्च देव ७ अने अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत पञ्च देव ७ "एव वायरे वि" अत्र प्रभावे आह पृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्यं पञ्च पर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत पञ्च देव ७, अने अपर्याप्तसूक्ष्मपृथिवीकायिक एकेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत पञ्च देव ७ "एवं जाव

प्रमेयचन्द्रिका टीका श.८ उ. १ सू० १३ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १७१

भवति, इत्यर्थः, 'एवं जाव वणस्सइकाइयाणं चउक्कओ भेदो' एवं पर्याप्तकापर्याप्तकसूक्ष्मवादरपृथिवीकायिकवदेव यावत् - अपकायिक - तेजस्कायिक - वायुकायिक - वनस्पतिकायिकानामपि प्रयोगपरिणतद्रव्यस्य चतुष्पकाः सूक्ष्म-वादर-पर्याप्तका-अपर्याप्तकरूपचतुष्प्रकारको भेदो विज्ञेयः, 'वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदियाणं दुयओ भेदो पज्जत्तगा य, अपज्जत्तगा य' द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय - चतुरिन्द्रियाणां प्रयोगपरिणतद्रव्यविषये द्विको द्विप्रकारको भेदः- पर्याप्तकाश्च, अपर्याप्तकाश्च, इति विज्ञेयम् गौतम पृच्छति - 'जइ पचिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए किं तिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए मणुस्सपंचिंदिय - जाव परिणए ? हे भदन्त ! यद् द्रव्य पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत तत् किं तिर्यग्योनिक-

णत भी द्रव्य होता है । 'एव जाव वणस्सइकाइयाणं चउक्कओ भेदो' पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिककी तरह ही यावत् अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक इन सबके भी प्रयोगसे परिणत द्रव्यके सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक एवं अपर्याप्तक रूप चार प्रकारके भेद जानना चाहिये । तथा 'वेइंदिय, तेइंदिय, चउरिंदियाणं दुयओ भेदो पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य' द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चौरिन्द्रिय इन जीवोंके प्रयोगसे परिणत द्रव्यके विषयमें पर्याप्तक अपर्याप्तकरूप दो भेद जानना चाहिये । अब गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'जइ पंचिंदिय ओरालिय सरीरकायप्पओगपरिणए किं तिरिक्खजोणियपंचिंदिय ओरालिय सरीरकायप्पओगपरिणए, मणुस्सपंचिंदिय जाव परिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य पंचेन्द्रिय जीवके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है वह क्या तिर्यग्योनिक

वणस्सइकाइयाणं चउक्कओ भेदो" पर्याप्तक, अपर्याप्तक, सूक्ष्म अने वादर पृथ्वीकायिकी जेम अ अपकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिकना प्रयोगथी परिणत द्रव्यना पणु सूक्ष्म, वादर, पर्याप्तक अने अपर्याप्तक इप थार थार प्रकारना लेट समज्जवा तथा " वेइंदिय, तेइंदिय, चउरिंदियाणं दुयओ भेदो पज्जत्तगा य अपज्जत्तगा य " द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय श्रवणा प्रयोगथी परिणत द्रव्यना विषयमा पणु पर्याप्तक अने अपर्याप्तकइप अण्णे लेट समज्जवा

गौतम स्वामीने प्रश्न- "जइ पंचिंदिय ओरालिय सरीरकायप्पओगपरिणए किं तिरिक्खजोणियपंचिंदिय ओरालिय सरीरकायप्पओगपरिणए, मणुरस-पंचिंदिय जाव परिणए ?" हे-भदन्त ! जे द्रव्य पंचेन्द्रिय श्रवणा औदारिकशरीर-

पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? मनुष्यपञ्चेन्द्रिय - यावत् औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति ? मगधानाह - 'गोयमा ! तिरिक्त्वजोणिय - जाव परिणए वा मणुस्सपंचिदिय जाव परिणए वा हे गौतम ! पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यं तिर्यग्योनिक यावत् - पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, मनुष्यपञ्चेन्द्रिय-यावत् औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, गौतमः पृच्छति - 'अइ तिरिक्त्वजोणिय - जाव परिणए किं जस्यरतिरिक्त्वजोणिय-जाव परिणए वा, यस्सपर०, स्वइपर० एष चउक्कओ भेदो जाव स्वइयराण' हे भदन्त ! यद् द्रव्य तिर्यग्योनिक - यावत्-पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति ? स्यस्वचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतम् ?

पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? या मनुष्यपञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें मनु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'तिरिक्त्वजोणिय जाव परिणए वा मणुस्सपंचिदिय जाव परिणए वा' तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है, तथा मनुष्यपञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'अइ तिरिक्त्वजोणिय जाव परिणए किं जस्यरतिरिक्त्वजोणिय जाव परिणए वा यस्सपर०, स्वइपर० एष चउक्कओ भेदो जाव स्वइयराण' हे भदन्त ! जो द्रव्य तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है, वह क्या अलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता

शायप्रयोगधी परिक्वत होय ? ते तु तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीरकाय प्रयोगधी परिक्वत होय ? हे मनुष्यना औदारिक शरीरकायप्रयोगधी परिक्वत होय ?

उत्तर- " गोयमा " हे गौतम ! " तिरिक्त्वजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपंचिदिय जाव परिणए वा " पञ्चेन्द्रिय लुपना औदारिक शरीरप्रयोगधी परिक्वत हे वा तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय लुपना औदारिक शरीरकायप्रयोगधी पक्ख परिक्वत होय ? अने मनु वा पञ्चेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोगधी पक्ख परिक्वत होय ?

गौतम स्वामीने अह- " अइ तिरिक्त्वजोणिय जाव परिणए किं जस्यरतिरिक्त्वजोणिय जाव परिणए वा यस्सपर०, स्वइपर० एष चउक्कओ भेदो जाव स्वइयराण " हे भदन्त । ये द्रव्य तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियना औदारिकशरीरकाय प्रयोगधी परिक्वत होय, ते तु अलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियना औदारिकशरीरकाय

खेचरतिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ?

अत्र तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतद्रव्यस्य जलचर - स्थलचर - खेचर - तिर्यग्योनिकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणामविषयकं भगवत् उत्तरं स्वयमूहनीयम्, एवं चतुष्को भेदः समूर्च्छिम-गर्भज-पर्याप्तका-पर्याप्तकरूपचतुष्प्रकारको भेदो - यावत् -जलचर-स्थलचर-खेचराणां पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां बोध्यः । गौतमः पृच्छति-‘जइ मणुस्स-

है ? या स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? अथवा खेचरतिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? इस विषयमें प्रभुका उत्तर स्वयं अपने आप जान लेना चाहिये अर्थात् जो द्रव्य तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायके प्रयोगसे परिणत होता है वह जलचर, स्थलचर और खेचर इनके औदारिक शरीरकायके प्रयोगसे भी परिणत होता है । इसी तरहसे समूर्च्छिम, गर्भज, पर्याप्तक और अपर्याप्तकरूप चार प्रकारके भेद जलचर, स्थलचर, खेचर इन तिर्यच पञ्चेन्द्रियोके जानना चाहिये । तात्पर्य यह है कि ये तीनों प्रकारके तिर्यच समूर्च्छिम और गर्भज होते हैं । इनका शरीर औदारिक होता है । अतः जो द्रव्य तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियोके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है वह गर्भज एव समूर्च्छिम पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे भी परिणत

प्रयोग्थी परिणत होय छे ? ३ स्थलचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय औदारिकशरीरकायप्रयोग्थी परिणत होय छे ? ३ जेचर तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियना औदारिकशरीरकायप्रयोग्थी परिणत होय छे ?

उत्तर- जे द्रव्य तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रियना औदारिकशरीरकाय प्रयोग्थी परिणत होय छे, ते जलचर, स्थलचर अने जेचर, जे तरेणना औदारिकशरीरकायप्रयोग परिणत पणु होय छे

जेण प्रमाणे जलचर, स्थलचर अने जेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक एवना समूर्च्छिम, गर्भज पर्याप्तक अने अपर्याप्तकरूप चार प्रकारना लेद समजवा आकथननु तात्पर्य जे छे जे तरे प्रकाणा तिर्यग्य एवना समूर्च्छित अने गर्भज होय छे तेमना शरीर औदारिक होय छे तथी जे द्रव्य तिर्यग्योनिक पञ्चेन्द्रिय एवना औदारिक शरीरकायप्रयोग्थी परिणत होय छे, ते गर्भज अने समूर्च्छिम पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक

पचिदिय-जाव - परिणए किं समुच्छिममणुस्सपंचिदिय - जाव - परिणए,  
 गमवक तियमणुस्स-जाव-परिणए ?' हे भदन्त यद् द्रव्यं मनुप्यपचेन्द्रिय  
 यावत् औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत तत् किं समुच्छिममनुप्यपचेन्द्रिय-  
 यावत् - औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? गर्भव्युत्क्रातिक  
 मनुप्य-यावत्-पचेन्द्रियोदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? भगवानाह-  
 'गोयमा' दासुवि' हे गौतम ! मनुप्यपचेन्द्रियोदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत  
 द्रव्य द्वयारपि समुच्छिममनुप्य यावत्-परिणतमपि, गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुप्य-  
 यावत् परिणतेषापि भवति, गौतमः पृच्छति- 'जइ गमवक तियमणुस्स-जाव

होता है ऐसा जानना चाहिये । अथ गौतमस्वामी प्रभुसे पूछते हैं  
 'अइ मणुस्सपचिदिय जाव परिणए किं समुच्छिम मणुस्स पचिदिय  
 जाव परिणए, गमवक तियमणुस्स जाव परिणए' इ भदन्त ! जो  
 द्रव्य मनुप्यपचेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होते हैं  
 ये क्या समुच्छिम मनुप्यपचेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे  
 परिणत होते हैं ? या गर्भवज मनुप्य पचेन्द्रियके औदारिक शरीर  
 कायप्रयोगसे परिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा'  
 हे गौतम ! 'दासु वि मनुप्यपंचेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोग  
 से परिणत द्रव्य समुच्छिम मनुप्यपचेन्द्रियके औदारिक शरीरकाय  
 प्रयोगसे भी परिणत होते हैं और गर्भवज मनुप्य पचेन्द्रियके औदा  
 रिक शरीरकाय प्रयोगसे भी परिणत जाते हैं । अथ गौतमस्वामी  
 प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ गमवक तियमणुस्स जाव परिणए किं

तिवंचेदिनिउ पचिदिय अथवा औदारिक शरीरकायप्रयोगेण पण परिणत देव उ  
 जेम समवत्तु

गौतम स्वामीना प्रभ- म मणुस्स पचिदिय जाव परिणए किं  
 समुच्छिम मणुस्सपचिदिा जाव परिणए, गमवक तिय मणुस्स जाव परिणए ?'  
 दे कएत्ता । ? इय मनुप्य पय इयत्ता औदारिक शरीरकायप्रयोगेण ॥ पचि एव देव उ ते  
 इ नमचिउम मनुप्य पचेन्द्रिय । अइरिउ शरीरकाय प्रयोगेण परिणत देव उ । इ  
 नमव मनुप्य पचेन्द्रियत्ता औदारिक का शरीरकायप्रयोगेण ॥ परिणत देव उ ।

उत्तर- " गायमा " हे गौतम ! ' दासु वि ' मनुप्य पचेन्द्रिय । औदारिक  
 शरीरकायसे परिणत द्रव्य समुच्छिम मनुप्यपचेन्द्रिय ना औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत  
 पण देव उ अथ गमव मनुप्यपचेन्द्रिय औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणत पण देव उ ।

गौतम स्वामीने प्रभ- " जइ गमवक तिय मणुस्स जाव परिणए किं

प्रमेयचन्द्रिका टीका श. ८ उ. १ सू. १३ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १७५

परिणए किं पञ्जत्तगवभवक्कतिय-जाव-परिणए, अपञ्जत्तगवभवक्कतियमणुस्स-  
पंचिंदियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए ?' हे भदन्त ! यद् द्रव्यं  
गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्य - यावत् - पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं  
भवति तत् किं पर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिक - यावत् - मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिक-  
शरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? अपर्याप्तकगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रि-  
यौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? भगवानाह- ' गोयमा ! पञ्जत्तगवभ-  
वक्कतिय-जाव-परिणए वा, अपञ्जत्तगवभवक्कतिय जाव-परिणए-वा, हे गौतम !  
गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यं पर्याप्तकगर्भ-  
व्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, अपर्याप्तक-  
गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, इत्या-  
शयः । इति प्रथमो दण्डकः ॥ सू० १३ ॥

पञ्जत्तगवभवक्कतिय जाव परिणए, अपञ्जत्तगवभवक्कतिय मणुस्स पंचिं-  
दियओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्यं गर्भव्यु-  
त्क्रान्तिक गर्भज मनुष्यपञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परि-  
णत होता है, वह द्रव्य क्या पर्याप्तक गर्भजमनुष्य पञ्चेन्द्रियके औदा-  
रिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या अपर्याप्तक गर्भज मनु-  
ष्य पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें  
प्रभु कहते हैं ' गोयमा ' हे गौतम ! ' पञ्जत्तगवभवक्कतियजावपरिणए  
वा, अपञ्जत्तगवभवक्कतिय जाव परिणए वा' गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियके  
औदारिक शरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्य पर्याप्तक गर्भजमनुष्य पञ्चे-  
न्द्रियके औदारिक शरीरकाय प्रयोगसे भी परिणत होता है और  
अपर्याप्तक गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियके औदारिक शरीरकायप्रयोगसे भी  
परिणत होता है । यह प्रथमदण्डक है ॥ सू० १३ ॥

पञ्जत्तगवभवक्कतिय जाव परिणए, अपञ्जत्तगवभवक्कतिय मणुस्स पंचिंदिय  
ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए ? हे भदन्त ! जे द्रव्यं गर्भव्युत्क्रान्तिक ( गर्भज )  
मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे, ते द्रव्यं शुं पर्याप्तक  
गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे ? के अपर्याप्तक  
गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिक शरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे ?

उत्तर- " गोयमा " हे गौतम ! " पञ्जत्तगवभवक्कतिय जाव परिणए  
वा, अपञ्जत्तगवभवक्कतिय जाव परिणए वा " गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिक-  
शरीरकायप्रयोगथी परिणत द्रव्यं पर्याप्तक गर्भज मनुष्य पञ्चेन्द्रियना औदारिकशरीरकाय-



गौतमो मिश्रद्वारमाभित्य पृच्छति- 'जइ ओरासिय' इत्यादि ।

मूळम् - जइ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए, बेइदिय-जाव परिणए जाव पचिंदियओरालिय जाव परिणए ? गोयमा ! एगिंदियओरालिय एव जहा ओरालियसरीरकायप्पओगपरिणए ण आलावगो भणिओो तथा ओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणएण वि आलावगो भाणियधो, नवर वायरवाउक्काइयगब्भवक्कतियपचिंदियतिरिक्खजोणियगब्भवक्कतियमणुस्साण, एए-सि णं पज्जत्तापज्जत्तगाण, सेसाण अपज्जत्तगाणर ॥ सू १४ ॥

छाया-यदि औदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत किम् एकेन्द्रियौदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतम्, द्वीन्द्रिय यावत् परिणत-यावत्-पञ्चेन्द्रियौदा

'जइ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए' इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(जइ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदिय ओरालिय मीसासरीरकायप्पओगपरिणए, बेइ यजाव परिणए जाव पचिंदिय ओरालिय जाव परिणए) हे भदन्त ! जो यह एक द्रव्य औदारिक मिश्रशरीर कायप्रयोगपरिणत होता है सो क्या वह एकेन्द्रियके औदारिक मिश्रशरीरकाय प्रयोगसेपरिणत होता है ? या बेइन्द्रियके औदारिक मिश्रशरीरकाय प्रयोगसेपरिणत होता है ? या यावत् पंचेन्द्रियके औदारिक मिश्र शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? ( गोयमा )

प्रश्नोत्तरात् पञ्च परिणत होय छे, अने अपर्णात्तक सत्त्व अनुभूय पञ्चेन्द्रियता औदारिक शरीरकायप्रयोगात् पञ्च परिणत होय छे आ प्रभवे पदेसु इत्थं समञ्जसु ॥ सू. १३ ॥

“ जइ ओरासिय मीसा सरीरकायप्पओगपरिणए ” इत्यादि-

सूत्रार्थ - ( जइ ओरालिय मीसा सरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय ओरालिय मीसासरीरकायप्पओगपरिणए, बेइदिय जाव परिणए, जाव पचिंदिय ओरालिय जाव परिणए ? ) हे भदन्त ! जो ते जोक द्रव्य औदारिक मिश्रशरीरकाय-प्रयोगपरिणत होय छे, सो ते जोकेन्द्रियता औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोगात् परिणत होय छे ? के द्वीन्द्रियता औदारिक मिश्रकायप्रयोगात् परिणत होय छे ? के पञ्चेन्द्रियत्वतया एतेना औदारिक मिश्रशरीरकाय प्रयोगात् परिणत होय छे ?

रिक-यावत् परिणतम् ? गौतम ! एकेन्द्रियौदारिक० एवं यथा औदारिक-शरीरकायप्रयोगपरिणतेन आलापको भणितस्तथा औदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोग-परिणतेनापि आलापको भणितव्यः, नवरं वादरवायुकायिक-गर्भव्युत्क्रान्तिक-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक - गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्याणाम् एतेषां खलु पर्याप्तका-पर्याप्तकानाम्, शेषाणाम् अपर्याप्तकानाम् २ ॥ सू० १४ ॥

टीका-‘जइ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियओरालियमीसा हे गौतम ! (एगिंदिय ओरालिय एवं जहा ओरालिय सरीरकायप्पओग-परिणएणं आलावगो भणिओ- तहा ओरालिय मीसा सरीरकायप्पओग-परिणए वि-आलावगो भाणियव्वो-नवरं वायरवाउक्काइय गवभवक्कं तिय पंचिंदिय तिरिक्खजोणिय गवभवक्कंतिय मणुस्साणं एएसिणं पज्जत्ता पज्जत्तगाणं सेसाणं अपज्जत्तगाणं) औदारिक मिश्र शरीरकाय प्रयोगपरिणत द्रव्य एकेन्द्रिय औदारिक-मिश्र शरीरकायप्रयोगपरिणत भी होता है । जैसा औदारिक शरीरकाय प्रयोगपरिणतका आलापक कहा है, उसी तरह से औदारिक मिश्र शरीरकायप्रयोगपरिणतका भी आलापक कहना चाहिये । परन्तु विशेषता यह है कि औदारिक मिश्र कायप्रयोगपरिणत का आलापक वादर वायुकायिक, गर्भजपंचेन्द्रिय तिर्यञ्च, और गर्भजमनुष्य पर्याप्त अपर्याप्त इनमें और इनके सिवाय बाकीके अपर्याप्त जीवोंमें कहना चाहिये ।

टीकार्थ - इस सूत्रद्वारा गौतमने मिश्रद्वारको लेकर प्रभुसे ऐसा

( गौतम ! ) हे गौतम ! (एगिंदिय ओरालिय एवं जहा ओरालिय-सरीरकायप्पओगपरिणएणं आलावगो भणिओ -तहा ओरालियमीसासरीर-कायप्पओगपरिणएण वि - आलावगो भाणियव्वो - नवरं वायरवाउक्काइय गवभवक्कंतिय पंचिंदियतिरिक्खजोणिय गवभवक्कंतिय मणुस्साणं एएसिणं पज्जत्तापज्जत्तगाणं सेसाणं अपज्जत्तगाणं) औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य एकेन्द्रिय औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोग परिणत पणु होय छे औदारिक शरीरकायप्रयोग परिणतना विषे जेवा अलापक कइया छे, जेकर प्रकृति आलापक औदारिक मिश्रशरीर-कायप्रयोगपरिणतना विषे पणु कइवा जेठये पणु अही जेठली जे विशेषता छे छे औदारिक मिश्रकायपरिणतना आलापक वादर वायुकायिक, गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अने गर्भज मनुष्य, आ पर्याप्त छेवाभा कइवा जेठये अने ते सिवायना अपर्याप्त छेवाभा कइवा जेठये

टीकार्थ- आ सूत्रद्वारा गौतम स्वामीजे मिश्रद्वारने अनुलक्षीने महावीर प्रभुने

सरीरकायप्पभोगपरिणए वेइदिय-जाव-परिणए -जाव पंभिदियओरासिय जाव-परिणए ?' हे भदन्त ! यद् द्रव्यम् औदारिकमिभशरीरकायप्रयोगपरिणतत्त किम् एकेन्द्रियपृथिवीकायिकाद्यौदारिकमिभशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? द्वीन्द्रिय-यावत्-औदारिकमिभशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? यावत् - श्रीन्द्रिय - चतुरिन्द्रियौदारिकमिभशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? पञ्चेन्द्रियौदारिक-यावत्-मिभशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? मगधानाह- 'गोयमा ! एगिदियओरासिय एव जहा ओरासिय सरीरकायप्पभोगपरिणएण आलावगो मणिओतहा आरासियमीसासरीरकायप्पभोगपरिणएणवि आलावगो माणियब्बो' हे गौतम ! औदारिकमिभशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम्

पूजा है कि- 'अइ ओरासिय मीसा सरीरकायप्पभोगपरिणए कि एगिदिय ओरासिय मीसा सरीरकायप्पभोगपरिणए, वेइदिय जाव परिणए जाव पंभिदिय ओरासिय जाव परिणए' हे भदन्त ! ओ द्रव्य औदारिक मिभ शरीर कायप्रयोगसे परिणत होता है वह क्या एकेन्द्रिय पृथिवीकायिकादिके औदारिक मिभ शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या द्वीन्द्रियके यावत्-औदारिक मिभ शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? या श्रीन्द्रियके या चोइन्द्रियके औदारिक मिभ शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? या पञ्चेन्द्रियके औदारिक मिभ शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगिदिय ओरासिय एव जहा ओरासिय सरीरकायप्पभोगपरिणएण आलावगो भणिओ, तहा ओरासिय मीसा सरीरकायप्पभोगपरिणएण वि आलावगो माणियब्बो' हे गौतम !

आ प्रभावे प्रश्न पूछे थे- "जइ ओरासिय मीसासरीरकायप्पभोगपरिणए, कि एगिदियओरासियमीसासरीरकायप्पभोगपरिणए, वेइदिय जाव परिणए, जाव पंभिदिय ओरासिय जाव परिणए ?" हे भदन्त ! ये द्रव्य औदारिक मिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ते तु ओकेन्द्रिय पृथिवीकायिकादि औदारिक मिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ? द्वीन्द्रिय-यावत्-औदारिक मिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ? श्रीन्द्रिय-यावत्-चतुरिन्द्रिय-औदारिक मिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ? पञ्चेन्द्रिय-औदारिक मिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ?

उत्तर - "गोयमा" हे गौतम ! "एगिदियओरासिय एव जहा आरासियसरीरकायप्पभोगपरिणएण आलावगो मणिओ, तहा आरासिय मीसासरीरकायप्पभोगपरिणएण वि आलावगो माणियब्बो" औदारिक मिभ

एकेन्द्रियौदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति, एवं द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियौदारिकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति, तथाच- यथा औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणतेन आलापको भणितः, तथा औदारिक-मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतेनापि आलापको भणितव्यः, किन्तु- 'नवरं वाय-वा उक्ताइयगन्भवक तियपंचिदियतिरिक्खजोगियगन्भवक तियमणुस्साणं एएसि णं पज्जत्तापज्जत्तगाणं, सेसाणं अपज्जत्तगाणं' नवरं विशेषस्तु औदारिक-मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतस्यालापको, वादरवायुकायिक - गर्भव्युत्क्रान्तिक-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्याणाम् एतेषां त्रयाणां पर्याप्तका-पर्याप्तकानां वक्तव्यः, शेषाणाम् एतत्त्रिनयमिन्नानां जीवानां तु अपर्याप्तका-नामेव वक्तव्य इत्याशयः, तथाच यथा औदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणते

औदारिक मिश्र शरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य एकेन्द्रिय औदारिक मिश्र शरीरकायप्रयोगपरिणतभी होता है एवं द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रियके औदारिक मिश्र शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है। तथा च- जिस प्रकारसे औदारिक शरीरकायप्रयोगपरिणतको लेकर आलापक कहा गया है, उन्ही तरहसे औदारिक मिश्र शरीरकायप्रयोग परिणतके साथ भी आलापक कहना चाहिये। 'नवरं०' किन्तु विशेषता यह है कि औदारिक मिश्र शरीर कायप्रयोगपरिणत का आलापक, वादर वायुकायिक, गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक, और गर्भज मनुष्य इन तीनोंके पर्याप्तक और अपर्याप्तकों के कहना चाहिये तथा इन तीनों से भिन्न जीवों के ही औदारिक मिश्र शरीरकाय प्रयोग परिणत का आलापक कहना चाहिये। तथा जैसे औदारिक शरीरकाय प्रयोग से परिणत पुद्गल द्रव्यमें सूक्ष्मपृथि-

शरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य ऐकेन्द्रिय औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत पणु होय छे, अने द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रियना औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोग परिणत पणु होय छे जे रीते औदारिक शरीरकायप्रयोगने अनुलक्षीने आलापक कहेवाभा आवेल छे, अने प्रमाणे औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोग परिणतनी साथे पणु आलापक कहेवा लेख्ये "नवरं" परन्तु विशेषता ऐटलीय छे के औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोग परिणतना आलापक वादर वायुकायिक, गर्भज पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक अने गर्भज मनुष्य, आ त्रये पर्याप्तक अने अपर्याप्तको विषे कहेवा लेख्ये तथा जे त्रये प्रकारना ज्योसिवायना पाडीना अपर्याप्तकोना जे औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोग परिणतने आलापक कहेवा लेख्ये तथा जेरी रीते औदारिक शरीरकायप्रयोगथी परिणत पुद्गल द्रव्यमा सूक्ष्म-

सरीरकायप्पभागपरिणए षेइदिय-जाव-परिणए -जाव पंदिदियओरालिय जाव परिणए ?' हे मवन्त ! यद् द्रव्यम् औदारिकमिअशरीरकायप्रयोगपरिणत तत् किम् एकेन्द्रियपृथिवीकायिकाद्यौदारिकमिअशरीरकायप्रयोगपरिणत मवति ? द्वीन्द्रिय-यावत्-औदारिकमिअशरीरकायप्रयोगपरिणत मवति ? यावत् - त्रीन्द्रिय - चतुरिन्द्रियौदारिकमिअशरीरकायप्रयोगपरिणत मवति ? पञ्चेन्द्रियौदारिक-यावत्-मिअशरीरकायप्रयोगपरिणत मवति ? मगधानाह- 'गोयमा ! एगिंदियओरालिय एव जहा ओरालिय सरीरकायप्पभागपरिणएण आलावगो मणिओतहा ओरालियमीसासरीरकायप्पभागपरिणएणचि आलावगो माणियब्बो' हे गौतम ! औदारिकमिअशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम्

पूछा है कि- 'जइ ओरालिय मीसा सरीरकायप्पभागपरिणए कि एगिंदिय ओरालिय मीसा सरीरकायप्पभागपरिणए, षेइदिय जाव परिणए जाव पंदिदिय ओरालिय जाव परिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य औदारिक मिअ शरीर कायप्रयोगसे परिणत होता है वह क्या एकेन्द्रिय पृथिवीकायिकादिके औदारिक मिअ शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या द्वीन्द्रियके यावत्-औदारिक मिअ शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? या त्रीन्द्रियके या चोइन्द्रियके औदारिक मिअ शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? या पञ्चेन्द्रियके औदारिक मिअ शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगिंदिय ओरालिय एव जहा ओरालिय सरीरकायप्पभागपरिणएण आलावगो मणिओ, तहा ओरालिय मीसा सरीरकायप्पभागपरिणएण चि आलावगो माणियब्बो' हे गौतम !

आ प्रभावे प्रश्न पूछे थे- "जइ ओरालिय मीसासरीरकायप्पभागपरिणए, कि एगिंदियभारालियमीसासरीरकायप्पभागपरिणए, षेइदिय जाव परिणए, जाव पंदिदिय ओरालिय जाव परिणए ?" हे भदन्त ! ये द्रव्य औदारिक मिअशरीरकायप्रयोगसे परिणत था ? ते श्च कोन्द्रिय पृथिवीकायिकादिके अति एवेण औदारिक मिअशरीरकायप्रयोगसे परिणत था ? ३ द्वीन्द्रियना औदारिक मिअशरीरकायप्रयोगसे परिणत था ? ४ त्रीन्द्रियना, हे चतुरिन्द्रियना औदारिक मिअशरीरकायप्रयोगसे परिणत था ? ५ पञ्चेन्द्रियना औदारिकमिअशरीरकायप्रयोगसे परिणत था ?

उत्तर - 'गोयमा' हे गौतम ! "एगिंदियभारालिय एव जहा भारालियसरीरकायप्पभागपरिणएण आलावगो मणिओ, तहा भारालिय मामासरीरकायप्पभागपरिणएण चि आलावगो माणियब्बो" औदारिक मिअ

मूलम्—जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदिय-वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए जाव-पंचिंदियवेउव्वियसरीर-जाव परिणए ? गोयसा ! एगिंदिय-जाव-परिणए वा, पंचिंदिय-जाव परिणए वा । जइ एगिंदिय-जाव-परिणए किं वाउक्काइयएगिंदिय-जाव-परिणए, अवाउक्काइयएगिंदिय-जाव - परिणए ? गोयसा ! वाउक्काइयएगिंदिय-जाव-परिणए, नो अवाउक्काइय-जाव-परिणए । एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्वियसरीरं भणियं तथाइहवि, भाणियवं, जाव पज्जत्तसव्वट्टसिद्ध-अणुत्तरोववाइयकप्पाईयवेमाणियदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरकाय-प्पओगपरिणए वा, अपज्जत्तसव्वट्टसिद्ध० कायप्पओगपरिणए वा ॥ सू० १५ ॥

छाया-यदि वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणतं किम् एकेन्द्रियवैक्रियशरीरकाय-प्रयोगपरिणतं यावत् पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीर यावत्-परिणतम् ? गौतम ! एकेन्द्रिय-

‘जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियवेउ-व्वियसरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियवेउव्वियसरीर जाव परिणए) हे भदन्त ! जो द्रव्य वैक्रियशरीर कायप्रयोगसे परिणत कहा गया है, वह क्या एकेन्द्रियके वैक्रिय शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता या यावत् पञ्चेन्द्रियके वैक्रियशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? (गोयसा) हे गौतम ! (एगिंदिय जाव परिणए वा) वह एकेन्द्रियके

“ जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए ” इत्यादि—

सूत्रार्थ— जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय वेउव्विय सरीर जाव परिणए ? ) हे भदन्त ! जे द्रव्य वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे, ते शु अेकेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे ? छे पञ्चेन्द्रिय पर्यन्तना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे ? (गोयसा ! ) हे गौतम ! (एगिंदिय जाव परिणए वा, पंचिंदिय जाव परिणएवा) ते द्रव्य अेकेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी

पुद्गलद्रव्ये सूक्ष्मपृथिवीकायिकादीन् अपश्य आलापक उक्तस्तथैवाँदारिक  
मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतेऽपि पुद्गलद्रव्ये आलापको वक्तव्याः, किन्तु अय  
मभविशेषः- तत्र सर्वेऽपि सूक्ष्मपृथिवीकायिकादयः पर्याप्तकायसात्त्विकोमय  
विशेषमविशिष्टाः उक्ताः, मभ तु वादरवायुकायिका, गर्भजपञ्चेन्द्रिय  
तिर्यग्यानिष्ठाः गर्भजमनुष्याश्चैव पर्याप्तकायसात्त्विकविशेषणविशिष्टा वक्तव्याः,  
शेषास्तु केवलम् अपर्याप्तकविशेषणविशिष्टा एव वाच्या, वादरवायुकायि  
कादीनां पर्याप्तकापर्याप्तकोमयावस्थायामेव वैक्रियारम्भतः औदारिकमिश्र  
शरीरकायप्रयोगोपलब्धे, शंषणान्तु अपर्याप्तकावस्थायामेवेति कलितम् ।  
द्वितीयो दण्डकः २ ॥ सू० १४ ॥

षीकायिक आदिकोंकी अपेक्षा लेकरके आलापक-पाठ कहा गया है  
उम्मी प्रकारसे औदारिक मिश्रशरीर कायप्रयोगसे परिणत पुद्गल  
द्रव्यमें भी आलापक कहना चाहिये । परन्तु इसमें यह विशेषता  
है कि वहाँपर मयही पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक आदि  
जीव कहे गये हैं और यहाँ पर वादरवायुकायिक, गर्भज पञ्चेन्द्रिय  
तिर्यग्योनिक और गर्भज मनुष्य य ही तीनों पर्याप्तक और अपर्या  
प्तक गृहीत किये गये हैं, और बाकीके केवल अपर्याप्तक ही गृहीत  
किये गये हैं क्योंकि वादरवायुकायिक आदिकोंमें दोनों अवस्थाओंमें  
पर्याप्तक अपर्याप्तक दृश्यां ही वैक्रियशरीरके आरंभ होनेसे औदा  
रिक मिश्रशरीर कायप्रयोगकी उपलब्धि होती है । परन्तु बाकीके  
जीवोंमें केवल अपर्याप्तकदृश्यां ही औदारिक मिश्र शरीरकायप्रयो  
गकी उपलब्धि होती है । द्वितीय दण्डक ॥ सू० १४ ॥

पुद्गलद्रव्ये आदिने विवे आलापक - पाठ कहेवाला आवेक है जेन प्रभावे औदारिक  
मिश्रशरीरप्रयोगया परिवर्तन पुद्गल द्रव्यने पक्ष आलापक कहेवे जेहमे परतु अदी  
ते आलापकया ओइलीन विशेषता है के तर्ज जहाँ पर्याप्तक, अपर्याप्तक सूक्ष्मपृथिवीकायिक  
आदि शत्रुनु कथन कयुं है पक्ष अदी वादर वायुकायिक गर्भज पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक,  
जने अकन मनुष्य आ त्रक्ष प्रकारन्य शत्रुने न पर्याप्तक अपर्याप्तक अद्वय कथनामां  
अन्ना है जादीना जथा शत्रुने कहेत अपर्याप्तक न अद्वय कथनामां आवेक है तेनु  
कारण्य जे है वादर वायुकायिक आदिनिभा जने अवस्थाओंमां (पर्याप्तक जने  
अपर्याप्तक दृश्यामां) न वैक्रियशरीरने आरंभ व साथी औदारिक मिश्रशरीरकायप्रयोगनी  
उपलब्धि माय है परन्तु आदीना शत्रुने कहेत अपर्याप्तक दृश्यामां न औदारिक  
मिश्रशरीरकायप्रयोगनी उपलब्धि (प्राप्ति) माय है जील दंडक संपूर्ण ॥ सू० १४ ॥

टीका-गौतमः पृच्छति-‘जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदिय वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियवेउव्वियसरीर-जाव-परिणए हे भदन्त ! यद् द्रव्यं वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणतं तत् किम् एकेन्द्रियवैक्रिय शरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? यावत्-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय वैक्रियशरीर यावत्-कायप्रयोगपरिणतं भवति ? भगवानाह-‘गोयमा ! एगिंदिय

वैसा ही यहां पर भी कहना चाहिये । (जाव पज्जत्त सव्वट्टसिद्धि अणुत्तरोववाइय कप्पाईय वेमाणिय देवपंचिंदिय वेउव्विय सरीरकायप्पओगपरिणए वा, अपज्जत्त सव्वट्टसिद्धि० कायप्पओगपरिणए वा वैक्रियशरीर कायप्रयोगसे परिणत वह द्रव्य यावत् पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पंचेन्द्रियके वैक्रिय शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है और अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पंचेन्द्रिय के वैक्रिय शरीर प्रयोगपरिणत भी होता है ।

टीकार्थ- गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘ जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियवेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियवेउव्विय सरीर जाव परिणए’ हे भदन्त ! जो पुद्गल द्रव्य पहिले वैक्रिय शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता कहा गया सो क्या वह एकेन्द्रिय जीव के वैक्रिय शरीर कायप्रयोग से परिणत होता है ? या यावत्-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीव के वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग से परिणत होता है ? इसके उत्तरमें :

आहो पशु षडेषु जेधये (जाव पज्जत्त सव्वट्टसिद्धि-अणुत्तरोववाइय-कप्पाईय वेमाणिय देवपंचिंदियवेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए वा, अपज्जत्त सव्वट्टसिद्धि० कायप्पओगपरिणए वा ). वैक्रियशरीरकायप्रयोग परिणत ते द्रव्य, यथा पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिककल्पातीत वैमानिक देवपंचेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत पशु षडेषु छे अने अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवपंचेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी पशु परिणत छे

टीकार्थ- गौतम स्वामी महावीर प्रभुने पूछे छे “ जइ वेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदियवेउव्वियसरीरकायप्पओगपरिणए पंचिंदियवेउव्वियसरीर जाव परिणए ? ” हे भदन्त ! ते द्रव्यने वैक्रियशरीरकायप्रयोगसे परिणत थियेले प्रवेणमा आण्ये ते ते पंचेन्द्रियसरीरकायप्रयोगसे परिणत थियेले



यावत् परिणतं वा, पञ्चेन्द्रिय यावत् परिणतं वा । यदि एकेन्द्रिय यावत् परिणतं किं वायुकायिकैकेन्द्रिय - यावत्-परिणतम् अवायुकायिकैकेन्द्रिय यावत् परिणतम् ? गौतम ! वायुकायिकैकेन्द्रिय यावत् परिणतम् नो अवायुकायिक-यावत्-परिणतम् । एवम् एतेन अमिलापेन यथा अवगाहनासंस्थाने वैक्रियशरीरं मणित तथा इहाऽपि मणितव्यम् यावत् पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धान्तु शरीरपातिककस्यातीतरुधैमानिकवक्षपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा, अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्ध-कायप्रयोगपरिणतं वा ॥ सू० १५ ॥

वैक्रियशरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है पचेन्द्रियके वैक्रिय शरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है । (जइ एगिंदिय जाव परिणए किं वाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए, अवाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए) यदिवइ एकेन्द्रियके वैक्रियशरीरकाय प्रयोगस परिणत होता है तो क्या वइ वायुकायिक एकेन्द्रियके वैक्रियशरीर कायप्रयोग से परिणत होता है या जो अवायुकायिक एकेन्द्रिय है उनके वैक्रिय-शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (वाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय जाव परिणए) वइ द्रव्य वायुकायिक एकेन्द्रियके वैक्रिय शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है अवायुकायिक एकेन्द्रियके वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगसे परिणत नहीं होता है । (एव एएण अमिलावेणं जहा आगाहणसंठाणे वेउधियसरीरं मणिय तथा इह वि भाणियम् ) इस तरह इस अमिलापसे प्रज्ञापनासूत्रके अवगाहना संस्थान पदमें वैक्रिय शरीरके संबंधमें जैसा कहा गया है

पञ्च परिणतं होय छे, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय अतुतिन्द्रिय अने पञ्चेन्द्रियना वैक्रियशरीरकाय-प्रयोगधी पञ्च परिणतं होय छे (जइ एगिंदिय जाव परिणए किं वाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए, अवाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए ?) अ ते जेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणतं होय छे ते तु ते वायुकायिक जेन्द्रियना वैक्रियशरीरकाय प्रयोगधी परिणतं होय छे न अवायुकायिक जेन्द्रिय अ तेमना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणतं होय छे ! (गोयमा) हे गौतम ! वाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय जाव परिणए ) ते द्रव्य वायुकायिक जेन्द्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणतं होय छे अवायुकायिक जेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणतं होय नथी ( एव एएण अमिलावेणं जहा आगाहणसंठाणे वेउधियसरीरं मणिय तथा इह वि भाणियम् ) आ रीते आ अमिलाप द्वारा प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान पदमा वैक्रिय शरीर निरे न प्रभाये छे, अने प्रभाये

प्रमेयचन्द्रिका टीका श.८ उ.१ सू. १५ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १८५

शरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! वाउक्काइयएगिदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय जाव परिणए' हे गौतम ! एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यं वायुकायिकैकेन्द्रिय यावत्-वैक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत भवति, नो अवायुकायिक यावत्-एकेन्द्रियवैक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत भवति 'एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्वियसरीरं भणियं तथा इहवि भाणियव्वं' एवं तथैव एतेन उपर्युक्तेन अभिलापेन आलापकक्रमेण यथा अवगाहनासंस्थाने प्रज्ञापनायाम् एक-विंशतितमपदे वैक्रियशरीरं भणितं तथा इहापि वैक्रियशरीरं भणितव्यम्, तत्र चैवमुक्त प्रज्ञापनायाम्, 'जइ वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियसरीरकायप्पओग-

जीवसे भिन्न है उन के वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'वाउक्काइयएगिदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय जाव परिणए' हे गौतम ! जो पुद्गल द्रव्य एकेन्द्रिय जीवके वैक्रियशरीरकाय प्रयोगसे परिणत हुआ कहा गया है, वह वायुकायिक एकेन्द्रिय जीवके शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता कहा गया है अवायुकायिक एकेन्द्रिय जीवसे भिन्न एकेन्द्रिय जीवके वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता नहीं कहा गया है । 'एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्वियसरीरं भणियं तथा इह वि भाणियव्वं' इस उपर्युक्त अभिलापक्रमसे जैसा कथन अवगाहना संस्थानमें २१वें पदमें वैक्रियशरीरके विषयमें किया गया है, उसी तरहसे यहाँ पर भी कथन वैक्रियशरीरके विषयमें कर लेना चाहिये । वहाँ प्रज्ञापनामें ऐसा कहा है 'जइ वाउक्काइय एगिदिय वेउव्विय सरीरकायप्पओग-

उत्तर- वाउक्काइय एगिदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय एगिदिय जाव परिणए" हे गौतम ! ने पुद्गल द्रव्य एकेन्द्रिय ज्वना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत थयेलु होय छे, ते द्रव्य वायुकायिक एकेन्द्रिय ज्वना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी न परिणत थयेलु होय छे ते वायुकायिक सिवायना एकेन्द्रिय ज्वना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत थयु नथी " एवं एए णं अभिलावेण जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्विय-सरीरं भणियं तथा इह वि भाणियव्वं " आ उपर कथा प्रमाणेना आलिनापकम द्वारा नेवुं कथन प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान नामना २१ मां पदमां वैक्रियशरीर विषे करवामा आन्थु छे, ओज प्रमाणे वैक्रियशरीर विषे अही पथु कथन-समलु नेवुं त्या प्रज्ञापनामा-आ प्रमाणे कलु छे- जइ वाउक्काइय एगिदिय वेउव्विय सरीर-

जात्र परिणए वा, पश्चिदिय-जात्र-परिणए वा' हे गौतम ! वैक्रियशरीरकाय प्रयागपरिणत द्रव्यम् एकेन्द्रिय यावत्-श्रीन्द्रिय-श्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय वैक्रियशरीर कायप्रयोगपरिणत वा भवति, पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, तथा चात्र वायुकायं प्रतीत्य एकेन्द्रियपदमुक्त तस्यैव वैक्रियत्वात्, गौतम पृच्छति - ' जइ एगिंदियजात्र परिणए, किं वाउक्काइयएगिंदिय-जात्र परिणए ? अवाउक्काइय एगिंदिय-जात्र परिणए ? हे भदन्त ! यद्द्रव्यम् एकेन्द्रिय यावत् वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत मत् किम् वायुकायिकेकेन्द्रिय-यावत् वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत भवति ? अवायुकायिकेकेन्द्रिय - यावत्

कहते हैं 'गायमा' हे गौतम ! 'एगिंदिय जात्र परिणए वा, पश्चिदिय जात्र परिणए वा' वैक्रिय शरीरकाय के प्रयोग से परिणत जो द्रव्य कहा गया है, वह द्रव्य एकेन्द्रिय जीव के यावत्-वैक्रिय शरीरकाय प्रयाग से भी परिणत होता है, पचेन्द्रियके वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगसे भी परिणत होता है । तथाच- वायुकायिक जीव को लेकर ही यहाँ पर एकेन्द्रिय पद कहा गया है ऐसा जानना चाहिये । क्यों कि वमके ही वैक्रिय शरीर होता है । अथ गौतम स्वामी प्रमुसे ऐसा पूछत हैं- 'जइ एगिंदिय जात्र परिणए, किं वाउक्काइय एगिंदिय जात्र परिणए, अवाउक्काइय एगिंदिय जात्र परिणए' हे भदन्त ! यदि वा पुदगल एकेन्द्रिय जीवके वैक्रिय शरीरकायप्रयोगसे परिणत दाता कहा गया है तो क्या वह वायुकायिक एकेन्द्रिय जीवके वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है वा जो एकेन्द्रिय जीव वायुकायिक एकेन्द्रिय

प्रयोगधी परिणत होत है ? उत्तर- " गौपमा " हे गौतम ! एगिंदिय जात्र परिणए वा, पश्चिदिय जात्र परिणए वा " वैक्रियशरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य एकेन्द्रिय एवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणत पदु दोष अ एने पश्चिदिय एवना एवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणत पदु दोष अ एनी वायुकायिक एवने ए एकेन्द्रिय एवना प्रमाण करवाना है एवम एवम एवम एवम एवम वैक्रियशरीर दोष है

गौतम स्वामीने प्रश्न- " जइ एगिंदिय जात्र परिणए, किं वाउक्काइय एगिंदिय जात्र परिणए, अवाउक्काइय एगिंदिय जात्र परिणए ? " हे भदन्त ! एते त द्रव्य पुदगल एकेन्द्रिय एवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणत यरेणु दोष अ ते एवने वायुकायिक एवने वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणत दोष अ है अवायुकायिक (वायुकायिक एवना) एवना एवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगधी परिणत दोष अ है ।

शरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? भगवानाह— 'गोयमा ! वाउक्काइयएगिंदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय जाव परिणए' हे गौतम ! एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यं वायुकायिकैकेन्द्रिय यावत्-वैक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत भवति, नो अवायुकायिक यावत्-एकेन्द्रियवैक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत भवति ' एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्वियसरीरं भणियं तथा इहवि भाणियव्वं ' एवं तथैव एतेन उपर्युक्तेन अभिलापेन आलापकक्रमेण यथा अवगाहनासंस्थाने प्रज्ञापनायाद् एक-विंशतितमपदे वैक्रियशरीरं भणितं तथा इहापि वैक्रियशरीरं भणितव्यम्, तत्र चैवमुक्त प्रज्ञापनायाम्. ' जइ वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरकायप्पओग-

जीवसे भिन्न है उन के वैक्रिय शरीरकाय प्रयोग होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ' वाउक्काइयएगिंदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय जाव परिणए' हे गौतम ! जो पुद्गल द्रव्य एकेन्द्रिय जीवके वैक्रियशरीरकाय प्रयोगसे परिणत हुआ कहा गया है, वह वायुकायिक एकेन्द्रिय जीवके शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता कहा गया है अवायुकायिक एकेन्द्रिय जीवसे भिन्न एकेन्द्रिय जीवके वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगसे पारणत होता नहीं कहा गया है । ' एवं एएणं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्वियसरीरं भणियं तथा इह वि भाणियव्वं' इस उपर्युक्त अभिलापक्रमसे जैसा कथन अवगाहना संस्थानमें २१वें पदमें वैक्रियशरीरके विषयमें किया गया है, उसी तरहसे यहाँ पर भी कथन वैक्रियशरीरके विषयमें कर लेना चाहिये । वहाँ प्रज्ञापनामें ऐसा कहा है ' जइ वाउक्काइय एगिंदिय वेउव्विय सरीरकायप्पओग-

उत्तर- वाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए, नो अवाउक्काइय एगिंदिय जाव परिणए" हे गौतम ! जे पुद्गल द्रव्य ऐकेन्द्रिय जिवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिशुत थयेलु होय छे, ते द्रव्य वायुकायिक ऐकेन्द्रिय जिवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी न परिशुत थयेलु होय छे ते वायुकायिक सिवायना ऐकेन्द्रिय जिवना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिशुत थतु नथी " एवं एए णं अभिलावेणं जहा ओगाहणसंठाणे वेउव्विय-सरीरं भणियं तथा इह वि भाणियव्वं " आ उपर कथा प्रमाहेना अभिलापक्रम द्वारा जेवुं कथन प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान नामना २१ मां पदमां वैक्रियशरीर विषे करवाभा आव्यु छे, जेन प्रमाहे वैक्रियशरीर विषे अही पथु कथन समलु देवुं त्या प्रज्ञापनामा आ प्रमाहे कलुं छे- जइ वाउक्काइय एगिंदिय वेउव्विय सरीर-

परिणए किं सुहृमवाउक्काइयएगिदिय-जाव परिणए, वादरवाउक्काइयएगिदिय जाव-परिणए ? गोयमा ! नो सुहृम-जाव-परिणए, वायर-जाव-परिणए' इत्यादि । 'जाव पञ्चसम्बद्धसिद्धअणुचरोववाइयकप्पाइयवेमाणियदेवपंचिदियवेउम्बियसरीरकायप्पभोगपरिणए वा, अपञ्चसम्बद्धसिद्ध० कायप्पभोगपरिणए वा' वैक्रियशरीरं कायमयोगपरिणत द्रव्य यावत्-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिक्कमनुप्य-नैरपिक

परिणए किं सुहृमवाउक्काइय एगिदिय जाव परिणए, वादरवाउक्काइय-एगिदिय जाव परिणए ? गोयमा ! नो सुहृम जाव परिणए वादर जाव परिणए' हे भवन्त ! यदि षह पुद्गल वायुकायिक एकेन्द्रियके वैक्रियशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है तो क्या षह सूक्ष्मवायुकायिक एकेन्द्रियके शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या वादर वायुकायिक एकेन्द्रियके वैक्रियशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? इसके उचरमें प्रसु कहते हैं कि हे गौतम ! षह पुद्गल सूक्ष्मवायुकायिक एकेन्द्रियके वैक्रियशरीरकाय प्रयोगसे परिणत नहीं होता है किन्तु वादरवायुकायिक एकेन्द्रिय जीवके वैक्रियशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है' इत्यादि । 'जाव पञ्च सम्बद्धसिद्ध अणुचरोववाइय कप्पाइय वेमाणिय देवपंचिदियवेउम्बियसरीरकायप्पभोगपरिणए वा, अपञ्चसम्बद्धसिद्धकायप्पभोगपरिणए वा' हे गौतम ! वैक्रियशरीरकाय प्रयोगपरिणत द्रव्य यावत् पंचेन्द्रिय तिर्यग्गोनिक्क मनुप्य नैरपिक

कायप्पभोगपरिणए, किं सुहृमवाउक्काइय एगिदिय जाव परिणए, वादर वाउक्काइय एगिदिय जाव परिणए ? गोयमा ! ना सुहृम जाव परिणए, वादर जाव परिणए" हे भवन्त ! ने ते पुद्गल दम वायुकायिक एकेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोग परिलुत होय ॥ तो तु ते सूक्ष्म वायुकायिक एकेन्द्रियना वैक्रिय शरीरकायप्रयोग परिलुत होय ॥ ? वादरवायुकायिक एकेन्द्रियना वैक्रिय शरीरकायप्रयोग परिलुत होय ॥ ?

भट्टापीर प्रश्नो उत्तर- हे भौतम ! ते पुद्गल सूक्ष्मवायुकायिक एकेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोग परिलुत वतु नमी पद्य वादर वायुकायिक एकेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोग परिलुत थाव छे." इत्यादि जाव पञ्चसम्बद्धसिद्धअणुचरोववाइय कप्पाइय वेमाणिय देव पंचिदिय वेउम्बियसरीरकायप्पभोगपरिणए वा, अपञ्चसम्बद्धसिद्ध कायप्पभोगपरिणए वा, हे भौतम वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिलुत दम - वावत् पंचेन्द्रिय तिर्यग्गोनिक्क, मनुप्य, नारक अपनपित, वानम्ब-वत्, न्येतिदिक्क,

भवनपति-वानव्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिक-पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक कल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, यावत् पञ्चेन्द्रियाद्यपर्याप्तकसर्वार्थसिद्ध - यावत् - अनुत्तरौपपातिककल्पातीतकवैमानिक-देवपञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत वा भवति, इतिभावः, इति तृतीय दण्डकः ३ ॥ सू० १५ ॥

गौतमः पृच्छति- 'जइ वेउव्विय' इत्यादि ।

मूलम्-जइ वेउव्वियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एग्गि-दियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए वा, जाव पंचिदियमीसा-सरीरकायप्पओग परिणए वा ? एवं जहा वेउव्वियं तथा वेउव्विय-मीसगंप्पि, नवरं देवनेरइयाणं अपज्जत्तगाणं, सेसाणं पज्जत्तगाणं तहेव जाव नो पज्जत्तसव्वट्टुसिद्धअणुत्तरो० जाव पओग०, अपज्जत्त-सव्वट्टुसिद्धअणुत्तरोववाइयदेवपंचिदियवेउव्वियमीसासरीरकायप्प-ओगपरिणए ४॥ सू० १६ ॥

छाया-यदि वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतम् किम् एकेन्द्रियमिश्रशरीर-कायप्रयोगपरिणत वा, यावत् पञ्चेन्द्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा ? एवं

भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, वैमानिक, पर्याप्तकसर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रिय इन सबके वैक्रिय-शरीरकाय प्रयोगसे भी परिणत होता है । यावत् अपर्याप्तक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक आदि जीवोंके तथा अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौप-पातिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियके वैक्रियशरीरकायप्रयोगसे भी परिणत होता है । इस प्रकारसे यह तृतीय दण्डक है ॥ सू. १५ ॥

'जइ वेउव्विय मीसासरीरकायप्पओगपरिणए इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(जइ वेउव्वियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एग्गिदिय

वैमानिक अने पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रिय, अथवा ज्योताना वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय छे अने अपर्याप्तक पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिकथी लभने अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियता वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत पणु होय छे आ' प्रमाणे त्रीणु दउउ सम्भवु ॥ सू १५ ॥

“जइ वेउव्विय मीसा सरीरकायप्पओगपरिणए” इत्यादि-

सूत्रार्थ- ( जइ वेउव्विय मीसासरीरकायप्पओगपरिणए, किं एग्गिदिय

यथा वैक्रिय तथा वैक्रियमिधश्मपि, नवरम् देवनैरयिक्रानाम् अपर्याप्तकानाम्, शेषाणाम् पर्याप्तकानाम्, तथैव यावत् नो पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरौ—यावत् प्रयोगः, अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियमिधश्रीरकाय प्रयोगपरिणतम् ४ ॥ सू० १६ ॥

मीसासरीरकायप्यभोगपरिणए चा जाव पचिदिय मीसासरीरकायप्य भोगपरिणए चा) हे भवन्त यदि वह पुद्गल द्रव्य वैक्रिय मिभ शरीर कायप्रयोगसे परिणत होता है तो वह एकेन्द्रियके वैक्रियमिभ शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या यावत् पचेन्द्रियके वैक्रियमिभ शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है (एव जहा वेठन्विय तहा वेठन्विय मीसगपि, नवरं देव नैरइयाण अपञ्जसगाण, सेसाणं पज्जसगाण तहेव जाव नो पञ्जससम्बद्धसिद्ध अणुत्तरौ जाव पओग, अपञ्जससम्बद्धसिद्ध अणुत्तरौषाडय देवपचिदिय वेठन्विय मीसासरीरकायप्यभोगपरिणए ४) हे गौतम ! नैसा कथन वैक्रिय शरीरके संयंघमें किया जा चुका है उसी तरहका कथन वैक्रिय मिभकाय प्रयोगके संयंघमें भी जानना चाहिये । परन्तु विशेषता इस कथनमें ऐसी है कि वैक्रियमिभकाय-प्रयोग अपर्याप्तक देव और नैरयिकोंमें एव चाकीके समस्त पर्याप्तक जीवोंमें कहना चाहिये । यावत् वह पर्याप्तसर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपा-तिक वैक्रियमिभकायप्रयोगसे परिणत नहीं होता है, किन्तु अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपंचेन्द्रिय वैक्रियमिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ॥ चतुर्थ दण्डक

मीसासरीरकायप्यभोगपरिणए चा जाव पचिदियमीसासरीरकायप्यभोगपरिणए चा) हे भवन्त । ने ते पुद्गल द्रव्य वैक्रियमिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ते तो तु ते वेठेन्द्रियता वैक्रियमिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ते ? हे पचेन्द्रिय भवन्त एव जहा वेठन्विय मीसासरीरकायप्यभोगपरिणए ४) हे गौतम ! नेतु कथन वैक्रिय शरीर निरे कथनां आन्धु छे । नेतु कथन वैक्रियमिभकायप्रयोगसे परिणत पण समञ्जु, पण आ कथनमां नीसे प्रभत्ते विशेषता समञ्जु — वैक्रियमिभ-कायप्रोगसे कथन अपर्याप्तक देवो अते नारोभा तथो आहीना भवन्त पर्याप्तक एवोभा इतुं नेधत्ते यावत् ते पुद्गल द्रव्य पर्याप्तसर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपचेन्द्रियता वैक्रियमिभकायप्रयोगसे परिणत नत नसी पण अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपचेन्द्रियता वैक्रियमिभशरीरकायप्रयोगसे परिणत होय ते तो तु इति समञ्जु ॥

टीका—‘जइ वेउव्वियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियमीसासरीर-  
कायप्पओगपरिणए वा ? हे भदन्त ! यद् द्रव्यं वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं  
तत् किम् एकेन्द्रियवैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, यावत्-द्वीन्द्रिय-  
त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय - पञ्चेन्द्रियवैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति ?  
भगवानाह- ‘ एवं जहा वेउव्विय मीसंगंपि’ हे गौतम ! एवं यथा वैक्रिय  
शरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यं तथा वैक्रियमिश्रकमपि बोध्यम् तथा च वैक्रिय-  
मिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यम् वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणतवत् वायु-  
कायिकैकेन्द्रियाद्यपर्याप्तसर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिककृत्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रिय-

टीकार्थ—इस सूत्रद्वारा गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि ‘जइ  
वेउव्विय मीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदिय मीसासरीर-  
कायप्पओगपरिणए वा जाव पंचिंदियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए  
वा’ हे भदन्त जो द्रव्य वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता  
है ? वह क्या एकेन्द्रियके वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोगसे परिणत  
होता है ? यावत् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियके  
वैक्रियमिश्रशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु  
कहते हैं ‘ एवं जहा वेउव्वियमीसंगंपि’ हे गौतम जिस तरहसे  
वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगपरिणत द्रव्य कहा गया है, उसी तरहसे  
वैक्रियमिश्र शरीरकाय प्रयोगपरिणत द्रव्य भी जानना चाहिये । तथा  
च-वैक्रिय मिश्रशरीरकाय प्रयोग परिणत हुए द्रव्यकी तरह वायुका-  
यिक एकेन्द्रियादिके वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगसे तथा अपर्याप्त

टीकार्थ—आ सूत्र द्वारा सूत्रकारे वैक्रियमिश्रप्रयोगपरिणत पुद्गल द्रव्यनु प्रतिपादन  
कथुं छे आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने एवेो अत्र पूछे छे ३-  
“ जइ वेउव्विय मीसा सरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय मीसा  
सरीरकायप्पओगपरिणए वा, जाव पंचि दियमीसासरीरकायप्पओगपरिणए  
वा ? ” छे भदन्त ! जे द्रव्य वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत थयेलु डोय छे, ते  
शु एकेन्द्रियना वैक्रियशरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? ई द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय  
अथवा पञ्चेन्द्रियना वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ?

उत्तर- “ एवं जहा वेउव्वियमीसंगंपि ” वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य  
वषे जेवु कथनं करवामा आबु छे, जेवुं कथन वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य  
विषे पणु समजवु जेभके - “ वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य, वैक्रियशरीरकाय-  
प्रयोग परिणत द्रव्यनी जेम वायुकायिक एकेन्द्रियना वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोग परिणत



वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत मन्वति, इत्याशयः, 'नवरं देवनेरइयाण अपञ्चत्तगाण, सेसाण पञ्चत्तगाण तद्देव जाव नोपञ्जत्तसम्बद्धसिद्धमणुत्तरो० जाव पमोग०' नवरं विशेषः पुनरेताधानेव-देवानां नैरयिकाणाञ्च अपर्याप्त-कानामेव वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणतद्रव्यस्यालापको वक्तव्यः, शेषानां देवनेरयिकमिभानां भीषानान्तु पर्याप्तकानामेव तथैव यावत् वैक्रियमिभश्चरीरकाय-प्रयोगपरिणतस्यालापको वाच्य, किन्तु पर्याप्तकसर्वसिद्धानुत्तरोपपातिक-यावत् -कल्पातीतकथैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियवैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणतस्यालापको न वक्तव्य, अपितु 'अपञ्जत्तसम्बद्धसिद्धमणुत्तरोवधाइयदेवपंचिदियवेउच्चियमीसा-

सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत थैमानिक देवपञ्चेन्द्रियके वैक्रिय मिभश्चरीरकाय प्रयोगसे परिणत भी होता है। 'नवरं देवनेरइयाण अपञ्चत्तगाण सेसाण पञ्चत्तगाण तद्देवजाव नो पञ्जत्तसम्बद्धसिद्ध मणुत्तरो० जावपमोग०' विशेषता केवल यहां पर इतनी ही है कि वैक्रिय मिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यका आलापक देव और नैरयिक इनके अपर्याप्तकों के ही कहना चाहिये तथा देवनेरयिकसे मिल पातीके जीवोंके पर्याप्तोंके ही वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यका आलापक कहना चाहिये। पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपा-तिक कल्पातीत थैमानिकदेव पञ्चेन्द्रियके वैक्रियमिभश्चरीरकाय प्रयोग परिणत द्रव्यका आलापक नहीं कहना चाहिये यही बात 'अपञ्जत्त सम्बद्धसिद्ध मणुत्तरोवधाइय देवपंचिदिय वेउच्चियमीसासरीरकायप्य भोगपरिणए' इस सूत्र पदसे सूचित किया गया है। कहनेका भाव

पक्ष होय ॥ तथा अपर्याप्तः सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत थैमानिक देव पञ्चेन्द्रियना वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यका आलापक ॥ "नवरं देव नेरइयाणं अपञ्चत्तगाण सेसाण पञ्चत्तगाण तद्देव जाव नो पञ्जत्तसम्बद्धसिद्ध मणुत्तरो० जाव पमोग" पश्चात् अही जेहतीन विस्तव ॥ ३ ॥ वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यके आलापक अपर्याप्तः तेषां अने नारको चित्तं च इत्येव जेहजे तथा देवा अने नारको सिवायना जाहीना पर्याप्तः अनेना चित्तं पर्याप्तः वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यके आलापक इत्येव जेहजे पर्याप्तः सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत थैमानिक देव पञ्चेन्द्रियना वैक्रियमिभश्चरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यके आलापक इत्येव जेहजे तही जेह वात "अपञ्जत्त सम्बद्धसिद्ध मणुत्तरोवधाइय देव पंचिदिय वेउच्चिय मीसा सरीरकायप्यभोगपरिणए" आ सूत्र वात सूचित

सरीरकायप्पओगपरिणए' वैक्रियशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम् अपर्याप्तकसर्वार्थं सिद्धानुत्तरौपपातिकदेवपञ्चेन्द्रिय वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवतीति भावः । इति चतुर्थो दण्डकः ॥ सू० १६ ॥

आहारकमाश्रित्य गौतमः पृच्छति— 'जइ आहारग' इत्यादि ।

मूलम्—जइ आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए किं मणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, अमणुस्साहारग जाव प० ? एवं जहा ओगाहणसंठाणे जाव इड्ढिपत्तपमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउय-जाव-परिणए, नो अणिड्ढिपत्तपमत्तसंजयसम्मद्विट्ठिपज्जत्तसंखेज्जवासाउय-जाव प० जइ आहारगमीसासरीरकायप्पओगपरिणए किं मणुस्साहारगमीसासरीर० ? एवं जहा आहारगं तहेव मीसगं पि निरवसेसं भाणियव्वं ५ ॥ सू० १७ ॥

छाया— यदि आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं किं मनुष्याहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतम्, अमनुष्याहारक यावत् प० ? एवं यथा अत्रगाहनासंस्थाने

यह है कि वैक्रिय मिश्रकायप्रयोगसे परिणत द्रव्य अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देव पंचेन्द्रियके वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है । इस प्रकार यह चौथा दण्डक है ॥ सू० १६ ॥

'जइ आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए' इत्यादि० ।

सूत्रार्थ—( जइ आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए किं मणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, अमणुस्साहारग जाव प० ? ) हे भदन्त जो द्रव्य आहारक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता कहा गया है, वह क्या मनुष्यके आहारक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ? या

-करोनामा आवी छे आ कथननो भावार्थं ओ छे क वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देव पञ्चेन्द्रियना वैक्रियमिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे आ प्रकारनु आ ओथुं दंडक छे ॥ सू १६ ॥

" जइ आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए " इत्यादि—

सूत्रार्थ—( जइ आहारगसरीरकायप्पओगपरिणए किं मणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, अमणुस्साहारग जाव परिणए ? ) हे भदन्त ! ते द्रव्य आहारक शरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे, ते शुं मनुष्यना आहारक शरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? ते शुं मनुष्ये ने आहारक शरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? ते मनुष्य सिवायना अन्य कुवोना आहारक शरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ?

यावत् ऋद्धिमाप्तप्रमत्तसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसक्येयवर्षायुष्क-यावत् परिणतम्, नो अर्द्धिमाप्तप्रमत्तसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसक्येयवर्षायुष्क- यावत् प० यदि आहारकमिभ्रशरीरकायप्रयोगप० किं मनुष्याहारकमिभ्रशरीर० ? एवं यथा आहारक तथैव मिभ्रकमपि निरवशेष मणितसम्पम् ॥३॥

मनुष्यके सिवाय अन्य जीवोंके आहारक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ? ( एष जहा ओगाहणसंठाणे जाय इन्द्रियपचपमत्त संमय सम्मरिद्धि पञ्चसखेऽवसासाठय जाय परिणए, नो अणिइन्द्रियपचपमत्त सजय सम्मरिद्धि पञ्चसखेऽवसासाठय जाय प० ) हे गौतम ! जिस प्रकारसे प्रज्ञापनासूत्रके अवगाहनो सस्यान पदमें कहा गया है वसी प्रकारसे यहा पर भी जानना चाहिये यावत् आहारकशरीरकायप्रयोगसे परिणत द्रव्य ऋद्धिमाप्त आहारक लघ्वि सपन्न प्रमत्त साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्त सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्यके आहारक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है आहारकलघ्विको अप्राप्त प्रमत्त सयत सम्यग्दृष्टि सख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्यके आहारक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत नहीं होता है । ( जइ आहारगमीसासरीरकायप्य-ओगपरिणए किं मणुस्साहारग मीसासरीर०? एष जहा आहारग तइष मीसग वि निरवसेस भाणियव्व ) हे भदन्त ! यदिषइद्रव्य आहारक मिभ्रशरीरकाय प्रयोग परिणत होता है तो क्या वह मनुष्य आहारक

( एष जहा ओगाहणसंठाणे जाय इन्द्रियपचपमत्त संमय सम्मरिद्धि पञ्चसखेऽवसासाठय जाय परिणए, नो अणिइन्द्रियपचपमत्त सजय सम्मरिद्धि पञ्चसखेऽवसासाठय जाय परिणए ) हे जीवभ ? ने प्रभावे प्रज्ञापना सत्या-अवगाहना संस्थान " पथमा इहेवाभा आभ्यु छे जेव प्रभावे ष्ठी पञ्च सभञ्जु-तेष नीये आपीव इवन पर्यन्तनु सभस्त इवन इच्छु इरुवु - ' आहारक शरीरकाय प्रयोगधी परिकृत द्रव्य ऋद्धिमाप्त आहारक लघ्विपचपमत्त प्रमत्त सम्मरिद्धि पर्याप्त सख्यात पचना आसुवागा मनुष्यना आहारक शरीरकायप्रयोगधी परिकृत जाय छे, पञ्च आहारक लघ्वि प्राप्त न करी छेव जेव प्रमत्त सयत सम्मरिद्धि सख्यात पचना वासुवागा मनुष्यना आहारक शरीरकायप्रयोगधी परिकृत वतु नथे । ( जइ आहारग मीसा सरीरकायप्यओगपरिणए किं मणुस्साहारगमीसासरीर ? एष जहा आहारग तइष मीसग वि निरवसेस भाणियव्व ) हे भदन्त ! ने द्रव्य आहारक मिभ्रकायप्रयोग परिकृत छेव छे, ते तु मनुष्यना आहारक मिभ्रशरीरकाय-

टीका—‘जइ आहारगशरीरकायप्पओगपरिणए किं मणुस्साहारगशरीरकायप्पओग-  
परिणए, अमणुस्साहारग जाव प० ?’ हे भदन्त ! यद् द्रव्यम् आहारक  
शरीरकायप्रयोगपरिणत तत् किम् मनुष्याहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ?  
अमनुष्याहारक यावत् शरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? भगवानाह—‘एवं जहा  
ओगाहणसंठाणे जाव इड्ढिपत्तपमत्तसंजयमम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउय-  
जाव परिणए’ आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यम् एवं यथा अवगाहना

मिश्रशरीरकाय प्रयोग परिणत होता है इत्यादि०, उ. हे गौतम !  
जैसा आहारक शरीरके संबंधमें कहा गया है वैसा ही आहारक  
मिश्रके संबंधमें भी जानना चाहिये । यह पंचम दण्डक है ।

टीकार्थ—इस सूत्रद्वारा गौतमने आहारक शरीरको आश्रित करके  
प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘जइ आहारगशरीरकायप्पओगपरिणए किं  
मणुस्साहारगशरीरकायप्पओगपरिणए, अमणुस्साहारगजाव०’ हे  
भदन्त ! जो द्रव्य आहारक शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है  
वह द्रव्य क्या मनुष्यके आहारक शरीर कायप्रयोगसे परिणत होता  
है या अमनुष्यके आहारक शरीरकायप्रयोगसे परिणत होता है ?  
इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘एवं जहा ओगाहणसंठाणे जाव इड्ढि  
पत्तपमत्त संजयसम्मद्दिट्ठिपज्जत्तगसंखेज्जवासाउय जाव परिणए’ हे  
गौतम ! आहारक शरीरकाय प्रयोगपरिणत द्रव्य जैसा अवगाहना

प्रयोगथी परिणत थाय छे ? हे मनुष्य सिवायना ज्वेना आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोगथी  
परिणत थाय छे ? हे गौतम ! जेणु आहारक शरीर विषे कहेवाभा आव्यु छे, जेणु  
आहारकमिश्रशरीर विषे पणु समणुवु पायसुं दंडक समाप्त

टीकार्थ—आ सूत्र द्वारा सूत्रकारे आहारक शरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्यनु  
प्रतिपादन थ्युं छे गौतम स्वामीना प्रश्न— “जइ आहारगशरीरकायप्पओग-  
परिणए किं मणुस्साहारगशरीरकायप्पओगपरिणए, अमणुस्साहारग जाव ?”  
हे भदन्त ! जे द्रव्य आहारक शरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे, ते द्रव्य शु मनुष्यना  
आहारक शरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? हे अमनुष्यना ( मनुष्य सिवायना ज्वेना )  
आहारकशरीरप्रयोगथी परिणत थाय छे ?

उत्तर— “एवं जहा ओगाहणसंठाणे जाव इड्ढिपत्तपमत्तसंजय  
सम्मद्दिट्ठि पज्जत्तगसंखेज्जवासाउय जाव परिणए, “ हे गौतम ! प्रज्ञापना सूत्रना  
अवगाहना सस्थान नामना २१ भा पढमां जे प्रभाणु कहेवाभा आव्युं छे ते प्रभाणु

सस्याने एकविंशतितमे पदे प्रज्ञापनायाम् उक्तं तथा अत्रापि यावत् ऋद्धि-  
 प्राप्ताहारकलम्बिमत्प्रमत्तसपत्सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसख्ययवर्षायुष्क - यावत् - मनु-  
 ष्याहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति, प्रथमयावत्पदेन ऋद्धिप्राप्तपर्यन्तं  
 श्राद्धम् किन्तु 'नो अणिद्विपत्तपमत्तसजयसम्महिद्धिपञ्चगसखेज्ज-  
 वासाठय - जाव - प०' आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यं नो अदृद्धि-  
 प्राप्ता- हारकलम्बिमत्प्रमत्तसपत् - सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसख्ययवर्षायुष्क यावत्  
 भमनुष्याहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति, तथावाक्तं प्रज्ञापनायाम् -  
 'गोयमा ! णो अमणुस्साहारगसरीरकायप्पभोगपरिणए, मणुस्साहारगसरीर-  
 कायप्पभोगपरिणए' इत्यादि । गौतम पृच्छति- ' नइ आहारगमीसासरीर-

सस्यानेमिं इक्षीसवे २१ पदमे प्रज्ञापना सूत्रमे कहा गया है उसी तरह  
 से यहाँ पर भी जानना चाहिये । यावत् ऋद्धिप्राप्त आहारक लम्बि-  
 युक्तप्रमत्तसपत्साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक सस्यात धर्षकी आयुषाळे  
 यावत् मनुष्यके आहारक शरीरकाय प्रयोगसे वह द्रव्य परिणत होता  
 है प्रथम यावत् शब्दसे ऋद्धि प्राप्त तकका पाठ ग्रहण हुआ है ।  
 'नो अणिद्विपत्तपमत्तसजय सम्महिद्धि पञ्चगसखेज्जवासाठय जावप०'  
 वह आहारकशरीरकाय प्रयोगपरिणतद्रव्य अदृद्धिप्राप्त, आहारक  
 लम्बिसपत्त, प्रमत्तसपत्त (साधु) सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक असस्यातवर्षा-  
 युष्क यावत् भमनुष्य आहारकशरीरकाय प्रयोगसे परिणत नहीं होता  
 है । प्रज्ञापनामे एसा ही कहा है 'गोयमा' ! णो अमणुस्साहारग-  
 सरीरकायप्पभोगपरिणए, मणुस्साहारगसरीरकायप्पभोगपरिणए

आहारक शरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य विषे अमणुं ते क्वेन तथा सुभी अदृद्धं कर्तुं ते  
 ' यावत् पदधी अतत्तुं छे- ऋद्धिप्राप्त ( आहारक लम्बिसपत्त ) प्रमत्त सपत्त  
 साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक सस्यात धर्षकी आयुषाळा यावत् मनुष्यना आहारक शरीरकाय  
 प्रयोगसे ते द्रव्य परिणत होत छे पदेसा ' यावत् ' पदधी ऋद्धिप्राप्त पर्यन्तमे पाठ  
 अदृद्धं कर्तुं छे ' नो अणिद्विपत्तपमत्तसजयसम्महिद्धि पञ्चगसखेज्जवासाठय  
 जाव परिणए ' ते आहारक शरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य अदृद्धिप्राप्त ( आहारक लम्बि-  
 युक्त ) प्रमत्त सपत्त साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक असस्यात धर्षकी आयुषाळा यावत्  
 भमनुष्य आहारक शरीरकायप्रयोगसे परिणत नही भवति । प्रज्ञापना सूत्रमे पद्य अणु-  
 क्तुं छे ' गोयमा ! णो अमणुस्साहारगसरीरकायप्पभोगपरिणए, मणुस्सा  
 हारगसरीरकायप्पभोगपरिणए ' इत्यदि । छे क्वेनमे । ते द्रव्य अमणुस्सा आहार-  
 शरीरकायप्रयोग परिणत कर्तुं नही, पद्य मनुष्यना आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणत क्वेन छे ।

कायप्पभोगप० किं मणुस्साहारगमीसासरीर० ?' हे भदन्त ! यद् द्रव्यम्  
आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणत तत् किम् मनुष्याहारकमिश्रशरीरकाय-  
प्रयोगपरिणत भवति ? अमनुष्याहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ?  
भगवानाह - ' एवं जहा आहारगं तहेव मीसगंपि निरवसेसं भाणियव्वं '  
हे गौतम ! एवं यथा आहारकम्-आहारकशरीरविषये प्रतिपादित तथैव  
मिश्रकपपि - आहारकमिश्रशरीरविषयेऽपि निरवशेष भणितव्यम् प्रतिपत्तव्यम्,  
तथाच आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यं मनुष्याहारकमिश्रशरीर-  
कायप्रयोगपरिणतं भवति, नो अमनुष्याहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगपरिणतं भव-  
तीत्याशयः । इति ५ पञ्चमो दण्डकः ॥ सू० १७ ॥

इत्यादि । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि 'जइ आहारग-  
मीसासरीरकायप्पभोगपरिणए किं मणुस्साहारगमीसासरीरकायप्प-  
भोगपरिणए०? हे भदन्त ! जो द्रव्य आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोग  
से परिणत होता है वह क्या मनुष्यके आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोग-  
से परिणत होता है ? या अमनुष्यके आहारकमिश्रशरीरकाय-  
प्रयोगसे परिणत होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'एवं जहा आहा-  
रगं तहेव मीसगंपि निरवसेसं भाणियव्वं' हे गौतम ! जैसा आहारक  
शरीरके विषयमें कहा गया है उसी तरहसे आहारक मिश्रशरीरके  
विषयमें भी संपूर्ण कथन जानना चाहिये, तथाच आहारकमिश्रशरीर-  
काय प्रयोगपरिणतद्रव्य मनुष्यके आहारक मिश्रशरीरकाय प्रयोगसे  
परिणत होता है, अमनुष्यके आहारकमिश्रशरीरकाय प्रयोगसेपरिणत  
नहीं होता है । इस प्रकार यह पंचम दण्डक है ॥ सू० १७ ॥

गौतम स्वामीना प्रश्न- ' जइ आहारग मीसा सरीरकायप्पभोगपरिणए,  
किं मणुस्साहारगमीसासरीरकायप्पभोगपरिणए.' हे भदन्त ! जे द्रव्य आहारक  
मिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? ते शुं मनुष्यना आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोगथी  
परिणत थाय छे ? जे अमनुष्यना आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ?

उत्तर- ' एवं जहा आहारगं तहेव मीसगंपि निरवसेसं भाणियव्वं '  
हे भोतम ! आहारक शरीरना विषे जेवुं कथन करवामा आओछु छे, जेव प्रमाणे आहारक  
मिश्रशरीर विषे पणु समस्त कथन समजवु अटवे जे आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोग  
परिणत द्रव्य मनुष्यना - आहारक मिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे, ते  
अमनुष्यना आहारकमिश्रशरीरकायप्रयोगथी परिणत थतु नथी आ प्रकारतु आ पांथमुं  
द उके छे ॥ सू १७ ॥

सन्धाने एकविंशतितमे पदे प्रज्ञापनायाम् उक्तं तथा अत्रापि यावत् ऋद्धि-  
 प्राप्ताहारकलम्बिमत्प्रमत्तसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसक्येयवर्षायुष्क - यावत् - मनु-  
 प्याहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति, प्रथमयावत्पदेन ऋद्धिमाप्तवर्ष-  
 प्राप्ताम् किन्तु 'नो अणिद्विपत्तपमत्तसजयसम्मरिद्धिपञ्चगसखेज्ज-  
 वासाउय - जाव - प०' आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यं नो अट्टि-  
 प्राप्ता- हारकलम्बिमत्प्रमत्तसयत - सम्यग्दृष्टिपर्याप्तकसक्येयवर्षायुष्क यावत्  
 अमनुप्याहारकशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति, तथाचोक्तं प्रज्ञापनायाम् -  
 'गोयमा ! जो अमणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, मणुस्साहारगसरीर-  
 कायप्पओगपरिणए' इत्यादि । गौतमः पृच्छति- ' नइ आहारगमीसासरीर-

सत्यानमे इक्कीसवे २१ पदमे प्रज्ञापना सूत्रमे कइा गया है उसी तरह  
 से यहाँ पर भी जानना चाहिये । यावत् ऋद्धिमाप्त आहारक लम्बि-  
 युक्तप्रमत्तसयतसाधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक सख्यात् वर्षकी आयुवाछे  
 यावत् मनुष्यके आहारक शरीरकाय प्रयोगसे वह द्रव्य परिणत होता  
 है प्रथम यावत् शब्दसे ऋद्धि प्राप्त तकका पाठ ग्रहण हुआ है ।  
 'नो अणिद्विपत्तपमत्तसजय सम्मरिद्धि पञ्चगसखेज्जवासाउय जावप०'  
 वह आहारकशरीरकाय प्रयोगपरिणतद्रव्य अट्टिमाप्त, आहारक  
 लम्बिसपन्न, प्रमत्तसयत (साधु) सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक असक्यात्तवर्षायु-  
 युष्क यावत् अमनुष्य आहारकशरीरकाय प्रयोगसे परिणत नहीं होता  
 है । प्रज्ञापनामे एसा ही कहा है 'गोयमा' ! जो अमणुस्साहारग  
 मरीरकायप्पओगपरिणए, मणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए

आहारक शरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य विषे अभवत्ते ते कस्य कथा सुधी अट्ठणं भवत्ते  
 'यावत् पदधी जवत्तुं छे - ' ऋद्धिमाप्त (आहारक लम्बिसपन्न) प्रमत्त सयत  
 साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक सख्यात् वर्षना आयुवाजा यावत् मनुष्यना आहारक शरीरकाय  
 प्रयोगसे ते द्रव्य परिणत भव छे पदेवा 'यावत्' पदधी ऋद्धिमाप्त वर्ष-तना पाठ  
 अट्ठणं भवे छे ' नो अणिद्विपत्तपमत्तसजयसम्मरिद्धि पञ्चगसखेज्जवासाउय  
 जाव परिणए ' ते आहारक शरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य अट्टिमाप्त (आहारक लम्बि-  
 युक्त) प्रमत्त सयत साधु सम्यग्दृष्टि पर्याप्तक असक्यात् वर्षना आयुवाजा यावत्  
 अमनुष्य आहारक शरीरकायप्रयोगसे परिणत भव नथी. प्रज्ञापना सूत्रमा पव जेत्तुं  
 कसु छे ' गोयमा ! जो अमणुस्साहारगसरीरकायप्पओगपरिणए, मणुस्सा-  
 हारगसरीरकायप्पओगपरिणए ' अत्रपि । ते गौतमा ते द्रव्य अमनुष्यना आहार-  
 शरीरकायप्रयोग परिणत भवत्ते नथी, पव मनुष्यना आहारकशरीरकायप्रयोगपरिणत भव छे

प्रमेयचन्द्रिका टीकांश. ८उ.१ सू. १८ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् १९७

शरीरकायप्रयोगपरिणतम् अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धान्तु० - यावत् - परिणतं वा पृष्ठो दण्डकः ॥ सू० १८ ॥

टीका-‘जइ कम्मासरीरकायप्पओगप० किं एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओगप० जाव-पंचिंदियकम्मासरीर जाव-प०?’ हे भदन्त ! यद् द्रव्यं कार्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतम् तत् किं एकेन्द्रियकार्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? यावत्-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियकार्मणशरीर यावत्-कायप्रयोगपरिणतं भवति ?

ववाइय जाव देवपंचिंदियकम्मासरीरकायप्पओगपरिणए अपज्जत्तसव्वट्ट सिद्ध अणु० जाव परिणए वा ) हे गौतम ! वह द्रव्य एकेन्द्रियके कार्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है । इस तरह जैसा प्रज्ञापनासूत्रके अवगाहना संस्थानपदमें कहा गया है उसी तरहसे यहां पर भी जानना चाहिये । यावत् पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियके कार्मणशरीरकायप्रयोगसे वह परिणत होता है तथा अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियके कार्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ।

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा गौतमने कार्मणशरीरको आश्रित करके प्रभुसे ऐसा पृच्छा है कि ‘जइ कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियकम्मासरीरजाव परिणए’ हे भदन्त ! जो द्रव्य कार्मणशरीरकायप्रयोगसे परिणत हुआ कहा गया है, वह क्या एकेन्द्रियके कार्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत

परिणए, अपज्जत्त सव्वट्टसिद्ध अणु. जाव परिणए वा ) हे गौतम ! ते द्रव्य एकेन्द्रियना कार्मण शरीरकायप्रयोगथी पणु परिणत थाय छे, आ रीते प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान पदमा ने प्रमाणे करवामा आण्यु छे, ते प्रमाणे अही पणु समणु ‘ते द्रव्य पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियना कार्मण शरीरकायप्रयोगथी पणु परिणत थाय छे अने अपर्याप्तके सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियना कार्मणशरीरकायप्रयोगथी पणु परिणत थाय छे,’ अही सुधीना सूत्रपाठ अडणु करवे।

टीकार्थ - आ सूत्र द्वारा गौतम स्वामी महावीर प्रभुने कार्मणशरीरकायप्रयोग परिणत द्रव्य विषे आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे- ‘जइ कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदिय कम्मासरीर जाव परिणए ?’ हे भदन्त ! ते द्रव्य कार्मणशरीरकायप्रयोगथी परिणत होय छे, ते शु एकेन्द्रियना कार्मणशरीरकायप्रयोगथी परिणत थाय छे ? हे द्वीन्द्रिय,



गौतमः कर्मणश्शरीरमाश्रित्य पृच्छति- 'मइकम्मा' इत्यादि ।

मूलम्-जइकम्मासरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदियकम्मा  
सरीरकायप्पओगप० जाव पच्चिंदियकम्मासरीर-जाव-परि० ?  
गोयमा ! एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओग० एव जहा ओगाहण  
सठाणे कम्मगस्स भेदो तहेव इहावि जाव पच्चत्तसव्वट्टुसिद्धअणु  
त्तरोववाइय-जाव-देवपच्चिंदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए,  
अपच्चत्तसव्वट्टुसिद्धअणु०-जाव परिणए वा ६ ॥ सू० १८ ॥

छाया- यदि कर्मणश्शरीरकायप्रयोग० किम् एकेन्द्रिय कर्मण शरीर  
कायप्रयोग० यावत् पञ्चेन्द्रियकर्मणश्शरीर-यावत् प० ? गौतम ! एकेन्द्रिय  
कर्मणश्शरीरकायप्रयोग० एवं यथा भवगाहनासस्यामे कर्मणस्य भेदस्तथैव  
इहापि यावत् - पर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरापपातिक - यावत्-देवपञ्चेन्द्रियकर्मण

'जइकम्मा सरीरकायप्पओगपरिणए' इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(जइकम्मा सरीरकायप्पओगपरिणए किं एगिंदिय कम्मा  
सरीरकायप्पओगपरिणए जाव पच्चिंदिय कम्मासरीर जाव परिणए)  
हे भवन्त ! जो द्रव्य कर्मण शरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है, वह  
क्या एकेन्द्रिय जीवके कर्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ?  
या यावत् पञ्चेन्द्रिय जीवके कर्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता  
है ? (गोयमा, एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओग० एव जहा ओगाहण  
सठाणे कम्मगस्स भेदो तहेव इहावि जाव पच्चत्तसव्वट्टुसिद्ध अणुत्तरो

'जइ कम्मा सरीरकायप्पओगपरिणए' इत्यादि-

सूत्रार्थ- (जइ कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय कम्मा-  
सरीरकायप्पओगपरिणए जाव पच्चिंदिय कम्मासरीर जाव परिणए ?)  
हे भवन्त ! एकेन्द्रिय कर्मणशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ते एकेन्द्रिय जीवके  
कर्मणशरीरकायप्रयोगसे परिणत भवति ? एकेन्द्रिय पञ्चतन्त्रा लोकेना कर्मणशरीर-  
कायप्रयोगसे परिणत भवति ? 'गोयमा' हे गौतम ! (एगिंदिय कम्मासरीर  
कायप्पओग एवं जहा ओगाहणसठाणे कम्मगस्स भेदो - तहेव इहावि जाव  
पच्चत्त सव्वट्टुसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाव देवपच्चिंदिय कम्मासरीरकायप्पओग

शरीरकायप्रयोगपरिणतम् अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानु० - यावत् - परिणतं वा पणो दण्डकः ॥ सू० १८ ॥

टीका-‘जइ कम्मासरीरकायप्पओगप० किं एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओगप० जाव-पंचिंदियकम्मासरीर जाव-प०?’ हे भदन्त ! यद्द्रव्यं कार्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतम् तत् किं एकेन्द्रियकार्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतं भवति ? यावत्-द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियकार्मणशरीर यावत्-कायप्रयोगपरिणतं भवति ?

ववाह्य जाव देवपंचिंदियकम्मासरीरकायप्पओगपरिणए अपज्जत्तसव्वट्ठमिद्ध अणु० जाव परिणए वा ) हे गौतम ! वह द्रव्य एकेन्द्रियके कार्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है । इस तरह जैसा प्रज्ञापनासूत्रके अवगाहना संस्थानपदमें कहा गया है उसी तरहसे यहां पर भी जानना चाहिये । यावत् पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियके कार्मणशरीरकायप्रयोगसे वह परिणत होता है तथा अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियके कार्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है ।

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा गौतमने कार्मणशरीरको आश्रित करके प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘जइ कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदियकम्मासरीरजाव परिणए’ हे भदन्त ! जो द्रव्य कार्मणशरीरकायप्रयोगसे परिणत हुआ कहा गया है, वह क्या एकेन्द्रियके कार्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत

परिणए, अपज्जत्त सव्वट्ठसिद्ध अणु. जाव परिणए वा ) हे गौतम ! ते द्रव्य एकेन्द्रियना कार्मण शरीरकायप्रयोगथी पणु परिणुत्त थाय छे, आ रीते प्रज्ञापना सूत्रना अवगाहना संस्थान पदमा ले प्रमाणे करवामा आणुं छे, ते प्रमाणे अही पणु समणु ‘ते द्रव्य पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियना कार्मण शरीरकायप्रयोगथी पणु परिणुत्त थाय छे अने अपर्याप्तके सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपञ्चेन्द्रियना कार्मणशरीरकायप्रयोगथी पणु परिणुत्त थाय छे,’ अही सुधीना सूत्रपाठ अहणु करवे।

टीकार्थ - आ सूत्र द्वारा गौतम स्वामी महावीर प्रभुने कार्मणशरीरकायप्रयोग परिणुत्त द्रव्य विषे आ प्रमाणे प्रश्न पूछे छे- ‘जइ कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए, किं एगिंदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए जाव पंचिंदिय कम्मासरीर जाव परिणए ?’ हे भदन्त ! ते द्रव्य कार्मणशरीरकायप्रयोगथी परिणुत्त थाय छे, ते शु एकेन्द्रियना कार्मणशरीरकायप्रयोगथी परिणुत्त थाय छे ? हे द्वीन्द्रिय,

भगवानाह- 'गोयमा ! एगिंदियकम्मासरीरकायप्पओग०' हे गौतम ! कर्मण  
 शरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्यम् एकेन्द्रियकर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणत मपति,  
 'एष जहा ओगाहणसठाणे कम्मगस्स मेदो तहेष इहावि,' एष यथा  
 अषगाइनासस्थाने कर्मणस्य मेदो निरूपितस्तयैवापि तद्मेदो घोप्य',  
 तथाधोक्तं प्रज्ञापनायाम् एकविंशतितमे पदे- 'बेइदिय कम्मासरीरकायप्पओग-  
 परिणए षा, एष तेइदिय० चउरिंदिय०' इत्यादि मइनोचरं द्रष्टव्यम्, 'माव  
 पज्जत्तसब्बद्विसिद्धअणुसरोववाइय - जाव - देवप चिंदियकम्मासरीरकायप्पओग  
 परिणए' कर्मण शरीरकायप्रयोगपरिणत द्रव्य यावत् शोन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतु

होता कहा गया है ? यावत् त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एष पंचे  
 न्द्रियके कर्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता कहा गया है ? इसके  
 उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगिंदियकम्मा सरीरका  
 यप्पओ०' कर्मणशरीरकायप्रयोगसे परिणत यह द्रव्य एकेन्द्रियके  
 कर्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता कहा गया है । 'एवं जहा  
 ओगाहणसठाणे कम्मगस्स मेदो तहेष इहावि' इस तरहसे जैसा  
 अषगाइना संस्थानमें कर्मणशरीरकायप्रयोगकामेद् निरूपित किया  
 गया है, जैसा ही यहां पर भी उसका मेद् जानना चाहिये । सो  
 ही प्रज्ञापनाके २१ वे पदमें कहा गया, 'बेइदियकम्मासरीरकायप्प  
 ओगपरिणए षा, एष तेइदिय०, चउरिंदिय०, इत्यादि' यह प्रश्नोत्तर  
 देखलेना चाहिये । 'जाव पज्जत्तसब्बद्विसिद्ध अणुसरोववाइय जाव देव  
 पचि दिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए' कर्मणशरीरकाय प्रयोगपरिणत

त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय अथवा पंचेन्द्रियना कामणुशरीरकायप्रयोगकी परिकृत शब्द ७।  
 उत्तर - 'गोयमा !' हे गौतम 'एगिंदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए'  
 ते द्रव्य ओन्द्रियना कामणु शरीरकायप्रयोगकी पक्ष परिकृत शब्द ७ 'एवं जहा  
 ओगाहणसठाणे कम्मगस्स मेदो तहेष इहावि' अथ प्रभाष्ये जेनी शीते प्रज्ञापना  
 सूत्रना अषगाइना संस्थान परमा कामणुशरीरकायप्रयोगना वेदोतु निरूपण इत्येवमां  
 आठ्यु ७ वेतुं च तेमना वेदोतुं इति अस्ती पक्ष समस्युं प्रज्ञापना सूत्रना २१ मं  
 पदमा अयु ७ ३- 'बेइदिय कम्मासरीरकायप्पओगपरिणए षा, एष तेइदिय,  
 चउरिंदिय' इत्यादि ते द्रव्य त्रीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रियना  
 कामणुशरीरकायप्रयोगकी पक्ष परिकृत शब्द ७ अथ प्रश्नोत्तरा त्वाभी जेप वेदा।  
 'जाव पज्जत्त सब्बद्विसिद्ध अणुसरोववाइय जाव देवपचि दिय कम्मासरी

रिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियादिपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक-यावत् - कल्पातीतक-  
 देवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतं वा भवति, 'अपज्जत्तसव्वट्टिसिद्ध  
 अणु० जाव परिणए वा' कर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणतं द्रव्यम् अपर्याप्तक-  
 सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक-यावत्-कल्पातीतकदेवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीरकायप्रयोग-  
 परिणत वा भवति, इति ६ पष्ठो दण्डकः ॥ सू. १८ ॥

मूलम्—जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, वयमीसा-  
 परिणए, कायमीसापरिणए ? गोयमा ! मणमीसापरिणए वा,  
 वयमीसापरिणएवा, कायमीसापरिणए वा । जइ मणमीसापरिणए  
 किं सच्चमणमीसापरिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा, जहा-  
 पओगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियव्वं निरवसेसं जाव  
 पज्जत्तसव्वट्टिसिद्धअणुत्तरोववाइय जाव देवपंचिंदियकम्मासरीरग-  
 मीसापरिणए वा, अपज्जत्तसव्वट्टिसिद्धअणुत्तरो० जाव कम्मासरीर-  
 मीसापरिणए वा ७ ॥ सू० १९ ॥

वह द्रव्य यावत् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय आदि जीवोंके  
 तथा पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियोंके  
 कर्मणशरीरकाय प्रयोगसे परिणत होता है तथा 'अपज्जत्तसव्वट्टिसिद्ध  
 अणु० जाव परिणए वा' कर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणत वह द्रव्य अप-  
 र्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक देवपंचेन्द्रियोंके कर्मणशरीरकाय-  
 प्रयोगसेपरिणत होता है । इस तरह यहाँ छठा दण्डक है ॥सू. १८॥

कायप्रयोगपरिणए ' कर्मणु शरीरकायप्रयोग परित्त ते द्रव्य द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,  
 चतुरिन्द्रिय अने पंचेन्द्रिय आदि जिवाना तथा पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक  
 देवपंचेन्द्रिय पर्याप्तना जिवाना कर्मणुशरीरकायप्रयोगथी पणु परित्त थाय छे, तथा  
 'अपज्जत्त सव्वट्टिसिद्ध अणु. जाव परिणए वा' ते द्रव्य अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध  
 अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देव पंचेन्द्रिय पर्याप्तना जिवाना कर्मणुशरीरकायप्रयोगथी पणु  
 परित्त थाय छे आ प्रकारु आ छट्टं ६४क समज्जुं ॥ सू १८ ॥

जाया—यदि मिश्रपरिणतं किम् मनोमिश्रपरिणतं, यद्योमिश्रपरिणतं काय  
मिश्रपरिणतम्?, गौतम। मनोमिश्रपरिणतं वा, यद्योमिश्रपरिणतं वा कायमिश्र-  
परिणतं वा । यदि मनोमिश्रपरिणतं किं सत्यमनोमिश्रपरिणतं मृषामनो-  
मिश्रपरिणतं वा, यथा प्रयोगपरिणतं तथा मिश्रपरिणतमपि भवितव्यम् निर-  
वक्ष्येप' यावत् पर्याप्तसर्वार्थसिद्धान्तुत्तरीपपातिकं यावत्—देवपञ्चैन्द्रियकर्मण्य  
शरीरमिश्रपरिणतं वा, अपर्याप्तसर्वार्थसिद्धान्तुत्तरीपपातिकं यावत् — कर्मण-  
शरीरमिश्रपरिणतं वा ७ ॥ सू १९॥

‘जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, ययमीसापरिणए,  
कायमीसापरिणए) हे भदन्त ! जो वह द्रव्यमिश्रपरिणत होता है तो  
क्या वह द्रव्यमनोमिश्रपरिणत होता है ? या यजनमिश्रपरिणत होता  
है ? या कायमिश्रपरिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (मणमीसा-  
परिणए वा, ययमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा) वह द्रव्य मनो-  
मिश्रपरिणत भी होता है यजनमिश्रपरिणत भी होता है और काय  
मिश्रपरिणत भी होता है । (जइ मणमीसापरिणए, किं सच्चमणमीसा  
परिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा) हे भदन्त ! यदि वह एक  
द्रव्य मनोमिश्रपरिणत होता है, तो क्या वह सत्यमनोमिश्रपरिणत  
होता है, या मृषामनोमिश्रपरिणत होता है, (जइ पओगपरिणए तइ  
मीसापरिणए वि भाणियम्भं निरवसेसं जाय पज्जसम्भइसिद्ध अणु-  
त्तरोववाइय जाय देवपञ्चिन्द्रियकम्मासरीरग मीसापरिणए वा, अपज्जच

‘जइ मीसापरिणए किं मणमीसा परिणए’ इत्यादि—

सूत्रार्थ—(जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, ययमीसापरिणए,  
कायमीसापरिणए ?) हे भदन्त ! जो वे द्रव्य मिश्रपरिणत होता है तो शुभे  
मनोमिश्रपरिणत होता है ? हे यजनमिश्रपरिणत होता है ? कायमिश्रपरिणत होता है ?  
(गोयमा) हे गौतम ! (मणमीसापरिणए वा, ययमीसा परिणए वा,  
कायमीसा परिणए वा) वे द्रव्य मनोमिश्रपरिणत पद्य होता है, यजनमिश्रपरिणत  
पद्य होता है यजे कायमिश्रपरिणत पद्य होता है (जइ मणमीसापरिणए, किं  
सच्चमणमीसापरिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा ?) हे भदन्त ! जो वे  
ज्येष्ठ द्रव्य मनोमिश्रपरिणत होता है तो शुभे वे सत्यमनोमिश्र परिणत होता है हे  
मृषामनोमिश्र परिणत होता है ? (जइ पओगपरिणए तइ मीसापरिणए वि  
भाणियम्भं निरवसेसं जाय पज्जसम्भइसिद्ध अणुत्तरोववाइय जाय देवपञ्चिन्द्रिय

टीका- गौतमः पृच्छति-‘जइ मीसा परिणए’ इत्यादि । ‘जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, वयमीसापरिणए, कायमीसापरिणए?’ हे भदन्त ! यद् द्रव्यं मिश्रपरिणतं तत् किं मनोमिश्रपरिणतं, वचनमिश्रपरिणतं, कायमिश्रपरिणतं भवति ? भगवानाह-‘गोयमा ! मणमीसापरिणए वा, वयमीसा परिणए वा, काय

सव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोवनाइय जाव कम्मासरीर मीसापरिणए वा) हे गौतम ! जैसा प्रयोगपरिणत पुद्गल द्रव्यके विषयमें कहा गया है, वैसा ही सब मिश्रपरिणतपुद्गल द्रव्यके विषयमें कहना चाहिये । यावत् वह द्रव्य पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिककल्पातीत देवपंचेन्द्रियके कार्मणशरीरमिश्रसे परिणत होता है और अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियके कार्मणशरीरमिश्रसे परिणत होता है ।

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, वयमीसापरिणए, कायमीसापरिणए’ हे भदन्त ! जो मिश्रपरिणत होता है वह क्या मनोमिश्रपरिणत होता है या वचनमिश्रपरिणत होता है ? या कायमिश्रपरिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं कि, ‘गोयमा’ मणमीसापरिणए वा, वयमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा’ मिश्रपरिणतद्रव्य मनो-

कम्मासरीरग मीसापरिणए वा, अपज्जत्तसव्वट्टसिद्ध अणुत्तरोवनाइय जाव कम्मासरीर मीसापरिणए वा ) हे गौतम ! जेवु कथन प्रयोगपरिणत द्रव्यना विषयमा करवामा आवुं छे, जेवुं सभस्त कथन मिश्रपरिणत पुद्गल द्रव्यना विषयमा पणु करवु जेधंजे ते द्रव्य पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियना कार्मणशरीरमिश्रथी पणु परिणत होय छे, जने अपर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियना कार्मणशरीरमिश्रथी पणु परिणत होय छे,’ अही सुधीनु कथन भइणु करवु

टीकार्थ- गौतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे ते ‘जइ मीसा परिणए, कि मणमीसा परिणए, वयमीसा परिणए, कायमीसा परिणए ?’ हे भदन्त ! जे द्रव्य मिश्रपरिणत होय छे, ते शु मनोमिश्रपरिणत होय छे ? वचनमिश्रपरिणत होय छे ? कायमिश्रपरिणत होय छे ? उत्तर- (गोयमा ! ) हे गौतम ! ‘मणमीसापरिणए वा, वयमीसापरिणए वा, कायमीसा परिणए वा’ मिश्रपरिणत द्रव्य मनोमिश्रपरिणत पणु होय छे, वचनमिश्रपरिणत पणु होय छे, जने कायमिश्रपरिणत पणु होय छे

छाया-यदि मिश्रपरिणतं किम् मनोमिश्रपरिणतं, यचोमिश्रपरिणतं काय  
मिश्रपरिणतम् ? , गौतम ! मनोमिश्रपरिणतं वा, यचोमिश्रपरिणतं वा कायमिश्र-  
परिणतं वा । यदि मनोमिश्रपरिणतं किं सत्यमनोमिश्रपरिणतं मृपामनो  
मिश्रपरिणतं वा, यथा प्रयोगपरिणतं तथा मिश्रपरिणतमपि भवितव्यम् निर-  
वशेषं यावत् पर्याप्तसर्वायसिद्धान्तुचरौपपातिकं यावत्-देषपञ्चेन्द्रियकर्मण्य  
शरीरमिश्रपरिणतं वा, अपर्याप्तकसर्वायसिद्धान्तुचरौपपातिकं यावत् - कर्मण्य-  
शरीरमिश्रपरिणतं वा ७ ॥ सू १९॥

‘जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, ययमीसापरिणए,  
कायमीसापरिणए) हे भदन्त ! जो वह द्रव्यमिश्रपरिणत होता है तो  
क्या वह द्रव्यमनोमिश्रपरिणत होता है ? या वचनमिश्रपरिणत होता  
है ? या कायमिश्रपरिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (मणमीसा  
परिणए वा, ययमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा) वह द्रव्य मनो  
मिश्रपरिणत भी होता है वचनमिश्रपरिणत भी होता है और काय  
मिश्रपरिणत भी होता है । (जइ मणमीसापरिणए, किं सच्चमणमीसा  
परिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा) हे भदन्त ! यदि वह एक  
द्रव्य मनोमिश्रपरिणत होता है, तो क्या वह सत्यमनोमिश्रपरिणत  
होता है, या मृपामनोमिश्रपरिणत होता है, (जइ पओगपरिणए तइ  
मीसापरिणए वि भाणियच्चं निरवसेस जाय पज्जत्तसव्वइसिद्धं अणु  
चरोवधान्य जाय देवपच्चिंदियकम्मासरीरग मीसापरिणए वा, अपज्जत्त

‘जइ मीसापरिणए किं मणमीसा परिणए’ इत्यादि-

सूत्रार्थ - (जइ मीसापरिणए किं मणमीसापरिणए, ययमीसापरिणए,  
कायमीसापरिणए ? ) हे भदन्त ! जो ते द्रव्य मिश्रपरिणत होय छे तो शु ते  
मनोमिश्रपरिणत होय छे ? हे वचनमिश्रपरिणत होय छे ? कायमिश्रपरिणत होय छे ?  
(गोयमा ! ) हे गौतम ! (मणमीसापरिणए वा, ययमीसा परिणए वा,  
कायमीसा परिणए वा) ते द्रव्य मनोमिश्रपरिणत पणु होय छे, वचनमिश्रपरिणत  
पणु होय छे अणे कायमिश्रपरिणत पणु होय छे (जइ मणमीसापरिणए, किं  
सच्चमणमीसापरिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा ? ) हे भदन्त ! जो ते  
व्येक द्रव्य मनोमिश्रपरिणत होय छे तो शु ते सत्यमनोमिश्र परिणत होय छे हे  
मृपामनोमिश्र परिणत होय छे ! (जइ पओगपरिणए तइ मीसापरिणए वि  
भाणियच्चं निरवसेस जाय पज्जत्तसव्वइसिद्धं अणुचरोवधान्य जाय देवपच्चिंदिय

मूलम्—जड़ वीससापरिणए किं वन्नपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ? गोयमा ! वन्नपरिणए वा, गंधपरिणए वा, रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, संठाणपरिणए वा । जड़ वण्णपरिणए किं कालवन्नपरिणए नील-जाव सुक्खिलवन्नपरिणए ? गोयमा ! कालवन्नपरिणए जाव सुक्खिलवन्नपरिणए । जड़ गंधपरिणए किं सुब्भिगंधपरिणए, दुब्भिगंधपरिणए ? गोयमा ! सुब्भिगंधपरिणए वा, दुब्भिगंधपरिणए वा । जड़ रसपरिणए किं तित्तरसपरिणए ? ५ पुच्छा, गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा, जाव महुररसपरिणए वा । जड़ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए जाव लुक्खफासपरिणए ? गोयणा ! कक्खडफासपरिणए वा, जाव लुक्खफासपरिणए वा, जड़ संठाणपरिणए पुच्छा, गोयमा ! परिमंडलसंठाणपरिणए वा, जाव आयय-संठाणपरिणए वा ९ ॥ सू० २० ॥

छाया—यदि विस्रसापरिणत किं वर्णपरिणतम्, गन्धपरिणतम्, रसपरिणतम्, स्पर्शपरिणतम्, संस्थानपरिणतम् ? गौतम ! वर्णपरिणतं वा, गन्धपरिणतं वा,

होता है और अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियके कार्मणशरीरमिश्रपरिणत भी होता है ॥ सू. १९ ॥

‘ जड़ वीससापरिणए ’ इत्यादि ।

‘ सूत्रार्थ—( जड़ वीससापरिणए किं वन्नपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्य

सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियना कार्मणशरीरमिश्रपरिणत पणु होय छे.’ आ कथन पर्थान्तनु सभरत कथन अही अडुणु करुणु ॥ सू १९ ॥

‘ जड़ वीससा परिणए ’ इत्यादि—

सूत्रार्थ— (जड़ वीससापरिणए, किं वण्णपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ?) हे भदन्त ! जे ते प्रोय विस्रसापरिणत होय छे,



मीसापरिणए वा' हे गौतम ! मिश्रपरिणत मनोमिश्रपरिणत वा भवति, वा मिश्रपरिणत वा भवति, कायमिश्रपरिणत वा भवति, गौतमः पृच्छति—'जइ मीसापरिणए किं सच्चमणमीसापरिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा, भदन्त ! यद् द्रुव मनोमिश्रपरिणत सत्त्वं किं सत्यमनामिश्रपरिणत वा,' मनोमिश्रपरिणत वा भवति? 'जइ पभोगपरिणए तइ मीसापरिणए वि माणियन्नं निरवसस । यया प्रयागपरिणते मणित तथा मिश्रपरिणतमपि भवितव्यं निरवसस सत्त्वं—पञ्चोत्तरात्मकम् 'जाव पञ्चत्तममन्वद्वसिद्धमणुत्तरोववाइय—न देवपचिंदिय कम्मासरीरगमीसापरिणए वा ' यावत्—पर्याप्तक सर्वापिसिद्धानुत्तरोपपातिक—यावत् — कल्पातासकदेवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीरमिश्रपरिणत वा भवति ' अपञ्चत्तममन्वद्वसिद्धमणु० जाव कम्मासरीरमीसापरिणएवा ' अवर्षात्तस्वापिसिद्धानुत्तरोपपातिक यावत् — कल्पातीतकदेवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीरमिश्रपरिणत वा भवति ८ ॥ सू० १९ ॥

मिश्रपरिणत भी होता है, कायमिश्रपरिणत भी होता है । गौतमस्वामी प्रश्नसे पूछते हैं कि 'जइ मणमीसापरिणए, किं सच्चमणमीसापरिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा ' हे भदन्त ! जो द्रुव मनोमिश्रपरिणत होता है वह क्या सत्यमनोमिश्रपरिणत होता है ? असत्यमनोमिश्रपरिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'जाव पभोगपरिणए तइ मीसापरिणए वि माणियन्नं निरवसस' हे गौतम ! जैसा प्रयोगपरिणतमें कहा गया है, वैसा ही सबकथन मिश्रपरिणत भी जानना चाहिए । 'जाव पञ्चत्तममन्वद्वसिद्धमणुत्तरोववाइय जाव देवपचिंदिय कम्मासरीरगमीसापरिणए वा' यावत् पर्याप्तक सर्वापिसिद्धानुत्तरोपपातिककल्पातीत देवपञ्चेन्द्रियके कर्मणशरीरमिश्र परिणत

गौतम स्वामीने प्रश्न— 'जइ मणमीसापरिणए किं सच्चमणमीसापरिणए वा, मोसमणमीसापरिणए वा ?' हे भदन्त ने द्रुव मनोमिश्रपरिणत देव ८ ते तु सत्यमनोमिश्रपरिणत देव ८ ? हे असत्यमनोमिश्रपरिणत देव ८ ?

उत्तर जइ पभोगपरिणए तइ मीसापरिणए वि माणियन्नं निरवसस हे गौतम ! प्रयोगपरिणत सत्यमनो ८ तु ८ समस्त कथन मिश्रपरिणतमां पञ्चत्तममन्वद्वसिद्धमणुत्तरोववाइय जाव देवपचिंदिय कम्मासरीरगमीसापरिणए वा, भवति हे गौतम ते द्रुव पर्याप्तक सर्वापिसिद्धानुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवपञ्चेन्द्रियके कर्मणशरीरमिश्र परिणत पञ्च देव ८ अने अपपरिणत

जाव पञ्चत्तममन्वद्वसिद्धमणुत्तरोववाइय जाव देवपचिंदिय कम्मासरीरगमीसापरिणए वा, भवति हे गौतम ते द्रुव पर्याप्तक सर्वापिसिद्धानुत्तरोपपातिक कल्पातीत देवपञ्चेन्द्रियके कर्मणशरीरमिश्र परिणत पञ्च देव ८ अने अपपरिणत

मूलम्—जड़ वीससापरिणए किं वन्नपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ? गोयमा ! वन्नपरिणए वा, गंधपरिणए वा, रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, संठाणपरिणए वा । जड़ वण्णपरिणए किं कालवन्नपरिणए नील—जाव सुक्किल्लवन्नपरिणए ? गोयमा ! कालवन्नपरिणए जाव सुक्किल्लवन्नपरिणए । जड़ गंधपरिणए किं सुब्भिगंधपरिणए, दुब्भिगंधपरिणए ? गोयमा ! सुब्भिगंधपरिणए वा, दुब्भिगंधपरिणए वा । जड़ रसपरिणए किं तित्तरसपरिणए ? ५ पुच्छा, गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा, जाव महुररसपरिणए वा । जड़ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए जाव लुक्खफासपरिणए ? गोयणा ! कक्खडफासपरिणए वा, जाव लुक्खफासपरिणए वा, जड़ संठाणपरिणए पुच्छा, गोयमा ! परिमंडलसंठाणपरिणए वा, जाव आयय-संठाणपरिणए वा ९ ॥ सू० २० ॥

छाया—यदि विससापरिणत किं वर्णपरिणतम्, गन्धपरिणतम्, रसपरिणतम्, स्पर्शपरिणतम्, संस्थानपरिणतम् ? गौतम ! वर्णपरिणतं वा, गन्धपरिणतं वा,

होता है और अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियके कार्मणशरीरमिश्रपरिणत भी होता है ॥ सू. १९ ॥

‘जड़ वीससापरिणए’ इत्यादि ।

‘सूत्रार्थ—(जड़ वीससापरिणए किं वन्नपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्य

सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत देवपंचेन्द्रियना कार्मणशरीरमिश्रपरिणत पद्य होय छे.’ आ कथन पर्यान्तनु समस्त कथन अही अड्य करवु. ॥ सू १९ ॥

‘जड़ वीससा परिणए’ इत्यादि—

सूत्रार्थ— (जड़ वीससापरिणए, किं वण्णपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ?) हे भदन्त ! जे ते द्रव्य विससापरिणत होय छे,

रसपरिणत वा, स्पर्शपरिणत वा, सस्यानपरिणत वा । यदि व्यर्थपरिणत  
 कालवर्णपरिणत नील यावत्-शुक्लवर्णपरिणतम् ? गौतम ! कालवर्णपरिणत  
 यावत्-शुक्लवर्णपरिणतम् । यदि गन्धपरिणत किं सुरमिगन्धपरिणत दुरमिग  
 परिणत ? गौतम ! सुरमिगन्धपरिणत वा, दुरमिगन्धपरिणत वा । यदि रस

विचित्रतापरिणत होता है, तो क्या वह वर्णपरिणत होता है, या गन्ध  
 परिणत होता है, या रसपरिणत होता है, या स्पर्शपरिणत होता है  
 या सस्यानपरिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (वर्णपरिणत वा  
 गन्धपरिणत वा, रसपरिणत वा, फासपरिणत वा, संठाणपरिणत वा  
 वह द्रव्यवर्णपरिणत भी होता है गन्धपरिणत भी होता है, रसपरिणत  
 भी होता है स्पर्शपरिणत भी होता है, सस्यानपरिणत भी होता है  
 (जइ वर्णपरिणत, किं कालवर्णपरिणत, नील जाय सुक्लिष्टवर्णपरिणत  
 हे भदन्त ! यदि वह द्रव्यवर्णपरिणत होता है तो क्या वह कालवर्ण  
 परिणत होता है, या नीलवर्णपरिणत होता है ? या यावत् शुक्लवर्ण  
 परिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (कालवर्णपरिणत जाय सुक्लिष्ट  
 जाय परिणत) वह वर्णपरिणत द्रव्यकालवर्णपरिणत भी होता है यावत्  
 शुक्लवर्णपरिणत भी होता है । (जइ गन्धपरिणत किं सुग्निगन्धपरिणत  
 दुग्निगन्धपरिणत) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्यगन्धपरिणत होता है तो  
 क्या वह सुरमिगन्धरूपसे परिणत होता है ? या दुरमिगन्धरूपसे  
 परिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (सुग्निगन्धपरिणत वा

ते शु ते वक्ष परिणत होय ॥ ३ ॥ अभपरिणत होय ॥ ३ ॥ रसपरिणत होय ॥ ३ ॥  
 स्पर्शपरिणत होय ॥ ३ ॥ सस्यानपरिणत होय ॥ ३ ॥ (गोयमा ! ) हे गौतम !  
 ( वर्णपरिणत वा, गन्धपरिणत वा रसपरिणत वा, फासपरिणत वा, संठाणपरिणत  
 वा ) ते द्रव्य वर्णपरिणत पक्ष होय ॥ ३ ॥ अभपरिणत पक्ष होय ॥ ३ ॥ रसपरिणत पक्ष  
 होय ॥ ३ ॥ स्पर्शपरिणत पक्ष होय ॥ ३ ॥ सस्यानपरिणत होय ॥ ३ ॥ ( जइ वर्णपरिणत,  
 किं कालवर्णपरिणत, नील जाय सुक्लिष्टवर्णपरिणत ? ) हे भदन्त ! ने ते  
 द्रव्य वर्णपरिणत होय ॥ ३ ॥ ते शु ते स्यात् वक्ष परिणत होय ॥ ३ ॥ ३ नीलवर्ण  
 परिणत होय ॥ ३ ॥ ३ शुक पीक, ३ शुक्लवक्ष परिणत होय ॥ ३ ॥ (गोयमा ! )  
 हे गौतम ! ( कालवर्णपरिणत जाय सुक्लिष्ट जाय परिणत ) ते वक्ष परिणत  
 द्रव्य रसपक्ष परिणत पक्ष होय ॥ ३ ॥ ३ अने शुक्लवक्ष पक्ष तदा पीक वक्ष परिणत पक्ष  
 होय ॥ ३ ॥ ( जइ गन्धपरिणत, किं सुग्निगन्धपरिणत दुग्निगन्धपरिणत ? ) हे भदन्त !  
 ने ते द्रव्य अभपरिणत होय ॥ ३ ॥ ते शु सुगन्धपरिणत होय ॥ ३ ॥ ३ दुग्न्धपरिणत

परिणतं किं तित्तरसपरिणतं ५ पृच्छा ? गौतम । तित्तरसपरिणतं वा, यावत् मधुररसपरिणतं वा । यदि स्पर्शपरिणतं किं कर्कशस्पर्शपरिणतं यावत्-रूक्षस्पर्शपरिणतम् ? गौतम ! कर्कशस्पर्शपरिणतं वा, यावत्-रूक्षस्पर्शपरिणतं वा । यदि संस्थानपरिणतं पृच्छा ? गौतम ! परिमण्डलसंस्थानपरिणतं वा, यावत्-आयतसंस्थानपरिणतं वा । ९ ॥सू० २०॥

दुब्धिगंधपरिणतं वा ) गंधरूपसे परिणतं हुआ वह द्रव्य सुरभिगंधरूपसे भी परिणत होता है और दुरभिगंधरूपसे भी परिणत होता है । (जइ रसपरिणतं किं तित्तरसपरिणतं पृच्छा) हे भदन्त । यदि वह द्रव्यरसपरिणत होता है तो क्या वह तित्तरसपरिणत होता है, या कटुरस परिणत होता है, या कषायरसपरिणत होता है, या अम्ल (खट्टा) रसपरिणत होता है, या मधुररसपरिणत होता क्या ? (गोयमा) हे गौतम ! ( तित्तरसपरिणतं वा, जाव मधुररसपरिणतं वा) रसपरिणतं वहद्रव्य तित्तरसपरिणतं भी होता है, यावत् मधुररसपरिणतं भी होता है । (जइ फासपरिणतं किं कक्खडफासपरिणतं जाव लुक्खफासपरिणतं) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्यस्पर्शपरिणत होता है तो क्या वह कर्कशस्पर्शपरिणत होता है ? या यावत्रूक्ष स्पर्शपरिणत होता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (कक्खडफासपरिणतं वा जाव लुक्खफासपरिणतं वा) स्पर्शपरिणतं वह द्रव्यकर्कशस्पर्शरूपमें भी परिणत होता है यावत् रूक्षस्पर्शरूपमें भी परिणत होता है । (जइ संठाणपरिणतं

डोयं छे ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( सुब्धिगंधपरिणतं वा, दुब्धिगंधपरिणतं वा ) ते गंधपरिणतं द्रव्यं सुगंधइये पणु परिणुमे छे अने दुर्गंधइये पणु परिणुमे छे । ( जइ रसपरिणतं किं तित्तरसपरिणतं पृच्छा ) हे भदन्त ! जे ते द्रव्य रसइये परिणुमन पाये छे, तो शुं ते तित्तरसइये परिणुमे छे ? हे कटुरसइये परिणुमे छे ? हे कषाय (तुरा) रसइये परिणुमे छे ? हे आम्ल (आटा) रसइये परिणुमे छे ? हे मधुररसइये परिणुमे छे ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( तित्तरसपरिणतं वा, जाव मधुररसपरिणतं वा ) रसपरिणतं ते द्रव्य तित्ततथी लधने मधुर पर्यन्तना पणु रसइये पणु परिणुमे छे ( जइ फासपरिणतं, किं कक्खडफासपरिणतं जाव लुक्खफासपरिणतं ? ) हे भदन्त ! जे ते द्रव्य स्पर्शपरिणत होय छे, तो शुं ते कर्कश स्पर्शपरिणत होय छे ? हे रूक्ष पर्यन्तना स्पर्शपरिणतं होय छे ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( कक्खडफासपरिणतं वा, जाव लुक्खफासपरिणतं वा ) स्पर्शपरिणतं ते द्रव्य कर्कशतथी लधने रूक्ष पर्यन्तना अथा स्पर्शइये परिणुमन पाये छे ( जइ संठाण

टीका—गौतमः पृच्छति—‘अइ वीससापरिणए किं षण्णपरिणए गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, सठाणपरिणए ?’ हे भदन्त । यद् द्रव्य विसस्त्रा-परिणत विस्त्रसया स्वभावेन परिव्याममास तत् किम् वर्णपरिणतम्, गन्धपरिणतम्, रसपरिणतम्, स्पर्शपरिणतम्, सस्थानपरिणतम् भवति ? मगवानाह—‘गोयमा ! षण्णपरिणए वा, गंधपरिणए वा, रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, सठाणपरि-

पुच्छा) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्य सस्थानरूपमें परिणत होता है तो क्या वह परिमंडल सस्थानरूपमें परिणत होता है या यावत् आयत सस्थानरूपमें परिणत होता है ? (गोयमा) ह गौतम ! (परिमंडल सठाणपरिणए वा जाव आययसंठाणपरिणए वा) सस्थानरूपमें परिणत हुआ वह द्रव्यपरिमंडलसस्थानरूपमें भी परिणत होता है यावत् आयतसस्थानरूपमें भी परिणत होता है ।

टीकार्थ—इस सूत्रद्वारा गौतमने प्रश्नसे ऐसा पूछा है कि जइ वीससा परिणए किं षण्णपरिणए, गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, सठाणपरिणए) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्यविसस्त्रापरिणत होता है तो क्या वह वर्णरूपसे परिणत होता है ? या गंधरूपसे परिणत होता है क्या ? या रसरूपसे परिणत होता है क्या ? या स्पर्शरूपसे परिणत होता है क्या ? या संस्थानरूपसे परिणत होता है क्या ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं कि ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘षण्णपरिणए वा, गंधपरिणए वा रसपरिणए वा फासपरिणए वा, सठाणपरिणए वा,

परिणए पुच्छा) हे भदन्त ! ने ते द्रव्य संस्थानरूपे परिव्युभन धामे उ ते सु ते धामे उ उ संस्थानरूपे परिव्युभे उ । उ आयत संस्थान परन्तना संस्थानरूपे परिव्युभे उ । (गोयमा) हे गौतम ! (परिमंडलसस्थानपरिणए वा, जाव आययसंठाणपरिणए वा) संस्थानरूपे परिव्युत धयेसु ते द्रव्य परिमंडल संस्थानरूपे पणु परिव्युभे उ अने आयत संस्थान परन्तना संस्थानरूपे पणु परिव्युभे उ

टीकाथ—गौतम स्वामी भदानीर प्रश्नसे जेने प्रश्न पूछे उ उ—‘अइ वीससा परिणए, किं षण्णपरिणए गंधपरिणए, रसपरिणए, फासपरिणए, संठाणपरिणए ?’ हे भदन्त ! ने ते द्रव्य विसस्त्रापरिणत—स्वभावधी परिव्युत—टोय उ, ते सु ? पणु रूपधी परिव्युत टोय उ ? अणु रूपधी परिव्युत टोय उ ? उ रस रूपधी परिव्युत टोय उ ? अरर रस रूपधी परिव्युत टोय उ ? अणु संस्थानरूपधी परिव्युत टोय उ

उत्तर—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘षण्णपरिणए वा, गंधपरिणए वा,

णए वा' हे गौतम ! विस्रसापरिणतं द्रव्यं वर्णपरिणतं वा गन्धपरिणत वा, रसपरिणत वा, स्पर्शपरिणतं वा, संस्थानपरिणतं वा भवति । गौतमः पृच्छति— 'जइ वन्नपरिणए किं कालवन्नपरिणए, नील-जाव-सुक्किल्लवन्नपरिणए ? हे भदन्त ! यद् द्रव्यं वर्णपरिणतं तत् किं कालवर्णपरिणतं, नीलवर्णपरिणतं यावत्-लोहित-वर्णपरिणत, हरिद्रावर्णपरिणत, शुक्लवर्णपरिणत भवति ? भगवानाह— 'गोयमा! कालवर्णपरिणए जाव सुक्किल्लवन्नपरिणए' हे गौतम ! वर्णपरिणतं द्रव्यं काल-वर्णपरिणत, यावत्-नीलवर्णपरिणत, लोहितवर्णपरिणत, हरिद्रावर्णपरिणत,

विस्रसा परिणत वह द्रव्यवर्णरूपसे भी परिणत होता है, गन्धरूपसे भी परिणत होता है, रसरूपसे भी परिणत होता है, स्पर्शरूपसे भी परिणत होता है, संस्थानरूपसे भी परिणत होता है । अब गौतम-स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछ रहे हैं कि 'जइ वन्नपरिणए किं कालवन्न-परिणए, नील जाव सुक्किल्लवन्नपरिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य वर्णरूपसे परिणत होता है वह क्या कालावर्णरूपसे परिणत होता है ? या नील-वर्णरूपसे परिणत होता है ? या यावत् लोहितवर्णरूपसे परिणत होता है, या हरिद्रावर्णरूपसे परिणत होता है, या शुक्लवर्णरूपसे परिणत होता है क्या ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं कि 'गोयमा' हे गौतम ! 'कालवर्णपरिणए जाव सुक्किल्लवन्नपरिणए' वर्णरूपसे परिणत हुआ वह द्रव्य कृष्णवर्णरूपसे भी परिणत होता है, यावत् नीलवर्णरूपसे, लोहितवर्णरूपसे, हरिद्रा (पीले) वर्णरूपसे, और शुक्ल-

रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, संठागपरिणए वा ' विस्रसा परिणत ते द्रव्य वल्लुङ्गपथी परिणत होय छे, गधङ्गपथी परिणत होय छे, रसङ्गपथी परिणत होय छे, स्पर्शङ्गपथी परिणत होय छे अने संस्थानङ्गपथी परिणत पणु होय छे

हुवे गौतम स्वामी इरी पूछे छे ३- 'जइ वन्नपरिणए किं कालवर्णपरि-णए नीलजाव सुक्किल्ल वन्नपरिणए' हे भगवान ने ते द्रव्य वल्लुङ्गपथी परिणत होय छे ? ते द्रव्य श्यामवल्लुङ्गपथी परिणत होय छे ? हे नीलवल्लुङ्गपथी परिणत होय छे ? अथवा यावत् लोहित वल्लुङ्गपथी परिणत होय छे ? अथवा पीलावल्लुङ्गपथी परिणत होय छे ? अथवा श्वेतवल्लुङ्गपथी परिणत होय छे ?

उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! 'कालवन्नपरिणए जाव सुक्किल्लवन्नपरिणए' वल्लुङ्गपथी परिणत थयेल ते द्रव्य कालवर्ण - श्यामवल्लुङ्गपथी परिणत होय छे यावत् नीलवल्लुङ्गपथी, लोहितवल्लुङ्गपथी, पीत - पीलावल्लुङ्गपथी अने श्वेतवल्लुङ्गपथी पणु परिणत होय छे

टीका—गौतमः पृच्छति—‘अहं बीससापरिणय किं घणपरिणय गंधपरिणय, रसपरिणय, फासपरिणय, सठाणपरिणय ?’ हे भदन्त । यद् द्रव्यं विसृजा-परिणत विसृजसया स्वभावेन परिणाममाप्तं तत् किम् वर्णपरिणतम्, गन्धपरिणतम्, रसपरिणतम्, स्पर्शपरिणतम्, संस्थानपरिणतम् भवति ? मगवानाह—‘गोयमा ! वक्रपरिणय वा, गंधपरिणय वा, रसपरिणय वा, फासपरिणय वा, सठाणपरि-पुच्छा) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्य संस्थानरूपमें परिणत होता है तो क्या वह परिमंडल संस्थानरूपमें परिणत होता है या यावत् व्याप्त संस्थानरूपमें परिणत होता है ? (गोयमा) ह गौतम ! (परिमंडल सठाणपरिणय वा जाव आययसंठाणपरिणय वा) संस्थानरूपमें परिणत हुआ वह द्रव्यपरिमंडलसंस्थानरूपमें भी परिणत होता है यावत् व्याप्तसंस्थानरूपमें भी परिणत होता है ।

टीकार्थ—इस सूत्रद्वारा गौतमने प्रश्नसे ऐसा पूछा है कि जह बीससा परिणय किं घणपरिणय, गंधपरिणय, रसपरिणय, फास परिणय, संठाणपरिणय) हे भदन्त ! यदि वह द्रव्यविसृजासापरिणत होता है तो क्या वह वर्णरूपसे परिणत होता है ? या गंधरूपसे परिणत होता है क्या ? या रसरूपसे परिणत होता है क्या ? या स्पर्शरूपसे परिणत होता है क्या ? या संस्थानरूपसे परिणत होता है क्या ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं कि ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘वक्रपरिणय वा, गंधपरिणय वा गन्धपरिणय वा फासपरिणय वा, सठाणपरिणय वा,

परिणय पुच्छा) हे भदन्त । ने ते द्रव्य संस्थानरूपे परिणतम भवेत् ॥ तो तु ते अयमवयव संस्थानरूपे परिणतम् ॥ १ ॥ व्याप्त संस्थान पर्यन्तना संस्थानरूपे परिणतम् ॥ (गोयमा ! ) हे गौतम ! (परिमंडलसंस्थानपरिणय वा, जाव आययसंठाण परिणय वा) संस्थानरूपे परिणत भवेत् ॥ ते द्रव्य परिमंडल संस्थानरूपे पक्ष परिणतम् ॥ २ ॥ अने व्याप्त संस्थान पर्यन्तना संस्थानरूपे पक्ष परिणतम् ॥

टीका—गौतम स्वामी महात्मीय प्रश्नने ज्येष्ठे अत्र पूछे ॥ ३—‘अहं बीससा परिणय, किं घणपरिणय, गंधपरिणय, रसपरिणय, फासपरिणय, संठाण परिणय ?’ हे भदन्त । ने ते द्रव्य विसृजापरिणत—स्वभावभी परिणत—डोय ॥ तो तु ? वर्णरूपे परिणत डोय ॥ १ ॥ गंधरूपे परिणत डोय ॥ २ ॥ रसरूपे परिणत डोय ॥ ३ ॥ स्पर्शरूपे परिणत डोय ॥ ४ ॥ अथ संस्थानरूपे परिणत डोय ॥ ५ ॥

उत्तर—‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘वक्रपरिणय वा, गंधपरिणय वा,

महुररसपरिणए वा' हे गौतम ! रसपरिणत द्रव्य तित्तरसपरिणत वा, यावत्-  
 कषायरसपरिणतं वा, कटुरसपरिणतं वा, अम्लरसपरिणत वा; मधुररसपरिणतं  
 वा भवति । गौतमः पृच्छति—'जइ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए—जाव  
 लुक्खफासपरिणए ?' हे भदन्त ! यद्द्रव्यस्पर्शपरिणत तत् किं कर्कशस्पर्शा-  
 परिणत यावत्—मृदुस्पर्शपरिणत, शीतोष्णगुरुलघुस्पर्शपरिणत, स्निग्धस्पर्शा-  
 परिणत रूक्षस्पर्शपरिणतं भवति ? भगवानाह—'गोयमा ! कक्खडफासपरिणए  
 वा, जाव लुक्खफासपरिणए वा' हे गौतम ! स्पर्शपरिणतं द्रव्य कर्कशस्पर्शा-  
 परिणतं वा, यावत् - स्निग्ध—रूक्षस्पर्शपरिणत वा भवति । गौतमः

वा, जाव महुररसपरिणए वा' इसरूपसे परिणत हुआ वह द्रव्य  
 तित्तरसरूपसे भी परिणत होता है यावत् कषायरसरूपसे भी परिणत  
 होता है, कटुरसरूपसे भी परिणत होता है, अम्लरसरूपसे भी परि-  
 णत होता है, मधुररसरूपसे भी परिणत होता है । अब गौतमस्वामी  
 प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ फासपरिणए, किं कक्खडफासपरिणए, जाव  
 लुक्खफासपरिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य स्पर्शरूपसे परिणत होता है  
 वह क्या कर्कशस्वरूपसे परिणत होता है, यावत् मृदुस्पर्शरूपसे परि-  
 णत होता है, या शीत, उष्ण, गुरु, लघु, स्पर्शरूपसे परिणत होता  
 है ? या स्निग्धरूपस्पर्शासे परिणत होता है ? या रूक्षस्पर्शरूपसे  
 परिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम!  
 'कक्खडफासपरिणए वा जाव लुक्खफासपरिणए वा' स्पर्शरूपसे परि-  
 णत हुआ वह द्रव्य कर्कशस्पर्शरूपसे भी परिणत होता है, यावत्

उत्तर— 'गोयमा' हे गौतम ! ' तित्तरसपरिणए वा, जाव महुररस  
 परिणए वा ' रसथी परिणत थयेल ते द्रव्य तीणा रसइपथी पणु परिणत होय छे  
 यावत् पट्थी कषाय रसइपथी पणु परिणत होय छे कटुररसइपथी पणु परिणत होय छे  
 आटा रसइपथी पणु परिणत होय छे अने भीठाररसइपथी पणु परिणत होय छे

प्रश्न— ' जइ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए, जाव लुक्खफास  
 परिणए ' हे भगवन् ने द्रव्य स्पर्शइपथी परिणत होय ते शु कषाय—कर्कशइपथी  
 परिणत होय छे ? यावत् मृदुस्पर्शइपथी परिणत होय छे ? अगर ठंडा उना लारे  
 डणवा स्पर्शइपथी परिणत होय छे ? अगर स्निग्धइप (चीकाशवाणा) रसथी परिणत  
 होय छे ? अथवा कठोर (लूआ स्पर्शइपथी परिणत होय छे ?

उत्तर— ' गोयमा ! ' हे गौतम ! ' कक्खडफासपरिणए वा जाव लुक्ख-  
 फासपरिणए वा ' स्पर्शइपथी पणु परिणत थयेल ते द्रव्य कठोरस्पर्शइपथी पणु



शुद्धिगंधपरिणत भवति । गौतमः पृच्छति—‘जइ गंधपरिणए किं सुग्धिगंधपरिणए  
दुग्धिगंधपरिणए ?’ हे भदन्त ! यद्द्रव्यं गन्धपरिणत तत् किं सुरभिगन्धपरिणत  
दुरभिगन्धपरिणत भवति ? भगवानाह ‘गोयमा ! सुरभिगंधपरिणए वा, दुग्धि  
गंधपरिणए वा’ हे गौतम ! गन्धपरिणत द्रव्य सुरभिगन्धपरिणत वा भवति, दु  
ग्धिगंधपरिणत वा भवति । गौतमः पृच्छति—‘जइ रसपरिणए किं तिचरसपरिणए  
पुच्छा हे भदन्त ! यद्द्रव्यं रसपरिणत तत् किं तिचरसपरिणत भवति  
कदुरसपरिणत, भवति, कपायरसपरिणत भवति, अम्बरसपरिणत, मधुर  
परिणत भवति, ! इति पृच्छा, भगवानाह—‘गोयमा ! तिचरसपरिणए वा, जा

घर्णरूपसे भी परिणत होता है । अब गौतममनुसे ऐसा पूछते  
‘जइ गंध परिणए, किं सुग्धिगंधपरिणए, दुग्धिगंधपरिणए’ हे भदन्त  
जो द्रव्य गंधरूपसे परिणत होता है वह क्या सुरभिगंधरूपसे परिण  
होता है ? या दुरभिगंधरूपसे परिणत होता है क्या ? इसके उत्तर  
मनु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! सुग्धिगंधपरिणए वा, दुग्धिगंध  
परिणए वा’ गंध परिणत वह द्रव्यसुरभिगंधरूपसे भी परिणत होते  
है और दुरभिगंधरूपसे भी परिणत होता है । अब गौतमम्बाम  
मनुसे ऐसा पूछते हैं कि ‘जइ रसपरिणए, किं तिचरसपरिणए ?  
पुच्छा’ हे भदन्त ! जो द्रव्य रसपरिणत होता है वह क्या  
तिचरसरूपमें परिणत होता है ? या कदुरसरूपमें परिणत हो  
है या कपायरसरूपमें परिणत होता है ? या अम्बरसरूप  
परिणत होता है ? या मधुरसरूपमें परिणत होता है क्या  
इसके उत्तरमें मनु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘तिचरसपरिण

अ - ‘ जइ गंधपरिणए, किं सुग्धिगंधपरिणए, दुग्धिगंधपरिणए  
हे भवन्त ! जे द्रव्य गंधरूपसे परिणत होय छे ते सु ते सुरभिगंध - सुग्धि  
परिणत होय छे ? हे दुरभिगंध - दुग्धिगंधरूपसे परिणत होय छे ?

उत्तर - ‘ गोयमा ’ हे गौतम ! ‘ सुग्धिगंधपरिणए वा, दुग्धिगंध  
परिणए वा ’ सुरभिगंध - सुग्धिगंधरूपसे परिणत होय छे अने दुरभिगंध  
दुग्धिगंधरूपसे परिणत होय छे ?

अ - जइ रसपरिणए, तिचरसपरिणए (५) पुच्छा - हे भवन्त ! जे  
द्रव्य रस परिणत होय छे ते तिचर (तीखा) रसरूपसे परिणत होय छे हे कदुर (कदुर  
रसरूपसे परिणत होय छे अउर कपाय (तरा) रसरूपसे परिणत होय छे अने  
अम्बर (आवा) रसरूपसे परिणत होय छे अथवा मधुर (मीठा) रससे परिणत होय छे

महुररसपरिणए वा' हे गौतम ! रसपरिणत द्रव्य तित्तरसपरिणतं वा, यावत्-  
कषायरसपरिणतं वा, कटुरसपरिणतं वा, अम्लरसपरिणतं वा; मधुररसपरिणतं  
वा भवति । गौतमः पृच्छति—'जइ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए—जाव  
लुक्खफासपरिणए ?' हे भदन्त ! यद्द्रव्यस्पर्शपरिणत तत् किं कर्कशस्पर्श-  
परिणतं यावत्—मृदुस्पर्शपरिणत, शीतोष्णगुरुलघुस्पर्शपरिणत, स्निग्धस्पर्श-  
परिणत रूक्षस्पर्शपरिणत भवति ? भगवानाह—'गोयमा ! कक्खडफासपरिणए  
वा, जाव लुक्खफासपरिणए वा' हे गौतम ! स्पर्शपरिणतं द्रव्य कर्कशस्पर्श-  
परिणतं वा, यावत् — स्निग्ध—रूक्षस्पर्शपरिणत वा भवति । गौतमः

वा, जाव महुररसपरिणए वा' इसरूपसे परिणत हुआ वह द्रव्य  
तित्तरसरूपसे भी परिणत होता है यावत् कषायरसरूपसे भी परिणत  
होता है, कटुरसरूपसे भी परिणत होता है, अम्लरसरूपसे भी परि-  
णत होता है, मधुररसरूपसे भी परिणत होता है । अब गौतमस्वामी  
प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ फासपरिणए, किं कक्खडफासपरिणए, जाव  
लुक्खफासपरिणए' हे भदन्त ! जो द्रव्य स्पर्शरूपसे परिणत होता है  
वह क्या कर्कशस्वरूपसे परिणत होता है, यावत् मृदुस्पर्शरूपसे परि-  
णत होता है, या शीत, उष्ण, गुरु, लघु, स्पर्शरूपसे परिणत होता  
है ? या स्निग्धरूपस्पर्शसे परिणत होता है ? या रूक्षस्पर्शरूपसे  
परिणत होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम !  
'कक्खडफासपरिणए वा जाव लुक्खफासपरिणए वा' स्पर्शरूपसे परि-  
णत हुआ वह द्रव्य कर्कशस्पर्शरूपसे भी परिणत होता है, यावत्

उत्तर— 'गोयमा' हे गौतम ! ' तित्तरसपरिणए वा, जाव महुररम  
परिणए वा ' रसथी परिणत थयेल ते द्रव्य तीष्ण रसइयथी पणु परिणत होय छे  
यावत् पट्ठी कषाय रसइयथी पणु परिणत होय छे कटुरमइयथी पणु परिणत होय छे  
आटा रसइयथी पणु परिणत होय छे अने भीठारसइयथी पणु परिणत होय छे

प्रश्न— ' जइ फासपरिणए किं कक्खडफासपरिणए, जाव लुक्खफास  
परिणए ' हे भगवन् जे द्रव्य स्पर्शइयथी परिणत होय ते शु कषाय—कर्कशइयथी  
परिणत होय छे ? यावत् मृदुस्पर्शइयथी परिणत होय छे ? अगर ठंडा उना लारे  
हणवा स्पर्शइयथी परिणत होय छे ? अगर स्निग्धइय (स्नीकाशवाणा) रसथी परिणत  
होय छे ? अथवा कठोर (लूणा स्पर्शइयथी परिणत होय छे ?

उत्तर— ' गोयमा ! ' हे गौतम ! ' कक्खडफासपरिणए वा जाव लुक्ख-  
फासपरिणए वा ' स्पर्शइयथी पणु परिणत थयेल ते द्रव्य कठोरस्पर्शइयथी पणु

पुच्छति—‘अइ सठाणपरिणए पुच्छा ? हे भदन्त ! यद् द्रव्य सस्थानपरिणत तत् किम् परिमण्डलादिसस्थानपरिणत भवति ? मगवानाइ—‘गोयमा ! परिमण्डलसंठाणपरिणए वा’ हे गौतम ! सस्थानपरिणत द्रव्य परिमण्डलसस्थान परिणत वा, यावत्-वृत्तसस्थानपरिणत वा, श्यस्त्रसस्थान-चतुरस्रसस्थाना-ऽऽयतसंस्थानपरिणत वा भवति, इत्याशयः ॥ सू० २० ॥

द्विपुद्गलद्रव्यपरिणामनक्तम्पता

सूत्रम्—दो भते ! द्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया ? गोयमा ! पओगपरिणया वा १ मीसापरिणया वा २, वीससापरिणया वा ३, अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए ४, अहवेगे पओगप० एगे वीससापरि० ५ अहवा एगे

षटोर्गस्पर्शरूपसे, सृष्टुस्पर्शरूपसे, स्निग्धपरारूपसे, स्नस्तस्पर्शरूपसे भी परिणत होता है । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे पेसा पूछते हैं ‘अइ सठाणपरिणए’ पुच्छा’ हे भदन्त ! जो द्रव्यसंस्थान परिणत कहा गया है, यह क्या परिमण्डलसस्थान परिणत होता है ? या यावत् आयत सस्थानपरिणत होता है ? ‘यावत्’ शब्दसे वृत्त सस्थान परिणत, श्यस्त्रसंस्थानपरिणत, चतुरस्रसस्थानपरिणत’ इनपदोंका ग्रहण हुआ है । इसके उत्तरमें प्रश्न करते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘परिमण्डल सठाणपरिणए वा जाव आययसठाणपरिणए वा’ जो द्रव्य संस्थानपरिणत कहा गया है यह द्रव्य परिमण्डलसंस्थानपरिणत भी होता है यावत् आयतसस्थान परिणत भी होता है ॥ सू० २० ॥

परिणत होय ॐ यावत् षटोर्गस्पर्शरूपसे, सृष्टुस्पर्शरूपसे, स्निग्धरूपसे इत्यधी इतरपथ इत्यधी पक्ष परिणत होय ॐ

प्रश्न— अइ सठाणपरिणए पुच्छा’ ने अयवन् के द्रव्य सस्थान परिणत षटोर्ग ॐ ते शु परिमण्डल सस्थान परिणत होय ॐ । नाए— ‘आयत (वायु) सस्थान परिणत होय ॐ । आओ यावत् श्यस्त्री वृत्त (विष्णु) सस्थान परिणत श्यस्त्री (त्रिकोण) सस्थान परिणत, चतुरस्र सस्थान परिणत के नाओतु षटोर्ग वपेत् ॐ ।

उत्तर— ‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘परिमण्डलसंस्थानपरिणए वा जाव आययसठाणपरिणए वा’ ने द्रव्य सस्थान परिणत षटोर्ग ॐ ते ए व परिमण्डल सस्थान परिणत पक्ष होय ॐ नाए आयत सस्थान परिणत पक्ष होय ॐ ॥ सू० २० ॥

मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए एवं ६ । जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया, वइप्पओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया ? गोयसा ! मणप्पओग०, वइप्पओग० कायप्पओगपरिणया वा, अहवेगे मणप्पओगप० एगे वइप्पओगप०, अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरि०, अहवेगे वयप्पओगप० एगे कायप्पओगपरि०, जइ मणपओगप० किं सच्चमणप्पओगप०४ ? गोयसा ! सच्चमणप्पओगपरिणया वा जाव असच्चामोसमणप्पओगपरिणया वां अहवा एगे सच्चमणप्पओगपरिणए, एगे मोसमणप्पओगपरिणए १, अहवा एगे सच्चमणप्पओगप०, एगे सच्चामोसमणप्पओगपरिणए २, अहवा एगे सच्चमणप्पओगपरिणए, एगे असच्चामोसमणप्पओगपरिणए ३, अहवा एगे मोसमणप्पओगपरिणए, एगे सच्चामोसमणप्पओगप०४, अहवा एगे मोसमणप्पओग प० एगे असच्चामोसमणप्पओगप० ५, अहवा एग सच्चामोसमण ५-ओगप० एगे असच्चामोसमणप्पओग प०६ । जइ सच्चमणप्पओगप० किं आरंभसच्चमणप्पओगपरिणया, जाव असमारंभसच्चमणप्पओग प० ? गोयसा ! आरंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा, जाव असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा, अहवा एगे आरंभसच्चमणप्पओग प०, एगे अणारंभसच्चमणप्पओगप० । एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नेयवं, सव्वे संजोगा जत्थ जत्तिया उट्ठेति ते भाणियत्वा; जाव सब्बट्टुसिद्धगत्ति, । जइ मीसाप०, किं मणमीसापरिण० एवं मीसापरि० वि । जइ वीससा परिणया किं

वृष्णपरिणया, गध प०, एव वीससा परिणया वि, जाव, अहवा एगे चउरस् सठाण परिणए, एगे आययसठाणपरिणए वा । सू० ५१।

अथ द्रव्यद्वयादि परिणामभिरुत्पन्नरूपपितृ प्रथम द्विद्रव्यपरिणामभक्त्युत्पत्ता माह—‘दो मंते’ इत्यादि ।

छाया—द्वे भवन्त ! द्रव्ये किं प्रयोगपरिणते, मिश्रपरिणते, विस्रसापरिणते ? गौतम ! प्रयोगपरिणते वा १, मिश्रपरिणते वा २, विस्रसापरिणते वा ३, अथवा एक प्रयोगपरिणतम्, एक मिश्रपरिणतम् ४, अथवा एक प्रयोगपरिणतम्, एकं विस्रसापरिणतम् ५, अथवा एक मिश्रपरिणतम् एक विस्रसापरिणतम्, एवम् ६,

द्विपुद्गलद्रव्यपरिणामभक्त्युत्पत्ता—

‘दो मंते ! दृष्ट्वा किं पओगपरिणया ’ इत्यादि ।

सुधार्थ—( दो मंते ! दृष्ट्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया ) हे भवन्त ! दो द्रव्य कया प्रयोगसे परिणत होतें हैं ? या मिश्रपरिणत होते हैं ? या विस्रसापरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा) ये प्रयोगपरिणत भी होते हैं । मिश्रपरिणत भी होते हैं । तथा विस्रसापरिणत भी होते हैं । (अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए, अहवेगे पओगपरिणए, एगे वीससापरिणए, अहवा एगे मीसापरिणए एव ६) अथवा एक द्रव्यप्रयोगपरिणत होता है, दूसरा मिश्रपरिणत होता है । अथवा एक प्रयोगपरिणत होता है, एक विस्रसापरिणत होता

द्विपुद्गल परिणाम उत्पत्ति निरूपण.

‘दो मंते ! दृष्ट्वा किं पओगपरिणया ’ इत्यादि—

सुधार्थ—‘दो मंते दृष्ट्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया’ हे भवन्त ! दो द्रव्य कया प्रयोगसे परिणत होतें हैं ? मिश्र परिणत होतें हैं ? अथवा विस्रसा परिणत होतें हैं ? ‘गोयमा’ गौतम ! ‘पओगपरिणया वा मीसापरिणया वा वीससापरिणया वा’ ते प्रयोग परिणत होतें हैं । मिश्र परिणत एक होतें हैं । अथवा विस्रसापरिणत एक होतें हैं । (अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए अहवेगे पओगपरिणए, एगे वीससा परिणए, अहवा एगे मीसापरिणए एगे वीससापरिणए एव ६) अथवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होतें हैं वीससा परिणत होतें हैं अथवा एक प्रयोग परिणत होतें हैं एक वीससापरिणत होतें हैं

यदि प्रयोगपरिणते किम् मनःप्रयोगपरिणते, वचःप्रयोगपरिणते, कायप्रयोगपरिणते ? गौतम ! मनःप्रयोगपरिणते वा१, वचःप्रयोगपरिणते वा२, कायप्रयोगपरिणते वा३, अथवा एकं मनःप्रयोगपरिणतं वा, एकं वचःप्रयोगपरिणतं वा४, अथवा एक मनःप्रयोगपरिणतम्, एकं कायप्रयोगपरिणतम्५, अथवा एकं वचःप्रयोगपरिणतम्, एकं कायप्रयोगपरिणतम्६। ये मनःप्रयोगपरिणते किं सत्यमनःप्रयोग-

है। अथवा एकमिश्रपरिणत होता है और एकविस्त्रसापरिणत होता है। (जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया, वइप्पओगपरिणया) हे भदन्त ! यदि वे दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं, तो क्या वे मनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या वचनप्रयोगपरिणत होते हैं (कायप्पओगपरिणया) कायप्रयोगपरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (मणप्पओग० वइप्पओग, कायप्पओगपरिणया वा) वे मनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं। वचनप्रयोगपरिणत भी होते हैं। कायप्रयोगपरिणत भी होते हैं। (अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वइप्पओगपरिणए, अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए, अहवेगे वचप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए) अथवा एकद्रव्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, एकद्रव्यवचनप्रयोगपरिणत होता है, अथवा एकद्रव्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, एक कायप्रयोगपरिणत होता है। अथवा एकद्रव्य वचनप्रयोगपरिणत होता है, एक कायप्रयोगपरिणत होता है। (जइ मणप्प-

अथवा अेक मिश्र परिणत होय छे अने अेक वीअसापरिणत होय छे, जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया वइप्पओगपरिणया) हे भगवन् ने ते द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे तो शु ? ते मनप्रयोग परिणत होय छे के वचनप्रयोग परिणत होय छे ? अगर ( कायप्पओगपरिणया ) शरीरप्रयोग परिणत होय छे ?

उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! (मणप्पओग० वइप्पओग० कायप्पओग० परिणया वा) ते मनप्रयोग परिणत पयु होय छे वचनप्रयोग परिणत पयु होय छे अने (शारीरीक) कायप्रयोग परिणत पयु होय छे (अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वइप्पओगपरिणए, अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए, अहवेगे वइप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए) अथवा अेक द्रव्य मनप्रयोग परिणत होय छे, अेक द्रव्य वचनप्रयोग परिणत होय छे, अथवा अेक द्रव्य मनप्रयोग परिणत होय छे अेक कायप्रयोग परिणत होय छे, अथवा अेक द्रव्य वचनप्रयोग परिणत होय छे, अने अेक कायप्रयोग परिणत होय छे (जइ मणप्पओग-

घण्टापरिणया, गघ प०, घव वीससा परिणया वि, जाव, अहवा एगे चउरस सठाण परिणए, एगे आययसठाणपरिणए वा ।सू०-२१।

अथ द्रव्यद्वयादि परिणाममधिकृत्यप्ररूपयितु मयम द्विद्रव्यपरिणामवक्तव्यता-  
माह-‘दो भते’ इत्यादि ।

छाया—हे मदन्त ! द्रव्य किं प्रयोगपरिणते, मिश्रपरिणते, विस्रसापरिणते ? गौतम ! प्रयोगपरिणते वा १, मिश्रपरिणते वा २, विस्रसापरिणते वा ३, अथवा एक प्रयोगपरिणतम्, एक मिश्रपरिणतम् ४, अथवा एकं प्रयोगपरिणतम्, एक विस्रसापरिणतम् ५, अथवा एक मिश्रपरिणतम् एक विस्रसापरिणतम्, एवम् ६,

द्विपुद्गलद्रव्यपरिणामवक्तव्यता-

‘दो भते ! द्रव्या किं पओगपरिणया ’ इत्यादि ।

सुत्रार्थ—( दो भते ! द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया ) हे मदन्त ! दो द्रव्य क्या प्रयोगसे परिणत होते हैं ? या मिश्रपरिणत होते हैं ? या विस्रसापरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा) वे प्रयोगपरिणत भी होते हैं । मिश्रपरिणत भी होते हैं । तथा विस्रसापरिणत भी होते हैं । (अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए, अहवा एगे पओगपरिणए, एगे वीससापरिणए, अहवा एगे मीसापरिणए एव ६) अथवा एक द्रव्यप्रयोगपरिणत होता है, दूसरा मिश्रपरिणत होता है । अथवा एकप्रयोगपरिणत होता है, एक विस्रसापरिणत होता

द्विपुद्गल परिणाम स्वहपनु निरूपण-

‘दो भते ! द्रव्या किं पओगपरिणया ’ इत्यादि -

सुत्रार्थ—‘दो भते द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया’ हे मदन्त ! दो द्रव्य क्या प्रयोगसे परिणत होते हैं ? मिश्र परिणत होते हैं ? अथवा विस्रसा परिणत होते हैं ? ‘गोयमा’ गौतम ! ‘पओगपरिणया वा मीसापरिणया वा वीससापरिणया वा’ वे प्रयोग परिणत होते हैं । मिश्र परिणत एव होते हैं । अथवा विस्रसापरिणत एव होते हैं । (अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए अहवा एगे पओगपरिणए, एगे वीससा परिणए, अहवा एगे मीसापरिणए एगे वीससापरिणए एव ६) अथवा एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है वीससा मिश्रपरिणत होता है अथवा एक प्रयोग परिणत होता है एक वीससापरिणत होता है

यदि प्रयोगपरिणते किम् मनःप्रयोगपरिणते, वचःप्रयोगपरिणते, कायप्रयोगपरिणते ? गौतम ! मनःप्रयोगपरिणते वा१, वचःप्रयोगपरिणते वा२, कायप्रयोगपरिणते वा३, अथवा एकं मनःप्रयोगपरिणतं वा, एकं वचःप्रयोगपरिणतं वा४, अथवा एकं मनःप्रयोगपरिणतम्, एकं कायप्रयोगपरिणतम्५, अथवा एकं वचःप्रयोगपरिणतम्, एकं कायप्रयोगपरिणतम्६। ये मनःप्रयोगपरिणते किं सत्यमनःप्रयोग-

है। अथवा एकमिश्रपरिणत होता है और एकविस्रसापरिणत होता है। (जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया, वहप्पओगपरिणया) हे भदन्त ! यदि वे दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं, तो क्या वे मनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या वचनप्रयोगपरिणत होते हैं (कायप्पओगपरिणया) कायप्रयोगपरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (मणप्पओग० वहप्पओग, कायप्पओगपरिणया वा) वे मनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं। वचनप्रयोगपरिणत भी होते हैं। कायप्रयोगपरिणत भी होते हैं। (अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वहप्पओगपरिणए, अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए, अहवेगे वयप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए) अथवा एकद्रव्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, एकद्रव्यवचनप्रयोगपरिणत होता है, अथवा एकद्रव्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, एक कायप्रयोगपरिणत होता है। अथवा एकद्रव्य वचनप्रयोगपरिणत होता है, एक कायप्रयोगपरिणत होता है। (जइ मणप्प-

अथवा अेक मिश्र परिणत होय छे अने अेक वीस्रसापरिणत होय छे, जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया वहप्पओगपरिणया) हे भगवन् ने ते द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे तो शु ? ते मनप्रयोग परिणत होय छे के वचनप्रयोग परिणत होय छे ? अगर ( कायप्पओगपरिणया ) शरीरप्रयोग परिणत होय छे ?

उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! (मणप्पओग० वहप्पओग० कायप्पओग० परिणया वा) ते मनप्रयोग परिणत पणु होय छे वचनप्रयोग परिणत पणु होय छे अने (शारीरीठ) कायप्रयोग परिणत पणु होय छे (अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वहप्पओगपरिणए, अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए, अहवेगे वहप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए) अथवा अेक द्रव्य मनप्रयोग परिणत होय छे, अेक द्रव्य वचनप्रयोग परिणत होय छे, अथवा अेक द्रव्य मनप्रयोग परिणत होय छे, अेक कायप्रयोग परिणत होय छे, अथवा अेक द्रव्य वचनप्रयोग परिणत होय छे, अने अेक कायप्रयोग परिणत होय छे (जइ मणप्पओग-



परिणते ०४ ? गौतम ! सत्यमनःप्रयोगपरिणते वा, यावत्-असत्यामृषामनः  
 प्रयोगपरिणते वा, अथवा एक सत्यमनःप्रयोगपरिणतम्, एकं मृषामनःप्रयोग-  
 परिणतम् १, अथवा एक सत्यमनःप्रयोगपरिणतम्, एक सत्यमृषामनःप्रयोग-

भोगपरिणए किं सच्चमणप्यभोगपरिणए ४ ?) हे भदन्त ! यदि वे द्रव्य  
 मनःप्रयोगपरिणत हाते हैं तो क्या सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ?  
 या असत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या उभयमनःप्रयोगपरिणत होते  
 हैं ? या अनुभयमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? (गायमा) हे गौतम !  
 (सच्चमणप्यभोगपरिणया वा, जाव असच्चामोसमणप्यभोगपरिणया वा?  
 अहवा एगे सच्चमणप्यभोगपरिणए, एगे मोसमणप्यभोगपरिणए १,  
 अहवा एगे सच्चमणप्यभोगपरिणए, एगे सच्चामोसमणप्यभोगपरिणए २,  
 अहवाएगे सच्चमणप्यभोगपरिणए, एगे असच्चामोसमणप्यभोगपरिणए ३,  
 अहवा एगे मोसमणप्यभोगपरिणए, एगे असच्चामोसमणप्यभोगपरिणए ४,  
 अहवा एगे मोसमणप्यभोगपरिणए, एगे असच्चामोसमणप्यभोगपरिणए ५,  
 अहवा एगे सच्चामोसमणप्यभोगपरिणए, एगे असच्चामोसमणप्यभोगपरि  
 णए ६) वे द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं यावत् असत्या  
 मृषामनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं । अथवा एकद्रव्य सत्यमनःप्रयोग  
 परिणत होता है, एकमृषामनःप्रयोगपरिणत होता है । अथवा एक  
 सत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है और दूसरा सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणत

परिणए किं सच्चमणप्यभोगपरिणए ४ ?) हे भगवन् ने ते द्रव्य मनःप्रयोग  
 परिणत होय तो शु सत्य मनःप्रयोग परिणत होय ॥ हे असत्य मनःप्रयोग परिणत होय ॥  
 अथवा भिन्न अर्थात् जने प्रकृत्य मनःप्रयोग परिणत होय ॥ अथवा अनुभय प्रयोग  
 परिणत होय ॥ ' गौयमा ! ' हे गौतम ! ( सच्चमणप्यभोगपरिणया वा, जाव  
 असच्चामोसमणप्यभोगपरिणया वा, अहवा एगे सच्चमणप्यभोग परिणए एगे  
 मोसमणप्यभोगपरिणए १ अहवा एगे सच्चमणप्यभोगपरिणए एगे सच्चामोसमण  
 प्यभोगपरिणए २, अहवा एगे सच्चमणप्यभोगपरिणए एगे असच्चामोसमणप्य  
 भागपरिणए ३ अहवा एगे मोसमणप्यभोगपरिणए एगे असच्चामणप्यभोग  
 परिणए ४ अहवा एगे मोसमणप्यभोगपरिणए एगे असच्चामोसमणप्यभोगपरिणए  
 ५ अहवा एगे सच्चामोसमणप्यभोगपरिणए एगे असच्चामोसमणप्यभोगपरिणए  
 ६ ) ते द्रव्य सत्यमनः प्रयोग परिणत होय ॥ यावत् असत्यमृषामनः प्रयोग परिणत  
 पण्य होय ॥ अथवा जो द्रव्य सत्यमनः प्रयोग परिणत होय ॥ जो मृषामनः प्रयोग  
 परिणत होय ॥ अथवा जो सत्यमनः प्रयोग परिणत होय ॥ जने वीज्य सत्यमृषा

परिणतम् २, अथवा एकं सत्यमनःप्रयोगपरिणतम्, एकम् असत्यामृषामनः  
 प्रयोगपरिणतम् ३, अथवा एकं मृषामनःप्रयोगपरिणतम्, एकं सत्यमृषामनः  
 प्रयोगपरिणतम् ४, अथवा एकं मृषामनःप्रयोगपरिणतम्, एकम् असत्यामृषामनः-  
 प्रयोगपरिणतम् ५, अथवा एकं सत्यामृषामनःप्रयोगपरिणतम्, एकम् असत्यामृषाम-  
 नःप्रयोगपरिणतम् ६, यदि सत्यमनःप्रयोगपरिणते किम् आरम्भसत्यमनःप्रयोग-  
 परिणते, यावत् असमारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते ? गौतम ! आरम्भसत्यमनः-  
 प्रयोगपरिणते वा, यावत्-असमारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते वा, अथवा एकम्

होता है । अथवा एक सत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, और दूसरा  
 असत्यामृषामनःप्रयोगपरिणत होता है अथवा एकमृषामनःप्रयोगपरिणत  
 होता है और दूसरा सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणत होता है, अथवा  
 एकमृषामनःप्रयोगपरिणत होता है और दूसरा असत्यामृषामनःप्रयोग  
 परिणत होता है । अथवा एकसत्यमृषामनःप्रयोगपरिणत होता है और  
 दूसरा असत्यामृषामनःप्रयोगपरिणत होता है । (जइ सच्चमणप्पओग-  
 परिणए किं आरंभ सच्चमणप्पओगपरिणया, जाव असमारंभसच्चमणप्प-  
 ओगप०) हे भदन्त ! जो वे दो द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं,  
 तो क्या आरंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं या अनारंभ सत्यमनः-  
 प्रयोगपरिणत होते हैं ? संरंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? असंरंभ  
 सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? समारंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते  
 हैं ? या असमारंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे  
 गौतम ! आरंभ सच्चमणप्पओगपरिणया जाव असमारंभ सच्चमणप्प-

(सायु लुहुं) मनप्रयोगपरिणत होय छे अथवा अेक सत्यमन प्रयोग परिणत होय छे.  
 अने धीनु असत्यमृषामन प्रयोग परिणत होय छे. अथवा अेक मृषामन प्रयोग  
 परिणत होय छे, अने धीनु असत्यमनमृषा प्रयोग परिणत होय छे, अथवा अेक  
 सत्यमृषामनः प्रयोग परिणत होय छे अने धीनु असत्यमृषामन प्रयोग परिणत होय छे  
 (जइ सच्चमणप्पओगपरिणए किं आरंभसच्चमणप्पओगपरिणया, जाव  
 असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा) हे लगवन् ने ते द्रव्य सत्यमनप्रयोग  
 परिणत होय छे तो शु ? आरंभ सत्यमनप्रयोग परिणत होय छे ? हे अनारंभ  
 सत्यमनःप्रयोग परिणत होय छे ? अगर संरंभसत्यमनप्रयोग परिणत होय छे हे  
 असंरंभ सत्यमनप्रयोग परिणत होय छे ? समारंभ सत्यमनप्रयोग परिणत होय छे ?  
 अगर असमारंभ सत्यमनप्रयोग परिणत होय छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (आरंभ-  
 सच्चमणप्पओगपरिणया, जाव असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा) सत्यमन-

आरम्भसत्यमन प्रयोगपरिणतम्, एकम् अनारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणतम्, एवम् एतेन गमकेन द्विकसंयोगेन द्वास्तव्यम्, सर्वे सयोगा यत्र यावन्तः उच्यन्ते ते भणितव्या यावत् सर्वायसिद्धकृति ये मिश्रपरिणते किं मनोमिश्रपरिणते ? एव मिश्रपरिणते अपि ये विन्नतापरिणते किं वर्षपरिणते, गन्धपरिणते ? एव

ओगपरिणया वा ) सत्यमनःप्रयोगपरिणत व दो द्रव्य आरंभसत्यमन प्रयोगपरिण भी होते हैं यावत् असमांभ सत्यमन प्रयोगपरिणत भी होते हैं । (अहवा एगे आरंभ सत्त्वमण्यप्यओगपरिया) अथवा एकद्रव्य आरंभ सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है (एगे अणारंभसत्त्वमण्यप्यओग परिणया ) दूसरा अनारंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है । (एव (एण गमण दुयसजोगेण नेयव्यं) आरम्भसत्यमन प्रयोगादि पदस्थित द्विकसंयोगबाले अभिलापक्रमसे अन्य संरंभ आदि आरेका द्विद्रव्य जानना चाहिये । (सव्ये संजोगा जत्य जत्थिया उट्टेति, ते भाणियन्मा जाव सव्यदृसिद्धगई) इस तरह जहाँ जितने द्विकसंयोग हों उतने सवद्विकसंयोग कहना चाहिये यावत् सर्वायसिद्ध वैमानिकदेवतक (अइ मीसा परिणया किं मणमीसापरिणए) हे भवन्त ! यदि वे दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं तो क्या वे मनोमिश्रपरिणत होते हैं इत्यादि ? (एव मीसा प० वि०) हे गौतम ! जैसा प्रयोग परिणत के संबंधमें कहा गया है उसी तरहसे मिश्रपरिणतके संबंधमें भी

प्रयोग परिणत ते ये द्रव्यो आरम्भसत्यमनप्रयोग परिणत एव हेय उ यावत् असमांभ सत्यमनप्रयोग परिणत एव हेय उ (अहवा एगे आरंभसत्त्वमण्यप्यओग परिणया) अथवा ओह द्रव्य आरंभ सत्यमनप्रयोग परिणत हेय उ (एगे अणारंभ सत्त्वमण्यप्यओगपरिणया) जीवु अनारंभ सत्यमनप्रयोग परिणत हेय उ एवं ए एण गमण दुयसजोगेण नेयव्यं) आरंभ सत्यमनप्रयोगादी पयोभा अतावेव द्विकसंयोगाभा अभिलापना इमथी अन्यसत्त्वमादी आरेना ये प्रकारेना द्रव्ये बाणी सेव । (सव्ये संजोगा जत्य जत्थिया उट्टेति ते भाणियन्मा, जाव सव्यदृसिद्ध गई) ये शीते न्य नेटवा द्विकसंयोग हेय त्वा नेटवा नभा द्विकसंयोग इहेव नोड्धि गन्ध - सर्वायसिद्धि विजानवासी देव सुधी (अइमीसा परिणया किं मणमीसा परिणए) इ अत्रयन् ने ते ये द्रव्य मिश्रपरिणत हेय ते शु त अनेदभ्र भ्रवन्त हेय उ ? अथवा (एव मीसा प वि) हे गौतम नेवु प्रयोग परिणतन अ अथभा इवु उ अथ शीते मिश्र परिणतन अ अथभा एवु अथी सेवु (अइ मीसा परिणया किं वन्न परिणया, गंधपरिणया) इ अत्रयन् ने ते ये द्रव्य विन्नता परिणत हेय उ तो शु ? त एव इथी परिणत हेय उ अत्र ज पश्यथी परिणत हेय उ ।

विस्त्रसापरिणतेऽपि यावत्, अथवा एकं चतुरस्रसंस्थानपरिणतम् वा, एकम् आयतसंस्थानपरिणतं वा ॥ सू० २१ ॥

टीका—‘दो भंते द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससा परिणया?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! द्वे द्रव्ये किं प्रयोगपरिणते ? किंवा मिश्रपरिणते ? अथवा विस्त्रसापरिणते भवतः ? भगवानाह—‘गोयमा ! पओगपरिणया वा ? मीसापरिणया वा २ वीससापरिणया वा ३, हे गौतम ! द्वे द्रव्ये प्रयोगपरिणते

जानना चाहिये । ( जइ वीससा परिणया किं वण्ण परिणया, गंध-परिणया ) हे भदन्त ! यदि वे दो द्रव्य विस्त्रसापरिणत होते हैं तो क्या वे वर्णरूपसे परिणत होते हैं या गंधरूपसे परिणत होते हैं इत्यादि । ( एव वीससा परिणया वि जाव अहवा एगे चउरंससंठाण-परिणए, एगे आययसंठाणपरिणए वा’ हे गौतम ! इसी तरहसे विस्त्रसापरिणतके संबधमें भी जानना चाहिये । यावत् अथवा एक द्रव्य चतुरस्रसंस्थानरूपसे भी परिणत होता है तथा दूसरा आयत संस्थानरूपसे भी परिणत होता है ।

टीकार्थ—इस सूत्रद्वारा सूत्रकारने द्रव्यद्वय आदिके परिणासको आश्रितकरके प्रभुसे ऐसा पूछा है कि ‘दो भते ! द्रव्या किं पओग-परिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया’ हे भदन्त ! दो द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं या मिश्रपरिणत होते हैं या विस्त्रसापरिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पओ-गपरिणया वा १ मीसापरिणया वा २, वीससापरिणया वा ३’ दो द्रव्य प्रयोगपरिणत भी होते हैं, मिश्रपरिणत भी होते हैं और विस्त्रसा-

धत्थादि ( एवं वीससा परिणया वि, जाव अहवा एगे चउरंससंठाणपरिणए एगे आययसंठाणपरिणए वा ) हे गौतम ओण रीते विस्त्रसा परिणतना सण धना पण्ण णाणी देवु यावत् — अथवा ओक द्रव्य चतुरस्र संस्थानरूपथी पण्ण परिणत होय छे तथा णीणु आयत संस्थानरूपथी पण्ण परिणत होय छे

टीकार्थ—आ सूत्रद्वारा सूत्रकारने द्रव्य द्वय आदिना परिणामने आश्रय करीने प्रभुने ओवु पूछ्यु छे के ( दो भंते द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया ) हे भगवन्त मे द्रव्य शुं प्रयोग परिणत होय छे के मिश्रपरिणत होय छे अगरे वीससा (स्वभावथी परिणित यवावाणा) परिणत होय छे ?

उत्तर—(गोयमा) हे गौतम (पओगपरिणया वा १ मीसा परिणया वा २ वीससापरिणया वा३) हे द्रव्य-प्रयोगपरिणत, पण्ण होय छे मिश्रपरिणत पण्ण होय छे

चा, मिश्रपरिणते वा, विस्त्रसापरिणते वा भवतः, 'अहवा एगे पभोगपरिणए, एगे मीसापरिणए ४, अथवा तत्र द्वयोर्मध्ये एक द्रव्यं प्रयोगपरिणतम्, एक च मिश्र परिणत भवति, 'अहवा एगे पभोगपरिणए, एगे वीससापरिणए ५, अथवा एक द्रव्यं प्रयोगपरिणत भवति, एकं च विस्त्रसापरिणत भवति, 'अहवा एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए, एव ६ अथवा एकं द्रव्यं मिश्रपरिणतं भवति, एक विस्त्रसापरिणतम्, इत्येव पद्म भेदा भवन्ति । गौतमः पृच्छति—'अह पभोगपरिणया किं मण्यभोगपरिणया, अह पभोगपरिणया, कायप्यभोगपरिणया ?' हे भदन्त ! यदि द्वे द्रव्यं प्रयोगपरिणत, ते किं मन प्रयोगपरिणते, क्व प्रयोगपरिणते, काय प्रयोगपरिणते भवतः ? भगवानाह—'गोयमा ! मण्यभोगपरिणया, अह पभोगपरिणया, कायप्यभोगपरिणया वा, हे गौतम ! प्रयोगपरिणते द्रव्यं मन प्रयोगपरिणत मी होते हैं 'अहवा एगे पभोगपरिणए, एगे मीसापरिणए ४' अथवा एक द्रव्यं प्रयोगपरिणत होता है दूसरा द्रव्यमिश्रपरिणत होता है । 'अहवेगे पभोगपरिणए, एगे वीससापरिणए ५' अथवा एक द्रव्यं प्रयोगपरिणत होता है, दूसरा द्रव्यं विस्त्रसापरिणत होता है । 'अहवा एगे मीसा परिणए, एगे वीससापरिणए ६' अथवा एक द्रव्यं मिश्र परिणत होता है और दूसरा द्रव्यं विस्त्रसापरिणत होता है । इस तरहसे ये ६ भेद होते हैं । अब गौतम प्रश्न पूछते हैं 'अह पभोग परिणया किं मण्यभोगपरिणया अह पभोगपरिणया, कायप्यभोगपरिणया' हे भदन्त ! जो वे दो द्रव्यं प्रयोगपरिणत होते हैं सो क्या वे मन प्रयोगपरिणत होते हैं ? या क्व प्रयोगपरिणत होते हैं ? या कायप्रयोगपरिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें मनु कहते हैं

अने विस्त्रसापरिणत ५५ दोष ७ अहवा एगे पभोगपरिणए एगे मीसापरिणए ४) अथवा जे ६ द्रव्यप्रयोगपरिणत दोष ७ अने नीशु द्रव्य मिश्रपरिणत दोष ७ (अहवेगे पभोगपरिणए, एगे वीससा परिणए ५) अथवा जे ६ द्रव्यप्रयोगपरिणत दोष ७ नीशु द्रव्य नीशुसा परिणत दोष ७ (अहवा एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ६) अथवा जे ६ द्रव्य मिश्रपरिणत दोष ७ अने नीशु द्रव्य वीससा परिणत दोष ७ आ रीते ७ से ६ द्रव्य ७

३४- (अह पभोगपरिणया किं मण्यभोगपरिणया, अह पभोगपरिणया, कायप्यभोगपरिणया) के उत्तरमें जे ते जे द्रव्य प्रयोगपरिणत दोष ते ते शु मन्य प्रयोगपरिणत दोष ७ के क्व प्रयोगपरिणत दोष ७ अथवा कायप्रयोगपरिणत दोष ७

परिणते वा, वचःप्रयोगपरिणते वा, कायप्रयोगपरिणते वा भवतः, 'अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वयप्पओगपरिणए' अथवा प्रयोगपरिणतद्रव्ययोर्मध्ये एकं मनःप्रयोगपरिणत वा, एकं वचःप्रयोगपरिणतं वा भवति, 'अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए' अथवा एकं मनःप्रयोगपरिणतम्, एकं कायप्रयोगपरिणतं भवति, 'अहवेगे वयप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए' अथवा एकं वचःप्रयोगपरिणतम्, एकं कायप्रयोगपरिणतं भवति, 'गौतमः पृच्छति-जइमणप्पओगओगरिणया किं सच्चमणप्पओगपरिणया, मोसमणप्पओगपरिणया, सच्चा-

'मणप्पओगपरिणया, वइप्पओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया, वा' हे गौतम ! प्रयोगपरिणत वे दो द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, वचनप्रयोगपरिणत भी होते हैं, कायप्रयोगपरिणत भी होते हैं 'अहवेगे मणप्पओगपरिणए एगे वयप्पओगपरिणए' अथवा प्रयोगपरिणत दो द्रव्योंके बीचमें एकद्रव्य मनःप्रयोगपरिणत भी होता है, दूसरा द्रव्य वचनप्रयोगपरिणत भी होता है, 'अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए' अथवा कोई एक द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत होता है और कोई दूसरा द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होता है । 'अहवेगे वयप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए' अथवा कोई एक द्रव्य वचनप्रयोगपरिणत होता है और कोई एक दूसरा द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होता है । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ मणप्पओगपरिणया, किं सच्चमणप्पओगपरिणया, मोसमणप्पओगपरिणया' हे भदन्त ! जो द्रव्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं, वे क्या सत्यमनः

उत्तर- (मणप्पओगपरिणया, वइप्पओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया वा) हे गौतम प्रयोगपरिणत ते मे द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत पणु होय छे, अने वचनप्रयोगपरिणत पणु होय छे, कायप्रयोगपरिणत पणु होय छे (अहवेगे मणप्पओगपरिणए, एगे वयप्पओगपरिणए) अथवा प्रयोगपरिणत मे द्रव्योभां अेक द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत होय छे, अने भीणु द्रव्य वचनप्रयोगपरिणत पणु होयछे (अहवेगे मणप्पओगपरिणए एगे कायप्पओगपरिणए) अथवा कोठ अेक द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत होय छे अने भीणु द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होय छे (अहवेगे वयप्पओगपरिणए, एगे कायप्पओगपरिणए) अथवा कोठ अेक द्रव्य वचःप्रयोगपरिणत होय छे अने कोठ अेक भीणु द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होय छे

प्रश्न- (जइ मणप्पओगपरिणया किं सच्चमणप्पओगपरिणया मोसमणप्पओगपरिणया) हे भगवन् ने मे द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत होय छे ते शु सत्यमनःप्रयोग-

मोसमणप्पओगपरिणया, असत्त्वामोसमणप्पभागपरिणया ?' हे भवन्त ! यदि द्रुष्ये मनःप्रयोगपरिणते ते किं सत्यमनःप्रयोगपरिणते, मृपामनःप्रयोगपरिणते, सत्यमृपामनःप्रयोगपरिणते, असत्यामृपामनःप्रयोगपरिणते भवतः ! भगवानाह- 'गोयमा ! सत्त्वमणप्पओगपरिणया वा, जाव असत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया वा' हे गौतम ! मनःप्रयोगपरिणते द्रुष्ये सत्यमनःप्रयोगपरिणते वा यावत्-मृपामनःप्रयोगपरिणते वा, सत्यमृपामनःप्रयोगपरिणते वा, असत्यामृपामनःप्रयोगपरिणते वा भवतः ? 'अहवा एगे सत्त्वमणप्पओगपरिणए ? एगे मोसमणप्पओगपरिणए अथवा एकसत्त्वमनःप्रयोगपरिणत भवति, एवञ्चमृपामनःप्रयोगपरिणत भवति ? 'अहवा एगे सत्त्वमणप्पओगपरिणए, एगे सत्त्वामोसमणप्पओगपरिणए ?'

प्रयोगपरिणत होते हैं ? या असत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या 'सत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया असत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया' सत्यमृपामनःप्रयोगपरिणत होते हैं क्या ? या असत्यामृपामनःप्रयोगपरिणत होते हैं क्या ? इसके उत्तरमें मनु कहते हैं 'गोयमा' ! 'सत्त्वमणप्पओगपरिणया वा, जाव असत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया वा' मनःप्रयोगपरिणत वे दो द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, सत्यमृपामनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, असत्यामृपामनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं 'अहवा' अथवा 'एगे सत्त्वमणप्पओगपरिणए, एगे मोसमणप्पओगपरिणए, एकमनःप्रयोगपरिणत द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होता है इसी तरह वह मृपामनःप्रयोगपरिणत भी होता है ? 'अहवा एगे सत्त्वमणप्पओगपरिणए, एगे

परिवृत्तं हेतुं ? ३ असत्यमनःप्रयोगपरिवृत्तं हेतुं ? ४ अथवा (सत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया, असत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया) सत्यमृपामनःप्रयोगपरिवृत्तं हेतुं ? ५ असत्यमृपामनःप्रयोगपरिवृत्तं हेतुं ?

उत्तर- (गोयमा) हे गौतम (सत्त्वमणप्पओगपरिणया वा, जाव असत्त्वामोसमणप्पओगपरिणया वा) मनःप्रयोगपरिवृत्तं ते जे द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिवृत्तं पणुं हेतुं ३ मृपामनःप्रयोगपरिवृत्तं पणुं हेतुं ४ सत्यमृपामनःप्रयोगपरिवृत्तं पणुं हेतुं ५ असत्यामृपामनःप्रयोगपरिवृत्तं पणुं हेतुं ६ (अहवा) अथवा एगे सत्त्वमणप्पओगपरिणए, एगे मोसमणप्पओगपरिणए) जे ३ मनःप्रयोगपरिवृत्तं हेतुं सत्यमनःप्रयोगपरिवृत्तं पणुं हेतुं ४ जे ४ रीते ते





च असत्यामृषामनःप्रयोगपरिणतं भवति । गौतमः पृच्छति—‘जइ सच्चमणप्पओगपरिणया किं आरंभसच्चमणप्पओगपरिणया, भाव—असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया?’ हे भदन्त ! ये द्रव्ये सत्यमनःप्रयोगपरिणते, ते किम् आरम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते, यावत्—अनारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते, संरम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते, असरम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते, समारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते असमारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते भवतः ? मगधानाइ—‘गोयमा ! आरंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा, भाव—असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा’ हे गौतम सत्यमनःप्रयोगपरिणते द्रव्ये आरम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते वा, यावत्—अनारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते वा, सरम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते वा, असरम्भसत्यमनः

असत्यामृषामनः प्रयोगपरिणत होता है ६, अथ गौतमस्वामी प्रश्नुस्ते ऐसा पूछते हैं ‘जइ सच्चमणप्पओगपरिणया किं आरंभ सच्चमणप्पओगपरिणया भाव असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया’ हे भदन्त ! जो द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत कहे गये हैं वे क्या आरंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या यावत् अनारंभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत होते हैं ? सरंभसत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? समारंभ सत्यमनः प्रयोगपरिणत होते हैं ? या असमारंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘आरंभ सच्चमणप्पओगपरिणया वा, भाव असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा’ हे गौतम ! जो द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं वे आरंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं यावत् अनारंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, सरंभसत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं समारंभसत्यमनःप्रयोगपरिणत

अथ— (जइ सच्चमणप्पओगपरिणया किं आरंभसच्चमणप्पओगपरिणया भाव असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा) हे भदन्त ने जो द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत कहेवा है तं तु आरंभसत्यमनःप्रयोगपरिणत होय है । हे यावत्—अनारंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत होय है ? हे सरंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत होय है ? हे असरंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत है । हे समारंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत होय है । हे असमारंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत होय है ।

उत्तर— (गोयमा) हे गौतम (आरंभ सच्चमणप्पओगपरिणया वा, भाव असमारंभसच्चमणप्पओगपरिणया वा) हे गौतम ! ने द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत होय है ते आरंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत पण होय है— यावत्—अनारंभसत्यमनः प्रयोगपरिणत पण होय है, अने सरंभ

प्रयोगपरिणते वा, समारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणते वा, असमारम्भसत्यमनः प्रयोगपरिणते वा भवतः 'अहवा एगे आरंभसच्चमणप्पओगपरिणए वा' एगे अणारंभसच्चमणप्पओगपरिणए वा अथवा सत्यमनःप्रयोगपरिणतम् एकम् द्रव्यमारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणतं भवति, एकञ्च अनारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणतं भवति, 'एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नेयव्वं' एवमुक्त्तरीत्या एतेन गमकेन आरम्भसत्यमनःप्रयोगादिपदप्रदर्शितेन अभिलापक्रमेण द्विकसयोगेन अन्येषामपि सरम्भासंरम्भादीनां चतुर्णां द्विद्रव्यं ज्ञातव्यम् स्वयमेवोहनीय-मित्यर्थः 'सव्वे सयोगा जत्थ जत्तिया उट्टेति ते भाणियव्वा जाव-सव्वट्टसिद्धगत्ति' सर्वे सयोगाः द्विकसयोगा इत्यर्थः, यत्र आरम्भसत्यमनःप्रयोगादिसमूहे यावन्तः उत्तिष्ठन्ते संभवन्ति ते सर्वे तत्र भणितव्याः, तथा च तत्रारम्भसत्यमनःप्रयोगपरिणताः

भी होते हैं, और असमारंभसत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं। 'अहवा एगे आरंभसच्चमणप्पओगपरिणए वा, एगे अणारंभसच्चमणप्प-ओगपरिणए वा' अथवा सत्यमनःप्रयोगपरिणत एक द्रव्य आरंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होता है, और कोई दूसरा द्रव्य अनारंभ सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होता है, 'एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नेयव्वं' आरंभसत्यमनःप्रयोगादि पदों द्वारा प्रदर्शित किये गये इस द्विक संयोगवाले अभिलापक्रमसे, इसी प्रकारसे अन्य संरंभ असंरंभ आदि चारपदोंका भी द्विद्रव्य अपने आप जान लेना चाहिये। 'सव्वे संजोगा जत्थ जत्तिया उट्टेति ते भाणियव्वा जाव सव्वट्टसिद्धगई' समस्त द्विकसंयोग आरंभसत्यमनःप्रयोगादि समूहमें जितने संभवित हों वे सब वहां कहलेना चाहिये, तथा च इनमेंसे आरंभ सत्यमनः

सत्यमनःप्रयोगपरिणत पणु होय छे, तेभज असरल सत्यमनः प्रयोग परिणत पणु होय छे, समारल सत्यमनः प्रयोग परिणत पणु होय छे अने असमारल सत्यमन प्रयोग परिणत पणु होय छे (अहवा एगे आरंभसच्चमणप्पओगपरिणए वा जाव अणारंभसच्चमणप्पओगपरिणए वा) अथवा सत्यमन प्रयोगपरिणत अेक द्रव्य आरंभसत्यमन प्रयोग परिणत होय छे अने अीणुं कौछ द्रव्य अनारंभ सत्यमन प्रयोगपरिणत पणु होय छे. (एवं एएणं गमएणं दुयसंजोएणं नेयव्वं) अर्थात् आरंभ सत्यमनः प्रयोगादि पदोंद्वारा दर्शावेला आ द्विकसंयोगवाला अभिलापना कर्मथी अेव रीते गीणु स रल अस रल आदि आरे पदोंना (वाक्योना) पणु द्विकद्रव्य समष्ट देवा (सव्वेसंजोगा जत्थ जत्तिया उट्टेति ते भाणियव्वा, जाव सव्वट्टसिद्धगई) समस्त द्विकसंयोग आरंभ सत्यमन प्रयोगादि समूहमें जितने संभवित होय ते तमाम र्था कही देवा लेप्रअे तमाथी आरंभ सत्यमनप्रयोग परिणतना अभिलाप

प्रदुर्शिता एष, धारम्भादिपदपट्टकविशेषणविशिष्टेषु इत्यमेव त्रिषु सृष्टामनःप्रयोगपरिणतादिषु चतुर्थे च सत्यवचःप्रयोगपरिणतादिषु प्रत्येकमेकत्वे एव विकल्पाः, द्विकसयोगे तु पञ्चेत्येव क्रमेण प्रत्येकमेकमेव सर्वेष्वप्यकविश्रुति, औदारिकशरीरकायप्रयोगादिषु सप्तसु पदेष्वेकत्वे सप्त, द्विकसयोगे चैकविश्रुतिरित्यवमप्राविश्रुतिः; एवमेव एकेन्द्रियादिपदसमूहे पूर्वोक्तक्रमेण औदारिकादिकायप्रयोगपरिणतद्रव्यद्वयं षक्त्यमित्यभिप्राय सूचयन् तदनभिमाह—यावत्—सर्वायंसिद्धकम् इति, तदा लापकाकारवैचर्यम्—‘जाव जइ सञ्चद्वसिद्धअणुत्तरोवपाइयकप्पाईयगवेमाणियदेवपंचेदियकम्मासरीरकायप्यओगपरिणया किं पज्जचसञ्चद्वसिद्धजाव—कायप्यओगपरि

प्रयोगपरिणत के अभिलाप तो दिख्वा ही दिये गये हैं सो इसी तरह स चाक्रीके आरंभ आदि पदपट्टक विशेषणोंवाले सृष्टामनःप्रयोगपरिणतादि तीन अभिप्रायोंमें, और सत्यवचःप्रयोगपरिणत आदि चार अभिप्रायोंमें प्रत्येकके एकत्वमें ६ विकल्प जानना चाहिये । तथा इसी तरहसे द्विकसयोगमें १५ विकल्प जानना चाहिये । इस तरह २१ विकल्प जानना चाहिये । औदारिक आदि सातपदोंमें एकत्वमें सात, द्विकसयोगमें २१ इस प्रकार २८ विकल्प जानना चाहिये । इस तरहसे एकन्द्रिय आदि पृथिव्यादि पद समूहों द्वारा पूर्वोक्तक्रमके अनुसार औदारिक आदि कायप्रयोगपरिणत द्रव्यद्वयकी षक्त्यमित्यता जाननी चाहिये । ' इसी अभिप्रायको सूचित करनेके निमित्त सूत्रकारने उसकी अवधिको ' यावत् सर्वायंसिद्धकम् ' इस द्वारा कहा है । इसके आलापकका आकार इस प्रकारसे है 'जाव जइ सञ्चद्वसिद्ध अणुत्तरोवपाइयकप्पात्तीतग वेमाणिय देवपंचेदियकम्मासरीरकायप्यओगपरिणया वाच्ये तो देखाही दीया ७ तेवीच रीते जाइया आरंभ आदि ६ पदोवाणा विष्टेषोः (कही) सृष्टामनःप्रयोग परिकृत्यादि त्रयं अन्विष्टवर्मा अने सत्यवचनप्रयोग परिकृत आदि चार अन्विष्टवर्मा प्रत्येकना ओक्त्वर्मा ६ ७ विकल्प समष्ट होवा ओच रीते द्विकसयोगमा १५ पदर विकल्प आणुवा अने आच रीते कुल २१ विकल्प समष्टवा जेधजे ओदारिक आदि सात पदोमा ओक्त्वर्मा सात, द्विकसयोगमा २१ जे रीते अणुत्तीश विकल्प समष्टवा अने ओकेन्द्रियादि पूर्वोक्तादि पदो द्वारा पूर्वोक्तक्रम अनुसार औदारिक आदि कायप्रयोग परिकृत द्रव्यनी षक्त्यमित्यता आणुनी जे अन्विष्टवर्मा सूचित करवा भटे सूत्रकार तेनी अवधिने ( यावत् सर्वायंसिद्धकम् ) जे वाच्यद्वारा कहल ७ तेना आलापकना प्रकार आ रीते ७ 'जाव जइ सञ्चद्वसिद्ध अणुत्तरोवपाइय कप्पा रीत वेमाणिय कम्मासरीरकायप्यओगपरिणया किं पज्जच सञ्चद्वसिद्ध जाव

णया, अपञ्चत्तसव्वट्टसिद्ध-जाव-कायप्पओगपरिणया वा ? गीयमा ! पञ्चत्तसव्वट्ट-  
सिद्ध-जाव-परिणया वा, अपञ्चत्तसव्वट्टसिद्धजावपरिणया वा, अहवा एगे पञ्चत्त-  
सव्वट्टसिद्धजाव-परिणए, एगे अपञ्चत्तसव्वट्टसिद्धजावपरिणए' इति, यावत्-  
ये द्रव्ये सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिककल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीर-  
कायप्रयोगपरिणते ते किं पर्याप्तकसर्वार्थसिद्ध-यावत् अनुत्तरौपपातिककल्पातीतक-  
वैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीरकायप्रयोगपरिणते ? किं वा अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्ध-  
यावत् - अनुत्तरौपपातिककल्पातीतकवैमानिकदेवपञ्चेन्द्रियकर्मणशरीरकायप्रयोग-  
परिणते ? गौतम ! सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक-यावत्- परिणते द्रव्ये पर्याप्तक-  
सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक-यावत्-प्रयोगपरिणते वा, अपर्याप्तकसर्वार्थसिद्धानु-  
त्तरौपपातिक-यावत्-प्रयोगपरिणते वा भवतः, अथवा एकं यावत्परिणत द्रव्यं

किं पञ्चत्तसव्वट्टसिद्ध जाव इत्यादि' यर्हा गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है  
कि हे भदन्त ! जो दो द्रव्य सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत  
वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियके कर्मणशरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होते हैं  
वे क्या पर्याप्त सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव-  
पञ्चेन्द्रियके कर्मणशरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होते हैं ? या अपर्याप्तक  
सर्वार्थसिद्धानुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिकदेव पञ्चेन्द्रियके कर्मण-  
शरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं हे  
गौतम ! जो द्रव्य सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक  
देवपञ्चेन्द्रियके कर्मणशरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होते हैं, वे पर्याप्तक  
सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवपञ्चेन्द्रियके कर्मण  
शरीररूपकायप्रयोगसे भी परिणत होते हैं । और अपर्याप्तक सर्वार्थ  
सिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिकदेव पञ्चेन्द्रिय के कर्मण

इत्यादि' अही आ गौतमस्वामीये प्रभुने ऐवु पूछ्युं छे डे हे भगवन् ! ने ने द्रव्य  
सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियना कर्मण्यु शरीररूपी कायप्रयोगथी  
परिणत होय छे तो शु ? पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक, कल्पातीत वैमानिक  
देव पञ्चेन्द्रियना कर्मण्यु शरीररूप कायप्रयोगथी परिणत होय छे ? अगर अपर्याप्तक  
सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियना कर्मण्यु शरीररूप  
कायप्रयोगथी परिणत होय छे ?

उत्तर- हे गौतम ने ने द्रव्य सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक  
देव पञ्चेन्द्रियना कर्मण्यु शरीररूप कायप्रयोगथी परिणत होय छे, ते पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध  
अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियना कर्मण्यु शरीररूप कायप्रयोगथी पण्यु  
परिणत होय छे, अने अपर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक

पर्याप्तसर्वार्थमिन्द्र-यान्त्र-परिणत भवति, एकञ्च अपर्याप्तसर्वार्थसिद्धयान्त्र-परिणत भवति, इत्याशयः, गौतम पृच्छति-‘जइ मीसापरिणया किं मणमीसापरिणया ? इ हे भद्रत ! यदि द्रव्य मिश्रपरिणते त किं मनोमिश्रपरिणते ? चामिश्रपरिणते ? कायमिश्रपरिणत ? मगवानाह-‘ एष मीसापरिणया वि’ एष प्रयागपरिणतद्रव्यद्वयसद्वय मिश्रपरिणतेऽपि विद्यातव्य, प्रयागपरिणते द्रव्य

शरीररूप कायप्रयोग से भी परिणत होते हैं । अथवा जो द्रव्य सर्वार्थमिन्द्र अनुत्तरौपपातिककल्याणीत वैमानिक देवपंचेन्द्रियके कर्मणशरीररूपकायप्रयागम परिणत कहे गये हैं उनमेंमें कोई एक द्रव्य पर्याप्तक सर्वार्थमिन्द्र अनुत्तरौपपातिक कल्याणीत वैमानिक देवपंचेन्द्रियके कर्मणशरीररूप कायप्रयोगसे परिणत होता है और कोई एक द्रव्य अपर्याप्तक सर्वार्थमिन्द्र अनुत्तरौपपातिक कल्याणीत वैमानिक देवपंचेन्द्रियके कर्मणशरीररूपकायप्रयोगसे परिणत होता है । अथ गौतम स्वामी प्रश्नमें ऐसा पूछते हैं ‘जइ मीसा परिणया किं मण मीसा परिणया’ हे भद्रत ! जा दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं वे क्या मना मिश्रपरिणत होते हैं ? या यथनमिश्रपरिणत होते हैं ? या कायमिश्र परिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न उनसे कहते हैं ‘एष मीसापरिणया वि’ हे गौतम ! प्रयोगपरिणत द्रव्यद्वयकी तरहसे ही मिश्र परिणत दो द्रव्योंके चिपचममें भी जानना चाहिये । प्रयोगपरिणत दो

द्वे पञ्चेन्द्रियाः शरीररूप शयप्रयोज्याः पञ्च परिणत देवः ७ अथवा द्वे ने इत्यस्य विनिर्दिष्ट अनुत्तरौपपातिक कल्याणीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियाः शरीररूप शयप्रयोज्याः परिणत देवानाम् आपत्तः ७ तेनारी ३४ अथ इत्यपर्याप्त सर्वार्थमिन्द्र अनुत्तरौपपातिक कल्याणीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियाः शरीररूप शयप्रयोज्याः परिणत देवः ७ अने ३५ अथ नीतु इत्यपर्याप्त सर्वार्थमिन्द्र अनुत्तरौपपातिक कल्याणीत वैमानिक देव पञ्चेन्द्रियाः शरीररूप शयप्रयोज्याः परिणत देवः ७

गौतम स्वामीना प्रश्न- ‘जइ मीसा परिणया किं मणमीसा परिणया?’ हे उत्तरान् ७ ने इत्यमिश्र परिणत देवः ७ ने मनोमिश्र परिणत देवः ७ चयन मिश्र परिणत देवः ७ अथवा शरीररूप मिश्र परिणत देवः ७ तेनो उत्तर आपत्ता प्रश्न गौतम स्वामीने कहे ७ ३- ‘पर्यं मीसा परिणया वि?’ हे गौतम प्रयोज्यपरिणत नने इत्यनो भावः मिश्रपरिणत ने इत्यनो विषयः पञ्च सप्त देवु प्रयोज्यपरिणत

चोक्तरीत्या प्रतिपादिते एव, गौतमः पृच्छति—‘जइ वीससापरिणया किं दण्णपरिणया, गंधपरिणया ४? हे भदन्त ! ये द्रव्ये विस्रसापरिणते ते किं वर्णपरिणते, गन्धपरिणते, रसपरिणते, स्पर्शपरिणते, संस्थानपरिणते भवतः ? भगवानाह—‘एवं वीससापरिणया वि जाव—अहवा एगे चउरंससंठाणपरिणए, एगे आययसंठाणपरिणए वा’ एवं पूर्ववत् विस्रसापरिणते अपि द्रव्ये वर्णगन्धादिपरिणते विज्ञेये, यावत् रस—स्पर्शासंस्थानपरिणते अपि भवतः, अथवा एकं विस्रसापरिणत द्रव्यं चतुरस्रसंस्थानपरिणतं भवति, एकश्चायतसंस्थानपरिणत वा

द्रव्योंके विषयमें कथन तो हमने पहिले कर ही दिया है । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘जइ वीससा परिणया किं वण्णपरिणया, गंधपरिणया’ हे भदन्त ! जो दो द्रव्य विस्रसा परिणत कहे गये हैं वे क्या वर्णपरिण होते हैं ? या गंध परिणत होते हैं ? या रसपरिणत होते हैं ? या स्पर्शपरिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘एवं वीससा परिणया वि जाव अहवा एगे चउरंससंठाणपरिणए एगे आययसंठाणपरिणए वा,’ हे गौतम ! प्रयोगपरिणत दो द्रव्योंकी तरह ही विस्रसापरिणत दो द्रव्योंके विषयमें भी कथन जानना चाहिये—अर्थात् विस्रसापरिणत द्रव्य द्वयवर्णपरिणत भी होते हैं, गंधपरिणत भी होते हैं यावत्—रस, स्पर्श और संस्थानरूपसे भी परिणत होते हैं । अथवा विस्रसापरिणत द्रव्य द्वयमेंसे कोई एक विस्रसापरिणत द्रव्य चतुरस्रसंस्थान परिणत भी होता है और कोई एक दूसरा द्रव्य आयत संस्थान परिणत भी होता है । यहां ऐसा

वे द्रव्योंका विषयनु कथन रहेवा अमे कथुंन छे हुवे गौतम स्वामी प्रभुने ओठुं पूछे छे के— ‘जइ वीससा परिणया किं वन्नपरिणया, गंधपरिणया’ हे भगवन् ने वे द्रव्यो वीससा परिणत कहेल छे ते वरुं परिणत होय छे? के गंध परिणत होय छे? अगर रसपरिणत होय छे? के स्पर्श परिणत होय छे? अगर संस्थान परिणत होय छे तेने उत्तर आपता प्रभु कहे छे के—‘एवं वीससा परिणया वि जाव अहवा एगे चउरंससंठाणपरिणए, एगे आययसंठाणपरिणए वा’ हे गौतम प्रयोगपरिणत वे द्रव्योनी माइकंन वीससा परिणत वे द्रव्योनी विषयमा पणु समणु देवु अर्थात्— विस्रसा परिणत द्रव्यद्वय वरुं परिणत पणु होय छे. गंध परिणत पणु होय छे यावत् रस, स्पर्श अने संस्थान रूपथी पणु परिणत होय छे अथवा विस्रसा परिणत द्रव्यमाथी डोछंकेक विस्रसा परिणत द्रव्य चतुरस्र (चार पूछावाणु) संस्थान परिणत पणु होय छे, अने डोछं केक भीणुं द्रव्य

मवति, इदमभावधेयम्—द्रव्यद्वयपरिणामे प्रयोगमिध्वित्रसापरिणामप्रये एक त्वे प्रयो विकल्प्या, द्विकयोगेऽपि त्रय एवेति पद, तथा मनोबचःकायप्रयोगपरिणामप्रयेऽपि एककद्विकयागे पदेषु, मनःप्रयोगपरिणामे तु सत्यम्प्रादिचतुर्मेदेन एकत्वे चत्वारः, द्विकयोगे पद, इत्येष सर्भेऽपि दस विकल्प्याः, सत्यमनःप्रयोगपरिणामादियु आरम्भानारम्भादिपद्मेदेन एकत्वे पद, द्विकयोगे तु पञ्चदश, इत्येष-मेकविंशतिः विकल्प्या भवन्ति, एव सत्यमनःकायप्रयोगपरिणामादिष्वपि उक्त रीत्या एकविंशतिः विकल्प्या अधुनेव पूर्ष प्रतिपादिता, इति सर्षमनषधम्॥मृ०२१॥

समझना चाहिये—प्रयोग, मिध्व और विध्वत्रसापरिणत द्रव्यद्वयके परिणामनमें एकत्वमें तीन विकल्प्य होते हैं। और द्विकके योगमें भी तीन ही विकल्प्य होते हैं। इस तरह ६ विकल्प्य होते हैं। तथा मनबचन और काय इनके प्रयोगसे परिणत द्रव्यद्वयके परिणामनमें एकत्वमें तीन विकल्प्य और द्विकसंयोगमें भी तीन विकल्प्य इस तरहसे ६ विकल्प्य होते हैं। सत्यमनःप्रयोगपरिणत असत्यमनःप्रयोगपरिणत अमयमनःप्रयोगपरिणत एव अनुमयमनःप्रयोगपरिणत दो द्रव्योके परिणामनमें एकत्वमें चार विकल्प्य, और द्विकके योगमें ६ इस तरह सब १० विकल्प्य होते हैं। सत्यमनःप्रयोगपरिणामादिकोर्षि आरंभ अनारंभ आदि ६ मेवसे एकत्वमें ६ विकल्प्य, और द्विकयोगमें १५ विकल्प्य इस तरह २१ विकल्प्य होते हैं। सत्यबचनप्रयोग और काय प्रयोगसे परिणत दो द्रव्योके परिणामनके विषयमें तो हमने चक्ररीतिके अनुसार २१ विकल्प्य पहिले अभी यहीं पर दिखा ही दिये हैं ॥सू २१॥

७७१ (लाघु) सस्थान परिष्कृत पद्य दोष छ मदी जेवु समस्तु जेष्ठजे ३- प्रयेज, मिध्व अन विध्वत्रसा परिष्कृत सत्यमनःपरिष्कृतमनःकोत्त्वभा जेष्ठना त्रयु विक्षेपी ७७१ छे जने दिना योगर्षा पद्य त्रयु ७ (पक्षप दोष छे जे रीते ७ विक्षेप दोष छे तथा मन, कचन जने क्षम जेना प्रयेजधी परिष्कृत सत्यमनःपरिष्कृतमनःकोत्त्वभा त्रयु विक्षेप जने द्विकसंयोगर्षा पद्य त्रयु विक्षेप जे रीते ६ विक्षेप दोष छे सत्यमनः प्रयेजपरिष्कृत असत्यमनःप्रयेजपरिष्कृत, अमयमनःप्रयेज मिध्वमन परिष्कृत जेव रीते अनुभवमनःप्रयेज परिष्कृत जे सत्यमनःपरिष्कृतमनःकोत्त्वभा आर विक्षेप, जने द्विक प्रयेजर्षा छ ६ जे रीते कुल इय १ विक्षेप दोष छे, सत्यमनः प्रयेजपरिष्कृतमादिर्षा आरका अनारका विजेरे छ मोठी जेष्ठत्वभा ६ ७ विक्षेप, जने द्विकप्रयेजर्षा १५ पदर विक्षेप आ रीते २१ जेष्ठवीस विक्षेप दोष छे सत्यमनःप्रयेज जने क्षमप्रयेजधी परिष्कृत जे सत्यमनःपरिष्कृतमनःकोत्त्वभा त्रयु जने उपर इया अनुसार २१ विक्षेप पदेषु ७७१ सुवर्षा इयाविल छे. सू. २१

अथ त्रीणि द्रव्याणि अधिकृत्य गौतमः पृच्छति—'तिन्नि भंते' इत्यादि ।

मूलम्—तिन्नि भंते ! द्वा किं पओगपरिणया, मीसाप०  
 वीससा प० ? गोयमा ! पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा,  
 वीससापरिणया वा १, अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसा-  
 परिणया २, अहवेगे पओगपरिणए दो वीससापरिणया ३,  
 अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीससापरिणए ४, अहवां दो  
 पओगपरिणया एगे वीससा परिणया ५, अहवा एगे मीसा-  
 परिणए, दो वीससापरिणया ६, अहवा दो मीसा परिणया, एगे  
 वीससापरिणए७, अहवा एगे पओगपरिणए एगे मीसापरिणए,  
 एगे वीससापरिणया ८, जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरि-  
 णया, वइप्पओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया ? गोयमा !  
 मणप्पओगपरिणया वा, एवं एक्कसंजोगो, दुयासंजोगो, तिया-  
 संजोगा भाणियवो जइ मणप्पओगपरिणया किं सच्चमणप्पओग  
 परिणया वा ९ ? गोयमा ! सच्चमणप्पओगपरिणया वा जाव-  
 असच्चासमणप्पओगपरिणया वा १०, अहवा एगे सच्चमणप्प-  
 ओगपरिणए, दो मीसमणप्पओगपरिणया वा, एवं दुया  
 संजोगो तियासंजोगो भाणियवो, एत्थवि तहेव जाव—अहवा  
 एगे तंससंठाणपरिणए वा, एगे चउरंससंठाणपरिणए वा, एगे  
 आययसंठाणपरिणए वा ॥ सू० २२ ॥

छाया—त्रीणि भदन्त ! द्रव्याणि किं प्रयोगपरिणतानि, मिश्रपरिणतानि,  
 विस्रमा परिणतानि ? गौतम ! प्रयोगपरिणतानि वा, मिश्रपरिणतानि वा,

' तिन्नि भंते द्वा किं पओगपरिणया' इत्यादि ।

सूत्रार्थ—(तिन्नि भंते ! द्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया )

' तिन्नि भंते द्वा किं पओगपरिणया ' इत्यादि

सूत्रार्थ— ( तिन्नि भंते द्वा किं पओगपरिणया, मीसा परिणया,



विस्त्रसापरिणतानि वा १, - अथवा एकं प्रयोगपरिणतं द्वे । मिश्रपरिणते २, अथवा एक प्रयोगपरिणत द्वे विस्त्रसापरिणते ३; - अथवा द्वे प्रयोगपरिणते एकं मिश्रपरिणतम्, ४, - अथवा द्वे प्रयोगपरिणते, एक विस्त्रसापरिणतम् ५, अथवा एकं मिश्रपरिणतं द्वे विस्त्रसापरिणते ६, अथवा द्वे मिश्रपरिणते, एक विस्त्रसापरिणतम् ७, अथवा एक प्रयोगपरिणतम्, एक मिश्रपरिणतम्, एकं विस्त्रसा

हे भदन्त ! तीन द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं ? या मिश्रपरिणत होते हैं ? या विस्त्रसापरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे शौतम ! ये तीनोद्रव्य (पभोगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा) प्रयोगपरिणते भी होते हैं, मिश्रपरिणत भी होते हैं और विस्त्रसा परिणत भी होता है (अथवा एगे पभोगपरिणए, दो मीसा परिणया ? अथवेगे पभोगपरिणए, दो वीससा प० २, अथवा दो पभोगपरिणया, एगे मीससा परिणए ३, अथवा दो पभोग प०, एगे वीससा प० ४, अथवा एगे मीसापरिणए दो वीससा परि० ५, अथवा दो मीसाप० एगे वीससाप० ६, अथवा एगे पभोगपरि० एगे मीसापरि०, एगे वीससाप० ७) अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है और दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं ? अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, और दो द्रव्य विस्त्रसापरिणत होते हैं ? अथवा दो द्रव्य प्रयोग परिणत होते हैं और एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है ? अथवा दो

वीससा परिणया ) के अथवा अन्य द्रव्ये ए प्रयोगपरिणत होय ? अथवा मिश्र परिणत होय ? के विस्त्रसा परिणत होय ?

उत्तर- (गोयमा) के शौतम वे अथ द्रव्ये (पभोगपरिणया वा मीसापरिणया वा वीससापरिणया वा ) प्रयोगपरिणत पक्ष होय ? - मिश्रपरिणत पक्ष होय ? अने विस्त्रसा परिणत पक्ष होय ? (अथवा एगे पभोगपरिणए, दो मीसापरिणया १, अथवेगे पभोगपरिणए, दो वीससा प० २; अथवा दो पभोगपरिणया, एगे मीससा परिणए ३, अथवा दो पभोगप०, एगे वीससाप० ४, अथवा एगे मीसा परिणए, दो वीससा परिणया ५, अथवा दो मीसा प०, एगे वीससा प० ६, अथवा एगे पभोग परि०, एगे मीसा परि० एगे वीससा परिणए) अथवा अने द्रव्य प्रयोग परिणत होय ? अने मिश्रपरिणत होय ? अथवा अने द्रव्य प्रयोग परिणत होय ? अने विस्त्रसा परिणत होय ?

परिणतम् ८, यदि प्रयोगपरिणतानि किं मनःप्रयोगपरिणतानि, वचःप्रयोगपरिणतानि कायप्रयोगपरिणतानि ? गौतम ! मनःप्रयोगपरिणतानि वा, एवम् एकसंयोगः, द्विकसंयोगः, त्रिकसंयोगो, भणितव्यः । यदि मनःप्रयोगपरिणतानि किं सत्यमनःप्रयोगपरिणतानि वा ४ ? गौतम ! सत्यमनःप्रयोगपरिणतानि वा,

द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं और एक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है ४, अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है, और दो द्रव्य विस्त्रसापरिणत होते हैं ५, अथवा, दो द्रव्यमिश्रपरिणत होते हैं और एकद्रव्य विस्त्रसापरिणत होता है ६, अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, एक द्रव्यमिश्रपरिणत होता है और एक द्रव्य विस्त्रसापरिणत होता है ७, (जड़पओगप० किं मणप्पओगपरिणया, वइप्पओगपरि० कायप्पपरि०) हे भदन्त ! यदि तीन द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं तो क्या वे मनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या वचनप्रयोगपरिणत होते हैं ? या कायप्रयोगपरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (मणप्पओगपरिणया वा, एवं एकगसंयोगो, दुयासंयोगो, तियासंयोगो भाणियच्चो) वे तीन द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, वचःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, कायप्रयोगपरिणत भी हैं । इसी तरहसे एकसंयोग, द्विकसंयोग, और त्रिकसंयोग कहलेना चाहिये । (जड़ मणप्पओगपरि० किं सच्चमणप्पओगपरिणया वा ४) हे भदन्त ! वे तीन द्रव्य यदि

२, अथवा जे द्रव्य प्रयोगपरिणत होय छे अने जेक द्रव्य मिश्रपरिणत होय छे ३, अथवा जे द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे अने जेक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे ४ अथवा जेक द्रव्य मिश्र परिणत होय छे अने जे द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे ५, अथवा जे द्रव्य मिश्रपरिणत होय छे अने जेक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे. ६, अथवा जेक द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे, जेक द्रव्य मिश्रपरिणत होय छे अने जेक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे. प्रश्न-जड़ पओग प. किं मणप्पओगपरिणया वइप्पओगपरिणया कायप्पओगपरिणया' हे भगवान जे त्रय द्रव्यो प्रयोग परिणत होय तो थु ते मनः प्रयोगपरिणत होय छे ? हे वचनप्रयोग परिणत होय छे अगर् कायप्रयोगपरिणत होय छे? उत्तर (गोयमा) हे गौतम, 'मणप्पओगपरिणया वा एवं एकगसंयोगो, दुयासंयोगो तियासंयोगो, भाणियच्चो'ते त्रय द्रव्य मन प्रयोगपरिणत पण्य होय छे, वचनप्रयोग परिणत पण्य होय छे, कायप्रयोग परिणत पण्य होय छे जेण रीते जेक संयोग, द्विकसंयोग अने त्रिकसंयोग समञ्ज देवा. प्रश्न-जड़ मणप्पओगपरिणया किं सच्चमणप्पओगपरिणया वा ४, हे भगवान ते त्रय द्रव्यो जे मन प्रयोग परिणत होय तो थु ते सत्यमन प्रयोगपरिणत

यावत्-अस्त्यामृपामनःप्रयोगपरिणतानि वा ४, अथवा एक सत्यमनःप्रयोगपरिणत वा, द्वे मृपामनःप्रयोगपरिणते वा, एष द्विसंयोगः, त्रिसंयोगो मणितम्भः। अप्रापि तथैव यावत्, अथवा एकं त्र्यसंस्थानपरिणत वा, एक चतुरस्रसंस्थानपरिणत वा, एकम् आप्तसंस्थानपरिणत वा ॥ १० २२ ॥

मनःप्रयोगपरिणत होते हैं तो क्या वे सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं, या असत्यमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या उभयमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या अनुभयमनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (सर्वमण्यभोगपरिणया वा जाव असंभामोसमण्यभोगपरिणया वा ४, अथवा एगे सर्वमण्यभोगपरिणए, दो मोसमण्यभोगपरिणया वा, एष दुयासयोगो, तियासयोगो, भाणियम्भो एस्य वि तहैष जाव अथवा एगे तससंठाणपरिणए वा, एगे चउरंसंठाणपरिणए वा, एगे आययसंठाणपरिणए वा) वे तीनों द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं यावत् असत्यामृपामनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं। अथवा एकद्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत जाता और दूसरे दो द्रव्य मृपामनःप्रयोगपरिणत होते हैं। इसी तरहसे यहांपर भी द्विसंयोग कहलेना चाहिये। यावत् अथवा एक द्रव्य त्र्यसंस्थानरूपसे परिणत होता है, एकद्रव्य समचतुरस्रसंस्थानरूपसे परिणत होता है और एक आयतसंस्थानरूपसे भी परिणत होता है।

हेय छे ? अजर असत्यमनःप्रयोग परिणत होय छे के उभयमनःप्रयोग परिणत होय छे के अनुभयमनःप्रयोग परिणत होय छे ! उत्तर : (गोयमा) हे गौतम 'सर्वमण्यभोगपरिणया वा, जाव असंभामोसमण्यभोग वा ४, अथवा एगे सर्वमण्यभोगपरिणए दो मोसमण्यभोगपरिणया वा, एष दुयासयोगो, तियासयोगो भाणियम्भो एस्य वि तहैष जाव अथवा एगे तससंठाणपरिणएवा, एगे चउरंसंठाणपरिणएवा, एगे आययसंठाणपरिणए वा' ते त्रय द्रव्य सत्यमनःप्रयोग परिणत होय छे यावत् असत्यामृपामनःप्रयोगपरिणत त्रय होय छे अथवा जेके द्रव्य असत्यमनःप्रयोग परिणत होय अने जेके द्रव्य मृपामनःप्रयोग परिणत होय छे जेके रीते जेकी त्रय द्विसंयोग त्रिसंयोग समष्ट सेव जेकीसुभी अथवा जेके द्रव्य जेकेविशेष संस्थानरूपसे परिणत होय छे, अने जेके द्रव्य सम चतुरस्र (चारसुख) वाण्य) चतुरस्र संस्थानरूपसे परिणत होय छे अने जेके आयत (आयु) संस्थानरूपसे परिणत होय छे

टीका-तिन्नि भंते ! दब्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया ? हे भदन्त ! त्रीणि द्रव्याणि किं प्रयोगपरिणतानि, मिश्रपरिणतानि, विस्रसापरिणतानि भवन्ति ? भगवानाह-‘गोयमा ! पओगपरिणया वा, मीसा परिणया वा ? वीससापरिणया वा हे गौतम ! त्रीणि द्रव्याणि प्रयोगपरिणतानि वा, मिश्रपरिणतानि वा, विस्रसापरिणतानि वा भवन्ति ? ‘अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसा परिणया ?’ अथवा त्रिद्रव्येषु एकं द्रव्यं प्रयोगपरिणतं भवति, द्वे द्रव्ये मिश्रपरिणते भवतः २, ‘अहवा एगे पओगपरिणए, दो वीससापरिणया ३’ अथवा एकं द्रव्यं प्रयोगपरिणतं भवति द्वे विस्रसापरिणते भवतः ४ ‘अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसापरिणए ४’ अथवा द्वे द्रव्ये प्रयोगपरिणते भवतः, एकं मिश्रपरिणतं

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा गौतम तीनद्रव्योंको लेकर प्रभुमे ऐसा पूछते हैं कि ‘तिन्नि भंते ! दब्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया’ हे भदन्त ! तीन द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं ? या मिश्रपरिणत होते हैं ? या विस्रसापरिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पओगपरिणया वा, मीसापरिया वा, वीससापरिणया वा’ तीन द्रव्य प्रयोगपरिणत भी होते हैं मिश्रपरिणत भी होते हैं, और विस्रसापरिणत भी होते हैं । ‘अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसापरिणया’ अथवा तीनद्रव्योंमें से कोई एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है और दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं ? ‘अहवा एगे पओगपरिणए, दो वीससा परिणया, अथवा एकद्रव्य प्रयोगपरिणत होता है दो द्रव्य विस्रसापरिणत होते २, ‘अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसापरिणए’ अथवा दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते

टीकार्थ- आ सूत्र द्वारा गौतम स्वामी त्रयु द्रव्योंने उद्देशीने प्रलुने अबुं पूछे छे के- ‘तिन्नि भंते दब्वा किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया’ हे भगवन् त्रयु द्रव्यो शु प्रयोगपरिणत होय छे के मिश्र परिणत होय छे के वीससा परिणत होय छे ?

उत्तर- ‘गोयमा’ हे गौतम ‘ पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससा परिणया वा’ त्रयु द्रव्य प्रयोगपरिणत मिश्र परिणत अने विस्रसापरिणत त्रयु होय छे ‘अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसा परिणया’ अथवा त्रयु द्रव्यो-माथी होय छे के द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे. अने ये द्रव्य मिश्र परिणत होय छे. १ ‘अहवा एगे पओगपरिणए, दो वीससा परिणया’ अथवा अके द्रव्य प्रयोगपरिणत होय छे ये द्रव्य विस्रसा परिणत होय छे २ अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसा

मवति४, 'अह्वा दो पभोगपरिणया एगे वीससापरिणए५' अथवा द्वे द्रव्य प्रयोग-  
परिणते मवतः, एक विस्त्रसापरिणत मवति६, 'अह्वा एगे मीसापरिणए, दो  
वीससापरिणया ६' अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत मवति, द्वे द्रव्य विस्त्रसा-  
परिणते मवतः६, 'अह्वा दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए७' अथवा द्वे द्रव्ये  
मिश्रपरिणते मवतः, एक द्रव्य विस्त्रसापरिणत मवति, 'अह्वा एगे पभोगपरिणए,  
एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ७' अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणतम्, एक  
मिश्रपरिणतम्, एक विस्त्रसापरिणत मवति । गौतम पृच्छति—'जइ पभोगपरि-  
णया किं मणप्पभोगपरिणया, बइप्पभोगपरिणया, कायप्पभोगपरिणया, पानि  
द्रव्याणि प्रयोगपरिणतानि तानि किं मनःप्रयोगपरिणतानि चचाम्प्रयोगपरिणतानि,

हैं और एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है ३, 'अह्वा दो पभोगपरिणया  
एगे वीससा परिणए' अथवा कोई दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं और  
एक द्रव्य विस्त्रसापरिणत होता है ४, 'अह्वा एगे मीसापरिणए,  
दो वीससापरिणया' अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है और दो  
द्रव्य विस्त्रसापरिणत होते हैं ५, 'अह्वा दो मीसापरिणया एगे  
वीससा परिणए' अथवा कोई दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं और एक  
द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है ६ 'अह्वा एगे पभोगपरिणए, एगे  
मीसापरिणए' कोई एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है, कोई एक  
द्रव्य मिश्रपरिणत होता है ( एगे वीससा परिणए ) कोई एक  
द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है ७ । अब गौतम स्वामी मनुसे ऐसा  
पूछते हैं 'जइ पभोगपरिणया किं मणप्पभोगपरिणया, बइप्पभोगपरि-  
णया कायप्पभोगपरिणया' हे भदन्त ! जो तीनों द्रव्यप्रयोगपरिणत

पारिणए' अथवा वे द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय ३ अने वे द्रव्य मिश्रपरिणत होय ४.  
'अह्वा दो पभोगपरिणया एगे वीससापरिणए' अथवा वे द्रव्य प्रयोगपरिणत  
होय ४ अने वे द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय ४ 'अह्वा एगे मीसापरिणए दो  
वीससा परिणया' अथवा वे द्रव्य मिश्र परिणत होय ४ अने वे द्रव्य विस्त्रसा  
परिणत होय ५ 'अह्वा दो मीसा परिणया एगे वीससा परिणए'  
अथवा वे द्रव्य मिश्र परिणत होय ४ अने वे द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय ५  
'अह्वा एगे पभोगपरिणए, एगे मीसा परिणए' वे द्रव्य प्रयोगपरिणत  
होय ४ वे द्रव्य मिश्र परिणत होय ४ 'एगे वीससा परिणए' वे द्रव्य  
द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय ४

अथ- 'जइ पभोगपरिणया, किं मणप्पभोगपरिणया, बइप्पभोगपरिणया,  
कायप्पभोगपरिणया' हे भदन्त ! वे द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय ४ ते तु त

कायप्रयोगपरिणतानि भवन्ति ? भगवानाह—‘गोयमा ! मणप्पओगपरिणया वा, एवं एक्कगसंजोगो दुयासंजोगो तियासजोगो भाणियव्वो’ हे गौतम ! प्रयोगपरिणतानि द्रव्याणि मनःप्रयोगपरिणतानि वा, वचः प्रयोगपरिणतानि वा, कायप्रयोगपरिणतानि वा, भवन्ति, एवं रीत्या एक्कसंयोगः, द्विकसंयोगः, त्रिकसंयोगो भणितव्यः, यथा ‘द्वे प्रयोगपरिणते द्रव्ये मनःप्रयोगपरिणते भवतः एकञ्च वचःप्रयोगपरिणत वा भवति’ इत्यादिद्विकयोगो बोध्यः, प्रयोगपरिणतेषु त्रिषु एकं द्रव्य मनःप्रयोगपरिणतं वा भवति, एक वचःप्रयोगपरिणतं भवति, एकञ्च कायप्रयोगपरिणतं भवति ’ इत्यादित्रिकयोगो बोध्यः गौतमः

होते हैं वे क्या मनःप्रयोगसे परिणत होते हैं या वचनप्रयोगसे परिणत होते हैं ? या कायप्रयोगसे परिणत होते ! उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘मणप्पओगपरिणया वा, एवं एक्कगसंयोगो, दुया संयोगो तियासंयोगो भाणियव्वो’ प्रयोगपरिणत तीनों द्रव्य मनःप्रयोगसे भी परिणत होते हैं, वचनप्रयोगसे भी परिणत होते हैं, कायप्रयोगसे भी परिणत होते हैं । इसी तरहसे एकसंयोग, द्विकसंयोग और त्रिकसंयोग कहलेना चाहिये जैसे जो तीन द्रव्य प्रयोग परिणत होते हैं उनमेंसे कोई एक दो द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत होते हैं और एकद्रव्य वचःप्रयोगपरिणत होता है इत्यादि रूप कथन द्विकसंयोगको लेकर कहा गया जानना चाहिये इसी तरहसे जो तीन द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं उन तीनोंमें एक द्रव्य मनःप्रयोग परिणत होता है, एक वचनप्रयोगपरिणत होता है, एक कायप्रयोग परिणत होता है इत्यादि रूपसे कथन

मनःप्रयोगपरिणत होय छे ? के वचनप्रयोग परिणत होय छे अगर कायप्रयोग परिणत होय छे ?

उत्तर— ‘गोयमा’ हे गौतम ‘मणप्पओग परिणया वा एवं एक्कगसंयोगो, दुया संयोगो, तिया संयोगो भाणियव्वो’ प्रयोगपरिणत ते त्रेषु द्रव्यो मन प्रयोगथी वचनप्रयोगथी अने कायप्रयोगथी पण परिणत होय छे. ओ न रीते ओक स योग, द्विक स योग अने त्रिकस योग पण स मण देवा नेवी रीते के त्रेषु द्रव्यो प्रयोगपरिणत होय छे तेभायो केओ ओक द्रव्य मन प्रयोग परिणत होय छे अने ओक द्रव्य वचनप्रयोग परिणत होय छे धत्यादि इप कथन द्विकस योगने उद्देशीने कहेवासा आण्यु छे ते नाली लेवु ओ न रीते ने त्रेषु द्रव्यो प्रयोगपरिणत थाय छे ते त्रेषुमा ओक द्रव्य मनःप्रयोग परिणत होय छे, ओक वचनप्रयोग परिणत होय छे, ओक कायप्रयोग परिणत होय छे. धत्यादि इपनु कथन त्रिकस योगिक कथन संभणवुं.

भवति४, 'अहवा दो पभोगपरिणया एगे बीससापरिणए ५' अथवा द्वे द्रव्ये प्रयोगपरिणते भवतः, एक विस्त्रसापरिणत भवति५, 'अहवा एगे मीसापरिणए, दो बीससापरिणया ६' अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत भवति, द्वे द्रव्ये विस्त्रसापरिणते भवतः६, 'अहवा दो मीसापरिणया, एगे बीससापरिणए ७' अथवा द्वे द्रव्ये मिश्रपरिणते भवतः, एक द्रव्य विस्त्रसापरिणत भवति, 'अहवा एगे पभोगपरिणए, एगे मीसापरिणए, एगे बीससापरिणए ७' अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणतम्, एक मिश्रपरिणतम्, एक विस्त्रसापरिणत भवति । गौतमः पृच्छति—'अह पभोगपरिणया किं मण्यपभोगपरिणया, षड्पभोगपरिणया, कायप्यभोगपरिणया, यानि द्रव्याणि प्रयोगपरिणतानि तानि किं मन प्रयोगपरिणतानि वचम्यभोगपरिणतानि,

हैं और एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है ३, 'अहवा दो पभोगपरिणया एगे बीससा परिणए' अथवा कोई दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं और एक द्रव्य विस्त्रसापरिणत होता है ४, 'अहवा एगे मीसापरिणए, दो बीससापरिणया' अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है और दो द्रव्य विस्त्रसापरिणत होते हैं ५, 'अहवा दो मीसापरिणया एगे बीससा परिणए' अथवा कोई दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं और एक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है ६ 'अहवा एगे पभोगपरिणए, एगे मीसापरिणए' कोई एक द्रव्य प्रयोग परिणत होता है, कोई एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है ( एगे बीससा परिणए ) कोई एक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है ७ । अथ गौतम स्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'अह पभोगपरिणया किं मण्यपभोगपरिणया, षड्पभोगपरिणया कायप्यभोगपरिणया' हे भदन्त ! जो मीनों द्रव्यप्रयोगपरिणत

पारिणए' अथवा वे द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय ३ अने द्वे द्रव्ये मिश्रपरिणत होय ४ 'अहवा दो पभोगपरिणया एगे बीससापरिणए' अथवा वे द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय ५ अने द्वे द्रव्ये विस्त्रसा परिणत होय ६ ४ 'अहवा एगे मीसापरिणए दो बीससा परिणया' अथवा द्वे द्रव्ये मिश्र परिणत होय ७ अने वे द्रव्ये विस्त्रसा परिणत होय ८ ५ 'अहवा दो मीसा परिणया एगे बीससा परिणए' अथवा वे द्रव्ये मिश्र परिणत होय ९ अने द्वे द्रव्ये विस्त्रसा परिणत होय १० 'अहवा एगे पभोगपरिणए, एगे मीसा परिणए' द्वे द्वे द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय ११ द्वे द्वे द्रव्ये मिश्र परिणत होय १२ 'एगे बीससा परिणए' द्वे द्वे द्रव्ये विस्त्रसा परिणत होय १३ ७

अ- 'अह पभोगपरिणया, किं मण्यपभोगपरिणया, षड्पभोगपरिणया, कायप्यभोगपरिणया' हे भदन्त ! वे द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय ३ ते तु ते

कायप्रयोगपरिणतानि भवन्ति ? भगवानाह—‘गोयमा ! मणप्पओगपरिणया वा, एवं एककगसंजोगो दुयासंजोगो तियासजोगो भाणियव्वो’ हे गौतम ! प्रयोगपरिणतानि द्रव्याणि मनःप्रयोगपरिणतानि वा, वचः प्रयोगपरिणतानि वा, कायप्रयोगपरिणतानि वा, भवन्ति, एवं रीत्या एककस योगः, द्विकसंयोगः, त्रिकसंयोगो भणितव्यः, यथा ‘द्वे प्रयोगपरिणते द्रव्ये मनःप्रयोगपरिणते भवतः एकवच वचःप्रयोगपरिणत वा भवति’ इत्यादिद्विकयोगो बोध्यः, प्रयोगपरिणतेषु त्रिषु एकं द्रव्यं मनःप्रयोगपरिणतं वा भवति, एकवचःप्रयोगपरिणतं भवति, एकञ्च कायप्रयोगपरिणतं भवति’ इत्यादित्रिकयोगो बोध्यः गौतमः

होते हैं वे क्या मनःप्रयोगसे परिणत होते हैं या वचनप्रयोगसे परिणत होते हैं ? या कायप्रयोगसे परिणत होते ! उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘मणप्पओगपरिणया वा, एवं एककगसंयोगो, दुया संयोगो तियासंयोगो भाणियव्वो’ प्रयोगपरिणत तीनों द्रव्य मनःप्रयोगसे भी परिणत होते हैं, वचनप्रयोगसे भी परिणत होते हैं, कायप्रयोगसे भी परिणत होते हैं । इसी तरहसे एकसंयोग, द्विकसंयोग और त्रिकसंयोग कहलेना चाहिये जैसे जो तीन द्रव्य प्रयोग परिणत होते हैं उनमेंसे कोई एक दो द्रव्य मनःप्रयोगपरिणत होते हैं और एकद्रव्य वचःप्रयोगपरिणत होता है इत्यादि रूप कथन द्विकसंयोगको लेकर कहा गया जानना चाहिये इसी तरहसे जो तीन द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं उन तीनोंमें एक द्रव्य मनःप्रयोग परिणत होता है, एक वचनप्रयोगपरिणत होता है, एक कायप्रयोग परिणत होता है इत्यादि रूपसे कथन

मनःप्रयोगपरिणत होय छे ? के वचनप्रयोग परिणत होय छे अगर कायप्रयोग परिणत होय छे ?

उत्तर— ‘गोयमा’ हे गौतम ‘मणप्पओग परिणया वा एवं एककगसंयोगो, दुया संयोगो, तिया संयोगो भाणियव्वो’ प्रयोगपरिणत ते त्रेषु द्रव्यो मन प्रयोगथी वचनप्रयोगथी अने कायप्रयोगथी पण परिणत होय छे. ओ न रीते ओक संयोग, द्विक संयोग अने त्रिकसंयोग पण समञ्ज देवा नेवी रीते के त्रेषु द्रव्यो प्रयोगपरिणत होय छे तेमाथी डोष ओक द्रव्य मन प्रयोग परिणत होय छे अने ओक द्रव्य वचनप्रयोग परिणत होय छे इत्यादि रूप कथन द्विकसंयोगने उद्देशीने कहेवामा आव्यु छे ते वाणी देवु ओ न रीते ने त्रेषु द्रव्यो प्रयोगपरिणत थाय छे ते त्रेषुमा ओक द्रव्य मन.प्रयोग परिणत होय छे, ओक वचनप्रयोग परिणत होय छे, ओक कायप्रयोग परिणत होय छे. इत्यादि रूपतु कथन त्रिकसंयोगिक कथन संभवतुं.



पृच्छति—‘अइ मणप्पभोगपरिणया किं सच्चमणप्पभोगपरिणया, मोसमणप्पभोगपरिणया, सच्चामोसमणप्पभोगपरिणया, असच्चामोसमणप्पभोगपरिणया’ हे मवन्त ! यानि द्रव्याणि मनःप्रयोगपरिणतानि तानि किं सत्यमनःप्रयोगपरिणतानि, मृषामनःप्रयोगपरिणतानि, सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतानि, असत्यामृषामनःप्रयोगपरिणतानि भवन्ति ? मगवानाह—‘गोयमा ! सच्चमणप्पभोगपरिणया वा, जाव असच्चामोसमणप्पभोगपरिणया वा’ हे गौतम ! मनःप्रयोगपरिणतानि द्रव्याणि सत्यमनःप्रयोगपरिणतानि, मृषामनःप्रयोगपरिणतानि, सत्यमृषामनःप्रयोगपरिणतानि, असत्यामृषामनःप्रयोगपरिणतानि भवन्ति, ‘अइवा एगे सच्चमणप्पभोगपरिणए, दो मासमणप्पभोगपरिणया वा’ अथवा एकमनःप्रयोगपरिणत द्रव्यसत्य-

त्रिकयोगका कथन जानना चाहिये। अथ गौतमस्वामी प्रश्नुसे ऐसा पूछते हैं ‘अइ मणप्पभोगपरिणया किं सच्चमणप्पभोगपरिणया, मोसमणप्पभोगपरिणया सच्चामोसमणप्पभोगपरिणया असच्चामोसमणप्पभोगपरिणया’ हे मवन्त ! जो तीनों द्रव्य मनःप्रयोग परिणत होते हैं सो क्या वे सत्यमनःप्रयोग परिणत होते हैं ? या मृषामनःप्रयोगपरिणत होते हैं ? या असत्यामृषामनःप्रयोग परिणत होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्नु कहते हैं ‘गोयमा ! सच्चमणप्पभोगपरिणया वा, जाव असच्चामोसमणप्पभोगपरिणया वा’ हे गौतम जो तीन द्रव्य मनःप्रयोग परिणत होते हैं वे सत्यमनःप्रयोगपरिणत भी होते हैं, मृषामनःप्रयोग परिणत भी होते हैं और असत्यामृषामनःप्रयोग परिणत भी होते हैं। ‘अइवा एगे सच्चमणप्पभोगपरिणए, दो मोसमणप्पभोगपरिणया’ मनःप्रयोग

प्रश्न— ‘अइ मणप्पभोगपरिणया किं सच्चमणप्पभोगपरिणया, मोसमणप्पभोगपरिणया, सच्चामोसमणप्पभोगपरिणया, असच्चामोसमणप्पभोगपरिणया’ हे मगवन् ? तत्रु इत्थं मनःप्रयोग परिणत द्रव्ये ? तं तु सत्यमनःप्रयोग परिणत द्रव्ये ? मृषामनःप्रयोग परिणत द्रव्ये ? अथ सत्यमृषामनःप्रयोग परिणत द्रव्ये ? असत्यामृषामनःपरिणत द्रव्ये ?

उत्तर— गायमा’ हे गौतम ‘सच्चमणप्पभोगपरिणया वा, जाव असच्चामोसमणप्पभोगपरिणया वा’ हे तत्रु इत्थं मनःप्रयोग परिणत द्रव्ये ते सत्यमनःप्रयोग परिणत, मृषामनःप्रयोग परिणत अथ सत्यमृषामनःप्रयोग परिणत पणु द्रव्ये अथ असत्यामृषामनःप्रयोग परिणत पणु द्रव्ये हे ‘अइवा एगे सच्चमणप्पभोगपरिणए दो मासमणप्पभोगपरिणया’ मनःप्रयोग परिणत द्रव्येमांशी अथे

मनःप्रयोगपरिणत भवति, द्वे तथात्रिधे द्रव्ये मृषामनःप्रयोगपरिणते वा भवतः, 'एवं द्रुयासंयोगो, त्रियासंयोगो भाणियन्वो' एवं उक्तरीत्या द्विकसंयोगः, त्रिकसंयोगो भणितव्यः वक्तव्यः 'एत्थवि तहेव जाव' अत्रापि द्रव्यत्रयाधिकारेऽपि तथैव वक्तव्यं यथा द्रव्यद्वयाधिकारे उक्तम्, ततश्च मनोवचनकायप्रभेदतो यः प्रयोगपरिणामः, मिश्रपरिणामः, वर्णादिभेदतश्च विस्रसापरिणाम उक्तः स अत्रापि त्राच्यः यावत्-पूर्वोक्तं सर्वं संग्राह्यम्, 'अहवा एगे तंसंस्थाणपरिणए वा, एगे चउरंसंस्थाणपरिणए वा, एगे आययसंस्थाणपरिणए वा' अथवा एकं संस्थानप्रयोगपरिणतं द्रव्यं त्रयस्रसंस्थानपरिणतं वा भवति एकं द्रव्यं चतुरस्रसंस्थानपरिणतम् एकं द्रव्यम् आयतसंस्थानपरिणतं वा भवति, इदमत्र बोध्यम्-द्रव्यत्रयपरिणामाधि-

परिणत द्रव्योर्मे से एकमनःप्रयोगपरिणत द्रव्य सत्यमनःप्रयोगपरिणत होता है, तथा दूसरे मन प्रयोगपरिणत दो द्रव्य मृषामनःप्रयोग परिणत होते हैं । 'एव द्रुयासंयोगो भाणियन्वो' इस उक्तरीतिके अनुसार द्विकसंयोग, त्रिकसंयोग कहलेना चाहिये । 'एत्थ वि तहेव जाव' इस द्रव्यत्रयके अधिकारमें भी ऐसा ही कथन करना चाहिये जैसा कि कथन द्रव्यद्वयके अधिकारमें किया गया है । वहाँ पर मन, वचन, कायके भेदसे जो प्रयोगपरिणाम, मिश्रपरिणाम और वर्णादिके भेदसे विस्रसापरिणाम कहा गया है वह यहाँ पर भी कहना चाहिये । 'यावत्' पद यही बात प्रगट करता है । 'अहवा एगे तंसंस्थाणपरिणए वा, एगे चउरंसंस्थाणपरिणए वा, एगे आययसंस्थाणपरिणए वा' अथवा संस्थान प्रयोग परिणत एक द्रव्य त्रयस्रसंस्थान परिणत भी होता है, कोई एक द्रव्य चतुरस्र संस्थान परिणत होता है, कोई एक द्रव्य आयत संस्थान परिणत होता है । यहाँ पर ऐसा समझना

द्रव्य सत्यमन प्रयोग परिणत होय छे तथा भीण्डुं मन.प्रयोग परिणत द्रव्य मृषामनः प्रयोगपरिणत होय छे 'एवं द्रुयासंयोगो, त्रियासंयोगो भाणियन्वो' आ न रीते द्विक संयोग अने त्रिकसंयोग पणु समञ्ज देवा 'एत्थ वि तहेव जाव' अे द्रव्य त्रणु द्रव्यना अधिकारमां पणु अेणु न कथन करवु लेणुअे नेवुं कथन, द्रव्यद्वयना अधिकारमां कडेणु छे त्या.मन, वचन अने कायना भेदथी ते प्रयोगपरिणाम, मिश्रपरिणाम अने वर्णादिना सेदथी विस्रसा परिणाम कडेणु छे ते अहीआ पणु समञ्ज देवा -'यावत्'- अे न वात यावत् पदथी समञ्ज शक्य छे. 'अहवा एगे तंसंस्थाणपरिणए वा, एगे चउरंसंस्थाणपरिणए वा' एगे आययसंस्थाणपरिणए वा' अथवा ते संस्थान परिणत अेक द्रव्य त्रयस्रसंस्थान परिणत पणु होय छे, केणु अेक द्रव्य चतुरस्र

कारे प्रयोगमिभिस्रसापरिणतेषु एकत्वे प्रयो विकल्पाः, द्विकसयोगे तु वह विकल्पाः,—तथाहि—आद्यस्य एकत्वे शेषद्वयस्य क्रमेण द्वित्वे द्वौ, एवम्—आद्यस्य द्वित्वे शेषद्वयस्य क्रमेण एकत्वे अन्यौ द्वौ, इत्येष चत्वारः, तथा द्वितीयस्यैकत्वे तृतीयस्य द्वित्वे पञ्चमः, तथा द्वितीयस्य द्वित्वे, तृतीयस्य चैकत्वं षष्ठः इत्येष षट्, त्रिकयोगे तु एक एवेत्येष सन् दश, एष मनःप्रयोगादिष्वपि त्रिषु दश, सत्प्रमनाप्रयोग परिणतादिषु तु एकत्वे चत्वारः, द्विकयोगे द्वादश, तथाहि—आद्यस्य सत्प्रस्यैकत्वे

चाहिये द्रव्यत्रय परिणामाधिकारमें प्रयोग, मिश्र और विस्रसा परिणत द्रव्यद्वयमें तीन विकल्प होते हैं अर्थात् द्रव्यत्रय प्रयोग परिणत भी होता है, मिश्रपरिणत भी होता है और विस्रसा परिणत भी होता है' ये ही एकत्वमें तीन विकल्प हैं। द्विकसयोगमें ६ विकल्प होत हैं जो इस प्रकारसे हैं आदिके एकत्वमें, और शेषद्वयके क्रमसे द्वित्वमें दो विकल्प तथा आदिके द्वित्वमें और शेषद्वयके क्रमसे एकत्वमें दो इस तरह चार विकल्प तो ये हो जाते हैं। तथा द्वितीय के एकत्वमें और तृतीयके एकत्वमें और तृतीयके द्वित्वमें पाचवा विकल्प होता है। तथा द्वितीयके द्वित्वमें और तृतीयके एकत्वमें ६ छठा विकल्प होता है इस तरह द्विकसयोगमें ६ विकल्प हो जाते हैं। तथा त्रिकके योगमें एक विकल्प इस प्रकार  $3+6+1=10$  ये सब १० विकल्प हो जाते हैं। इसी तरहसे मनः प्रयोग आदि तीनमें १० विकल्प हो जाते हैं अर्थात् 'द्रव्यत्रयमनः प्रयोगपरिणत भी होता है, घटःप्रयोगपरिणत भी होता है, और

संस्थान परिणत दोष ७ दोषजिह्व द्रव्य व्यापत संस्थान परिणत पञ्च दोष ७ तत्पक्ष के ७ ७ द्रव्यत्रयना अधिकारमा प्रयोग मिश्र करने विक्रसा परिणत, द्रव्यत्रयमा को-त्वमा तस्य विकल्प साय ७ अर्थात् द्रव्यत्रय प्रयोग परिणत पञ्च दोष ७ मिश्र परिणत करने विक्रसा परिणत पञ्च दोष ७ व्याप जेकत्वमा तस्य विकल्प ७ द्विकसयोगमा ७ विकल्प साय ७ ने आ शीते ७—पहेलाना कोकत्वमा जने ज्ञाहीमा जेना कभधी, द्वित्वमा के विकल्प तथा आदिना द्वित्वमा जने ज्ञाहीमा जेना कभधी कोकत्वमा जे जे शीते आर विकल्प तो व्याप साय ७ तथा जीबाना जेकत्वमा जने जीबाना द्वित्वमा जेम पाचिमी विकल्प साय ७ तथा जीबाना द्वित्वमा जने जीबाना जेकत्वमा जेम छठो विकल्प साय ७ जे शीते द्विकसयोगमा ७ विकल्प साय ७ तथा त्रिक सयोगमा जे विकल्प आ शीते  $3+6+1=10$  जे जमा भगीने १० इस विकल्प साय ७ व्यापी शीते मनःप्रयोगादि त्रयेना इस विकल्प साय ७ अर्थात् द्रव्यत्रय मन प्रयोग परिणत पञ्च दोष ७ वचन प्रयोग

शेषाणां मृषादित्रयाणां क्रमेण अनेकत्वे त्रयः, एवम् आद्यस्यानेकत्वे शेषाणां त्रयाणाम् क्रमेण एकत्वे त्रय इत्येवं षट्, तथा द्वितीयस्य एकत्वे शेषद्वयस्य क्रमेण अनेकत्वे द्वौ, तथा द्वितीयस्य अनेकत्वे शेषद्वयस्य क्रमेण एकत्वे द्वौ, तृतीयचतुर्थ-योरेकत्वानेकत्वाभ्याम् एकः, तयोरेवानेकत्वैकत्वाभ्याम् एकः, इत्येवं द्वादश,

कायप्रयोगपरिणत भी होता है। ये ही एकत्वमें तीन विकल्प हैं। द्विकसंयोगमें ६, और त्रिकसंयोगमें १ इस प्रकार ये १० विकल्प हैं। तथा सत्यमनःप्रयोग परिणत आदिकोंमें एकत्वमें चार विकल्प होते हैं जो इस प्रकारसे हैं द्रव्यत्रय सत्यमन प्रयोग परिणत भी होता है, असत्यमनः प्रयोग परिणत भी होता है, उभयमनःप्रयोगपरिणत भी होता है, ओर अनुभयमनःप्रयोग परिणत भी होता है इस तरहसे ये एकत्वमें चार विकल्प हैं। द्विकयोगमें १२वारह विकल्प होते हैं जो इस प्रकारसे हैं आदि सत्यके एकत्वमें और शेषमृषादित्रयके क्रमशः अनेकत्वमें तीनविकल्प, इसी तरहसे आदि सत्यके अनेकत्वमें और शेषतीनके क्रमशः एकत्वमें तीन विकल्प इस प्रकार ६ विकल्प ये हुए, तथा द्वितीय मृषाके एकत्वमें और शेषद्वयके क्रमशः अनेकत्व में दो विकल्प, इस प्रकार १० दश विकल्प हुए और तृतीय एवं चतुर्थके एकत्व एवं अनेकत्व को लेकर १ एक विकल्प और इन्हींके अनेकत्व और एकत्वको लेकर एक और विकल्प इस प्रकारसे द्विक-

परिणत पशु होय छे. अने ऋष्यप्रयोग परिणत पशु होय छे अने एकत्वमा ३ त्रय विकल्प छे अने द्विक संयोगमा ६ छे अने त्रिकसंयोगमा १ अने अने प्रमाणे कुल १० दश विकल्प थाय छे तथा सत्यमनप्रयोग परिणत आदिमां एकत्वमा ४ विकल्प थाय छे अने आ प्रमाणे छे—द्रव्यत्रय सत्यमनः प्रयोग परिणत पशु होय छे असत्यमनः प्रयोगपरिणत पशु होय छे. उभय मन.प्रयोग परिणत पशु होय छे अने अनुभय मनः प्रयोग परिणत पशु होय छे अने रीते एकत्वमा ४ विकल्प छे द्विकसंयोगमा १२ आर विकल्प थाय छे अने आ प्रमाणे छे. पहिला सत्यना एकत्वमा अने आडी मृषा आदि त्रयना कथी अनेकत्वमा त्रय विकल्प, अने रीते आदि सत्यना अनेकत्वमा अने आडीना त्रयना कथी कथी क्रमशः अनेकत्वमा त्रय ३ विकल्प अने रीते छ विकल्प थाय छे तथा भीम मृषाना एकत्वमा अने आडीना अने कथी अनेकत्वमा अने २ विकल्प तथा भीम लेहना अनेकत्वमा अने शेष अने कथी एकत्वमा २ छे विकल्प, आ प्रमाणे १० दश विकल्प थाय. अने त्रीम अने योथाना एकत्व अने अनेकत्वने लधने अने विकल्प अने तेने अनेकत्व अने एकत्वने लधने भीम विकल्प अने रीते द्विकसंयोगमा



मूलम्—चत्वारि भन्ते ! द्वा किं पओगपरिणया मीसापरिणया, वीससापरिणया ? गोयमा ! पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा, अहवा एगे पओगपरिणए, तिन्नि मीसापरिणया १, अहवा एगे पओगपरिणए, तिन्नि वीससापरिणया २, अहवा दो पओगपरिणया दो मीसापरिणया ३, अहवा दो पओगपरिणया, दो वीससापरिणया ४, अहवा तिन्नि पओगपरिणया एगे मीसापरिणए ५, अहवा तिन्नि पओगपरिणया, एगे वीससापरिणए ६, अहवा एगे मीसापरिणए. तिन्नि वीससापरिणया ७, अहवा दो मीसा परिणया, दो वीससा परिणया ८, अहवा तिन्नि मीसापरिणया एगे वीससापरिणए ९, अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया १, अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए २, अहवा दो पओगपरिणया; एगे मीसापरिणए, एगे वीससा परिणए ३, जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया ? वइप्पओगपरिणया कायप्पओगपरिणया एवं एएणं कमेणं पंच छ सत्त जाव दससंखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता य द्वा भाणियद्वा, दुया संजोएणं, तिया संजोएणं, जाव—दससंजोएणं, बारससंजोएण, उवजुंजिऊणं जत्थ जत्तिया संयोगा उट्टेति ते सव्वे भाणियद्वा, एए पुण जहा नवमसए पवेसणए भणिहामो तथा उवजुंजिऊण भाणियद्वा, जाव असंखेज्जा, अणंता एवं चेव, नवरं एक्कं पदं अब्भहियं, जाव अहवा अणंता परिमंडलसंठाण परिणया जाव अणंता आययसंठाणपरिणया ॥ सू० २३ ॥

त्रिकयोगे तु चत्वारः, इत्येव सर्वेऽपि विंशतिर्विकल्पाः । एवं परिमण्डलाविपु पञ्चसु एकत्वे पञ्च, द्विकयोगे विंशतिः—आद्यस्य एकत्वे शेषाणां चतुर्णाम् क्रमेणानेकत्वे चत्वारः, तथा आद्यस्यानेकत्वे शेषाणां च क्रमेण एकत्वे चत्वारः, इत्येवमष्टौ, एव द्वितीयस्य एकत्वे अनेकत्वं च, शेषत्रयस्य चानेकत्वे एकत्वे च पठ, तथा तृतीयस्य एकत्वे अनेकत्वे च शेषयोरनेकत्वे एकत्वे च चत्वारः, एवं चतुर्थस्य एकत्वे अनेकत्वे च, पञ्चमस्यानेकत्वे एकत्वं च द्वौ, इत्येवं विंशतिः, त्रिकयोगे तु दश इति सर्वे त्रिंशत् विकल्पाः । एषमन्येऽपि स्वयमूहनीयाः ॥ सू० २२ ॥

योगमें ये १२ विकल्प हैं । तथा त्रिकयोगमें चार विकल्प होते हैं, इस तरह सब ३० विकल्प होते हैं । इसी तरहसे परिमण्डल आदि सस्यानोमें एकत्वमें पांच विकल्प, द्विकयोगमें २० विकल्प होते हैं । २० विकल्प इस प्रकारसे हैं आदिके एकत्वमें, शेषचारोंके क्रमशः अनेकत्वमें चार विकल्प, तथा आदिके अनेकत्वमें और शेषचारोंके क्रमशः एकत्वमें चार विकल्प इस प्रकार आठविकल्प ये हुए, इसी तरहसे द्वितीयके एकत्वमें तथा शेषत्रयके अनेकत्वमें और एकत्वमें ४ विकल्प, तथा तृतीयके एकत्वमें और अनेकत्वमें, तथा शेषत्रयके अनेकत्वमें और एकत्वमें चार विकल्प होते हैं, इसी तरहसे चतुर्थके एकत्वमें और अनेकत्वमें, पञ्चमके अनेकत्वमें और एकत्वमें, दो विकल्प इस तरह ये सब मिलकर बीस २० विकल्प हो जाते हैं । तथा त्रिकके योगमें दश विकल्प इस प्रकार सब मिलकर तीस ३० विकल्प हो जाते हैं । इसी तरहसे और भी विकल्प अपने आप समझ लेना चाहिये ॥ सू० २२ ॥

१२ बार विकल्प साथ छे त्रिक संयोगमा ४ बार विकल्प साथ छे जे रीति कुल २० बीस विकल्प साथ छे जे रीति परिमण्डल आदि सस्यानोमा अनेकत्वमा पांच विकल्प त्रिक संयोगमा बीस विकल्प साथ छे जे बीस विकल्प जे प्रमाणे छे—पडैलाना अनेकत्वमा अने लाहना सारैना केमथी अनेकत्वमा ४ बार विकल्प तथा पडैलाना अनेकत्वमा अने लाहना सारैना केमथी अनेकत्वमा ४ बार विकल्प जे प्रमाणे कुल आठ ८ विकल्प साथ छे जे रीति बीजाना अनेकत्वमा अने अनेकत्वमा तथा लाहना अनेकत्वमा अने अनेकत्वमा छे ६ विकल्प तथा बीजाना अनेकत्वमा अने अनेकत्वमा तथा लाहना अनेकत्वमा अने अनेकत्वमा सार विकल्प साथ छे जे रीति मोधाना अनेकत्वमा, अनेकत्वमा पांचभाना अनेकत्वमा अने अनेकत्वमा २ जे विकल्प जे रीति कुल मज्जिने २० बीस विकल्प साथ छे तथा अज्जना योगमा १० इश विकल्प जे रीति कुल ३ तीस विकल्प साथ छे जे प्रमाणे लाहना लाहना विकल्प पक्क समथ देव स २२-

मूलम्—चत्वारि भन्ते ! द्वा किं पओगपरिणया मीसापरिणया, वीससापरिणया ? गोयमा ! पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा, अहवा एगे पओगपरिणए, तिन्नि मीसापरिणया १, अहवा एगे पओगपरिणए, तिन्नि वीससापरिणया २, अहवा देा पओगपरिणया दो मीसापरिणया ३, अहवा दो पओगपरिणया, दो वीससापरिणया ४, अहवा तिन्नि पओगपरिणया एगे मीसापरिणए ५, अहवा तिन्नि पओगपरिणया, एगे वीससापरिणए ६, अहवा एगे मीसापरिणए. तिन्निवीससापरिणया ७, अहवा दो मीसा परिणया, दो वीससा परिणया ८, अहवा तिन्नि मीसापरिणया एगे वीससापरिणए ९, अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया १, अहवा एगे पओगपरिणए, देा मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए २, अहवा दो पओगपरिणया; एगेमीसापरिणए, एगे वीससा परिणए ३, जइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया ? वइप्पओगपरिणया कायप्पओगपरिणया एवं एएणं कमेणं पंच छ सत्त जाव दससंखेज्जा, असंखेज्जा, अणंता य द्वा भाणियद्वा, दुया संजोएणं, तिया संजोएणं, जाव—दससंजोएणं, बारससंजोएण, उवजुंजिऊणं जत्थ जत्तिया संयोगा उट्टेति ते सब्बे भाणियद्वा, एए पुण जहा नवमसए पवेसणए भणिहामो तथा उवजुंजिऊण भाणियद्वा, जाव असंखेज्जा, अणंता एवं चेव, नवरं एक्कं पदं अब्भहियं, जाव अहवा अणंता परिमंडलसंठाणपरिणया जाव अणंता आययसंठाणपरिणया ॥ सू० २३ ॥



छाया-चत्वारि भवन्त ! द्रव्याणि किं प्रयोगपरिणतानि, मिश्रपरिणतानि चिन्न सापरिणतानि ? गौतम ! प्रयोगपरिणतानि वा, मिश्रपरिणतानि वा, चिन्नासापरिणतानि वा, अथवा एकं प्रयोगपरिणतं त्रीणि मिश्रपरिणतानि १, अथवा एक प्रयोगपरिणतं त्रीणि चिन्नासापरिणतानि २, अथवा द्वे प्रयोगपरिणते, द्वे मिश्रपरिणते ३, अथवा द्वे प्रयोगपरिणते, द्वे चिन्नासा परिणते ४, अथवा त्रीणि प्रयोगपरिणतानि, एक मिश्रपरिणतम् ५ अथवा त्रीणि प्रयोगपरिणतानि, एक चिन्नासापरिणत

‘चत्वारि मन ! द्रव्या किं पओगपरिणया’ इत्यादि ।

सुत्रार्थ—( चत्वारि भवते ! द्रव्या किं पओगपरिणया )-हे भवन्त ! चार द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं ? या मिश्रपरिणत होते हैं ? या चिन्नासापरिणत होते हैं ? (गौतम) हे गौतम ! ( पओगपरिणया वा, मीसा परिणया वा, वीससापरिणया वा) चार द्रव्य प्रयोगपरिणत भी होते हैं, मिश्रपरिणत भी होते हैं, चिन्नासा परिणत भी होते हैं (अथवा एगे पओगपरिणए, तिन्नि मीसापरिणया) अथवा एकप्रयोगपरिणत होता है । चाकीके तीन मिश्रपरिणत होते हैं १ (अथवा एगे पओगपरिणए, तिन्नि वीससापरिणया) अथवा एकप्रयोगपरिणत होता है चाकीके तीन चिन्नासापरिणत होते हैं २, (अथवा दो पओगपरिणया, दो मीसापरिणया ३) अथवा दो प्रयोगपरिणत होते हैं और दो मिश्रपरिणत होते हैं ३, (अथवा दो पओगपरिणया, दो वीससा परिणए ४) अथवा दो प्रयोगपरिणत होते हैं वा चिन्नासापरिणत होते हैं ४, (अथवा तिन्नि पओगपरिणया, एगे मीसापरिणए ५) अथवा तीन प्रयोगपरिणत होते हैं

‘चत्वारि भवते द्रव्या किं पओगपरिणया इत्यादि’

अुत्रार्थ—‘चत्वारि भवते द्रव्या किं पओगपरिणया’ हे भवन्त ॥ ५२ ॥ १ ॥ प्रयोगपरिणत ॥ १ ॥ मिश्र परिणत ॥ २ ॥ ३ ॥ चिन्नासा परिणत ॥ ४ ॥ ‘गौतम’ हे गौतम ! ‘पओगपरिणया मीसापरिणया वीससा परिणया वा’ ॥ ५२ ॥ १ ॥ प्रयोगपरिणत मिश्र परिणत चने चिन्नासा परिणत ॥ २ ॥ ‘अथवा एगे पओगपरिणए तिन्नि मीसा परिणया’ अथवा एगे प्रयोगपरिणत ॥ ३ ॥ चने चिन्नासा परिणत मिश्र परिणत ॥ ४ ॥ ‘अथवा एगे पओगपरिणए तिन्नि वीससा परिणया’ अथवा एगे प्रयोग परिणत ॥ ५ ॥ चिन्नासा परिणत ॥ ६ ॥ ‘अथवा दो पओगपरिणया, दो मीसा परिणया’ अथवा एगे प्रयोगपरिणत ॥ ७ ॥ चने दो मिश्रपरिणत ॥ ८ ॥ ‘अथवा दो पओगपरिणया दो वीससा परिणया’ अथवा एगे प्रयोग परिणत ॥ ९ ॥ चने दो चिन्नासा परिणत ॥ १० ॥

६ अथवा एक मिश्रपरिणत, त्रीणि विस्रसापरिणतानि ७, अथवा द्वे मिश्रपरिणत द्वे विस्रसापरिणते ८, अथवा, त्रीणि मिश्रपरिणतानि, एकं विस्रसापरिणतम् ९, अथवा एक प्रयोगपरिणतम्, एक मिश्रपरिणत, द्वे विस्रसापरिणते १, अथवा एक प्रयोगपरिणत, द्वे मिश्रपरिणते, एक विस्रसापरिणतम् २, अथवा द्वे प्रयोगपरिणते, एक मिश्रपरिणतम्, एक विस्रसापरिणतम् ३, यानि प्रयोगपरिणतानि

एकद्रव्य मिश्रपरिणत होता है ५। (अहवा तिस्रि पओगपरिणया एगे वीससा परिणए ६) अथवा तीनद्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं और एक द्रव्य विस्रसा परिणत होता है ६। (अहवा एगे मीसापरिणए, तिस्रि वीससापरिणए ७ अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है वाकीके ३ द्रव्य विस्रसा परिणत होते हैं ७। (अहवा दो मीसापरिणया, दो वीससापरिणया ८) अथवा दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं और दो द्रव्य विस्रसा परिणत होते हैं ८। (अहवा तिस्रि मीसापरिणया एगे वीससा परिणए ९) अथवा तीन मिश्रपरिणत होते हैं और एक द्रव्य विस्रसा परिणत होता है ९। (अहवा एगे पओगपरिणए एगे मीसापरिणए, दो-वीससा परिणया १) अथवा एकद्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, एकद्रव्य मिश्रपरिणत होता है और दो द्रव्यविस्रसापरिणत होते हैं। (अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए २) अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं और

‘अहवा तिस्रि पओगपरिणया एगे मीसा परिणए’ अथवा त्रयु प्रयोग परिणत डोय छे अने अेक तिस्रि परिणत डोय छे ५ ‘अहवा तिस्रि पओगपरिणया एगे वीससा परिणया’ अथवा त्रयु द्रव्य प्रयोग परिणत डोय छे अने अेक विस्रसा परिणत डोय छे ६ ‘अहवा एगे मीसा परिणए तिस्रि वीससा परिणए’ अथवा अेक द्रव्य मिश्रपरिणत डोय छे आकीना त्रयु द्रव्यो विस्रसापरिणत डोय छे ७ ‘अहवा दो मीसा परिणया दो वीससा परिणया’ अथवा अे द्रव्य मिश्रपरिणत, अने अे द्रव्यो विस्रसापरिणत डोय छे ८ ‘अहवा तिस्रि मीसा परिणया एगे वीससा परिणए’ अथवा त्रयु मिश्रपरिणत डोय छे अने अेक द्रव्य विस्रसापरिणत डोय छे ९ ‘अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए दो वीससा परिणया’ अथवा अेक द्रव्य प्रयोगपरिणत डोय छे, अेक मिश्रपरिणत डोय छे अने अे द्रव्य विस्रसा परिणत डोय छे- १ ‘अहवा एगे पओगपरिणए दो मीसा परिणया एगे वीससा परिणए’ अेक द्रव्य प्रयोगपरिणत डोय छे अे मिश्र परिणत डोय छे

किं मनःप्रयोगपरिणतानि, पच प्रयोगपरिणतानि, कायप्रयोगपरिणतानि ? एषु एतेन क्रमेण पच, पद, सप्त, यावत् दश, सस्येयानि, असस्येयानि, अनन्तानि च द्रव्याणि मणितव्यानि, द्विकसयोगेन, त्रिकसयोगेन यावत् दशसंयोगेन, द्वादश

एक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है २, (अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए १) अथवा दो द्रव्य प्रयोग परिणत होते हैं, एकमिभपरिणत होता है और एक विस्त्रसा परिणत होता है ३, (अइ पओगपरिणया किंमणप्पओगपरिणया ३) हे भवन्त ! एव द्रव्य यदि प्रयोग परिणत होते हैं तो क्या वे मनः प्रयोगपरिणत होते हैं या वचनप्रयोगपरिणत होते हैं या कायप्रयोग परिणत होते हैं ? (एव एएण क्रमेण पच, छ, सप्त, जाव दस, सस्येज्जा, असस्येज्जा, अणता य दव्वा, दुयासजोएणं, तियासजोएणं, जाव दस संजोएण, चारससंजोएण, भाणियव्वा) हे गौतम ! इस विषयमें समस्त कथन पढ़िछे किये कथनके अनुसार ही जानना चाहिये । इसी प्रकारसे क्रमानुसार पांच, छ, सात, यावत् दश, सस्ययात्, असस्ययात् और अनन्त द्रव्योंके द्विकसयोग त्रिकसंयोग, यावत् दशस योग, चारह स योग कह लेना चाहिये । (उच्चुजिउर्णं

अने जेठ द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे २ । 'अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसा परिणए, एगे विससा परिणए' अथवा ने द्रव्य प्रयोगपरिणत जेठ मिभ परिणत होय छे अने जेठ विस्त्रसा परिणत होय छे ३ । अइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया ३ । हे भवन्त ! एव द्रव्य जे प्रयोगपरिणत होय तो छे ते मनःप्रयोग परिणत होय छे । वचनप्रयोग परिणत छे कायप्रयोग परिणत होय छे । 'एव एएण क्रमेण पच, छ, सप्त जाव दस, सस्येज्जा, असस्येज्जा, अणता य दव्वा दुया सयाएणं, तिया सयोएणं, जाव दस संजोएणं, चारस संजाएण भाणियव्वा' हे गौतम ! ए विषयभा सभ्यु कथन पढ़ेला इवामा आवेल इवामुसए सभय देवु अने जे ए हीतना कभ प्रमत्ते पांच छ, सात,—यावत्-दश, सस्ययात् असस्ययात् अने अनन्त द्रव्योंका द्विक संयोग, त्रिक संयोग—यावत्-दश संयोग, चार संयोग सभय देवा । 'उच्चुजिउर्णं अत्य परिणया सओया उद्वेति ते सइ

संयोगेन उपयुज्य यत्र यावन्तःसंयोगा उत्तिष्ठन्ते ते सर्वे भणितव्याः, एते पुनः यथा नवमशतके प्रवेशनके भणिष्यामस्तथा उपयुक्तेन भणितव्याः, यावत्-असंख्येयाः अनन्ताः, एवमेव, नवरम् एकं पदम् अभ्यधिकम्, यावत्-अथवा अनन्तानि परिमण्डलसंस्थानपरिणतानि यावत् अनन्तानि आयतसंस्थान-परिणतानि ॥ सू० २३ ॥

टीका-अथ द्रव्यचतुष्कपरिणाममधिकृत्य प्राह-‘चत्वारि भंते ! इत्यादि । ‘चत्वारि भंते ! द्वा किं पयोगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया ?’

जत्थ जत्थिया सयोगा उट्टेति ते सव्वे भाणियव्वा) जहां पर जितने संयोग उपयोगपूर्वक-विचारपूर्वक-संभवित हो उतने वे सब संयोग वहां पर कहना चाहिये । (एए पुण जहा नवमसए पवेसणए भणिहामो तहा उवज्जुजिऊण भाणियव्वा) ये सब संयोग नौवें शतक के प्रवेशन अर्थात् वत्तीसवें उद्देशकमें जिस प्रकार से कहे जावेंगे, उपयोगपूर्वक उस प्रकारसे विचार करके उन्हें कहना चाहिये । (जाव अस खेज्जा अणंता, एवं चेव-नवरं एक पदं अब्भहियं) यावत्-असंख्यात, अनन्त द्रव्योंके परिणाम इसी प्रकारसे जानना चाहिये । परन्तु-एक पद अधिक करके कहना चाहिये । जाव अहवा अणंतपरिमंडलसंठाणपरिणया जाव अणंता आययसंठाण परिणया) यावत्-अथवा - अनन्तद्रव्य परिमंडल संस्थान रूपसे परिणत होते हैं-यावत्-अनन्तद्रव्य आयत संस्थानरूपसे परिणत होते हैं ।

टीकार्थ-इस सूत्रद्वारा सूत्रकारने द्रव्य चतुष्क आदिके परिणामको अधिकृत करके कहा है. इसमें प्रभुसे ऐसा पूछा है ‘चत्वारि भंते !

भाणियव्वा’ न्ना नेटला सयोगे उपयोगपूर्वक - विचारपूर्वक संभवित होय तेटला ते तमास संयोग तां समञ्ज वेवा. ( एए पुण जहा नवमसये पवेसणए भणिहामो तहा उवज्जुजिऊण भाणियव्वा ’ ते तमास संयोगा नवमा शतकना प्रवेश पर्यंत ने रीते कहेवाभा आवथे, उपयोगपूर्वक ते रीते विचारिने समञ्ज वेवा जाव असंखेज्जा अणंता एवं चेव-नवरम् एक पदं अब्भहियं ’ यावत् असंख्यात अनन्त द्रव्योनु परिणुमन आण रीते समञ्ज वेवुं, परंतु एक पद वधारीने कहेवु नेधमे ‘ जाव अहवा अणंतपरिमंडलसंठाणपरिणया जाव अणंता आयय-संठाणपरिणया - यावत् अनन्त द्रव्य परिमंडल संस्थानरूपथी परिणुत होय छे-यावत् अनन्त द्रव्य आयत संस्थानरूपथी परिणुत होय छे

टीकार्थ-आ सूत्रवडे द्रव्य चतुष्कदिना परिणुमने अधिकृत करीने कहेवु छे. आमां गौतम स्वामीने प्रभुने कहेवुं पूछथुं छे छे- ‘चत्वारि भंते द्वा किं पयोग

गौतम पृच्छति- हे मदन्त ! चत्वारि द्रव्याणि किं प्रयोगपरिणतानि, मिश्र परिणतानि, विस्त्रसापरिणतानि भवन्ति ? मगधाना- 'गोयमा ! पञ्चो गपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा' हे गौतम ! चत्वारि द्रव्याणि प्रयोगपरिणतानि वा, मिश्रपरिणतानि वा, विस्त्रसापरिणतानि वा भवन्ति, 'अहवा एगे पञ्चो गपरिणए तिभि मीसापरिणया १, अथवा तेपु एक द्रव्यम् प्रयोगपरिणत भवति, श्रीणि च द्रव्याणि मिश्रपरिणतानि भवन्ति १, 'अहवा एगे पञ्चो गपरिणए तिभि वीससा परिणया २' अथवा एक प्रयोग परिणत भवति, श्रीणि च विस्त्रसापरिणतानि भवन्ति २, 'अहवा दो पञ्चो गपरिणया, दो मीसापरिणया ३, अथवा द्वे द्रव्ये प्रयोगपरिणते भवतः, द्वे च मिश्रपरिणते, 'अहवा दो पञ्चो गपरिणया दो वीससा परिणया ४' अथवा द्वे प्रयोगपरिणते भवतः द्वे विस्त्रसापरिणते ४, अहवा तिभि पञ्चो गपरिणया एगे मीसापरिणए ५'

वन्धा किं पञ्चो गपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया' हे मदन्त ! चार द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं ? या मिश्रपरिणत होते हैं ? या विस्त्रसापरिणत होते हैं ? हमके उत्तरमें मनु कहते हैं गोयमा ! पञ्चो गपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा' हे गौतम ! चार द्रव्य प्रयोगपरिणत भी हाते हैं, मिश्रपरिणत भी होते हैं, और विस्त्रसा परिणत भी हाते हैं । 'अहवा-एगे पञ्चो गपरिणए तिभि मीसा परिणया, अहवा एगे पञ्चो गपरिणए, तिभि वीससा परिणया, अहवा दो पञ्चो गपरिणया, दो मीसा परिणया, अहवा दो पञ्चो गपरिणया, दो वीससा परिणया' अथवा-उनमें एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, तीन द्रव्य मिश्र परिणत होते हैं १, अथवा-एक द्रव्य प्रयोग परिणत हाता है तीन द्रव्य विस्त्रसा परिणत हाते हैं २, अथवा-दो द्रव्य प्रयोग

परिणया, मीसा परिणया, वीससा परिणया' के अर्थमें चार द्रव्य शु प्रयोग परिणत होत १ । मिश्र परिणत ४ विस्त्रसा परिणत होत १ ।

उत्तर- 'गोयमा' 'पञ्चो गपरिणया वा मीसा परिणया वा वीससा परिणया' हे गौतम चार द्रव्य प्रयोग परिणत मिश्र परिणत अने विस्त्रसा परिणत होत १ 'अहवा एगे पञ्चो गपरिणए तिभि मीसा परिणया, अहवा एगे पञ्चो गपरिणए तिभि वीससा परिणया, अहवा दो पञ्चो गपरिणया दो मीसा परिणया, अहवा दो पञ्चो गपरिणया दो वीससापरिणया' अथवा तेषां ज्येष्ठे द्रव्य प्रयोग परिणत अथ द्रव्य मिश्र परिणत होत १ अथवा ज्येष्ठे द्रव्य प्रयोग परिणत होत १ अने त्रय द्रव्य विस्त्रसा परिणत होत २ अथवा ज्येष्ठे द्रव्य प्रयोग परिणत होत १

अथवा त्रीणि प्रयोगपरिणतानि भवन्ति एकं मिश्रपरिणतं भवति५, 'अहवा तिन्नि पओगपरिणया एगे वीससापरिणए६' अथवा त्रीणि प्रयोगपरिणतानि भवन्ति, एकं विस्रसापरिणतं भवति६, 'अहवा एगे मीसापरिणए तिन्नि वीससापरिणया ७' अथवा एकं द्रव्यं मिश्रपरिणतं भवति, त्रीणि च विस्रसापरिणतानि भवन्ति७, 'अहवा दो मीसापरिणया दो वीससापरिणया ८' अथवा द्वे द्रव्ये मिश्रपरिणते भवतः, द्वे विस्रसापरिणते भवतः ८, 'अहवा तिन्नि मीसापरिणया एगे वीससापरिणए९' अथवा त्रीणि द्रव्याणि मिश्रपरिणतानि भवन्ति, एकं विस्रसापरिणतं भवति९, 'अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसापरिणए दो वीससापरिणया १०' अथवा एकं द्रव्यं प्रयोग-

परिणत होते हैं, दो द्रव्य मिश्र परिणत होते हैं३, अथवा- दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं, दो द्रव्य विस्रसा परिणत होते हैं४ । 'अहवा तिन्नि पओगपरिणया, एगे मीसा परिणए' अथवा-तीन द्रव्य प्रयोग परिणत होते हैं, एक द्रव्य मिश्र परिणत होता है५, 'अहवा तिन्नि पओग परिणया, एगे वीससा परिणए' अथवा-तीन द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं, एक द्रव्य विस्रसा परिणत होता है६, 'अहवा एगे मीसा परिणए तिन्नि वीससा परिणए' अथवा-एक द्रव्य मिश्र परिणत होता है, तीन द्रव्य विस्रसा परिणत होते हैं७, 'अहवा- दो मीसा परिणए, दो वीससा परिणया' दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं, दो द्रव्य विस्रसा परिणत होते हैं८ । 'अहवा तिन्नि मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए' अथवा चार द्रव्योंमेंसे तीन द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं और एक द्रव्य विस्रसापरिणत होता है । 'अहवा एगे पओगपरिणए, एगे मीसा

अने के द्रव्य मिश्र परिणत होय छे ३ अथवा के द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे अने के विस्रसा परिणत होय छे ४ 'अहवा तिन्नि पओगपरिणया एगे मीसापरिणए' अथवा त्रयु द्रव्य प्रयोग परिणत होय छे अने द्रव्य मिश्र परिणत होय छे ५ 'अहवा तिन्नि पओगपरिणया एगे वीससा परिणए' अथवा त्रयु द्रव्यो प्रयोग परिणत होय छे अने द्रव्य विस्रसा परिणत होय छे. ६ 'अहवा एगे मीसापरिणए तिन्नि वीससा परिणए' अने द्रव्य मिश्र परिणत होय छे अने त्रयु द्रव्य विस्रसा परिणत होय छे ७ 'अहवा दो मीसा परिणए दो वीससा परिणया' के द्रव्य मिश्र प्रयोग परिणत होय छे अने के विस्रसा परिणत होय छे 'अहवा तिन्निमीसा परिणया एगे वीससा परिणए' अथवा त्रयु द्रव्यो मिश्र

परिणत भवति, एक मिश्रपरिणतम्, द्वे च विस्त्रसापरिणते भवतः १०, 'अहवा एगे पओगपरिणए दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए ११ अथवा एक पयोगपरिणत भवति द्वे मिश्रपरिणते भवतः, एक विस्त्रसापरिणत भवति ११, 'अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए १२' अथवा द्वे प्रयोगपरिणत भवतः, एक मिश्रपरिणतम्, एकं विस्त्रसापरिणत भवति, गौतमः पृच्छति- 'अइ पओगपरिणया किं मणप्पओगपरिणया, यइप्पओग परिणया, कायप्पओगपरिणया ?' हे भदन्त ! यानि द्रव्याणि प्रयोगपरिणतानि तानि किं मनःप्रयोगपरिणतानि, इवःप्रयोगपरिणतानि, कायप्रयोगपरिणतानि

परिणए, दो वीससापरिणए<sup>१०</sup> अथवा इनमेंसे एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है और दो द्रव्य विस्त्रसा परिणत होते हैं । 'अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसापरिणए, एगे वीससा परिणए १' अथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं, एक द्रव्य विस्त्रसापरिणत होता है । 'अहवा दो पओगपरिणया एगे मीसा परिणए, एगे वीससा परिणए' दो द्रव्य प्रयोग परिणत होते हैं, एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है, एक द्रव्य विस्त्रसा परिणत होता है । अथ गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं- 'अइ पओगपरिणया किं मणप्पओग परिणया, यइप्पओग परिणया, कायप्पओग परिणया' हे भदन्त ! जो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं वे क्या मनःप्रयोग परिणत होते हैं ? या अथन प्रयोगपरिणत होते हैं ? या कायप्रयोग

परिणत अने जेह द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे १ 'अहवा एगे, पओगपरिणए एगे मीसा परिणए दो वीससा परिणए' अथवा जेह द्रव्य प्रयोगपरिणत, जेह द्रव्य मिश्रपरिणत अने जेह द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे २ 'अहवा एगे पओगपरिणए, दो मीसा परिणए, एगे वीससा परिणए' अथवा जेह द्रव्य प्रयोग परिणत, जेह द्रव्य मिश्र परिणत अने जेह द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे २ 'अहवा एगे पओगपरिणए दो मीसापरिणए एगे वीससा परिणए' अथवा जेह द्रव्य प्रयोग परिणत, जेह द्रव्य मिश्र परिणत अने जेह द्रव्य विस्त्रसा परिणत होय छे ३ 'अहवा दो पओगपरिणया, एगे मीसा परिणए, एगे वीससापरिणए' जेह द्रव्य प्रयोगपरिणत, जेह द्रव्य मिश्रपरिणत अने जेह द्रव्य विस्त्रसापरिणत होय छे ४ गौतम स्वामी पूछे छे- 'अइ पओगपरिणया किं मणप्पओग परिणया यइप्पओगपरिणया, कायप्पओगपरिणया' हे भदन्त ! जेह द्रव्य प्रयोगपरिणत होय छे ते शून्य मनःप्रयोग परिणत होय छे ? हे अथन प्रयोग परिणत छे कायप्रयोग

भवन्ति? भगवानाह— 'गोयमा! मणप्पओगपरिणया वा वडप्पओगपरिणया वा कायप्पओगपरिणया वा' हे गौतम! प्रयोगपरिणतानि द्रव्याणि मनःप्रयोगपरिणतानि वा, वचःप्रयोगपरिणतानि वा, कायप्रयोगपरिणतानि वा भवन्ति इत्यादि सर्वद्रव्यचतुष्कप्रकरणोपलक्षित द्रष्टव्यम्, तच्च पूर्वोक्तानुसारेण आयतसंस्थानपर्यन्तं यथोचितमवसेयम्, अत्र च पुद्गलद्रव्यचतुष्कपरिणामे प्रयोगमिश्रविस्त्रमापरिणतेषु त्रिषु एकत्वे त्रयः, द्विकयोगे तु नव, तथाहि—आद्यस्य एकत्वे द्वयोश्च क्रमेण त्रित्वे द्वौ, एवम् आद्यस्य द्वित्वे द्वयोरपि क्रमेणैव द्वित्वे द्वौ, तथाऽऽद्यस्य त्रित्वे द्वयोश्च क्रमेणैकत्वे द्वौ, एवम् द्वितीयस्यैकत्वे अन्यस्य त्रित्वे एकः, तथा द्वयोरपि द्वित्वे एकः, तथा द्वितीयस्य त्रित्वे अन्यस्य

परिणत होते हैं? उत्तरमें प्रभु कहते हैं— हे गौतम! 'मणप्पओगपरिणया वा, वडप्पओगपरिणया वा, कायप्पओगपरिणया वा जो द्रव्यप्रयोगपरिणत होते हैं वे मनप्रयोगपरिणत भी होते हैं, वचन प्रयोगपरिणत भी होते हैं और कायप्रयोगपरिणत भी होते हैं। इत्यादि समस्त कथन द्रव्यचतुष्क के प्रकरणमें कहे गये अनुसार आयतसंस्थानपर्यन्त यथोचित जानना चाहिये। इस पुद्गल द्रव्यचतुष्कके परिणाममें प्रयोग, मिश्र, विस्त्रसापरिणत तीनमें एकत्वमें तीन विकल्प होते हैं। द्विक के योगमें ९ विकल्प होते हैं, जो पूर्वमें इस प्रकार से प्रकट किये गये हैं—आदि के एकत्वमें और दो के क्रम से त्रित्व में दो विकल्प, इसी तरह आदि के द्वित्व में और दोके भी क्रम से द्वित्व में दो विकल्प तथा आदि के त्रित्व में और दो के क्रमशः एकत्व में दो विकल्प, इसी तरह से द्वितीय के एकत्वमें और दूसरे

परिणत होय छे? उत्तर— हे गौतम 'गोयमा' 'मणप्पओग परिणया वा वडप्पओग परिणया वा, कायप्पओगपरिणया वा' ने द्रव्य प्रयोगपरिणत होय छे ते मनःप्रयोग परिणत, वचःप्रयोग परिणत अने कायप्रयोग परिणत होय छे इत्यादि समस्त कथन आर द्रव्यना प्रकरणमा कब्लानुसार आयत संस्थान पर्यंत उचित रीते समस्त तेषु आ पुद्गल द्रव्य चतुष्कना परिणाममा प्रयोग, मिश्र, अने विस्त्रसा परिणत त्रयणा ऐकत्वमा त्रयु विकल्प थाय छे. द्विकना योगमा नव विकल्प थाय छे ने पडेल। आ प्रमाणे दर्शावेल छे— आदिना ऐकत्वमा अने जेना कंसमा त्रित्वमा जे विकल्प जे जे रीते आदिना द्वित्वना अने जेना पणु कंसथी द्वित्वमा जे विकल्प तथा अदिना त्रित्वमा अने जेना कंसथी ऐकत्वमा जे विकल्प जे जे रीते द्वितीयना ऐकत्वमा अने



एकत्वे एकः, इत्येव नव, त्रिकयोगे तु नव एव भवन्ति, इत्येव सर्वे पञ्चदश भवन्ति अथ पञ्चादिद्रव्यपुद्गन्परिणामप्रकरणानि भविदिशब्दाः- 'एव एषण क्रमेण पञ्च छ सप्त जाष दस सखेज्जा, असखेज्जा भगता य दग्धा भाणियग्धा' एवम् उपर्युक्तरीत्या एतेन द्रव्यषतुष्टान्तपरिणामविषयकेषु अभिलाषक्रमेणैव पञ्च, षट्, सप्त, यावत्- अष्ट, नव, दश, सस्ययानि, असस्ययानि, अनन्तानि च द्रव्याणि भणितव्यानि, दुया सजोषण, तिया मभाषण, जाष दस सजोषण, पारस सजोषण उच्यते त्रिकण जत्य ञधिया सयागा उट्टेति ते सन्वे भाणियग्धा' त्रिकसयोगेन, त्रिकसयोगेन, यावत् - चतुष्कसयोगेन, पञ्चकसयोगेन,

क त्रित्व में एक विकल्प, तथा दोनों के भी द्वित्व में एक विकल्प, तथा द्वितीय के त्रित्वमें और अन्यके एकत्व में एक विकल्प इस तरह से कुछ विकल्प  $३+२+३=१५$  होते हैं। अथ सूत्रकार ऐसा प्रकट करते हैं कि- 'एष एषण क्रमेण पञ्च, छ सप्त, जाष दस सखेज्जा, असखेज्जा अणता य दग्धा भाणियग्धा' जैसा यह द्रव्य षतुष्टान्त परिणाम विषयक अभिलाष प्रकट किया गया है इसीके अनुसार पांच, छ, सात, यावत्आठ, नौ दश, संख्यात, असख्यात और अनन्त द्रव्योंको भी त्रिकसयागसे, त्रिकसयोगसे, यावत्-चतुष्कसयोगसे पांचके संयोगसे, छके संयोगसे, सातके संयोगसे, आठके संयोगसे, नौके संयोगसे, दशके संयोगसे, द्वादशके संयोगसे, षपयोगपूर्वक विचार करके कहना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकारसे चार द्रव्योंके प्रकरणमें ऐसा प्रकट किया गया है कि प चारों द्रव्य प्रयोगपरिणत

लीजाना त्रित्वा लोके विकल्प जने अनन्ता, द्वित्वा लोके विकल्प तथा द्वितीयके त्रित्वा लोके अनन्ता लोके त्रित्वा लोके विकल्प जे रीते आ नव विकल्प जाय छ त्रिकस योगे नव द्रव्येण त्रिकस योगे विकल्प होय छ जे रीते कुछ विकल्प  $३+६+२=१५$  जाय छे छे सूत्रकार पांच, छ विधेरना विषयभां नीधे प्रभावे कहे छे- 'एषण क्रमेण पञ्च, छ, सप्त जाष, दस, सखेज्जा, असखेज्जा अणता य दग्धा भाणियग्धा' जेवी रीते आ इय षतुष्टान्त परिणाम विषयके अभिलाष प्रकट करेय छे जे रीते पांच छ सात-यावत्-आठ, नव, दश, संख्यात असख्यात जने अनन्त द्रव्येने पञ्च त्रिक संयोग - यावत् - चतुष्क संयोगकी पावन संयोगकी, छना संयोगकी, सातना संयोगकी नवना संयोगकी दशना संयोगकी, बारना संयोगकी षपयोगपूर्वक विचार करिने सभय हेतु अर्थात् जे प्रकारे चार द्रव्येना प्रकरणभां जेठ प्रकट करेयभां आन्तु छे छे जे चार द्रव्ये प्रयोगपरिणत होय छे, त्रिक परिणत पञ्च होय छे विषयता

षट्कसंयोगेन, सप्तकसंयोगेन, अष्टकसंयोगेन, नवकसंयोगेन, दशकसंयोगेन, द्वादशकसंयोगेन उपयुज्य उपयुक्तेन उपयोगपूर्वकं विचार्येत्यर्थः यत्र यावन्तः संयोगा उत्तिष्ठन्ते यथोचितं सम्भवन्ति ते सर्वे संयोगाः द्विकादिकाः भणितव्याः, प्रयोगादिपरिणतपञ्चादिद्रव्यविषयकाभिलापश्चैवम्— 'पंचभंते ! द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया? गोयमा! पओगपरिणया वा, मीसापरिणया, वीससापरिणया वा, अहवा एगे पओग परिणए, चत्तारि मीसापरिणया' इत्यादि । अत्र च एकत्वसंयोगे त्रयः द्विक

भी होते हैं, मिश्रपरिणत भी होते हैं, विस्त्रसा परिणत भी होते हैं इत्यादि । इमी तरहसे पांच छह आदिसे लेकर अनन्तसंख्या पर्यन्तके द्रव्य भी प्रयोगमिश्र और विस्त्रसा परिणत होते हैं । जैसे स्वतंत्र एकमें और दोके और तीनके संयोगमें वहां पर विकल्प होना प्रकट किये गये हैं उसी तरहसे इन सबमें भी स्वतंत्र एकमें और दो एवं तीन आदिके संयोगमें विकल्प होते हैं ऐसा जानना चाहिये । इसी बातको टीकाकार प्रकट करते हैं कि प्रयोग आदि परिणत पञ्चद्रव्यादि विषयक अभिलाप इस प्रकारसे कहना चाहिये 'पंचभंते ! द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसा परिणया' हे भदन्त ! पांच द्रव्य क्या प्रयोग परिणत होते हैं ? मिश्रपरिणत होते हैं ? 'वीससा परिणया, वा' विस्त्रसापरिणत होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा वीससापरिणया वा' पांच द्रव्य प्रयोगपरिणत भी होते हैं मिश्रपरिणत भी होते हैं, विस्त्रसापरिणत भी होते हैं । 'अहवा एगे पओगपरिणए, चत्तारि

परिणत पञ्च डोय छे धत्यादि ते ज रीते पाय, छ आदिथी लधने अनत संख्या पर्यंतना द्रव्य पञ्च प्रयोग, मिश्र अने विस्त्रसा परिणत डोय छे, जेभके- स्वतंत्र ऐकमा अने जेमा अने त्रयना संयोगमा त्यां विकल्प थना प्रगट करवाभा आवेक्ष छे जे रीते आ अघाभा पञ्च स्वतंत्र ऐकमा अने जे अने त्रय आदिना संयोगमा विकल्प थाय छे तेम समजवु जे वातने टीकाकार प्रगट करे छे जे प्रयोग आदि परिणत पञ्च द्रव्यादि विषय संगधी अभिलाप आ रीते समजवे । 'पंच भंते द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसा परिणया' जे भगवन पांच द्रव्यो शु प्रयोगपरिणत डोय छे जे मिश्र परिणत डोय छे? 'वीससा परिणया' जे विस्त्रसा परिणत डोय छे । उत्तरमा प्रभु कहे छे जे- 'गोयमा' जे गौतम पओगपरिणया वा मीसा परिणया वा, वीससापरिणया वा' पांच द्रव्य, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत जे विस्त्रसा

एकत्वे एकः, इत्येवं नव, त्रिकयोगे तु भय एव भवन्ति, इत्येष सर्वे पञ्चदश भवन्ति अथ पञ्चादिद्रव्यपुद्गलपरिणामप्रकरणानि अतिदिशन्नाह- 'एव एण कमेण एव छ सप्त जाव दस सखेज्जा, अस खेज्जा भणता य दग्धा माणियग्धा' एवम् उपर्युत्तरीत्या एतेन द्रव्यचतुष्कान्तपरिणामविषयकेषु अभिलाषक्रमेणैव पञ्च, षट्, सप्त, यावत्- अष्ट, नव, दश, सख्येयानि, अथ रुयेयानि, अनन्तानि च द्रव्याणि मणितभ्यानि, दुया सजोएण, तिया मजोएण, जाव दस सजोएण, पारस सजोएण उवहुं मिळण जल्प भविया सयोगा उट्टेति ते सन्वे माणियग्धा' द्विकसयोगेन, त्रिकसयोगेन, यावत् - चतुष्कसयोगेन, पञ्चकसयोगेन,

एक त्रित्व में एक विकल्प, तथा दोनों के भी द्वित्व में एक विकल्प, तथा द्वितीय के त्रित्वमें और अन्यके एकत्व में एक विकल्प इस तरह से कुल विकल्प  $2+2+3=7$  होते हैं। अथ सूत्रकार ऐसा प्रकट करते हैं कि- 'एव एण कमेण पञ्च, छ सप्त, जाव दस सखेज्जा, असखेज्जा भणता य दग्धा माणियग्धा' जैसा यह द्रव्य चतुष्कान्त परिणाम विषयक अभिलाष प्रकट किया गया है इसीके अनुसार पांच, छ, सात, यावत्आठ, नौ दश, संख्यात, असम्प्यात और अनन्त द्रव्योंको भी द्विकसयोगसे, त्रिकसयोगसे, यावत्-चतुष्कसयोगसे पांचके संयोगसे, छके संयोगसे, सातके संयोगसे, आठके संयोगसे, नौके संयोगसे, दशके संयोगसे, द्वादशके संयोगसे, उपयोगपूर्वक विचार करके कहना चाहिये। अर्थात् जिस प्रकारसे चार द्रव्योंके प्रकरणमें ऐसा प्रकट किया गया है कि ये चारों द्रव्य प्रयोगपरिणत

धीधना त्रित्वमा ज्जेक विकल्प भवे अनन्त, द्वित्वमा ज्जेक विकल्प तथा द्वितीयक त्रित्वमा ज्जेक अनन्तमा ज्जेकत्वमा ज्जेक विकल्प जे रीते आ नव विकल्प अथ छ त्रिकस योगे तथा षण्ण अथ ७ विकल्प होव छ जे रीते कुल विकल्प  $2+2+3=7$  रूप छे

अथ सूत्रकार पांच, छ विज्जेरना विषयमा नीधे प्रमाखे छेके छे- 'एव एण कमेण पञ्च, छ, सप्त जाव, दस, सखेज्जा, अस खेज्जा भणता य दग्धा माणियग्धा' नेही रीते आ दस चतुष्कान्त परिक्रम विषयक अभिलाष प्रकट करे छे जे रीते पांच, छ सात-यावत्-आठ नव दस सप्तात अष्टसप्तात अने अनन्त द्रव्योंने पञ्च त्रिक संयोग - यावत् - चतुष्क संयोगकी पांचना संयोगधी, छना संयोगधी, सातना संयोगधी नवना संयोगधी दशना संयोगधी, बारना संयोगधी उपयोगपूर्वक विचार करीने सप्त छ हेतु अर्थात् जे प्रकारे चार द्रव्योंना प्रकरणमा नेटहु प्रकट करयामा आ यु छे के जे चार द्रव्य प्रयोगपरिकृत होव छे, भिन्न परिकृत पञ्च होव छे विचार

षट्कसंयोगेन, सप्तकसंयोगेन, अष्टकसंयोगेन, नवकसंयोगेन, दशकसंयोगेन, द्वादशकसंयोगेन उपयुज्य उपयुक्तेन उपयोगपूर्वकं विचार्येत्यर्थः यत्र यावन्तः संयोगा उत्तिष्ठन्ते यथोचितं सम्भवन्ति ते सर्वे संयोगाः द्विकादिकाः भणितव्याः, प्रयोगादिपरिणतपञ्चादिद्रव्यत्रिपयकाभिलापश्चैवम्— 'पंचभंते ! द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसापरिणया, वीससापरिणया? गोयमा! पओगपरिणया वा, मीसापरिणया, वीससापरिणया वा, अहवा एगे पओगपरिणए, चत्तारि मीसापरिणया' इत्यादि । अत्र च एकत्वसंयोगे त्रयः द्विक

भी होते हैं, मिश्रपरिणत भी होते हैं, विस्त्रसा परिणत भी होते हैं इत्यादि । इसी तरहसे पांच छह आदिसे लेकर अनन्तसंख्या पर्यन्तके द्रव्य भी प्रयोगमिश्र और विस्त्रसा परिणत होते हैं । जैसे स्वतंत्र एकमें और दोके और तीनके संयोगमें वहां पर विकल्प होना प्रकट किये गये हैं उसी तरहसे इन सबमें भी स्वतंत्र एकमें और दो एवं तीन आदिके संयोगमें विकल्प होते हैं ऐसा जानना चाहिये । इसी बातको टीकाकार प्रकट करते हैं कि प्रयोग आदि परिणत पञ्चद्रव्यादि विषयक अभिलाप इस प्रकारसे कहना चाहिये 'पंचभंते ! द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसा परिणया' हे भदन्त ! पांच द्रव्य क्या प्रयोग परिणत होते हैं ? मिश्रपरिणत होते हैं ? 'वीससा परिणया, वा' विस्त्रसापरिणत होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'पओगपरिणया वा, मीसापरिणया वा वीससापरिणया वा' पांच द्रव्य प्रयोगपरिणत भी होते हैं मिश्रपरिणत भी होते हैं, विस्त्रसापरिणत भी होते हैं । 'अहवा एगे पओगपरिणए, चत्तारि

परिणत पञ्च डोय छे षट्यादि ते न रीते पाय, छ आदिथी लधने अनन्त संख्या पर्यन्तना द्रव्य पञ्च प्रयोग, मिश्र अने विस्त्रसा परिणत डोय छे, नेभङ्गे- स्वतंत्र ऐक्यमा अने भेमा अने त्रयुना संयोगमा त्यां विकल्प थना प्रकट करवामा आवेक छे ऐ न रीते आ अध्यामा पञ्च स्वतंत्र ऐक्यमा अने ने अने त्रयु आदिना संयोगमा विकल्प थाय छे तेम समञ्जसु ऐ न वातने टीकाकार प्रकट करे छे डे प्रयोग आदि परिणत पञ्च द्रव्यादि विषय संगधी अभिलाप आ रीते समञ्जसु 'पंच भंते द्रव्या किं पओगपरिणया, मीसा परिणया' हे भगवन् पाय द्रव्यो शु प्रयोगपरिणत डोय छे डे मिश्र परिणत डोय छे? 'वीससा परिणया' हे विस्त्रसा परिणत डोय छे. उत्तरमा प्रभु कहे छे डे- 'गोयमा' हे गौतम पओगपरिणया वा मीसा परिणया वा, वीससापरिणया वा' पाय द्रव्य, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत छे विस्त्रसा

योगे द्वादश विकल्प्या भवन्ति स्यादि-एक चत्वारि च १, द्वे त्रीणि च २, त्रीणि द्वे च, ३ चत्वारि एकञ्च ४, इत्येन चत्वारो विकल्प्याः । द्रव्यपञ्चकमाभित्य एकत्र द्विकसयोगे पदत्रयस्य प्रयो द्विकस योगाभ्रतुर्मिर्तुणिता द्वादश भवन्ति, त्रिक योगे तु पद त्रयादि-त्रीणि एकम् एकञ्च १, एक त्रीणि एकञ्च २, एकम् एक त्रीणि च ३, द्वे द्वे एकञ्च ४, द्वे एक द्वे च ५, एक द्वे द्वे च ६, इत्येव पद, सर्वसमेष्वनेन  $३+१२+६=२१$  एकविंशतिर्विकल्प्या भवन्ति, प्रयोगपरिणताविध्रयाणां पञ्चद्रव्याणाम् । एन द्रव्यपञ्चकापेक्षया सत्यमनः प्रयोगादिषु चतुर्षुपदेषु द्विक त्रिक चतुष्क-सयागा-भवन्ति, एते च द्विकस योगाः

मीसापरिणया' अथवा एकद्रव्यमयोगपरिणत होना है, चार द्रव्य मिश्र परिणत होते हैं, इत्यादि यहाँ पर एकत्वके साथ सयोग होने पर तीन विकल्प, द्विकके साथ योग होने पर १२ विकल्प होते हैं । वे इस प्रकारसे हैं एकचार, दो तीन, तीन दो, ओर चार एक इस तरह य चार विकल्प हैं । ये चार विकल्प हैं । द्रव्यपञ्चकको भाभित करके एक द्विक सयोगमें पदत्रयके तीन द्विकसयोग चारसे गणित होने पर १२ हो जाते हैं । त्रिकयोगमें ६, जैसे तीन एकएक १, एक, तीन, एक २, एक एक तीन ३, दो, दो एक ४, दो एक दो ५, एक, दो, दो ६ इस तरहसे ६ होते हैं ।  $३+१२+६=२१$  आता है सो इतने विकल्प प्रयोगपरिणत पाँच द्रव्योंके, मिश्रपरिणत पाँच द्रव्योंके और विच्छसापरिणत पाँच द्रव्योंके होते हैं । इसी तरह द्रव्यपञ्चककी अपेक्षा सत्यमनः प्रयोगआदि चार पदोंमें द्विक, त्रिक और चतुष्कसयोग

परिणत होय ७ 'अथवा एते प्रयोगपरिणत, चत्वारि मीसा परिणया' अथवा जेह द्रव्य प्रयोग परिणत जने चार द्रव्य मिश्र परिणत होय ७ अथवा, जेह विकल्पना स योगमा तस्य विकल्प जने द्विकस सयोगमा चार १२ विकल्प भाव ७ ते भा प्रमाणे छे- जेह चार, दो त्रयो, जने चारकोक भा प्रमाणे चार विकल्प छे द्रव्य पञ्चको भाभय करीने जेह द्विक सयोगमा पदत्रयता तस्य द्विक सयोगने चारथी तुल्यवाची चार भाव छे त्रिक सयोगमा छे, दोको तस्य जेह जेह १ जेह तस्य जेह २ जेह जेह जने तस्य ३ छे दो जेह ४ छे जेह ५ जेह ६ छे दो रीते छे दोह (विकल्प) भाव छे तभाभने जेहवाची  $३+१२+६=२१$  आठवा विकल्प प्रयोग परिणत पाय द्रव्योना, मिश्र परिणत पाय द्रव्योना जने विच्छसा परिणत पाय द्रव्योना होय छे जे न रीते द्रव्य पञ्चकी अपेक्षाया सत्यमनः प्रयोग आदि चार पदोंमा द्विक त्रिक जने चतुष्कको सयोग भाव छे तेषां द्विक सयोग २४ भाव छे दो भा रीते छे-

२४ चतुर्विंशतिः, तथाहि - चतुर्णामपि सत्यमनःप्रयोगादीनां पदानां पद् द्विकसंयोगा, तत्र चैकैकस्मिन् पूर्वोक्तानुसारेण चत्वारो विकल्पाः, पण्णां च चतुर्भिर्गुणने चतुर्विंशतिरिति, द्विकसंयोगा अपि चतुर्विंशतिः, तथाहि-चतुर्णां पदानां चत्वारस्त्रिकसंयोगाः, एकैकस्मिन् पूर्वोक्तानुसारेण पद् त्रिकल्पाः, चतुर्णां च पद्भिर्गुणने चतुर्विंशतिरिति । चतुष्कसंयोगे तु चत्वार एव विकल्पाः, तथाहि-प्रथमे स्थाने द्वे त्रिषु चैकैकम् १, तथा द्वितीय स्थाने द्वे शेषेषु चैकैकम् २, एवं तृतीये स्थाने द्वे शेषेषु चैकैकम् ३, तथा चतुर्थे स्थाने द्वे, शेषेषु चैकैकम् ४, इत्येवं चत्वारो विकल्पाः भवन्ति । एकेन्द्रियादिषु पञ्चसु पदेषु द्विक-त्रिक-चतुष्क-पञ्चक-संयोगा भवन्ति तत्र च

होते हैं । इनमें द्विकसंयोग २४ होते हैं जो इस प्रकारसे हैं इन सत्यमनःप्रयोग आदि चार पदोंके द्विक संयोग ६ होते हैं सो इन एक २ द्विक संयोगमें पूर्वोक्तानुसार चार ४ विकल्प होते हैं । इस तरह छहको चारसे गुणा करने पर २४द्विकसंयोग हो जाते हैं । त्रिकसंयोग भी २४ होते हैं । जो इस प्रकारसे समझना चाहिये सत्यमनःप्रयोगादि चारपदोंके त्रिकसंयोग चार होते हैं सो एक एक चारमें पूर्वोक्तानुसार ६ विकल्प होते हैं । इस तरह चारको छ के साथ गुणा करने पर २४ त्रिक संयोग आ जाते हैं । चतुष्कसंयोग में चार ही विकल्प होते हैं-वे इस प्रकार से प्रथम स्थान दो, तीन में एक एक द्वितीय स्थान में दो बाकी में एक एक तृतीयस्थान में दो, बाकी में एक एक तथा चौथे स्थान में दो बाकीमें एक एक- इस तरह ४ विकल्प होते हैं । एकेन्द्रियादिक पांच पदोंमें द्विक, त्रिक, चतुष्क, पंचकसंयोग होते हैं । इनमें द्विक संयोग ४२ होते

आ सत्यमन प्रयोग आदि चार पदोंना द्विक संयोगना छ विकल्प थाय छे. आ ओक द्विक संयोगमा पड़ैलाना कथन प्रमाणे चार विकल्प थाय छे ते रीते ६ ने चारगुणा करवाथी २४ द्विक संयोग थाय छे अने त्रिक संयोग पण २४ थाय छे ने आ प्रमाणे समझवाना छे सत्यमनः प्रयोग आदि चार पदोंना त्रिक संयोग चार थाय छे अने ओक ओक चारमा पूर्वोक्तानुसार ६ विकल्प थाय छे ओ रीते चारने छ साथे गुणनाथी २४ थाय छे चतुष्क संयोगमा चार विकल्प थाय छे ने आ रीते प्रथम स्थानमा छे त्रिषुमां ओक ओक, द्वितीय स्थानमा छे अने पाकीमां ओक ओक अने त्रीण स्थानमा छे अने पाकीमां ओक ओक, चोथा स्थानमा छे पाकीमां ओक ओक. ओ रीते चार विकल्प होय छे. ओकेन्द्रियादि पांच पदोंमा द्विक, त्रिक, चतुष्क, पञ्चक संयोग थाय छे तेमा द्विक

द्विकस योगाभस्वारिशत्, तथाहि पञ्चानां पदानां दश द्विकस योगास्त्र  
 चैकैकस्मिन् द्विकस योगे पूर्वोक्तानुसारेण चत्वारो विकल्पाः, दशानां च  
 चतुर्मिर्गुणने चत्वारिशत्, त्रिकस योगे तु पष्टिः, तथाहि-पञ्चानां पदानां दश  
 द्विकस योगाः, तत्रैकैकस्मिन् द्विकस योगे पूर्वोक्तानुसारेण पञ्च विकल्पाः, दशानां  
 च पञ्चमिर्गुणने पष्टिः, चतुष्कस योगे च त्रिंशतिः, तथाहि-पञ्चानां पदानां  
 चतुष्कस योगे पञ्च विकल्पाः, एकैकस्मिन् पूर्वोक्तानुसारेण चत्वारो विकल्पाः,  
 पञ्चानां च चतुर्मिर्गुणने त्रिंशतिः, पञ्चकस योगे तु एक एव विकल्पो बोध्यः ।  
 तथा षट्कादिस योगा अपि वक्तव्याः, विशेषस्तु षट्कस योगः आरम्भ

हैं - जा इस प्रकार से होते हैं - पांच पदों के द्विक संयोग  
 १०, इनमें एक एक द्विक संयोगमें पूर्वोक्तानुसार चार २ विकल्प होते  
 हैं । इस तरह दशमें ४ चार का गुणा करने पर द्विक संयोग ४०  
 आ जाते हैं । त्रिकसंयोग ६० होते हैं वे इस प्रकार से हैं-पांच  
 पदोंके द्विकसंयोग १० कह गये हैं सो इन मध्येक द्विकसंयोगमें पूर्वो-  
 क्तानुसार ६-६ विकल्प होते हैं । इस तरह १० में ६ गुणा करने  
 पर ६० त्रिक संयोग आ जाते हैं । चार संयोग में २० विकल्प होते  
 हैं-वे इस प्रकार से हैं पांच पदोंके चतुष्कस योगमें ५ विकल्प होते  
 हैं सो एक एक विकल्प में पूर्वोक्तानुसार चार २ विकल्प होते हैं ।  
 इस तरह पांचमें चार का गुणा करने पर २० आ जाते हैं । पांचके  
 संयोगमें एक ही विकल्प होता है इसी तरह षट्कादि संयोग भी  
 वस्तुतः होते हैं इनमें विशेषता केवल ऐसी ही है कि षट्कादि

संयोग ४२ विधाओंके साथ है ७० आ रीति है पांच पदोंका द्विक संयोग १ दश  
 तर्मा प्रत्येक द्विक संयोगमा पूर्वोक्तानुसार चार चार विकल्प साथ है जे रीति दशमा  
 चत्वारण्य इत्यादी द्विक संयोग ४० विधाओंके साथ है त्रिक संयोगमा १० साठ साथ है,  
 ते मा प्रमाद्ये है पांच पदोंका द्विक संयोग १० साठ केसा है ते प्रत्येक द्विक  
 संयोगमा पहला कला प्रमाद्ये छ छ विकल्प साथ है ते रीति १००० १०० शुभवाणी १०  
 त्रिक संयोग साथ है चार संयोगमा वीश विकल्प साथ है, ते मा प्रमाद्ये है पांच  
 पदोंका चतुष्कस संयोगमा पांच विकल्प साथ है जने इरेक विकल्पमा १० पष्टिः कला  
 प्रमाद्ये चार चार विकल्प साथ है जानी रीति पांचना चत्वारण्य इत्यादी २ साथ है  
 पांचना संयोगमा जेक व विकल्प साथ है जे रीति षट्कादि संयोगमा वस्तुतः पञ्च  
 संयोग है ७० जेमा विशेषता केवल जेटी व ७ है षट्कादि संयोगमा षट्कसंयोग

सत्यमनःप्रयोगादिपदान्याश्रित्य, सप्तकस योगश्चौदारिकादिकायप्रयोग माश्रित्य, अष्टकस योगस्तु पिशाचादिव्यन्तरभेदान, नवकस योगस्तु त्रैवेयकभेदान, दशक स योगश्च असुरकुमारादि भवनपति भेदान आश्रित्य वैक्रियशरीरकायप्रयोगा पेक्षया समुन्नेयः, एकादशस योगस्तु न संभवति पूर्वोक्तपदेषु तस्यामम्भवात्, द्वादशस योगश्च कल्पोपपन्नदेवभेदानाश्रित्य वैक्रियशरीरकायप्रयोगापेक्षयैव कल्पनीयः

‘एए पुण जहा नवमसए पवेसणए भणिहामो तहा उवजुंजिउण भाणि यव्वा, जाव असंखेज्जा अणता एवं चेव’ एते पुनः यथा नवमशतकके द्वात्रिंशत्तमोद्देशे प्रवेशनके गाङ्गेयनामकानगारकृतनरकादिगतप्रवेशनविचारे भणिप्या-

संयोगो में षट्कसयोग आरभ सत्यमनः प्रयोगादि पदोंको आश्रित करके जानना चाहिये सप्तकस योग औदारिकादि कायप्रयोग का आश्रित करके जानना चाहिये. अष्टकस योग पिशाच आदि व्यन्तर भेदोंको, नवकसंयोग त्रैवेयक भेदोंको, दशक स योग भवनपतिके असुरकुमार आदि भेदोंको आश्रित करके वैक्रिय शरीरकायप्रयोग की अपेक्षासे जानना चाहिये । एकादश स योग तो होता नहीं है क्यो कि पूर्वोक्त पदों में इसकी असंभवता है । द्वादश संयोग होता है अतः वह कल्पोपपन्न देवोंके भेदोंको आश्रित करके वैक्रियशरीरकाय प्रयोगकी अपेक्षा से ही कल्पनीय है ।

‘एए पुण जहा नवमसए पवेसणए भणिहामो तहा उवजुंजिउण भाणियव्वा जाव असंखेज्जा, अणता एवं चेव’ वे सब संयोग हमारे द्वारा जिस प्रकारसे नवमशतकमें वत्तीसवे उद्देशकमें गाङ्गेय नामक अनगारद्वाराकृत नरकादिगतप्रवेशनके विचारमें कहे जावेंगे सो उसी

आरभ, सत्यमनः प्रयोगादि पदोंको आश्रय करी समझवाने छे सप्तकस योग औदारिक आदि कायप्रयोगको आश्रय करी समझवाने छे अने अष्टकस योग पिशाचादि व्यन्तर भेदोंको, नवक स योग त्रैवेयक भेदोंको, अने दशक स योग भवनपतिना असुरकुमार आदि भेदोंको आश्रय करीने वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगनी अपेक्षा समझ लेवुं अष्टादश स योगतो यतोअ नथी केभके पूर्वोक्त पदोंको तेनी असंभवता छे आरभो स योग थाय छे ते कल्पोपपन्न देवोंको भेदोंको आश्रय करीने वैक्रिय शरीरकाय प्रयोगनी अपेक्षासेअ कल्पवाने छे ‘एए पुण जहा नवमसए, पवेसणए भणिहामो तहां उवजुंजिउण भाणि यव्वा जाव असंखेज्जा अणता एवं चेव’ अने अधाअ संयोगो अने अरीति नवम शतकना तीअ उद्देशाभां गाङ्गेय नामक अनगारे करेल नरकादिगत प्रवेशना



मस्तया उपयुज्य उपयुक्तेन उपयोगपूर्वकं, भणितभ्याः, तदनुसारेण द्वन्  
 वक्तव्यतापिमाह-यावत्-स रूपयानि अस रूपेयानि, अस्तख्यातान्तनारकादि  
 वक्तव्यतापर्यन्ताश्रय तत्सूत्रमित्यर्थः, अप्रत्यक्षेषुमाह-अनन्तानि एवमेव  
 षोडश्यानि, 'नवरं एकं पदं अन्महियं जाय अर्वा अर्णता परिमंडलसठाण  
 परिणया जाय अणता आययसठाणपरिणया' नवरम् विशेषः पुनरेकं पदम्  
 अभ्यधिकं वक्तव्यमत्र, तच्च पदम् 'अनन्तानि' इति षोडश्याम् तदेव सूत्रमाह  
 यावत् - स रूपेयानि अस रूपेयानि अथवा अनन्तानि द्रव्याणि परिमण्डल

प्रकारसे उपयोगपूर्वक विचार करके इन्हें यहाँ कहना चाहिये। उसके  
 अनुसार द्रव्यवक्तव्यताकी अधिकको प्रकट करनेके अभिप्रायसे सूत्रकार  
 कहते हैं 'जाव असखेजा अणता एव चेव' यहाँ यावत् पदसे सख्यात  
 द्रव्योंका ग्रहण हुआ है तात्पर्य कहनेका यह है कि सख्यात अस  
 ख्यात एव अनन्त द्रव्योंका परिणाम इसी तरहसे जानना चाहिये।  
 नवम शातकमें षोडश उद्देशकमें प्रवेशनकमें जो द्रव्योंके परिणामके  
 विषयमें सूत्र कहा गया है यह वहाँ सख्यात, असख्यात नारकआदि  
 द्रव्यकी वक्तव्यता पर्यन्त ही कहा गया है यहाँ पर अनन्त द्रव्योंकी  
 वक्तव्यताके विषयमें कथन नहीं किया गया है अतः 'नवरं एकं पदं  
 अन्महियं' इस सूत्रानुसार इस वक्तव्यतामें 'अनन्तद्रव्य' इस पदको  
 भी ग्रहण करलेना चाहिये। तथाच। 'जाव अर्णतापरिमंडलसठाण  
 परिणया जाय अणता आययसठाणपरिणया' यावत् सख्यात, अस  
 ख्यात अथवा अनन्त द्रव्यपरिमंडल सस्थानपरिणत होते हैं यावत्

विचारमा षोडश्यां तां अने रीते उपयोग पूर्वक विचार करीने समझ लेवा. ते अनुसारे  
 द्वन् वक्तव्यताणी अत्रिने प्रकट करवाना अभिप्रायभी सूत्रकार अहे ७ ३ 'जाव  
 असखेजा अर्णता एव चेव' अदीया वावत् पदवी सख्यात द्रव्योनु अक्षय अवेत अ  
 अहेवानु तदप्य अहे ३ सख्यात असख्यात अने अनन्त द्रव्योनु परिक्राम अने  
 रीते समझ सेतुं नवमा शातकां त्रीत्य उक्तिम् अख्यातमां ने द्रव्योना परिक्राम  
 विषयमा सूत्र अहेस ७ ते तथा सख्यात असख्यात नारकआदि द्रव्योनी वक्तव्यता  
 पूर्वतन् अहेत अ. तथा अणता अनन्त द्रव्योनी अख्यातव्यताया विषयमा अवन करवा  
 आनु नथी अत 'नवरं एकं पदं अन्महियं' अ सूत्र प्रमत्ते आ उक्तिमां  
 अनन्त द्रव्य अहे पडने पद्य अक्षय करी सेतुं अहे तेथीन रीते 'जाव अर्णता  
 परिमंडलसठाणपरिणया जाय अर्णता आयय सठाणपरिणया' वावत्-सख्यात

प्रमेयचन्द्रिका टीका श. ८ उ. १ मृ. २४ सूक्ष्मपृथ्वीकायस्वरूपनिरूपणम् २५७

संस्थानपरिणतानि यावत्-वृत्तसंस्थान - त्र्यस्रसंस्थानचतुरस्रसंस्थान-आयत-  
संस्थानपरिणतानि भवन्ति ॥मृ. २३॥

प्रयोगादिपरिणतपुद्गलद्रव्याल्पवहुत्ववक्तव्यतामाह-

अथ प्रयोगादिपरिणतानां पुद्गलद्रव्याणामल्पवहुत्वमाह-‘एएसि णं भंते’इत्यादि ।

मूलम्-एएसि णं भंते ! पोग्गलाणं, पओगपरिणयाणं, मीसा-  
परिणयाणं, वीससापरिणयाणं य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसा  
हिया वा ? गोयमा ! सवत्थोवा पोग्गला पओगपरिणया,  
मीसापरिणया अणंतगुणा, वीससापरिणया अणंतगुणा, सेवं भंते !  
सेवं भंते ! ति ॥२४॥

अट्टमसयस्स पढमो उद्देशो सम्मत्तो ॥८-१॥

छाया-एतेपां खलु भवन्त ! पुद्गलानां प्रयोगपरिणतानां, मिश्रपरिणतानां,  
विस्त्रसापरिणतानां च, कतरे कतरेभ्यो यावत् - विशेषाधिकावा ? गौतम

वृत्तसंस्थान, त्र्यस्रसंस्थान, समचतुरस्रसंस्थान और आयतसंस्थान  
परिणत भी होते हैं ॥ २३ ॥

प्रयोगादि परिणतपुद्गल द्रव्यकी अल्पवहुत्ववक्तव्यता-

‘एएसि णं भंते ! पोग्गलाणं पओगपरिणयाणं’ इत्यादि०

सूत्रार्थ-(एएसि णं भंते ! पोग्गलाणं पओगपरिणयाणं मीसापरिणयाणं,  
वीससापरिणयाणं य कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसाहिया वा) हे  
भवन्त ! प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विस्त्रसापरिणत पुद्गलोंमें  
कौनसे पुद्गल किनपुद्गलोंकी अपेक्षा यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोयमा)

असंख्यात अथवा अनंत द्रव्य परिमंडल संस्थान परिणत होय छे यावत्-वृत्तसंस्थान,  
त्र्यस्रसंस्थान, चतुरस्रसंस्थान अने आयतसंस्थान परिणत पणु होय छे - ॥ सू. २३ ॥

प्रयोगादि परिणत पुद्गल द्रव्यकी अल्प वहुत्व विषयके व्यक्तव्यता

‘ एएसि णं भंते पोग्गलाणं पओगपरिणयाण इत्यादि ’.

सूत्रार्थ- एएसि णं भंते पोग्गलाणं पओगपरिणयाणं, मीसा परिणयाणं,  
वीससा परिणयाणं य कयरे कयरे हिंतो जाव विसेसाहि या वा ? छे भवन्त,  
प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत विस्त्रसापरिणत पुद्गलोंमें कया पुद्गलो कया पुद्गलोनी  
अपेक्षासे यावत् विशेषाधिक छे ? ‘ गोयमा ’ छे गौतम ! ‘ सवत्थोवा पोग्गला

मधस्तीका पुद्गलाः प्रयोगपरिणता, मिश्रपरिणता अनन्तगुणाः, विस्त्र-  
परिणता अनन्तगुणाः । तदेव मदन्त ! तदेवं मदन्त ! इति ॥ सू० २४ ॥

अष्टम अक्षरस्य प्रथम उद्देशक समाप्तः ॥ ८-१॥

टीका- 'एषि ण मते ! पोग्गलाण, पओगपरिणयाण, मीसापरिणयाण,  
धीससापरिणयाण य कपरे कपरेहिंतो जाव विससाहिया वा ?' गौतमः  
पृच्छति- हे मदन्त ! एतेषां खलु पूर्ववर्णितानां पुद्गलानां प्रयोगपरिणतानां  
मिश्रपरिणतानां विस्त्रसापरिणतानां च मध्ये कस्ये पुद्गला कतरंभ्य

हे गौतम ! (सम्बल्योवा पोग्गला पओगपरिणया, मीसापरिणया अनन्त-  
गुणा धीससापरिणया अनन्तगुणा सेव भंते ! सेव भत ! सि)  
मयसे कम प्रयोगपरिणत पुद्गल हैं । मिश्रपरिणत पुद्गल उनसे  
अनन्तगुणे हैं और विस्त्रसापरिणत पुद्गल मिश्र परिणत पुद्गलोंकी  
अपेक्षा भी अनन्तगुणे हैं । हे मदन्त ! जैसा आपने कहा है वह  
इसी प्रकारसे है हे मदन्त ! जैसा आपने कहा है वह इसी प्रकार  
से है ऐसा कहकर गौतम यावत् अपने स्थानपर घिराजमान हो गय ।

टीकार्थ-सूत्रकारने इमसूत्रद्वारा प्रयोगादि परिणत पुद्गल द्रव्योकि  
अल्प बहुत्वका प्रतिपादन किया है इममें गौतमने प्रस्तुत ऐसा पूछा है कि  
'एषिण मते ! पोग्गलाण पओगपरिणयाण, मीसापरिणयाण, धीससा  
परिणयाण य कपरे कपरेहिंतो जाव विससाहिया' हे मदन्त ! पूर्वमें  
वर्णित इन पुद्गलोंके बीचमें अर्थात्-प्रयोगपरिणत मिश्रपरिणत और

पओगपरिणया, मीसापरिणया अनन्तगुणा धीससा परिणया, अनन्तगुणा सर्वं भत  
मत्त मत्ति लभावा लोछा पुद्गल प्रथम परिणत छे मिश्रपरिणत पुद्गल तेन भी  
अनन्त गुणा छे अने विस्त्रसापरिणत पुद्गल मिश्रपरिणत पुद्गलनी अपेक्षा  
अनन्तगु छे छे अल्प न प्रभावे आपे इह छे ते ते प्रभावे छे छे अल्प  
नम अपे इह छे ते ते प्रभावे छे केम कहीने औतम स्वामी पितान्तर स्थानपर  
निगममान अर्थ अथा.

टीका- सूत्रकारे आ सूत्रद्वारा प्रयोगादि परिणत पुद्गल द्रव्योकि अल्प बहुत्व  
प्रतिपादन करे छे तेना औतम स्वामी प्रश्नने केम पूछे छे हे ' एषि ण मते  
पोग्गलाण पओगपरिणयाण, मीसापरिणयाण, धीससापरिणयाण य कपरे  
कपरे हिंतो जाव विससाहिया ' हे अनन्तगुणे पदेका वचन करे छे आ पुद्गलोभा  
अर्थात् प्रथम परिणत मिश्रपरिणत अने विस्त्रसा परिणत पुद्गलतमां अथा अथा

पुद्गलेभ्यो यावत्-अल्पा वा, बहुका वा, तुल्या वा, विशेषाधिका वा भवन्ति ? भगवानाह- 'गोयमा ! सव्वत्थोवा पोग्गला पओगपरिणया' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः सर्वेभ्योऽल्पाः पुद्गलाः कायादिरूपतया प्रयोगपरिणता भवन्ति, जीवपुद्गलसम्बन्धकालस्य स्तोक्तत्वात्, किन्तु 'मीमापरिणया अणंतगुणा, वीससापरिणया अणन्तगुणा' कायादिप्रयोगपरिणतपुद्गलापेक्षया मिश्रक-परिणताः पुद्गला अनन्तगुण भवन्ति, प्रयोगपरिणामितमाकारमपरित्यजतां विस्रसया परिणामान्तरमुपागतानां कलेवराद्यवस्थापानामनन्तानन्त-त्वात्, विस्रसापरिणतास्तु मिश्रपरिणतापेक्षयाऽपि अनन्तगुणा भवन्ति,

विस्रसापरिणत पुद्गलोंमें कौन-से पुद्गल किन-से पुद्गलोंसे अल्प हैं ? कौन-से पुद्गल किन-से पुद्गलोंसे बहुत हैं ? कौन-से पुद्गल किन-से पुद्गलोंके बराबर हैं ? और कौन-से पुद्गल किन-से पुद्गलोंसे विशेषाधिक हैं उत्तरमें पशु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'सव्वत्थो वा पोग्गला पओगपरिणया' सबसे कम पुद्गल प्रयोगपरिणत हैं अर्थात् कायादिरूपसे परिणत हुए जो पुद्गल हैं वे सबसे कम हैं क्योंकि जीव और पुद्गलके सम्बन्धका ज काल है वह कम है । किन्तु 'मीसापरिणया अणंतगुणा वीससापरिणया अणन्तगुणा' काया-दिरूपसे परिणत हुए पुद्गलोंकी अपेक्षा मिश्रपरिणत पुद्गल अनन्त-गुणे हैं, क्योंकि प्रयोगद्वारा परिणामित हुए आकारको नहीं छोड़ने वाले तथा स्वभावसे परिणामान्तरको प्राप्त हुए ऐसे मृतकलेवरादिरूप पुद्गल अनन्तानन्त हैं । तथा मिश्रपरिणत पुद्गलोंकी अपेक्षा भी विस्रसापरिणत पुद्गल अनन्तगुणे हैं । क्योंकि जीवके द्वारा ग्रहणके

पुद्गलो क्या क्या पुद्गलेशी अल्प छे ? अने क्या क्या पुद्गल क्या क्या पुद्गलेशी विशेष छे ? क्या क्या पुद्गल क्या क्या पुद्गलेशी समान (सरभा) छे अने क्या पुद्गल क्या क्या पुद्गलेशी विशेषाधिक छे उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! सव्वत्थोवा पोग्गला पओगपरिणया' अर्थात् कायादि रूपसे परिणत हुए जो पुद्गल हैं वे सबसे कम हैं अने पुद्गलना समाने के कारण छे ते ओछे छे किंतु मीसा परिणया अनन्तगुणा वीससा परिणया अनन्तगुणा' कायादि रूपसे परिणत हुए पुद्गलोंकी अपेक्षा, मिश्रपुद्गल अनन्तगुणा छे केमडे प्रयोग द्वारा परिणामित थयेल आकारने नडा छोडवा-वाणा तथा स्वभावशी परिणामान्तरने प्राप्त थयेल एवा मृतकलेवरादि रूपशी अनन्तानन्त छे तथा मिश्रपरिणत रूपकी अपेक्षा विस्रसा परिणत पुद्गल अनन्तगुणा छे केमडे

પરમાણ્વાદીનાં જીનામગ્ધમાયોગ્યાપ્યામપ્યનન્ત્વાદિતિ । અતે ગૌતમો મગધદ્વાક્ય સ્વીકુર્વણાદ- ' સઘ મતે ! સેઘ મતે ! ' હે મદન્ત ! તવેઘ મઘદુક્ત સત્યમેઘ, હે મદન્ત ! મઘદુક્ત સર્વે સત્યમઘ, ઇતિ માઘઃ ॥૬૨૪॥

इति श्री-विश्वविख्यात-मगधलुम-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशमापाकलित-समिध कलापालापक-प्रविशुद्ध-गद्यपद्यनैऋग्रथनिमापक-वादिमानमद्रक-भी साहूच्छप्रपति-काश्मीपुरराज-प्रदध "जैनशास्त्राचार्य" पदभूषित कोरडापुररानगुरु-पालव्रक्षचारि- जैनाचार्य-नैन धर्मदिवाकर-पूज्यभी-पासीसालव्रतिविरचिताया "श्रीमगधतीसूत्रस्य" "प्रमेयचन्द्रिका"ऽऽख्यायां व्याख्यया अष्टमसतकस्य प्रथमोद्देशक समाप्तः ॥८-१॥

પ્રાયોગ્ય હુણ પરમાણુ આલિરૂપ પુલ્ગલ મી અનન્ત હિ । અપ અન્તમે ગૌતમ મગધાનકે કથનકો સ્વીકાર કરતે હુણ કહતે હિ ' સેઘ મંતે ! સેઘ મંતે ! તિ' હે મદન્ત ! જૈસા આપને કહા હે ઘહ મઘ સત્ય હી હી । હે મદન્ત ! જૈસા આપને કહા હે ઘહ સઘ મત્ય હી હી ઇતિ ॥ ૬૨ ૪ ॥

जेनाशाय श्री घासीलालजी महाराजकृत 'मगधतीसुत्र' की प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवें शतकका प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ ८-१ ॥

જીવદ્વારા પ્રહલ્ય કરાયેલ પરમાણુ આલિ રૂપ પુલ્ગલ પલ્લ અનન્ત છે હવે અતમ્ જોતમ સ્વામી અજ્ઞાનના વાક્યનો સ્વીકાર કરતું હઈ છે 'સેઘ મંતે, સઘ મત્ય' છે અજ્ઞાન ને પ્રમાણે આપે હલ્લુ છે તે તમામ સત્ય છે, હે અજ્ઞાન ને પ્રમાણે આપે હલ્લેલ છે તે તમામ સત્યજ છે ઇતિ ॥ સૂ ૨૪ ॥

जेनाशाय श्री घासीलालजी महाराजकृत मगधतीसूत्रनी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याने आठम शतकने उद्देश्यो उद्देशक समाप्त ॥ ८-१ ॥



## अथ द्वितीयोद्देशकः प्रारभ्यते-

अष्टमशतकस्य द्वितीयोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम्

आशीविषाः, जात्याशीविषाः, वृश्चिकाशीविषस्य विषव्यापनसामर्थ्यम्, मण्डूकजात्याशीविषस्य विषव्यापनसामर्थ्यम्, उरगजात्याशीविषस्य विषव्यापनसामर्थ्यम्, मनुष्यजात्याशीविषस्य विषव्यापनसामर्थ्यम्, कर्माशीविषाः, गर्भजपञ्चेन्द्रियतिर्यक्कर्माशीविषः, गर्भजमनुष्यकर्माशीविषः, भवनवासिकर्माशीविषः, अपर्याप्तदेवकर्माशीविषः, वानव्यन्तर-ज्योतिषिक-वैमानिक-कल्पोपपन्नक-यावत्-सहस्रारदेवलोकपर्यन्तकर्माशीविषाः, अपर्याप्तसौधर्मादिदेवः कर्माशीविषः । छद्मरथो दश स्थानानि न जानाति, न पश्यति,

आठवें शतकका दूसरा उद्देशक

अष्टमशतकके इस द्वितीय उद्देशकका संक्षिप्त विषय विवरण इस प्रकारसे है आशीविषोंके एवं जाति आशीविषोंके प्रकारोंका कथन वृश्चिक आशीविषके विषके व्यापनके सामर्थ्यका कथन मण्डूकजातिके आशीविषके विषके व्यापनके सामर्थ्यका प्रतिपादन उरगजातिके आशीविषके विषके व्याप होनेका सामर्थ्यकथन मनुष्यजातिके आशीविषके विषके व्याप होनेका सामर्थ्य निरूपण । गर्भजपञ्चेन्द्रियतिर्यक् कर्माशीविष हैं । गर्भजमनुष्य कर्माशीविष हैं । भवनवासी कर्माशीविष हैं । अपर्याप्तदेव कर्माशीविष हैं । वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, वैमानिक कल्पोपपन्नक यावत् सहस्रार देवलोकपर्यन्त सत्रदेव कर्माशीविष हैं । अपर्याप्तक सौधर्मादिदेव कर्माशीविष हैं । इस तरह इन कर्माशीविषोंका निरूपण किया गया है । छद्मस्थ धर्मास्तिकाय आदि

आठमा शतकना षीजे उद्देशक-

आठमा शतकना आ षीजे उद्देशकनु संक्षिप्त विषय विवरण आ प्रमाणे छे आशीविषोनी जति अने तेना प्रकार(लेख)नु कथन विधी अने सर्पोना विषनु इलावाउ अने तेना सामर्थ्यनु कथन मण्डूक (देउकानी) जतिमा सर्पोना विषना व्यापत थवाना सामर्थ्यनु प्रतिपादन उरग जतिमा सर्पोना अरना व्यापत थवाना सामर्थ्यनु निरूपण गर्भज पञ्चेन्द्रिय, तिर्यक् कर्माशी आशीविष छे गर्भज मनुष्य कर्मा विष छे भवनवासी कर्माशीविष छे अपर्याप्तक देव कर्माशी विष छे वानव्यन्तर, ज्योतिषिक, वैमानिक, कल्पोपपन्नक-यावत् सहस्रार देव लोक पर्यन्त तसाम देव कर्माशी विष छे अपर्याप्तक सौधर्मादि देव कर्माशी विष छे अने रीते आ कर्माशी विषनु निरूपण कवामां आण्यु छे छद्मस्थ, धर्मास्तिकाय आदि दश स्थानाने ज्ञातता नथी छे देवता नथी.

ज्ञानमकारः, आभिनियोषिकज्ञानमकारः, मत्स्यज्ञानम्, अषग्रहः, ध्रुताज्ञानम्,  
विमङ्गज्ञानम्, ज्ञानिन, अज्ञानिनः, नैरयिका, असुरकुमारा, पृथिवीकायिका,  
द्वीन्द्रिया, त्रीन्द्रियाः, चतुरिन्द्रियाः, पञ्चन्द्रियास्तिर्यग्शो मनुष्याश्च ज्ञानिनः ।  
किं वा अज्ञानिनः ? धानव्यन्तरा ज्योतिषिका वैमानिकाश्च किं ज्ञानिनः  
अज्ञानिनो वा ? सिद्धा किं ज्ञानिन, किं वा अज्ञानिन निरयगतिकाः,  
तिर्यग्गतिकाः, मणुष्यगतिका, सिद्धगतिकाः, सैन्द्रियाः, एकै-  
न्द्रियादयः, अनिन्द्रियाः, सकायिकाः, पृथिवीकायिका, असकायिकाः,  
कायरहिता, सूक्ष्मजीवा वादरजीवाः, पर्याप्तजोषा, पर्याप्तनैरयिकारूपः,  
पर्याप्तपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः, पर्याप्तमनुष्या, अपर्याप्तकजीवाः,

दशस्थानोंको नहीं जानता है, नहीं देखता है । सर्वज्ञकेवली ही  
जानते हैं ऐसा प्रतिपादन । ज्ञानके प्रकारोंका कथन आभिनियोषिक  
ज्ञानके भेदोंका निरूपण मत्स्यज्ञानके भेदोंका कथन अषग्रह, ध्रुताज्ञान,  
विमङ्गज्ञान, इन सबके भेदोंका कथन ज्ञानी अज्ञानीका कथन नैरयिक,  
असुरकुमार पृथिवीकायिक द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचे-  
न्द्रियतिर्यक् मनुष्य ये सब ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं ऐसा प्रश्न ।  
इसका उत्तर धानव्यन्तर ज्योतिषिक और वैमानिक ये ज्ञानी हैं कि  
अज्ञानी हैं ऐसा प्रश्न ? इसका उत्तर सिद्ध ज्ञानी हैं कि अज्ञानो हैं ?  
निरयगतिपाळे जीव, मनुष्यगतिपाळे जीव, सिद्धगतिपाळे जीव,  
इन्द्रियसहितजीव एकेन्द्रियाधिक जीव, अनिन्द्रियजीव सकायिकजीव,  
पृथिवीकायिक आदिस्वावरजीव, असकायिकजीव, कायरहितजीव, सूक्ष्म  
जीव, वादरजीव, पर्याप्तजीव, पर्याप्तनैरयिक आदिजीव, पर्याप्त पंचेन्द्रि-  
यतिर्यग्योनिकजीव, पर्याप्तमनुष्य, अपर्याप्तकजीव, अपर्याप्तक नैरयिक

उच्यते इत्येव ते लब्धे ७ तेषु प्रतिपादनं ज्ञानना प्रकारानुं ज्ञानं आभिनियोषिक  
ज्ञानना भेदानुं निरूपणं मत्स्यज्ञानना भेदानुं कथनं अषग्रहं, ध्रुताज्ञानं, विमङ्गज्ञानं  
विमङ्गज्ञानं भेदानुं ज्ञानिनं अज्ञानिनं कथनं नैरयिकं, असुरकुमारं, पृथिवीकायिकं द्वीन्द्रियं,  
त्रीन्द्रियं, चतुरिन्द्रियं ज्ञाने पञ्चेन्द्रियं तिर्यग् मनुष्यं ज्ञे लब्धं ज्ञानी ७ ७ अज्ञानी  
तेना प्रश्नतया तेना उत्तरं धानव्यन्तरं ज्योतिषिकं ज्ञाने वैमानिकं ज्ञे शा ७ ७ अज्ञानी  
तेना प्रश्नं ज्ञाने तेना उत्तरं सिद्धं ज्ञानी ७ ७ अज्ञानी निरयगतिपाळाश्च विषयगतिपाळा  
एव द्वीन्द्रियदि ७ एव, अनिन्द्रिय एव अकायिक एव पृथिवीकायिक आदि स्वावर  
एव, असकायिक एव, कायरहित एव सूक्ष्म एव, वादर एव, पर्याप्त एव, पंचेन्द्रि-

मत्यज्ञानादि साकारोपयोगिनः, अनाकारोपयोगिनो जीवाः, सयोगिनः, सलेश्याः जीवाः, कृष्णादिलेश्याः, सकषायिणो जीवाः अकषायिणो जीवाः सवेदावेद जीवाः, आहारकानाहारका जीवाः. मतिश्रुतावधि मनःपर्यव केवलज्ञानविषयाः, मत्यज्ञान - श्रुताज्ञान - विभङ्गज्ञानविषयाः, ज्ञानिनो ज्ञानितया स्थितिकालः, ? आभिनिबोधिकादि दशस्थितिकालः, मतिश्रुतादिज्ञानपर्यायाः पञ्चज्ञानपर्यायाल्प बहुत्वम् मत्यज्ञानादि त्रयाल्पबहुत्वम्, पञ्चज्ञान-त्रयज्ञानपर्यायाल्पबहुत्वम् ।

अष्टमशतकस्य द्वितीय उद्देशकः

उपयोगवाले जीव मत्यज्ञान साकार उपयोगवाले जीव अनाकार उपयोगवाले जीव, संयोगी जीव, सलेश्य जीव, कृष्णादि लेश्यावाले जीव, सकषायी जीव, अकषायी जीव. वेदसहित जीव, वेदरहित जीव, आहारक, अनाहारक जीव, ये सब जीव ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं ? ऐसे प्रश्न और इनके उत्तर । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान इन सबका तथा मत्यज्ञान श्रुताज्ञान,, विभङ्गज्ञान इन सबका विषय कथन ज्ञानी ज्ञानीरूपसे कितना समय तक स्थित रहता है ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर । आभिनिबोधिका आदि दशकी स्थितिका काल कथन मतिश्रुत आदि ज्ञानकी पर्यायोक्ता कथन, पांचज्ञान पर्यायोक्ता अल्पबहुत्व कथन मत्यज्ञान आदि तीन का अल्प बहुत्व कथन, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान इन की पर्यायोक्ते अल्प-बहुत्वका कथनः ।

विनाना एव, श्रोत्र छन्द्रिया लब्धिवाणा एव अने श्रोत्र छन्द्रियादि लब्धि विनाना एव, साकार उपयोगवाणा एव, आभिनिबोधिक साकार उपयोगवाणा एव, मत्यज्ञान साकार उपयोगवाणा एव, अनाकार उपयोगवाणा एव, संयोगी एव, सलेश्य एव, कृष्णादि लेश्यादि एव, कषायवाणा एव, कषाय विनाना एव, वेद सहित एव अने वेद सहित एव, आहारक, अनाहारक एव अने अथा एवो ज्ञानी छे के नहिं तेवो प्रश्न अने उत्तर मातज्ञान, श्रुताज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान अने केवलज्ञान, अने अधाना तथा मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विभङ्गज्ञान, अने सर्वना विषयानु वर्णन ज्ञानी ज्ञानीपञ्चाथी केटका समय सुधी रही शके छे तेवो प्रश्न अने तेवो उत्तर आभिनिबोधिका आदि दशनी स्थितिना समयनु कथन, मति, श्रुत आदि ज्ञाननी पर्यायानु कथन पाय ज्ञान पर्यायानु अल्प बहुत्व कथन मत्य ज्ञानादि त्रयानु अल्प बहुत्व कथन पाय ज्ञान, त्रय अज्ञान अने तेनी पर्यायाना अल्प बहुत्वनु कथन



ज्ञानलब्धिः, आभिनयोधिकलब्धिरहिताः, अरधिज्ञानलब्धिका जीवाः, अरधि  
 ज्ञानलब्धिरहिताः, मनःपर्यवज्ञानलब्धिकाः, मनःपर्यवज्ञानलब्धिरहिताः, केवलज्ञान  
 लब्धिकाः केवलज्ञानलब्धिरहिताः, अज्ञानलब्धिकाः, अज्ञानलब्धिरहिताः, मत्प-  
 ज्ञानभ्रुताज्ञानलब्धिरहिताः, विमङ्गलज्ञानलब्धिकाः, विमङ्गलज्ञानलब्धिरहिताः, दर्शन  
 लब्धिकाः, दर्शनलब्धिरहिताः, मिथ्यादर्शनलब्धिकाः, मिथ्यदृष्टिलब्धिकाः,  
 चारित्र्यलब्धिकाः, सामानिकादिचारित्र्यलब्धिकाः, अलब्धिकाः, चारित्र्याचारित्र्य-  
 लब्धिकाः, अलब्धिकाः, दानादिलब्धिकाः, अलब्धिकाः, पालवीर्य-पण्डितवीर्य-  
 बालपण्डितवीर्यलब्धिकाः, अलब्धिकाः, इन्द्रियलब्धिकाः, अलब्धिकाः, श्रोत्रेन्द्रियादि  
 लब्धिकाः, अलब्धिकाः साकारोपयोगिनः, आभिनयोधिकसाकारोपयोगिनः,

जीव, आभिनयोधिकज्ञानलब्धिरहितजीव, अरधिज्ञानलब्धि सहितजीव,  
 अरधिज्ञानलब्धिरहितजीव, मनःपर्यवज्ञानलब्धिसहितजीव, मनःपर्यव-  
 ज्ञानलब्धिरहितजीव, केवलज्ञानलब्धिसहितजीव, केवलज्ञानलब्धिरहितजीव,  
 अज्ञानलब्धिवाले जीव, अज्ञानलब्धिरहितजीव, मत्पज्ञानरूप भ्रुताज्ञानरूप  
 लब्धिरहितजीव, विमङ्गलज्ञानलब्धिसहितजीव, विमङ्गलज्ञानलब्धिरहितजीव  
 दर्शनलब्धिसहितजीव दर्शनलब्धिरहितजीव, मिथ्यादर्शनलब्धिवाले जीव,  
 मिथ्यदृष्टिलब्धिवालेजीव, चारित्र्यलब्धिवालेजीव, सामायिक आदि चारित्र्य  
 लब्धिवाले जीव, सामायिक आदिकी लब्धिवालेजीव, अलब्धिवालेजीव,  
 चारित्र्याचारित्र्य लब्धिवालेजीव, चारित्र्याचारित्र्य लब्धि विनाके जीव, दानादि  
 लब्धिवाले जीव, दानादि लब्धिबिनाके जीव पण्डित वीर्य, बालपण्डित  
 वीर्यलब्धिवाले जीव, इनकी लब्धिबिनाके जीव, इन्द्रियलब्धिवाले जीव,  
 इन्द्रियलब्धिबिनाके जीव, श्रोत्रेन्द्रियादि लब्धिवाले जीव, श्रोत्रेन्द्रियादि  
 लब्धिबिनाके जीव, साकार उपयोगवाले जीव, आभिनयोधिक साकार

ज्ञान लब्धि रहित एव, अरधी ज्ञान लब्धि रहित एव अरधी  
 ज्ञान लब्धि रहित एव मनपर्यवज्ञान लब्धि रहित एव मनपर्यव-  
 ज्ञान लब्धि रहित एव, केवल ज्ञान लब्धि रहित एव, केवल ज्ञान लब्धि रहित एव,  
 अज्ञान लब्धिवाला एव अने अज्ञान लब्धि विनाला एव, मत्पज्ञानरूप, भ्रुतज्ञानरूप,  
 लब्धि रहित एव विमङ्गलज्ञान लब्धि रहित एव विमङ्गलज्ञान लब्धि रहित एव,  
 दर्शन लब्धि वाला एव, दर्शन लब्धि विनाला एव मिथ्यादर्शन लब्धिवाला  
 एव, मिथ्य दृष्टि लब्धिवाला एव चारित्र्य लब्धिवाला एव, सामायिक आदि चारित्र्य  
 वाला एव सामायिक आदि लब्धिवाला एव चारित्र्याचारित्र्य लब्धिवाला  
 एव, चारित्र्य चारित्र्य लब्धि विनाला एव दानादि लब्धिवाला एव अने  
 दानादि लब्धि विनाला एव पण्डितवीर्य, बालपण्डितवीर्य लब्धिवाला  
 एव, ते लब्धि विनाला एव, इन्द्रिय लब्धिवाला एव अने इन्द्रिय लब्धि

मत्यज्ञानादि साकारोपयोगिनः, अनाकारोपयोगिनो जीवाः, संयोगिनः, सलेश्याः जीवाः, कृष्णादिलेश्याः, सकषायिणो जीवाः अरुषायिणो जीवाः सवेदावेद जीवाः, आहारकानाहारका जीवाः, मतिश्रुतावधि मनःपर्यव केवलज्ञानविषयाः, मत्यज्ञान - श्रुताज्ञान - विभङ्गज्ञानविषयाः, ज्ञानिनो ज्ञानितया स्थितिकालः, ? आग्निनिबोधिकादि दशस्थितिकालः, मतिश्रुतादिज्ञानपर्यायाः पञ्चज्ञानपर्यायाल्प बहुत्वम् मत्यज्ञानादि त्रयाल्पबहुत्वम्, पञ्चज्ञान-व्यज्ञानपर्यायाल्पबहुत्वम् ।

अष्टमशतकस्य द्वितीय उद्देशकः

उपयोगवाले जीव मत्यज्ञान साकार उपयोगवाले जीव अनाकार उपयोगवाले जीव, संयोगी जीव, सलेश्य जीव, कृष्णादि लेश्यावाले जीव, सकषायी जीव, अरुषायी जीव. वेदसहित जीव, वेदरहित जीव, आहारक, अनाहारक जीव, ये सब जीव ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं ? ऐसे प्रश्न और इनके उत्तर । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्यवज्ञान और केवलज्ञान इन सबका तथा मत्यज्ञान श्रुताज्ञान,, विभङ्गज्ञान इन सबका विषय कथन ज्ञानी ज्ञानीरूपसे कितना समय तक स्थित रहता है ऐसा प्रश्न और इसका उत्तर । आग्निनिबोधिका आदि दशकी स्थितिका काल कथन मतिश्रुत आदि ज्ञानकी पर्यायोक्ता कथन, पांचज्ञान पर्यायोक्ता अल्पबहुत्व कथन मत्यज्ञान आदि तीन का अल्प बहुत्व कथन, पांच ज्ञान, तीन अज्ञान इन की पर्यायोक्ते अल्पबहुत्वका कथनः ।

विनाशा श्रुत, श्रुत धन्द्रिया लब्धिवाणा श्रुत अने श्रुत धन्द्रियादि लब्धि विनाशा श्रुत, साकार उपयोगवाणा श्रुत, अग्निनिबोधिका साकार उपयोगवाणा श्रुत, मत्यज्ञान साकार उपयोगवाणा श्रुत, अनाकार उपयोगवाणा श्रुत, संयोगी श्रुत, सलेश्य श्रुत, कृष्णादि लेश्यादि श्रुत, कषायवाणा श्रुत, कषाय विनाशा श्रुत, वेद सहित श्रुत अने वेद रहित श्रुत, आहारक, अनाहारक श्रुत अने अथा श्रुत ज्ञानी छे छे नहिं तेवो प्रश्न अने उत्तर मातज्ञान, श्रुताज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान अने देवज्ञान, अने अध्याना तथा मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, विसर्गज्ञान, अने सर्वांना विषयोनु वर्णन ज्ञानी ज्ञानीपण्थाथी छेदका समय सुधी रही शके छे तेवो प्रश्न अने तेवो उत्तर आग्निनिबोधिका आदि दशनी स्थितिना समयनु कथन, मति, श्रुत आदि ज्ञाननी पर्यायोनु कथन पाय ज्ञान पर्यायोनु अल्प बहुत्व कथन मत्य ज्ञानादि त्रयनु अल्प बहुत्व कथन पाय ज्ञान, त्रय अज्ञान अने तेनी पर्यायोना अल्प बहुत्वनु कथन

आशीचिपवक्तव्यसामाह-

प्रथमोद्देशके पुद्गलपरिणाम प्ररूपितः, अथ द्वितीयोद्देशकेऽपि प्रकरात्तरेण पुद्गलपरिणाममेव प्ररूपयितुं मध्यमम् आशीचिपठारमाह-  
'कइविहाण भते' इत्यादि ।

मूल्म्-कइविहा ण भते । आसीविसा पण्णत्ता ? गोयमा !  
दुविहा आसीविसा पण्णत्ता, त जहा-जाइआसीविसा य,  
कम्मआसीविसा य । जाइआसीविसा ण भते ! कइविहा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! चउविहा पण्णत्ता, त जहा-विच्छुयजाइआसीविसे,  
महुक्कजाइआसीविसे, उरगजाइआसीविसे, मणुस्सजाइ  
आसीविसे । विच्छुयजाइआसीविसस्स ण भते ! केवइए विसए  
पण्णत्ते ? गोयमा ! पभू ण विच्छुयजाइआसीविसे अद्धभरह  
प्पमाणमेत्त धोदिं विसेण विसपरिगय विसवसइमाण पकरेत्तए,  
विसए से विसट्टयाए नो च्चेव ण सपत्तीए करेसु वा, करेति वा,  
करिस्सति वा १ महुक्कजाइआसीविसपुच्छा, गोयमा ! पभू ण  
महुक्कजाइआसीविसे भरहप्पमाणमेत्त धोदिं विसेण विसपरिगय  
सेस त च्चेव जाव करेस्सति वा २ । एव उरगजाइआसीविस  
स्स वि, नवर जवुधीवप्पमाणमेत्त धोदिं विसेण विसपरिगय सेस  
त च्चेव जाव करिस्सति वा ३ । मणुस्सजाइआसीविसस्स वि  
एव च्चेव, नवर समयखेत्तप्पमाणमेत्त धोदिं विसेण विसपरिगय  
सेस त च्चेव जाव करिस्सति वा ४ । जइ कम्मआसीविसे किं  
नेरइयकम्म आसीविसे त्तिरिक्खजोणियकम्म आसीविसे, मणु-

स्सकम्मआसीविसे, देवकम्मआसीविसे? गोयमा ! नो नेर-  
 इयकम्मआसीविसे, तिरिक्खजोगियकम्मआसीविसे वि, मणु-  
 स्सकम्मआसीविसे वि, देवकम्मआसीविसे वि, जइ तिरि-  
 क्खजोगियकम्मआसीविसे किं एगिंदियतिरिक्खजोगिय-  
 कम्मआसीविसे, जाव पंचिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासीविसे ?  
 गोयमा ! नो एगिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासीविसे, जाव  
 नो चउरिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासीविसे; पंचिंदियतिरिक्ख-  
 जोगियकम्मासीविसे । जइ पंचिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासी-  
 विसे किं संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासीविसे;  
 गवभवक्कंतियपंचिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासीविसे ? एव जहा  
 वेउद्वियसरीरस्स भेदे; जाव पज्जत्तसंखेज्जवासाउय-गवभवक्कंतिय  
 पंचिंदियतिरिक्खजोगियकम्मासीविसे, नो अपज्जत्तसंखेज्जवासा  
 उय—जाव कम्मासीविसे । जइ मणुस्सकम्मासीविसे किं संमु-  
 च्छिममणुस्सकम्मासीविसे गवभवक्कंतियमणुस्सकम्मासीविसे  
 गोयमा ! णो संमुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे, गवभवक्कंतिय  
 मणुस्सकम्मासी विसे, एवं जहा वेउद्वियसरीरं जाव पज्जत्त-  
 संखेज्जवासाउयकम्मभूमगगवभवक्कंतियमणुस्सकम्मासीविसे, णो  
 अपज्जत्त—जाव—कम्मासीविसे ॥ सू० १ ॥

छाया— कतिविधाः खलु भदन्त ! आशीविषाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! त्रिविधाः  
 आशीविषाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा—जात्याशीविषाश्च, कर्माशीविषाश्च । जात्याशी-

विषाः खलु मदन्त ! कतिविधा मद्गताः ? गौतम ! षतुर्विधाः मद्गताः, तद्यथा वृश्चिकजात्याशीविष, मङ्गुकजात्याशीविष, उरगजात्याशीविषः, मनुष्यजात्याशीविष । वृश्चिकजात्याशीविषस्य खलु मदन्त ! कियान् विषयः मद्गत ? गौतम ! मद्य खलु वृश्चिकजात्याशीविषः अर्द्धमरतममागमात्रां तद्

‘कश्चिद्वाणं मते ! आसीविसा पण्णत्ता’ इत्यादि ।

सुत्राय- ( कश्चिद्वाणं मते ! आसीविसा पण्णत्ता ) हे मदन्त ! आशीविष किमने प्रकार के कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (कश्चिद्वाणं आसीविसा पण्णत्ता) आशीविष दो प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) जो इस प्रकारसे हैं (जाइ आसीविसाय कम्म आसीविसाय) एक जाति आशीविष और दूसरे फर्म आशीविष । (जाइ आसीविसा णं मते ! कश्चिद्वाणं पण्णत्ता) हे मदन्त ! जाति आशीविष किमने प्रकार के कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! जाति आशीविष (कश्चिद्वाणं पण्णत्ता) चार प्रकारके कहे गये हैं । (तजहा) जो इस प्रकारसे हैं- (विच्छ्रुय जाइ आसीविसे, मङ्गुकजाइ आसीविसे, उरगजाइ आसीविसे, मणुस्स जाइ आसीविसे) वृश्चिक जाति आशीविष, - मङ्गुकजाति आशीविष, उरगजाति आशीविष, मनुष्यजाति आशीविष (विच्छ्रुय जाइ आसीविसस्स णं मते ! केवइए विसए पण्णत्ते) हे मदन्त ! वृश्चिक जाति आशीविषके विषका विषय-सामर्थ्य कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पमू ण विच्छ्रुय जाइ आसीविसे

‘कश्चिद्वाणं मते ! आसीविसा पण्णत्ता’ इत्यादि ।

सुत्राय- ‘कश्चिद्वाणं मते ! आसीविसा पण्णत्ता’ हे मदन्त ! अर्थे हे/हा प्रकारना ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘कश्चिद्वाणं आसीविसा पण्णत्ता’ अर्थे दो प्रकारना अर्थे हे (तजहा) ? आ प्रभात्ते हे- ‘जाति आसीविसा य कम्मआसी विसा य’ अर्थे जाति आशीविष ‘जाइ आसीविसा णं मते कश्चिद्वाणं पण्णत्ता’ हे मदन्त ! जाति आशीविष हे/हा प्रकारना अर्थे हे ! ‘गोयमा’ हे गौतम ! आशीविष (कश्चिद्वाणं पण्णत्ता) चार प्रकारना अर्थे हे ‘तजहा’ हे आ प्रभात्ते हे विच्छ्रुयजाइ आसीविस, मङ्गुकजाइ आसीविसे, उरगजाइ आसीविस, मणु स्सजाइ आसीविसे’ वृश्चिकजात्या आशीविष मङ्गुकजात्या आशीविष, मनुष्य जातिना आशीविष ‘विच्छ्रुयजाइ आसीविसस्स णं मते केवइए विसए पण्णत्ते’ हे मदन्त ! वृश्चिक जातिना आशीविषके विषये-अर्थे विषय-सामर्थ्य हे/हा अर्थे हे ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पमू ण विच्छ्रुयजाइ आसीविस मदमरतममागमेतं, षोर्दि विसेण

विषेण विषपरिगता विकसन्तीम् प्रकर्तुम्, विषयः सो विकसनायाः नो चैव खलु संप्राप्त्या अकार्षुर्वा, कुर्वन्ति वा, करिष्यन्ति वा । मण्डूकजात्याशीविष-पृच्छा ? गौतम ! प्रभुः खलु मण्डूकजात्याशीविषः, भरतप्रमाण मात्रां तन्न विषेण विषपरिगताम्, शेषं तदेव यावत् - करिष्यन्ति वा २।

अद्वभरहृत्प्रमाणमेतन्नोदि विसेणं विसपरिगयं विसवसद्वमाणं पकरेत्तए, विसए से विसद्वयाए, नोचैव णं सपत्तिए करेसु वा, करेति वा, करि-स्सति वा) वृश्चिकजाति आशीविष के विषका प्रभाव इतना है कि वह अर्धभरतक्षेत्र प्रमाण शरीरको अपने द्वारा विदलित - नष्ट कर सकता है. इतने बड़े शरीरमें उसका पूरा प्रभाव पड सकता है- इतना बड़ा शरीर उसके विषसे पूरा व्याप्त हो सकता हैं । परन्तु अभी तक संप्राप्ति द्वारा उसके विषने ऐसा किया नहीं है न वह ऐसा करेगा ही, और न वह ऐसा करता है यह तो उसके प्रभावका वर्णन किया है । यदि वह विष अपने प्रभावसे प्रभावित करना चाहे तो इतने बड़े शरीरको पूर्णरूपसे प्रभावित कर सकता हैं । (मण्डूक जाइ आसीविष पृच्छा) हे भदन्त ! मण्डूकजाति आशीविषके विषका प्रभाव कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पभू णं मण्डूक जाइ आसीविसे भरहृत्प्रमाणमेत्तन्नोदि विसेणं विसपरिगयं सेसं त चैव जाव करेस्सन्ति वा २) मण्डूक जाति आशीविषका विष अपने प्रभाव से भरतक्षेत्र प्रमाण शरीर को व्याप्त कर सकने में समर्थ

विसपरिगयं विसवसद्वमाणं पकरेत्तए, विसए से विसद्वयाए नो चैवण संपत्तीए करेसुवा, करेतिवा करिस्सन्तिवा ' वृश्चिक जातना आशीविषना अरेतो प्रभाव-सामर्थ्यं अएत्तो छे के ते अर्धभरतक्षेत्र प्रभाषु शरीरने पोताना सामर्थ्यथी विदलित नाश करी शके छे आटला मोटा शरीरमा तेना पुरे प्रभाव पडी शके छे आवु मोटु शरीर तेना अस्थी पुइ व्याप्त थछ नथ छे परतु ह्यु सुधी तेना अरे अएतु क्युं नथी, अने अएतु करता पषु नथी अने तेतु करेशे पषु नडी आतो अेना प्रभाव-सामर्थ्यनु इकत वर्युंन क्युं छे ने ते अरे पोताना प्रभावथी प्रभावित करवा मागे ते आवडा शरीरने पूर्युइपथी प्रभावित करी शके छे 'मण्डूकजाइ आसीविष पृच्छ' डे अगवान मण्डूक जाति आशीविषना अणुं सामर्थ्यं केत्तु क्युं छे ? 'गोयमा' डे गौतम ! पभूणं मण्डूकजाइ आसीविसे भरहृत्प्रमाणमेत्तन्नोदि विसेणं विसपरिगयं सेसं तं चैव, जाव करेस्सन्ति वा २ 'मण्डूक जातीना आशीविषनु अरे पोताना प्रभावथी भरतक्षेत्र प्रभाषु शरीरमा व्याप्त थवाने समर्थं होय छे आडीनु सधु कथन पडेलाना

‘एवम् उरगजास्याशीविपस्यापि, नवरम् जम्बूद्वीपप्रमाणमात्रां तनुं त्रिपे  
विपपरिगतां, शेषं तदेव यावत्-करिष्यन्ति वा ३ । मनुष्यजास्याशीविपस्यापि  
एवमेव, नवरं समयक्षेत्रप्रमाणमात्रां तनुं त्रिपेण विपपरिगतां, शेषं तदेव  
यावत्-करिष्यन्ति वा । यदि कर्माशीविपः किं नैरपि कर्माशीविपि तिर्यग्योनिक

हो सकता है । याकी समस्त कथन पहिलेके नैसा ही जानना चाहिय  
यावत् समाप्तिद्वारा उसके विपने ऐसा आज तक न किया है, न वह  
ऐसा करता है और भविष्यमें भी वह ऐसा नहीं करेगा । यह तो  
केवल उसके प्रभावका ही वर्णन किया गया है । (एवं उरग जाइ  
आसीविसस्स वि-नवरं मनुष्यद्वीपप्रमाणमेव षोडशं विसेणं) इसी तरहसे  
उरगजाति आशीविपके विपके विपमें भी जानना चाहिय परन्तु  
इस विपका प्रभाव इतना बड़ा जानना चाहिये कि वह अपने प्रभावसे  
जम्बूद्वीप प्रमाण शरीरको व्याप्त कर सकता है । उसे नष्ट कर सकता  
है । याकी का सध कथन पहिले नैसा ही जानना चाहिय । यावत्-  
समाप्ति द्वारा उस विपने आज तक ऐसा न किया है, न वह ऐसा  
करता है और न भविष्यमें वह ऐसा करेगा ही यह तो उस के  
सामर्थ्य का वर्णन मात्र है । (मणुस्स जाइ आसीविसस्स वि एवं वेव,  
नवरं समयक्षेत्रप्रमाणमेव षोडशं विसेणं विसपरिगयं सेस तं वेव जाव  
करिस्सन्ति वा ४) इसी तरहसे मनुष्यजाति आशीविपके विपक संघषमें  
भी जानना चाहिये । परन्तु यहाँ पर विशेषता ऐसी है कि मनुष्य

कथन प्रभावे नेबुल्ल समस्त वेतुं भावत् अ प्राप्तिद्वारा तेना अरे आल्ल सुधी जेतुं इत्थं  
नधी जेतुं इत्था नधी जने अविष्मभा जेतुं इत्थे पणु नधी जाते इत्थं तेभन्ना  
सामर्थ्यं तुं पणु न इत्थाना आवेल्ले छे ‘ एवं उरगजाइ आसीविसस्स वि-नवरं  
मनुष्यद्वीपप्रमाणमेव षोडशं विसेणं । जाली रीते उरगजाती आशीविपना जेतुं  
विषयमां पणु जलवतुं जेत्थजे. परत्तु आ जेतो प्रभाव जेतुंही भोगे जलवेवा जेत्थजे छे  
ते पीताना प्रभावधी जम्बूद्वीप प्रभावे शरीरमां इत्थाम् शडे छे जने ततो नाश करी  
शडे छे जालीतुं सम्यु कथन पहिलेना नेतुं-वीछीना कथन प्रभावेतुं जलवतुं जेत्थजे-  
भावत् - सर्पित्त्वादारा आ अरे आल्लसुधी जातुं इत्थं नधी, जातुं इत्था नधी जने  
अविष्मभा वेतुं इत्थे नधी. जाते इत्थं तेभन्ना सामर्थ्यं तुं पणु न छे ‘ मणुस्स जाइ  
आसीविसस्स वि एवं वेव नवर समयक्षेत्रप्रमाणमेव षोडशं विसेणं विसपरिगयं  
सेस तं वेव जाव करिस्सन्ति वा ४’ जेत्तु रीते मनुष्य जतिना आशीविपना  
जेत्ता अलक्षमां पणु जाली वेतुं, परत्तु जाली विशेषता जे छे इ मनुष्य जति

कर्माशीविषः, मनुष्यकर्माशीविषः, देवकर्माशीविषः, ? गौतम ! नो नैरयिककर्माशीविषः, तिर्यग्योनिककर्माशीविषोऽपि, मनुष्यकर्माशीविषः, देवकर्माशीविषः, यस्तिर्यग्योनिककर्माशीविषः किम् एकेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषः, यावत् - पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषः ? गौतम ! नो एकेन्द्रिय-

जाति आशीविषका विष अपने प्रभावसे समग्रक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र प्रमाण शरीरको प्रभावित कर सकनेमें समर्थ हो सकता है। बाकीका समस्त कथन पहिले जैसा ही जानना चाहिये। यावत् संप्राप्तिसे वह ऐसा करेगा नहीं। (जइ कम्म आसीविसे किं नेरइय कम्म आसीविसे, तिरिक्खजोणियकम्मआसीविसे, मणुस्सकम्मआसीविसे, हे भदन्त ! जो कर्माशीविष कहे गये हैं वे कौन हैं क्या नैरयिक कर्माशीविष है ? या तिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष है ? या मनुष्य कर्माशीविष है ? या देव कर्माशीविष है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो नेरइयकम्म आसीविसे, तिरिक्खजोणिय कम्मआसीविसे वि, मणुस्सकम्म आसीविसे, वि, देवकम्म आसीविसे वि) नैरयिककर्म आशीविष नहीं है, किन्तु तिर्यचयोनिकजीव कर्माशीविष है, मनुष्यकर्माशीविष है, और देव कर्माशीविष है। (जइ तिरिक्खजोणिय कम्मआसीविसे, किं एगिंदिय तिरिक्ख जोणिय कम्म आसीविसे, जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिय कम्मआसीविसे) हे भदन्त ! यदि तिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष है तो क्या एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव कर्माशी-

आसीविषनु अेर पोतना प्रभावथी समयक्षेत्र-मनुष्यक्षेत्र अर्थात्, अटिद्वीप प्रमाणुनी काया प्रमाणु शरीरने प्रभावित करवाया समर्थ थाय छे आधी तमाम कथन पहेला वीछीना कथन नेपुण्य समञ्जुं. यावत् स पत्तिथी ते अबु करथे नडी 'जइ कम्मआसीविसे किं नेरइय कम्मआसीविसे तिरिक्खजोणिय कम्मआसीविसे, मणुस्सकम्मआसीविसे, देवकम्म आसीविसे' हे भगवन् ने कर्माशीविष कहेला छे ते क्या छे ? शु नैरयिक कर्माशीविष छे? अगर् तिर्यक योनिइ एव कर्माशीविष छे? हे मनुष्य कर्माशीविष छे? अगर् देवकर्म आशीविष छे? 'गोयमा' 'नो नेरइय कम्म आसीविसे, तिरिक्खजोणिय कम्मआसीविसे वि, मणुस्स कम्मआसीविसे वि, देवकम्म आसीविसे वि' नैरयिक कर्म आसीविष नथी परतु तिर्यच योनी एव कर्माशीविष छे, मनुष्य कर्माशीविष छे अने देव कर्माशीविष छे 'जइ तिरिक्खजोणिय कम्म आसीविसे, किं एगिंदिय तिरिक्खजोणिय कम्म आसीविसे. जाव पंचिंदियतिरिक्ख जोणिय कम्मआसीविसे' हे भगवन् ने तिर्यच योनी एव कर्माशीविष छे तो क्या एकेन्द्रिय तिर्यच



निर्यग्योनिककर्माशीविषः, यावत् - नो चतुरिन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविष, पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविष, य पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक यावत्-कर्माशीविषः किम् समुच्छिन्नपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक यावत् - कर्माशीविषः, गर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषः, एव यथा वैक्रियसरीररूप मद्गो यावत् - पर्याप्तसह्यपर्यायुष्णगर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-कर्माशीविषः, नो अपर्याप्तकसख्येयपर्यायुष्णयावत् - कर्माशीविषः य मनुष्य

विष है या यावत् पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष है ? (गोयमा) हे गौतम ! (नो एगिंदिय तिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे, जाव नो चउरिंदिय तिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे, पंचिंदियतिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे) एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष नहीं है यावत् चौरिंदियतिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष नहीं है, किन्तु पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष है । (जइ पंचिंदियतिरिक्ख जोणिय कम्मासीविसे, किं समुच्छिन्न पंचिंदियतिरिक्खजोणिय कम्मा सीविसे, गर्भवक्कतिय पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ?) हे मद्गन्त ! यदि पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकजीव कर्माशीविष है तो क्या समुच्छिन्न पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष है या गर्भव्युत्क्रान्तियतिर्यग्योनिकजीव कर्माशीविष है ? (एव जइ वेउच्चियसरीररूप मद्गो, जाव पञ्चा सखेज्जवासाउयगर्भवक्कतिय पंचिंदियतिरिक्खजो णियकम्मासीविसे, नो अपञ्चासखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे)

येनि एव कर्माशीविष छे ? - या यावत् - हे यावत् पञ्चेन्द्रियवाणा तिक्कय्योनीवाणा एव कर्माशीविष छे ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो एगिंदिय तिरिक्ख जोणिय कम्मासी-विसे, जाव नो चउरिंदिय तिरिक्ख जोणिय कम्मासीविसे, पंचिंदिय तिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे' पञ्चेन्द्रिय तिक्कय्योनीएव कर्माशीविष नथी. यावत्-आर पञ्चेन्द्रियवाणा तिक्कय्योनी एव कर्माशीविष नथी परंतु यावत् पञ्चेन्द्रियवाणा तिक्कय्योनी एव कर्माशीविष छे 'जइ पंचिंदिय तिरिक्खजोणिय कम्मासीविसे, किं समुच्छिन्न पंचिंदिय तिरिक्खजोणिय कम्मासीविसे, गर्भवक्कतिय पंचिंदिय-तिरिक्खजोणिय कम्मासीविसे' हे मद्गन्त ! ये पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनी एव कर्माशीविष छे ? ते शु समुच्छिन्न पञ्चेन्द्रिय तिक्कय्योनी एव कर्माशीविष छे ? हे मद्गन्त ! पञ्चेन्द्रिय तिक्कय्योनी एव कर्माशीविष छे ? एवं जइ वेउच्चियसरीररूप मद्गो जाव पञ्चा संखेज्जवासाउय, गर्भवक्कतिय पंचिंदिय तिरिक्ख जोणिय कम्मासीविसे, नोअपञ्चा सखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' हे गौतम

कर्माशीविषः, किं समृच्छिममनुष्यकर्माशीविषः ? गर्भव्युत्क्रान्तिमनुष्य-  
कर्माशीविषः ? एवं यथा वैक्रियशरीरं यावत् - पर्याप्तसंख्येयवर्षीयुष्क-  
कर्मभूमिगतगर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यकर्माशीविषः, नो अपर्याप्तं यावत् - कर्मा-  
शीविषः ॥सू०१॥

हे गौतम ! शरीरके प्रकरणमें वैक्रियका कथन करते हुए आचार्यने  
जिस तरहसे जीव भेद कहा है, उसी प्रकारसे यावत् पर्याप्त संख्या-  
त वर्ष की आयुवाले गर्भज पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिक जीव जो कि कर्म-  
भूमिमें उत्पन्नहुए हैं कर्माशीविष हैं. अपर्याप्त असंख्यातवर्षकी आयु-  
वाले यावत् कर्माशीविष नहीं हैं । (जइ मणुस्सकम्मासीविसे, किं  
संसुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे) हे भदन्त ! मनुष्य कर्माशीविष है,  
तो क्या समृच्छिम मनुष्यकर्माशीविष है ? या (गवभवक्कंतियमणुस्स  
कम्मासीविसे ) गर्भजमनुष्यकर्माशीविष हैं ? (गोयमा) हे गौतम !  
(गो संसुच्छिममणुस्स कम्मासीविसे, गवभवक्कंतियमणुस्स कम्मासी-  
विसे एव जहा वेउन्वियसरीरं जाव पज्जत्ता संखेज्जवासाउयकम्म  
भूमग गवभवक्कंतियमणुस्स कम्मासीविसे, गो अपज्जत्त जाव कम्मा-  
सीविसे) समृच्छिम मनुष्यकर्माशीविष नहीं हैं, गर्भजमनुष्यकर्मा-  
शीविष है जैसा वैक्रियशरीरका कथन करते हुए आचार्यने जीव  
भेद कहा है उसी तरहसे यावत् पर्याप्त संख्यातवर्षकी आयुवाले

शरीरना प्रकरणमा वैक्रियनु कथन करतां आचार्येणेवी रीते एवेना भेद कथा छे, तेवी  
रीते पर्याप्त संख्यात वर्षनी आयुष्यवाणा कर्मण, गर्भण पंचेन्द्रिय तिर्यग् योनी एव  
के ने कर्मभूमिमा उत्पन्न थया छे ते कर्माशीविष छे के अपर्याप्त असंख्यात वर्षनी  
'आयुष्यवाणा यावत् - कर्माशीविष नथी 'जइ मणुस्स कम्मासीविसे किं संसुच्छिम-  
मणुस्स कम्मासीविसे' हे लगवान् ने मनुष्य कर्माशीविष छे तो समृच्छिम मनुष्य  
कर्माशीविष छे ? के 'गवभवक्कंतिय मणुस्स कम्मासीविसे' गर्भण मनुष्य  
कर्माशीविष छे ? 'गोयमा' हे गौतम ! गो समृच्छिममणुस्स कम्मासीविसे,  
गवभवक्कंतिय मणुस्स कम्मासीविसे एवं जहा वेउन्वियसरीरं जाव पज्जत्ता  
संखेज्जवासाउय कम्म भूमग गवभवक्कंतिय मणुस्स कम्मासीविसे गो अपज्जत्त  
जाव कम्मासीविसे' समृच्छिम मनुष्य कर्माशीविष नथी होता गर्भण मनुष्य  
कर्माशीविष होय छे नेवी रीते वैक्रिय शरीरना कथन करतां आचार्येणे एवेना भेद कथा  
छे ते रीते यावत् - पर्याप्त संख्यात वर्षनी आयुष्यवाणा, गर्भण मनुष्य के ने

टीका - 'कइविहा ण भवे ! आसीविस्सा पण्णत्ता ?' गौतमः पृच्छति- हे भदन्त ! कतिविधा कियत्तकारा खल्ल आशीविपाः प्रज्ञप्ताः ? आइयां द्रप्पादी विष येपां ते आशीविपाः सर्पादयः इत्थर्यः, मगवानाह- 'गोयमा ! इविहा आसीविस्सा पण्णत्ता' हे गौतम ! द्विविधाः आशीविपाः प्रज्ञप्ताः कथिताः, 'तजहा - जाइ - आसीविस्सा य, कम्मआसीविस्सा य,' तद्यथा जात्या शीविपाञ्च, कर्माशीविपाञ्च, तत्र जात्या जमना आशीविपाः सर्प वृश्चिकादयः, कर्मणा क्रियया श्लापादिना आशीविपाः माण्युपघातका कर्माशीविपाः

गर्भज मनुष्य जो कि कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए हैं कर्माशीविप हैं, अपर्याप्त अक्षर्यात्त चर्पकी आयुवाले मनुष्य कर्माशीविप नहीं हैं।

टीकार्थ-प्रथम उद्देशकमें पुद्गल परिणाम कहा गया है। इस द्वितीय उद्देशकमें भी प्रकारान्तर से पुद्गल परिणामको ही प्रस्तुत करनेके लिये सूत्रकारने प्रथम आशीविप शब्दको कहा है इसमें गौतमने मनुसे ऐसा पूछा है 'कइविहाणं भवे ! आसीविस्सा पण्णत्ता' हे भदन्त ! आशीविषकितने प्रकारके कहे गये हैं ? आशी नाम द्रप्पादिकका है जिनकी द्रप्पादिकमें विष होता है वे आशीविप सर्प हैं ऐसे वे सर्पादिरूप आशीविष 'गोयमा' हे गौतम ! 'इविहा पण्णत्ता' दो प्रकारके कहे गये हैं। 'तजहा' जो इस प्रकारसे हैं 'जाइ आसी विस्साय, कम्म आसीविस्साय' एक जाति आशीविप और दूसरे कर्मा शीविष। जन्मसे जो आशीविष हैं ऐसे सर्प वृश्चिक आदि जीव

कर्मभूमिमा उत्पन्न भवेत्ता ७ ते कर्माशी ५ ७ अपर्याप्त अक्षर्यात्त नवनी आयुष्प-  
वाणा मनुष्य कर्माशीविष इत्येता नथी

टीका - पहले उद्देशकमें पुद्गल परिणाम कहेवाला आशु ७ अने आ लीला उद्देशकमा पञ्च प्रकारान्तरणी पुद्गल परिणामने ७ रूप कइया भवेत्त सूत्रकारे प्रथम आशीविष्सा कइ ७ वेमा गौतम स्वामी के जेउ पूछु ७ 'कइ विहाणं भवे आसीविस्सा पण्णत्ता' हे भदन्त आशीविष कइला प्रश्नना कहेवांमां आवेल ७ आसि नाम इष्टादिभु-दादि ७ लेनी प्रथम विष इत्ये ७ ते आशीविष-सर्प कहेना ७ जेवा ते सर्पादिरूप आशीविष 'गोयमा' हे गौतम ! 'इविहा पण्णत्ता' जे प्रश्नना कहेवांमां आव्या ७ 'तजहा' जे आ रीते ७ 'जाइ आसीविस्साय कम्म आसीविस्साय' जेक जाति आशीविष अने लीला कर्म आशीविष ७ नथी जे आशीविष ७ ते सर्प वृश्चिक आदि इत्ये जाति आशीविष इत्ये ७ जे श्लापकादि

पञ्चेन्द्रियाः तिर्यञ्चः मनुष्याश्च पर्याप्तका एव कर्माशीविषा उच्यन्ते, एतेषां हि तपश्चर्यादिना अन्येन वा केनचिद् कारणेन आशीविषलब्धिर्भवति, आशीविषलब्ध्या च एते शापप्रदानेनैव अन्यान् व्यापादयितुं शक्नुवन्ति. ते च कर्माशीविषाः आशीविषलब्धिस्वभावात् सहस्रारान्ताष्टमदेवलोकेषु एव उत्पत्तुमर्हन्ति, तत्र देवत्वेनोत्पन्नाश्च ते देवा भूत्वा अपर्याप्तावस्थायाम् भूतपूर्वाशीविषभावानुभवतया कर्माशीविषलब्धिमन्तो भवन्ति, उक्तञ्च 'आसी दाढा तग्गय-महाविस्साऽऽसीविस्सा ढुविहभेया । ते कम्मजाइभेएण णेगहा चउव्विहविगप्पा-‘त्ति’

आशी दंष्ट्रा तद्गतमहाविषाः आशीविषाः द्विविधभेदाः ।

ते कर्मजातिभेदेन नैकधा चतुर्विधविकल्पाः ॥इति॥

गौतमः पृच्छति - 'जाइआसीविसाणं भंते ! कइविहा पणत्ता ?' हे भदन्त ! जात्याशीविषाः खलु जीवाः कतिविधाः प्रज्ञप्ताः ?

जाति आशीविष जीव हैं । जो शाप आदि क्रियारूप कर्मसे आशीविष हैं प्राणीके उपघातक हैं वे कर्माशीविष हैं । ऐसे कर्माशीविष पर्याप्त पचेन्द्रियतिर्यच, और पर्याप्तक मनुष्य ही होते हैं । इन्हें तपश्चर्यादिसे अथवा किसी अन्यकारणसे आशीविषलब्धि होती है । आशीविषलब्धिके प्रभावसे ये शापदेकर ही अन्य जीवोंको मार डालनेके लिये समर्थ होते हैं । ऐसे ये जीव कर्माशीविष कहे गये हैं । आशीविषलब्धिके स्वभावसे ये आठवें देवलोक सहस्रारतक उत्पन्न हो सकते हैं । वहां पर देवरूपसे उत्पन्न हुए वे देव होकर अपर्याप्तावस्थामें भूतपूर्व आशीविष लब्धिके प्रभाव से वासित होने के कारण कर्माशीविषलब्धिवाले होते हैं ।

कहाभी है- 'आसीदाढातग्गय इत्यादि

अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जाइ आसीविसाणं

क्रियाश्च कर्मथी आशीविष छे. प्राणीओना उपघातक-घात करनार छे ते कर्माशीविष छे. ओवा कर्माशीविष पर्याप्तक पचेन्द्रिय तिर्यच अने पर्याप्तक मनुष्य जे होय छे तेभने तपश्चर्यादिथी अथवा कोउ अन्य कारणथी आशीविष लब्धि प्राप्त थयेली होय छे आशीविष लब्धिना प्रलावथी तेओ शाप आपीने अन्य जीवने मारवाने समर्थ थई शके छे ओवा ते जीवने कर्माशीविष कडेवामा आवे छे आशीविषलब्धिना स्वभावथी ते आठमा देवलोक सहस्रार सुधी उत्पन्न थई शके छे त्या आगण देवइपथी उत्पन्न थयेला तेओ देव थईने अपर्याप्तावस्थामा भूतपूर्व आशीविष लब्धिना प्रलावथी युक्त होवाथी कर्माशीविषलब्धिवाणा होय छे कहु पळु छे- 'आसी दाढा तग्गय इत्यादि'.

उवे गौतम स्वामी प्रभुने ओवु पूछे छे के 'जाइ आसीविसाणं भंते कइविहा

मगधानाह- 'गोयमा ! चउब्बिहा पण्णत्ता' हे गौतम ! जात्याशीविपि  
 चउर्विधा मङ्गलाः, 'तजहा- विच्छुयजाइ आसीविसे, मङ्कजाइआसीविसे  
 उरगजाइआसीविसे, मणुस्सजाइआसीविसे' उद्यया-वृद्धिकजात्याशीविपः,  
 मङ्क जात्याशीविपः, उरगजात्याशीविपः, मनुष्यजात्याशीविप । गौतम  
 पृच्छति- 'विच्छुयजाइआसीविसस्स ण मंते ! केषइए विसए पण्णत्ता ?'  
 हे भदन्त ! वृद्धिकजात्याशीविपस्य खलु कियान् विपयः ? वृद्धिकजात्या  
 शीविपस्य त्रियत्तामर्ध्वं वर्तते ? इत्याश्रय, मगधानाह - 'गोयमा ! पम् ण  
 विच्छुयजाइआसीविसे अद्दमरहण्णमाणमेत्तवोदिं विसेण विसपरिगयं विसवसट्ठ  
 माण पकरेत्तए' हे गौतम ! वृद्धिकजात्याशीविपः अद्दमरत्तप्रमाणमाणम्

भते ! कइविहा पण्णत्ता' हे भदन्त ! जात्याशीविप जीव कितने  
 प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तरमें मनु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम !  
 'चउब्बिहा पण्णत्ता' जात्याशीविपजीव चार प्रकारके कहे गये हैं 'त  
 जहा' जो इस प्रकारसे हैं 'विच्छुयजाइ आसीविसे, मङ्कजाइ  
 आसीविसे, उरगजाइ आसीविसे, मणुस्सजाइ आसीविसे,'  
 वृद्धिकजात्याशीविप, मङ्कजात्याशीविप, उरगजात्याशीविप  
 और मनुष्य जात्याशीविप । अथ गौतमस्थामी मनुसे ऐसा  
 पूछते हैं 'विच्छुयजाइ आसीविसस्स ण भंते ! केषइए विसए  
 पण्णत्ते' हे भदन्त जो वृद्धिकजात्याशीविप है उसके विपका साम  
 र्ध्वं कितना है ? इसके उत्तरमें मनु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम !  
 'पम् ण विच्छुय जाइ आसीविसे अद्दमरहण्णमाणमेत्त वोदिं विसेण  
 विसपरिगय विसवसट्ठमाण पकरेत्तए' वृद्धिकजात्याशीविप अपने दण्ड

पण्णत्ता' के अत्रान् अति आशीविप छः देवता प्रकारना देवतां अत्रान्  
 उत्तर- 'गोयमा' के गौतम । 'चउब्बिहा पण्णत्ता' अती आशीविप एव अत्र  
 प्रकारना देवतां आवेते 'त जहा' ने अत्र प्रमाणेते 'विच्छुय जाइ आसी  
 विप मङ्क जाइ आसीविसे, उरग जाइ आसीविसे, मणुस्स जाइ आसीविसे'  
 वृद्धिक अति आशीविप, मङ्क (देवता) जात्याशीविप, उरग (सर्प) जात्याशीविप अने  
 मनुष्यजात्याशीविप प्रथम - 'विच्छुय जाइ आसीविसस्स णं मत्त ! केषइए  
 विसए पण्णत्ते' के अत्रान् । वृद्धिक जात्याशीविप के वृद्धि शक्ति देवता के उत्तर-  
 'गोयमा' के गौतम । 'पम् ण विच्छुय जाइ आसीविसे, अद्दमरहण्णमाणमेत्त  
 वोदिं विसेण विसपरिगय विसवसट्ठमाण पकरेत्तए' वृद्धिक अति आशीविप

अर्द्धभरतस्य सातिरेकषष्ट्यधिकयोजनशतद्वयलक्षणं प्रमाणं मात्रा इयत्ता यस्याः सा तामित्यर्थः किञ्चिदधिकत्रिषष्ट्यधिकशतद्वययोजनप्रमाणशरीरमिति भावः, वीदिं तनुम्-शरीरं, विषेण स्वदंष्ट्राजन्येन करणभूतेन विषपरिगताम् 'विष' इति भावप्रधाननिर्देशात् विषत्वं परिगतां प्राप्तां विक्रसन्तीं विषव्याप्तां स्वेन न्याप्यमानां प्रकर्तुं प्रभुः समर्थः खलु वर्तते, 'वोन्दि' इति शरीरवाचको देशीयशब्दः किन्तु 'विसए से विसट्टयाए, नो चेव णं संपत्तीए करेसुवा करेति वा, करिस्संति वा?' विषयः स विषार्थतायाः विषमेवार्थो विषार्थस्तद्भावस्तत्ता तस्याः विषतायाः सामर्थ्यमात्रमेतम् प्रतिपादितम्, नोचैव खलु नैव कदाचित् संपत्त्या पूर्ववर्णिततनुसप्राप्तिद्वारेण तथाविधतनुं विषव्याप्ताम् अकार्पुः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति वा वृश्चिका इति शेषः, अत्रैकवचनप्रकरणेऽपि वृश्चिकाशीविषाणां बहुत्वज्ञापनार्थं बहुवचननिर्देशो बोध्यः, वृश्चिकादीनां

जन्य विषसे अर्द्धभरतक्षेत्रप्रमाण शरीरको कुछअधिक २६३ योजन प्रमाणवाले शरीरको व्याप्त करनेमें समर्थ हो सकता है। किन्तु 'विसए से विसट्टयाए नो चेव णं संपत्तीए करेसु वा करेति वा, करिस्संति वा' ऐसा जो कथन किया गया है वह केवल उनके उस विषका सामर्थ्यमात्र प्रतिपादित किया गया है। क्योंकि उन वृश्चिकाके विषने इतने बड़े शरीरमें घुस करके प्रविष्ट होकरके पहिले कभी न तो उसे विष व्याप्त किया है और न वर्तमानमें उसे वे अपने विषसे व्याप्त करते हैं और न आगे भी वे उसे अपने विषसे व्याप्त करेंगे। यहां एकवचनके प्रकरणमें भी सूत्रकार द्वारा वृश्चिका-शीविषोंमें बहुत्वजनानेके लिये 'करेसु' आदिरूपसे बहुवचनका प्रयोग किया गया है। इन वृश्चिक आदिकोंका त्रिकालमें भी अभाव नहीं

पैतानी दाढी उत्पन्न थयेला अेर वडे अडधा भरतक्षेत्र प्रमाण शरीरने - ६६३ अधिक २६३ योजनवाणा शरीरने - व्याप्त करवाभा शक्तिशाणी होई शके छे. किंतु 'विसए से विसट्टयाए नोचेवणं संपत्तीए करेसु वा करेतिवा, करिस्संति वा' अेवुं ने कडेवामां आव्यु छे ते इकत तेमना ते अेरनु सामर्थ्य मात्र अताववा भाटे न कडेल छे डेभडे ते वृश्चिक आदिना अेरे आवडा मोटा शरीरमा प्रवेश करीने पहिलां होईपणु समय नतो तेने विष व्याप्त कथुं छे? अगर वर्तमानमा तेने पैताने अेरथी व्याप्त करे छे, अने लविष्यमां पणु तेने पैताना विषथी व्याप्त करथे नडी. अही अेके वचनना प्रकरणमां सूत्रकारे वृश्चिक आशीविषेमा अडुत्व अणुाववा 'करेसु' आदि रूपथी अडुवचनना प्रयोग-कथे छे आ वृश्चिक आदिअेतेना तणे कागमां अभाव होतो नथी-

प्राकालिकत्वज्ञापनार्थं च त्रिकालनिर्देशो बोध्यः । गौतमः पृच्छति—‘मङ्गकजाइ-  
भासीविसपुच्छा ?’ हे भवन्त ! मङ्गकजात्याशीविषपृच्छा - मङ्गकजात्याशी  
विषस्य विषत् विषयव्यापनसामर्थ्यं वर्तते इति प्रश्नः, मगवानाह—‘गोयमा !  
पभू ण मङ्गकजाइभासीविसे भरहप्पमाणमेव बोदिं विसेण विसपरिगय, सेस त  
खेव जाव करेस्सति वा’ हे गौतम ! मङ्गकजात्याशीविषो भरतप्रमाणमात्रं भरतं  
भरतक्षेत्रालक्षणं प्रमाण मात्रा इयत्ता यस्यास्ताम् तनुं शरीरम् विषेण स्वदप्प-  
जन्पेन करणभूतेन विषपरिगतां विषत्वमात्रां श्लेष तदेव यावत्— विषसन्ती  
स्वेन व्याप्यमानां कर्तुं प्रसूः समर्थः किन्तु तद् विषस्य विषयमात्रमेतत्  
प्रतिपादितम् ननु कदाचित् स्वसम्पत्त्या भरतक्षेत्रप्रमाणतनुंसंप्राप्तिद्वारेण  
वाहसतनुं विषन्यास्ताम् अकार्युः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति वा २ ‘एव उरगजाइ

होता है अर्थात् वृद्धिक आदिकोका सदा ही सद्भाव बना रहता है  
किसी भी कालमें इनका अस्वभाव नहीं हो पाता है इस बातको  
सूचित करनेके लिये यहाँ त्रिकालका निर्देश किया गया है । अब  
गौतमरवामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं ‘मङ्गकजाइ भासीविसपुच्छा’ हे  
भवन्त ! जो मङ्गकजातिके आशीविष हैं उनके विषमें अपने द्वारा  
कितने बड़े शरीरको व्याप्त करनेका सामर्थ्य है ? अर्थात् मङ्गकजातिके  
आशीविषोंका विष कितनेबड़े शरीरको अपने विषसे व्याप्त कर  
सकता है ? इस प्रश्नके उत्तरसे प्रसू कहते हैं ‘गोयमा’  
हे गौतम ! ‘पभू ण मङ्गकजाइ भासीविसे भरहप्पमाणमेव  
बोदिं विसेण विसपरिगयं, सेस तं खेव जाव करेस्सति वा’ मङ्गक  
जातिके आशीविष अपने विषके द्वारा भरतक्षेत्र प्रमाणमात्र शरीर  
को व्याप्त कर सकते हैं । ‘याकी और सब कथन पहिले जैसा यहाँ

अर्थात् जबकि आदिजानो, कभीसां सहभाव न रहे के इच्छिष्यु कालमें तमने  
असहभाव केतो न नथी के जताववा - सुमित करवा भाटे नकी जा नखे कालने।  
निर्देश करेके छे कने जौतम स्वामी मङ्ग (देका) अति आशीविष सअधभां अ  
करवा ठके छे के ‘मङ्गक जाइ भासीविस पुच्छा’ हे लभन् । न मङ्ग अतिना  
(देका) आशीविष छे तेना विषमां केटका मेरा शरीरमा प्रवेश करवानुं  
सामर्थ्य छे अर्थात् मङ्ग अति (देका) न आशीविषोनुं मेर केटका मेरा शरीरने।  
पितामा मेरबी अर्थात् करी शके छे उत्तर- ‘गोयमा’ हे जौतम ! ‘पभू ण मङ्ग-  
जाइ भासीविसे भरहप्पमाणमेव बोदिं विसेण विसपरिगय सेस त खेव जाव  
करेस्सति वा’ मङ्ग (देका) अतिना आशीविष पिताना उरबी भरतक्षेत्र प्रमाण  
मात्र शरीरने व्याप्त करी शके छे, आशीनुं तमाम कथन पहिलां अद्य प्रभाषे न

आसीविसस्स वि' एवं वृश्चिक-मण्डूकजात्याशीविषाणामिव उरगजात्याशी विषस्यापि विषस्य विषयव्यापनसामर्थ्यादिकमवसेयम् किन्तु नवरं जंबु- द्वीवप्पमाणमेत्तं वोदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं तं चेव जाव करेस्संति वा३' नवरं वृश्चिकाद्यपेक्षया उरगजात्याशीविषस्य विशेषस्तु-स हि जम्बूद्वीपप्रमाण- मात्रां तनुम् विषेण विषपरिगतां विषत्वप्राप्तां शेष तदेव-यथोक्तानुसारमेव

पर जानना चाहिये' इस कथन से यहां ऐसा पाठ लगाना चाहिये कि मंडूक जाति के आशाविषके विषके प्रभावमें जो पूर्वोक्त रूप से कहा गया है वह उसकी सामर्थ्य दिखाने के लिये ही कहा गया है. क्योंकि ५२६-६-१९ योजन भरतक्षेत्रका प्रमाण कहा गया है यह प्रमाण जंबूद्वीप के प्रमाणका १९० वां भाग पडता है सो इतने बड़े शरीरमें प्रविष्ट होकर मंडूक जातिके आशीविषोंके विषने न पहिले कभी उसे अपने प्रभाव से प्रभावित किया है और न वह वर्तमान में ही ऐसा करता है और न वह भविष्यत् काल में भी ऐसा करेगा ही । यह तो उसकी सामर्थ्य मात्रका कथन किया गया है । 'एवं उरगजाइ आसीविसस्स वि' जिस तरह से वृश्चिक और मंडूक जातिके आशीविषोंके विषका प्रभाव प्रकट किया गया है, उसी प्रकार में उरगजातिके आशीविषोंके विषसे व्याप्त होनेके विषय में भी जानना चाहिये । परन्तु यहां पर जिस शरीरको वे अपने विषसे व्याप्त करते हैं वह शरीर भरतक्षेत्रप्रमाण नहीं होता है किन्तु जंबूद्वीपप्रमाण होता है । यही बात 'नवरं जंबुद्वीवप्पमाणमेत्त

समञ्जसु' आ कथनमा एवेा पाठ अडिआ समञ्जवानो के मंडूक जातिना आशीविषना अरेना प्रभावमां ने पडेला कडेवामा आवुं छे ते तेनी शक्तिना वरुंन माटे न कडेवामां आवेल छे केभडे ५२६-६-१९ योजन भरतक्षेत्रनु प्रमाण कडेल छे. आ प्रमाण नज्बूद्वीप प्रमाणना १९० मा लाग नेटलुं छे तो अटला मोटा शरीरमा प्रवेश करी व्याप्त थडं शके छे, परंतु प्रवेश थडंने मंडूक जातिना आशीविषोना अरे पडेला कोष वंभत तेने पोताना प्रभावथी प्रभावित करेल नथी अने वर्तमानमा यलु तेवु करता नथी अने भविष्यमा यलु तेवुं करथे नडीं आतो केवण शक्ति मात्रण णतावेल छे ' एवं उरगजाइ आसीविसस्सवि' नेवी रीते वृश्चिक (वीष्ण) अने मंडूक (हेडका) जातिना आशीविषोना अरेना प्रभाव नज्बूद्वीप छे तेव रीते उरग (सर्प) जातिना आशीविषोना अरेना इलावेा थवाना विषयमा यलु समञ्ज देवु परंतु अडिआ ने शरीरने ते पोताना अरेथी व्याप्त करे छे ते शरीर भरतक्षेत्र प्रमाण छेतुं



यावत्-विकसन्तीं विपव्यातां कर्तुं प्रभुः समर्थ, किन्तु विपयमात्रमेत-  
 तेषां प्रतिपादितम्, नोच्चैव नैव खलु कदाचित् ते उरगजात्पाशीविपा-  
 सम्पत्त्या नम्बूद्रीपप्रमाणमात्रां तनु सम्प्राप्य विपव्याताम् अकार्पुः, कुर्वन्ति  
 करिष्यन्ति वा इति, 'मणुस्सजाइआसीविसस्स वि एव चेष, 'नखरं समय  
 खेत्तप्पमाणमेत्त षोदिं विसेणं विसपरिगयं सेसं त चेष जाव करेस्सति वा ४,  
 मनुष्यजात्याशीविपस्यापि एवञ्चैव उरगमात्पाशीविपस्येव विपस्य  
 विपयव्यापनसामर्थ्यमवसेयम्, किन्तु नखरं विशेषस्तु समयक्षेत्रप्रमाण  
 मात्रां समयक्षेत्र मनुष्यक्षेत्रलक्षण प्रमाणमेव मात्रा इपचा यस्यास्ताम् सार्द्धं  
 द्वयद्वीपप्रमाणां तनुम् विपेण विपपरिगतां विपत्वप्राप्तां ज्ञेय तदेष  
 पूर्ववदेव यावत्-विकसन्तीं विपेण व्याप्यमानां कर्तुं प्रभुः समर्थः, किन्तु

षोदिं विसेण विसपरिगय, सेसं तं चेष जाव करेस्सति वा ३, इससूत्र  
 पाठ द्वारा प्रकट की गई है। परन्तु उन उरगजातिके आशीविपोंके  
 विपने अभी तक इतने बड़े जम्बूद्वीप प्रमाण शरीरको न भूतकालमें  
 कभी व्याप्त किया है, न वर्तमानमें वह व्याप्त करता है, और न  
 भविष्यत्कालमें वह उसे व्याप्त करेगा। 'मणुस्सजाइ आसीविसस्स वि  
 एवंचेष' मनुष्यजातिके विपके प्रभावके विपयमें भी ऐसा ही जामना  
 चाहिये। 'नखरं समयखेत्तप्पमाणमेत्त षोदिं विसेणं विसपरिगय सेसं  
 त चेष जाव करेस्सति वा ४' किन्तु मनुष्यजातिके आशीविपोंका विप  
 अपने प्रभावसे जिस शरीरको व्याप्त कर सकता है उस शरीरका  
 प्रमाण डाई द्वीपप्रमाण है। डाई द्वीपका जितना प्रमाण कहा गया है  
 उतना ही प्रमाण उस शरीरका है कि जिस शरीरको मनुष्यजातिके

नहीं परंतु जम्बूद्वीप प्रमाण होना है जैसा वात 'नखरं जम्बूद्वीपप्रमाणमेत्त षोदिं  
 विसेण विसपरिगयं सेसं त चेष जाव करेस्सति वा ३' का अनुवाद भी प्रकट  
 करेगा है परंतु ते उरग जातिना आशीविपाना उर उरु सुभी जेटहा मादा जम्बूद्वीप  
 प्रमाणमां भूतकालमा होत वपत्त व्याप्त इत्तु' नहीं, वत मानना व्याप्त करतुं नहीं  
 जाने अवस्थमा पक्षु व्याप्त करतै नहीं 'मणुस्स जाइ आसीविसस्सवि एव  
 चेष' मनुष्य जातिना आशीविपाना सेरना सामर्थ्य ना विपयमां पक्षु वेवुंत्तुं समर्थत्तु-  
 'नखरं समयखेत्तप्पमाणमेत्त षोदिं विसेण विसपरिगयं सेसं त चेष जाव  
 करिस्सति वा ४' मनुष्य जातिना आशीविपाना उर पिताना प्रभावधी ने शरीरने  
 व्याप्त करी शके है ते शरीरनु प्रमाण ज्जही द्वीप प्रमाण है जेटहे है ज्जही द्वीपनु  
 जेटहु प्रमाण करेव है तेषु प्रमाण ते शरीरनु है है ने शरीरने मनुष्य जातिना

विषयमात्र मेतदुक्त, नतु सम्पत्त्या मनुश्यक्षेत्रप्रमाणां तनुमाश्रित्य विष-  
व्याप्त्या अकार्पुः, कुर्वन्ति, करिष्यन्ति वा कदाचित् मनुष्यजात्याशीविषा  
इत्यर्थः, बहुवचनादिकं पूर्ववदवसेयम्, 'गौतमः पृच्छति—'जड कम्म आसीविसे  
किं नेरइयकम्मासीविसे. तिरिक्खजोणियकम्मआसीविसे, मणुस्सकम्म-  
आसीविसे, देवकम्मासीविसे ?' हे भदन्त ! यः कर्मासीविषः कथितः स किं  
नैरधिक कर्माशीविषः कथितः स किं नैरधिककर्माशीविषः, तिर्यग्योनिक  
कर्माशीविषः, मनुष्यकर्माशीविषः, देवकर्माशीविषो वा भवति ? भगवानाह—

आशीविषोका विष अपने प्रभावसे व्याप्त कर सकता है । पर ऐसा  
कथन केवल उस विषका सामर्थ्य को दिखलानेके लिये ही प्रकट  
किया गया है क्योंकि उसविषने आजतक भूतकालमें न ऐसा किया  
है, न वह वर्तमानमें करता है, और न भविष्यमें भी वह ऐसा  
करेगा ही । सामर्थ्य दिखानेका तात्पर्य ऐसा है कि यदि इतना  
बड़ा कोई शरीर हो तो वह जहर अपने प्रभावसे उसे पूर्णरूप में  
जहरीला कर सकता है । अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं  
'जड कम्मआसीविसे किं नेरइय कम्मआसीविसे, तिरिक्खजोणिय  
कम्मासीविसे मणुस्स कम्मासीविसे देवकम्मासीविसे' हे भदन्त ! जो  
कर्माशीविष कहा गया है वह कर्माशीविष कौन है ? क्या नैरधिक  
कम्मशीविष है, या तिर्यग्योनिक जीव कम्मशीविष है ? या मनुष्य  
कर्माशीविष है ? या देवकर्माशीविष है ? पूछनेका अभिप्राय ऐसा है  
कि जिन्हे कर्माशीविष कहा गया है वे कर्माशीविष कौन से जीव  
होते हैं— क्या चारोगतिके जीव कर्माशीविष होते हैं ? इसके उत्तरमें

आशीविषोनु अेर पोताना प्रलावथी व्याप्त करी शके छे परतु ओषु कथन डेवण ते  
तेओनी शक्ति द्धाववा भाटेण ज्ज्यावेव छेकेभडे तेअरे आण सुधी, भूतकाणमां ओषुं  
कथुं नथी, वर्तमानमां तेवु करता नथी अने अविष्यमा तेवु करी पथु नडी शक्ति  
अताववाने हेतु ओ छे के ने आवडु ओट्टु ओथ शरीर डोय तो ते अेर पोताना  
प्रलावथी तेने स पूर्युं रीते अेर युक्त करी शके

प्रश्न— 'जड कम्मआसीविसे किं नेरइयकम्मआसीविसे, तिरिक्ख  
जोणिय कम्मासीविसे, मणुस्स कम्मासीविसे, देवकम्मआसीविसे' हे भगवन्  
ने कर्माशीविषो कडेवा छे, ते कर्माशीविष डोषु छे ? शुं नारकिय कर्माशीविष छे ?  
अथवा तिर्यंय योनीक एव कर्माशीविष छे ? के मनुष्य कर्माशीविष छे ? के देव  
कर्माशीविष छे ? पूछवाने हेतु ओ छे के नेने कर्माशीविष कथा छे ते कर्माशीविष  
क्या एवो डोय छे. शुं आरे गतिवाणा एव कर्माशीविष छे ? उत्तर— 'गोयमा !

'गोयमा ! नानेरइयकम्मासीविसे, तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे वि, मणुस्सकम्मासीविसे वि, देवकम्मासीविसे वि' हे गौतम ! कर्मांशीविषः स्वच्छ नो नैरयिककर्मांशीविषो भवति, अपितु कर्मांशीविषः तिर्यग्योनिककर्मांशीविषोऽपि, मनुष्यकर्मांशीविषोऽपि, देवकर्मांशीविषोऽपि भवति, गौतम पृच्छति - 'नइ तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे किं एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे भाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ?' हे मद्दन्त ! यस्तिर्यग्योनिककर्मांशीविषो भवति स किम् एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिककर्मांशीविषो भवति, यावत् - इन्द्रिय-श्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविषो वा भवति ? मगधानाइ - 'गोयमा !

प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो नैरइयकम्मासीविसे, तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे वि, मणुस्सकम्मासीविसे वि, देव कम्मासीविसे वि' नैरयिकर्मांशीविष नहीं हैं। किन्तु तिर्यग्योनिक जो जीव हैं वे कर्मांशीविष हैं, तथा जो मनुष्यगतिका जीव हैं वे कर्मांशीविष हैं, देवगतिके जो जीव हैं वे कर्मांशीविष हैं। अथ गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते है कि 'अइतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे किं एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे भाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिय कम्मासीविसे' हे मद्दन्त ! जो तिर्यग्योनिक जीव कर्मांशीविष होता है सो वह कौनसा जीव कर्मांशीविष होता है ? क्या एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिकजीव कर्मांशीविष होता है या यावत्-चेन्द्रियतिर्यग्योनिक जीव कर्मांशीविष होता है ? या तेइन्द्रियतिर्यग्योनिकजीव कर्मांशीविष होता है ? या चौरिन्द्रियतिर्यग्योनिकजीव कर्मांशी

वे गौतम ! ' नो नैरइयकम्मासीविसे, तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे वि मणुस्सकम्मासीविसे वि देवकम्मासीविसे वि ' नैरयिक एवं कर्मांशीविष होता नहीं परंतु तिर्यंय येनीं एवं वे ते कर्मांशीविष ए तथा वे मनुष्य भवतिना एवं ते ते कर्मांशीविष ए अने देववतिना एवं कर्मांशीविष ए प्रभु- ' नइ तिरिक्खजोणिय कम्मासीविसे किं एगिंदिय तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे भाव पंचिंदिय तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ' हे मद्दन्त ! न तिर्यंय येनीं एवं कर्मांशीविष होता ए ते एवं एते कर्मांशीविष ए । शु अइइय तिर्यंय येनीं एवं कर्मांशीविष होता ए । अइइय एवं तिर्यंय येनीं एवं कर्मांशीविष होता ए । ते अइइय तिर्यंय येनीं एवं कर्मांशीविष होता ए ? हे अइइय अने पंचं एदिक्खजोणिय तिर्यंय येनीं एवं

नो एगिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, जाव नो चउरिंदियतिरिक्ख-  
जोणियकम्मासीविसे, पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ' हे गौतम !  
तिर्यग्योनिककर्माशीविषो नो एकेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति,  
यावत् नो द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति,  
अपित्तु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति । गौतमः पृच्छति - 'जइ  
पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे किं संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्ख-  
जोणियकम्मासीविसे, गवभवक्कतियपंचिंदियतिरिक्खजोणिय कम्मासीविसे ?'  
हे भदन्त ! यः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति स किं समूच्छिम-  
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति ? किं वा गर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रिय-

विष होता है ? या पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकजीव कर्माशीविष होता  
है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो एगिंदिय  
तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, जाव नो चउरिंदियतिरिक्खजोणिय-  
कम्मासीविसे' न एकेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव कर्माशीविष होते हैं  
और न वेन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रियजीव कर्माशीविष होते हैं  
किन्तु 'पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे' जो पंचेन्द्रिय  
तिर्यग्योनिक जीव है वे कर्माशीविष होते हैं । अब गौतम स्वामी  
प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे  
किं संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे, गवभवक्कतिय  
तिरिक्ख जोणिय कम्मासीविसे ?' हे भदन्त ! जो पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिक  
जीव कर्माशीविष कहे गये हैं-वे कौनसे पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिकजीव  
कर्माशीविष कहे गये हैं - क्या जो जीव समूच्छिम पंचेन्द्रिय  
तिर्यग्योनिक हैं वे कर्माशीविष कहे गये हैं या जो गर्भजन्मवाले पंचेन्द्रिय

कर्माशीविष छे. उत्तर - 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो एगिंदियतिरिक्खजोणिय  
कम्मासीविसे, जाव नो चउरिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे'  
अइन्द्रिय, वे इन्द्रिय, तथु इन्द्रिय अने चार इन्द्रियवाणां एवे कर्माशीविष होता नथी  
परवु पंचिंदिय तिरिक्ख जोणिय कम्मासीविसे' वे पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक एव होय  
छे तेन कर्माशीविष होय छे अथ-जइ पंचिंदिय तिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे  
किं संमुच्छिमपंचिंदियतिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे, गवभवक्कतिय तिरिक्ख  
जोणिय कम्मासीविसे ?' हे भगवान् वे पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक एव कर्माशीविष  
कहा छे ते क्या ? थु वे एव समूच्छिम पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक छे तेने कर्माशीविष कहा  
छे ? हे वे गर्भ जन्मवाणां पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक एव छे तेने कर्माशीविष कहा छे ?

तिर्यग्योनिककर्माशीषिपो मचति? भगवानाह- 'एव जहा वेठञ्चियसरीरस्स भेदो जाव पञ्जत्तसखेज्जवासाउयगम्भवक्क तियप चिंदियतिरिक्खजोणियकम्मा सीविसे, नो अपज्जत्तसखेज्जवासाउयजावक्कम्मासीविस' हे गौतम ! एव यया - वैक्रियञ्चरीरस्य भेदो यावत् - प्रज्ञापनायाम् एकचित्तवित्तम शरीर पदे वैक्रियं कथयता भगवता जीवमदः कथितस्तथाऽप्रापि कथयितव्यः, तत्र चैत्थमुक्तम्- 'गोयमा ! नो समुच्छिमपचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासी विस, गम्भवक्क तियप चिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविस, नइ गम्भवक्कतियप चिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे किं सखेज्जवासाउयगम्भवक्क तियप चिंदिय-

तिर्यं च ह्ये धे कर्माशीषिप कहे गये ह्ये ? इमके उत्तर में प्रष्टु कहते हैं 'एवं जहा वेठञ्चियसरीरस्स भेदो जाव पञ्जत्तसखेज्जवासाउय गम्भवक्कतियपचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे - नो अपज्जत्त सखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविस' हे गौतम ! जिस प्रकार से प्रज्ञापनाके २१ वे अघगाहना सस्थान पदमें वैक्रियका कथन करते हुए भगवानने जीव भेद कहा है उमी तरहसे यहां पर भी कहना चाहिये-यहां पर इस प्रकारसे कहा गया है- 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो समुच्छिमपचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे' 'समुच्छिम पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकजीव कर्माशीषिप नहीं है किन्तु 'गम्भवक्क तियपचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविस' गर्मजपञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव कर्माशीषिप हैं । 'जइ गम्भवक्कतिय पंचिंदिय तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे' इस पर गौतम स्वामी प्रसुस ऐसा पूछते हैं कि हे भदन्त ! यदि गर्मज पञ्चेन्द्रिय तिर्यं च कर्माशीषिप है तो कौन-से गर्मज पञ्चेन्द्रियतिर्यं च कर्माशीषिप हैं ? 'किं सखेज्ज

उत्तर- 'एव जहा वेठञ्चियसरीरस्स भेदो जाव पञ्जत्तसखेज्जवासाउय गम्भवक्क तियपचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविस, नो अपज्जत्त सखेज्ज वासाउय जाव कम्मासीविसे' हे गौतम ! २१ वीं प्रज्ञापनाया २१ मा अघगाहना सस्थान पदमां क्रियन्तु इत्थं कथं अज्जाने न वेठं क्खं छे तेन रीतं क्खंती मा पद्यु समञ्जसा त्या अज्जण जेवी रीते ह्यं छे हे 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो समुच्छिमपचिंदिय तिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे' 'समुच्छिम पंचिंदिय तिक्ख' योती छव कर्माशीषिप होला नहीं. परंतु 'गम्भवक्कतिय पंचिंदिय तिरिक्ख जोणियकम्मासीविसे' जस व पञ्चेन्द्रिय तिक्ख योती छव कर्माशीषिप छे अज्ज- जाइ गम्भवक्क तियपचिंदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे' हे गौतम ! २१ मा अघगाहना सस्थान पदमां क्रियन्तु इत्थं कथं अज्जाने न वेठं क्खं छे तेन रीतं क्खंती मा पद्यु समञ्जसा त्या अज्जण जेवी रीते ह्यं छे हे 'गोयमा' हे गौतम !

तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे असंखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे ? 'गोयमा ! संखेज्जवासाउय-जाव-कम्मासीविसे, नो असंखेज्जवासाउय-जाव-कम्मासीविसे । जइ संखेज्जजावकम्मासीविसे किं पज्जत्तसंखेज्जजाव-कम्मासीविसे, अपज्जत्तसंखेज्जजावकम्मासीविसे ? गोयमा !' इत्यादि, अतः परं मूले वर्तते एव, तथा च हे गौतम । पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो नो समूर्च्छिमपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति, अपितु गर्भव्यु-

वासाउय गवभवककतिय पंचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ' क्या वे कि जो संख्यातवर्षकी आयुवाले हैं ? या कि 'असंखेज्जवासा उयजाव कम्मासीविसे' वे जो असंख्यातवर्ष कि आयुवाले हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'संखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' जो तिर्यच संख्यातवर्षकी आयुवाले हैं वे कर्माशीविष हैं 'नो असंखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' असंख्यातवर्ष की आयुवाले भोगभूमिक गर्भज तिर्यच कर्माशीविष नहीं हैं । इस पर गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि यदि संख्यातवर्ष की आयुवाले कर्मभूमिज तिर्यच कर्माशीविष हैं तो इनमें 'किं पज्जत्त संखेज्जवासा उय जाव कम्मासीविसे ? अपज्जत्त जाव कम्मासीविसे' जो पर्याप्त संख्यातवर्षकी आयुवाले कर्मभूमिज पंचेन्द्रियगर्भज तिर्यच हैं वे कर्माशीविष हैं या जो अपर्याप्त संख्यातवर्षकी आयुवाले कर्मभूमिज पंचेन्द्रिय गर्भज तिर्यच हैं वे कर्माशीविष हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! इत्यादि- इसके बादका पाठ मूलमें है

' किं संखेज्जवासाउय गवभवककतिय, पंचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे ' शु ते के ने सभ्यात वर्षनी आयुषवाणा छे ? अगर 'असंखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' ते के ने असभ्यात वर्षनी आयुषवाणा छेय छे ? उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! 'संखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' ने तिर्यच सभ्यात वर्षनी आयुषवाणा छे ते कर्माशीविष छे. 'नो असंखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' असभ्यात वर्षनी आयुषवाणा लोगभूमिक गर्भज तिर्यच कर्माशीविष होता नथो. अश्र- ने सभ्यात वर्षनी आयुषवाणा कर्मज भूमिज तिर्यच कर्माशीविष छे तो तमा ' किं पज्जत्तसंखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे ? अपज्जत्त जाव कम्मासीविसे ? ने पर्याप्त सभ्यात वर्षनी आयुषवाणा कर्म भूमिज पञ्चेन्द्रिय गर्भज तिर्यच छे ते कर्माशीविष छे ? के ने अपर्याप्त सभ्यात वर्षनी आयुषवाणा कर्मभूमिज पञ्चेन्द्रिय तिर्यच छे ते कर्माशीविष छे ? उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! इत्यादि आना पछीना

स्कान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो भवति, इति भावः। गौतमः पृच्छति - यो गर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो भवति स किं संस्रयेयवर्षायुष्कगर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो भवति ? किं वा असंस्रयेयवर्षायुष्कयावत्-गर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो वा भवति ?

भगवानाह-गौतम ! गर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक कर्मांशीविपो संस्रयेयवर्षायुष्कयावत् गर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो भवति, नो असंस्रयेयवर्षायुष्कयावत् - गर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो भवति, गौतमः पृच्छति-यदिः संस्रयेयवर्षायुष्क यावत् गर्मव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविपो भवति स किम् पर्याप्तकमप्येष यावत् गर्मव्युत्क्रान्तिक-

ही तात्पर्य कहनेका यह है कि जो गर्मज पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त कर्मभूमिज तिर्यग्योनिक जीव हैं वे कर्मांशीविप हैं इस के सिवाय के तिर्यग्योनिक जीव कर्मांशीविप नहीं हैं।

गौतम भगवानसे पूछते हैं हे भदन्त ! जो गर्मव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविप होता है तो क्या वह संस्रयातवर्षकी आयुवाला, कर्मांशीविप होता है अथवा असंस्रयातवर्षकी आयुवाला कर्मांशीविप होता है। इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि हे गौतम! संस्रयातवर्षकी आयुवाला गर्मव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक कर्मांशीविप होता है किन्तु असंस्रयातवर्षकी आयुवाला वह कर्मांशीविप नहीं होता है। फिर गौतम पूछते हैं-हे भदन्त यदि जो संस्रयातवर्षकी आयुवाला गर्मव्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्मांशीविप

भूयात्क सूत्रात् मां आपीते। ७ कहेवाने जव जे ७ ठे जे जल व पञ्चेन्द्रिय पञ्चित कर्मभूमिज तिर्यग्योनी जव ७ ते कर्मांशीविप ७ तेना सिवायना जव कर्मांशीविप नही। गौतम प्रश्न भगवानने पूछे ७ ठे- हे भगवन् जे जव जल व्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनीवाणा जव कर्मांशीविप होव ७ ते तु संस्रयातवर्षकी आयुवाला कर्मांशीविप होव ७ ? हे असंस्रयातवर्षकी आयुवाला कर्मांशीविप होव ७ ? तेना उत्तरमां प्रश्न जे ७ ठे- हे गौतम! संस्रयातवर्षकी आयुवाला जल व्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनी कर्मांशीविप होव ७, परंतु असंस्रयातवर्षकी आयुवाला ते कर्मांशीविप होवा नही। गौतम स्वामी द्वीरी पूछे ७ ठे- हे भगवन् जे संस्रयातवर्षकी आयुवाला जल व्युत्क्रान्तिक पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्योनी कर्मांशीविप होव ७ ते तु ते

वर्षायुष्कपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति ? किं वा अपर्याप्तकसंख्येय यावत् गर्भव्युत्क्रान्तिकवर्षायुष्क पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति ? भगवानाह— 'गोयमा ! पञ्चसंखेज्जवासाउयगवभवक्कंतिय पंचिंदियतिरिक्ख-जोणियकम्मासीविसे, नो अपज्जत्तसखेज्जवासाउय जाव कम्मासीविसे' हे गौतम ! संख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषः पर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्कगर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिककर्माशीविषो भवति, नो अपर्याप्तकसंख्येयवर्षायुष्क यावत् - गर्भव्युत्क्रान्तिकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिक-कर्माशीविषो भवतीति ।

गौतमः पृच्छति - 'जइ मणुस्सकम्मासीविसे किं संमुच्छिमणुस्स-कम्मासीविसे, गवभवक्कतियमणुस्सकम्मासीविसे ? हे भदन्त ! यो मनुष्य-कर्माशीविषो भवति स किं समूच्छिममनुष्यकर्माशीविषो भवति ? किं वा गर्भव्युत्क्रान्तिकमनुष्यकर्माशीविषो भवति ? भगवानाह - 'गोयमा ! णो स मुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे, गवभवक्कंतियमणुस्सकम्मासीविसे' हे गौतम !

होता है तो क्या वह पर्याप्त अवस्थामें होता है अथवा अपर्याप्त अवस्थामें कर्माशीविष होता है ? इस पर भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! वह पर्याप्त अवस्थामें कर्माशीविष होता है किन्तु अपर्याप्त अवस्थामें कर्माशीविष नहीं होता है ।

अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पृच्छते हैं 'जइ मणुस्स कम्मासी-विसे किं संमुच्छिममणुस्सकमासीविसे, गवभवक्कतियमणुस्स कम्मासीविसे' हे भदन्त ! यदि मनुष्य कर्माशीविष है तो कौन से मनुष्य कर्माशीविष हैं ? क्या वे जो समूच्छिम मनुष्य हैं या वे कि जो गर्भज मनुष्य हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'णो संमुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे' जो मनुष्य समूच्छिम जन्मवाले

पर्याप्त अवस्थाभा डोय छे ? हे अपर्याप्तावस्थाभा कर्माशीविष डोय छे ? तेने उत्तर आपता भगवान् कहे छे हे गौतम ते पर्याप्तावस्थाभा कर्माशीविष डोय छे, परंतु अपर्याप्तावस्थाभा कर्माशीविष डोता नथी

प्रश्न- 'जइ मणुस्स कम्मासीविसे, किं समूच्छिममणुस्सकम्मासीविसे, गवभवक्कंतियमणुस्सकम्मासीविसे' हे भगवान् ! ने मनुष्य कर्माशीविष डोय तो क्या मनुष्य कर्माशीविष छे ? शु ते समूच्छिम मनुष्य छे ते हे ने गर्भज मनुष्य छे ते ? उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! 'णो संमुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे' ने मनुष्य समूच्छिम जन्मवाणा डोय ते कर्माशीविष डोता नथी परंतु 'गवभवक्कतिय



मनुष्यकर्माशीविषो नो ममूर्च्छिममनुष्यकर्माशीविषो भवति, अपितु गर्मभ्युत्क्रान्तिकमनुष्यकर्माशीविषो भवति 'एव जहा वेदभियसरीरं जाव पञ्च स खेज्जवासाउय कम्मभूमियगम्भवकतिय मणुस्सकम्मासीविसे, नो अपञ्चत्तमाव कम्मासीविसे' एवं यथा वैक्रियशरीर प्रहापनाया एकविंशतिवसे शरीरपदे प्रतिपादित तथैव यावत् मनुष्यकर्माशीविष पर्याप्तकस रूपेयवर्षापुष्कर्मभूमि जगर्मभ्युत्क्रान्तिकमनुष्यकर्माशीविषो भवति, ना अपर्याप्तक-यावत्-स रूपेय-वर्षापुष्कर्मभूमिजगर्मभ्युत्क्रान्तिकमनुष्य कर्माशीविषो भवति ॥सू० १॥

मूलम्—जइ देवकम्मासीविसे किं भवणवासि देव कम्मासी-  
विसे जाव वेमाणियदेवकम्मासीविसे ? गोयमा ! भवणवासि  
देवकम्मासीविसे, वाणमत्तरदेवकम्मासीविसे, जोइसियदेव  
कम्मासीविसे, वेमाणियदेवकम्मासीविसे, जइ भवणवासिदेव

हैं वे कर्माशीविष नहीं हैं, किन्तु 'गम्भवकतियमणुस्सकम्मासी-  
विसे' जो गर्मज जन्मवाले मनुष्य हैं वे कर्माशीविष हैं । 'एवं जहा  
वेदभियसरीरं जाव पञ्चसखेज्जवासाउयकम्मभूमियगम्भवकतिय  
मणुस्स कम्मासीविसे, ना अपञ्चत्त जाव कम्मासीविसे' जिस प्रकारसे  
प्रहापना के २१ वं अवगाहना संस्थान पदमें वैक्रिय शरीरका प्रतिपादन  
किया गया है उसी प्रकारसे जो मनुष्य पर्याप्त हैं, स रूपेयवर्ष की  
आयुवाला है, कर्मभूमिज है, और गर्मज है ऐसा वह मनुष्य  
कर्माशीविष है— अपर्याप्तक स रूपेयवर्षकी आयुवाला कर्मभूमिज  
गर्मजमनुष्य कर्माशीविष नहीं है ॥सू० १॥

मणुस्स कम्मासीविसे' न भवति न भवता मनुष्य ॥ वे कर्माशीविष ॥ 'एवं जहा  
वदभियसरीरं जाव अपञ्चत्त सखेज्जवासाउय कम्मभूमियगम्भवकतिय  
मणुस्सकम्मासीविसे, नो अपञ्चत्त जाव कम्मासीविसे' ॥ प्रभाष्ये प्रहापनाया  
२१ भां अवगाहन संस्थान पदमा वैक्रिय शरीरं प्रतिपादन कर्तुं ॥ तत्र हीते नो  
मनुष्य पर्याप्तक ॥ असम्भात वर्षानी आयुष्यवाणां छि. इमभूमिज ॥ अने जल ॥ ॥  
वेवा मनुष्य कर्माशीविष ॥ अपर्याप्तक स रूपेयवर्ष की आयुवाला कर्मभूमिज कर्मज  
मनुष्य कर्माशीविष होता नहीं ॥ सू. १ ॥

कम्मासीविसे से किं असुरकुकारभवणवासिदेवकम्मासीविसे,  
जाव थणियकुमार-जाव-कम्मासीविसे ? गोयमा ! असुरकुमार-  
भवणवासिदेवकम्मासीविसे वि, जाव' थणियकुमारभवणवासि-  
देवकम्मासीविसे वि । जइ असुरकुमार-जाव-कम्मासीविसे किं  
पज्जत्तअसुरकुमार-जाव-कम्मासीविसे, अपज्जत्तअसुरकुमार-  
भवणवासिदेवकम्मासीविसे ? गोयमा ! नो पज्जत्तअसुरकुमार-  
जाव-कम्मासीविसे, अपज्जत्तअसुरकुमारभवणवासिदेवक-  
म्मासीविसे, एवं जाव थणियकुमाराणं । जइ वाणमंतरदेव-  
कम्मासीविसे किं पिसायवाणमंतरदेवकम्मासीविसे, एवं  
सवेसिं पि अपज्जत्तगाणं । जोइसियाणं सवेसिं अपज्जत्तगाणं ।  
जइ वेमाणियदेवकम्मासीविसे किं कप्पोवगवेमाणियदेव-  
कम्मासीविसे, कप्पाइयवेमाणियदेवकम्मासीविसे ? गोयमा !  
कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे नो कप्पाइयवेमाणियदेव-  
कम्मासीविसे । जइ कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे किं  
सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, जाव अच्चुयकप्पोवग-  
जाव-कम्मासीविसे ? गोयमा ! सोहम्मकप्पोवगवेमाणिय-  
देवकम्मासीविसे वि, जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेव-  
कम्मासीविसे वि, नो आणयकप्पोवगजाव नो अच्चुयकप्पोवग-  
वेमाणियदेवकम्मासीविसे । जइ सोहम्मकप्पोवगजावकम्मासी  
विसे किं पज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे ?  
अपज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे ? गोयमा !

नो पञ्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, अपञ्जत्त  
सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, एव जाव नो  
पञ्जत्तसहस्सारकप्पोवगवेमाणिय-जाव-कम्मासीविसे, अप  
ज्जत्तसहस्सारकप्पोवग जाव-कम्मासीविसे ॥ सू० २ ॥

छाया- यदि देवकर्माशीविपः किं भवनवासिदेवकर्माशीविपः, यावत्-  
वैमानिकदेवकर्माशीविप ? गौतम ! भवनवासिदेवकर्माशीविपः, वानव्यन्तर  
देवकर्माशीविप, ज्योतिषिकदेवकर्माशीविपः, वैमानिकदेवकर्माशीविपः ।  
यदि भवनवासिदेवकर्माशीविपः, स किम् असुरकुमारभवनवासिदेवकर्माशी  
विपः, यावत् - स्तनितकुमार-यावत् - कर्माशीविपः ? गौतम ! असुरकुमार

‘जइ देवकम्मासीविसे किं भवणवासिदेवकम्मासीविसे’ इत्यादि।

सुप्रार्थ- (जइ देवकम्मासीविसे) हे भदन्त ! यदि देवकर्माशीविप  
हैं तो कौनसे देव कर्माशीविप हैं ? (किं भवणवासिदेव कम्मासीविसे,  
जाव वैमाणियदेवकम्मासीविसे) क्या जो देव भवनवासी हैं वे  
कर्माशीविप हैं या यावत् जो वैमानिकदेव हैं वे कर्माशीविप हैं ?  
(गोयमा) हे गौतम ! ( भवणवासिदेवकम्मासीविसे वाणमत्तरदेव  
कम्मासीविसे, जोइसियदेवकम्मासीविसे, वैमाणियदेवकम्मासीविसे )  
भवणवासीदेव कर्माशीविप हैं, वानव्यन्तरदेव कर्माशीविप हैं,  
ज्योतिषिकदेव कर्माशीविप हैं, और वैमानिकदेव कर्माशीविप हैं ।  
( जइ भवणवासिदेवकम्मासीविसे किं असुरकुमारभवणवासिदेव  
कम्मासीविसे जाव यणियकुमार जाव कम्मासीविसे ) हे भदन्त ! यदि

‘जइ देवकम्मासीविसे किं भवणवासिदेवकम्मासीविसे’ इत्यादि।

सुप्रार्थ- जइ देवकम्मासीविसे’ हे भदन्त ! जो देव कर्माशीविप देव के कर्मा  
देव कर्माशीविप हैं ? किं भवणवासिदेवकम्मासीविसे, जाव वैमाणियदेव  
कम्मासीविसे’ या भवनवासी देव कर्माशीविप हैं। यावत् जो वैमानिक देव  
कर्माशीविप हैं ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘ भवनवासिदेव कम्मासीविसे, वाणमत्तर  
देव कम्मासीविसे, जोइसिय देव कम्मासीविसे वैमाणिय देव कम्मासीविसे’  
भवणवासिदेव, वानव्यन्तरदेव, ज्योतिषिकदेव अने वैमानिकदेव, जो कर्मा कर्माशीविप हैं  
‘जइ भवणवासिदेवकम्मासीविसे किं असुरकुमारभवणवासिदेव कम्मासीविसे  
जाव यणियकुमार जाव कम्मासीविसे’ हे भदन्त ! जो भवनवासिदेव कर्माशीविप

भवनवासिदेवकर्माशीविषोऽपि, यावत् - स्तनितकुमारभवनवासिदेवकर्माशी-  
विषोऽपि । यदि असुरकुमार-यावत् - कर्माशीविषः किं पर्याप्तकासुरकुमार  
यावत्-कर्माशीविषः, अपर्याप्तकासुरकुमारभवनवासिकर्माशीविषः ? गौतम !  
नो पर्याप्तकासुरकुमार-यावत्-कर्माशीविषः, अपर्याप्तकासुरकुमारभवनवासि  
यावत्-कर्माशीविषः, एवं यावत् स्तनितकुमाराणाम् । यदि चानन्यन्तरदेव-

भवनवासीदेव कर्माशीविष है तो कौनसे भवनवासीदेव कर्माशीविष  
हैं क्या जो असुरकुमार भवनवासीदेव हैं वे कर्माशीविष हैं या यावत्  
स्तनितकुमार भवनवासीदेव हैं वे कर्माशीविष हैं ? ( गोयमा )  
हे गौतम ! ( असुरकुमारभवनवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव थणिय-  
कुमारभवनवासिदेव कम्मासीविसे वि ) असुरकुमारभवनवासीदेव  
भी कर्माशीविष हैं यावत् स्तनितकुमार भवनवासीदेव भी कर्माशीविष  
हैं । ( जइ असुरकुमार जाव कम्मासीविसे किं पज्जत्त असुरकुमार  
जाव कम्मासीविसे, अपज्जत्त असुरकुमारभवनवासिदेवकम्मासीविसे )  
हे भदन्त ! यदि असुरकुमार भवनवासी देव कर्माशीविष हैं तो  
कौनसे भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं ? क्या वे जो पर्याप्त असुर-  
कुमारभवनवासीदेव हैं वे या जो अपर्याप्त असुरकुमारभवनवासीदेव  
हैं वे ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( नो पज्जत्त असुरकुमार जाव कम्मा-  
सीविसे, अपज्जत्त असुरकुमार भवनवासि जाव कम्मासीविसे ) जो  
पर्याप्त असुरकुमार भवनवासी देव हैं वे कर्माशीविष नहीं हैं, किन्तु

छे ते क्वा भवनवासीदेव कर्माशीविष छे ? शुं असुरकुमार भवनवासीदेव छे ते छे  
यावत् - स्तनितकुमार देव भवनवासी छे ते देव कर्माशीविष छे ? ' गोयमा ' हे गौतम !  
' असुरकुमारभवनवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव थणियकुमारभवनवासि-  
देव कम्मासीविसे वि ' असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष छे यावत्-स्तनितकुमार  
भवनवासीदेव पणु कर्माशीविष छे ' जइ असुरकुमार जाव कम्मासीविसे किं  
पज्जत्त असुरकुमार जाव कम्मासीविसे, अपज्जत्त असुरकुमार भवनवासी  
कम्मासीविसे ' हे भगवन् ! नो असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष छे ? ते क्वा  
भवनवासीदेव, शुं ने पर्याप्त असुरकुमार भवनवासीदेव छे ? ते अथवा ने अपर्याप्त  
असुरकुमार भवनवासीदेव छे ते कर्माशीविष छे ? ' गोयमा ' हे गौतम ! ' नो  
पज्जत्त असुरकुमार जाव कम्मासीविसे, अपज्जत्त असुरकुमारभवनवासि जाव  
कम्मासीविसे ' ने पर्याप्त असुरकुमार भवनवासीदेव छे ते कर्माशीविष छे परंतु ने  
अपर्याप्त असुरकुमार भवनवासीदेव छे ते कर्माशीविष नथी ' एवं जाव थणितकुमाराणं'

कर्माशीविपः किं पिशाचवानघ्यन्तरदेवकर्माशीविपः, एव सर्वेषामपि अपर्णात्  
 फानाम्, ज्योतिषिणाणाम् सर्वेषाम् अपर्णात्फानाम्, यो वैमानिकद्वेषकर्माशी  
 विपः किं कल्पोपपन्नकर्मैमानिकद्वेषकर्माशीविपः, कल्पातीतकर्मैमानिकद्वेष  
 कर्माशीविप ? गौतम ! कल्पापपन्नकर्मैमानिकद्वेषकर्माशीविप, नो कल्पातीतक  
 र्मैमानिकद्वेषकर्माशीविप । यदि कल्पोपपन्नकर्मैमानिकद्वेषकर्माशीविप, किं

जो असुरगुमारदेव भयनयामी देव अपर्णात् हैं वे कर्माशीविप  
 हैं । (एव जाय धणियकुमागण) हमी तरहसे यावत् स्तनितकुमार  
 भयनयामीदेवों तक जानना चाहिये । (जइ बाणमंतरद्वेषकम्मासीविसे  
 किं पिसाय बाणमंतरद्वेष कम्मासीविसे) हे भदन्त ! यदि वानघ्यन्तर  
 देवकर्माशीविप हैं तो कौनसे वानघ्यन्तरद्वेष कर्माशीविप हैं ? क्या वे  
 जा पिशाचवानघ्यन्तरद्वेष हैं या और जो वानघ्यन्तर देव हैं वे ?  
 (एव मन्वेसिपि अपज्जत्तगाण, जोइसियाण मन्वेसि अपज्जत्तगाण )  
 गौतम ! जितने भी अपर्णात् वानघ्यन्तर देव हैं वे सब कर्माशीविप  
 हैं इसी तरहसे सब ज्योतिषीद्वेष अपर्णात्तावस्थामें कर्माशीविप हैं ऐसा  
 जानना चाहिये । (जइ वेमाणिय देवकम्मासीविसे किं कप्पोवगवेमा  
 णियद्वेषकम्मासीविसे, कप्पाईयवेमाणियदेवकम्मासीविसे ) हे भदन्त !  
 यदि वैमानिकद्वेष कर्माशीविप हैं तो कौनसे वैमानिकद्वेष कर्माशी  
 विप हैं ? क्या वे जो कल्पोपपन्नकर्मैमानिकद्वेष हैं ? या वे कि जो  
 कल्पातीत कर्मैमानिकद्वेष हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (कप्पोवगवेमाणिय  
 देव कम्मासीविसे, नो कप्पाईय वेमाणियद्वेषकम्मासीविसे) जो कल्पो-

अथ रीतं वाचत - स्तनितकुमार भयनयामी देव अपर्णात् सभक्तित्वं ' जइ बाणमंतरद्वेष  
 कम्मासीविसे, किं पिसायबाणमंतरद्वेष कम्मासीविसे' हे भदन्त ! नो वाक्यव्यतर  
 देव कर्माशीविपदेव छे ते वा कर्मा ? गुणे पिशाच वाक्यव्यतरदेव छे ति हे नो वानघ्यतरदेव छे ते ।  
 एव मन्वेसिपि अपज्जत्तगाण, जोइसियाण मन्वेसि, अपज्जत्तगाण' हे गौतम !  
 नेटहा अपर्णात् वानघ्यतरदेव छे ते तन्नाम कर्माशीविप छे अथ रीतं तन्नाम  
 कर्मोत्तिषिद्वेष अपर्णात् वास्तव्यमर्मा कर्माशीविप छे तेषु सभक्तित्वं ' जइ वेमाणियदेव  
 कम्मासीविसे किं कप्पोवगवेमाणियद्वेषकम्मासीविसे, कप्पाईय वेमाणियद्वेष  
 कम्मासीविसे' हे भदन्त ! नो वैमानिकद्वेष कर्माशीविप छे ते क्या वैमानिकद्वेष  
 कर्माशीविप छे ? ' गोयमा' हे गौतम ! ' कप्पोवगवेमाणियद्वेषकम्मासीविसे,  
 नो कप्पाईयवेमाणियद्वेषकम्मासीविसे' नो कल्पोपपन्न कर्मैमानिकद्वेष छे ते  
 कर्माशीविप छे अने अपर्णात् वैमानिकद्वेष कर्माशीविप छेवा नथी. ' जइ कप्पोवग

सौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषः, -यावत्-अच्युत कल्पोपपन्नक-यावत्-  
कर्माशीविषः ? गौतम ! सौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषोऽपि, यावत्  
सहस्रारकल्पोपपन्नकवैमानिकदेवकर्माशीविषोऽपि, नो आनतकल्पोपपन्नक-  
यावत्, नो अच्युतकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषः, यदि सौधर्मकल्पोपपन्नक-  
यावत् कर्माशीविषः किं पर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषः,  
अपर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नकवैमानिकदेवकर्माशीविषः ? गौतम ! नो पर्याप्तक

पपन्नवैमानिकदेव हैं वे कर्माशीविष हैं । कल्पातीत वैमानिकदेव कर्मा-  
शीविष नहीं हैं । (जह कप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे किं सोह-  
म्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, अच्युयकप्पोवग जाव कम्मासी-  
विसे ?) हे भदन्त ! यदि कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं  
तो कौनसे कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं क्या वे जो सौ-  
धर्मकल्पोपपन्नक हैं या कि वे जो यावत् अच्युतकल्पोपपन्नक हैं ? (गोयमा)  
हे गौतम ! (सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, जाव सह-  
स्सार कप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि) जो सौधर्मकल्पोपपन्नक  
वैमानिकदेव हैं वे कर्माशीविष हैं यावत् जो सहस्रारकल्पोपपन्नकवैमा-  
निकदेव हैं वे कर्माशीविष हैं । ( नो आणय कप्पोवग जाव नो  
अच्युयकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे ) परन्तु आनत कल्पोपपन्नक  
वैमानिकदेव कर्माशीविष नहीं हैं और न यावत् अच्युत  
कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं । (जह सोहम्मकप्पोवगजाव  
कम्मासीविसे किं पज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे,

वेमाणियदेवकम्मासीविसे किं सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे,  
अच्युयकप्पोवग जाव कम्मासीविसे ' हे भगवन् ! ने क्खोपपन्न वैमानिकदेव  
कर्माशीविषे ? ते क्खोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविषे ? शु सौधर्म क्खोपपन्नक  
के ? के ने यावत् - अच्युत क्खोपपन्नक के ? ' गोयमा ' हे गौतम ! सोहम्म  
कप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि जाव सहस्रारकप्पोवग वेमाणियदेव  
कम्मासीविसे वि ' ने सौधर्म क्खोपपन्नक वैमानिकदेव के ते कर्माशीविषे के यावत्-  
ने सहस्रार क्खोपपन्नक वैमानिकदेव के ते पण कर्माशीविषे के ' नो आणय  
कप्पोवग जाव नो अच्युयकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे ' परतु  
आनत क्खोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविषे होता नथी अने यावत् - अच्युत क्खोप-  
पन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविषे होता नथी ' जह सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेव-  
कम्मासीविसे किं पज्जत्तसोहम्म कप्पोवग वेमाणियदेवकम्मासीविसे अपज्जत्त

सौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषः; अपर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिक-  
 देवकर्माशीविषः, एव यावत् - नो पर्याप्तसहस्रारकल्पोपपन्नवैमानिक-  
 यावत्-कर्माशीविषः, अपर्याप्तसहस्रारकल्पोपपन्नगावत्-कर्माशीविषः । सू० २॥

टीका- गौतम पृच्छति - 'जइ देवकम्मासीविसे किं भवणवासिदेव-  
 कम्मासीविसे, जाण वेमाणियदेवकम्मासीविसे ? हे भदन्त ! यदि देवकर्माशी

(अपञ्चसगसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे ) हे भदन्त ! यदि  
 सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं तो क्या पर्याप्त सौधर्म-  
 कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं या अपर्याप्त सौधर्मकल्पोपपन्नक  
 वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं ? ( शोयमा ) हे गौतम ! ( नो पञ्चस्त-  
 न्नोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे, अपञ्चसगसोहम्मकप्पोवग-  
 वेमाणियदेवकम्मासीविसे ) पर्याप्तसौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकदेव  
 कर्माशीविष नहीं हैं, किन्तु अपर्याप्तक सौधर्मकल्पोपपन्नक  
 वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं । ( एवं जाण नो पञ्चस्तसहस्रारकप्पोवगवेमा-  
 णिय जाण कम्मासीविसे, अपञ्चस्तसहस्रारकप्पोवग जाण कम्मासी-  
 विसे ) इसी तरहसे यावत् पर्याप्त सहस्रारकल्पोपपन्नकदेव कर्माशीविष  
 नहीं हैं किन्तु अपर्याप्तसहस्रार कल्पोपपन्नकदेव कर्माशीविष हैं

टीकार्थ-गौतमस्वामी प्रश्नसे पूछ रहे हैं कि 'जइ देवकम्मासीविसे'  
 हे भदन्त ! यदि देव कर्माशीविष हैं, तो 'किं भवणवासिदेव

सोहम्मकप्पोवग वेमाणियदेव कम्मासीविसे' हे भदन्त ! नो सौधर्म अपर्याप्तक  
 वैमानिकदेव कर्माशीविष ॐ तो शु पर्याप्त सौधर्म अपर्याप्तक वैमानिकदेव कर्माशीविष  
 ॐ । हे अपर्याप्त सौधर्म अपर्याप्तक वैमानिकदेव कर्माशीविष ॐ । 'शोयमा' हे गौतम !  
 'नो पञ्चस्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे अपञ्चसग सोहम्म-  
 कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे' पर्याप्त सौधर्म अपर्याप्तक वैमानिकदेव  
 कर्माशीविष नहीं परंतु अपर्याप्त सौधर्म अपर्याप्तक वैमानिकदेव कर्माशीविष ॐ  
 'एव जाण ना पञ्चस्त सहस्रार कप्पोवगवेमाणिय जाण कम्मासीविसे,  
 अपञ्चस्त सहस्रार कप्पोवग जाण कम्मासीविसे' जेण रीते यावत् - पर्याप्त  
 सहस्रार अपर्याप्तक वैमानिकदेव कर्माशीविष नहीं किन्तु अपर्याप्त सहस्रार अपर्याप्तक वैमानिकदेव  
 कर्माशीविष ॐ

टीकार्थ- गौतम स्वामी प्रश्नसे पूछ रहे हैं 'जइ देव कम्मासीविसे' हे  
 भदन्त ! नो देव कर्माशीविष ॐ तो किं भवणवासिदेव कम्मासीविसे जाण वेमाणियदेव

विषो भवति, स किं भवनवासिदेवकर्माशीविषो भवति ? यावत् - वान-  
व्यन्तरदेवकर्माशीविषो भवति ? ज्योतिषिकदेवकर्माशीविषो भवति ?  
वैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति ? इति, भगवानाह-‘गोयमा ! भवनवासिदेव-  
कम्मासीविसे वि, वाणमंतरदेवकम्मासीविसे वि, जोइसियदेवकम्मासीविसे  
वि, वेमाणियदेवकम्मासीविसे वि’ हे गौतम ! देवकर्माशीविषो भवनावसि-  
देवकर्माशीविषोऽपि भवति, वानव्यन्तरदेवकर्माशीविषोऽपि वा भवति,  
ज्योतिषिकदेवकर्माशीविषोऽपि वा भवति, वैमानिकदेवकर्माशीविषो वापि भवति ।  
गौतमः पृच्छति - ‘जइ भवणवासिदेवकम्मासीविसे, से किं असुरकुमारभवण-  
वासिदेवकम्मासीविसे, जाव थणियकुमार-जाव-कम्मासीविसे ? हे भदन्त !  
यदि भवनवासिदेवकर्माशीविषो भवति, स किम् असुरकुमारभवनवासिदेव-

कम्मासीविसे जाव वेमाणियदेव कम्मासीविसे) क्या भवनवासीदेव कर्मा-  
शीविष हैं ? या यावत् वानव्यन्तरदेव कर्माशीविष हैं ? या ज्योति-  
षिकदेव कर्माशीविष हैं ? या वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं ? भगवान्  
इसके उत्तरमें कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘भवणवासिदेवकम्मा-  
सीविसे वि, वाणमंतरदेव कम्मासीविसे वि, जोइसियदेव कम्मासी-  
विसे वि, वेमाणियदेव कम्मासीविसे वि’ भवनवासीदेव भी कर्माशी-  
विष हैं, वानव्यन्तरदेव भी कर्माशीविष हैं, ज्योतिषिकदेव भी  
कर्माशीविष हैं, और वैमानिकदेव भी कर्माशीविष हैं। अब गौतम-  
स्वामी प्रभुसे पूछते हैं ‘जइ भवणवासिदेवकम्मासीविसे से किं असु-  
रकुमारभवणवासीदेव कम्मासीविसे, जाव थणियकुमार जावकम्मासी-  
विसे,) हे भदन्त ! यदि भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं तो क्या  
असुरकुमारभवनवासीदेव कर्माशीविष हैं या यावत् नागकुमार,

कम्मासीविसे ’ थुं भवनवासीदेव कर्माशीविष छे ? हे यावत् वानव्यन्तरदेव  
कर्माशीविष छे ? हे ज्योतिषिकदेव के वैमानिकदेव कर्माशीविष छे ? ‘गोयमा’ हे गौतम !  
‘भवणवासिदेव कम्मासीविसे वि वाणमंतरदेव कम्मासीविसे वि जोइसियदेव  
कम्मासीविसे वि, वेमाणियदेव कम्मासीविसे वि’ भवनवासीदेव वानव्यन्तरदेव,  
ज्योतिषिकदेव अने वैमानिकदेव अे सधणा कर्माशीविष छे प्रश्न- ‘जइ भवणवासिदेव  
कम्मासीविसे से किं असुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे, जाव थणिय-  
कुमार जाव कम्मासीविसे’ हे भगवन् ! जे भवनवासीदेव कर्माशीविष छे ते थुं  
असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष छे ? हे यावत् - नागकुमार, सुवर्णकुमार,



कर्माशीविषो भवति ? यावत्-नागकुमार-सुवर्णकुमार-विशुत्कुमाराभिङ्गुमार-  
 क्षीपकुमारो-दधिकुमार-दिशाकुमार-वायुकुमार-भवनवासिदेव-कर्माशीविषो  
 भवति, स्तनितकुमार-यावत्-भवनवासिदेवकर्माशीविषो भवति ? भगवानाह-  
 गोयमा ! असुरकुमारभवनवासिदेवकम्मासीविसे वि, जाव यणियकुमार जाव  
 आसीविसे वि' हे गौतम ! भवनवासिदेवकर्माशीविषोअसुरकुमार भवनवासि  
 देव कर्माशीविषोऽपि, यावत्-नागकुमारादि देवकर्माशीविषोऽपि, स्तनितकुमार  
 देवकर्माशीविषोऽपि भवति । गौतमः पृच्छति-'अह असुरकुमार-जाव-कम्मासी  
 विसे किं पञ्जचअसुरकुमार-जाव-कम्मासीविसे, अपञ्जचअसुरकुमारभवनवासि  
 कम्मासीविसे ? हे भदन्त ! यदि-असुरकुमार यावत्-भवनवासिदेवकर्माशीविषो  
 भवति स किम् पर्याप्तकासुरकुमार-यावत्-भवनवासिदेवकर्माशीविषो भवति ?  
 किं वा अपर्याप्तकासुरकुमार-यावत्-भवनवासि-देवकर्माशीविषो भवति ? भग

सुवर्णकुमार, विशुत्कुमार, अभिङ्गुमार, क्षीपकुमार, उदधिकुमार, दिशाकुमार  
 वायुकुमार, स्तनितकुमार ये दशा भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं ? इसके  
 उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'असुरकुमारभवनवासि  
 देवकम्मासीविसे वि, जाव यणियकुमार० आसीविसे वि' असुरकुमार  
 भवनवासीदेव भी कर्माशीविष हैं यावत् नागकुमारादि भवनवासीदेव  
 भी कर्माशीविष हैं । स्तनितकुमार भवनवासीदेव भी कर्माशीविष हैं ।  
 अब गौतमप्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'जइ असुरकुमारजाव कम्मासीविसे  
 किं पञ्जच असुरकुमार जाव कम्मासीविसे ? अपञ्जच असुरकुमार  
 भवनवासिदेव कम्मासीविसे' हे भदन्त ! यदि असुरकुमार भवन  
 वासीदेव कर्माशीविष हैं तो क्या पर्याप्त असुरकुमार भवनवासी  
 देवकर्माशीविष हैं या अपर्याप्त असुरकुमारभवनवासिदेव कर्माशी

विशुत्कुमार, अभिङ्गुमार, क्षीपकुमार, उदधिकुमार के दिशाकुमार, वायुकुमार,  
 स्तनितकुमार ने इस भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं ? तेना उत्तर आपता प्रभु अहं  
 'गोयमा' हे गौतम ! 'असुरकुमारभवनवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव  
 यणियकुमार आसीविसे वि' असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं यावत्-  
 नागकुमारादि देव भवनवासीदेव प्रभु कर्माशीविष हैं अने स्तनितकुमारदेव प्रभु कर्माशीविष  
 हैं अह- 'अह असुरकुमार जाव कम्मासीविसे किं पञ्जचकुमार जाव कम्मासी  
 विसे, अपञ्जच असुरकुमारभवनवासिदेव कम्मासीविसे ?' हे भदन्त ! अने  
 असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं ? तो तु पर्याप्त असुरकुमार भवनवासीदेव  
 कर्माशीविष हैं ? हे अपर्याप्त असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष हैं ? उत्तर 'गोयमा'

वानाह-‘गोयमा ! नो पञ्जत्तअसुरकुमार-जाव-कम्मासीविसे, अपञ्जत्त-असुरकुमारभवणवासि-जाव-कम्मासीविसे, एवं जाव थणियकुमाराणं’ हे गौतम ! असुरकुमारभवनवासिदेवकर्माशीविषो नो पर्याप्तकासुरकुमारयानत् भवनवासिदेवकर्माशीविषो भवति अपितु अपर्याप्तकासुरकुमारभवनवासि-यावत्-देवकर्माशीविषो भवति, एवं यावत्-नागकुमारादि-स्तनितकुमाराणामपि बोध्यम्, तथा च नागकुमारादिभवनवासिदेवकर्माशीविषाः नो पर्याप्तकनाग-कुमारादिभवनवासिदेवकर्मशीविषा भवन्ति, अपि तु अपर्याप्तकनागकुमारादि-भवनवासिदेवकर्माशीविषा भवन्ति, एवं नो पर्याप्तकस्तनितकुमारभवनवासिदेव-कर्माशीविषो भवति, अपि तु अपर्याप्तकस्तनितकुमारभवनवासिदेवकर्माशी-विषो भवति । गौतमः पृच्छति-‘जइ वाणमंतरदेवकम्मासीविसे किं पिसाय-वाणमंतरदेवकम्मासीविसे’ हे भदन्त ! यदि वानव्यन्तरदेवकर्माशीविषो भवति

विष हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’नो पञ्जत्त असुरकुमार जाव कम्मासीविसे, अपञ्जत्त असुरकुमार भवणवासि जाव कम्मासीविसे एव जाव थणियकुमाराणं’ पर्याप्तक असुरकुमार भवनवासीदेव कर्मा-शीविष नहीं होते हैं किन्तु जो अपर्याप्तक असुरकुमार भवनवासी-देव हैं वे कर्माशीविष होते हैं । इसी तरहसे नागकुमारसे लेकर स्तनितकुमारतकके भवनवासीदेवोंमें भी जानना चाहिये । तथा च जो पर्याप्तक नागकुमारसे लेकर स्तनितकुमार तकके भवनवासिदेव हैं वे कर्माशीविष नहीं होते हैं किन्तु अपर्याप्तक नागकुमारसे लेकर अपर्याप्तक स्तनितकुमारतकके भवनवासीदेव कर्माशीविष होते हैं । अब गौतमस्वामीप्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘जइ वाणमंतरदेव कम्मासीविसे’ हे भदन्त ! यदि वानव्यन्तरदेव कर्माशीविष होते हैं तो क्या

हे गौतम ! ‘नो पञ्जत्त असुरकुमार जाव कम्मासीविसे अपञ्जत्त असुरकुमार भवणवासि जाव कम्मासीविसे एवं जाव थणियकुमाराणं’ पर्याप्तक असुरकुमार भवनवासीदेव कर्माशीविष होता नहीं परंतु वे अपर्याप्तक असुरकुमार भवनवासीदेव छे ते कर्माशीविष होय छे जे जे रीते नागकुमारथी लधने स्तनितकुमार पर्यंतना भवनवासी-देवाना विषे पणु समल्ल देषु तेवी जे रीते पर्याप्तकनागकुमारथी लधने स्तनितकुमार पर्यंतना भवनवासीदेव छे ते कर्माशीविष होता नहीं परंतु अपर्याप्तक नागकुमारथी लधने अपर्याप्तक स्तनितकुमार पर्यंतना भवनवासीदेव कर्माशीविष होय छे अथ-‘जइ वाणमंतरदेवकम्मासीविसे किं पिसायवाणमंतरदेव कम्मासीविसे’ हे भगवन ! जे वानव्यन्तरदेव कर्माशीविष होय छे ? तो शु पिसाय वानव्यन्तरदेव

स किं पिशाच धानव्यन्तरदेवकर्माशीविषो भवति ? एव भूतादिगन्धर्वान्त  
 धानव्यन्तरदेवकर्माशीविषो भवति ? मगबानाह—‘एव सव्वेसिं वि अपञ्चत्तगाण’  
 हे गौतम ! एवम् असुरकुमारादिवदेव सर्वेषामपि पिशाचादिगन्धर्वान्धान-  
 व्यन्तराणाम् अपर्याप्तकानाम्, अपर्याप्तावस्थायामेव कर्माशीविषत्वं नो भवति,  
 पर्याप्तकावस्थायामित्यर्थ, एव ‘जोइसियाण सव्वेसिं अपञ्चत्तगाणं’ उच्यते  
 पिशाचां सर्वेषां चन्द्रसूर्यग्रहनक्षत्रादिताराविमानान्ठानामपि अपर्याप्तानाम्  
 अपर्याप्तकावस्थायामेव कर्माशीविषत्वं भवति, नो पर्याप्तकावस्थायामिति मात्र ।  
 गौतमः पृच्छति— ‘जइ वेमाणियदेवकम्मासीविसे किं कप्पोवगवेमाणियदेव  
 कम्मासीविसे ?’ हे मद्दन्त ! यदि वैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति स किं

पिशाचधानव्यन्तर देवकर्माशीविष होते हैं ? या भूतादिगन्धर्वान्त धान  
 व्यन्तरदेव कर्माशीविष होते हैं ? इसके उत्तरमें मनु कहते हैं ‘एव  
 सव्वेसिं वि अपञ्चत्तगाणं’ हे गौतम ! जिसप्रकारसे असुरकुमार आदि  
 कौको अपर्याप्तावस्थामें कर्माशीविष कहा गया है, वसीप्रकारसे समस्त  
 पिशाचसे लेकर गधर्वतकके धानव्यन्तरोको अपर्याप्तावस्थामें कर्माशी  
 विष कहा गया है । अत ये सब अपर्याप्तावस्थामें ही कर्माशीविष  
 होते हैं, पर्याप्तावस्थामें नहीं । एव जोइसियाण सव्वेसिं अपञ्चत्त-  
 गाण’ इसी तरहसे जितने भी चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि तारा  
 विमानतक उच्योनिपीदेव हैं वे सब अपर्याप्तावस्थामें ही कर्माशीविष  
 होते हैं पर्याप्तावस्थामें नहीं । अब गौतमस्थानी मनुसे ऐसा पूछते  
 हैं ‘जइवेमाणियदेवकम्मासीविसे, किं कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासी  
 विसे, कप्पाइय वेमाणियदेवकम्मासीविसे) हे मद्दन्त ! यदि वैमानिकदेव

कर्माशीविष होय ॐ ? हे भूतादि जघर्व पयन्तना धानव्यन्तरदेव कर्माशीविष होय ॐ ?  
 उत्तर— ‘एव सव्वेसिं वि अपञ्चत्तगाण’ हे गौतम ! हे प्रकारे असुरकुमार आदिजोने  
 अपर्याप्त अवस्थाभा कर्माशीविष कहा ॐ ओ न रीते समस्त पिशाचभी लक्षणे जघर्व  
 पयन्तना धानव्यन्तरदेवे अपर्याप्तावस्थाभा कर्माशीविष कहा ॐ ओटला भागे ते  
 तभाभ अपर्याप्तावस्थाभा न कर्माशीविष होय ॐ पर्याप्तावस्थाभा नहीं न  
 ‘एव जोइसियाण सव्वेसिं अपञ्चत्तगाणं’ ओ न रीते ओटला चन्द्र, सूर्य, ग्रह,  
 नक्षत्र आदि तारा विमान पयन्तना वैविधिदेव ॐ ते सधण्य अपर्याप्तावस्थाभा  
 कर्माशीविष होय ॐ पर्याप्तावस्थाभा नहीं न अत— ‘जइ वेमाणियदेवकम्मासी-  
 विसे किं कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, कप्पाइयवेमाणियदेव

कल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति? किं वा कल्पातीतवैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति? भगवानाह—‘गोयमा ! कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, नो कप्पाईयवेमाणियदेवकम्मासीविसे’ हे गौतम ! वैमानिकदेवकम्मशीविषः कल्पोपपन्नकवैमानिकदेव कर्माशीविषो भवति, नो कल्पातीतकवैमानिकदेव कर्माशीविषो भवति । गौतमः पृच्छति—‘जइ कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे किं सोहम्मकप्पोवगजावकम्मासीविसे जाव अच्चुयकप्पोवग-जाव-कम्मासीविसे ?’ हे भदन्त ! यदि कल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति, स किं सौधर्मकल्पोपपन्नावात्-वैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति ? यावत्-ईशान-सनत्कुमार

कर्माशीविष हैं तो क्या कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं ? या कल्पातीत वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, नो कप्पाईयवेमाणियदेवकम्मासीविसे’ जो कल्पोपपन्नकदेव होते हैं वे कर्माशीविष हैं, कल्पातीत वैमानिकदेव कर्माशीविष नहीं होते हैं । इस पर गौतमस्वामी प्रभुसे पूछते हैं ‘जइकप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे किं सोहम्मकप्पोवग जाव कम्मासीविसे, जाव अच्चुय कप्पोवग जाव कम्मासीविसे’ हे भदन्त ! यदि कल्पोपपन्नकवैमानिकदेव कर्माशीविष हैं तो क्या सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं ? या यावत् अच्युतकल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं ? यहाँ

कम्मासीविसे’ हे भगवन्ने वैमानिकदेव कर्माशीविष छे तो शु कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष छे ? हे कल्पातीत वैमानिकदेव कर्माशीविष छे ? उत्तर- ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, नो कप्पाईयवेमाणियदेवकम्मासीविसे’ ने कल्पोपपन्न वैमानिकदेव होय छे ते कर्माशीविष होय छे कल्पातीत वैमानिकदेव कर्माशीविष होता नथी प्रश्न- ‘जइ कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे किं सोहम्मकप्पोवग जाव कम्मासीविसे जाव अच्चुय कप्पोवग जाव कम्मासीविसे’ हे भगवन्ने कल्पोपपन्नकदेव कर्माशीवि छे’ तो शु सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष छे ? हे यावत्-अच्युत कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविष छे ? अही यावत् पदथी धशान, भाहेन्द्र सनत्कुमार ए लान्तक, सडस्रार, मडाशुक, आनत, प्राणुत, आरणु अने अच्युत कल्पोपपन्नक उत्पन्न थयेल देवानु अडणु थयेल छे. तेना उत्तरमा प्रभु कहे छे- ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि’ सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव पणु कर्माशीविष होय छे ? यावत्- धशान, सनत्कुमार

-माहेन्द्र-ब्रह्म-छान्तक-महाशुक्र-सहस्रार-ऽऽनत-प्राणता-ऽऽरण्यऽऽप्युत कल्पो  
 पपन्न यावत् वैमानिकदेव कर्माशी विप्रो भवति ? मगवानाह- 'गोयमा ! सोऽम्म-  
 कप्पो रगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि भावसहस्रारकप्पो रगवेमाणियदेव कम्मासी  
 विसे वि, नो आणयकप्पो षगजाव, नो अच्युयकप्पो षगवेमाणियदेव क  
 म्मासीविसे' हे गौतम ! कल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविपः सौधर्मकल्पो  
 पपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविपोऽपि भवति, यावत्-ईशान मनत्कुमार-माहेन्द्र-ब्रह्म  
 छान्तक-महाशुक्र-सहस्रारकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविपोऽपि भवति, किन्तु  
 नो आनतकल्पोपपन्न-यावत्-वैमानिकदेवकर्माशीविपः भवति, यावत्-नो प्राणता  
 ऽऽरण्य-ऽऽप्युतकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविपो भवति, सौधर्मादारभ्य सह  
 स्रारपर्यन्तानामेवाष्टानां वैमानिकदेवानां कल्पोपपन्नानां कर्माशीविपत्न भवति,

यावत्पदसे ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, छान्तक, महाशुक्र,  
 सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत इन कल्पोंमें उत्पन्नदेव  
 दृष्टि हूए हैं । इसके उपरमें प्रश्न करते हैं 'गोयमा' हे गौतम !  
 सोऽम्मकप्पो षगवेमाणियदेव कम्मासीविसे वि, जाव सहस्रारकप्पो  
 षगवेमाणियदेव कम्मासीविस वि' सौधर्मकल्पोपपन्न वैमानिकदेव की  
 कर्माशीविप होत हैं ? यावत् ईशान, माहेन्द्र, सनत्कुमार, ब्रह्म,  
 छान्तक, महाशुक्र, सहस्रार इन ७ कल्पोंमें उत्पन्न हूए देव भी कर्मा  
 शीविप होते हैं । किन्तु 'नो आणयकप्पो षग जाव ना अच्युयकप्पो  
 षगवेमाणियदेव कम्मासीविसे, आनतकल्पोपपन्न वैमानिकदेव, कर्माशी  
 विप नहीं होते हैं और न प्राणतकल्पोपपन्न वैमानिकदेव, आरणकल्पोप-  
 पन्नकल्पवैमानिकदेव, और न अच्युतकल्पोपपन्न वैमानिकदेव कर्माशीविप  
 होत हैं । इस तरह सौधर्मकल्पसे लेकर सहस्रारकल्पतक, अर्थात्  
 सौधर्मदेवलोफसे लेकर सहस्रार कल्पतकके देव कर्माशीविप कहे  
 गये हैं । आनत, प्राणत आरण और अच्युत इन चार कल्पोंमें

माहेन्द्र ब्रह्म, छान्तक, महाशुक्र सहस्रार ये सात कल्पोंमें उत्पन्न भवेन देव पण्य  
 कर्माशीविप होव ७ डिठ 'नो आणय कप्पो षग जाव नो अच्युयकप्पो षग वेमाणिय  
 देव कम्मासीविसे' आनत कल्पोपपन्न वैमानिकदेव कर्माशीविप होता नथी तेमक  
 प्राणत कल्पोपपन्न वैमानिकदेव कर्माशीविप होता नथी. आरण कल्पोपपन्नक, अने  
 अच्युत कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्माशीविप होता नथी. आनी रीते सौधर्मकल्पो  
 लघने सहस्रार कल्प सुधी. अर्थात्- सौधर्मदेवलोफकी सहस्रारकल्प सुधीना देव  
 कर्माशीविप कहेवायेन ७ आनत, प्राणत, आरण अने अच्युत चार कल्पोंमें  
 उत्पन्न भवेन वैमानिकदेव कर्माशीविप कहेवाया नथी. अने गौतम स्वामी प्रश्नने पूछे ७ ३

नो आनताद्यच्युतान्तानामन्तिमानां चतुर्णां वैमानिककल्पोपपन्नदेवानां कर्मा-  
शीविषत्वं भवति, इति भावः । गौतमः पृच्छति—‘जइ सोहम्मकप्पोवग-जाव-  
कम्मासीविसे किं पज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीविसे, अप-  
ज्जत्तगसोहम्मग० ? हे भदन्त ! यदि सौधर्मकल्पोपपन्न-यावत्-वैमानिकदेव-  
कर्माशीविषो भवति, स किं पर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषो  
भवति ? किं वा अपर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति ?  
अगवानाह—‘गोयमा ! नो पज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेमाणिय०, अपज्जत्तग-  
सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासी विसे’ हे गौतम ! सौधर्मकल्पोपपन्न-  
वैमानिकदेवकर्माशीविषो नो पर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशी-  
विषो भवति, अशितु अपर्याप्तकसौधर्मकल्पोपपन्नवैमानिकदेवकर्माशीविषो भवति,

उत्पन्नं ह्ये वैमानिकदेव कर्माशीविष नहीं कहे गये हैं । अत्र गौतम-  
स्वामी प्रभुसे पृच्छते है ‘जइ सोहम्मकप्पोवग जाव कम्मासीविसे किं  
पज्जत्त सोहम्मकप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे अपज्जत्तगसोहम्मग०’  
हे भदन्त ! यदि सौधर्मकल्पोपपन्नक यावत्-वैमानिकदेव कर्माशीविष  
होते हैं तो क्या जो पर्याप्तक सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकदेव है वह  
कर्माशीविष होता है ? या जो अपर्याप्तक सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिक  
देव हैं वे कर्माशीविष होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’  
हे गौतम ! ‘नो पज्जत्त सोहम्मकप्पोवग वेमाणिय०, अपज्जत्तगसोहम्म  
कप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे’ जो सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिक-  
देव पर्याप्त होता है वह कर्माशीविष नहीं होता है । किन्तु  
जो सौधर्मकल्पोपपन्नक वैमानिकदेव अपर्याप्त होता है वह

‘जइ सोहम्मकप्पोवग जाव कम्मासीविसे किं पज्जत्त सोहम्म कप्पोवग  
वेमाणियदेव कम्मासीविसे-अपज्जत्तग सोहम्मग०’ हे अगवन् ! ने सौधर्म कल्पोप-  
पन्नक वैमानिकदेव यावत् वैमानिकदेव कर्माशीविष होय तो थु ने पर्याप्तक सौधर्म-  
कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव छे ते कर्माशीविष होय छे ? के ने अपर्याप्तक सौधर्मकल्पोप-  
पन्नक वैमानिकदेव छे ते कर्माशीविष होय छे ? तेना उत्तर आपता प्रभु छे छे के-  
‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नो पज्जत्त सोहम्म कप्पोवगवेमाणिय० अपज्जत्तग-  
सोहम्म कप्पोवगवेमाणियदेव कम्मासीविसे’ ने सौधर्म कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव  
पर्याप्त होय छे ते कर्माशीविष होता नथी किन्तु ने सौधर्म  
कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव अपर्याप्तक होय छे ते कर्माशीविष होय छे ‘एवं जाव नो

‘एव जाय नो पञ्चसहस्रारकप्पोवगवेमाणियजाय कम्मासीविसे, अप-  
 ञ्चसहस्रारकप्पोवगजायकम्मासीविसे’ एव सौधर्मकत्पोपपन्नवदेव यावत्  
 नो ईशान-सनत्कुमार-माहेन्द्र ब्रह्म-सान्तक-महाशुक्र-सहस्रार-पर्याप्तकत्पो  
 पपन्नवैमानिक-यावत्-देवकर्माशीविषो मवति, अपि तु अपर्याप्तकेशानादिसहस्र-  
 रान्तकत्पोपपन्नक-यावत्-वैमानिकदेव कर्माशीविषो मवतीति इति भाषः॥६०॥

धर्मास्तिकायादेर्दुर्विज्ञेयता वक्तव्यतामाह-

उपर्युक्तमात्स्याशीविषादिवस्तु अज्ञानी न जानाति, किन्तु ज्ञानवान्  
 अपि कश्चित् पश्यमाणानि दृश पस्तुनि कथञ्चित् नजानातीति प्रतिपादयित्वाह-  
 ‘दस ठाणाइ इत्यादि ।

सूत्रम्—दस ठाणाइ छउमत्थे सब्भवावेण न जाणइ, न  
 पासइ, त जहा—धम्मस्थिकाय १, अधम्मस्थिकाय २, आगासत्थि  
 काय ३, जीव असरीरपडिवद्ध ४, परमाणुपोग्गल ५, सह ६,  
 गर्ध ७, वात ८, अय जिणे भविस्सइ वा ण वा भविस्सइ ९,  
 अय सब्भवुक्खाण अत करिस्सइ वा न वा करिस्सइ १०, पर्याणि  
 चेव उप्पन्नानाणदसणधरे अरहा जिणे केवली सब्भवावेण जाणइ

कर्माशीविष होता है । ‘एवं जाय नो पञ्चसहस्रारकप्पोवगवेमाणिय,  
 जाय कम्मासीविसे अपञ्चसहस्रारकप्पोवग जाय कम्मासीविसे’  
 इस तरह सौधर्मकत्पोपपन्नकी तरह ही यावत्-ईशान, सनत्कुमार,  
 माहेन्द्र, ब्रह्म, सान्तक, महाशुक्र, सहस्रार इन सात कर्तव्यों उत्पन्न  
 हुआ पर्याप्त वैमानिकदेव कर्माशीविष नहीं होता है, किन्तु इन सात देव  
 लोकोंमें उत्पन्न हुआ अपर्याप्तक वैमानिकदेव कर्माशीविष होता है। २।

पञ्चसहस्रारकप्पोवगवेमाणिय जाय कम्मासीविसे, अपञ्चसहस्रार  
 कप्पोवग जाय कम्मासीविसे’ के अर्थ सौधर्म कर्तव्योपपन्नकीवती भाष्य यावत्-  
 ईशान सनत्कुमार माहेन्द्र, ब्रह्म सान्तक, महाशुक्र सहस्रार के सात कर्तव्यों  
 उत्पन्न होने पर्याप्त वैमानिकदेव कर्माशीविष होता नहीं। परंतु के सात देवलोकोमें  
 उत्पन्न होने पर्याप्तक वैमानिकदेव कर्माशीविष होता है २।

पासइ, तं जहा - धम्मत्थिकायं, जाव करिस्सइ वा नवा करिस्सइ ॥ सू० ३ ॥

छाया-दश स्थानानि छद्मस्थः सर्वभावेन न जानाति, न पश्यति, तद्यथा- धर्मास्तिकायम् १, अधर्मास्तिकायम् २, आकाशास्तिकायम् ३, जीवम् अशरीर प्रतिबद्धम् ४, परमाणुपुद्गलम् ५, शब्दम् ६, गन्धम् ७, वातम् ८, अयं जिनो भविष्यति वा न वा भविष्यति ९, अयं सर्वदुःखानामन्तं करिष्यति वा न वा करिष्यति १० 'एतानि चैव उत्पन्नज्ञानदर्शनधरः अर्हन् जिनः केवली सर्व भावेन जानाति, पश्यति, तद्यथा-धर्मास्तिकायम्, यावत् करिष्यति वा न वा करिष्यति ॥ सू० ३ ॥

धर्मास्तिकाय आदिकी दुर्विज्ञेयताकी वक्तव्यता-

'दस ठाणाइं छउमत्थे सव्वभावेणं न जाणइ' इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(दस ठाणाइं छउमत्थे सव्वभावेणं न जाणइ, न पासइ' छद्मस्थजीव अवधिज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञानरहित जीव सर्वभावसे प्रत्यक्षज्ञानसे इन दशस्थानोंको नहीं जानता है, नहीं देखता है। (तजहा) वे दश स्थान ये हैं (धम्मत्थिकायं १, अधम्मत्थिकायं २, आगासत्थिकायं ३, जीवं अशरीरपडिबद्धं ४, परमाणुपोग्गलं ५, सइं ६, गंधं ७, वातं ८, अयंजिणे भविस्सइ वा णवा भविस्सइ, अयं सव्वदुक्खाणं अंतं करिस्सइ वा नवा करिस्सइ १०) धर्मास्तिकाय १, अधर्मास्तिकाय २, आकाशास्तिकाय ३, शरीररहितजीव ४, परमाणु पुद्गल ५, शब्द ६, गंध ७, वायु ८, यह जिन होगा कि नहीं होगा ९ यह समस्त दुःखोंका अन्त करेगा या नहीं करेगा १०। (एयाणिवेन उप्पण्णनाण

धर्मास्तिकाय आदिनी दुर्विज्ञेयतानु- निश्चय 'दस ठाणाइं छउमत्थे सव्वभावेणं न जाणइ इत्यादि।

सूत्रार्थ- 'दस ठाणाइं छउमत्थे सव्वभावेणं न जाणइ न पासइ' छद्मस्थ जीव- अवधिज्ञान आदि विशिष्टज्ञान रहित जीव-सर्वभावसे प्रत्यक्षज्ञानरही आ दश स्थानाने ज्ञातुते नथी, देखते नथी 'तजहा' ते दश स्थान आ प्रमाणे छे- धम्मत्थिकायं १, अधम्मत्थिकायं २, आगासत्थिकायं ३, जीवं अशरीरपडिबद्धं ४ परमाणुपोग्गलं ५, सइं ६, गंधं ७, वातं ८, अयं जिणे भविस्सइ ९, अयं सव्वदुक्खाणं अंतं करिस्सइवा नवा करिस्सइ १०. ' धर्मास्तिकाय १, अधर्मास्तिकाय २, आकाशास्तिकाय ३, शरीर रहित जीव ४, परमाणु पुद्गल ५, शब्द ६, गंध ७, वायु ८, आ जीव इति के नहीं होय ९, आ समस्त दुःखोंको अंत करेगी के नहीं



टीका—दस ठाणाई छउमत्ये सच्चमायेण न जाणाइ, न पासइ' छउमस्यः केवलज्ञानरहितः अथव्याद्यतिशयज्ञानवर्जितश्च पुरुषो वक्ष्यमाणानि दश स्थानानि गुणपर्यायाभितानि वस्तुनि सर्वभावेन साक्षात्कारेण चक्षुःप्रत्यक्षेण इत्यर्थः न जानाति, न पश्यति, श्रुतज्ञानादिना तु अवाप्तुपप्रत्यक्षेण जानात्यपि, अथव्याद्यतिशयवान् पुरुषस्तु धर्मास्तिकायादीनाममूर्तत्वेन ज्ञाना

दसणघरे अरहा जिणे केवली सच्चमायेणं जाणाइ पासइ) इन १० स्थानोंको उत्पन्न ज्ञानदर्शनको पारण करनेवाले अर्हन्त जिन कवली सर्वभावेसे जानते हैं और देखते हैं । (तंजहा) वे दश स्थान व हैं (धम्मत्थिकाय जाव करिस्सइ वा नया करिस्सइ) धम्मत्थिकाय जावत करेगा या नहीं करेगा ।

टीकार्य—उपर्युक्त जात्यारीषिपादि वस्तु अज्ञानो नहीं जानता है । किन्तु कोईर ज्ञानी भी इन वक्ष्यमाण १० वस्तुओंको किसी प्रकार नहीं जानता है इसी बातको प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं 'दसठाणाइ छउमत्ये सच्चमायेण न जाणाइ न पासइ' छउमस्य केवलज्ञानरहित अर्थात् मतिभूतअवधि आदि अतिशय ज्ञानवर्जित पुरुष गुणपर्यायाभित इन दश स्थानोंको वस्तुओंको सर्वभावेसे चक्षुःप्रत्यक्षसे नहीं जानता है, नहीं देखता है । अचक्षुःप्रत्यक्षरूप श्रुतज्ञान आवधिके द्वारा तो यह जानता भी है । अचक्षिज्ञान आदि अतिशयवाला पुरुष

४२. १ 'एयापि न्येय उप्पन्नानाणदंसणपरे अरहा जिणे केवली सच्चमायेणं जाणइ पासइ' आ इय स्थानेधी उपपन्न वषेण ज्ञानदसने भासु अवावाण, अरहत्त एव देवणी, सवभावधी ज्ञेये अने देये अ 'तंजहा' ते इय स्थान ज्ञ प्रभावे अ- धम्मत्थिकाय जाव करिस्सइ वा नया करिस्सइ' धर्मास्तिकाय जावत- ४२ये अ नही अरे ?

टीका— उपर अरेक ज्ञानाशीषिपि आदि वस्तु अज्ञानीको ज्ञानता नहीं परतु केवल ज्ञानी पुरुष अर्हन्तभावात्पत्तारी १० वस्तुओंके ज्ञान पक्ष प्रेक्षारे ज्ञानता नहीं जे वाततु अमथन अस्थाने भाटे सत्रकार अरे अ- 'दस ठाणाइ छउमत्ये सच्चमायेणं न जाणाइ न पासइ' अमस्य- देवणज्ञान रहित अने अचक्षि आदि अतिशय ज्ञानरहित पुरुष गुणपर्यायभी आभित अरेक ज्ञान इय स्थानेने - वस्तुओंके- सव भावधी अक्षु प्रत्यक्षभी ज्ञानता नहीं अ देवता नहीं अक्षु प्रत्यक्ष सुवज्ञान

भाववानपि परमाण्वादिमूर्तपदार्थान् जानात्वेव, अवधिविशेषस्य सर्वमूर्त-  
विषयत्वात्, एवञ्च 'सर्वभावेन' इत्यस्य कथञ्चिज्ज्ञानमपि अनन्तपर्यायतया

यद्यपि धर्मास्तिकाय आदि पदार्थोंको अमूर्त होनेके कारण उन्हें नहीं जानता है, परन्तु फिर भी परमाणु आदि मूर्त पदार्थोंको तो वह जानता ही है । क्योंकि अवधिज्ञानका विषय 'रूपिष्ववयवैः'के अनुसार सर्वमूर्त पदार्थ है । अर्थात् विशेष अवधिज्ञान स्वयस्वरूपी पुद्गलोंको जानता है । तात्पर्य कहनेका यह है कि जो छद्मस्थ पुरुष है अवधि-  
आदि ज्ञानसे रहित है ऐसा मतिश्रुतज्ञानवाला पुरुष धर्मास्तिकाया-  
दिक दश पदार्थोंको साक्षात् रूपसे नहीं जानता है वह तो उन्हें श्रुत-  
ज्ञान आदिकी सहायतासे ही जानता है, परन्तु फिर भी वह 'मति-  
श्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु' के अनुसार उनकी समस्त पर्यायों-  
को नहीं जानता है । अब रहा अवधिज्ञान आदि विशिष्टज्ञानवाला पुरुष सो वह भी इन अमूर्तधर्मादिक द्रव्योंको नहीं जानता है क्योंकि अवधिज्ञानका विषयरूपी पदार्थ कहा गया है । अरूपी नहीं अरूपी को जाननेवाला एक केवलज्ञान ही है । परन्तु फिर भी अवधिज्ञानी परमाणु आदि पदार्थोंको स्पष्टरूपसे जानता ही है । मतिश्रुतज्ञानी परमाणु आदि पदार्थोंको परकी सहायतासे अस्पष्टरूप जानता है तब कि यह अवधिज्ञानी आत्मा उन्हें परकी सहायताके विना ही

आदि तो ते नञ्छे छे अवधिज्ञानादि अतिशयवाणे। पुरुष ने के धर्मास्तिकाय आदि दश पदार्थोंने अभूर्त छोड़वाने कीधे तेने नञ्छुतो नथी परतु परमाणु आदि मूर्त पदार्थोंने तो ते नञ्छे न छे केके अवधिज्ञानने विषय 'रूपिष्ववयवैः' ये वाक्यानुसार सधणा मूर्त पदार्थों छे अर्थात् विशेष अवधिज्ञान समस्तर्पी पुद्गलोने नञ्छे छे छोड़वाने हेतु ये छे के ने छद्मस्थ पुरुष छे, -अवधिज्ञानथी रहित छे, येवा मतिश्रुत ज्ञानवाणा पुरुष धर्मास्तिकाय आदि दश पदार्थोंने साक्षात् रूपथी नञ्छुतो नथी ते तो तेने श्रुतज्ञानादिनी सहायताथी नञ्छे छे परतु ते 'मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु' ये वाक्यानु-  
सार तेना समस्त पर्यायने नञ्छुतो नथी हुवे पाकी रखा अवधिज्ञान विशिष्ट ज्ञानवाणा पुरुष तो ते पञ्च आ अभूर्त धर्मादि द्रव्योने नञ्छुतो नथी केके अवधिज्ञानने विषयर्पी पदार्थ छोड़ छे अर्पी नही अर्पीने नञ्छुवावाणु अेक केवणज्ञान न छे तो पञ्च अवधिज्ञानी परमाणु आदि पदार्थोंने स्पष्टरूपे नञ्छे न छे मतिश्रुतज्ञानी परमाणु आदि पदार्थोंने भीननी सहायताथी अस्पष्ट रूपथी नञ्छे छे त्पारे आ अवधिज्ञानी आत्मा भीननी सहायता विना न स्पष्ट रूपथी द्रव्य, क्षेत्र, काण

टीका—दस ठाणाह छउमत्थे सच्चमावेण न जाणह, न पासह' छद्मस्यः केवलज्ञानरहितः भवत्याद्यतिशयज्ञानपजितस्य पुरुषो षड्यमाणानि दश स्थानानि गुणपर्यायाश्रितानि वस्तुनि सर्वभावेन साक्षात्कारेण चक्षुःप्रत्यक्षेण इत्यर्थः न जानाति, न पश्यति, धृतज्ञानादिना तु अचाक्षुषमत्यक्षेण जानात्यपि, अवभ्याद्यतिशयवान् पुरुषस्तु धर्मास्तिकायादीनाममूर्तत्वेन ज्ञाना

दसणघरे धरहा जिणे केवली सच्चमावेणं जाणह पासह) इन १० स्थानोंको उत्पन्न ज्ञानदर्शनको धारण करनेवाले अर्हन्त जिन कृषली सचभावेसे जानते हैं और देखते हैं। (तजहा) वे दश स्थान य हैं (धम्मत्तिकाय जाव करिस्सह वा नवा करिस्सह) धम्मत्तिकाय जावत् करेगा या नहीं करेगा।

टीकार्थ—उपर्युक्त जात्याशीषिपादि वस्तु अज्ञानो नहीं जानता है। किन्तु कोईर ज्ञानी भी इन चक्ष्यमाण १० वस्तुओंको किसी प्रकार नहीं जानता है इसी बातको प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार कहते हैं 'दसठाणाह छउमत्थे सच्चमावेण न जाणह न पासह' छद्मस्य केवलज्ञानरहित अर्थात् मतिश्रुतअवधि आदि अतिशय ज्ञानपजित पुरुष गुणपर्यायाश्रित इन दश स्थानोंको वस्तुओंको सर्वभावेसे चक्षुःप्रत्यक्षसे नहीं जानता है, नहीं देखता है। अचक्षुःप्रत्यक्षरूप श्रुतज्ञान आदिके द्वारा तो वह जानता भी है। अषषिज्ञान आदि अतिशयपाला पुरुष

४२ १ 'एयाणि च्छेव उप्पक्कनापदसणपरे अरहा जिणे केवली सच्चमावेणं जाणह पासह' आ इय स्थानेऽथी उरपन भयेस ज्ञानदशनने धारवु करवावत्थ, अरहत्त इन देवणी, सचभावधी आजे ते ज्ञाने देजे छे 'तजहा' ते दश स्थान आ प्रभाजे छे— धम्मत्तिकाय जाव करिस्सह वा नवा करिस्सह' धर्मास्तिकाय जावत्— ४२१ के नही ४२।

टीकाथ— उपर केवल आत्याशीषि आदि वस्तु अज्ञानीज्जे आकृता नधी परतु केअ केअ ज्ञानी पणु आ केवेनाथ जावतारी १० वस्तुज्जेने ३४ पणु प्रअरे आकृता नधी जे वातनु समभन करवाने आटे सत्रकअ के छे छे— 'दस ठाणाह' छउमत्थे सच्चमावेणं न जाणह न पासह' अइमस्य— देवणज्ञान रहित ज्ञाने अषषि आदि अतिशय ज्ञानरहित पुरुष शुषुपर्यायाधी आश्रित केवेस आ इय स्थानेने— वस्तुज्जेने— सचभावधी आशु प्रअशुधी आकृता नधी के देवता नधी. आअशु प्रत्यक्षरूप श्रुतज्ञान

च अवध्यादिविशिष्टज्ञानरहित छद्मस्थो धर्मास्तिकायादिदशवस्तूनि प्रत्यक्ष-  
रूपेण न जानाति इति फलितम्, तानेव प्राह— 'तजहा-धर्मास्तिकाय १,  
अधम्मत्थिकायं २, आगासत्थिकायं ३, जीव असरीरपडिबद्ध ४, परमाणु-  
पोग्गलं ५, सद्दं ६, गंधं ७, वात ८, तद्यथा - धर्मास्तिकायं, सर्वभावेन  
छद्मस्थो न जानाति न पश्यति, एवम्-अधर्मास्तिकायम्, आकाशास्तिकायम्  
अशरीरप्रतिबद्धम् - शरीरप्रतिबन्धरहित देहविमुक्तं सिद्धमित्यर्थः जीवं  
छद्मस्थो न जानाति न पश्यति इति पूर्वेणान्वयः, तथैव छद्मस्थः परमाणु-  
पुद्गलम् उपलक्षणत्वात् द्व्यणुकादिकमपि न जानाति न पश्यति, एवं शब्दं,  
गन्धं, वात वायुं चाऽपि छद्मस्थो जनो न जानाति न पश्यति, एवम् 'अयं  
जिणे भविस्सइ वा न वा भविस्सइ ९' अयं-प्रत्यक्षरूपः कोऽपि प्राणी जिनो

अनंतपर्यायो सहित नहीं जानता है। प्रत्येक पदार्थको उनकी अनन्त  
पर्यायो सहित जाननेवाला एक केवलज्ञानी ही है। इसलिये 'सर्वभाव'  
पदका अर्थ 'चाक्षुषप्रत्यक्ष' ऐसा ही करना चाहिये इससे अवध्या-  
दिविशिष्टज्ञानरहित छद्मस्थ धर्मास्तिकायादिक १० वस्तुओंको प्रत्यक्ष  
रूपसे न जान सकता है और न देख सकता है। छद्मस्थ जिन १०  
वस्तुओंको साक्षात् रूपसे नहीं जान देख सकता है उन्हें ही सूत्रकार  
नामनिर्देशपूर्वक प्रकट करते हैं 'धम्मत्थिकायं १, अधम्मत्थिकायं २,  
आगासत्थिकाय ३, जीवं असरीरपडिबद्ध ४, परमाणुपोग्गल ५, सद्दं ६,  
गंधं ७, वातं ८, अयं जिणे भविस्सइ, वा नवा भविस्सइ ९, अयं  
सव्व दुक्खाणं अतं करिस्सइ वा, न वा, करिस्सइ १०' धर्मास्तिकाय १,  
अधर्मास्तिकाय २, आकाशास्तिकाय ३, मुक्तजीव ४, परमाणुपुद्गल ५

अवश्य नष्टे छे पणु तेने ते तेनी संपूर्ण अनंत पर्यायो सहित नष्टतो नथी प्रत्ये  
पदार्थने तेनी अनंत पर्यायो सहित नष्टवावाणा ओक डेवणज्ञानी न छे, ओट्टे  
'सर्वभाव' पढेना अर्थ चाक्षुष-प्रत्यक्ष-ओवेण कर लेखये ओथी अवध्यादि विशि  
ज्ञानरहित छद्मस्थ धर्मास्तिकायादिक दश वस्तुओने प्रत्यक्षरूपथी नष्टी शकता नथ  
अने देभी पणु शकता नथी. छद्मस्थ न्ने दश वस्तुओने साक्षात् रूपथी नष्टी के ले  
शकता नथी तेने सूत्रकार नामनिर्देश पूर्वक हुवे अतावे छे 'धम्मत्थिकायं १  
अधम्मत्थिकायं २, आगासत्थिकायं ३, जीव असरीरपडिबद्धम् ४, परमाणु  
पोग्गलं ५, सद्दं ६, गंधं ७, वातं ८, अयं जिणे भविस्सइ नवा भविस्सइ ९  
अयं सव्व दुक्खाणं अतं करिस्सइ वा नवा करिस्सइ १०' धर्मास्तिकाय १, अधर्मा  
स्तिकाय २, आकाशास्तिकाय ३, मुक्तजीव ४, परमाणु पुद्गल ५, शब्द ६, गंध ७

न जानातीत्यर्थः, तथा सति दशसंख्यानियमवैयर्थ्यापत्ते, घटपटादीनामपि बहूनामर्थानां केवलमिन्नेन पुरुषेण सर्वपर्यायतया ज्ञातुमशक्यत्वात्, तथा च प्रकृते 'सर्वभावेन' इत्यस्य चाक्षुषप्रत्यक्षरूप साक्षात्कारेण इत्यर्थः । अथ

स्पष्टरूपसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादा लेकर जानता है । इसलिये छद्मस्थपदसे यहा अवधिज्ञान आदि विशिष्टज्ञानरहित जीव ही ग्रहण किया गया है, न कि अवधिज्ञानी आदि आत्मा । इसी कारणसे यहा 'सम्बन्धभावेण' पदका अर्थ चाक्षुषप्रत्यक्षपरक घटित हो सकता है । तथाच धर्मास्तिकायादिक दशापदार्थोंको छद्मस्थ जीव चाक्षुषप्रत्यक्षसे नहीं जानता है । यदि यहाँ पर ऐसी आशङ्का की जावे कि 'सर्वभावेन' शब्दका अर्थ हम यहाँ चाक्षुषप्रत्यक्षपरक न लेकर ऐसा लेवें कि छद्मस्थ आत्मा परमाण्वादिक पदार्थोंको जानता हुआ भी उन्हें सर्वभावसे नहीं जानता है अर्थात् उनकी अनन्त पर्यायोंको नहीं जानता है अतः इस प्रकारकी मान्यतासे छद्मस्थपदसे यहाँ अवधिज्ञानी आत्मा भी ग्रहीत हो जावेगा सो ऐसा कथन ठीक नहीं है क्योंकि इस प्रकारके कथन करनेसे १० दश संख्याके नियममें व्यर्थापत्ति आनेका प्रसङ्ग प्राप्त होता है । कारण कि घटादिक पदार्थ ऐसे भी हैं जो केवली भगवान के सिवाय अन्य पुरुष द्वारा सर्व पर्यायविशिष्टरूपसे जाने नहीं जा सकते हैं, अवधिज्ञानी घटादिक पदार्थोंको स्पष्टरूपसे जानता तो अवश्य है पर उन्हें वह उनकी

जाने जावनी भर्माद्यने लभने लखे छे. जेहवा मरे छद्मस्थ परकी लकी अवधिज्ञान आदि विशेष प्रकारना ज्ञानरहित एतनु ल प्रकृत रूपामा आवेला छे नकी छे अवधिज्ञानी आत्मा ल जे १ कारखे लकी 'सम्बन्धभावेण' जे पदना लर्थ आक्षुष - प्रत्यक्ष परक घटी थके छे तेमल प्रभारितकाल्य आदि ह्य पदार्थेनि छद्मस्थ एव चाक्षुष-प्रत्यक्षसे लखते नथी. श. ३- जे लकी जेवी लका रूपामा आवे छे 'सर्वभावेन' जे लभने लर्थ जने चाक्षुष-प्रत्यक्ष परक न लभने जेवे लभने छे छद्मस्थ आत्मा परलखदि पदार्थेनि लखवा छता पक्ष तेने स पूज्य रीते सव लखथी लखते नथी. अर्थात्- तेनी अनन्त पर्यायेने लखते नथी जे-वे जवा प्रकारनी मान्यताथी लद्मस्थ परकी लकी अवधिज्ञानी आत्मा पक्ष लखे थथ लकरी. ते तेम लखेवु ते लशेनर नथी जेमे जवा प्रकारनु कथन करवाथी हक स ज्ञाना निबन्धी व्यर्थपर्यन्त मानवानो प्रसङ्ग उपस्थित थरी. कारखे छे ल. ३-दि १ पदार्थ जेवा पक्ष छे छे ले जेवनी लखवान विना लन्व उपपदाश लर्थापर्याय विशिष्ट रूपथी लकी लकरी लकरी नथी. अवधिज्ञानी घटादि पदार्थेनि रूप लखथी

प्रमेयचन्द्रिका टीका श.८ उ.२ सू.३ धर्मास्तिकायादेर्द्विज्ञेयत्वनिरूपणम् ३०७

च अवध्यादिविशिष्टज्ञानरहितश्छद्मस्थो धर्मास्तिकायादिदशवस्तूनि प्रत्यक्ष-  
रूपेण न जानाति इति फलितम्, तानेव प्राह- 'तजहा-धर्मास्तिकाय १,  
अधम्मत्थिकायं २, आगासत्थिकायं ३, जीव असरीरपडिवद्ध ४, परमाणु-  
पोग्गलं ५, सद्दं ६, गंधं ७, वातं ८, तद्यथा - धर्मास्तिकायं, सर्वभावेन  
छद्मस्थो न जानाति न पश्यति, एवम्-अधर्मास्तिकायम्, आकाशास्तिकायम्  
अशरीरप्रतिबद्धम् - शरीरप्रतिबन्धरहित देहविमुक्त सिद्धमित्यर्थः जीवं  
छद्मस्थो न जानाति न पश्यति इति पूर्वैणान्वयः, तथैव छद्मस्थः परमाणु-  
पुद्गलम् उपलक्षणत्वात् द्व्यणुकादिकमपि न जानाति न पश्यति, एवं शब्दं,  
गन्धं, वातं वायुं चाऽपि छद्मस्थो जनो न जानाति न पश्यति, एवम् 'अयं  
जिणे भविस्सइ वा न वा भविस्सइ ९' अयं-प्रत्यक्षरूपः कोऽपि प्राणी जिने

अनंतपर्यायों सहित नहीं जानता है। प्रत्येक पदार्थको उनकी अनन्त  
पर्यायो सहित जाननेवाला एक केवलज्ञानी ही है। इसलिये 'सर्वभाव'  
पदका अर्थ 'चाक्षुषप्रत्यक्ष' ऐसा ही करना चाहिये इससे अवध्या-  
दिविशिष्टज्ञानरहित छद्मस्थ धर्मास्तिकायादिक १० वस्तुओंको प्रत्यक्ष  
रूपसे न जान सकता है और न देख सकता है। छद्मस्थ जिन १०  
वस्तुओंको साक्षात् रूपसे नहीं जान देख सकता है उन्हें ही सूत्रकार  
नामनिर्देशपूर्वक प्रकट करते हैं 'धम्मत्थिकायं १, अधम्मत्थिकायं २,  
आगासत्थिकायं ३, जीवं असरीरपडिवद्धं ४, परमाणुपोग्गलं ५, सद्दं ६,  
गंधं ७, वातं ८, अयं जिणे भविस्सइ, वा नवा भविस्सइ ९, अयं  
सव्व दुक्खाणं अतं करिस्सइ वा, न वा, करिस्सइ १०' धर्मास्तिकाय १,  
अधर्मास्तिकाय २, आकाशास्तिकाय ३, मुक्तजीव ४, परमाणुपुद्गल ५,

अवश्य लक्ष्णे छे पथु तेने ते तेनी स पूर्युं अनंत पर्यायो सहित लक्ष्यतो नथी प्रत्येक  
पदार्थने तेनी अनंत पर्यायो सहित लक्ष्यवावाणा अेक केवलज्ञानी न छे, अेटे  
'सर्वभाव' पदने अर्थ चाक्षुष-प्रत्यक्ष-अेवो न करं लेधअे अेथी अवध्यादिविशेष  
ज्ञानरहित छद्मस्थ धर्मास्तिकायादिक दश वस्तुअेने प्रत्यक्षरूपथी लक्ष्णी शकता नथी  
अने देणी पथु शकता नथी. छद्मस्थ न्ने दश वस्तुअेने साक्षात् रूपथी लक्ष्णी के लेध  
शकता नथी तेने सूत्रकार नामनिर्देश पूर्वक हुवे अतावे छे 'धम्मत्थिकायं १,  
अधम्मत्थिकायं २, आगासत्थिकायं ३, जीवं असरीरपडिवद्धम् ४, परमाणु  
पोग्गल ५, सद्दं ६, गंधं ७, वातं ८, अयं जिणे भविस्सइ नवा भविस्सइ ९,  
अयं सव्व दुक्खाणं अतं करिस्सइ वा नवा करिस्सइ १०' धर्मास्तिकाय १, अधर्मा-  
स्तिकाय २, आकाशास्तिकाय ३, मुक्तजीव ४, परमाणु पुद्गल ५, शब्द ६, गंध ७,

धीतराग केवली भविष्यति वा, नवा भविष्यति, इत्येपरूपेण छद्मस्थः कश्चित् पुरुषा न जानाति न पश्यति, इति भावः, तथैव 'अथ सत्त्वदुःखानां अथ करिस्सइ वा न वा करिस्सइ १०' अथ प्रत्यक्षतया दृश्यमानो जीवः केवलानादिमहर्दियादिगुणसम्पन्नः सर्वदुःखानामन्त करिष्यति वा, न वा करिष्यति, इत्यपि न जानाति न पश्यति, छद्मस्थव्यतिरेकमाह- 'एयाणि चैव उष्यन्नानाणदसणघरे अरहा जिणे केवली सच्चमावेण जाणइ पासइ' उत्पन्नज्ञानदर्शनघरः उत्पन्नकेवसज्ञानकेवलदर्शन अर्हन् जिनः केवली भगवांस्तु सवमावन साक्षात्कारेण एतानि चैव धर्मास्तिकाया दीनि दस स्यानानि वस्तूनि सम्पत्तया जानाति पश्यति, तद्ज्ञानविषयानाह-

शब्द ६, गद्य ७ वायु ८, यह जीव जिन होगा या नहीं होगा ९? और यह जीव समस्त दुःखोंका नाश करेगा या नहीं करेगा १०। तात्पर्य यही है कि छद्मस्थजीव सर्वभावसे धर्मास्तिकायको नहीं जानता है इसी तरह से यह अधर्मास्तिकायको, आकाशास्तिकायको, देहरहित सिद्धजीवको, नहीं जानता है नहीं देखता है। परमाणु पुद्गलको उपलक्षणसे व्रणकुचदिक को भी नहीं जानता है नहीं देखता है। इसीतरहसे यह शब्दको गद्यको, वायुको नहीं जानता दम्बता है। यह प्रत्यक्षरूप कोई भी प्राणी जिन धीतराग-केवली होगा अथवा नहीं होगा। उसी प्रकारसे प्रत्यक्षतया दृश्यमान यह जीव जो कि केवलज्ञानादि महर्दि घोररह गुणोसि सपन्न पना हुआ है समस्त दुःखोंका श्रय करेगा अथवा नहीं करेगा यह भी नहीं जानता है और देखता है। छद्मस्थजीवसे भिन्नजीव ही 'एयाणी चैव उष्यन्नानाणदसणघरे अरहा जिणे केवली सच्चमावेण जाणइ पासइ' जो कि उत्पन्न पश्यज्ञान केवयदर्शनको धारण करने

वायु ८, आ जिन धरी ६ नदी वायु ८, अने आ छव समस्त दु जेनेो नाह करे के नदि करे १० इहेवनेो देतु अ ७ के छद्मस्थ छव सर्वभावधी धर्मास्तिकावने आवुतो नधी ते अ रीते ते अधर्मास्तिकावने, आकाशास्तिकावने युक्त शरीरने वाजुता नधी तेअ जेता पजु नधी. परमाणु पुत्रद्वीने उपलक्षणधी इणुण आवरिने पजु वाजुता नधी के जेअ शरता नधी जे अ रीते ते शब्दने अर्धने ३ वायुने पजु वाजुता नधी के देजता नधी. आ प्रत्यक्षरूपे ३अपजु प्राली छन-धीतराग-केवली धये अथवा नदी वायु नुस जे अ रीते प्रत्यक्ष रूपधी देअते नधी. आ छव जो ३ देवग्यान आदि महर्दि विजेरे युजोधी युक्त वनेस ७ समस्त दु जेनेो नाह करे के नदी करे जे पजु वाजुतो नधी अने देअता नधी छद्मस्थ छवधी गुण छव एयाणि चैव उष्यन्नानाणदसणघर अहाजिणे करनी सत्त्वमावेण जाणइ पासइ' जे अथ नज्ञान अने उपलक्षण नने धारण करवावाका ७ अर्थात् देवग्यानधी देवग्यानधी

‘तं जहा-धम्मत्थिकायं जाव करिस्सइ वा न वा करिस्सइ’ तद्यथा-धर्मास्तिकायं, यावत्-अधर्मास्तिकायम् अकाशाम्तिकायम्, जीवम् अशरीरप्रतिबद्धम्, परमाणु-पुद्गलम्, शब्दम्, गन्धम्, वातम्, अयं जिनो भविष्यति वा, न वा भविष्यति, अयं सर्वदुःखानामन्त करिष्यति वा न वा करिष्यति, इत्येवं त्रिगिष्य केवली पुरुषः केवलज्ञानमम्पत्त्या अवश्यमेव जानातीति भावः ॥ सू० ३ ॥

ज्ञानभेदवक्तव्यता-

ज्ञानाधिकारात् तद्भेदविशेष वक्तव्यतामाह-‘कइविहेणं भंते’ इत्यादि।

मूलम्-कइविहे णं भंते ! नाणे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे नाणे पन्नत्ते, तं जहा-आभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, ओहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे । से किंतं आभिणिवोहियनाणे ? आभि-निवोहियनाणे चउविहे पणत्ते, तं जहा-उग्गहो, ईहा, अवाओ, धारणा । एवं जहा रायप्पसेणइए णाणाणं भेओ तहेव इह वि भाणियवो जाव सेत्तं केवलनाणे । अन्नाणे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ? गोयमा ! तिविहे पणत्ते, तं जहा-मइअन्नाणे, सुय-अन्नाणे, विभंगनाणे । से किं तं मइअन्नाणे ? मइअन्नाणे चउ द्विहे पणत्ते, तं जहा-उग्गहो जाव धारणा । से किं तं उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पणत्ते, तं जहा-अत्थोग्गहे य, वंजणोग्गहे य, एवं

वाला है, और जो अर्हन्तजिन केवली है इन धर्मास्तिकायादिक १० स्थानोंको अच्छी तरहसे जानता है और देखता है वे दस स्थान (धम्मत्थिकायं जाव करिस्सइ वा न वा करिस्सइ) धर्मास्तिकाय आदि पूर्वोक्तरूपसे ही हैं ॥ सू० ३ ॥

छे अने अरहत छन देवणी छे तेओ आ धर्मास्तिकाय आदि १० स्थानाने सारी रीते ज्ञाणे छे अने देजे छे ते दशस्थान आ प्रमाणे छे ‘धम्मत्थिकायं जाव करिस्सइ वा न वा करिस्सइ’ ते धर्मास्तिकाय आदि दश स्थान पहेला आ सूत्रमां ज्ञाण्वा प्रमाणे समञ्ज देवा सु ३



जह्ये आभिनिषोहियनाण तह्ये नवर एगट्टियवज्जं जाय नोईदिय  
 धारणा, सेत्त धारणा, सेत्त मइअघ्नाणे । से किं त सुयअघ्नाणे ?  
 सुयअघ्नाणे ज इमं अन्नाणिपहिं, मिच्छदिट्ठिपहिं जहा नंदीप  
 जाव चत्तारि वेया सगोवंगा सेत्त सुयअघ्नाणे । से किं त विभग  
 नाणे ? विभगनाणे अणेगधिहे पण्णत्ते, त जहा—गामसठिप,  
 नगरसठिप, जाव सनिवेससठिप, दीवसठिप, समुइसठिप, वास-  
 सठिप, वासहरसठिप पड्वयसठिप, स्वस्वसठिप, धूमसठिप,  
 ह्यसठिप, गयसठिप, नरसठिप किंनरसठिप, किंपुरिससठिप  
 महोरगगधव्वसठिप, उस्तभसठिप, पसुपसयविहगवानरणाणासठा  
 णसंठिए पण्णत्ते । जीवा ण भत्ते ? किं नाणी, अघ्नाणी ? गोयमा !  
 जीवा नाणी वि, अघ्नाणी वि, जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी,  
 अत्ये गइया तिन्नाणी, अत्ये गइया चउनाणी, अत्ये गइया  
 पगनाणी । जे दुन्नाणां ते आभिनिषोहियनाणी य, सुयनाणी य ।  
 जे तिन्नाणी, ते आभिनिषोहियनाणी सुयनाणी । ओहिनाणी,  
 अहवा आभिनिषोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी, जे  
 चउन्नाणी ते आभिनिषोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी,  
 मणपज्जवनाणी । जे पगनाणी ते नियमा केवलनाणी । जे अ  
 न्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी, अत्येगइया तिअघ्नाणी । जे  
 दुअन्नाणी ते मइअघ्नाणी य, सुयअन्नाणी य । जे तिय  
 अन्नाणी ते मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी, विभगनाणी । सू ४ ।

छाया-कतिविधं खलु भदन्त ज्ञानं प्रज्ञप्तम् ? गौतम ! पञ्चविधं ज्ञानं प्रज्ञप्तम्, तद्यथा-आभिनिवोधिकज्ञानम्, श्रुतज्ञानम् अवधिज्ञानम्, मनःपर्यवज्ञानम्, केवलज्ञानम् । अथ किं तत् आभिनिवोधिकज्ञानम् ? आभिनिवोधिकज्ञानम् चतुर्विधं प्रज्ञप्तम् तद्यथा-अवग्रहः, ईहा, अवायः, धारणा, एवं यथा राजप्रश्नीये ज्ञानानां भेदस्तथैव इहापि भणितव्यः यावत् तदेतत् केवलज्ञानम् । अज्ञानं खलु भदन्त !

ज्ञानभेदवक्तव्यता-

‘कइ विहेणं भंते ! नाणे पन्नत्ते ?’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(कइविहे णं भंते ! नाणे पणत्ते ) हे भदन्त ! ज्ञान कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहे नाणे पणत्ते ) ज्ञान पांच प्रकारके कहे गये (तंजहा) वे इस प्रकारसे हैं (आभिनिवोहियनाणे, सुयनाणे, ओहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे) आभिनिवोधिकज्ञान १, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ३ मनःपर्यवज्ञान ४ केवल ज्ञान ५ (से किं त आभिनिवोहियनाणे) हे भदन्त ! आभिनिवोधिक-ज्ञान कितने प्रकारका है। (आभिनिवोहियनाणे चउव्विहे पणत्ते)हे गौतम! अभिनिवोधिकज्ञान चार प्रकारका है। (तंजहा) वे प्रकार ऐसे हैं (उग्गहो, ईहा, अवाओ, धारणा) अवग्रह १, ईहा २, अवाय ३, और धारणा ४ (एवं जहा रायप्पसेणइए णाणाणं भेओ तहेव इहवि भाणियव्वो जाव सेत्तं केवलनाणे) जिस प्रकारसे राजप्रश्नीयसूत्रमें जानोंके प्रकार कहे गये हैं, उसी प्रकारसे यहाँ पर भी कहलेना चाहिये । यावत्

ज्ञानना वेदुं शिष्याणु

‘कइ विहेणं भंते ! नाणे पन्नत्ते इत्यादि

सूत्रार्थ- ‘कइ विहेणं भंते ! नाणे पन्नत्ते’ हे भगवान ! ज्ञान कितना प्रकारनु कडेव छे ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पंचविहे नाणे पन्नत्ते’ ज्ञान पांच प्रकारनु कडेव छे ‘तंजहा’ ने आ प्रमाणे छे.- ‘आभिनिवोहियनाणे, सुयनाणे, ओहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनाणे’ आभिनिवोधिकज्ञान १, श्रुतज्ञान २, अवधिज्ञान ३, मनःपर्यवज्ञान ४, केवलज्ञान ५. ‘से किं तं आभिनिवोहिय नाणे’ हे भगवान ! आभिनिवोधिकज्ञान कितना प्रकारनु छे ? ‘आभिनिवोहियनाणे चउव्विहे पन्नत्ते’ हे गौतम ! आभिनिवोधिकज्ञान चार प्रकारनु छे ‘तंजहा ते आ प्रमाणे छे - ‘उग्गहो, ईहा अवाओ, धारणा,’ अवग्रह १, ईहा २, अवाय ३, अने धारणा ४ ‘एवं जहा रायप्पसेणइए णाणाणं भेओ तहेव इहवि भाणियव्वो जाव सेत्तं केवलनाणे’ ने रीते राजप्रश्नीयसूत्रमां जानेना वेदो

कविचिष मङ्गलम् ? , गौतम ! भिविषं मङ्गलम्, तद्यथा-मत्यज्ञानम्, भुताज्ञानम्, चिन्मङ्गलानम्, अथ किं तत् मत्यज्ञानम् ? मत्यज्ञानं चतुर्विधं मङ्गलम्, तद्यथा-अवग्रहो यावत् - धारणा, अथ किं सः अवग्रहः ? ? अवग्रहो विचिषा मङ्गल, तद्यथा-अर्थावग्रहम्, व्यञ्जनावग्रहम्, एव यथैव आभिनिषोधिकज्ञानं तथैव, नवरम्-एकार्यिकवर्गम् यावत् - नोइन्द्रियधारणा, सैषा धारणा, तदेतत्

‘सेस केषलनाणे’ इति पाठतक । (अज्ञाने णं भते ! कइविहे पण्णसे) हे भदन्त ! अज्ञान कितने प्रकारका कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिविहे पण्णसे) अज्ञान तीन प्रकारका कहा गया है । (तजहा) जैसे (मइ अज्ञाने, सुय अज्ञाने, चिन्मङ्गलाने) मत्यज्ञान, भुताज्ञान, चिन्मङ्गलान (से किं त् मइ अज्ञाने) हे भदन्त ! मत्यज्ञान कितने प्रकारका कहा गया है ? (मइ अज्ञाने चउच्चिहे पण्णसे) हे गौतम ! मत्यज्ञान चार प्रकारका कहा गया है (तजहा) जो इस प्रकार है (उग्गहो जाव धारणा) अवग्रह यावत् धारणा (से किं त उग्गहे) हे भदन्त ! अवग्रह कितने प्रकारका है ? (उग्गहे दुविहे पण्णसे) हे गौतम ! अवग्रह दो प्रकारका है (तजहा) जो इस प्रकारसे है (अत्योग्गहे वजणोग्गहे य) एक अर्थावग्रह दूसरा व्यञ्जनावग्रह (एवं जहेव आभिनिषोहियनाणे तहेव) इस तरहसे जैसा कि नदीसूत्रमें आभिनिषाधिक ज्ञानके स्वयंमें कहा गया है वसी तरहसे यहाँपर

कहेला ७ ते न शीते अदीना पणु समञ्ज देवा. यावत्- ‘सेसं केषलनाणे’ के पाठ सुधीना लेखि नमञ्ज देवा. ‘अज्ञाने णं भते कइविहे पण्णसे’ हे अज्ञान अज्ञान केला प्रकारना कहेला ७। ‘गोयमा’ हे गौतम । ‘तिविहे पण्णसे’ अज्ञान मङ्गल प्रकारना कहेला ७ ‘तजहा’ ते आ प्रभावे ७ ‘मइ अज्ञाने, सुय अज्ञाने, चिन्मङ्गलाने’ मत्यज्ञान १ मत्यज्ञान २ अने विभक्त अज्ञान ३ ‘से किं त् मइ अज्ञाने’ हे अज्ञान मत्यज्ञान केला प्रकारनु कहेला ७ ? ‘मइ अज्ञाने चउच्चिहे पण्णसे’ हे गौतम ! मत्यज्ञान चार प्रकारनु कहेला ७ तजहा’ ते आ प्रभावे ७-‘उग्गहो जाव धारणा’ अवग्रह यावत् धारणा (से किं त उग्गहे) हे अज्ञान मत्यज्ञान केला प्रकारना कहेला ७-‘उग्गहे दुविहे पण्णसे’ हे गौतम । मत्यज्ञान दो प्रकारनु ७ (तजहा) ते आ प्रभावे ७-‘अत्योग्गहे वजणोग्गहे य’ एक अर्थावग्रह अने नीणु व्यञ्जनावग्रह-एव जहेव आभिनिषोहियनाणे तहेव’ नदी शीते नदीसूत्रमां आभिनिषोहिय ज्ञानना विषयमां कहेला ७ ते न शीते अदी पणु समञ्ज देवा. ‘नवरं एकार्यिकवर्गं यावत् धारणा, सैषा धारणा, तदेतत्

मत्यज्ञानम् । तत् किं अथ श्रुताज्ञानम् ? श्रुताज्ञानं यदेभिः अज्ञानिभिः मिथ्या-  
दृष्टिभिः यथानन्द्याम् यावत् चत्वारो वेदाः साङ्गोपाङ्गा, तदे तत् श्रुताज्ञानम् ।  
अथ किं तत् विभङ्गज्ञानम् ? विभङ्गज्ञानम् अनेकविधम् पञ्चमम्, तद्यथा—ग्रामसंस्थि-  
तम्, नगरसंस्थितम्, यावत्—सन्निवेशसंस्थितम्, द्वीपसंस्थितम्, समुद्रसंस्थितम्,  
वर्षसंस्थितम्, वर्षधरसंस्थितम्, पर्वतसंस्थितम्, वृक्षसंस्थितम्, स्तूपसंस्थितम्,

भी जानना चाहिये । ( नवरं एगद्वियवज्जं जाव नो इंदियधारणा, सेत्तं  
मह अन्नाणे ) परन्तु जो विशेषता है वह इस प्रकारसे है कि वहां  
पर आभिनिबोधिकज्ञानके प्रसंगमें अवग्रहादिके एकार्थिक समानार्थक  
शब्द कहे गये हैं सो उनके सिवाय यावत् नोइन्द्रिय धारणातक  
कहना चाहिये इस तरह धारणा कही इस प्रकारसे मति अज्ञान कहा ।  
(से किं तं सुय अन्नाणे) हे भदन्त ! श्रुताज्ञान कितने प्रकारका है ?  
(सुय अन्नाणे जं इमं अन्नाणएहिं, मिच्छद्विद्विएहिं जहा नदीए जाने  
चत्तारि वेदा संगोवांगा सेत्त सुयअन्नाणे) हे गौतम ! जो अज्ञानी  
मिथ्यादृष्टियोंने प्ररूपित किया है इत्यादि नंदीसूत्रमें कहे अनुसार  
यावत् सांगोपाङ्ग चारवेद वे श्रुत अज्ञान इस प्रकार श्रुताज्ञान कहा  
गया है । (से किं तं विभंगनाणे) हे भदन्त ! विभङ्गज्ञान कितने प्रकारका  
कहा गया है ? (विभंगनाणे अणेगविहे पणत्ते) हे गौतम ! विभंग-  
ज्ञान अनेक प्रकारका कहा गया है । (तंजहा) जैसे (गामसंठिए,  
नगरसंठिए, जाव सन्निवेशसंठिए, दीवसंठिए, समुद्रसंठिए, वाससंठिए,  
वासहरसंठिए, पव्वयसंठिए, रुक्खसंठिए, थूभसंठिए ह्यसंठिए, गयसं-

येट्ठी न्ने त्था आगण आभिनिबोधिक ज्ञानना प्रसंगमा अवग्रहादिना ऐकार्थीक  
समान अर्थवाणा शब्द कहेला छे तो तेना सिवाय यावत्— नो इन्द्रिय धारणा यथा त  
समन्वानु छे ऐ प्रभाणे धारणा अने मति अज्ञान कहेला छे से किं तं सुय  
अन्नाणे' हे भगवन श्रुतज्ञान केटला प्रकारना कहेला छे? सुय अन्नाणे जं इमे  
अन्नाणएहिं मिच्छद्विद्विएहिं जहा नदीए जाव चत्तारि वेदा संगोवांगा  
सेत्त सुय अन्नाणे' हे गौतम ! न्ने अज्ञानी मिथ्यादृष्टियोंने निरूपित कर्था छे  
इत्यादि नदीसूत्रमा कहेला प्रभाणे यावत्— सांगोपाङ्ग चार वेद ते श्रुतअज्ञान ऐ रीते  
श्रुताज्ञान कहेल छे से किं तं विभंगनाणे' हे भगवन ! विभंगज्ञान केटला  
प्रकारनु कहेल छे ? 'विभंग नाणे अणेगविहे पणत्ते' हे गौतम ! विभंगज्ञान  
अनेक प्रकारनु कहेल छे 'तंजहा' न्नेभके— गामसंठिए, नगरसंठिए, जाव  
सन्निवेशसंठिए, दीवसंठिए, समुद्रसंठिए, वाससंठिए, वासहरसंठिए,

इयस स्थितम्, गनस स्थितम्, नरस स्थितम्, किन्नरस स्थितम्, किम्पुकस स्थितम्, महोरगगन्धर्षस स्थितम्, वृषमस स्थितम्, पथु-पसय-(गषय)-विहग ज्ञानरनाना स स्थानसस्थितं महत्तम् । जीवाः खलु मदन्त ! किम् ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम ! जीवाः ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनाऽपि, ये ज्ञानिनः ते अस्त्येकके वि ज्ञानिनः, अस्त्येकके त्रिज्ञानिनः, अस्त्येकके चतुर्ज्ञानिनः, अस्त्येकके एकज्ञानिनः, ये द्विज्ञानिनः, - ते आमिनिबोधिकज्ञानिनश्च, श्रुतज्ञानिनश्च, ये त्रिज्ञानिनस्ते

सठिए, नरसठिए, किन्नरसठिए, किंपुरिससठिए, महोरगगन्धर्वसठिए, वसमसठिए, पसुपसयविहगवानर णाणासठाणसठिए पण्णत्) ग्रामाकार नगराकार, यावत् सन्निवेशाकार, द्वीपाकार, समुद्राकार, वर्षाकार वर्षहराकार, पर्वताकार, वृक्षाकार, स्तूपाकार अश्वाकार, गजाकार, नराकार, किमराकार, किंपुठपाकार, महोरगाकार, गंधर्वाकार, वृषभाकार, पशु, पसयाकार, विहगाकार, वानराकार इत्यादि नाना आकारवाला कहा गया है । (जीवाण भते ! किंनाणी अज्ञाणी) हे मदन्त ! जीव क्या ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं, (गोयमा) हे गौतम ! (जीवा नाणी वि) अज्ञाणी वि) जीव ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं । (जे नाणी ते अत्येगइया दुष्माणी, अत्येगइया तिष्माणी, अत्येगइया चउनाणी, अत्येगइया एगनाणी) जो जीव ज्ञानी हैं उनमें किसनेक जीव दोज्ञान घाले हैं, किसनेकजीव तीनज्ञानघाले हैं, किसनेक चारज्ञानघाले हैं और किसनेकजीव एकज्ञानघाले हैं । (जे दुष्माणी ते आमिणिवोहियनाणी य, सुयनाणी य ) जो जीव दोज्ञानघाले हैं, वे मतिज्ञानघाले और श्रुत

पण्यसठिए, रुक्खसठिए, धूमसठिए, इयसठिए, गयसठिए, नर सठिए, किन्नरसठिए, किंपुरिसमठिए, महोरगगन्धर्वसठिए, उसम सठिए, पसुपसयविहगवानरणाणासठाणसठिए पण्यसे ' आभाकार, नभराकार, यावत्- सन्नियेसाकार, द्वीपाकार समुद्राकार, वर्षाकार वषहराकार पर्वताकार, वृक्षाकार स्तूपाकार अश्वाकार गजाकार, नराकार किन्नराकार किंपुठपाकार महोरगाकार, गंधर्वाकार वृषभाकार, पशु पशुभाकार, विहगकार, वानराकार इत्यादि अनेक प्रकारना आकारवाला इहेला उ 'जीवा ण भते किं नाणी वि अन्नाणी' उ अत्रवना एव ज्ञानी उ हे अज्ञानी । गोयमा' हे गौतम । 'जीवा नाणि वि अन्नाणी वि' एव ज्ञानी पण्य उ अने अज्ञानी पण्य उ 'जे नाणी ते अत्येगइया दुष्माणी, अत्ये गइया तिष्माणी, अत्येगइया चउनाणी, अत्येगइया एगनाणी' जे एव ज्ञानी उ तेमा' हेलाक एव जे ज्ञानवाजा उ, हेलाक एव तसु ज्ञानवाजा उ अने हेलाक एव चार ज्ञानवाजा उ तमच हेलाक एव जेक ज्ञानवाजा उ 'जे दुष्माणी ते आमिणिवोहिय नाणी य सुय नाणी य' जे एव जे ज्ञानवाजा उ

आभिनिवोधिकज्ञानिनः, श्रुतज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनः, अथवा आभिनिवोधिक-  
ज्ञानिनः, श्रुतज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिनः, ये चतुर्ज्ञानिनस्ते आभिनिवोधिक-  
ज्ञानिनः, श्रुतज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिनः, ये एकज्ञानिनः ते  
नियमात् केवलज्ञानिनः, ये अज्ञानिनस्ते अस्त्येकके द्व्यज्ञानिनः, अस्त्येकके त्र्य-  
ज्ञानिनः, ये द्व्यज्ञानिनस्ते मनःपर्यवाज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनश्च, ये त्र्यज्ञानिन-  
स्ते मनःपर्यवाज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनः, विभङ्गज्ञानिनः ॥ सू० ४

ज्ञानवाले हैं। (जे तिन्नाणी ते आभिनिवोदियनाणी, सुयनाणी, ओहि-  
नाणी) जो जीव तीनज्ञानवाले हैं वे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अव-  
धिज्ञान इन तीन ज्ञानवाले होते हैं। (अहवा आभिनिवोदियनाणी,  
सुयनाणी मणपज्जवनाणी) अथवा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और मनःपर्यव-  
ज्ञान इन तीन ज्ञान वाले होते हैं। (जे चउनाणी ते आभिनिवोदिय-  
नाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी मणमज्जवनाणी) जो जीव चारज्ञानवाले  
होते हैं वे मतिज्ञान श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञान इन चार  
ज्ञानवाले होते हैं (जे एगनाणी ते नियमा केवलवाणी) और जो जीव  
एक ज्ञानवाले होते हैं वे नियमसे, एक ज्ञान केवलज्ञानवाले होते हैं।  
(जे अन्नाणी ते अत्येगइया, दुअन्नाणी अत्येगइया ति अन्नाणी) जो  
जीव अज्ञानी कहे गये हैं वे कितनेक जीव दो अज्ञानवाले होते हैं  
और कितनेक जीव तीन अज्ञानवाले होते हैं। (जे दु अन्नाणी ते  
मइ अन्नाणीय, सुयअन्नाणीय) जो दो अज्ञानवाले होते हैं, मत्य-

ते भतीज्ञानअने श्रुतज्ञानवाणा छे 'जे तिन्नाणी ते आभिनिवोदिय नाणी सुय  
नाणी ओहिनाणी' ने एव त्रय ज्ञानवाणा छे ते मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अने  
अवधितानवाणा छे 'अहवा आभिनिवोदियनाणी सुयनाणी  
मणपज्जवनाणी' अथवा भतीज्ञान, श्रुतज्ञान अने मन पर्यवज्ञान ए त्रय  
ज्ञानवाणा होय छे 'जे चउनाणी ते आभिनिवोदिय नाणी सुयनाणी ओहि  
नाणी मणपज्जवनाणी' ने एव चार ज्ञानवाणा होय छे ते मतिज्ञान, श्रुतज्ञान,  
अवधिज्ञान अने मनःपर्यवज्ञान ए चार ज्ञानवाणा होय छे 'जे एग नाणी ते  
नियमा केवलनाणी' अने ने एव एक ज्ञानवाणा होय छे ते नियमथी एक  
ज्ञान केवलज्ञानवाणा होय छे 'जे अन्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी, अत्येगइया  
ति अन्नाणी' ने एव अज्ञानी कहेला छे ते पैडी डेटलाक अज्ञानवाणा अने  
डेटलाक त्रय अज्ञानवाणा होय छे 'जे दु अन्नाणी ते मइ अन्नाणी य सुय  
अन्नाणी य' ने छे अज्ञानवाणा होय छे ते मत्यज्ञानवाणा अने श्रुताज्ञानवाणा होय छे

टीका—‘कश्चिद्देहं मंते ! गाणे पण्णत्ते ?’ गौतमः पृच्छति— हे मद्दन्त ! कतिपिष  
 खलु ज्ञान मङ्गलम् ? मगवानाह—‘गोयमा ! पंचविहे गाणे पण्णत्ते’ हे गौतम !  
 पञ्चविधं ज्ञान मङ्गलम्, सान्पेवाह—‘त महा—आमिणिबोहियणाणे, सुयणाणे,  
 ओहिणाणे, मणपञ्जणणाणे, केवलणाणे’ तद्यथा—आमिनिबोधिक्खानम्, भुत  
 ज्ञानम्, अवधिज्ञानम्, मनःपर्यवज्ञानम्, केवलज्ञानम्, सप्त—अर्थाभिमुख्येन ययार्थ  
 नियतो बोधः आमिनिबोधिक्खानमुच्यते, मनः समाभिस्य उचत्त् वियपमपत्तते  
 यो बोधः सः आमिनिबोधिक्खान कथ्यते इति भाषः, भवज्ञानम्—भूयते यद्  
 ज्ञानवाले होते हैं और भुतअज्ञानवाले होते हैं । (जे तिय अन्नाणी  
 ते मह अन्नाणी सुयअन्नाणी विमगनाणी) जो जीव तीन अज्ञान  
 वाले होते हैं वे मस्यज्ञानी होते हैं, भुताज्ञानी होते हैं और विमगा-  
 ज्ञानी होते हैं ।

टीकार्य—ज्ञानका अधिकार होनेसे ज्ञानके भेदोंकी विशेषवक्तव्य  
 साका प्रतिपादन यहाँपर सूत्रकारने किया है इसमें गौतमने मनुसे  
 ऐसा पूछा है ‘कश्चिद्देहं मंते ! गाणे पण्णत्ते’ हे मद्दन्त ! ज्ञान  
 कितने प्रकारका कहा गया है ? उत्तरमें मनु कहते हैं ‘गोयमा’ हे  
 गौतम ! ‘पंचविहे गाणे पण्णत्ते’ ज्ञानपांच प्रकारका कहा गया है ।  
 ‘तजहा’ ज्ञानके वे पांच प्रकार ऐसे हैं ‘आमिणिबोहियणाणे, सुयणाणे,  
 ओहिणाणे मणपञ्जणणाणे, केवलणाणे’ आमिनिबोधिक्खान, भुतज्ञान,  
 अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान पदार्थकी अभिसुखतालेकर जो  
 ययार्थ नियतबोध होता है उसकानाम आमिनिबोधिक्खान है । मनको  
 आभित्त करके तत्तत् विषयकी मो बोध अपेक्षा करता है उस बोधका

‘जे तिय अन्नाणी मह अन्नाणी सुयणाणी विमगनाणी’ के रूप मध्य अज्ञान-  
 वाण्य होय छे ते मस्यज्ञानी होय छे भुताज्ञानी होय छे अने विमगनाणी होय छे ।

टीकाथ— ज्ञानको अधिकार होवाही ज्ञानता भेदिनु निरूपण्य अही सुत्रकार  
 इति छे तेषां जीवमे प्रभुने जेनु पृच्छु छे— ‘कश्चिद्देहं मंते गाणे पण्णत्ते’  
 हे मगवान ज्ञान केहा प्रकारना कहा छे उत्तर— ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘गाणे  
 पंचविहे पण्णत्ते’ ज्ञान पांच प्रकारना कहा छे ‘तजहा’ के आ रीति छे—  
 ‘आमिनिबोहियणाणे, सुयणाणे, मणपञ्जणणाणे, केवलणाणे’ आमिनिबोधिक्खान  
 भुतज्ञान, अवधिज्ञान अने मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान पदार्थने स सुयणाणीने के बसाव  
 नित्य बोध वाय छे तेषु नाम आमिनिबोधिक्खान छे मनको आश्रय करीने ते ते  
 विषयकोने के बोध वाय छे—अपेक्षित होय छे ते जेपहु नाम आमिनिबोधिक्खान अहे

तदिति श्रुतम्, शब्दः श्रवणं वा तदेव ज्ञानं भावश्रुतकारणत्वात्, कारणे कार्यो-  
पचारात् श्रुतज्ञानम्, अथवा श्रुतात् शब्दात् ज्ञानम् इन्द्रियनोइन्द्रियनिमित्तः  
श्रुतानुसारी बोधः इत्यर्थः, अवधिज्ञानम्-अवधिना सर्वमूर्तद्रव्ये मर्यादया 'मूर्त  
द्रव्याण्येव जानाति नेतराणि' इति व्यवस्थया जायमानं प्रत्यक्षज्ञानम् अवधि-  
ज्ञानमुच्यते, मनःपर्यवज्ञानम्-मनोद्रव्यपर्यायज्ञानं मनःपर्यवज्ञानम्; तथा-  
मनोद्रव्यस्य पर्यवः परिच्छेदः सर्वद्रव्यपर्यायाणां संपूर्णं ज्ञानं केवलज्ञानमुच्यते ।  
केवलमेकं मत्यादिज्ञाननिरपेक्षत्वात् शुद्धं वा आवरणमलकलङ्करहितत्वात् यथा-

नाम आभिनिबोधिकज्ञानं कदा गद्या है । श्रुतनाम शब्दका है क्योंकि  
शब्द सुना जाता है इसलिये शब्द अथवा श्रवण इन्हें ही, भावश्रुत  
का कारण होनेके कारण कारणमें कार्यके उपचार करदेनेसे श्रुतज्ञान  
कहा दिया गया है । अथवा श्रुत-शब्दसे इन्द्रिय और नोइन्द्रिय निमि-  
त्तवाला श्रुतानुसारी जो बोध होता है वह श्रुतज्ञान है । सर्वमूर्त-  
द्रव्योंको जो मर्यादालेकर स्पष्ट विना इन्द्रियोंकी सहायताको जानता  
है अथवा सर्वमूर्तद्रव्यरूपमर्यादाको लेकर जो उन्हें जानता है वह ज्ञान  
अवधिज्ञान है । अवधिज्ञान मूर्तद्रव्योंके सिवाय अमूर्तद्रव्योंको नहीं  
जानता है । मनोद्रव्यको जाननेवाला अर्थात् विना किसी इन्द्रियकी  
सहायताके जो ज्ञान स्पष्टरूपसे मनके विचारोंको पर्यायोंको जानता है  
ऐसे ज्ञानका नाम मनःपर्यवज्ञान है । जो ज्ञान समस्त द्रव्योंको और  
उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायोंको स्पष्टरूपसे जानता है उस  
ज्ञानका नाम केवलज्ञान है । यह मत्यादिकज्ञान निरपेक्ष होनेसे  
एक असहाय होता है अथवा आवरणकलङ्कसे रहित होनेके कारण

छे. श्रुतनाम शब्दं छे केभके शब्द सभणाय छे ओटके शब्द अथवा श्रवणने न लाव-  
ज्ञाननु कारणु कडेव होवाथी कारणुमा कार्यने उपचार करवाथी श्रुतज्ञान कडेवाय छे अथवा  
श्रुतशब्दथी इन्द्रिय अने नोइन्द्रिय निमित्तवाणु श्रुतानुसारी ने बोध थाय छे ते  
श्रुतज्ञान छे. सर्व मूर्त द्रव्योनी मर्यादाने इन्द्रियोनी सहायता सिवाय स्पष्ट रीते  
नखे छे अथवा सर्व मूर्त द्रव्यरूप मर्यादाथी ने तेने नखे छे ते ज्ञान अवधिज्ञान छे  
अवधिज्ञान मूर्त द्रव्ये सिवाय अमूर्त द्रव्योने नखणुत् नथी मनोद्रव्यने नखणुवावाणु  
अर्थात् केछे इन्द्रियोनी सहायता विना ने ज्ञान मनना विचारोने - पर्यायोने - नखे छे  
अथवा ज्ञाननु नाम मनःपर्यायज्ञान छे, ने ज्ञान समस्त द्रव्योने अने तेनी त्रिकालवर्ती  
पर्यायोने स्पष्ट रूपथी नखे छे ते ज्ञाननु नाम केवलज्ञान छे. ते मत्यादिकज्ञान निरपेक्ष  
होवाथी ओके असहायरूप होय छे अथवा आवरण कलङ्करहित होवाथी कारणु शुद्ध होय



वस्थिताशेषभावावभासि ज्ञानमित्यर्थः । गौतमः, पृच्छति-‘से-किं आमिणि षोडियनाणे?’ हे भदन्त ! अयं किं तत्-कतिविधम् आमिनिषोडिकज्ञान-मुच्यते ? ‘मगधानाह-‘आमिणिषोडियनाणे षठ्ठिहे पण्णसे’ हे गौतम ! आमिनिषोडिकज्ञानं चतुर्विधं प्रकृतम्, ‘त जहा-उग्गहो, ईहा, अवाओ, पारणा’ तद्यथा-अवग्रहः, ईहा, अवायः, पारणाच, तत्र अनिर्देश्यसामान्यमात्ररूपार्थं ग्रहणम् अवग्रहः, विद्यमानार्थस्य विशेषधर्मविचारणा सर्वविशेषासोचनम् ईहा, अर्थाधिनिश्चयः-अवायः, निश्चितार्थस्य स्मरणादि रूपेण कालान्तररेऽपि धारणं धारणा उच्यते, इति भाष्यं, ‘एव जहा रायप्पसेणज्जे णाणाण मेवो

शुद्ध होता है । तात्पर्य कहनेका यह है कि जो ज्ञान संपूर्ण होता है उसी ज्ञानका नाम केवलज्ञान है । इसज्ञानमें समस्त मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थोंका यथार्थ अवभास होता है । अथ गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं ‘से किं तं आमिणिषोडियनाणे’ हे भदन्त ! आमिनि षोडिकज्ञान किमने प्रकारका कहा गया है ? इसके उत्तरमें प्रश्न उनसे कहते हैं ‘आमिणिषोडियनाणे षठ्ठिविहे पण्णसे’ हे गौतम ! आमिनिषोडिकज्ञान चार प्रकारका कहा गया है । ‘तजहा’ जो इस प्रकारसे है ‘उग्गहो, ईहा, अवाओ, पारणा’ अवग्रह ईहा, अवाय और धारणा अनिर्देश्य ऐसे सामान्यमात्ररूप अर्थका ग्रहण होना इसका नाम अवग्रह है । विद्यमान अर्थके विशेषधर्मोंकी विचारणाका होना इसका नाम ईहा है । ईहित अर्थका निश्चय होना इसका नाम अवाय है और निश्चित हुए अर्थकी स्मरणादिरूपसे कालान्तरमें भी धारणा धनी रहना इसका नाम धारणा है । ‘एव जहा रायप्पसेण-

● कहेवानो हेतु को छे छे छे ज्ञान संपूर्ण होय ● ते ज्ञाननु नाम इवज्ज्ञानं ● अथ ज्ञानमा संपूर्ण मूर्तिके अने अमूर्तिक पदार्थोनि पचाय रीते आभास भाव ● प्रश्न- ‘से किं तं आमिणिषोडिय नाणे’ के अर्थकन आमिनिषोडिकज्ञान इत्येवा प्रकारानु कथु ● उत्तर- ‘आमिणिषोडियनाणे षठ्ठिविहे पण्णसे’ के अर्थकन आमिनिषोडिकज्ञान चार प्रकारानु कहेल ● ‘त जहा’ जे आ प्रभासे छे उग्गहो, ईहा, अवाओ, पारणा,’ अवग्रह, ईहा, अवाय अने धारणा अनिर्देश्य कोय सामान्य मात्र रूपकधनु प्रकृत धनु तेनु नाम अवग्रह ● विद्यमान अर्थके विशेष धर्मोनी विचारणानु धनु तेनु नाम ईहा ● ईहित अर्थके निश्चय बने तेनु नाम अवाय छे अने निश्चित धरयेल अर्थोनी स्मरणे आदि रूपी कालान्तरमा पलु धारणानु धनी रहनु तेनु नाम धारणा ● ‘एवं जहा रायप्पसेणज्जे णाणाणी मेवो तहेप

तद्देव इहवि भाणियव्वो जाव सेत्तं केवलनाणे' एवं यथा राजप्रश्नीयसूत्रे ज्ञानानां भेदः प्रकारः प्रतिपादितस्तथैव इहापि भणितव्यः, यावत्-तदेतत् केवलज्ञानम्, केवलज्ञानपर्यन्तमित्यर्थः। गौतमः पृच्छति-‘अन्नाणे णं भंते ! कइविहे पणत्ते ?’ हे भदन्त ! अज्ञानं खलु कतिविधं प्रज्ञप्तम् ? विपरीतज्ञानमज्ञानम्, भगवानाह-‘गोयमा ! तिविहे पणत्ते, तं जहा-मइअण्णाणे, सुयअण्णाणे, विभंगनाणे’ हे गौतम ! अज्ञानं त्रिविधं प्रज्ञप्तम्, तद्यथा-मत्यज्ञानम्, श्रुताज्ञानम्, विभङ्गज्ञानम् विपरीतज्ञानम् विरुद्धा भङ्गा विकल्पा यस्मिन् तत् विभङ्गज्ञानम्, उक्तं च—

‘अवसेसिया मइ च्चिय, सम्मदिट्ठिस्स सा मइन्नाणं,

मइअन्नाणं मिच्छदिट्ठिस्ससुयंपि एमेव ’ ॥ १ ॥

गौतमः पृच्छति-‘से किं तं मइअन्नाणे ? हे भदन्त ! - अथ किं तत्-

इज्जे णाणाण भेदो तद्देव इहवि भाणियव्वो जाव सेत्तं केवलनाणे’ राजप्रश्नीय सूत्रमें जिस प्रकारसे ज्ञानोंका प्रकार कहा गया है उसी प्रकारसे यहां पर भी वह कह लेना चाहिये यावत् ‘से त्तं केवलनाणे’ इस पाठतक । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘अन्नाणेणं भंते ! कइविहे पणत्ते’ हे भदन्त ! अज्ञान कितने प्रकारका कहा गया है ? विपरीतज्ञानका नाम अज्ञान है । इसका उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘तिविहे पणत्ते’ अज्ञान-विपरीतज्ञान तीन प्रकारका कहा गया है । ‘तंजहा’ जो इस प्रकारसे है ‘मइ अण्णाणे, सुयअण्णाणे, विभंगनाणे’ मत्यज्ञान, श्रुतअज्ञान, विभंगज्ञान विरुद्ध विकल्प जिस ज्ञानमें होते हैं उसका नाम विभङ्ग ज्ञान है । कहा भी है- ‘अवसेसिया मइच्चिय इत्यादि

इसकी व्याख्या सुद्रित नंदीसूत्रमें पृ. २९४ वेंमें देखनी चाहिये ।

इहवि भाणियव्वो जाव सेत्तं केवलनाणे’ राजप्रश्नीय सूत्रमा ने रीते ज्ञानना लेहे कहेल छे ते न रीते अंहीआ पथु समज्जवा यावत्- ‘सेत्तं केवलनाणे’ अे पाठ पर्थ त.

प्रश्न- ‘अन्नाणेणं भंते कइविहे पणत्ते’ छे भगवान ! अज्ञान कटला प्रकारना कहेला छे ? विपरीत ज्ञाननु नाम अज्ञान छे उ ‘गोयमा’ हे गौतम ! तिविहे पणत्ते’ अज्ञान त्रथु प्रकारनु कहेल छे ‘तंजहा’ ने आ रीते छे ‘मइ अन्नाणे, सुय अण्णाणे, विभंगनाणे’ मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान अने विभंगज्ञान विरुद्ध विकल्प ने ज्ञानमा होय छे ते ज्ञाननु नाम विभंगज्ञान छे कहु पथुछे-‘अवसेसियामइच्चिय इत्यादि’ आ गाथानी व्याख्या नंदीसूत्रमा पृष्ठ २६४ मा जेठ लेवी प्रश्न- ‘से किं त मइ



तुर्ज्ञानिनस्ते अभिनिबोधिकज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनः, मनःपर्यव-  
ज्ञानिनो भवन्ति, 'जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी' ये जीवा एकज्ञानि-  
नस्ते नियमात् नियमतः केवलज्ञानिनो भवन्ति, 'जे अन्नाणी ते अत्येगइया  
दुअन्नाणी, अत्येगइया त्तिअन्नाणि' ये जीवाः अज्ञानिनो भवन्ति. तेषु  
सन्ति एकके द्वयज्ञानिनः, सन्ति एकके त्रयज्ञानिनः तत्र 'जे दुअन्नाणी ते मइ-  
अन्नाणी य, सुयअन्नाणी य' ये द्वयज्ञानिनो जीवास्ते मत्यज्ञानिनः; श्रुताज्ञानि-  
नश्च भवन्ति, किन्तु 'जे त्रियअन्नाणी ते मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी,  
विभंगनाणी' ये त्रयज्ञानिनो भवन्ति ते मत्यज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनः,  
विभङ्गज्ञानिनश्च, ॥ सू० ४ ॥

मूलम्—नेरइया णं भंते ! किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा !  
नाणी वि, अन्नाणी वि, जे नाणी ते नियमा त्तिन्नाणी, तंजहा

नाणी' जो चारज्ञानवाले कहे गये हैं वे अभिनिबोधिकज्ञान,  
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञान इन चारज्ञानवाले होते हैं।  
तथा 'जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी' जो जीव एकज्ञानवाले  
कहे गये हैं वे नियमसे एकज्ञान केवलज्ञानवाले होते हैं। 'जे  
अन्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी, अत्येगइया त्तिअन्नाणी' जो जीव  
अज्ञानी होते हैं वे कोई मत्यज्ञान श्रुतअज्ञान इन दो अज्ञानवाले होते  
हैं और कोई २ मत्यज्ञान श्रुतअज्ञान और विभंगज्ञान इन तीन अज्ञान-  
नवाले होते हैं। यही बात 'जे दुअन्नाणी, ते मइ अन्नाणी य,  
सुयअन्नाणी य, जे त्रियअन्नाणी ते मइ अन्नाणी, सुयअन्नाणीः  
विभंगनाणी' इनसूत्रों द्वारा प्रकटकी गई ॥ सू. ४ ॥

जे चार ज्ञानवाणा कहेल छे ते अभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अने मनः  
पर्यवज्ञान अने चार ज्ञानवाणां होय छे तथा 'जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी'  
जे छव अके ज्ञानवाणां कहेल छे ते नियमथी केवल अके ज्ञानवाणां होय छे.  
'जे अन्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी, अत्येगइया त्तिअन्नाणी' जे छव अज्ञानी  
होय छे ते कोइ मत्यज्ञान अने श्रुतअज्ञान अने अज्ञानवाणां होय छे अने कोइ कोइ  
मत्यज्ञान श्रुतअज्ञान अने विभंगज्ञानवाणां होय छे अने वात जे 'जे दुअन्नाणी ते मइ  
अन्नाणीय, सुय अन्नाणीय, जे त्रियअन्नाणी ते मइ अन्नाणी, सुय अन्नाणी,  
विभंगनाणी' आ सूत्रो द्वारा प्रकट कहेल छे. ॥सू. ४॥

अभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, जे अघ्नाणी, ते  
 अत्येगइया दुअघ्नाणी, अत्येगइया तिअघ्नाणी, एव तिस्रि अघ्ना  
 णाणि भयणाए, असुरकुमारा ण भते ! किं नाणी, अण्णाणी ?  
 जहेव नेरइया तहेव तिस्रि नाणाणि नियमा, तिस्रि अन्नाणाणि  
 भयणाए । एव जाव थणियकुमारा । पुढविक्काइया ण भते !  
 किं नाणी, अघ्नाणी ? गोयमा ! नो नाणी, अन्नाणी, जे अन्नाणी.  
 ते नियमा दुअन्नाणी-मइअन्नाणी य, सुयअघ्नाणी य, एव  
 जाव वणस्सइकाइया । वेइदिया ण पुच्छा ? गोयमा ! णाणी वि,  
 अन्नाणी वि, जे नाणी ते नियमा दुन्नाणी, तजहा-आभिणि-  
 बोहियनाणी य, सुयनाणी य, जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी,  
 तजहा-आभिणिबोहियअघ्नाणी, सुयअघ्नाणी । एव तेइदिय चउ  
 रिंदिया वि । पच्चिदियतिरिक्खजोणिया ण पुच्छा ? गोयमा !  
 नाणी वि अघ्नाणी वि, जे नाणी ते अत्येगइया दुघ्नाणी, अत्ये  
 गइया तिघ्नाणी, एव तिस्रि नाणाणि, तिस्रि अघ्नाणाणि य भय  
 णाए, मणुस्सा जहा जीवा तहेव पच नाणाणि तिअघ्नाणाणि  
 भयणाए, षाणमतरा जहा नेरइया । जोइसियधेमाणियाण तिन्नि  
 नाणा, तिन्नि अण्णाणा नियमा । सिद्धा णं भते ! पुच्छा ? गोयमा !  
 णाणी, नो अन्नाणी, नियमा एगनाणी केवलनाणी । सु० ५॥

उया-नैरयिकाः सख मवत्त ! किं ज्ञानिनः ? अज्ञानिनः ? गंतम !  
 ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, ये ज्ञानिनस्ते नियमात् पिज्ञानिनः, उया-  
 आभिनिबोपिक्खानिनः, भुतज्ञानिनः, अबधिज्ञानिनः, ये अज्ञानिनस्ते अस्त्येकके

द्वयज्ञानिनः, अस्त्येकके त्रयज्ञानिनः, एवं त्रयज्ञानिनो भजनया । असुरकुमाराः  
खलु भदन्त ! किं ज्ञानिनः? अज्ञानिनः? यथैव नैरयिकास्तथैव, त्रीणि ज्ञानानि  
नियमात्, त्रीणि अज्ञानानि भजनया, एवं यावत्-स्तनितकुमाराः, पृथिवीकायिकाः

‘नेरइयाणं भंते ! किं नाणी, अन्नाणी’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (नेरइयाणं भंते ! किं नाणी ? अन्नाणी ?) हे भदन्त !  
नैरयिक जीव ज्ञानी होते हैं कि अज्ञानी होते हैं (गोयमा)  
हे गौतम ! नारकजीव (नाणी वि, अन्नाणो वि) ज्ञानी भी  
होते हैं अज्ञानी भी होते हैं (जे नाणी ते नियमा तिन्नाणी)  
जो ज्ञानी होते हैं, वे नियमसे तीन ज्ञानवाले होते हैं । (तंजहा)  
जैसे (आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी) आभिनिबोधिक-  
ज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान इनतीन ज्ञानवाले होते हैं (जे अन्नाणी  
ते अत्येगइया दुअन्नाणी अत्येगइया तिअन्नाणी) और जो अज्ञानी  
होते हैं वे कोई तो दो अज्ञानवाले होते हैं और कोई तीन अज्ञानवाले  
होते हैं । (एवं तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए) इस तरह जो नैरयिक अज्ञानी  
होते हैं उनमें किसी २ नैरयिकोंको दो अज्ञान होते हैं और किसी २  
नैरयिकोंको तीन अज्ञान होते हैं । (असुरकुमाराणं भंते ! किं नाणी,  
अण्णाणी) हे भदन्त ! असुरकुमार क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? (जहेव नेरइया तहेव तिन्नि नाणाणि नियमा) जैसा नैर-

‘नेरइया णं भंते किं नाणी अन्नाणी इत्यादि ।

सूत्रार्थ- ‘नेरइया णं भंते किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवन ! नैरयिक श्रुत  
ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नाणी वि अन्नाणी वि’  
नारक श्रुत ज्ञानी अने अज्ञानी पणु होय छे ‘जे नाणी ते नियमा तिन्नाणी’  
के ज्ञानी होय छे ते नियमथी त्रय ज्ञानवाणा होय छे ‘तंजहा’ जेभके ‘आभिणि-  
बोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी’ आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुतज्ञान अने  
अवधिज्ञान अने त्रय ज्ञानवाणा होय छे ‘जे अन्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी अत्ये-  
गइया तिअन्नाणी’ के अज्ञानी होय छे ते पैकी केअ छे अज्ञानवाणा अने केअ त्रय  
अज्ञानवाणा होय छे ‘एवं तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए’ अने रीते के नैरयिक ज्ञानी  
होय छे तेमा केअ केअ नैरयिकने अने अज्ञान होय छे अने केअकेअने त्रय अज्ञान होय छे.  
‘असुरकुमाराणं भंते किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवन ! असुरकुमार ज्ञानी होय छे के  
अज्ञानी ? ‘जहेव नेरइया तहेव तिन्नि नाणाणि नियमा’ जेरी रीते नैरयिकाना  
विषयमा कहेअ छे ते के रीते आना सम्भवमा पणु समअ देवु अर्थात् के असुरकुमार

सख मन्द ! किं ज्ञानिनः ? अज्ञानिनः ? गौतम ! नो ज्ञानिनः, अज्ञानिनः, ये अज्ञानिनस्ते नियमात् द्रव्यज्ञानिनः मत्पज्ञानिनश्च, भ्रुताज्ञानिनश्च, एव यावत् वनस्पतिकायिकाः, द्वीन्द्रिया सख पृच्छा ! गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि,

यिकोकि विषयमें कहा गया है-वैसा ही इनके विषयमें भी जानना चाहिये । जो असुरकुमार ज्ञानी होते हैं वे नियमसे तीनज्ञानवाले होते हैं । ( तिन्नि अण्णाणाणि भयणाए ) और जो असुरकुमार अज्ञानी होते हैं उनमें कोईतो दो अज्ञानवाले होते हैं और कोईर तीन अज्ञानवाले होते हैं । ( एष जाव धणियकुमारा ) इसी तरहसे यावत् स्तनितकुमारोंके विषयमें भी ज्ञानी अज्ञानीकी अपेक्षासे कथन जानना चाहिये । ( पुढविक्काइया ष भते ! किं नाणी, अन्नाणी ) हे मन्द ! पृथिवीकायिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! पृथिवीकायिक जीव (नो नाणी, अण्णाणी) ज्ञानी नहीं होते हैं अपितु अज्ञानी ही होते हैं । ( जे अन्नाणी, ते नियमा दुअन्नाणी ) जो अज्ञानी होते हैं, वे नियमसे दो अज्ञानवाले होते हैं ( मइ अन्नाणी, य सुय अन्नाणीय ) एक मति अज्ञानवाले और दूसरे श्रुत अज्ञानवाले ( एष जाव वणस्सइकाइया ) इसी तरहसे वनस्पतिकायिक जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये ( बेइंदियाण पुच्छा ) हे मन्द ! जो द्वीन्द्रियजीव होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! ( नाणी वि अन्नाणी वि )

ज्ञानी होय उ ते निवभथी त्रयु ज्ञानवाणा होय उ ' तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए ' अने ने असुरकुमार अज्ञानी होय उ तेमां इअ ते मे अज्ञानवाणा अने इअ पइ अज्ञानवाणा होय उ ' एष जाव धणियकुमारा ' ज्येअ रीते यावत् स्तनितकुमारो विषयभं पइ ज्ञानी अज्ञानीनी अपेक्षासे कथन समथ वेवु. ' पुढविक्काइया ष भंते किं नाणी अन्नाणी ' उे अगवन् । पृथ्वीकायिक एव ज्ञानी होय उ हे अज्ञानी । ' गोयमा ' हे गौतम ! पृथ्वीकायिक एव ' नो नाणी अन्नाणी ' ज्ञानी होय नथी पइ अज्ञानी होय उ ' जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी ' ने अज्ञानी होय उ ते निवभथी ने अज्ञानवाणा होय उ मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य ' ज्येअ मति अज्ञान अने जीव श्रुत अज्ञानवाणा होय उ ' एष जाव वणस्सइकाइया ' ज्येअ रीते यावत् वनस्पतिकायिक एवेना निवभथं पइ समथ वेवु. ' बेइंदियाण पुच्छा ' हे मन्द ! ने द्वीन्द्रिय एव होय उ ते ए ज्ञानी होय उ ३ अज्ञानी । ' गोयमा ' हे गौतम ! ' नाणी वि अन्नाणी वि ' ने पन्थिय एव ज्ञानी पइ होय उ

ये ज्ञानिनस्ते नियमात् द्विज्ञानिनः, तद्यथा—आभिनिवोधिकज्ञानिनश्च, श्रुतज्ञानिनश्च, ये अज्ञानिनस्ते नियमात् द्वयज्ञानिनः, तद्यथा—मत्यज्ञानिनश्च श्रुताज्ञानिनश्च, एवं त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रिया अपि । पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः खलु पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, ये ज्ञानिनस्ते अस्त्येकके द्विज्ञानिनः, अस्त्येकके त्रिज्ञानिनः, एवं त्रीणि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि भजनया । मनुष्या यथा जीवाः, तथैव, पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया । वानव्यन्तरा

वेन्द्रिय जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । (जे नाणी ते नियमा दुन्नाणी, तंजहा—आभिनिवोहियनाणी य, सुयनाणीय) जो वेन्द्रियजीव ज्ञानी होते हैं वे नियमसे दो ज्ञानवाले होते हैं एक आभिनिवोधिकज्ञानवाले और दूसरे श्रुतज्ञानवाले । (जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी) जो वेन्द्रियजीव अज्ञानी होते हैं वे नियमसे दो अज्ञानवाले होते हैं (तंजहा) जैसे मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी) आभिनिवोधिकअज्ञान, श्रुतअज्ञान ( एव तेइंदियचउइंदिया वि) इसी तरहसे तेइन्द्रिय जीवोंके विषयमें और चौइन्द्रिय जीवोंके विषयमें भी ज्ञानी और अज्ञानीको लेकर कथन करलेना चाहिये । ( पंचिंदियतिरिक्ख जोणियाणं पुच्छा ) हे भदन्त ! जो पंचेन्द्रियतिर्यच होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं ? या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी वि अन्नाणी वि) पंचेन्द्रियतिर्यच ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं (जे नाणी ते अत्येगइयादुन्नाणी, अत्येगइया तिन्नाणी) जो ज्ञानी होते हैं उनमें कितनेक पंचेन्द्रियतिर्यच दो ज्ञातवाले होते हैं

अने अज्ञानी पणु होय छे 'जे नाणी ते नियमा दुन्नाणी तंजहा - आभिनिवोहियनाणी य, सुय नाणी य' ने अने धन्द्रिय एव ज्ञानी होय छे ते नियमथी अने ज्ञानवाणा होय छे अेक आभिनिवोधिक ज्ञानवाणा अने पीण श्रुत ज्ञानवाणा. 'जे अन्नाणी ते नियमा दुन्नाणी' ने अने धन्द्रिय एव अज्ञानी होय छे ते नियमथी अने अज्ञानवाणा होय छे 'तंजहा' नेअके 'मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी' आभिनिवोधिक अज्ञान अने श्रुत अज्ञान 'एव तेइंदिय - चउइंदिया वि' अने अज्ञानीने उदेशीने समल्ल लेवुं 'पंचिंदियतिरिक्खजोणिया णं पुच्छा' छे भगवन् ! ने पंचेन्द्रिय तिर्चय होय छे ते थुं ज्ञानी होय छे छे अज्ञानी ? 'गोयमा' छे गौतम 'नाणी वि अन्नाणी वि' पंचेन्द्रिय तिर्चय ज्ञानी अने अज्ञानी पणु होय छे. 'जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी अत्येगइया तिन्नाणी' ने ज्ञानी होय छे ते थौडी इटवाक पंचेन्द्रिय तिर्चय अने ज्ञानवाणा होय छे अने



યયા નૈરયિકાઃ, જ્યોતિષિકૈર્વૈમાનિકાનાં શ્રીણિ જ્ઞાનાનિ, શ્રીણ્યજ્ઞાનાનિ નિયમાત્  
સિદ્ધાઃ સ્વલ્પમદન્ત ! પૃચ્છા, ગૌતમ ! જ્ઞાનિનઃ, મો અજ્ઞાનિનઃ નિયમાત્, એક  
જ્ઞાનિનઃ કેવલજ્ઞાનિનઃ ॥ મૃ૦ ૫ ॥

ઢૌર કિલ્લનેક પચેન્દ્રિયતિર્યચ તીન જ્ઞાનઘાલે હોતે હૈં । (એઘ તિલ્લિ-  
નાળાણિ તિલ્લિ અન્નાળાણિ મયળાણ) ઇસ તરહ પચેન્દ્રિય તિર્યચોમિ  
તીન જ્ઞાનઘાલે હોનેકી ઢૌર તીન અજ્ઞાનઘાલે હોનેકી મજના હૈ ।  
(મણુસ્સા જહા ઝીઘા તહેઘ પચનાળાણિ, તિલ્લિ અન્નાળાણિ મયળાણ)  
મનુષ્ય સામાન્ય ઝીઘકી તરહ પાંચજ્ઞાનઘાલે ઢૌર તીન અજ્ઞાનઘાલે  
મજનાસે હોતે હૈં । (ઘાળમંતરા જહા નેરઝયા, જોહસિય-વેમાણિયાળ  
તિલ્લિ નાળા તિલ્લિ અન્નાળા નિયમ) ઘાનબ્યન્તર નૈરયિક ઝીઘોકી તરહ  
જ્ઞાનઘાલે ઢૌર અજ્ઞાન ઘાલે હોતે હૈં । ઝ્યોતિષિક ઢૌર વૈમાનિકવેવોકિ  
તીનજ્ઞાન ઢૌર તીનઅજ્ઞાન નિયમસે હોતે હૈં । (સિદ્ધાણં મતે ! પુચ્છા)  
હે મદન્ત ! સિદ્ધઝીઘ જ્ઞાની હોતે હૈં ? યા અજ્ઞાની હોતે હૈં ? (ગોયમા)  
હે ગૌતમ ! સિદ્ધઝીઘ ( ણાળી) જ્ઞાની હી હોતે હૈં ( નો અન્નાળી)  
અજ્ઞાની નહીં હોતે હૈં (નિયમા એકનાળી કેઘલનાળી)જ્ઞાની હોનેપર મી  
વે એકજ્ઞાનકેઘલજ્ઞાનઘાલે હી હોતે હૈં અન્યમત્યાવિકજ્ઞાનઘાલે નહીં હોતે હૈં ।

ટીકાર્થ-હસ સૂત્રઢારા ગૌતમને નૈરયિક આદિ ઝીઘોમિ જ્ઞાની ઢૌર  
અજ્ઞાની હોનેકે ઘિપયમેં એસા પૂછા હૈં કિ નેરઝયાળ મતે ! કિં ણાળી

કેટલાક ત્રણ ઝાનવાળા હોય છે 'એઘ તિલ્લિ નાળાણિ તિલ્લિ અન્નાળાણિ મયળાણ'  
એ જ રીતે પચેન્દ્રિય તિર્યચ વેમીમાં-ત્રણ જ્ઞાનવાળા અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા  
હોવાની અભ્યાસે 'મણુસ્સા મહા ઝીઘા તહેઘ પંચ ણાળાણિ તિલ્લિ અન્નાળાણિ મયળાણ'  
મનુષ્ય સામાન્ય ઢવની આદિકે પાંચ જ્ઞાનવાળા અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા અભ્યાસી ઘાય છે  
'ઘાળમંતરા જહા નેરઝયા જોહસિયવેમાણિયાળ તિલ્લિ નાળા તિલ્લિ અન્નાળા  
નિયમા' ઘાનબ્યન્તર નૈરયિક ઢવની આદિકે જ્ઞાનવાળા અને અજ્ઞાનવાળા હોય છે.  
એકતિર્યચ અને વૈમાનિકવેવ ત્રણ જ્ઞાનવાળા અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા નિષ્કમથી હોય છે  
'સિદ્ધાણં મતે પુચ્છા' હે અજવન ! સિદ્ધ ઢવ જ્ઞાની હોય છે કે અજ્ઞાની ?  
'ગોયમા' હે ગૌતમ ! સિદ્ધ ઢવ 'જાળી' ઢવની જ ઘાય છે 'નો અન્નાળી'  
અજ્ઞાની હોય નથી 'નિયમા એકનાળી કેઘલનાળી' જ્ઞાની હોવા ઢવતાં પચ  
તે એક જ્ઞાન કેવલજ્ઞાનવાળા હોય છે અન્ય મત્યાવિક જ્ઞાનવાળા હોતા નથી.

ટીકાર્થ- જા સૂત્રઢારા ગૌતમ સ્વામીને નૈરયિક આદિ ઢવેના ઢવની અને  
અજ્ઞાની હોવાના વિષયમા એલું પૂછુ છે કે 'નેરઝયા ણ મતે ! કિં ણાળી અન્નાળી'

टीका- गौतमः पृच्छति- 'नेरइया णं भंते ! किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! नैरयिकाः खलु किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह- 'गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि' हे गौतम ! नैरयिकाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति, 'जे नाणी ते नियमा तिन्नाणी,

अन्नाणी' हे भदन्त ! नैरयिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं । यह प्रश्न गौतमने प्रभुसे इसलिये पूछा है कि जीवका सामान्यलक्षण उपयोग है और वह उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेदसे दो प्रकारका कहा गया है, ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका होता है पाँच मत्यादिकज्ञान और ३ तीन अज्ञान । सो कौन २से जीवोंमें कौन २सा ज्ञान होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि' नारकजीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन ज्ञान जब सम्यक्दृष्टि की आत्मामें रहते हैं तब सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं और जब ये ही ज्ञान मिथ्यादृष्टिकी आत्मामें रहते हैं तब मिथ्याज्ञान अज्ञान कहलाते हैं । अज्ञानसे तात्पर्यज्ञानके अभावसे नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी जीव नहीं होता है कि जिसमें ज्ञानका अभाव रहे ज्ञानके अभावमें निजलक्षणका अभाव हो जानेके कारण जीवका अस्तित्व ही नहीं बन सकता है । अतः ज्ञान जब मिथ्यात्वके संसर्गसे दूषित बन जाता है तब वही ज्ञान

हे भगवत नैरयिक एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? आ प्रश्न गौतम स्वाभीअे भगवानने अे माटे पूछये छे के एवनु सामान्य लक्षण उपयोग छे अने ते उपयोग ज्ञानोपयोग अने दर्शनोपयोग अे लेइथी के प्रकारनो छे. ज्ञानोपयोग चार प्रकारनो कडेव छे पाय मत्यादिक ज्ञान अने त्रण अज्ञान अे लेइथी ज्ञानोपयोग उपर मुज्ज्ण आठ प्रकारनो थाय छे तो क्या क्या एवमां क्युं क्युं ज्ञान होय छे ?

उ - 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि' नैरयिक एव ज्ञानी अने अज्ञानी पणु होय छे. मतीज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञान अे त्रण ज्ञान न्यारे सम्यग द्रष्टिथी आत्माभा रहे छे त्यारे सम्यग्ज्ञान कडेवाय छे, अने न्यारे अे न ज्ञान मिथ्यादृष्टिथी आत्माभां रहे छे त्यारे ते मिथ्याज्ञान-अज्ञान कडेवाय छे अेवाे केअ पणु एव छोती नथी जेमा ज्ञाननो अभाव होय ज्ञानना अभावभां येताना लक्षणनो अभाव होवाना कारणे एवनु अस्तित्व न भनी नकटुं नथी. अेथी ज्ञान न्यारे मिथ्यात्वना संसर्गथी दूषित थाय छे. त्यारे ते न ज्ञान अज्ञाननी कटिमां आवे



अत्येगइया दुअन्नाणी, अत्येगइया तिअन्नाणी, एवं तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए' ये नैरयिका अज्ञानिनो भवन्ति तेषु सन्ति एके नैरयिकाः द्वयज्ञानिनः, सन्ति एके नैरयिकाश्च त्रयज्ञानिनो भवन्ति, तथा च असन्नपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां नरकेषूपद्यमानानाम् पर्याप्तकावस्थायां विभङ्गज्ञानाभावात् ते द्वयज्ञानिनो नैरयिका मत्यज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनो भवन्ति, एव त्रयज्ञानिनश्च भवन्ति,

जीव सम्यग्दृष्टि नारक आदि पर्यायमें उत्पन्न हुआ तो उसका वह ज्ञान अवधिज्ञान हो गया और यदि वह मिथ्यादृष्टि देव नारकोंमें उत्पन्न हुआ तो उसका वही ज्ञान विभंगज्ञान हो गया, ज्ञानी नारक-जीवोंमें तीन ज्ञान कौनरसे होते हैं यही बात 'आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी' इससूत्रपाठद्वारा प्रकटकी गई है। 'जे अन्नाणो' ते अत्येगइया दुअन्नाणी, अत्येगइया तिअन्नाणी' जो नारकजीव अज्ञानी होते हैं उनमेंसे कितनेक नारकजीव तो दो अज्ञानवाले होते हैं और कितनेक तीन अज्ञानवाले होते हैं। 'एवं तिन्नि अन्नाणाणी भयणाए' इस प्रकार तीन अज्ञानवाले होने की यहां पर भजना है भजना होनेका कारण यह है कि जो असंज्ञी पंचेन्द्रियतिर्यच जीव नरकोंमें उत्पन्न होते हैं उनके अपर्याप्तावस्थामें विभंगज्ञानका अभाव रहता है इसलिये नैरयिक जीव दो अज्ञानवाले कहे गये हैं। एक मत्यज्ञानवाले और दूसरे श्रुतअज्ञानवाले इसी तरहसे जो तीन अज्ञानवाले होते हैं वे जीव संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें से आकर नारक पर्यायमें उत्पन्न होते हैं अतः इनके अपर्याप्तावस्था में भी भवप्रत्यय विभङ्गज्ञान रहता है। इसी

अवधिज्ञान थछ न्णय अने ने ते मिथ्यादृष्टि आ नाण्डोभा उत्पन्न थाय ते तेनु ते ज्ञान विभंगज्ञान थछ न्णय नारकश्रवोभा त्रयु ज्ञान कयु कयु होय छे अने वात 'आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी ओहिनाणी' आ सूत्रद्वारा प्रकट करेले छे जे अन्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी अत्येगइया तिअन्नाणी' ने नारकश्रव अज्ञानी होय छे तेमाथी डेकलाक जे अज्ञानवाणा अने डेटलाक त्रयु अज्ञानवाणा होय छे 'एवं तिन्नि अन्नाणाणी भयणाए' अने रीते त्रयु अज्ञानवाणा होवानी अडी गणुना छे - अज्ञाना होवानी कारणे ने असंज्ञी पंचेन्द्रियतिर्यच श्रव नरकोभा उत्पन्न थाय छे तेनी अपर्याप्तावस्थामा विभंगज्ञाननो अभाव रहे छे. अटला माटे नारक श्रव मत्यज्ञान अने श्रुतअज्ञान अने अज्ञानवाणा कथा छे अने रीते ने त्रयु अज्ञानवाणा होय छे, ते श्रवो संज्ञी पंचेन्द्रियोमाथी आवीने नारक पर्यायमा - श्रवोभा उत्पन्न थाय छे अटला माटे तेनी अपर्याप्तावस्थामा यशु भव प्रत्यय विभंगज्ञान रहे छे अने कारणेथी

મિથ્યાદૃષ્ટિસંહિપદ્ધેન્દ્રિયેભ્ય ઉત્પદ્યમાનાના તુ અપર્યાપ્તઋવસ્યાયામપિ મત્રમત્યપં  
 વિમદ્ધજ્ઞાન મત્રતિ મત્રસ્પજ્ઞાનિનઃ કેચન મત્યજ્ઞાનિનઃ, મૃતાજ્ઞાનિનઃ, અવધ્ય  
 જ્ઞાનરૂપવિમદ્ધજ્ઞાનિનઃ, ઇત્યમિમાયેણ તદુપસ દરભાઈ-૧૪ પ્રીણિ અજ્ઞાનાનિ મજનયા  
 ઇતિ, મજનયા તેન કેચિત્ દ્વષજ્ઞાનિનઃ કેચિત્ પ્ર્યજ્ઞાનિન ઇતિ । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ-  
 ‘અસુરકુમારાણ મતે ! કિં નાળી અજ્ઞાણી ?’ હે મદન્ત ! અસુરકુમારા સ્વદ્ કિં  
 જ્ઞાનિનો મતન્તિ ? અજ્ઞાનિનો વા મતન્તિ ? મગધનાઈ-‘જહેવ નેરહયા તહેવ  
 તિન્નિ નાળાણિ નિયમા, તિન્નિ અજ્ઞાણાણિ મયખાઈ’ હે ગૌતમ ! યયૈવ નૈરયિક્ષાઃ  
 પ્રતિપાદિતાસ્તયૈવ અસુરકુમારા અપિ તેપાં પ્રીણિ જ્ઞાનાનિ નિયમાત્ નિયમતોઽવસ્થયેવ  
 મતન્તિ, કિન્તુ પ્રીણિ અજ્ઞાનાનિ મજનયા-કેચિત્ અસુરકુમારા દ્વષજ્ઞાનિનો મતન્તિ,  
 કેચિન્નાસુરકુમારાસ્થ્યજ્ઞાનિનો મતન્તિ ઇત્યપઃ, ‘૧૪ જાવ યણિયકુમારા’ ૧૪મ્  
 અસુરકુમારવદેવ યાવત્ - નાગકુમાર - સુવર્ણકુમાર-વિદ્યુત્કુમારા-ગિન્ધકુમાર-

કારણસે ત્રીન અજ્ઞાનોં કી મજના કહી ગઈ હૈં । મત્યજ્ઞાન મૃતાજ્ઞાન  
 ઓર વિમદ્ધજ્ઞાન ય ત્રીન અજ્ઞાન હૈં । અય ગૌતમ પ્રસુ સે પેસા પૂછતે  
 હૈં ‘અસુરકુમારાણ મતે ! કિં નાળી અજ્ઞાણી’ હે મદન્ત ! અસુર  
 કુમાર કયા જ્ઞાની હોતે હૈં યા અજ્ઞાની હોતે હૈં ? ઉચ્ચ મેં પ્રશ્ન કહતે  
 હૈં ‘જહેવ નેરહયા તહેવ તિન્નિ નાળાણિ નિયમા’ હે ગૌતમ ! ઝિસ  
 પ્રકાર સે નૈરયિક પ્રતિપાદિત કિયે ગયે હૈં ઈસી પ્રકારસે અસુરકુમાર  
 ખી મતિજ્ઞાન મૃતાજ્ઞાન ઓર અવધિજ્ઞાન ઇન ત્રીન જ્ઞાનબાલે તો નિયમ  
 સે હોતે હૈં, પરંતુ મજના સે ત્રીન અજ્ઞાનબાલે હોતે હૈં-અર્થાત્ કઈ  
 ૨ અસુરકુમાર દો અજ્ઞાન-મત્યજ્ઞાન, યતાજ્ઞાનબાલે હોતે હૈં ઓર  
 કોઈ ૧ અસુરકુમાર ત્રીન અજ્ઞાન-મત્યજ્ઞાન મૃતાજ્ઞાન ઓર વિમદ્ધજ્ઞાન  
 બાલે હોતે હૈં । ‘૧૪ જાવ યણિયકુમારા’ અસુરકુમાર જૈસે હી યાવત્

ત્રણે અજ્ઞાનેની સજ્ઞાના રહેવામા આવી છે મત્યજ્ઞાન, મૃતાજ્ઞાન અને વિમદ્ધજ્ઞાન એ  
 ત્રણ અજ્ઞાન છે પ્રશ્ન ‘અસુરકુમારાણ મતે કિં નાળી અજ્ઞાણી’ કે મતન્તિ  
 અસુરકુમાર તુ જ્ઞાની હોય છે કે અજ્ઞાની ? ઈ ‘જહેવ નેરહયા તહેવ તિન્નિ  
 નાળાણિ નિયમા’ ને રીતે નૈરયિક્ષત્ પ્રતિપાદન મુજી છે તેવી જ રીતે અસુરકુમાર  
 ખસુ મતિજ્ઞાન, મૃતાજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન એ ત્રણ જ્ઞાનબાળા નિયમથી હોય છે પરંતુ  
 સજ્ઞાનાથી અસુર અજ્ઞાનવાળા હોય છે અર્થાત્ કેઈ કેઈ અસુરકુમાર એ અજ્ઞાન (મત્યજ્ઞાન  
 અને મૃતાજ્ઞાન) વાળા હોય છે અને કેઈ કેઈ અસુરકુમાર-મત્યજ્ઞાન, મૃતાજ્ઞાન અને  
 વિમદ્ધજ્ઞાન એ ત્રણ અજ્ઞાનવાળા હોય છે. ‘૧૪ જાવ યણિયકુમારા’ અસુરકુમારની  
 માફક ૧ યાવત્- નાગકુમાર, સુવર્ણકુમાર, વિદ્યુત્કુમાર, ગિન્ધકુમાર, દીપ્તકુમાર.

द्वीपकुमारो-दधिकुमार-दिशाकुमार-वायुकुमार-स्तनितकुमारा अपि त्रिज्ञानिनो नियमतो भवन्ति, त्र्यज्ञानिनस्तु भजनया-केचिद्व्यज्ञानिनः, केचिच्च त्र्यज्ञानिनो भवन्ति इति भावः । गौतमः पृच्छति-‘पुढविकाइयाणं भंते ! किं नाणी अन्नाणी ?’ हे भदन्त ! पृथिवीकायिकाः खलु किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति? भगवानाह- ‘गोयमा ! नो नाणी, अन्नाणी’ हे गौतम ! पृथ्वीकायिकाः नो ज्ञानिनो भवन्ति, अपितु अज्ञानिनो भवन्ति, ‘जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी-मइअन्नाणी य, सुयअन्नाणी य’ ये अज्ञानिनः पृथिवीकायिकास्ते नियमात् नियमतो द्व्यज्ञानिनो भवन्ति-मत्यज्ञानिनश्च, श्रुताज्ञानिनश्च । ‘एवं जाव वणस्सइकाइया’ एवं पृथिवीकायिकवदेव यावत्-अप्कायिकाः, तेजस्कायिकाः,

नागकुमार, सुवर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, दिशाकुमार, पवनकुमार, और स्तनितकुमार ये सब भवनवासी देव तीन ज्ञानवाले तो नियम से होते हैं-परन्तु भजना से कोई २ दो अज्ञानवाले होते हैं और कोई २ तीन अज्ञानवाले होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं ‘पुढविकाइयाणं भंते ! किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! पृथिवीकायिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नो नाणी, अन्नाणी’ पृथिवीकायिक जीव ज्ञानी नहीं होते हैं, किन्तु अज्ञानी होते हैं । ‘जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, मइ अन्नाणी य, सुय अन्नाणी य’ जो पृथिवीकायिक जीव अज्ञानी होते हैं वे नियमसे मत्यज्ञानवाले और श्रुताज्ञानवाले होते हैं । ‘एव जाव वणस्सइ काइया’ पृथिवीकायिक जीव की तरह से ही यावत्-अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव भी ज्ञानी नहीं

उदधिकुमार, दिशाकुमार, पवनकुमार अने स्तनितकुमार ये षष्ठा भवनवासी देव त्र्यज्ञानवाणा नियमथी थाय व छे परतु सन्ननाथी कोष कोष मे अज्ञानवाणा अने कोष कोष त्र्यज्ञानवाणा होय छे प्रश्न- पुढविकाइयाणं भंते किं नाणी अन्नाणी? हे भगवन ! पृथ्वीकायिकञ्च ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? उ- ‘गोयमा’ नो नाणी अन्नाणी’ पृथ्वीकायिकञ्च ज्ञानी होता नथी अज्ञानी व होय छे ‘जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, मइअन्नाणीय सुयअन्नाणीय’ ने पृथ्वीकायिकञ्च अज्ञानी होय छे ते नियमथी मत्यज्ञान अने श्रुताज्ञानवाणा होय छे. ‘एवं जाव वणस्सइकाइया’ पृथ्वीकायिक ञ्चनी नेम व अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक अने वनस्पतिकायिक ञ्च

वायुकायिका वनस्पतिकायिकश्च अपि जीवाः नो ज्ञानिनः, अपितु इष्यज्ञानिन एव भवन्ति, तथापि अज्ञानिनोऽपि नियमात् इष्यज्ञानिनो भवन्ति-मत्स्यज्ञानिनः, भुताज्ञानिनश्चेति भाषः । गौतमः पृच्छति- 'वेद्विया ण पुच्छा ?' हे भवन्त ! इन्द्रिया स्वच्छा, तथा च इन्द्रिया स्वच्छ किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? इति प्रश्न, मगधानाह- 'गोयमा ! णाणी वि, अण्णाणी वि' हे गौतम ! इन्द्रिया केचित् सास्वादनसम्यग्दर्शनसवृत्ताभेनापर्याप्ततावस्थायां ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति, 'जे नाणी ते नियमा दुष्णाणी' ये इन्द्रिया ज्ञानिनो भवन्ति ते नियमात् विज्ञानिनो भवन्त्येव, 'तज्जा-आमिणिबोद्धियणाणी य, सुयणाणी य' तथा-आमिनिबोधिकज्ञानिनश्च, भुतज्ञानिनश्च, 'जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी, तज्जा-आमिणिबोद्धियमण्णाणी, सुयमण्णाणी' ये अज्ञानिनो इन्द्रियाः ते नियमात् इष्यज्ञानिनो भवन्ति, तथा-आमिनिबोधिकज्ञानिन मत्स्यज्ञानिन इत्यर्थः, भुताज्ञानिनश्च, 'एव

होते हैं, अपि तु अज्ञानी ही होते हैं । इनके मत्स्यज्ञान और भुताज्ञान ये दो अज्ञान होते हैं । अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं 'वे इन्द्रिया णं पुच्छा' हे भवन्त ! वेन्द्रिय जीव क्या ज्ञानी होते हैं ? या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम 'णाणी वि, अण्णाणी वि' वेन्द्रिय जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । ज्ञानी होनेका तात्पर्य ऐसा है कि कितनेक वेन्द्रिय जीव सास्वादन सम्यग्दर्शनके सन्नायसे अपर्याप्तावस्थामें ज्ञानी भी होते हैं । इनमें जे नाणी ते नियमा दुष्णाणी तं जहा आमिणिबोद्धियणाणी य, सुयणाणी य' नियमसे आमिनिबोधिकज्ञान और भुतज्ञान होते हैं । 'जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी और जो वेन्द्रिय जीव अज्ञानी होते हैं-उनमें मतिअज्ञान और भुताज्ञान होते हैं । 'एव ते इन्द्रिय चउरिन्द्रिया

एव अज्ञानी च देव उ तेभन्नाभां मत्स्यज्ञानं ज्ञाने भुताज्ञानं ज्ञाने जे अज्ञान देव उ अण्णाणी- 'वेद्वियाय पुच्छा' उ भवन्त ! जे इन्द्रियजने अज्ञानी देव उ ते ज्ञानी ! उ- 'गोयमा' उ गौतम ! 'णाणी वि अण्णाणी वि' जे इन्द्रिय जने ज्ञानी एव देव उ जने अज्ञानी एव देव उ ज्ञानी देवानु तात्पर्य जेवु उ उ- उ- उ- उ- जे इन्द्रिय जने आमिनिबोद्धियसम्यग्दर्शनसवृत्तावस्थायां अज्ञानी देव उ तेभन्नाभां 'जे नाणी ते नियमा दुष्णाणी त जहा आमिणिबोद्धियणाणी य, सुयणाणी य' नियमसे आमिनिबोधिकज्ञान ज्ञान जने भुतज्ञान देव उ 'जे अण्णाणी ते नियमा दुअण्णाणी' जने जे जे इन्द्रियजने अज्ञानी देव उ ते मत्स्यज्ञान जने

तेइन्द्रिय चउरिन्द्रिया वि' एवं द्वीन्द्रियवदेव त्रीन्द्रियाश्चतुरिन्द्रिया अपि नियमात् द्विज्ञानिनः, द्वयज्ञानिनश्च बोध्याः मतिज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनश्च, मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनश्चेति भावः । गौतमः पृच्छति— 'पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाःखलु पृच्छा, तथाच पञ्चेन्द्रिय-तिर्यग्योनिकाः किम् ज्ञानिनः ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह— 'गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि' हे गौतम ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति, 'जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी, अत्येगइया तिन्नाणी, एवं तिन्नि नाणाणि तिन्नि अन्नाणाणि य भयणाए' तत्र ये ज्ञानिनः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः ते अस्त्येकके केचन द्विज्ञानिनः, अस्त्येकके केचन त्रिज्ञानिनः, मतिश्रुतज्ञानिनः, मतिश्रुताऽवधिज्ञानिनश्चेत्यर्थः तदुपसह-

वि' द्वीन्द्रिय जीवके जैसे ही तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव भी नियमसे दोज्ञानवाले और दो अज्ञानवाले होते हैं दो ज्ञानवालोंमें मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते हैं और दो अज्ञानियोंमें मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी होते हैं । गौतमस्वामी पूछते हैं 'पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जो पंचेन्द्रियतिर्यग्योनिके जीव हैं वे क्या ज्ञान होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि, अन्नाणी वि, पंचेन्द्रियतिर्यग्यजीव ज्ञानी भवते होते हैं और अज्ञानी भवते होते हैं । 'जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणं अत्येगइया तिन्नाणी एवं तिन्नि नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि य भयणाए' जो ज्ञानी होते हैं वे कितनेक दो ज्ञानवाले होते हैं, कितनेक तीन ज्ञानवाले होते हैं इस तरह दो तीन ज्ञानवाले होनेकी पंचेन्द्रि-

श्रुतअज्ञानवाणा होय छे 'एवं तेइन्द्रिय चउरिन्द्रियावि' द्विन्द्रियअवना न्वा तेषिन्द्रिय अने चतुरिन्द्रिय अवे पणु मे ज्ञान अने मे अज्ञानवाणा होय छे मे ज्ञान मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान अने मे अज्ञान ते मत्यज्ञानी अने श्रुतअज्ञानी होय । 'पंचिन्द्रिय तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा' हे भगवन ! पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्य योनीवा अथ ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? उ— 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि ते ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे 'जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी, अत्येगइया तिन्नाणी एवं तिन्नि नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए' तेमां केटवाक मे ज्ञानवाणा होय छे अने केटवाक तथु ज्ञानवाणा होय अने न्हीते मे अने तथु ज्ञानवाणा होवानी अने मे अने तथु अज्ञानवाणा होय पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्य योनीमा भवना समन्वी मे ज्ञानीयोमां मतीज्ञानी अने श्रुतज्ञानी



रक्षा पक्ष उक्तरीत्या तेषां त्रीणि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि च मजनया भवन्ति, केचन पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः मत्पशानिनः अज्ञानानिनः, केचन मत्पशानिनः, भ्रुताज्ञानिनः, अवध्यज्ञानरूप, त्रिमङ्गलज्ञानिनभेत्यर्थः । 'मणुस्सा जहा जीवा तद्देव पंच नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि मयणाप' मनुष्या यथा समुच्चयजीवाः प्रतिपादितास्तथैव तेषां पञ्चज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि च मनया विज्ञेयानि तथाच केचन मनुष्याः द्विज्ञानिनः, केचन त्रिज्ञानिनः, केचन चतुर्ज्ञानिनः, केचन एकज्ञानिनो भवन्ति, तत्र द्विज्ञानिनो मतिभ्रुतज्ञानिनः, त्रिज्ञानिनो मतिभ्रुतावधिज्ञानिनः, अथवा मतिभ्रुतमनःपर्यवज्ञानिनः, चतुर्ज्ञानिनो मतिभ्रुतावधिमनः

तिर्यचोर्मि भजना जानना चाहिये । दो ज्ञानियोर्मि मतिज्ञानी और भ्रुतज्ञानी तथा तीन ज्ञानियोर्मि मतिज्ञानी, भ्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी होते हैं । दो अज्ञानियोर्मि मत्पशानी, अज्ञानानी और तीन अज्ञानियोर्मि मत्पशानी, भ्रुताज्ञानी और धिमंगशानी होते हैं । 'मणुस्सा जहा जीवा तद्देव पंच नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि मयणाप' जिस तरहसे समुच्चय-सामान्य जीव कहे गये हैं उसी तरहसे मनुष्य भी पांचज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले भजनासे जानना चाहिये । तथा च कितनेक मनुष्य दो ज्ञानवाले होते हैं, कितनेक मनुष्य तीनज्ञानवाले होते हैं, कितनेक मनुष्य चारज्ञानवाले होते हैं और कितनेक मनुष्य केवल एकज्ञानकेवलज्ञानवाले होते हैं । दो ज्ञानवालोर्मि मतिज्ञान भ्रुतज्ञानवाले होते हैं । तीनज्ञानवालोर्मि मतिज्ञान, भ्रुतज्ञान और अवधिज्ञानवाले या मतिज्ञान भ्रुतज्ञान और मनःपर्यवज्ञानवाले होते हैं ।

तथा प्रकृत्यां भविष्यती सुतज्ञानी अने अवधिज्ञानी होय ॐ वे अज्ञानीज्योभां मत्पशानी, भ्रुताज्ञानी अने प्रकृत्यां अज्ञानीज्योभां मत्पशान, भ्रुताज्ञान अने अवधिज्ञानरूप निराभयती होय ॐ 'मणुस्सा जहा जीवा तद्देव पंचनाणाणि तिन्नि अन्नाणाणि मयणाप' ने रीते सामान्य एव कहेल ॐ ते रीते मनुष्य प्रकृत्यां चार ज्ञानवाला अने प्रकृत्यां अज्ञानवाला अज्ञानाधी सभजन्वा. तेषां हेतुलाः मनुष्य वे ज्ञानवाला होय ॐ हेतुलाः प्रकृत्यां ज्ञानवाला अने हेतुलाः चार ज्ञानवाला होय ॐ अने हेतुलाः मनुष्य इत्येव ज्ञानवाला होय ॐ वे ज्ञानवाला- ते मतिज्ञान अने सुतज्ञानवाला होय ॐ प्रकृत्यां ज्ञानवालाज्योभां मतिज्ञान सुतज्ञान अने अवधिज्ञानवाला होय ॐ अथ मतिज्ञान, सुतज्ञान अने मनःपर्यवज्ञानवाला होय ॐ चार ज्ञानवालाज्योभां मतिज्ञान, सुतज्ञान

पर्यवज्ञानिनो भवन्ति, एकज्ञानिनः केवलज्ञानिनो भवन्ति, एवं त्र्यज्ञानिनो मनुष्याः केचन द्व्यज्ञानिनः, केचन त्र्यज्ञानिनो भवन्ति, तत्र द्व्यज्ञानिनो मत्त्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनः, त्र्यज्ञानिनस्तु मत्त्यज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनः विभङ्गज्ञानिनश्च भवन्ति, इत्यभिप्रायः, 'वाणमंतरा जहा नेरइया' वानव्यन्तराः पिशाच-भूत-यक्ष-राक्षस-किन्नर-किंपुरिस-महोरग-गन्धर्वा अष्टौ देवाः यथा नैरयिकाः प्रतिपादितास्तथैवावसेयाः, तथाच नैरयिकवत् वानव्यन्तरा अपि नियमात् त्रिज्ञानिनः, भजनया च त्र्यज्ञानिनो भवन्ति, केचन द्व्यज्ञानिनः, केचन त्र्यज्ञानिन इत्यर्थः 'जोइसियवेमाणियाणं तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा नियमा' ज्योतिषिकवैमानिकानां नियमात् त्रीणि ज्ञानानि भवन्ति, त्रीणि अज्ञानानि नियमतो भव-

चारज्ञानवालोंमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानवाले होते हैं और एकज्ञानवालोंमें सिर्फ केवलज्ञानवाले होते हैं। इसी तरहसे कितनेक मनुष्य दो अज्ञानवाले होते हैं और कितनेक मनुष्य तीन अज्ञानवाले होते हैं। दो अज्ञानवालोंमें मत्त्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी होते हैं और तीन अज्ञानवालोंमें मत्त्यज्ञानी श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी होते हैं। 'वाणमंतरा जहा नेरइया' वानव्यन्तरपिशाच, भूत, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व ये आठ जिस तरहसे नैरयिक जीवोंका कथन किया गया है ज्ञानी और अज्ञानीको लेकर उसी तरहसे तीनज्ञानवाले और भजनासे तीन अज्ञानवाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये। अर्थात् कितनेक वानव्यन्तर दो अज्ञानवाले होते हैं और कितनेक वानव्यन्तरदेव तीन अज्ञानवाले होते हैं। 'जोइसियवेमाणिया णं तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा नियमा' ज्योतिषिकदेव और वैमानिकदेव नियमसे तीनज्ञानवाले और नियमसे तीन अज्ञानवाले होते हैं। तथाच

अवधिज्ञान अने मनः पर्यव ज्ञानवाणा होय छे अेक ज्ञानवाणामा इकत केवणज्ञानवाणा होय छे अेज रीते डेटलाक मनुष्य मत्त्यज्ञानी अने श्रुताज्ञानी अेभ जे अज्ञानवाणा, अने डेटलाक मनुष्य मत्त्यज्ञानी श्रुतअज्ञानी अने विभंगज्ञानी अे त्रय अज्ञानवाणा होय छे. 'वाणमंतरा जहा नेरइया' वानव्यंतर, पिशाच, भूत, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गंधर्व अे आठ जे रीते नैरयिक जीवों कथन करेले छे अेज रीते त्रय ज्ञानवाणा अने अज्ञानवाणी त्रय अज्ञानवाणा होय छे अर्थात्- डेटलाक वानव्यंतर जे अज्ञानवाणा होय छे अने डेटलाक वानव्यंतर त्रय अज्ञानवाणा होय छे ' जोइसिय वेमाणिया णं तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा नियमा' ज्योतिषिकदेव अने वैमानिकदेव नियमवा त्रय ज्ञानवाणा अने त्रय अज्ञानवाणा इत्था छे. तेभज अर्थात् ज्योतिषिकदेव

न्ति, तथाच ज्योतिषिकामन्द्रादयः, वैमानिकाश्च सौधर्मादयो नियमतो मतिभ्रुता षड्विज्ञानिनः, नियमतश्च मत्स्यज्ञान-भ्रुताज्ञान-विमङ्गज्ञानिनश्च भवन्ति । गौतमः पृच्छति- मिद्वान् मते ! पुच्छा' हे भवन्त ! सिद्धाः खलु किं ज्ञानिनो भवन्ति? अज्ञानिनो भवन्ति ? मगधानाह - 'गायमा ! गाणी नो अन्नाणी, नियमा एगनाणी, केवलनाणी' हे गौतम ! सिद्धाः खलु ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिनो भवन्ति, तथापि नियमात् नियमतः एकज्ञानिन केवलज्ञानिनो भवन्ति, नतु आमिनिषोषिक्यादि ज्ञानिन इति भाषा ।

इदमप्राग्धेयम्-ज्ञान पञ्चविध ? मतिज्ञानम् ( आमिनिषोषिक्याज्ञानम् ), २ भ्रुतज्ञानम्, ३ अषड्विज्ञानम्, ४ मन पर्येषज्ञानम्, ५ केवलज्ञानम् । तत्र स श्लेषतो ज्ञानं द्विविधं-मत्स्यज्ञ, परोक्षम् । तत्र मत्स्यज्ञं द्विविधं प्रकृतम्-१ इन्द्रियमत्स्यज्ञम्

चंद्रादिक ज्योतिषीदेष और सौधर्मादिक वैमानिकदेव नियमसे मति ज्ञानवाले, भ्रुतज्ञानवाले, और अषड्विज्ञानवाले होते हैं और नियमसे मत्स्यज्ञानवाले, भ्रुतअज्ञानवाले और विमङ्गज्ञानवाले होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'मिद्वान् मते ! पुच्छा' हे भवन्त ! सिद्ध क्या ज्ञानी होते है या अज्ञानी होते है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'गाणी, गो अन्नाणी सिद्धनियमसे ज्ञानी होते हैं अज्ञानी नहीं होते हैं । ज्ञानीमें भी वे केवलज्ञानी होते हैं । इसी कारण उन्हें यहाँ 'एगनाणी केवलनाणी' ऐसा कहा गया है । अन्य आमिनिषोषिक ज्ञानवाले वे नहीं होते हैं । यहाँ ऐसा समझना चाहिये सिद्धान्तकी दृष्टिसे ज्ञान पाँच प्रकारका होता है १ मतिज्ञान, २ भ्रुतज्ञान, ३ अषड्विज्ञान, ४ मन पर्येषज्ञान, ५ केवलज्ञान दार्शनिक शैलीसे इन पाँचों ज्ञानोंको दो विभागमें विभक्त किया गया है एक

अने सौधर्मादिक वैमानिकदेव नियमशी मतिज्ञानवाला, भ्रुतज्ञानवाला अने अषड्विज्ञानवाला दोष है तेम / नियमशी मत्स्यज्ञान, भ्रुतज्ञान अने विमङ्ग ज्ञानवाला दोष है 'सिद्धान् मते पुच्छा' के भवन्त ! सिद्धी ज्ञानी दोष है ? अज्ञानी ? उ- 'गोयमा' के गौतम ! 'गाणी नो अन्नाणी' सिद्ध नियमशी ज्ञानी व दोष है अने ज्ञानीमें पशु तेजो केवलज्ञानी दोष है तेव इससे तेजोने अर्था 'एग नाणी केवलनाणी' जेवुं श्लु है नीअ आमिनिषोषिक ज्ञानवाला ते जेता नहीं, अर्था जेवुं समन्वयानुं है ? सिद्धातनी दृष्टिसे ज्ञान पाँच प्रकारनुं है १ मतिज्ञान, २ भ्रुतज्ञान, ३ अषड्विज्ञान, ४ मन पर्येषज्ञान ५ केवलज्ञान दार्शनिक शैलीशी आ पाँच ज्ञानोने से आधर्मा

२ नोइन्द्रियप्रत्यक्षं च । इन्द्रियप्रत्यक्षं पञ्चविधम् १ स्पर्शानेन्द्रियप्रत्यक्षम्  
 २ रसनेन्द्रियप्रत्यक्षम्, ३ घ्राणेन्द्रियप्रत्यक्षम्, ४ चक्षुरिन्द्रियप्रत्यक्षम्,  
 ५ श्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्षम् । नोइन्द्रियप्रत्यक्षं त्रिविधम् १ अवधिज्ञानम्, २ मनः-  
 पर्यवज्ञानम्, ३ केवलज्ञानं च । तत्र अवधिज्ञानं द्विविधम् १ प्रतिपाति, २ अप्रति-  
 पाति च, मनःपर्यवज्ञानं द्विविधं प्रज्ञप्तम् - १ ऋजुमति, २ विपुलमति च  
 १ मनुष्य, - २ गर्भज, - ३ कर्मभूमिज, - ४ संख्येयार्पायुष्क-५ पर्याप्तक, -  
 ६ सम्यग्दृष्टि, - ७ सयता, - ८ प्रमादि, - ९ लब्धिमता नवभेदवतां जीवानां  
 मनःपर्यवज्ञानमुत्पद्यते । केवलज्ञानं त्रिविधम् १ सयोगि, २ अयोगि, ३ सिद्धञ्च ।

विभाग है प्रत्यक्ष और दूसरा विभाग है परोक्ष इनमें भी प्रत्यक्ष दो प्रकारका कहा गया है एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष दूसरा नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष इन्द्रियप्रत्यक्ष स्पर्शनइन्द्रियप्रत्यक्ष, रसनाइन्द्रियप्रत्यक्ष, घ्राणइन्द्रियप्रत्यक्ष, चक्षुइन्द्रियप्रत्यक्ष और कर्णइन्द्रियप्रत्यक्ष, इम तरहसे प्रत्यक्ष पांच प्रकारका कहा गया है । नोइन्द्रियप्रत्यक्ष तीन प्रकारका कहा गया है एक अवधिज्ञान, दूसरा मनःपर्यवज्ञान और तीसरा केवलज्ञान । प्रतिपाति और अप्रतिपातिके भेदसे अवधिज्ञान दो प्रकारका कहा गया है । ऋजुमति और विपुलमतिके भेदसे मनःपर्यवज्ञान दो भेद-रूप कहा गया है । जो जीव मनुष्य हो गर्भज हो, कर्मभूमिमें उत्पन्न हुआ हो, संख्यातवर्षकी आयुवाला हो, पर्याप्तक हो, सम्यग्दृष्टि हो, संयत हो, अप्रमादी हो, लब्धवाला हो ऐसे नव विशेषणवाले जीवोंके मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न होता है । केवलज्ञान तीन प्रकारका होता है

विकृत करेले छे ओक प्रत्यक्ष अने भीलु परोक्ष तमां प्रत्यक्ष के प्रकारनु कहेले छे ओक इन्द्रिय प्रत्यक्ष अने नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष, इन्द्रिय प्रत्यक्ष - स्पर्शन इन्द्रिय प्रत्यक्ष, रसनाइन्द्रिय प्रत्यक्ष, घ्राणइन्द्रिय प्रत्यक्ष, चक्षुइन्द्रिय प्रत्यक्ष अने कर्णइन्द्रिय प्रत्यक्ष ओ रीते प्रत्यक्ष पांच प्रकारना कहेले छे नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष तलु प्रकारनु कहेले छे ओक अवधिज्ञान, भीलु मनःपर्यवज्ञान अने त्रीलु केवलज्ञान. प्रतिपाति अने अप्रतिपातिना लेखी अवधिज्ञान के प्रकारनु कहेले छे अने ऋजुमति अने विपुलमतिना लेखी मनः पर्यवज्ञान के लेखी कहेले छे ने एव मनुष्य होय, गर्भज होय, कर्मभूमिमां उत्पन्न थयेले होय संख्यात वर्षानी आयुष्यवाणा होय पर्याप्तक होय, सम्यग्दृष्टि होय, संयत होय, अप्रमादि होय अने लब्धवाणा होय ओवा विशेषणवाणा एवोने मन पर्यवज्ञान उत्पन्न थाय छे केवलज्ञान १ सयोगि केवलज्ञान २ अयोगिक केवलज्ञान अने

तत्र सयोगिकेवलज्ञान प्रयोदशगुणस्यानकर्त्तितो जीवस्य, अयोगिकेवल  
 ज्ञान तु चतुर्दशगुणस्यानकर्त्तितो जीवस्य भवति । सिद्धकेवलज्ञान द्वित्रिषु  
 १ अनन्तरसिद्धकेवलज्ञानम्, परम्परसिद्धकेवलज्ञानञ्च । तत्र अनन्तरसिद्ध  
 केवलज्ञान १५ पञ्चदशविधम्— १ तीर्थसिद्धम्, २ अतीर्थसिद्धम्, ३ तीर्थहर  
 सिद्धम्, ४ अतीर्थहृत्सिद्धम्, ५ स्वयंबुद्धसिद्धम्, ६ मत्प्रेकबुद्धसिद्धम्, ७ बुद्ध  
 बोधितसिद्धम्, ८ स्त्रीलिंगसिद्धम्, ९ पुरुषलिंगसिद्धम्, १० नपुंसकलिंगसिद्धम्,  
 ११ म्वलिंगसिद्धम्, १२ अन्यलिंगसिद्धम्, १३ गृहस्थलिंगसिद्धम्, १४ एक  
 सिद्धम्, १५ अनेकसिद्धम् । परम्परसिद्धम् । केवलज्ञानम् १३ त्रयोदशविधम् १  
 अप्रथमसमयसिद्धम्, २ द्विसमयसिद्धम्, ३ त्रिसमयसिद्धम्, ४ चतुःसमयसिद्धम्  
 ५ पञ्चसमयसिद्धम्, ६ षट्समयसिद्धम्, ७ सप्तसमयसिद्धम्, ८ अष्टसमयसिद्धम्,

१ सयोगीका केवल ज्ञान, २ अयोगीका केवलज्ञान, और ३ सिद्धका केव-  
 लज्ञान तैरदृष्टे गुणस्यानर्मे रहनेवाले जोधका जो केवलज्ञान है यह  
 सयोगिकेवलज्ञान है अयोगी चौदहवें गुणस्यानर्त्तो जीवका जो  
 केवलज्ञान है यह अयोगिकेवलज्ञान है, सिद्धकेवलज्ञान का प्रकारका  
 कहा गया १ अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान, और दूसरा परम्परसिद्धकेवल-  
 ज्ञान अनन्तरसिद्धकेवलज्ञान १५ प्रकारका कहा गया है—१ तीर्थसिद्ध,  
 २ अतीर्थसिद्ध, ३ तीर्थहृत्सिद्ध, ४ अतीर्थहरसिद्ध, ५ स्वयंबुद्धसिद्ध  
 ६ मत्प्रेकबुद्धसिद्ध, ७ बुद्धबोधितसिद्ध, ८ स्त्रीलिंगसिद्ध, ९ पुरुषलिंगसिद्ध,  
 १० नपुंसकलिंगसिद्ध, १ स्वलिंगसिद्ध । १२ अन्यलिंगसिद्ध, १३ गृहस्थ-  
 लिंगसिद्ध १४ एकसिद्ध, १५ अनेकसिद्ध, परम्परसिद्धकेवलज्ञान १३  
 प्रकारका कहा गया है—१ अप्रथमसमयसिद्ध, २ द्विसमयसिद्ध, ३ त्रि-  
 समयसिद्ध, ४ चतुःसमयसिद्ध, ५ पञ्चसमयसिद्ध, ६ षट्समयसिद्ध,

सिद्धानु केवलज्ञान के रीते त्रय प्रकारनु होय ७ तैरभा सुखस्थानभा रहेवावाका अणु  
 ने केवलज्ञान छे ते सयोगि केवलज्ञान छे अने अदृष्टी सुखस्थानवती अणु  
 केवलज्ञान छे ते अयोगिक केवलज्ञान छे सिद्ध केवलज्ञान केक अनवसिद्ध केवलज्ञान  
 अने जीव परपरसिद्ध केवलज्ञान के बोधी के प्रकारनु छे अनन्तर सिद्धज्ञान १५  
 पर पर प्रकारनु छे १ तीर्थसिद्ध, २ अतीर्थसिद्ध, ३ तीर्थहर सिद्ध, ४ अतीर्थहर सिद्ध,  
 ५ स्वयंबुद्धसिद्ध, ६ मत्प्रेक बुद्धसिद्ध, ७ बुद्धबोधित सिद्ध, ८ स्त्रीलिंग सिद्ध,  
 ९ पुरुषलिंग सिद्ध, १० नपुंसकलिंगसिद्ध, ११ स्वलिंगसिद्ध १२ अन्यलिंगसिद्ध,  
 १३ अनेकलिंगसिद्ध, १४ अनेक सिद्ध अने १५ अनेक सिद्ध परपरसिद्ध केवलज्ञान  
 नीचे प्रकारनु तैर प्रकारनु छे— १ अप्रथमसमयसिद्ध, २ द्विसमयसिद्ध, ३ त्रिसमय-

१ नवसमयसिद्धम् १० दशसमयसिद्धम्, संख्यातसमयसिद्धम्, असंख्यात समयसिद्धम्, अनन्तसमयसिद्धञ्च, इति प्रत्यक्षज्ञानम् । अथ परोक्षज्ञानं द्विविधम् ? मतिज्ञानं, श्रुतज्ञानञ्च, तत्र मतिज्ञानस्य ३६० षष्ट्युत्तरत्रिंशत् भेदाः, तत्र प्रथमं मतिज्ञानं द्विविधम् १ श्रुतनिश्चितम्, २ अश्रुतनिश्चितं च, तत्र अश्रुतनिश्चितं चतुर्विधम्—१ औत्पातिकी, २ वैनयिकी, ३ कर्मजा, ४ पारिणामिकी, तत्र दर्शनश्रवणमन्तरैव या बुद्धिः ज्ञेयं वस्तु सहसा विषयी कृत्य कार्यं निष्पादयति सौत्पातिकी उच्यते—यथा नटपुत्ररोहकस्य बुद्धिः १। गुरोः संवाग्भूषणव्या वैयावृत्त्यकरणेन जायमाना बुद्धिः वैनयिकी—यथा नैमित्तिकसिद्धपुत्रशिष्याणां संजाता २।

७ सप्तसमयसिद्ध, ८ अष्टसमयसिद्ध, ९ नवसमयसिद्ध, १० दशसमयसिद्ध, ११ संख्यातसमयसिद्ध, १२ असंख्यातसमयसिद्ध, १३ अनन्तसमयसिद्ध इस तरहसे यह प्रत्यक्षज्ञानका वर्णन है ।

परोक्षज्ञान दो प्रकारका होता है एकमतिज्ञान और दूसरा श्रुतज्ञान इनमें मतिज्ञानके ३६० भेद होते हैं । मतिज्ञान श्रुतनिश्चित और अश्रुतनिश्चितके भेद से दो प्रकारका कहा गया है. इनमें अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान औत्पातिकी, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी इन चार बुद्धियोरूप चार प्रकारका होता है. दर्शन और सुननेके विना ही जो बुद्धि ज्ञेयविषयको जल्दी से विषय करके कार्य को संपन्न कर देती है वह औत्पातिकी बुद्धि है. जैसे नटपुत्र रोहककी बुद्धि शास्त्रमें कही गई है । गुरुको सेवा शुश्रूषा से, वैयावृत्त्य करने से जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह वैनयिकी बुद्धि है । जैसे नैमित्तिक सिद्धपुत्र के शिष्यों

सिद्ध, ४ व्युत्समयसिद्ध, ५ पयसमयसिद्ध, ६ षट्समयसिद्ध, ७ सप्तसमयसिद्ध, ८ अष्टसमयसिद्ध, ९ नवसमयसिद्ध, १० दशसमयसिद्ध, ११ संख्यातसमयसिद्ध, १२ असंख्यातसमयसिद्ध, १३ अनन्तसमयसिद्ध आरिते आ प्रत्यक्ष ज्ञानं वार्णुं छे.

परोक्षज्ञान के प्रकारके होय छे. मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान के प्रकारना लेखी होय छे, तेमा मतिज्ञानना ३६० त्रयुसोसाठ भेद होय छे. मतिज्ञान श्रुतनिश्चित श्रुतना आधारवाणुं अने अश्रुतनिश्चितना लेखी के प्रकारके लेख छे तेमा अश्रुतनिश्चित मतिज्ञान औत्पातिकी वैनयिकी, कर्मजा अने पारिणामिकी के चार बुद्धिओरूप चार प्रकारके होय छे दर्शन अने साक्षात्ता विना न के बुद्धि ज्ञेय विषयने लेखीथी विषय करीने कार्यने संपादन करे छे ते औत्पातिकी बुद्धि छे जेवी रीते नटपुत्र रोहकनी बुद्धिशान्त्रमा वर्णुंवेत्त छे शुक्नी सेवा शुश्रूषाथी, वैयावृत्त्य करवाथी के बुद्धि उत्पन्न थाय छे ते वैनयिकी बुद्धि छे जेवी रीते नैमित्तिक सिद्धपुत्रना शिष्यने कथं इती कार्यकारणना

कार्यकरणाम्यासेन जायमाना बुद्धिः कमना-यथा कृपकादीनां कृपिकार्यादीं निपुणता जायते ३ । चिरकालस्यवहारानुभवमन्या बुद्धिः पाणिगामिणी-यथा वृद्धादीनाम् ४। श्रुतनिमित्त चतुर्विधम् १ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवायः, ४ धारणा च, तत्र अवग्रहा द्विविध १ अर्थावग्रह, २ व्यञ्जनानवग्रह । अर्थावग्रहः पञ्चेन्द्रियैः मनसा च पठ्ठेन जायते । व्यञ्जनानवग्रहः आश्र-घ्राण-रसना-स्पर्शनरूपचतुर्विधैः जायते । अर्थावग्रहवत् ईहा, अवायः, धारणा चापि प्रत्येकं पद्विधा । व्यञ्जनानवग्रहचतुर्विध सर्वमेकनेन  $६+६+६+६+४=२८$  यष्टाविंशति मेदाः तेषां च १ बहुग्राही, २ अल्पग्राही, ३ बहुविधग्राही, ४ अल्पविधग्राही, ५ क्षिप्र, ६ प्रसिमा,

को हृई । कार्यकरणके अम्यास से जायमान जो बुद्धि है वह कर्मजा बुद्धि है । जैसे किसान आदिकोंको अपने कृषिकर्म आदिमें निपुणता हो जाती है । चिरकाल स भौतिक व्यवहार का अनुभव करते जो बुद्धि आ जाती है वह पाणिगामिणी बुद्धि है जैसे अनुभवी वृद्धादिक पुरुषोंकी बुद्धि । श्रुतनिमित्त मतिज्ञान चार प्रकारका होता है अवग्रह ईहा, अवाय और धारणा इनमें अर्थावग्रह और व्यञ्जनावग्रहके मेद से अवग्रहज्ञान दो प्रकारका होता है । अर्थावग्रह पांच इन्द्रिय और छठे मन से उत्पन्न होता है व्यञ्जनावग्रह-श्रोत्र, घ्राण रसना और स्पर्शन इन चार इन्द्रियों से उत्पन्न होता है । अर्थावग्रह की तरह ईहा, अवाय और धारणा ये भी प्रत्येक पांच इन्द्रिय और छठे मन से उत्पन्न होता है व्यञ्जनावग्रह ४ प्रकारका है । इस तरह अवग्रह ईहा अवाय, धारणा इन सबके  $६+६+६+६+४=२८$  मेद हो जाते हैं । ये अवग्रहादिक बहुग्राही, अल्पग्राही, बहुविधग्राही, अल्पविधग्राही, क्षिप्रग्राही

अम्यासकी व्यापणी बुद्धि ते कर्मल बुद्धि छे जेवी रीत अनुवाकिके पानना साथ भा निपुणता सह जान छे ताका हाणवी प्रौढिक बदेवारने अनुभव करता अल्प ने बुद्धि आवी अल्प छे ते परिकुमिणी बुद्धि छे जेवी रीते अनुभवी एक पुरुषेनी छेय छे श्रुतनिमित्त मतिज्ञान चार प्रकारनु होत छे अवग्रह, ईहा, अवाय जने धारणा तेभा अर्थावग्रह जने व्यञ्जनावग्रहना लेखी अवग्रह जे प्रकारना छेय छे अर्थावग्रह पांच इन्द्रिय जने छटा मनकी उपल साय छे व्यञ्जनावग्रह श्रोत्र घ्राण, रसना जने स्पर्शन जे चार इन्द्रियेयी साथ छे व्यञ्जनावग्रहकी भादके ईहा, अवाय जने धारणा पद्य प्रत्येक पांच इन्द्रिय जने छटा मनकी उपल साय छे व्यञ्जनावग्रह चार प्रकारनु छेय छे जे रीते अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा जे अथाना  $६+६+६+६+४=२८$  लेख साथ छे जे व्यञ्जनावग्रह बहुग्राही, अल्पग्राही, बहुविधग्राही, अल्पविधग्राही, क्षिप्र

७ निश्चितः, ८ अनिश्चितः, ९ संदिग्धः, १० असंदिग्धः, ११ ध्रुवः, १२ अध्रुवश्चः  
भेदाः, तैः गुणने २८×१२+३३६ षट्त्रिंशदधिकशतत्रय भेदाः। अश्रुतनिश्चितस्य  
चतुर्भेदमेलनेन च ३४० चत्वारिंशदधिकं शतत्रयं भेदा भवन्ति, अवग्रहादीनां चतुर्णां  
पञ्चपञ्चावान्तरभेदैर्विंशतिविधानां मेलने च ३६० षष्ट्यधिकशतत्रयं भवति। तत्र  
प्रत्येकं अवग्रहस्य—१ अवग्रहणता, २ उपधारणता, ३ श्रवणता, ४ अवलम्बनता, ५  
मेधा, इति पञ्च भेदाः। ईहायाः—१ आभोगनता, २ मार्गणता; ३ गवेषणता, ४  
चिन्ता, ५ विमर्शः, इति पञ्च भेदाः। अवायस्य—१ आवर्तनता, २ प्रत्यावर्तनता,  
३ अवायः, ४ बुद्धिः, ५ विज्ञानम्, इति पञ्च भेदाः। धारणायाश्च—१ धरणा,

अक्षिप्रग्राही, निश्चितग्राही, अनिश्चितग्राही, संदिग्धग्राही, असंदिग्धग्राही  
ध्रुवग्राही और अध्रुवग्राही होते हैं। इस तरह इन ब्रह्मादिक वारह प्रकार  
के पदार्थोंके साथ गुणा करने से २८का, ३३६ भेद हो जाते हैं। ये सब  
भेद श्रुतनिश्चित मतिज्ञानके हैं। अश्रुतनिश्चित मतिज्ञानके चार भेद  
इनमें मिलाने से ३४० भेद होते हैं। इन अवग्रहादिकोंके ५-५ और  
अवान्तर भेद होते हैं सो २० भेद ३४० भेदोंमें मिला देने से कुल  
मतिज्ञान के भेद ३६० हो जाते हैं। अवग्रहादिकोंके अवान्तर ५-५  
भेद इस प्रकारसे हैं—१ अवग्रहणता, २ उपधारणता, ३ श्रवणता,  
४ अवलम्बनता, ५ मेधा ये अवग्रह के पांच भेद हैं। ईहा के पांच  
भेद ऐसे हैं—१ आभोगनता, २ मार्गणता; ३ गवेषणता, ४ चिन्ता,  
५ विमर्श। अवाय के पांच भेद इस प्रकारसे हैं—१ आवर्तनता, २  
प्रत्यावर्तनता, ३ अवाय ४ बुद्धि, ५ विज्ञान. धारणाके पांच भेद इस

आडी, अक्षिप्रग्राही, निश्चितग्राही, अनिश्चितग्राही, संदिग्धग्राही, असंदिग्धग्राही, ध्रुव-  
ग्राही अने अध्रुवग्राही होय छे अे रीते आ ब्रह्मादिक वार प्रकारना पदार्थोनी सूत्रे  
गुणवाथी अेना उ३६ लेह थाय छे अे तमाभ भेद श्रुतनिश्चित मतिज्ञानना छे. अश्रुत-  
निश्चित मतिज्ञानना चार भेद तमा भेणववाथी, उ४० भेद थाय छे आ अवग्रहादिकना  
पांच पांच भीजा अवान्तर लेह थाय छे, ते वीस २० लेह उ४० त्रयुसे आलीस  
भेदोमां भेणववाथी मतिज्ञानन. कुल त्रयुसे साष्ठं उ६० लेह थाय छे अवग्रहादिकोना  
अवान्तर लेह आ प्रमाणे छे— १ अवग्रहणता, २ उपधारणता, ३ श्रवणता, ४ अव-  
लम्बनता, ५ मेधा छेहाना पांच लेह आ प्रमाणे छे— १ आभोगनता, २ मार्गणता,  
३ गवेषणता, ४ चिन्ता, ५ विमर्श. अवायना पांच लेह आ प्रमाणे छे— १ आवर्तनता,  
२ प्रत्यावर्तनता, ३ अवाय, ४ बुद्धि, ५ विज्ञान. धारणाना पांच लेह आ प्रमाणे छे.



२ धारणा, ३ स्थापना, ४ प्रतिष्ठा, ५ कोष्ठम्, इति पञ्च भेदा भवन्ति । एक-  
समयस्थितिकः अद्यग्रहः, अन्तर्गृहृतिकोऽप्याय, संख्यातासख्यातकाला धारणा ।  
मतिज्ञानस्य नव नामानि सन्ति—१ ईहा, २ अपोहः, ३ विमर्शः, ४ मार्गणा,  
५ गवेषणा, ६ संज्ञा, ७ स्मृतिः ८ मतिः, ९ प्रज्ञा । तत्र सदर्थपर्यालोचन  
ईहा, निश्चयः अपोहः, विचारो, विमर्शः, विचारणा मार्गणा, अन्वेषणम् गवे-  
षणा, बुद्धिः संज्ञेयः, संज्ञा, स्मरणं स्मृतिः, बुद्धिमतिः, विशिष्टबुद्धिः प्रज्ञा ।

प्रकार से है—१ धरणा, २ धारणा, ३ स्थापना, ४ प्रतिष्ठा, ५ कोष्ठ ।  
अद्यग्रहकी स्थिति १ समयकी है । ईहा और अघाय का काल अन्त-  
र्गृहृतका है धारणा संख्यात असख्यात कालकी होती है । मतिज्ञान  
के नौनाम इस प्रकार से हैं १ ईहा, २ अपोह, ३ विमर्श, ४ मार्गणा,  
५ गवेषणा, ६ संज्ञा, ७ स्मृति, ८ मति, ९ प्रज्ञा । सदर्थकी पर्या-  
लोचना करना इसका नाम ईहा है । सदर्थका निश्चय करना इसका  
नाम अपोह है । विचार-अघाय के पहिले एवं ईहा के बाद होनेवाले  
विचारका नाम विमर्श है । अन्वय धर्मोंका अन्वेषण करना मार्गणा  
है । व्यतिरेक धर्मोंकी आलोचना करना इसका नाम गवेषणा है ।  
व्यङ्गनायग्रहके उत्तर कालमें जो मतिविशेष होता है वह संज्ञा है ।  
पूर्वमें अनुभूत अर्थका स्मरण करना इसका नाम स्मृति है । अर्थका  
परिच्छेद होजानेपर भी उस अर्थके सूक्ष्मधर्मोंका आलोचन करना  
इसका नाम मति है । उस पदार्थके यथार्थ प्रभूत धर्मोंका विचार  
करना प्रज्ञा है । सोही कहा है—

१ धरणा, २ धारणा, ३ स्थापना, ४ प्रतिष्ठा, ५ कोष्ठम् अन्तर्गृहणी स्थिति ज्येष्ठ  
समयकी छटा अने अघायने काल अतमुद्धृतिने ॥ धारणा संख्यात अघायतकाल-  
नी छटा ॥ मतिज्ञानना नव वेद आ प्रमाद्ये ॥— १ ईहा, २ अपोह ३ विमर्श  
४ अघाय ५ गवेषणा, ६ संज्ञा ७ स्मृति, ८ मति, ९ प्रज्ञा । सदर्थंनु पर्यालोचन  
करुं तेनु नाम ईहा ॥ अघायने निश्चय करवे तेनु नाम अपोह ॥ विचार अघायना  
पठेवा अने छटानी पछी गवाणा विचारुं नाम विमर्श ॥ अन्वयधर्मोनु अन्वेषण  
करुं तेनु नाम मार्गणा ॥ व्यतिरेक धर्मोनी आलोचना करुं तेनु नाम गवेषणा ॥  
व्यङ्गनायग्रहके उत्तरकालमा जे मति विशेष अथ ॥ ते संज्ञा ॥ पूर्वार्थ — पठेवां  
अनुचन करेव अथनु स्मरण करुं तेनु नाम स्मृति ॥ अर्थने परिच्छेद गवा छटा ते  
अर्थना सूक्ष्म धर्मोनु आलोचन करुं तेनु नाम मति ॥ अने ते पदार्थोनु यथार्थ  
प्रभूत (सुष्ण) धर्मोना विचार करवे तेनु नाम प्रज्ञा ॥ ते अर्थ ॥ ३—

उक्तञ्च—“ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा,

सण्णा, सई मई पण्णा, सव्वं आभिणिवोहियात्ति” ॥१॥

विपरीतमतिरूपा बुद्धिः मत्यज्ञानमुच्यते, तस्यापि च अवग्रहादिचतुर-  
ान्तरविंशतिभेदान वर्जयित्वा ३४०—चत्वारिंशदधिकशतत्रयं भेदा भवन्ति ।  
प्रथ श्रुतज्ञानं चतुर्दशविधं प्रज्ञप्तम्—१ अक्षरश्रुतम्, २ अनक्षरश्रुतम्, ३ संज्ञिश्रुतम्  
४ असंज्ञिश्रुतम्, ५ सम्यक्श्रुतम्, ६ मिथ्याश्रुतम्, ७ सादिश्रुतम्, ८ अनादि-  
श्रुतम्, ९ सपर्यवसितश्रुतम्, १० अपर्यवसितश्रुतम्, ११ गमिकश्रुतम्, १२ अ-  
गमिकश्रुतम्, १३ अङ्गप्रविष्टम्, १४ अनङ्गप्रविष्टम् । तत्र श्रुतज्ञानावरणीयकर्म-  
क्षयोपशमजन्यं शास्त्रज्ञान श्रुतज्ञानमुच्यते । चरणकरणानुयोगः, धर्मकथानुयोगः,  
द्रव्यानुयोगः, गणितानुयोगश्च श्रुतज्ञानेऽन्तर्भवति । यस्य कदापि नाशो न भवति  
तद् अक्षरमुच्यते, जीवोपयोगस्वरूपत्वात्, ज्ञानस्य नाशो न भवति, जीवस्या-

‘ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा ।

सण्णा सई, मई पण्णा सव्वं आभिणिवोहिया त्ति’ ॥

विपरीत मतिरूप बुद्धिका नाम मत्यज्ञान कहा गया है । इस  
मत्यज्ञानके अवग्रहादिचारोंके ५-५ अवान्तर भेदोंको छोड़कर ३४०  
भेद होते हैं । श्रुतज्ञानके १४ भेद हैं । जो इस प्रकारसे हैं १ अक्षर,  
श्रुत, २ अनक्षरश्रुत, ३ संज्ञिश्रुत, ४ असंज्ञिश्रुत, ५ सम्यक्श्रुत, ६  
मिथ्याश्रुत, ७ सादिश्रुत, ८ अनादिश्रुत, ९ सपर्यवसितश्रुत, १०  
अपर्यवसितश्रुत, ११ गमिकश्रुत, १२ अगमिकश्रुत, १३ अङ्गप्रविष्ट  
१४ और अनङ्गप्रविष्ट । श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे यह  
श्रुतज्ञान होता है । इसमें चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, द्रव्यानुयोग  
और गणितानुयोग ये चार अनुयोग अन्तर्भूत होते हैं ।  
जिसका कभी भी नाश नहीं होता है उसका नाम अक्षर

इहा अपोह वीमंसा इत्यादि. मतिरूप बुद्धिर्नाम मत्यज्ञानं च. अये मत्यज्ञानना  
अवग्रहादि चारेणा पाय पाय अवान्तरभेदाने छोड़ने ३४० लेह थाय छे श्रुतज्ञानना १४  
चौह लेह नीचे प्रमाणे छे— १ अक्षरश्रुत, २ अनक्षरश्रुत, ३ संज्ञिश्रुत, ४ असंज्ञिश्रुत,  
५ सम्यक्श्रुत, ६ मिथ्याश्रुत, ७ सादिश्रुत, ८ अनादिश्रुत, ९ सपर्यवसितश्रुत, १०  
अपर्यवसितश्रुत, ११ गमिकश्रुत, १२ अगमिकश्रुत, १३ अङ्गप्रविष्टश्रुत अने १४  
अनङ्गप्रविष्टश्रुत श्रुतज्ञानावरणीय कर्मना क्षयोपशमथी आ श्रुतज्ञान थाय छे तेर्मा  
अक्षरक्षणानुयोग, धर्मकथानुयोग, द्रव्यानुयोग अने गणितानुयोग. अये चार योग अन्तर-  
भूत थाय छे तेने छोड़ यथे वपने नाश थतो नथी तेनु नाम अक्षर छे. ते अक्षर

नादित्वात् अविनाशित्वाच्च, अत एवात्र ज्ञानमेवाक्षरमुच्यते, ज्ञानकारणतया  
 उपचारात् अक्षरादिबर्णा अपि अक्षरपदेन व्यवहियते, ततश्च अक्षररूपश्रुतम्  
 अक्षरश्रुत निगद्यते, अक्षरमन्त्रैव क्षरीरचेष्टादिभ्योज्ञायमान ज्ञानम् अनक्षर  
 श्रुतमुच्यते यथा - हासकासच्छिक्काञ्ज्मादयः, नेत्रादिसंकोचविस्फारादिभि-  
 र्व्यस्यमानो भावाभिप्रायादिश्च अनक्षरश्रुतमुच्यते, संग्रामे चिन्तनविचारणशक्ति  
 सम्पन्नाय जनाय उपविष्टं श्रुत सञ्ज्ञिश्रुतमुच्यते, तन्निष्ठ श्रुतम् असञ्ज्ञिश्रुतम् ।  
 सर्वज्ञसर्वदर्शित्वीर्यशूरभगवता प्रणीतम् आचाराद्वादिवाक्शास्त्रमश्रुतम् सम्पन्न  
 श्रुतम्, मिथ्यादृष्टिभिः स्वकपोलकल्पतेया स्वतन्त्रबुद्ध्या कल्पितं शास्त्र मिथ्या

है वह अक्षर जीवके उपयोग स्वरूप होता है, अर्थात् ज्ञानस्वरूप  
 होता है अतः ज्ञानका कमी भी नाश नहीं होता है क्योंकि जीव  
 अनादि है और अविनाशी है । इसलिये यहाँ पर अक्षरसे ज्ञानही  
 लिया गया है । ज्ञानके कारण होनेसे उपचारात् अकारादि वर्ण भी  
 अक्षरपदसे व्यवहृत हो जाते हैं । इसलिये अक्षररूप जो श्रुत है  
 वसका नाम अक्षरश्रुत है । अक्षरके बिना शरीरादिचेष्टाओंसे जाय  
 मान जो ज्ञान है वह अनक्षरश्रुत है । जैसे हास, कास, छीक,  
 जंभाई आदि ये अनक्षरश्रुत हैं तथा नेत्रादिक के संकोचसे और  
 उनके विस्फार आदिसे प्रकट होता हुआ जो भावाभिप्राय आदि  
 है वह भी अनक्षरश्रुत है । चिन्तन विचारणाकी शक्तिसे सपन्न सञ्ज्ञि  
 जीवके लिये उपविष्ट जोश्रुत है वह सञ्ज्ञिश्रुत है । इससे निष्ठ जो  
 श्रुत है वह असञ्ज्ञिश्रुत है । सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् द्वारा  
 जो आचाराद्वादि वाक्शास्त्र भागमसूत्ररूपसे उपविष्ट हुआ है वह  
 सम्पन्नश्रुत है । मिथ्यादृष्टियों द्वारा अपनी झूठी कल्पनासे कल्पित अत

एवमेव उपयोग स्वरूप इत्येते अर्थात्- ज्ञानस्वरूप इत्येते तेथी ज्ञानमेव ज्ञातं पञ्च  
 समने नाशं भवेत् नथी, तेभ्यो अथ अन्यादि ते अने अविनाशी ते तेथी अक्षरी अक्षरश्री  
 ज्ञानं च जीवितं ते ज्ञानं अक्षर इत्येते उपचारात् अकारादि पञ्चानुं पञ्च अक्षरपदश्री  
 अक्षरं च अथ ते तेथी अक्षररूपं श्रुतं ते तु नाम अक्षरश्रुतं, नेत्री रीतिं हास  
 कास, छिक्, निष्क- अने अनक्षरश्रुतं ते तथा नेत्रादिबन्धना संकोचश्री अने तेथी  
 चिन्तनश्रुतश्री प्रकटं भवेत् भाव अभिप्राय आदि ते ते अनक्षरश्रुतं ते, चिन्तन  
 विचारणानी शक्तिश्री श्रुतं सञ्ज्ञिश्रुतमेव अथ उपविष्टं ते श्रुतं ते ते सञ्ज्ञिश्रुतं ते  
 तेनाथी अज्ञं ते श्रुतं ते ते असञ्ज्ञिश्रुतं ते सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान्द्वारा  
 जो आचाराद्वादि वाक्शास्त्र भागमसूत्ररूपश्री उपविष्टं ते ते सम्पन्नश्रुतं ते मिथ्यादृष्टिभ्यो

श्रुतम् । द्वादशाङ्गसूत्र पर्यायार्थिकनयापेक्षया सादिश्रुतम् आदिसहितम्, सपर्य-  
वसितश्रुतम्, अन्तसहितं कथ्यते, द्रव्यार्थिकनयापेक्षया तु आद्यन्तरहितम्  
अनादि श्रुतम् अपर्यवसितश्रुतमुच्यते, अनेकस्थले यस्य पाठस्य पुनः पुनरु-  
च्चारणं क्रियते तद् गमिकश्रुतं भण्यते, यथा 'उत्तराध्ययनसूत्रे दशमाध्ययनगाथा-  
याम्-समयं गोयम मा पमायए' इत्यस्य चारंवारमुच्चारणं क्रियते । गमिकश्रुतभिन्न  
शास्त्रम् अगमिकश्रुतं मुच्यते यथा-आचाराङ्गादिकम् आचाराङ्गादिद्वादशाङ्गसूत्रम्  
( ११ अङ्गानि, १-दृष्टिवादः ) अङ्गप्रविष्टश्रुतं निगद्यते । द्वादशाङ्गसूत्रभिन्न  
शास्त्रम् अङ्गबाह्यश्रुतं कथ्यते । विस्तरो नन्दीसूत्रे द्रष्टव्यः ॥ सू० ५ ॥

नारकादिजीवगत्यादिद्वारवक्तव्यतामाह-

-इतः पू<sup>०</sup> समुच्चयजीव चतुर्विंशतिदण्डक-मिद्रेति पद्विंशतिरूपैश्च दण्डकैः  
ज्ञानिनः अज्ञानिनश्च प्ररूपिताः, अथ तानेव गतीन्द्रियकायादिद्वारैः प्ररूपयितु-  
माह 'निर्ग्याणं मंते' इत्यादि ।

शान्त्र मिथ्याश्रुत है । द्वादशाङ्गश्रुत पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे सादिश्रुत  
कहा गया है । अर्थात् वह आदि सहित माना गया है । नामान्तरसे  
इसे सपर्यवसितश्रुत, अन्तसहितश्रुत भी कहा गया है । द्रव्यार्थिक  
नयकी अपेक्षासे यही श्रुत आदि अन्तरहित अनादिश्रुत अपर्यवसित  
श्रुत माना गया है । अनेक स्थलपर जिस पाठका बार २ उच्चारण  
किया जाता है वह गमिकश्रुत कहा जाता है । जैसे उत्तराध्ययनसूत्रमें  
दशवें अध्ययनकी गाथामें 'समयं गोयम ! मा पमायए' इसपाठका  
बार २ उच्चारण किया गया है । गमिकश्रुतसे भिन्नशास्त्र अगमिकश्रुत  
कहलाता है । जैसे आचाराङ्ग आदि द्वादशसूत्र अङ्गप्रविष्टश्रुत है,  
द्वादशाङ्गसूत्रसे भिन्न शास्त्र अङ्गबाह्यश्रुत कहा गया है विस्तारसे वर्णन  
नन्दीसूत्रमें कहा गया है सो वहांसे देखलेना चाहिये ॥ सू० ५ ॥

द्वारा पोतानी गुठी कल्पनाओंथी कल्पेले श्रुत मिथ्याश्रुत छे द्वादशाङ्गश्रुत पर्यायार्थिक  
नयनी अपेक्षासे सादिश्रुत कहेले छे, अर्थात्- तेने आदि सहित मानेले छे नामान्तरथी  
तेने सपर्यवसितश्रुत, अतसहितश्रुत पण कहेले छे द्रव्यार्थिक नयनी अपेक्षासे तेने  
श्रुत आदि अत सहित-अनादिश्रुत अपर्यवसितश्रुत मानेले छे अनेक स्थणे के पाठने  
बार बार उच्चार कराय छे ते गमिकश्रुत कहेवाय छे जेवी रीते उत्तराध्ययन सूत्रना  
दशमा अध्ययननी गाथामा 'समयं गोयम मा पमायए' जे पाठने बार बार  
उच्चारण करेले छे गमित श्रुतथी गुडु शास्त्र अगमितश्रुत कहेवाय छे जेवी रीते  
आचाराङ्गादि द्वादशसूत्र अङ्गप्रविष्टश्रुत छे द्वादशाङ्गसूत्रथी गुडु शास्त्र अङ्ग बाह्यश्रुत  
कहेवाय छे तेनु विस्तारथी वर्णन नन्दीसूत्रमा कहेले छे तो ते त्याथी समञ्ज देखुं सु ५

मूल्य-निरयगइया ण भते ! जीवा किं नाणी अघ्नाणी ?  
 गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि, तिन्नि नाणाइ नियमा, तिन्नि  
 अन्नाणाइ भयणाए । तिरियगइया ण भते ! जीवा किं नाणी,  
 अन्नाणी ? गोयमा ! दो नाणा दो अघ्नाणा नियमा । मणुस्स  
 गइया ण भते ! जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? गोयमा ! तिन्नि  
 नाणाइ भयणाए, दो अघ्नाणाइ नियमा । देवगइया जहा निरय  
 गइया । सिद्धगइयाण भते ! जहा सिद्धा १ । सहदिया ण भंते !  
 जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? गोयमा ! अत्तारि नाणाइ, तिन्नि  
 अघ्नाणाइ भयणाए । एग्गिदिया ण भते ! जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ?  
 जहा पुढविकाइया वेइदिय-तेइदिय-चउरिंदियाण दो नाणा,  
 दो अघ्नाणा नियमा । पच्चिदिया जहा सहदिया । अग्गिदिया णं  
 भते ! जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? जहा सिद्धा २ । सकाइया ण  
 भते ! जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? गोयमा ! पच्च नाणाइ, तिन्नि  
 अघ्नाणाइ भयणाए । पुढविकाइया जाव षणस्सइकाइया नेा नाणी,  
 अघ्नाणी, नियमा दुअघ्नाणी, त जहा-मइअघ्नाणी य, सुय  
 अघ्नाणी य । तसकाइया जहा सकाइया । अकाइया ण भते ! जीवा  
 किं नाणी, अघ्नाणी ? जहा सिद्धा ३ । सुद्धमा ण भते ! जीवा  
 किं नाणी, अघ्नाणी ? जहा पुढविकाइया । घादरो ण भंते ! जीवा  
 किं नाणी, अघ्नाणी ? जहा सकाइया । नोसुद्धमनोवायराण  
 भते ! जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? जहा सिद्धा ४ । पच्चत्ता णं भंते !  
 जीवा किं नाणी, अघ्नाणी ? जहा सकाइया । पच्चत्ता ण भंते !  
 नेरइया किं नाणी, अघ्नाणी ? तिन्नि नाणा, तिन्नि अघ्नाणा नियमा,  
 जहा नेरइया । एव जाव थणियकुमारा । पुढविकाइया जहा एग्गि

दिया, एवं जाव चउरिंदिया । पज्जत्ता णं भंते ! पंचिंदियतिरिक्ख  
जोणया किं नाणी, अन्नाणी ? तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा भ  
णाए । मणुस्सा जहा सकाइया । वाणमंतरा जोइसिया वेमाणि  
जहा नेरइया । अपज्जत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी  
तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए । अपज्जत्ता णं भंते ! नेरइ  
किं नाणी; अन्नाणी ? तिन्नि नाणा नियमा, तिन्नि अन्ना  
भयणाए । एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइया जाव वणस्स  
काइया जहा एगिंदिया । वेदिया णं पुच्छा ? दो नाणा; दो अन्ना  
नियमा; एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अपज्जत्तगा  
भंते ! मणुस्सा किं नाणी; अन्नाणी ? तिन्नि नाणाइं भयण  
दो अन्नाणाइं नियमा । वाणमंतरा जहा नेरइया । अपज्जत्तगा जं  
सिय-वेमाणियाणं तिन्नि-नाणा, तिन्नि अन्नाणा नियमा, नं  
ज्जत्तगनोअपज्जत्तगा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? ३  
सिद्धा ५ । निरयभवत्था णं भंते ! जीवा किं नाणी; अन्नाणं  
जहा निरयगइया; तिरियभवत्था णं भंते ! जीवा किं नाणी;  
न्नाणी ? तिन्नि नाणा; तिन्नि अन्नाणा भयणाए । मणुस्सभव  
णं भंते ! जीवा किं नाणी; अन्नाणी ? जहा सकाइया; देवभव  
णं भंते ! जहा निरयभवत्था । अभवत्था जहा सिद्धा ६ । २  
सिद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? जहा सकाइ  
अभवसिद्धिया णं पुच्छा ? गोयमा ! नो नाणी; अन्नाणी, ति  
अन्नाणाइं भयणाए । नोभवसिद्धियनोअभवसिद्धिया णं भं

जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? जहा सिद्धा ७ । सन्नी ण पुच्छा,  
जहा सइदिया । असन्नी जहा वेइदिया । नो सन्निनोअसन्नी  
जहा सिद्धा ८ ॥ सू० ६ ॥

छाया-निर्यगत्तिका खल्ल मदन्त । जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिन ?  
गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, त्रीणि ज्ञानानि नियमात्, त्रीणि अज्ञानानि  
मभनया । त्रिर्यगत्तिका खल्ल भवन्त ! जीवा किं ज्ञानिन, अज्ञानिनः ?  
गौतम ! द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने नियमात् । मत्तुष्यगत्तिकाः खल्ल मदन्त ! जीवाः  
किं ज्ञानिनः ? अज्ञानिनः ? गौतम ! त्रीणि ज्ञानानि मभनया, द्वे अज्ञाने निय

नारकादि जीवगत्यादिद्वारयक्तव्यता-

‘निर्यगइयाण भंते !’ इत्यादि ?

सूत्रार्थ-(निर्यगइयाण भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे मदन्त !  
निर्यगति-नरकगतिमें रहे हुए जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी चि अन्नाणी चि) ज्ञानी भी  
होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । इनमें (तिभि नाणाइ नियमा)   
तीनज्ञान नियमसे होते हैं (तिभि अन्नाणाइ भयणाए) और तीनअज्ञान  
भजनास होते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानियोंमें तीनज्ञान होते हैं  
और अज्ञानियोंमें तीन अज्ञान भजनासे होते हैं (तिरियगइयाण भंते !  
जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे मदन्त ! त्रिर्यगत्तिकाजीव त्रिर्यगत्तियमें  
रहे हुए जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा)  
हे गौतम ! (दो नाणा, दो अन्नाणा नियमा) उनके नियमसे दो ज्ञान और  
दो अज्ञान होते हैं । (मत्तुस्सगइयाण भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी)

नारकादि एव धत्तादि द्वारं निरूप्य

सूत्रार्थ-‘नेरइया ण भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ के मत-  
नारकी-नरकभतिमां स्वेत्ता एव खानी देव उ के अज्ञानी । ‘गोयमा’ के जीवमां  
‘नाणी चि अन्नाणी चि’ नरकभतिमा स्वेत्ता एव खानी जाने अज्ञानी पणु देव उ  
तेमां ‘तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए’ तेज्जाने मत्तु अज्ञान अज्ञानधी देव उ स्वेत्ताने  
अथ अं उ के ज्ञानियेमां त्रयु खान देव उ जाने अज्ञानीज्जिमां अज्ञानधी त्रयु  
अज्ञान देव उ ‘तिरियगइयाण मत्त जीवा किं नाणी अन्नाणी’ के मत-  
तिव अये नीवण्णा एव- तिव अयेत्तीमां स्वेत्ता एव सु खानी देव उ के अज्ञानी देव उ  
‘गोयमा’ के जीवमां । ‘दो नाणा, दो अन्नाणा नियमा’ तेमत्तमां निरूप्यते वे खान

मात् । देवगतिकाः यथा निरयगतिकाः । सिद्धगतिकाः खलु भदन्त ! यथा सिद्धाः । सेन्द्रियाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम ! चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनाया, एकेन्द्रियाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा पृथिवीकायिकाः, द्वीन्द्रिय-त्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्र-

हे भदन्त ! मनुष्यगतिकजीव मनुष्यगतिमें रहे हुए जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिन्नि नाणाइं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा) मनुष्यगतिक जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । ज्ञानियोंमें तीनज्ञान भजनासे होते हैं और अज्ञानियोंमें दो अज्ञान नियमसे होते हैं । (देवगइया जहा निरयगइया) देवगतिक जीव निरयगतिकके समान जानना चाहिये । (सिद्धगइयाणं भंते ! ) हे भदन्त ! सिद्धगतिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सिद्धा) हे गौतम ! सिद्धगतिक जीव सिद्धजीवोंकी तरहसे होते हैं । अर्थात् ज्ञानी होते हैं । (सइदियाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! सेन्द्रिय जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (चत्वारि नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए) उनके चार ज्ञान भजनासे होते हैं और तीनअज्ञान भजनासे होते हैं । (एगिंदियाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ?) हे भदन्त एकेन्द्रिय जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहापुढ-विकाइया) हे गौतम एकेन्द्रिय जीव पृथिवीकायिक जीवोंकी तरहसे

अनं भे अज्ञान होय छे 'मणुस्सगइयाण भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भगवन् ! मनुष्यगतिक एव-मनुष्यगतिमा रहैता एव शु ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'तिन्नि नाणाइं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा' मनुष्यगतिमा रहैता एव ज्ञानी पथ्य होय छे अने अज्ञानी पथ्य ज्ञानीओमा तथ्य ज्ञान लण्नाथी होय छे अने अज्ञानीओमा भे अज्ञान नियमथी होय छे. 'देवगइया जहा निरयगइया' देवगतिमा एव निरयिकगतिमा एव प्रमाण्ये समज्जवा 'सिद्धगइयाणं भंते' हे भगवन् सिद्धगतिएव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी? 'जहासिद्धा' ते सिद्धजोवानी समान होय छे अर्थात्- ज्ञानी न होय छे 'सइदियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भगवन् ! ईन्द्रियवाणा एवो ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'चत्वारि नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' लण्नाथी तेमना चार ज्ञान अने तथ्य अज्ञान होय छे 'एगिंदियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भगवन् ! एकेन्द्रियएव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'जहा पुढविकाइया'



याणां द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने नियमात् । पश्चेन्द्रिया यथा सेन्द्रिया । अर्नान्द्रियाः सङ्घ  
 मवन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा सिद्धाः २। सकायिकाः सङ्घ  
 मवन्त ! जीवा किं ज्ञानिनः अज्ञानिनः ? गौतम ! पश्च ज्ञानाणि, श्रीणि अज्ञानानि  
 ममनया । पृथिवीकायिकाः यावत् घनस्पतिकायिका नो ज्ञानिनः, अज्ञानिनः,  
 नियमात् इत्यज्ञानिनः, तद्यथा-मस्पज्ञानिनश्च, ध्रुवाज्ञानिश्च । असकायिकाः यथा

जानना चाहिये । (वेइंदिय, तेइंदिय, चउरिंदियाण दो नाणा, दो अभाणा  
 नियमा) वेन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय इन जीवोंके दोज्ञान और  
 दोअज्ञान नियमसे होते हैं । (पश्चिदिया जहा सहदिया) पंचेन्द्रिय जीव  
 सेन्द्रियजीवोंकी तरहसे जानना चाहिये । (अणिंदियाणं मंते ! जीवा  
 किं नाणी अभाणी) हे भवन्त ! अनिन्द्रिय जीव-इन्द्रिय रहित जीव  
 क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सिद्धा) सिद्धजीवोंकी  
 तरह इनमें ज्ञानी होनेका कथन जानना चाहिये । (सकाइयार्णं मंते !  
 जीवा किं नाणी अभाणी) हे भवन्त ! सकायिक (कायाघाले) जीव ज्ञानी  
 होते हैं या अज्ञानी होते हैं । (गोयमा) हे गौतम ! (पंच नाणाई तिषि  
 अभाणाइ मयणाए) सकायिकजीवोंमें भजनासे पांच ज्ञान और तीन  
 अज्ञान होते हैं । (पुडवीकाइया जाव घणस्सइकाइया णो नाणी, अभाणी  
 नियमा दुअभाणी) पृथिवीकायिक यावत् घनस्पतिकायिकजीव ज्ञानी  
 नहीं होते हैं, किन्तु अज्ञानी होते हैं और इनमें नियमसे मति अज्ञान

हे गौतम वेइन्द्रियएव पृथ्वीकायिक एवानी समान आकृत्य 'वेइंदिय, तेइंदिय,  
 चउरिंदियाणं दो नाणा, दो अभाणा नियमा'मे इन्द्रिय-तेइन्द्रिय (असु उरिइयणा) मने  
 वेइन्द्रिय मे एवमे मे ज्ञान मने मे अज्ञान निवमभी देव मे 'पश्चिदिया जहा  
 सहदिया' पश्चेन्द्रिय एवमे मे इन्द्रियवाणा एवानी मद्देक समकल्प 'अणिंदियाण  
 मंते ! जीवा किं नाणी अभाणी' हे अगवान ! अनिन्द्रियएव-इन्द्रिय विनाया एव  
 यानी देव मे हे अज्ञानी देव मे ! 'जहा सिद्धा' सिद्ध एवानी मद्देक तेज्जेने  
 यानी देवतुं समकल्पुं 'सकाइयार्णं मंते जीवा किं नाणी अभाणी' हे अगवा !  
 सकायिकएव ज्ञानी देव मे हे अज्ञानी ! 'गोयमा' हे गौतम ! 'पंचनाणाई तिषि  
 अभाणाई मयणाए' सकायिकएवमे अज्ञानाभी पाव ज्ञान मने तसु अज्ञान देव मे  
 'पुडवीकाइया जाव घणस्सइकाइया, नो नाणी अभाणी नियमा दुअभाणी'  
 पृथ्वीकायिकएव-यावत्-घनस्पतिकायिकएव ज्ञानी देवता नथी किन्तु अज्ञानी देव मे मने  
 तेमनामा निवमभी मतिअज्ञान, मने कुतअज्ञान मे मे अज्ञान देव मे मे एव वाव

सकायिकाः, अकायिकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ?  
 यथा सिद्धाः ३ । सूक्ष्माः खलु भदन्त । जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ?  
 यथा पृथिवीकायिकाः । बादराः खलु भदन्त । जीवाः किं ज्ञानिनः अज्ञानिनः ?  
 यथा सकायिकाः । नोसूक्ष्मा नोबादराः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः,  
 अज्ञानिनः ? यथा सिद्धाः ४ । पर्याप्ताः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः,

और श्रुताअज्ञान ये दो अज्ञान होते हैं । यही बात (तंजहा-मइअन्नाणी  
 य, सुयअन्नाणी य) इस पाठ द्वारा कही गई है । (तसकाइया जहा  
 सकाइया) असकायिक जीव सकायिक जीवोंकी तरह होते हैं । (अका-  
 इयाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! अकायिक जीव  
 क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सिद्धा) हे गौतम !  
 अकायिक जीव सिद्धोंकी तरह ज्ञानी ही होते हैं अज्ञानी नहीं । (सुहुमाणं  
 भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणां) हे भदन्त ! सूक्ष्मजीव क्या ज्ञानी होते  
 हैं ? या अज्ञानी होते हैं (जहा पुढविकाइया) हे गौतम ! सूक्ष्मजीव  
 पृथिवीकायिक जीवोंकी तरह अज्ञानी ही होते हैं । (बादराणं भंते !  
 जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! बादरजीव क्या ज्ञानी होते हैं  
 या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सकाइया) हे गौतम ! बादरजीव  
 सकायिकजीवोंकी तरह होते हैं । (नो सुहुमा, नो बादराणं भंते !  
 जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त नोसूक्ष्म, नोबादरजीव क्या  
 ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सिद्धा) हे गौतम ! नो  
 सूक्ष्म नोबादरजीव सिद्धोंकी तरह ज्ञानी ही होते हैं । (पज्जत्ता णं

‘तजहा मइ अन्नाणी य, सुय अन्नाणी य’ ये पाठथी कडेवामा आव्युं छे.  
 (तसकाइया जहासकाइया) असकायिकजीव सकायिकजीवोनी भाइक होय छे.  
 ‘अकाइयाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे लगवन्त ! अकायिकजीव ज्ञानी  
 होय छे के अज्ञानी ? ‘जहा सिद्धा’ हे गौतम ! अकायिकजीव सिद्धोनी भाइक  
 ज्ञानी न होय छे ‘सुहुमाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! सूक्ष्म  
 जीव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ‘जहा पुढविकाइया’ हे गौतम ! सूक्ष्मजीव पृथ्वी  
 कायिक जीवोनी भाइक अज्ञानी न होय छे. ‘बादराणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’  
 हे लगवन्त ! बादरजीव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ‘जहा सकाइया’ हे गौतम !  
 बादरजीव सकायिक-शरीरवाणा जीवोनी भाइक होय छे ‘नोसुहुमा नोबादराणं भंते  
 जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे लगवन्त ! नो सूक्ष्म, नो बादर जीव ज्ञानी होय छे के  
 अज्ञानी ? ‘जहा सिद्धा’ हे गौतम ! तेओ सिद्धोनी भाइक ज्ञानी न होय छे.

अज्ञानिनः ? यथा सकायिकाः, पर्याप्ताः खलु भदन्त ! नैरयिकाः किं ज्ञानिनः,  
अज्ञानिनः ? श्रीणि ज्ञानानि, श्रीणि अज्ञानानि नियमात्, यथा नैरयिकाः, एव  
यावत्—स्वनिवकुमाराः । पृथिवीकायिका' यथा एकेन्द्रियाः, एवं यावत् चतुरि  
न्द्रियाः पर्याप्ता' खलु भदन्त ! पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिना किंज्ञानिनः अज्ञानिनः?  
श्रीणि ज्ञानानि, श्रीणि अज्ञानानि ममनया । मनुष्या यथा सकायिकाः॥ बान्धवन्तराः॥

भते । जीवा किं नाणी, अन्नाणी ) ह भदन्त ! पर्याप्त जीव  
क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( जहा सकाया )  
हे गौतम ! पर्याप्तजीव सकायिक जीवोंकी तरह जानना चाहिये ।  
( पञ्चत्वा ष भते ! नेरइया किं नाणी, अन्नाणी ) हे भदन्त ! पर्याप्त  
नारकजीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं । ( तिज्जि नाणा,  
तिन्नि अन्नाणा नियमा ) हे गौतम ! पर्याप्त नारकजीवोंके नियमसे  
तीनज्ञान और तीनअज्ञान होते हैं । ( जहा नेरइया एवं जाव पणिय  
कुमारा ) इसी तरहसे यावत् स्वनिवकुमारोंको भी जानना चाहिये ।  
( पुडविकाया जहा एगिदिया, एव जाव चउरिदिया ) जैसा एकेन्द्रिय  
जीवोंके विषयमें कहा गया है उसी तरहसे पृथिवीकायिकोंको जानना  
चाहिये इस तरहसे यावत् चौइन्द्रियजीवोंतक जानना चाहिये ।  
( पञ्चत्वा ण भते ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया किं नाणी अन्नाणी ) हे  
भदन्त ! पर्याप्त पंचेन्द्रियतिर्यज्ज क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ?  
( तिन्नि नाणा तिल्लि अन्नाणा भयणाए ) हे गौतम ! पर्याप्त पंचेन्द्रिय  
तिर्यज्जोंमें भजनासे तीनज्ञान और तीनअज्ञान होते हैं । ( मणुस्सा

'पञ्चत्वा ष भते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! पर्याप्त जीव ज्ञानी होते हैं  
हे अज्ञानी ! तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा नियमा' हे गौतम ! पर्याप्त  
नारकजीवोंके नियमसे त्रय ज्ञान अने त्रय अज्ञान होते हैं । 'जहा नेरइया एवं  
जाव पणियकुमारा' अने एव रीते यावत्—स्वनिवकुमाराणा विषयभां पणु समस देवुं  
'पुडविकाया जहा एगिदिया, एवं जाव चउरिदिया' अने एव रीते चोइन्द्रियतया  
विषयभां कणुं ७ तथीरिसे पञ्चिदिय अने। एव तया विषयभां समस देवुं  
'पञ्चत्वा ष भते पंचिदिय तिरिक्खजोणिया किं नाणी अन्नाणी' पर्याप्त पंचेन्द्रिय  
तिर्यज्ज शु ज्ञानी होते हैं हे अज्ञानी ! तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए'  
हे गौतम ! अन्नाणी अने त्रय ज्ञान अने त्रय अज्ञान होते हैं । 'मणुस्सा जहा

ज्योतिषिकाः, वैमानिकाः यथा नैरयिकाः । अपर्याप्ताः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया अपर्याप्ताः खलु भदन्त ! नैरयिकाः, किंज्ञानिनः किम् अज्ञानिनः ? त्रीणि ज्ञानानि नियमात्, त्रीणि अज्ञानानि भजनया, एवं यावत् स्तनितकुमाराः, पृथिवीकायिकाः, यावत्-

जहा सकाह्या, वाणसंतरा जोडसिया वेमाणिया जहा नेरइया ) मनुष्योको सकायिकजीवोंकी तरह जानना चाहिये । वानव्यंतर ज्योतिषिक और वैमानिक नैरयिक जीवोंकी तरह जानना चाहिये (अपज्जत्ताणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! अपर्याप्त जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए ) हे गौतम ! अपर्याप्तक जीवोंके भजनासे तीनज्ञान और तीनअज्ञान होते हैं (अपज्जत्ता णं भंते ! नेरइया किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! अपर्याप्त नारक क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (तिन्नि नाणा नियमा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए) हे गौतम ! इसमें तीनज्ञान नियमसे होते हैं । किन्तु तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (एवं जाव थणियकुमारा, पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया जहा एगिंदिया) इसी तरह से यावत् स्तनितकुमारोंको भी जानना चाहिये । जैसा एकेन्द्रियके संबंधमें कहा गया है उसी तरहसे अपर्याप्त पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पतिकायिकतक जानना चाहिये । (वेइंदियाणं पुच्छा) हे भदन्त !

सकाइया वाणसंतरा जोडसिया वेमाणिया जहा नेरइया' मनुष्योने सकायिक ज्ञानोनी भाइक समज्वाना छे वानव्यंतर, ज्योतिषिक, अने वैमानिकोने नैरयिकज्ञानोनी भाइक समज्वाना छे 'अपज्जत्ताणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' अपर्याप्तज्व श्रुं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ' तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए ' हे गौतम ! अपर्याप्तक ज्ञानोने अज्जनाथी त्रणु ज्ञान अने त्रणु अज्ञान होय छे. 'अपज्जत्ताणं भंते नेरइया किं नाणी अन्नाणी' हे भगवन् ! अपर्याप्तक नारक श्रुं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'तिन्नि नाणा नियमा तिन्नि अन्नाणा भयणाए' हे गौतम ! तेओभा त्रणु ज्ञान नियमथी होय छे किंतु त्रणु अज्ञान अज्जनाथी होय छे 'एवं जाव थणियकुमारा, पुढविक्काइया जाव वणस्सइकाइया जहा एगिंदिया' अज्ज रीते यावत्- स्तनितकुमार पर्यंत समज्ज लेवु जेवी रीते ऐकेन्द्रियना विषयभां कहु छे अज्ज रीते अपर्याप्तक पृथ्वीकायिकथी लधने वनस्पतिकायिक पर्यंत समज्जुं. 'वेइंदियाणं पुच्छा' हे भगवन् ! अपर्याप्तक ऐकेन्द्रियज्व श्रुं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी !

धनस्पतिकारिका यथा एकैन्द्रिया, द्वीन्द्रियाणां पृच्छा ? हे ज्ञाने, हे अज्ञाने  
 नियमात् एव यावत्-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाणाम्, अपर्याप्तकाः खल्व मदन्त !  
 मनुष्याः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? श्रीणि ज्ञानानि मजनया, हे अज्ञाने नियमात्,  
 धानस्पन्तरा यथा त्रैयिकाः, अपर्याप्तकाः ज्योतिषिकत्रैमानिकाः श्रीणि ज्ञानानि,  
 श्रीणि अज्ञानानि नियमात्, नोपर्याप्तका नोअपर्याप्तकाः खल्व मदन्त ! जीवाः

अपर्याप्त दोइन्द्रियजीव क्याजानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (दो नाणा  
 दो अज्ञाणा नियमा) हे गौतम ! इनके दो ज्ञान और दो अज्ञान अवश्य  
 होते हैं । (एव जाव पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाण) इसी तरहसे यावत्  
 पञ्चेन्द्रियतिर्यग् तक जानना चाहिये । (अपञ्चत्ताण भते ! मणुस्सा किं  
 नाणी अनाणी) हे मदन्त ! अपर्याप्त मनुष्य क्या ज्ञानी होते हैं या  
 अज्ञानी होते हैं ? (तिन्नि नाणाइ भयणाए, दो अन्नाणाइ नियमा) तीन  
 ज्ञान इनमें भजनासे हाते हैं और दो अज्ञान नियमसे होते हैं । (वाण-  
 संतरा जहा नेरइया, अपञ्चत्ता जोइसियवेमाणिया ण तिन्नि नाणा, तिन्नि  
 अन्नाणा नियमा) त्रैयिकजीवोंकी तरह अपर्याप्तक धानस्पन्तरोंको जानना  
 चाहिय । तथा अपर्याप्त ज्योतिषिकदेवोंको एव वैमानिक देवोंको तीन  
 ज्ञान और तीन अज्ञान नियमसे होते हैं (नो पञ्चत्ता, नो अपञ्चत्ता  
 ण भते ! जीवा किं नाणी अनाणी) हे मदन्त ! नोपर्याप्त नोअपर्याप्त  
 जीव क्या ज्ञानी हाते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सिद्धा) हे  
 गौतम ! नोपर्याप्त नो अपर्याप्त जीव सिद्धोंकी तरह ज्ञानी ही होते

'दो नाणा दो अन्नाणा नियमा' हे गौतम ! तेमनाभा ने ज्ञान अने दो अज्ञान  
 अवश्य हेय हे 'एव जाव पंचिन्द्रियतिरिक्खजोणियाण' ज्येती अरिसे धारण-  
 पञ्चेन्द्रिय नियम सुधी समजहुं 'अपञ्चत्ताण भते मणुस्सा किं नाणी अनाणी'  
 हे भगवन् ! अपर्याप्तक मनुष्य क्युं ज्ञानी हेय हे अज्ञानी ! 'तिन्नि नाणाइ भयणाए  
 दो अज्ञाणाइ नियमा' तेमनाभा मजुं ज्ञान अज्ञानाधी हेय हे अने दो अज्ञान  
 नियमानी हेय हे 'वाणमतरा जहा नेरइया अपञ्चत्ता जाइसिया वेमाणियाण  
 तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा नियमा' त्रैयिक अनेती भाइक अपर्याप्तक धान-  
 स्पन्तरा विषय । पञ्च संभजहुं तेमज अपर्याप्तक ज्योतिषिक देव अने वैमानिक  
 देवान त्रय ज्ञान अने मजुं अज्ञान नियमानी हेय हे नो पञ्चत्ता नो अपञ्चत्ताण  
 भते जीवा किं नाणी अनाणी' हे भगवन् ! नो पर्याप्त अने नो अपर्याप्तक  
 जीव ज्ञानी हेय हे अज्ञानी ! 'जहा सिद्धा' हे गौतम सिद्धोंकी भाइक तेमजे

किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथासिद्धाः ५॥ निरयभवस्थाः खलु भदन्त ! जीवाः  
 किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा निरयगतिकाः, तिर्यग्भवस्थाः खलु भदन्त !  
 जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनाय !  
 मनुष्यभवस्थाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा स-  
 कायिकाः । देवभवस्थाः खलु भदन्त ! यथा निरयभवस्थाः, अभवस्थाः यथा  
 सिद्धाः ६ । भवसिद्धिकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ?

हैं (निरयभवस्थाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! निरय-  
 भवस्थ जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा निरयगइया)  
 हे गौतम ! निरयभवस्थजीव नैरयिकगतिककी तरह जानना चाहिये ।  
 (तिरियभवस्था णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! तिर्यग्  
 भवस्थ जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (तिन्नि नाणा  
 तिन्नि अन्नाणा भयणाए) हे गौतम ! इनको तीनज्ञान और तीनअज्ञान  
 भजनासे होते हैं । (मणुस्सभवस्था णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी)  
 हे भदन्त ! मनुष्यभवस्थ जीव क्या ज्ञानी होते हैं ? अथवा अज्ञानी होते  
 हैं ? (जहा सकाइया) हे गौतम ! इन्हें सकायिक जीवोंकी तरहसे जानना  
 चाहिये (देवभवस्थाणं भंते ! ) हे भदन्त ! देवभवस्थ जीव ज्ञानी होते  
 हैं या अज्ञानी होते हैं ( जहा निरयभवस्था, अभवस्था जहा सिद्धा )  
 हे गौतम ! देवभवस्थ जीवोंको निरयभवस्थ जीवोंकी तरह जानना  
 चाहिये । तथा अभवस्थजीवोंको सिद्धोंकी तरह जानना चाहिये—  
 (भवसिद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?) हे भदन्त ! भव-

ज्ञानी न होय छे ' निरयभवस्थाणं भंते किं नाणी अन्नाणी ' हे भगवन् !  
 निरयभवस्थ एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'जहा निरयगइया' हे गौतम ! तेज्जोने  
 नैरयिक एवोनी भाइके समजवा निरयभवस्थाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी'  
 हे भगवन् ! तिर्यकभवस्थ एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? ' तिन्नि नाणा  
 तिन्नि अन्नाणा भयणाए' हे गौतम ! तेज्जोने त्रयु ज्ञान अने त्रयु अज्ञान  
 भजनाथी होय छे ' मणुस्सभवस्थाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी '  
 हे भगवन् ! मनुष्यभवस्थ एव शु' ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ' जहा सकाइया '  
 हे गौतम ! तेज्जोने सकायिक एवोनी भाइके समज लेवा ' देवभवस्थाण भंते '  
 हे भगवन् ! देवभवस्थ एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'जहा निरयभवस्था, अभवस्था  
 जहा सिद्धा' हे गौतम ! देव भवस्थ एवोने निरय भवस्थ एवोनी भाइके समज लेवा,  
 तथा अभवस्थ एवोने सिद्धोनी भाइके समजलेवा ' भवसिद्धियाणं भंते जीवा किं

यया सकायिकाः । अमवसिद्धिकाः स्वच्छ पृच्छा ? गौतम ! नो ज्ञानिनः, अज्ञानिनः, श्रीणि अज्ञानानि मजनया, नामवसिद्धिका नोअमसिद्धिकाः स्वच्छ मदन्त ! जीराः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः, यथा सिद्धाः, ७ ॥ संज्ञिनः स्वच्छ पृच्छा, यया सेन्द्रियाः, असंज्ञिनो यया अन्द्रिया, नोसंज्ञिनः नोअसंज्ञिनो यथा सिद्धाः ८। ४ ॥

सिद्धिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सकाइया) हे गौतम ! अवसिद्धिक जीवोंको सकायिक जीवोंकी तरह जानना चाहियो (अमवसिद्धियाण पुच्छा) हे मदन्त ! अवसिद्धिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं ? या अज्ञानी होते हैं (गोयमा) हे गौतम ! ( जो नाणी अनाणी ) अवसिद्धिकजीव ज्ञानी नहीं होते हैं किन्तु अज्ञानी होते हैं । (तिन्नि अनाणाइ मयणाए) उनमें तीन अज्ञान मजनासे होते हैं । (नोअव सिद्धिया नोअमवसिद्धिया ण मते ! जीवा किं नाणी, अनाणी) हे मदन्त ! जो नोअवसिद्धिक, नोअमवसिद्धिक जीव हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सिद्धा) हे गौतम ! नोअवसिद्धिक नोअमवसिद्धिक जीव सिद्धोंकी तरह होते हैं । (सभीण पुच्छा) हे मदन्त ! संज्ञी जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सइदिया, असन्नी जहा वेइंदिया, नोसन्नी नोअसन्नी जहा सिद्धा ८) हे गौतम ! संज्ञी जीव सेन्द्रिय जीवकी तरह होते हैं असंज्ञी जीव वेइन्द्रिय जीवकी तरह होता है । नोसंज्ञी नोअसंज्ञी जीव सिद्धोंकी तरह होते हैं ।

नाणी अनाणी' के अर्थन अवसिद्धिक एवं पुं शब्दी होय के अर्थनी ? 'महा सकाइया' के अर्थन अवसिद्धिक एवंना विषयमां सकायिक एवंनी भाइक समजवुं 'अमवसिद्धियाण पुच्छा' के अर्थन ! अवसिद्धिक एवं पुं शब्दी होय के अर्थनी ? 'गोयमा' के अर्थन ! 'नो नाणी अनाणी' अर्थन के अर्थ शब्दी नहीं पर अर्थनी अर्थ होय के । तिन्नि अनाणाइ मयणाए' वे अर्थ अनाणी तसु अर्थन होय के । 'नो अवसिद्धिया ना अमवसिद्धियाण मते जाणा किं नाणी अनाणी' के अर्थन ! वे नोअवसिद्धिक अने नोअमवसिद्धिक ए । वे शब्दी होय के अर्थनी ? 'महा सिद्धा' के अर्थन ! नो अवसिद्धिक अने नोअवसिद्धिक एवंना विषयमां सिद्धोनी भाइक समजवुं 'संज्ञीण पुच्छा' के अर्थन ! सज्ञो एवं शब्दी वे य के अर्थनी ? 'महा सइदिया असन्नी जहा वेइंदिया नो सन्नी ना असन्नी जहा सिद्धा' के अर्थन ! संज्ञी एवं सेन्द्रिय एवंनी भाइक होय के अर्थनी एवं वेइन्द्रिय एवंनी भाइक होय के नो संज्ञी नोअसंज्ञी एवं सिद्धोनी भाइक होय के ।

टीका—‘निरयगइया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! निरयगतिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः ? किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? इदमत्र बोध्यम्—

‘ जीव-गइ-इंदिय-काए, सुहुम-पज्जत्ति-भवत्थे य,  
भवसिद्धिए य सण्णी, लद्धी उवभोग जोगे य ॥ १ ॥  
लेस्सा कसाय वेए, आहारे णाणगोयरे,  
काले अंतर अप्पावहुयं, पज्जवा चेव दाराइं ॥ २ ॥

१ जीवः, २ गतिः, ३ इन्द्रियम्, ४ कायः ५ सूक्ष्मम्, ६ पर्याप्तकम्, ७ भवस्थश्च, ८ भवसिद्धिकश्च, ९ संज्ञि, १० लब्धिः, ११ उपयोगः, १२ योगश्च, १३ लेइया, १४ कषायः, १५ वेदः, १६ आहारः, १७ ज्ञानगोचरः १८ कालः, १९ अन्तरम्, २० अल्पबहुत्वम्, २१ पर्यायः, इत्येकविंशतिः

टीकार्थ—समुच्चयजीव, २४ दण्डक और सिद्ध, इसप्रकार छन्वीस दंडकों द्वारा ज्ञानी और अज्ञानीकी प्ररूपणा की जाचुकी है, अब उन्हीं ज्ञानी और अज्ञानी जीवोंकी प्ररूपणा गति, इन्द्रिय, काय आदि द्वारा की जा रही है । इसमें गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है ‘निरयगइयाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! निरयगतिकजीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? यहां पर ऐसा अभिप्राय जानना चाहिये कि जीव १, गति २, इन्द्रिय ३, काय ४, सूक्ष्म ५, पर्याप्तक ६, भवस्थ ७, भवसिद्धिक ८, संज्ञी ९, लब्धि १०, उपयोग ११, योग १२, लेइया १३, कषाय १४, वेद १५, आहार १६, ज्ञानगोचर १७, काल १८, अन्तर १९, अल्पबहुत्व २०, और पर्याय २१ ये २१ द्वार हैं । सो इन

टीकार्थ—समुच्चय जीव, २४ ज्ञानीस दण्डक अने सिद्ध ते रीते २४ छन्वीस दंडको द्वारा ज्ञानी अने अज्ञानीनुं निरूपण्य पडेजाना प्रकरण्यमा करवामा आव्यु छे हुवे ते ज्ञानी अने अज्ञानी ज्ञानेनुं निरूपण्य गति, इन्द्रिय अने काय आदि द्वारा करवामा आवे छे तेमा गौतम स्वामी प्रभुने अने रीते पूछे छे के—‘निरयगइयाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवन् । नैरयिक जीव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? पूछवाने। हेतु अने छे के जीव १, गति २, इन्द्रिय ३, काय ४, सूक्ष्म ५, पर्याप्तक ६, भवस्थ ७, भवसिद्धिक ८, संज्ञी ९, लब्धि १०, उपयोग ११, योग १२, लेइया १३, कषाय १४, वेद १५, आहार १६, ज्ञानगोचर १७, काल १८, अंतर १९, अल्पबहुत्व २०, अने पर्याय २१. आ रीते २१ अनेकवीस द्वार छे आ द्वारे पैकी जीवद्वारने आश्रय करीने



द्वाराणि सन्ति, तत्र जीवद्वारमाधित्य ज्ञानादिकं निरूपितम् अथ गत्यादि विंशतिद्वाराणि आधित्य ज्ञानादिकं निरूपयितुं प्रथम गतिद्वारेण नैरयिकादि जीवानां ज्ञानादिकं प्रतिपादयति - 'निरयगाइया' इति, तत्र निरये नरके गतिः गमनं येषां ते निरयगतिकाः, तथा च यं सम्यग्दृष्टयो मिथ्यादृष्टयो वा ज्ञानिनोऽज्ञानिनो वा पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोणिका मनुष्याश्च नरके उत्सृणुं कामाः यावत् पूर्वमथ परित्यज्य मरकमथ द्वे प्राप्ताम्नायत् अन्तरगतीं धर्तमानास्तौ निरयगतिका व्यपदिश्यते, अत एवात्र गतिशब्दप्रयोगो विहितः, तद्वच्छेनैवायमर्थो लभ्यते, ते स्वल्प निरयगतिका नरकगामिनो जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनो वा भवन्ति ? इति प्रश्नः । मगवानाह - 'गोयमा । नाणी वि, अभाणी वि, तिन्नि नाणाइं नियमा, तिन्नि अभाणाइं मयणाए' हे गौतम ! निरयगति का जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति, तत्र धीणि ज्ञानानि मति ज्ञानावधिसप्तणानि नियमात् नियमतो भवन्ति, किन्तु धीणि अज्ञानानि मत्यज्ञान

द्वारोंमेंसे जीवद्वारको आश्रित करके ज्ञानादिककी प्ररूपणा तो की जा चुकी है । अथ अवशिष्ट गत्यादिक २० द्वारोंके आश्रित करके ज्ञानादिकोंको निरूपणकरनेके लिये प्रथमगतिद्वार द्वारा नैरयिक आदि जीवोंके ज्ञानादिकोंकी प्ररूपणा सूत्रकार करते हैं 'निरयगाइया' जिनका निरय नरकमें गति-गमन होना होता है व जीव निरयगतिक हैं । ऐसे नरकगामी जीव क्या ज्ञानी होत हैं या अज्ञानी होत हैं ? इस प्रश्नके समाधान निमित्त प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अभाणाणी वि' निरयगतिकजीव ज्ञानीभी होते हैं अज्ञानी भी होते हैं । 'तिन्नि नाणाइं नियमा, तिन्नि अभाणाइं मयणाए' इनके मतिज्ञान, भुतज्ञान, और अवधिज्ञान ये तीनज्ञान तो नियमसे होते हैं, परन्तु

ज्ञानादिकोंको निरूपण करायुं ७ ७ने आश्रिता अत्यादिक २० वींश द्वारोंको आश्रित करीने ज्ञानादिकोंको निरूपण करवा मति प्रथम गतिद्वारस्थी नैरयिक आदि छवोंको ज्ञाने ज्ञानादिकोंको सूत्रकार निरूपण करे ७ 'निरयगाइया' जेभनु निरय-नरकमें गति गमन करत ७ ते नैरयिक गति कहेवाय ७ जेवा नरकगामी छव ज्ञानी होय ७ ७ अज्ञानी होय ७ ? उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम । 'नाणी वि अभाणाणी वि' निरयगतिक छव ज्ञानी पण होय ७ अने अज्ञानी पण होय ७ तिन्नि नाणाइं नियमा तिन्नि अभाणाइं मयणाए' तेज्जेने भतीज्ञान, भुतज्ञान अने अवधिज्ञान निरयगामी होय ७ अने मति ज्ञान अज्ञान अज्ञानी होय ७ अर्थ- ज्ञाने मति छवेने जे अज्ञान होय ७ अने

भुताज्ञानविभङ्गज्ञानलक्षणानि भजनया, केषांचित् निरयगामिनां द्वे अज्ञाने केषांश्चित् त्रीणि अज्ञानानि भवन्ति, तत्र असंज्ञीनां नरकगामिनां द्वे अज्ञाने भवतः अपर्याप्तकत्वेन विभङ्गज्ञानाभावात्, संज्ञिनां तु मिथ्यादृष्टीनां त्रीणि अज्ञानानि भवन्त्ययधिविभङ्गज्ञानसंभवात्, एतदभिप्रायेणाह—त्रीणि अज्ञानानि भजनया इति । गौतम पृच्छति—‘तिरियगइया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ हे भदन्त ! तिर्यग्गतिकाः—तिर्यक्षु गतिर्गमनम् येषां ते तिर्यग्गतिकाः तिर्यग्योनिगामिनः तदन्तरालवर्तिनः स्वच्छ जीवाः किं ज्ञानिनः, किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह—‘गोयमा ! दो नाणा दो अन्नाणा नियमा’ हे गौतम ! तिर्यग्गामिनां तदपान्तरालवर्तिनां जीवानां द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने नियमात् नियमतो भवतः, तत्र

तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । अर्थात् किन्हीं २ नरकगतिकजीवोंके दो अज्ञान होते हैं, और किन्हीं २ नरकगतिक जीवोंको तीन अज्ञान होते हैं । जो नरकगतिक असंज्ञीजीव होते हैं, उनके दो अज्ञान होते हैं । इनके अपर्याप्तक अवस्थामें विभंगज्ञानका अभाव रहता है । जो संज्ञी मिथ्यादृष्टिजीव नरकगतिक होते हैं उनको तीन अज्ञान होते हैं । क्योंकि इनमें अपर्याप्तावस्थामें भवप्रत्यय विभंगज्ञान होजाता है । इसी अभिप्रायको लेकर ‘ऐसा कहा गया है कि भजनासे तीन अज्ञान होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘तिरियगइया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो जीव तिर्यग्गतिक हैं ऐसे जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘दोनाणा, दोअन्नाणा नियमा’ तिर्यग्यो-निक जीवोंके दो ज्ञान और दो अज्ञान नियमसे होते हैं । तात्पर्य इसका यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव अवधिज्ञानके नष्ट होजानेपर ही

दो अज्ञान होय ते जे नरकगति असंज्ञीभव होय छ तेओने जे अज्ञान होय छ करणु के तेओने अपर्याप्तक अवस्थामां विभंगज्ञान होतुं नथी. जे संज्ञी मिथ्यादृष्टिभव नरकगति होय छ तेओने त्रय अज्ञान होय छ कभके तेमने अपर्याप्ता-वस्थामा लवप्रत्यय विभंगज्ञान थरुं जाय छ ओ जे अभिप्रायने लधने सञ्जनाथी त्रय अज्ञान होय छ तेम कहु छ प्रश्न—‘तिरियगइयाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवन ! जे तिर्यक गति भव होय छ ते ज्ञानी होय छ अज्ञानी ? उ—‘गोयमा’ छे गौतम ! ‘दो नाणा दो अन्नाणा नियमा’ तेओने जे ज्ञान अने जे अज्ञान नियमथी होय छ कहेवाने हेतु ओ छ के सम्यग्दृष्टि भव अवधिज्ञानने नाथ थया यथी जे तिर्ययोमा जाय छ ते समये तेमने अतिज्ञान अने श्रुतज्ञान ओम जे ज्ञान हो छ

सम्यग्दृष्टीनाम् अवधिज्ञाने विनष्टे सत्येष तिर्यक्षु गमनं भवति, अतस्तेषां हे एष ज्ञाने मतिध्रुतसप्तणे भवतः, मिथ्यादृष्टीनां तु विमद्भ्रज्ञाने प्रणष्टे सत्येष तिर्यक्षु गमनं भवति अतस्तेषामपि द्वे एव अज्ञाने मत्पज्ञान-भ्रुताज्ञानसप्तणे भवत इति भाषः, गौतमः पृच्छति-‘मणुस्सगइया ण भते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ?’ हे भवन्त ! मनुष्यगतिका मनुष्ये मनुष्यमवे भाविनी गतिर्येषां ते मनुष्य भवगामिनस्त्वदपान्तरालवर्तिनः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः, किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह-‘गोयमा ! तिलि नाणां भयणाए, षो अन्नाणां नियमा’ हे गौतम ! मनुष्यभवगामिनां तदपान्तरालवर्तिनां जीवानां त्रीणि ज्ञानानि मत्र नया भवन्ति, द्वे अज्ञाने नियमासु नियमसो भवतः, तत्र मनुष्यमवे गामिनां केपाञ्चित् ज्ञानिनां तीर्यङ्गुत्तवत् अवधिज्ञानेन सदैव गमनं भवति, केपाञ्चित् अवधिज्ञान परित्यज्यैव गमनं भवति, अतस्तेषां त्रीणि वा, द्वे वा ज्ञाने भवत’ इत्य-

तिर्यञ्चोर्मे जाता है उस समय इसके मतिज्ञान और भ्रुतज्ञान ये दो ज्ञान होते हैं । तथा मिथ्यादृष्टिजीव विभंगज्ञानके नष्ट होजाने परही तिर्यङ्गगतिमें जाता है । इस कारण इसको दो अज्ञान कहे गये हैं । एक मत्पज्ञान और दूसरा भ्रुताज्ञान । अथ गौतमस्थामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं ‘मणुस्सगइयाण भते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भवन्त ! जो मनुष्यगतिक हाते हैं ऐसे जीव क्या ज्ञानी हाते हैं या अज्ञानी हाते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं ‘गोयमा तिलि नाणां भयणाए’ दो अन्नाणाह नियमा’ हे गौतम ! मनुष्यगतिकजीवोंमें जोज्ञानी हैं वे कितनेक जीवतो तीर्थंकरकी तरह अवधिज्ञानके साथ ही मनुष्यगतिमें जाते हैं और कितनेकजीव अवधिज्ञानको छोड़कर मनुष्यगतिमें जाते हैं इसलिये ऐसे जीवकि तीन ज्ञान और दो ज्ञानवाले कहे गये हैं । तथा

तथा मिथ्यादृष्टिजन्य विभङ्गज्ञान नष्ट तथा पक्षी च तिर्यङ्गगतिमा न्यस्य तेभ्योऽपि मत्पज्ञानं जने ज्ञुतं अज्ञानं चो ने अज्ञानं कहेत्ता ॥ प्रश्न-‘मणुस्स गइयाणं भते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भवन्त ! मनुष्यगतिका एव ज्ञानी होय ॥ हे अज्ञानी ! ॥ - ‘गोयमा’ ‘तिलि नाणां भयणाए दो अन्नाणां नियमा’ हे गौतम ! मनुष्यगतिका एतेषां ते ज्ञानी होय ॥ तेभ्योऽपि इतथाकं तो तिर्यङ्गुत्तवत् भावः, अवधिज्ञानही भावे च मनुष्यगतिर्वा न्यस्य ॥ जने इतथाकं एव अवधिज्ञानं तल्लो मनुष्यगतिमा न्यस्य ॥ जेषो च अपि एतेषां मत्पज्ञानं जने ने ज्ञानं कहेवायेतां ॥ जने

भिप्रायेणाह—‘त्रीणि ज्ञानानि भजनयेति’ किन्तु मनुष्यभवे उत्पत्तिकामानामज्ञानिनां तु विभङ्गज्ञाने प्रभ्रष्टे सत्येव तत्रोत्पत्तिर्भवति अतस्तेषां ह अज्ञाने मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानलक्षणे नियमतो भवत इत्यभिप्रायेणाह— ‘हे अज्ञाने नियमात् इति, गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! देवगतिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः ? किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? इति प्रश्नः स्वयमूहनीयः, भगवान् उत्तरमाह—‘देवगइया जहा निरयगइया’ हे गौतम ! देवगतिकाः देवभवगासिनो जहा गथा निरय-गतिकाः ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चोक्तास्तथा वक्तव्याः, तत्र देवभवगासिनामपि ज्ञानिनां भवप्रत्ययस्यावधिज्ञानस्य देवायुःप्रथमसमये एवोत्पादात् त्रीणि ज्ञानानि नियमतो भवन्ति, त्रीणि अज्ञानानि तु पूर्वोक्तानि भजनया बोध्यानि उक्तयुक्तेः, अज्ञानि-नामसंज्ञिनां ह अज्ञाने, अपर्याप्तत्वे विभङ्गाभावात्, संज्ञिना तु त्रीणि अज्ञानानि भवप्रत्ययविभङ्गस्य तद्भावात् ! गौतमः पृच्छति—‘सिद्धगइया ण भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! सिद्धगतिकाः सिद्धिगासिनः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः, किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह—‘जहा—सिद्धा’ १, हे गौतम ! यथा सिद्धाः केवलज्ञानिनो भवन्ति तथा सिद्धगतिका अपि केवलज्ञानिना

जो आज्ञानी हैं, वे त्रिभंगज्ञानके नष्ट होने पर ही मनुष्यगतिमें उत्पन्न होते हैं इसलिये ऐसे जीवोंके अवश्य ही दो मत्यज्ञान और श्रुता-ज्ञान होते कहे गये हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि हे भदन्त ! जो जीव देवगतिक होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं, या अज्ञानी होते हैं इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं हे गौतम ! देवगतिकजीव निरयगतिककी तरह ज्ञानी अज्ञानी दोनों प्रकारके होते हैं ।

अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘सिद्धगइयाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो जीव सिद्धगतिक हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘जहा सिद्धा’ हे गौतम ! जिस प्रकारसे सिद्धकेवलज्ञानसे ज्ञानी होते हैं उसी प्रकारसे

वे अज्ञानी छे ते विभगज्ञाननो नाश थवाथी न मनुष्यगतिमा उत्पन्न थाय छे तेथी आवा जेवोमा अवश्य मत्यज्ञान अने श्रुताज्ञान ज्येम छे अज्ञान रहेदां छे तेम नष्टाव्यु छे इवे गौतम स्वामी प्रभुने पूछे छे के हे भगवान् ! जे जेव देवगतिक होय छे ते शु रानी होय छे के अज्ञानी ? तेना उत्तरमा प्रभु कहे छे के हे गौतम ! देवगतिक जेव निरयगतिक जेवोना भाक्षक न ज्ञानी अने अज्ञानी ज्येम अने प्रकारना कहेवाय छे प्रश्न—‘सिद्धगइयाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! जे जेव सिद्ध-गतिक होय छे ते शु रानी होय छे के अज्ञानी ? जे—‘जहा सिद्धा’ हे गौतम !

एव भवन्ति इति भाषाः, अत्रेदं बाध्यम्—सिद्धानां सिद्धगतिकानामभेदमेवामेवान्तर-  
गत्यभावात् विशेषामावेऽपि सिद्धगतिकानां गतिद्वारणमायासत्त्वेन तथा प्रति-  
पादितम् । इति । द्वितीय गतिद्वारम् ।

अथ तृतीयमिन्द्रियद्वारमाभित्य ज्ञानादिकं प्ररूपयितुमाह—‘सइदियाण मते!  
जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ हे भदन्त ! सेन्द्रियाः—इन्द्रिय युक्ता इन्द्रियापयोग-  
वन्त स्वद्ध जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति ? किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह

सिद्धगतिकजीव भी केवलज्ञानसे ही ज्ञानी होते हैं । यहाँ अन्तरगति नहीं  
होती है इसलिये सिद्ध और सिद्धगतिकमें भेद नहीं है केवल गतिद्वारके  
क्रमको लेकर ही इनका यह अलगसे निर्देश किया गया है । मुक्त  
जीवोंकी गति सीधी एक समयकी कही गयी है और वह बिना  
अन्तरालके होती है । अन्य जीवोंको जिस प्रकारसे विवक्षित भव  
पारण करनेके लिये विग्रहगतिमें देर सगती है उस प्रकार सिद्धोंको  
देर नहीं लगती है । अन्तर्गलगतिमें जीव जयतक रहता है तबतक  
वह अपर्याप्त होता है अतः इसी अपर्याप्तस्थामें यहाँ ज्ञानी और  
अज्ञानी होनेका विचार किया गया है । इस प्रकार यहाँतक द्वितीय  
गतिद्वारको लेकर ज्ञानादिककी प्ररूपणाकी अथ इन्द्रियद्वारको लेकर  
ज्ञानादिककी प्ररूपणा सूत्रकार करते हैं, सो गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा  
है कि ‘सइदियाण मते ! जीवा किनाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त !  
इन्द्रिययुक्त इन्द्रिय सहित जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते  
हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं चत्वारि नाणाइ, तिभि अन्नाणाइ

येही रीते सिद्ध इवणमनधी ज्ञानी अहेवाव छे तेवी अ रीते सिद्धमत्तक छव पव्व उपक-  
यानी अ होय छे अही अन्तरगतिते वी नधी । तेवी सिद्ध अने सिद्धगति छेवामा  
वेद नधी हेते । इतत प्रतिद्वारणा कभने लधने अ तेमने । अही आ अन्न अलम  
निर्वेध करेत्त छे मुक्तलयेना अति सीधी अेक सम्भवी अहेवी छे अने ते अतराव  
बिना होय छे अन्य छेवने ले रीते विवक्षित भाव पारण करवा माटे विवक्षितम  
विवक्षित भाव छे ते रीते सिद्धोने विवक्षित भवेत्त नथी । छव अतराव अतिमां अनी सुधी  
रहे छे त्वां सुधी । अपर्याप्त होय छे अहेत्त माटे अे अपर्याप्तस्थामां अही यानी  
अने अज्ञानां होवने विचार करेत्त छे आ रीते अही सुधी जीवा अतिद्वारने लधने  
ज्ञानादिकनुं निरूपण करेत्त छे अने छी । द्वारने लधने सूत्रकार यनादिनुं निरूपण करेत्त  
अथ— ‘सइदियाण मते किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त, अन्तरे अद्विगतता छेवो अ  
यानी होय छे । अज्ञानी । उ.— ‘चत्वारि नाणाइ तिभि अन्नाणाइ मयणाए’

—‘गोयमा ! चत्वारि नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए’ हे गौतम ! सेन्द्रियाणां चत्वारि ज्ञानानि मतिज्ञानावधिमनःपर्यवलक्षणानि, तथा त्रीणि अज्ञानानि मत्यज्ञान श्रुताज्ञान-विभङ्गज्ञानलक्षणानि भजनया भवन्ति, तथा च सेन्द्रियाः ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च, तत्र ज्ञानिनां चत्वारि ज्ञानानि भजनया कदाचित् द्वे, कदाचित् त्रीणि कदाचित् चत्वारि पूर्वोक्तानि भवन्ति, केवलज्ञानस्य अतीन्द्रियज्ञानत्वात् सेन्द्रियाणां तदसंभवात्, द्वयादिज्ञानादिकन्तु लब्ध्यपेक्षया, उपयोगापेक्षया तु सर्वेषामेवैदा एकमेव ज्ञानम्, अज्ञानिनां तु त्रीणि अज्ञानानि भजनयैव-कदाचित् द्वे, कदाचित् त्रीणि इत्यर्थः। गौतमः पृच्छति-‘एगिंदियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ हे भदन्त ! एकेन्द्रियाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः ? किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह—‘जहा पुढविकाइया’ हे गौतम ! एकेन्द्रियाः

‘भयणाए’ हे गौतम ! सेन्द्रिय जीवोंको चारज्ञान और तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । इनके कदाचित् दो ज्ञान, कदाचित् तीन ज्ञान कदाचित् चार ज्ञान होते हैं केवलज्ञान नहीं होता है क्योंकि वह ज्ञान अतीन्द्रिय होनेसे अतीन्द्रिय जीवोंके ही होता है । सेन्द्रियजीवोंके नहीं होता । सेन्द्रिय जीवोंमें जो दो आदिज्ञानोंके होनेकी बात यहां कही गई है वह लब्धिकी अपेक्षासे कही गई है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि उपयोग की अपेक्षा सब जीवोंमें एक कालमें एक ही ज्ञान होता है सेन्द्रिय अज्ञानीयोंके तीन अज्ञान भी भजनासे ही होते हैं कदाचित् दो और कदाचित् तीन । अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘एगिंदियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ जो जीव एकेन्द्रिय हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं ! या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘जहा पुढविकाइया’ हे गौतम ! जिस प्रकार पृथिवीकायिकजीव मिथ्या-

हे गौतम ! धन्द्रियवाणा ज्ञानेन चार ज्ञान अने त्रयु अज्ञान लज्जाया डोय छे. तेज्जाने कोष वपत मे ज्ञान अने कोष वपत त्रयु ज्ञान अने कोष वपत चार ज्ञान डोय छे. तेज्जाने केवज्जान होतु नथी केभडे ते ज्ञान अतीन्द्रिय - धन्द्रियेथी न जाल्ही शकय तेज्जाने ते धन्द्रियातीत ज्ञानेन न डोय छे धन्द्रियवाणा ज्ञानेन होतु नथी धन्द्रियवाणा ज्ञानेमां ने ज्ञानादि होवानी वान अही कही छे ते लब्धिकी अपेक्षासे कही छे तेम समजवुं. केभडे उपयोगनी अपेक्षासे सधणा ज्ञानेमां जेः काणमा जेकज्जान डोय छे. धन्द्रियवाणा ज्ञानेमा त्रयुअज्ञान लज्जाया डोय छे कोष वपत मे अने कोष वपत त्रयु अज्ञान डोय छे हवे गौतमस्वामी प्रभुने जेजु पूछे छे के ‘एगिंदियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ ने ज्ञाने जेकेन्द्रिय डोय छे ते ज्ञानी डोय छे के अज्ञानी ? उत्तरमा प्रभु कहे छे के ‘जहा पुढविकाइया’ हे गौतम ! ने रीते पृथ्वीकायिक ज्ञाने मिथ्या-

यथा पृथिवीकायिका मिथ्यादृष्टित्वादज्ञानिन प्रतिपादितास्तथा भ्रमज्ञानिनो षक्त  
 ष्या, से च ऋषयज्ञाना एव साध्याः, किन्तु 'चेन्द्रिय-तेन्द्रिय-चउरिन्द्रियाण दो  
 नाणा, दा अभाणा नियमा यीन्द्रिय-शीन्द्रिय-चनुरिन्द्रियाणां द्र ज्ञाने, द्वे अज्ञाने  
 च नियमात् नियमता भरतः, तथा च सासादनगुणस्थानरुतया तपु ह्यस्य  
 मानत्वात्, मासादनम्य गुणस्थानकस्य चोत्कृष्टः पडावलिफामानत्वात् द्वे ज्ञाने  
 नियमतस्तत्र लभ्येते, 'पश्चिदिया जहा सइदिया' पञ्चेन्द्रिया यथा सन्द्रियाः  
 भजनया चतुर्मानिनः ज्यज्ञानि पूर्ण प्रदर्शितास्तथैव भजनया चतुर्मानिनः, इय  
 ज्ञानिनश्च द्रष्टव्या । गौतमः पृच्छति- 'अणिदिया ण भते ! जीवा कि नाणी,

दृष्टि होनसे अज्ञानी प्रकट किये गये हैं, उसी प्रकारसे एकैन्द्रियजीव  
 भी अज्ञानी होते हैं ऐसा जानना चाहिये । इनमें मत्तज्ञान और  
 सुताज्ञान य दो अज्ञानवाले ही होते हैं । किन्तु 'चेन्द्रियतेन्द्रिय चउ  
 रिन्द्रियाण दो नाणा दो अनाणा नियमा' दो इन्द्रियवालोंमें तीन इन्द्रिय  
 वालोंमें और चारइन्द्रियवालोंमें दो ज्ञान और दो अज्ञान नियमसे होते  
 हैं । इनमें दो ज्ञान-मतिज्ञान और सुतज्ञान होनेका कारण यह है कि  
 इन जीवोंमें दूसरा सामादन गुणस्थानका होना सम्भवित कहा गया  
 है इस गुणस्थानका उत्कृष्टकाल ६ आधिका प्रमाण होता है तपतक  
 इनमें दो ज्ञान होते हैं और इसके सिवाय जीवोंके दो अज्ञान होते हैं  
 'पश्चिदिया जहा सइदिया' पञ्चेन्द्रियजीव मिस प्रकारसे पछिले सेन्द्रिय  
 जीव भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले प्रतिपादित किये  
 गये हैं उन्ही प्रकारसे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले भजनासे  
 होते हैं ऐसा जानना चाहिये । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पृच्छते

दृष्टि होवाधी ज्ञानिनी ह्य उ ते रीते ज्येन्द्रिय लभाने पय ज्ञानिनी सम्भवत् तेजो  
 मत्तज्ञान जने सुताज्ञानवाणा ज्येमे मे अज्ञानवाणा ज्येमे छे 'चेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चउ  
 रियाण दो नाणा दा अभाणा नियमा' ज्येन्द्रियवाणा त्रयैन्द्रियवाणा जने चार इन्द्रिय  
 वाणा लभेमा विरान जने जे ज्ञान निरमधी ज्येमे उ तेजोर्मा भतोज्ञान जने सुतज्ञान  
 होवानु भरतु जे छे हे जे लभाम्य शीलु सासादन गुणस्थाननु हेतु संभवित हवेत  
 उ ज्येसुधी जे सुतज्ञानने उरुषधी ६ छ आधिकाणा प्रमाणधी ज्येमे उ त्वासुधी  
 तेम मा ज्येज्ञान ज्येमे छे जने ते सिवायना लभेमा जे ज्ञान छे 'पश्चिदिया  
 जहा सइदिया' पञ्चेन्द्रिय लव, जे प्रकटधी पछेवां सेन्द्रियलव लभनाधी चार  
 ज्ञानवाणा जने त्रय अज्ञानवाणा होवानु सम्भवत त्रयु' छे जेच रीते चार ज्ञानवाणा  
 जने त्रय अज्ञानवाणा लभनाधी होय छे

अन्नाणी' हे भदन्त ! अनिन्द्रियाः खलु केवलिनः किं ज्ञानिनः, किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह—'जहा सिद्धा' २, हे गौतम ! यथा सिद्धाः केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिनः प्रतिपादितास्तथा अनिन्द्रियाः केवलिनोऽपि केवलज्ञानिनो बोध्याः । अथ चतुर्थकायद्वारमाश्रित्य गौतमः पृच्छति—'सकाइया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! सकायिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह—'गोयमा ! पंच नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए' हे गौतम ! सकायिकानां पञ्च ज्ञानानि भवन्ति, त्रीणि अज्ञानानि भजनया भवन्ति, तथाहि—कायेन औदारिकादिशरीरेण पृथिव्यादिपञ्चत्रसकाय-

हैं ' अणिदिघाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव अनिन्द्रिय हैं इन्द्रियके उपयोगसे रहित हैं वे ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ' जहा सिद्धा' हे गौतम ! जिस प्रकारसे पहिले यह कहा गया है कि सिद्धजीव केवलज्ञानरूप एक ज्ञानसे ज्ञानी होते हैं, उसी प्रकारसे अनिन्द्रिय जीव भी—केवली भी केवल ज्ञानरूप एकज्ञानसे ज्ञानी होते हैं । ऐसा जानना चाहिये ।

अब चतुर्थकायद्वारको आश्रित करके गौतम प्रभुसे पूछते हैं 'सकाइयाणं भंते ! जीवा किं नाणो अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव औदारिक आदि शरीरसे अथवा पृथिवी आदि ६ काय इनमेंसे किसी एककायसे सहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'पंच नाणाणि, तिन्नि अन्नाणाइ' भयणाए' सकायिकजीवोंको पांच ज्ञान और तीन अज्ञान भजनासे होते हैं क्योंकि औदारिक आदि शरीरसे तथा पृथिवी आदि

प्रश्न—अणिदिघाण भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भगवन् ! ७ एव अनिन्द्रिय छ अेटले ३ ध्रियना उपेोगथी रहित छ तेवा एवो ज्ञानी होय छ ३ अज्ञानी ? तेनो उत्तर आपता प्रभु उडे छे ३ 'जहा सिद्धा' हे गौतम ! ७ रीते सिध्वेना विषयभां आ पडेला क्खु छे सिद्धएव डेवणज्ञानइय अेक ज्ञानवाणा होय छे तेण रीते ध'द्रियविनाना एव पणु अेटले डेवली पणु—येथा डेवणज्ञानइय अेक ज्ञानथी ज्ञानी होय छे डेवे चतुर्थ—येथा डायद्वारने आश्रय करीने गौतमस्वामी प्रभुने पूछेछे ३ 'सकाइयाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भगवन् ! ७ एव औदारिक आदि शरीरथी अथवा पृथ्वी आदि छ डाय पैकी डोछ अेक डाय युक्त होय छे तेवा एव ज्ञानी होय छे ३ अज्ञानी ? तेनो उत्तर आपता प्रभु उडे छे ३ 'गोयमा' हे गौतम ! 'पंच नाणाणि तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' सकायिक एवेमा पाच ज्ञान अने तणु अज्ञान भजनथी होय छे ३ डेभके औदारिक आदि शरीरथी तथा पृथ्वी आदि पांच



रूपपट्टकायान्यतमेन वा कायेन ये वर्तन्ते ते सक्तायाः सक्ताया एव सक्तायिकाः  
 स्वार्थे कप्रत्ययाः, ते च केवलिनोऽपि श्युरिति सक्तायिकानां सम्यग्दर्शा  
 पञ्चज्ञानानि मजनया, मिथ्यादर्शा तु श्रेष्ठ्यज्ञानानि मजनया  
 कदाचित् द्वयज्ञानिनः, कदाचित् त्रयज्ञानिनो भवन्ति 'पुढविकाइया  
 जाव वणस्सइकाइया नो नाणी, अन्नाणी, नियमा दुअन्नाणी, त जहा-मइम  
 आणी य, सुयअन्नाणीय,' पृथिवीकायिकाः यारत्-अप्कायिकाः, तेजस्कायिकाः,  
 वायुकायिकाः, वनस्पतिकायिकाः नो ज्ञानिनः, अपि तु अज्ञानिनो भवन्ति, तथापि  
 अज्ञानिनो नियमात् द्वयज्ञानिनः, तथा-मत्यज्ञानिनश्च, भुताज्ञानिनश्च 'तसकाइया  
 जहा सकाइया' प्रसक्तायिका यया सक्तायिका पञ्चज्ञानिनः, त्रयज्ञानिनश्च पूर्वं प्रति

पाच और वस इन पट्टकायमेंस किसी एककायसे जो जीव युक्त होते  
 हैं वे जब सक्ताय कहे गये हैं, तो ऐसे सक्ताय केवली भी होते हैं ऐसे  
 सक्तायिक सम्यग्दर्शियोंके भजनासे दो, तीन, चारज्ञान हो सकते हैं  
 और एक केवलज्ञान भी हो सकता है। इसलिये यहाँ भजनासे  
 पाँचज्ञानतक हो सकता कहा गया है। तथा सक्तायिक मिथ्यादर्शियोंमें  
 भजनासे दो तीन अज्ञान भी होसकते हैं। 'पुढविकाइया जाव वणस्सइ  
 काइया णो नाणी, अन्नाणी, नियमा दुअन्नाणी तजहा मतिअन्नाणीय,  
 सुयअन्नाणी य' पृथिवीकायिक अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक  
 और वनस्पतिकायिक ये सय ज्ञानी नहीं होते हैं अपितु अज्ञानी ही  
 होते हैं। इनमें मत्यज्ञानी और भुताज्ञानी नियमसे होते हैं। 'तस  
 काइया जहा सकाइया' जिस प्रकार सक्तायिकजीव पाँचज्ञानवाले और  
 तीन अज्ञानवाले भजनासे पहिले कहे गये हैं, इसी प्रकारसे भजनासे

जने प्रस जे ६ छ द्वय पैरि डेअं जेक द्वयधी जे छव मुकव डेअं जेवा सधव  
 डेवधी पणु डेअं छ-जेवा सक्तायिक सम्यग्दर्शियोंके भजनाधी जे, प्रसु, चार गुण  
 डेअं छ जने जेक डेकणज्ञान पणु डेअं छ जेवहा भये जहा तेमनाभा भजनाधी  
 पांच गुण डेवानुं कहु छ तेमज सक्तायिक मिथ्या दर्शियोंके जे, प्रसु, अज्ञानइप  
 डेअं शके छ 'पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया नो नाणी अन्नाणी नियमा  
 तु अन्नाणी त जहा मति अन्नाणी य सुय अन्नाणी य' पृथ्वी कायिक छव अप्कायिक,  
 तेजस्कायिक वायुकायिक जने वनस्पतिकायिक छव जे सधवा ज्ञानी होवा नहीं  
 परतु अज्ञानी छ जे जेवा मत्यज्ञानी जने भुताज्ञानी नियमधी डेअं छ  
 'तसक्ताइया जहा सक्ताइया' जेही रीते सक्तायिक छवने पाच गुणवणा जने प्रसु  
 अज्ञानवणा भजनाधी होवानुं पडेवां डेववायु छ तेव रीते भजनाधी प्रसक्तायिक छव

पादितास्तथा तेषुपि पञ्चज्ञानिनः, त्र्यज्ञानिनश्च भवन्ति । गौतमः पृच्छति—  
 'अकाइया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? हे भदन्त ! अकायिकाः,  
 नास्ति काय औदारिकादिलक्षणो येषां ते अकायाः, अकाया एव अकायिकाः  
 खलु जीवाः किम् ज्ञानिनः ? किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह—  
 'जहा सिद्धा' हे गौतम ! यथा सिद्धा प्रतिपादिताः, तथा अकायिका अपि  
 केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिनो भवन्ति । अथ पञ्चमं सूक्ष्मद्वारमाश्रित्य गौतमः पृच्छति—  
 'सुहुमा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! सूक्ष्माः खलु जीवाः  
 किं ज्ञानिनः, किं वा अज्ञानिनश्च स्युः ? भगवानाह—' जहा पुढविकाइया ' हे  
 गौतम ! यथा पृथिवीकायिकाः नो ज्ञानिनः अपि तु अज्ञानिनो भवन्ति, तत्रापि

त्रसकायिक जीव भी पांचज्ञानवाले और तीनअज्ञानवाले हो सकते हैं  
 ऐसा जानना चाहिये । अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ' अकाइयाणं  
 भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव औदारिक  
 आदिकायसे रहत होते हैं ऐसे अकायिकसिद्ध जीव क्या ज्ञानी होते  
 हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'जहासिद्धा हे  
 गौतम ! जिस प्रकारसे सिद्धजीव प्रतिपादित किये गये हैं अर्थात्  
 सिद्धजीव जैसे केवलज्ञानको लेकर ज्ञानी प्रकट किये गये हैं उसी प्रकारसे  
 अकायिक जीव भी एक केवलज्ञानवाले ही होते हैं अज्ञानी नहीं  
 होते हैं । अब पांचवें सूक्ष्मद्वारको आश्रित करके गौतमस्वामी प्रभुसे  
 ऐसा पूछते हैं 'सुहुमा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त !  
 जो सूक्ष्मजीव हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें  
 प्रभु कहते हैं 'जहा पुढविकाइया' हे गौतम ! जैसे पृथिवीकायिकजीव  
 ज्ञानी नहीं होते हैं अपितु अज्ञानी ही होते हैं अर्थात् मत्तज्ञानी और

यण पांचज्ञानवाणा अने प्रभु अज्ञानवाणा होय छे प्रश्न —'अकाइया णं भंते जीवा  
 किं नाणी अन्नाणी' छे भगवान । ने एते औदारिक आदि कायधी रहित होय छे  
 तेवा अकायिक सिद्ध एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? तेना उत्तरमा प्रभु  
 छडे छे के ' जहा सिद्धा' नेवी रीते सिद्धोना विषयमा प्रतिपादन कथुं छे —अर्थात्—  
 सिद्ध एव नेवी रीते केवलज्ञानने लभने ज्ञानी प्रकट करायेव छे तेज रीते अकायिक  
 एव पणु अेक केवलज्ञानवाणा होय छे अज्ञानी होता नथी इवे पांचमा सूक्ष्मद्वारने।  
 आश्रय करीने गौतम स्वामी प्रभुने अेवु पूछे छे के ' सुहुमाणं भंते जीवा किं  
 नाणी अन्नाणी' सूक्ष्म एते, छे भगवान । ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? उत्तरमा प्रभु  
 छडे छे के ' जहा पुढविकाइया ' तेजे पृथ्वीकायिक एतेनी सादक अज्ञानीव होय छे.

नियमात् द्रव्यज्ञानिनस्तथा सूक्ष्मा अपि नियमतो मिथ्यादृष्टिवात् द्रव्यज्ञानिनः ।  
 गौतमः पृच्छति—‘वादरा षं मते ! जीवा किनाणी, अन्नाणी ?’ हे मदन्त !  
 वादराः स्वच्छ जीवाः किं ज्ञानिन ? किं वा अज्ञानिनो मयन्ति ? मगवानाह—  
 ‘अज्ञा-सकाइया’ हे गौतम ! वादरा केषमिनोऽपि मयन्ति अतः यथा सकायिक्य  
 मजनया पञ्च ज्ञानिनः, श्रयज्ञानिनश्चोक्तास्तथा मजनयैष पञ्च ज्ञानिनः, श्रयज्ञानिनो  
 विज्ञेयाः । गौतमः पृच्छति—‘नोसुहुमनोवायरा णं मते ! जीवा कि नाणी,  
 अन्नाणी ? हे मदन्त ! नो सूक्ष्मानो वादराः स्वच्छ जीवाः कि ज्ञानिनः, कि  
 वा अज्ञानिनो मयन्ति ? मगवानाह—‘अज्ञा सिद्धा’ ४ इ गौतम ! यथा सिद्धाः

श्रुताज्ञानी होते हैं उसी प्रकार सूक्ष्मजीव भी नियमसे मिथ्यादृष्टि  
 होनेके कारण मत्स्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी होते हैं । अब गौतमस्वामी  
 प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘वादरा षं मते ! जीवा किनाणी अन्नाणी’ हे  
 मदन्त ! वादरजीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके  
 उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘हे गौतम ! वादरजीव तो केशली भी होते हैं  
 इसलिये जैसे सकायिकजीव मजनासे पांचज्ञानघाळे और तीन अज्ञान  
 घाळे होते कहे गये हैं वसी तरेसे वादरजीव भी मजनासे पांचज्ञान  
 घाळे और तीन अज्ञानघाळे होते हैं ऐसा जानना चाहिये । अब गौतम  
 स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘नोसुहुमा नोवादरा षं मते ! जीवा कि  
 नाणी अन्नाणी’ हे मदन्त ! नोसूक्ष्म नोवादरजीव क्या ज्ञानी होते हैं या  
 अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं, हे गौतम ! ‘अज्ञासिद्धा’ प्रिस  
 प्रकार सिद्धजीव केषज्ज्ञानरूप एकज्ञानरूप एकज्ञानघाळे होते हैं उसी

अर्थात् तेजो-मत्स्यज्ञानी अने श्रुताज्ञानी होय छे तेज रीते सूक्ष्म एव नियमधी  
 मिथ्यादृष्टि होवाना करये मत्स्यज्ञानी अने श्रुताज्ञानी होय छे प्रभु ‘वादरा षं  
 मते जीवा कि नाणी अन्नाणी’ छे अजवन । वादर एवै शु ज्ञानी होय छे हे  
 अज्ञानी होय छे । उत्तरमां प्रभु पूछे छे हे हे गौतम ! वादरएवै ता केवणी पद्य  
 होय छे अटवे केवी रीत अज्ञायिक एव अजनाधी पाय ज्ञानवाला अने तद्य अज्ञानवाला  
 होवानुं कस्य छे अने रीते वादरएव पद्य अजनाधी पाय ज्ञान अने तद्य अज्ञानवाला  
 होय छे हे गौतम स्वामी प्रभुने अवेतुं पूछे छे हे ‘नोसुहुमाण नोवादरा षं  
 मते जीवा कि नाणी अन्नाणी’ छे अजवन । नोसूक्ष्म एव अने नोवादर  
 एव ज्ञानी होय छे हे अज्ञानी होय छे ? तेना उत्तर आपता प्रभु अवे छे हे  
 हे गौतम ‘अज्ञा सिद्धा’ के रीते सिद्ध एव केवज्ज्ञानरूप अने ज्ञानवाला होय छे

केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिनः पूर्वप्रतिपादितास्तथा नोसूक्ष्मा नोवादरा अपि जीवाः  
केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिनो भवन्ति, न तु द्वयादिज्ञानिनः ।

अथ पष्ठं पर्याप्तकद्वारमाश्रित्य पृच्छति—‘पञ्जत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी,  
अन्नाणी’ हे भदन्त ! पर्याप्ताः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति किंवा अज्ञानिनो  
भवन्ति, भगवानाह ‘जहा-सकाइया’ यथा सकायिका भजनया पञ्चज्ञानिनः त्र्य-  
ज्ञानिनः प्रतिपादितास्तथा पर्याप्तका अपि भजनया पञ्चज्ञानिनो भवन्ति केवल-  
नामपि पर्याप्तकतया पर्याप्तकानां सम्यग्दृशां भजनया एकद्वयादिज्ञानसंभवात्,  
मिथ्यादृशां पर्याप्तकानांतु भजनया त्रीणि अज्ञानानि भवन्ति. गौतमः पृच्छति—  
‘पञ्जत्ता णं भंते ! नेरइया किं नाणी अन्नाणी हे भदन्त ! पर्याप्तकाः खलु

प्रकारसे नोसूक्ष्म नोवादरजीव भी केवलज्ञानरूप एकज्ञानवाले ही होते  
हैं । दो आदिज्ञानवाले नहीं होते हैं ।

अब गौतमस्वामी छठे पर्याप्तद्वारको आश्रित करके प्रभुसे ऐसा  
पूछते हैं ‘पञ्जत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ ? हे भदन्त !  
जो पर्याप्तजीव हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके  
उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘जहा सकाइया’ हे गौतम ! जिस प्रकार सूक्ष्म  
यिक जीवोंको भजनासे पांच ज्ञानवाला और तीन अज्ञानवाला कहा  
गया है वही प्रकारसे पर्याप्तक जीव भी भजनासे पांचज्ञानवाले और  
तीन अज्ञानवाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये । पर्याप्तक केवली भी  
होने हैं । इसलिये पर्याप्तक सम्यग्दृष्टियोंमें भजनासे एक, दो, तीन,  
आदि ज्ञान होते हैं तथा जो पर्याप्त जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं उनके  
भजनासे तीन अज्ञान होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं  
पञ्जत्ता णं भंते ! नेरइया किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो नारक-

तेज रीते नो सूक्ष्म अने नो वादर अथ पञ्च केवलाज्ञानरूप अेक ज्ञानवाणा होय छे.  
जे आदि ज्ञान तेमनामां होतु नथी

इसे गौतम स्वामी छठे पर्याप्तद्वारने उद्देशीने प्रभुने पूछे छे के ‘पञ्जत्ताणं  
भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ? हे भदन्त ने पर्याप्त अथ होय छे ते  
ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? उत्तर ‘जहा सकाइया’ हे गौतम ने रीते  
सकाइया अथोने भजनाथी पांच ज्ञानवाणा अने त्रय अज्ञानवाणा कहा छे अेक गीते  
पर्याप्त अथ पञ्च भजनाथी पांच ज्ञानवाणा अने त्रय अज्ञानवाणा होय छे पर्याप्तक  
केवली पञ्च होय छे. अेटवा माटे पर्याप्तक सम्यग्दृष्टियोंमां भजनाथी अेक, दो, त्रय  
आदि ज्ञान होय छे. तथा ने पर्याप्तक अथ मिथ्यादृष्टि होय छे तेओने भजनाथी  
त्रय अज्ञान होय छे प्रश्न - ‘पञ्जत्ता णं भंते नेरइया किं नाणी अन्नाणी’

नैरयिका किं ज्ञानिनो भवन्ति, आज्ञानिनो वा ? मगवानाह-तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा नियमा' हे गौतम । पर्याप्तकानां नैरयिकाणाम् त्रीणि ज्ञानानि मत्ति-  
श्रुतावधिलक्षणानि त्रीणि अज्ञानानि च मत्त्यज्ञान-श्रुताज्ञान-चिर्मगज्ञानरूपज्ञानानि  
नियमात् नियमता भवन्ति अपर्याप्तकानामेवासिज्ञानैरयिकाणा विभङ्गज्ञानामासो  
भवन्ति, अतः पर्याप्तकावस्थार्थां तेषामज्ञानत्रय नियमतो भवतीति भावः, जहा  
नैरइया एष जाय यणियकुमारा' यथा नैरयिका नियमतस्त्रिज्ञानिन, त्र्यज्ञानि-  
नश्चाक्ता एष तपैष यावत् पर्याप्तका असुरकुमारा, नागकुमारा, सुदर्णकुमारा,  
विशुत्कुमारा, अग्निकुमाराः, दीपकुमाराः, उदधिकुमारा, दिशाकुमाराः, पाशु  
कुमारा, स्तनितकुमारा अपि नियमतस्त्रिज्ञानिन, त्र्यज्ञानिनश्च वक्तव्याः, 'पुत्र

जीव पर्याप्तक होत हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ?  
उपरमें प्रश्न कहते हैं 'तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा नियमा' हे गौतम!  
जो नारक पर्याप्तक होते हैं वे नियमस मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अव-  
धिज्ञान इन तीन ज्ञानवाले होते हैं और मत्त्यज्ञान, श्रुताज्ञान और  
चिर्मगज्ञान इनतीन अज्ञानवाले होत हैं । अमसी नारकजीवोंके अप-  
याप्तावस्थामें ही विभंगज्ञान नहीं होता है । पर्याप्तक अवस्थामें तो  
नारकजीवोंके विभंगज्ञान नियमस होना ही है । अतः पर्याप्तकावस्थामें  
उनके अज्ञानत्रय नियमस होत हैं ऐसा कथन किया है । 'जहा नर-  
इया एष जाय यणियकुमारा' नैरयिकजीव जैसे नियमसे धिज्ञानी और  
त्र्यज्ञानी कहे गये ह वैसे ही पर्याप्तक असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्ण-  
कुमार, विशुत्कुमार, अग्निकुमार, दीपकुमार, उदधिकुमार, दिशा-

हे जन्त ! न नारक एष पर्याप्तक होय ते तु ज्ञानी होय ते ते अज्ञानी होय  
ते । उक्त- 'तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा नियमा' हे गौतम न नारक  
पर्याप्तक होय ते नियमधी मतिज्ञान श्रुतज्ञान अने अविधिज्ञान अने प्रत्यक्षज्ञानवाला होय ते  
अने मत्त्यज्ञान श्रुतज्ञान अने चिर्मगज्ञान अने अज्ञानवाला होय ते असतीनारक  
अज्ञाने अपर्याप्तकावस्थां विभंगज्ञान होत नही । पर्याप्तक अवस्थां तो नारक अज्ञाने  
विभंगज्ञान नियमधी होय ते अतएव पर्याप्तकावस्थां तेषामे प्रत्यक्ष अज्ञान नियमधी  
होय ते म अज्ञाने आत्मु ते 'जहा नरइया एष जाय यणियकुमारा' नैरयिक  
एष गौतमी रीते नियमधी प्रत्यक्ष ज्ञान अने प्रत्यक्ष अज्ञानवाला नियमधी अज्ञाने ते तेष  
रीते पर्याप्तक असुरकुमार, नागकुमार सुपर्णकुमार विशुत्कुमार अग्निकुमार  
दीपकुमार उदधिकुमार दिशाकुमार वसु (पुत्र) कुमार स्तनितकुमार प्रत्यक्ष नियमधी

विकाइया जहा एगिंदिया, एवं जाव चउरिंदिया' पर्याप्तकाः पृथिवीकायिकाः यथा एकेन्द्रियाः नो ज्ञानिनः, अपि तु द्वयज्ञानिनः प्रतिपादिताः तथा नो ज्ञानिनः, अपितु मत्तज्ञान-श्रुताज्ञानलक्षणद्वयज्ञानिनो भवन्ति, एवं पृथिवीकायिकवदेव यावत्-पर्याप्तकाः अप्कायिकाः, तेजस्कायिकाः, वायुकायिकाः, वनस्पतिकायिकाः, द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः, चतुरिन्द्रिया अपि नियमनः द्वयज्ञानिन एव भवन्ति इति भावः । गौतमः पृच्छति-‘पञ्जत्ता णं भंते ! पंचिंदियातिरिक्खजोणिया किं नाणी अन्नाणी ?’ हे भदन्त ! पर्याप्तकाः खलु पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह ‘तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए’ हे गौतम ! पर्याप्तकाना पञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकानां त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि च भजनया भवन्ति, पर्याप्तकपञ्चेन्द्रियतिर्यग्योनिकाः केचिद्

कुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार, भी नियमसे त्रिज्ञानी ओर ज्ञानो कहना चाहिये । ‘पुढविकाइया जहा एगिंदिया एवं जाव चउरिंदिया’ जिस प्रकार एकेन्द्रिय ज्ञानी नहीं, किन्तु दोअज्ञानवाले कहे गये हैं उसी प्रकारसे पर्याप्तक पृथिवीकायिक ज्ञानी नहीं होते हैं, किन्तु मत्तज्ञान भ्रताज्ञानरूप दो अज्ञानवाले होते हैं । पृथिवीकायिककी तरह ही यावत् पर्याप्तक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय भी नियमसे दोअज्ञानवाले ही होते हैं अब गौतमस्वामी प्रश्नसे पूछते हैं ‘पञ्जत्ताणं भंते ! पंचिंदियातिरिक्खजोणिया किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं ‘तिन्निनाणा, तिन्नि अन्नाणा भयणाए’ हे गौतम ! कोईर पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक मतिज्ञानवाले, श्रुतज्ञानवाले और अवधिज्ञान

त्रयु ज्ञान अने त्रयु अज्ञानवाणा होय छे. ‘पुढविकाइया जहा एगिंदिया एवं जाव चउरिंदिया’ नेनी रीते एकेन्द्रिय श्रवणे मे अज्ञानवाणा कहेला छे तेज रीते पर्याप्तक पृथ्वीकायिक; मत्तज्ञान, अने श्रुताज्ञानरूप मे अज्ञानवाणा होय छे पृथ्वीकायिकेनी भाइकेय यावत्-पर्याप्तक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक; वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रियो पञ्च नियमथी मे अज्ञानवाणा होय छे प्रश्न-पञ्जत्ताणं भंते पंचिंदियातिरिक्खजोणिया किं नाणी अन्नाणी ? हे लगवन । पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनी श्रवण शु ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? ७-‘तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए’ हे गौतम । ३७३३४ पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनी श्रवण, मतिज्ञान श्रुतज्ञानवाणा अने अवधिज्ञानवाणा होय छे, अने ३७३३४ पर्याप्त

अवधिज्ञानिन , केचिद् विमङ्गलज्ञानिनश्च भवन्ति, केचिश्च भवन्ति अतः प्रीणि  
 ज्ञानानि, अज्ञानानि वा, द्वे वा ज्ञाने, अज्ञाने वा तर्था मन्वतः, इति भावः ।  
 'मणुस्सा जहा सकाइया' मनुष्या पर्याप्तकाः यथा सकायिका भजनया पञ्च  
 ज्ञानिनः, श्र्यज्ञानिनश्चोक्तास्तथा भजनया पञ्चज्ञानिनः, श्र्यज्ञानिनश्च चक्रव्या,  
 'वाणमतरा, जोइमिया, वमाणिया जहा नेरइया' पर्याप्तकाः बानव्यन्तराः, इपो  
 निपियाः, वैमानिकाश्चदेवा यथा नैरयिकाः नियमतः श्रिज्ञानिनश्चात्काः तथैष नियमात्  
 श्रि ज्ञानिनः, श्र्यज्ञानिनश्च शोभ्याः। अथ अपर्याप्तकविषये गौतम पृच्छति—'अप  
 ज्ञाणा ण भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भद्रन्त ! अपर्याप्तकाः स्वदु

खाले होते हैं और कोईर पर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिकजीव मति-  
 ज्ञान भुक्तज्ञान इन दो ज्ञानखाले होते हैं । इसी लिये भजनासे तीन  
 ज्ञानखाले उन्हें कहा गया है । इसी तरह जो पंचेन्द्रिय पर्याप्तक  
 तिर्यग्योनिकजीव अज्ञानी होते हैं व किमनेक तो तीन अज्ञानखाले होते हैं  
 और कितनेक दो अज्ञानखाले होते हैं । इसलिये भजनासे इन्हें तीन  
 अज्ञानखाले कहा गया है । 'मणुस्सा जहा सकाइया' जिस प्रकार सका  
 इया' जिस प्रकार सकायिकजोर्षोको भजनासे पांचज्ञानखाला कहा गया  
 है उसी तरहसे पर्याप्तक मनुष्य भजनासे पांचज्ञानखाले और तीन  
 अज्ञानखाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये । 'वाणमतरा जोइसिया  
 वमाणिया जहा नेरइया' जिस प्रकारसे नैरयिकजीव नियमतः श्रिज्ञानी  
 और श्र्यज्ञानी होते हैं उसी प्रकारसे पर्याप्तक बानव्यन्तर ज्योतिषिक,  
 और वैमानिकदेव भी नियमतः श्रिज्ञानी और श्र्यज्ञानी होते हैं ।

अथ अपर्याप्तके विषयमें गौतम प्रश्नसे एसा पृच्छते हैं 'अपज्जत्ता न  
 भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भद्रन्त ! अपर्याप्तक जीव क्या ज्ञानी

पञ्चोन्मत्त तिर्यञ्च येनिक एव मतिज्ञान, सुवज्ञान को वि ज्ञानवात्ता होय ॥ ओटला  
 भाटे न् अज्ञानाधी त्रय ज्ञानवात्ता तेज्जाने इहेला ॥ जेव रीते ने पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक  
 तिर्यञ्च येनिक एव अज्ञानी होय ॥ तेज्जे इहेलाक प्रथम अज्ञानवात्ता अने इहेलाक  
 ने अज्ञानवात्ता होय ॥ ओटला भाटे अज्ञानाधी तेज्जाने त्रय अज्ञानवात्ता इहेला ॥  
 'मणुस्सा जहा सकाइया' जेवी रीते सकायिक एवने अज्ञानाधी पंच ज्ञान अने  
 त्रय अज्ञानवात्ता इहा ॥ तेवी रीते पर्याप्तक मनुष्य अज्ञानाधी पांच ज्ञानवात्ता अने  
 त्रय अज्ञानवात्ता होय ॥ जेव समञ्जुं

द्वे अपर्याप्तकेना विषयमा जीवम स्थाभी प्रश्नने पूछे ॥ ३  
 'अपज्जत्ताय भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' अपर्याप्तक एव ॥

जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह 'तिन्नि नाणा, तिन्नि-  
अन्नाणा भयणाए' हे गौतम ! अपर्याप्तकानां समुच्चयजीवानां भजनया त्रीणि  
ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि च भवन्ति । गौतमः पृच्छति—'अपज्जत्ता ण भंते !  
नेरइया किं नाणी, अन्नाणी ? हे भदन्त ! अपर्याप्तकाः खलु नैरयिकाः किं  
ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह—'तिन्नि नाणा नियमा, तिन्नि  
अन्नाणा भयणाए, एवं जाव थणियकुमारा' हे गौतम ! अपर्याप्तकनैरयिकाणां  
सम्यग्दृशां त्रीणि ज्ञानानि नियमात् नियमतो भवन्ति, मिथ्यादृष्टिनां तु त्रीणि  
अज्ञानानि भजनया भवन्ति, सम्यग्दृशो नियमतस्त्रिज्ञानिनो भवन्ति, मिथ्यादृशस्तु  
भजनया केचित् कदाचित् त्र्यज्ञानिनः, केचित् कदाचित्तु द्व्यज्ञानिनो  
भवन्ति, 'पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया जहा एग्गिदिया' अपर्याप्तकाः पृथिवी-

होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं 'तिन्नि नाणा  
तिन्नि अन्नाणा भयणाए' हे गौतम ! जो जीव अपर्याप्तक होते हैं उनके  
भजनासे तीन ज्ञान और तीन अज्ञान होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे  
ऐसा पूछते हैं 'अपज्जत्ताणं भंते ! नेरइया किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त !  
जो नारकजीव अपर्याप्तक होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'तिन्नि नाणा नियमा, तिन्निअन्नाणा  
भयणाए एवं जाव थणियकुमारा' हे गौतम ! जो अपर्याप्तक नारकजीव  
सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके तीन ज्ञान तो नियमसे होते हैं । और जो  
नारकजीव मिथ्यादृष्टि होते हैं उनके तीन अज्ञान भजनासे होते हैं  
कीन्हीके कभी तीन अज्ञान और किन्हींके कभी दोअज्ञान होते हैं ।  
इसी तरहसे यावत् स्तनितकुमारोंके भी जानना चाहिये । 'पुढविका-  
इया जाव वणस्सइकाइया जहा एग्गिदिया' अपर्याप्तपृथिवीकायिक यावत्

ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ७— ' तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा भयणाए'  
हे गौतम ! ने एव अपर्याप्तक होय छे तेओने भजनाथी त्रयु ज्ञान अने त्रयु अज्ञान  
होय छे अत्रः— 'अपज्जत्ताणं भंते नेरइया किं नाणी अन्नाणी' हे भगवान  
के नारक एव अपर्याप्तक होय छे ते शुं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे !  
' तिन्नि नाणा नियमा तिन्नि अन्नाणा भयणाए एवं जाव थणियकुमारा'  
हे गौतम ! ने अपर्याप्तक नारक एव सम्यग्दृष्टिवाणा होय छे तेओने नियमथी त्रयु  
ज्ञान होय छे अने ने नारकएव मिथ्या दृष्टिवाणा छे तेओने त्रयु अज्ञान भजनाथी  
होय छे ओटवे केटवाकने कोष वपत्त त्रयु अज्ञान अने केटवाकने के अज्ञान होय छे  
ओर रीते यावत्-स्तनितकुमार पर्यंत समग्र वेदु पुढविकाइया जाव वणस्सइकाइया



कायिकाः यावत्-अप्यायिकाः, तेजस्कायिकाः, वायुकायिका, यथा एकेन्द्रियाः नोद्धानिन, अपितु अज्ञानिन प्रतिपादितास्तथा इमेऽपि नोद्धानिनः, अपितु अज्ञानिनो नियमतः प्रतिपत्तव्याः । गौतम पृच्छति-‘बदिया णं पुच्छा’ हे मदन्त ! अपर्याप्तका द्वीन्द्रियाः स्वच्छ किं ज्ञानिनः किं वा अज्ञानिनो भवति ? इति पृच्छा प्रश्न ! भगवानाह-नो नाणा, नो अन्नाणा नियमा’ हे गौतम ! अपर्याप्तकद्वीन्द्रियाणां कपाञ्चित्पुन सासादनगुणस्थाने सम्यग्दर्शनस्य सद्भावेन नियमात् वे ज्ञाने भवतः, केषाञ्चित्पुनः सासादनगुणस्थान सम्यग्दर्शनस्या सद्भावेन नियमतो य अज्ञाने भवतः ‘एष जाय पंचिदियतिरिफस्खनोणियाण’ एवम् अपर्याप्तद्वीन्द्रियभवेव यावत् अपर्याप्तक-द्वीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्द्रिय

अपर्याप्त तजस्कायिक, अपर्याप्त वायुकायिक, और अपर्याप्त वनस्पति कायिक ये सब एकेन्द्रिय जीवकी तरह ज्ञानी नहीं होते हैं अपितु अज्ञानी ही होते हैं । इनमें नियमतः मत्पज्ञान और भ्रुताज्ञानवाले होते हैं । अब गौतम-धामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं ‘बेइदियाण पुच्छा’ हे मदन्त ! जो जीव अपर्याप्तक द्वेन्द्रिय हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उधरमें प्रश्न कहते हैं ‘दोनाणा दोअन्नाणा नियमा’ हे गौतम ! जो अपर्याप्त दोइन्द्रिय होते हैं उनमेंसे कितनेक अपर्याप्तक दोइन्द्रियजीवोंके सासादन गुणस्थानरूप सम्यग्दर्शनके सद्भावेसे नियमतः मतिज्ञान और भ्रतज्ञान ये दोज्ञान होते हैं और कितनेकके इस सासादनगुणस्थानरूप सम्यग्दर्शनके असद्भावेसे नियमतः मत्पज्ञान और भ्रुताज्ञान ये दोअज्ञान होते हैं । ‘एष जाय पंचिदियतिरिफस्ख नोणियाण’ इसी तरहसे अपर्याप्तक द्वेन्द्रियजीवकीतरह ही यावत्

जहा एगिदिया’ अपर्याप्तक पृथ्वीकायिक-यावत्-अपर्याप्तक तेजस्कायिक अपर्याप्तक वायुकायिक अने अपर्याप्तक-वनस्पतिकायिक ज्ये अथा ज्येकेन्द्रिय ज्येनानी भाइके स्थानि ज्येता नथा परतु अज्ञानी होय छे तज्ये नियमत मत्पज्ञान अने भ्रुताज्ञानवाणा होय छे हेवे गौतम स्वामी जे छेन्द्रिय ज्येनोना विषयभां पूछे छे ३ ‘बेइदियाणं पुच्छा’ हे मत-न ! जे छे अपर्याप्तक जे छेन्द्रियवाणा होय छे ते जे ज्ञानी होय छे ३ अज्ञानी ३ ‘दो नाणा दोअन्नाणा नियमा’ हे गौतम जे अपर्याप्तक जे छेन्द्रिय छे होय छे तज्येभां हेरलाकने सासादन गुणस्थानरूप सम्यग्दर्शनना सद्भावेसी नियमत मतिज्ञान अने भ्रुतज्ञान होय छे अने हेरलाकने आ सासादन गुणस्थानरूप सम्यग्दर्शनना असद्भावेसी नियमत मत्पज्ञान, अने भ्रुताज्ञान ज्ये जे अज्ञान होय छे ‘एष जाय पंचिदिय ति रिफस्खनोणियाण’ ज्ये रीते अपर्याप्तक जे छेन्द्रिय ज्येनानी भाइके

तिर्यग्योनिकानां जीवानामपि नियमतो द्वे ज्ञाने, द्वे अज्ञाने भवतः । गौतमः पृच्छति—‘अपज्जत्तगा णं भंते ! मणुस्सा किं नाणी, अन्नाणी ? हे भदन्त ! अपर्याप्तकाः खलु मनुष्याः किं ज्ञानिन, किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? भगवानाह—‘तिन्नि नाणाइ भयणाए, दो अन्नाणाइ नियमा’ हे गौतम ! अपर्याप्तक-मनुष्याणां त्रीणि ज्ञानानि भजनया भवन्ति, द्वे अज्ञाने नियमात् भवतः, तथा च सम्यग्दृशाम् अपर्याप्तकमनुष्याणां तीर्थङ्करवत् अवधिज्ञानसद्भावे त्रीणि ज्ञानानि भवन्ति, तद्भावे द्वे ज्ञाने, भवतः, मिथ्यादृशान्तु द्वे एवाज्ञाने नियमतो भवतस्तेषामपर्याप्तकत्वे विभङ्गज्ञानस्यासंभवात् । ‘वाणमंतरा जहा नेरइया’ अप-

अपर्याप्तक तेइन्द्रिय, अपर्याप्तक चौइन्द्रिय और अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीवोंके भी नियमसे दोज्ञान और दोअज्ञान होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछ रहे हैं कि ‘अपज्जत्तगाणं भंते ! मणुस्सा किंनाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो मनुष्य अपर्याप्तक होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘तिन्नि नाणाइं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा’ हे गौतम ! अपर्याप्तक मनुष्योंमें तीनज्ञान तो भजनासे होते हैं पर दो अज्ञान नियमसे होते हैं । तथाच—जो अपर्याप्तक मनुष्य सम्यग्दृष्टि होते हैं वे तीर्थङ्करकी तरह अवधिज्ञानके सद्भावमें तीन ज्ञानवाले होते हैं, और अवधिज्ञानके असद्भावमें दोज्ञानवाले होते हैं । और जो अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि मनुष्य होते हैं उनके उस अवस्थामें विभंगज्ञान नहीं होनेके कारण नियमसे दोअज्ञान ही होते हैं ।

यावत् अपर्याप्तक ते इन्द्रिय, अपर्याप्तक चउरीन्द्रिय अने अपर्याप्तक पंचेन्द्रिय तिर्यग्योनिक जीवोंने पणु नियमथी जे ज्ञान अने जे अज्ञान होय छे कारण्छे तेओभा पणु हेतलाकने गुणुकरथानइप सम्यग्दर्शननेा सहभाव अने असहभाव होय छे ‘अपज्जत्तगाणं भंते मणुस्सा किं नाणी अन्नाणी’ छे भगवन् ! जे मनुष्य अपर्याप्तक होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? छे ‘ तिन्नि नाणाइं भयणाए दो अन्नाणाइं नियमा’ छे गौतम ! अपर्याप्तक मनुष्योभां त्रणु ज्ञान तो लज्जनाथी होय छे अने जे ज्ञान नियमथी होय छे तेवीज्ज रीते जे अपर्याप्तक मनुष्यसम्यग्दृष्टि होय छे ते तिर्य करनी माक्क अवपिस नना सहभावभा त्रणुज्ञानवाणा अने अवधिज्ञानना असहभावभा जे ज्ञानवाणा होय छे अने अपर्याप्तक मनुष्य मिथ्यादृष्टि होय छे तेओने ते अवस्थामा विभंगज्ञान न होवाना कारण्छे नियमथी जे अज्ञान होय छे ‘वाणमंतरा जहा नेरइया’

पर्याप्तका धानव्यन्तराः यथा नैरयिक नियमसिद्धान्तिन, मननया श्रयज्ञानिनश्चोक्ता  
 स्तथैव नियमसिद्धान्तिनो मननया श्रयज्ञानिनश्च विज्ञेया, तेषामपि अपर्याप्तकासिद्धि-  
 धानव्यन्तराणां विभङ्गज्ञानाभावात् हे अज्ञाने, शेषाशास्त्रादधिज्ञानस्य विभङ्गज्ञान  
 म्यावश्यभावात् त्रीणि ज्ञानानि, अज्ञानानि वा भवन्ति इति भावः, 'अपञ्चतगा  
 जोइसियवेमाणियाण तिन्नि नाणा, तिन्नि अन्नाणा नियमा' अपर्याप्तकज्यो  
 त्तिपिकवैमानिकानां त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि नियमात् नियमता भव  
 न्ति। गौतमः पृच्छति—'नोपञ्चतगातोअपञ्चतगा ण भते ! जीवा किं नाणी,  
 अन्नाणी ?' इ मदन्त ! नोपर्याप्तका नोअपर्याप्तकाः खलु सिद्धमीनाः,  
 किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह 'महा सिद्धा ५'

'घाणमंतराजहानेरइया' जैसे नैरयिक नियमसे त्रिज्ञानी और भजनासे  
 श्रयज्ञानी कहे गये हैं वसी तरहसे अपर्याप्त धानव्यन्तर देवनियमसे  
 त्रिज्ञानी और भजनासे श्रयज्ञानी होते हैं। क्योंकि इनमें भी अपर्याप्तक  
 अस्मंशिक्षानव्यन्तरोंमें भी विभंगज्ञानका अभाव रहता है। इनके सिवाय  
 शेषदेषोंके धानव्यन्तरोंके अधिज्ञानका और विभङ्गज्ञानका मद्भाव  
 रहता है अतः उनमें तीनज्ञान और तीनअज्ञान होते हैं। (अपञ्चतगा  
 जोइसिय वमाणियाण तिन्निनाणा, तिन्निअन्नाणा नियमा अपर्याप्तक  
 ज्योतिपिक और वैमानिक देवों क तीन ज्ञान और तीन अज्ञान  
 नियमसे होते हैं। ज्योतिपिक और वैमानिकदेव अपर्याप्तवस्थामें  
 सम्पगृह्णति हैं उनके तीनज्ञान और जो मिथ्यादृष्टि हैं उनके तीन अज्ञान  
 होत हैं। अथ गौतमस्वामी प्रस्तु तेषा पृच्छत हैं 'नो पञ्चतगा नो  
 अपञ्चतगाण भते ! जीवा किनाणी, अन्नाणी' हे मदन्त ! जो जीव न  
 पर्याप्तक हैं और न अपर्याप्तक हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते

येही रीते नैरयिक नियमधी त्रय ज्ञानवाणा अने अज्ञानधी त्रय अज्ञानवाणा इहेला अ.  
 अत्र रीते अपर्याप्तक ज्ञान वतर देव नियमधी त्रय ज्ञान अने अज्ञानधी त्रय  
 अज्ञानवाणा होय अ तेषोभा त्रय अपर्याप्तक अज्ञानी धानव्यन्तराभा त्रय विभङ्ग  
 ज्ञाननो अभाव होय अ ते सिवायना आक्षिणा देवने धानव्यन्तरा अधिज्ञानने  
 अने विभङ्गज्ञानने अभाव रहे अ अहेला भये तेषो त्रय ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणा  
 होय अ 'अपञ्चतगा जोइसियवेमाणियाण तिन्नि नाणा तिन्नि अन्नाणा  
 नियमा' अपर्याप्तक ज्योतिपिक अने वैमानिक देवने त्रय ज्ञान अने त्रय अज्ञान  
 नियमधी होय अ ? ज्योतिपिक अने वैमानिक देव अपर्याप्तवस्थाभा त्रय  
 अज्ञानवाणा होय अ तेषोने त्रय ज्ञान अने नो मिथ्या इधियाणा अ तेने त्रय अज्ञान  
 होय अ अथ 'मापञ्चतगा नोअपञ्चतगाण भते जीवा किं नाणी अन्नाणी'  
 हे भान्त ! अ एव नो पर्याप्तक अने नो अपर्याप्तक होय अ ते ज्ञानी होय अ हे

हे गौतम ! यथा सिद्धाः केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिनः प्रतिपादितास्तथा नोपर्याप्तकनोअपर्याप्तकाः सिद्धा जीवाः केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिन एव भवन्ति, न द्वयादिज्ञानिनः, नो वा द्वयाद्यज्ञानिनो भवन्ति । अथ सप्तमं भवस्थद्वारमाह—  
‘निरयभवत्थाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! निरयभवस्थाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह—  
‘जहा निरयगइया’ हे गौतम ! यथा निरयगतिकास्त्रिज्ञानिनः, द्वयज्ञानिनस्य ज्ञानिनश्चोक्तास्तथा निरयभवस्था अपि प्राप्तनिरयभवोत्पत्तिकाः जीवाः नियमत-

हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘जहासिद्धा’ हे गौतम ! जैसे सिद्ध जीव केवलज्ञानरूप एकज्ञानसे ज्ञानी होते हैं उसी प्रकारसे जो जीव नो पर्याप्त और नो अपर्याप्तक होते हैं वे भी सिद्धजीवोंके जैसे ही एक केवलज्ञानरूप ज्ञानसे ज्ञानी होते हैं दो आदिज्ञानोंसे ज्ञानी नहीं होते हैं और न दो आदि अज्ञानोंसे अज्ञानी होते हैं । क्योंकि नोपर्याप्तक और नोअपर्याप्तक सिद्ध ही होते हैं । अब सूत्रकार सातवे भवस्थद्वारको लेकर ज्ञानी और अज्ञानीकी प्ररूपणा करते हैं इसमें गौतम प्रभुसे ऐसा पूछ रहे हैं ‘निरय भवत्था ण भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो जीव निरयभवस्थ हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘जहानिरयगइया’ हे गौतम ! जिस तरहसे निरयगतिकजीव त्रिज्ञानी और दो या तीन अज्ञानी कहे गये हैं, उसी तरह निरयभवस्थ प्राप्तनिरयभवोत्पत्तिक

अज्ञानी होय छे ? उत्तर ‘जहा सिद्धा’ हे गौतम ! जेवी रीते सिद्ध छवे उवण ज्ञानरूप अेक ज्ञानवाणा होय छे तेवीज रीते जे छव नोपर्याप्तक अने नोअपर्याप्तक होय छे ते तथु सिद्ध छवेानी जेम अेक उवणज्ञान रूप ज्ञानथी ज्ञानी होय छे जे आदि ज्ञानोथी ज्ञानी होता नथी तेमज्जे जे आदि अज्ञानोथी अज्ञानी होता नथी जेमके नोपर्याप्तक अने नोअपर्याप्तक सिद्ध ज् होय छे उवे सूत्रकार सातमा भवस्थानने उदेशीने ज्ञानी अने अज्ञानीना विषयमा प्ररूपणा करे छे प्रश्नः— ‘निरयभवत्थाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवान ! जे छव निरयभवस्थ छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ?

उत्तर.— ‘जहा निरयगइया’ हे गौतम जे रीते निरयगतिक छव तथु ज्ञानवाणा अने जे के तथु अज्ञानवाणा कइया छे अेज रीते निरयभवस्थ छव नियमथी तथु ज्ञान अने अज्ञानथी जे अज्ञान अने तथु अज्ञानवाणा होय छे प्रश्नः— ‘तिरिय

स्त्रिज्ञानिनः, भजनया द्वयज्ञानिनस्तुयज्ञानिनश्च वक्तव्या, गौतमः पृच्छति—‘तिरिय  
 भवत्या ण भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ हे मन्दन्त ! तिर्यग्भवत्याः प्राप्त  
 तिर्यग्भवतोत्पत्तिकाः सुख जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति अज्ञानिनो वा भवन्ति  
 भगवानाह—‘तिन्नि नाणा, तिन्नि अनाणा मयणाए’ हे गौतम ! तिर्यग्भवत्यान  
 जीवानां त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि च भजनया भवन्ति । गौतमः पृच्छति—  
 ‘मणुस्सभवत्या ण भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ हे मन्दन्त ! मनुष्यभवत्याः  
 सुख जीवा किं ज्ञानिनो भवन्ति अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह—‘जहा  
 सफाइया’ हे गौतम ! यथा सक्कायिकाः भजनया पञ्चज्ञानिनः, अज्ञानिनोक्तास्तथैव

जीव नियमसे त्रिज्ञानी और भजनासे दोअज्ञानी एवं तीनज्ञाना होते  
 हैं ऐसा जानना चाहिये । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं  
 ‘तिरियभवत्या ण भत ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भवन्त !  
 जा जीव तिर्यग्भवस्थ होते हैं अर्थात् जिन जीवोंने तिर्यग्भवमें उत्पत्ति  
 प्राप्त करली है वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके  
 उत्तरमें प्रश्न कहते हैं ‘तिन्नि नाणा तिन्नि अनाणा भयणाए’ हे  
 गौतम ! जो तिर्यग्भवस्थ जीव सम्पद्दष्टि होते हैं उनको भजनासे  
 तीन ज्ञान और जो मिथ्यादष्टि होते हैं उनको भजनासे तीन अज्ञान  
 होते हैं । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं ‘मणुस्स भवत्याण  
 भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भवन्त ! जो जीव मनुष्य  
 भवमें वर्तमान होते हैं अर्थात् मनुष्यभवमें आकर उत्पन्न होते हैं,  
 वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न  
 कहते हैं ‘जहा सफाइया’ हे गौतम ! जैसे सक्कायिक जीव भजनासे  
 पञ्चज्ञानी और तीनअज्ञानी होते हैं वसी तरहसे मनुष्यभवस्थ जीव

भवत्याणं भते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवान ! ने एव निर्दिष्ट भवस्थ  
 दोष ७ अर्थात् जेवने तिर्यग् भवमां उत्पत्ति करेवी ७ तेवा एवे जानी दोष ७ के  
 अज्ञानी दोष ७ ? उत्तर - ‘ तिन्नि नाणा तिन्नि अनाणा मयणाए ’ हे गौतम !  
 ने तिर्यग् भवस्थ एव सम्पद् दृष्टिवाजा दोष ७ तेज्जाने अन्नाणी मयु जान जने  
 ने मिथ्या दृष्टि दोष ७ तेज्जाने अनाणी मयु अज्ञान दोष ७ । हे गौतम स्वामी  
 प्रश्नसे जेवु पूछ ७ के ‘ मणुस्सभवत्याणं भते जीवा किं नाणी अन्नाणी ’  
 हे भगवान ! ने एव मनुष्य भवमां रहता दोष ७ ते एव जानी दोष ७ के अज्ञानी  
 उत्तर :- ‘ जहा सफाइया ’ हे गौतम ! जेवी होते सक्कायिक एव अनाणी पाव

મનુષ્યભવસ્થા અપિ ભજનયા પૃચ્છજ્ઞાનિનઃ, ટ્ર્યજ્ઞાનિનશ્ચ વોધ્યાઃ, । ગૌતમઃ પૃચ્છતિ- 'દેવભવત્યા ણં મંતે ! જીવા કિં નાણી, અન્નાણી ?' હે મદન્ત ! દેવભવસ્થાઃ સ્વલુ જીવાઃ કિં જ્ઞાનિનો ભવન્તિ, અજ્ઞાનિનો વા ? ભગવાનાહ- 'જહા નિરયભવત્યા' હે ગૌતમ ! યથા નિરયભવસ્થાઃ નિયમત્ત્વિજ્ઞાનિનઃ, ભજનયા દ્વયજ્ઞાનિનસ્ત્ર્યજ્ઞાનિનશ્ચોક્તાસ્તથા દેવભવસ્થા અપિ નિયમત્ત્વિજ્ઞાનિનો ભજનયા દ્વયજ્ઞાનિનસ્ત્ર્યજ્ઞાનિનશ્ચ વ્રક્તવ્યાઃ । 'અમવત્યા જહા સિદ્ધા ૬' અમવસ્થાઃ જીવાઃ કેવલિનો યથા સિદ્ધાઃ કેવલજ્ઞાનલક્ષણૈક-જ્ઞાનિનસ્તથા કેવલજ્ઞાનિન એવ વોધ્યાઃ । અથાષ્ટમં ભવસિદ્ધિક્કદ્વારમાહ- 'ભવસિદ્ધિયા ણં મંતે ! જીવા કિં નાણી, અન્નાણી ?' હે મદન્ત ! ભવસિદ્ધિકાઃ સ્વલુ જીવાઃ કિં જ્ઞાનિનઃ, અજ્ઞાનિનો વા ? ભગવાનાહ- 'જહા સકાઇયા'

મી ભજનાસે પાંચ જ્ઞાનવાલે' ઓર ત્રીન અજ્ઞાનવાલે હોતે હૈં । અવ ગૌતમસ્વામી પ્રશ્નસે પૂછતે હૈં 'દેવભવત્યાણં મંતે ! જીવા કિંનાણી, અન્નાણી' હે મદન્ત ! જો દેવભવસ્થ જીવ હૈં વે કયા જ્ઞાની હોતે હૈં યા અજ્ઞાની હોતે હૈં ? ઉત્તરમૈં પ્રશ્ન કહતે હૈં 'જહા નિરયભવત્યા' હે ગૌતમ ! જૈસે નિરયભવસ્થ જીવ નિયમસે ત્રીન અજ્ઞાનવાલે હોતે હૈં ઊસી તરહસે દેવભવસ્થ જીવ મી નિયમસે ત્રીન અજ્ઞાનવાલે ઓર ભજનાસે દો અજ્ઞાનવાલે ઓર ત્રીન અજ્ઞાનવાલે હોતે હૈં । 'અમવ-ત્યા જહા સિદ્ધા' જો જાવ અમવસ્થ કેવલી હોતે હૈં વે મિદ્ધોંકી તરહ કેવલ એક જ્ઞાનવાલે હી હોતે હૈં અતઃજ્ઞાની હી હોતે હૈં અજ્ઞાની નહીં । અવ સૂત્રકાર આઠવાં ભવસિદ્ધિક્કદ્વારકો કહતે હૈં 'ભવસિદ્ધિ-યાણં મંતે ! જીવા કિં નાણી, અન્નાણી' હે મદન્ત ! જો ભવસિદ્ધિક જીવ હોતે હૈં વે કયા જ્ઞાની હોતે હૈં યા અજ્ઞાની હોતે હૈં ? ઉત્તરમૈં

જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા હોય છે તેવી જ રીતે મનુષ્ય ભવમાં રહેલા જીવો પણ પાંચ જ્ઞાન અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા હોય છે હવે ગૌતમ સ્વામી દેવ ભવસ્થના વિષયમાં પૂછે છે કે 'દેવભવત્યાણં મંતે જીવા કિં નાણી અન્નાણી' હે મદન્ત ! જે જીવ દેવ ભવસ્થ હોય છે તે શું જ્ઞાની હોય છે કે અજ્ઞાની હોય છે ? ઉત્તર :- 'જહા નિરય ભવત્યા' હે ગૌતમ ! જેવી રીતે નિરય ભવસ્થ જીવ નિયમથી ત્રણ જ્ઞાનવાળા અને ભજનાથી બે અજ્ઞાનવાળા અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા હોય છે એજ રીતે દેવ ભવસ્થ જીવ પણ નિયમથી ત્રણ જ્ઞાનવાળા અને ભજનાથી બે અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા હોય છે 'અમવત્યા જહા સિદ્ધા' જે જીવ અભવસ્થ કેવળી હોય છે તેને સિદ્ધોની માફક ક્રકત એક કેવળજ્ઞાનવાળા હોય છે એટલે કે તેઓ જ્ઞાની જ હોય છે હવે સૂત્રકાર આઠમા ભવસિદ્ધિક્કદ્વારને ઉદ્દેશીને કહે છે કે 'ભવસિદ્ધિયાણં મંતે જીવા કિં નાણી અન્નાણો' હે મદન્ત ! જે ભવસિદ્ધિક જીવ હોય છે તે શું જ્ઞાની

हे गौतम ! भवसिद्धिः केवचिनोऽपि भवन्ति अतो भवसिद्धिः सकाधिक इव भजनया पञ्चज्ञानिनः, एव यावत्साम्यक्त्वं न प्राप्तास्तावद् भजनयैव श्यज्ञानिनो द्वयज्ञानिनश्च वक्तव्याः । गौतमः पृच्छति—‘भवसिद्धिया न पुच्छ’ हे भद्रन्त ! अमवसिद्धिः स्वच्छ जीवा किं ज्ञानिन, अज्ञानिनो वा भवन्ति इति पृच्छा प्रश्नाः, भगवानाह—‘गोयमा ! नो नाणी, अनाणी तिन्नि अन्नाणाई भयणाए’ हे गौतम ! भवसिद्धिः नो ज्ञानिनो भवन्ति, तेषां सदा मिथ्यादृष्टिस्तावत्, अत एव अज्ञानिनो भवन्ति, तथाच अमवसिद्धिकानां प्रीति अज्ञानानि भजनया भवन्ति, गौतमः पृच्छति—‘नोभवसिद्धियनोप्रभवसिद्धिया न भंत ! मीवा किं नाणी, अन्नाणी ?’ हे भद्रन्त ! नोभवसिद्धिका-

प्रभु कहते हैं ‘जहा सकाहया’ भवसिद्धिक जीव केवली भी होते हैं इमलिये न सिद्धिक सकाधिक जीवोंकी तरह भजनासे पांचज्ञानवाले होते हैं । तथा जभमक ये सम्पत्त्वको प्राप्त नहई करते हैं तबतक भजनासे ही ये श्यज्ञानवाले और गो अज्ञानवाले होते हैं ।

अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ‘अभवसिद्धियाण पुच्छा’ हे भद्रन्त ! अमवसिद्धिक जोव क्या ज्ञानो होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उधरमें प्रभु कहते हैं हे गौतम ! अमवसिद्धिक जीव ‘नो नाणी, अन्नाणी’ ज्ञानी नहीं होते हैं किन्तु अज्ञानी होते हैं । अज्ञानी होनेपर भी इनमें ‘तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए’ तीन अज्ञान भजनासे ही होते हैं । अमवसिद्धिक जीव सदा मिथ्यादृष्टि होते हैं इमलिये ये ज्ञानी न होकर अज्ञानी ही होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि नो भवसिद्धिया नो अमवसिद्धियाण भते ! जीवा किं नाणी

हेय उ हे ज्ञानी ! उत्तर :- ‘जहा सकाहया’ भवसिद्धिक एव केवली पयु हेय उ ज्येठे भवसिद्धिक एव सकाधिक ज्येठनी भाइक भवनाधी पयु खनवत्त्व हेय उ तेमन ज्येठुधी तेजो अयुक्त्वंने प्राप्त करता नधी तयुधी अयुक्त्वंनी नयु अज्ञानवाले जने ने अज्ञानवाला हेय उ प्रश्न - ‘अभवसिद्धियाण पुच्छा’ हे अयुक्त्वं । अमवसिद्धिक एव ज्ञानी हेय उ हे ज्ञानी हेय उ ! उत्तरभा प्रभु ज्येठे हे गौतम ! अमवसिद्धिक एव ‘नो नाणी अन्नाणी’ ज्ञानी नहीं पयु अज्ञानीय हेय उ जने अज्ञानजोगां पयु तेजोने ‘तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए’ तब अज्ञान अयुक्त्वंनी हेय उ अमवसिद्धिक एव उभेय मिथ्या दृष्टिक हेय उ ज्येठनी भाइ तेजो अज्ञानीय हेय उ प्रश्न :- ‘नो भवसिद्धिया नो अमवसिद्धियाण भते जीवा किं नाणी

नोअभवसिद्धिकाः खलु सिद्धा जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह— 'जहा सिद्धा ७' हे गौतम ! यथा सिद्धाः केवलज्ञानवन्तस्तथा नोभवसिद्धिकनोअभवसिद्धिका अपि सिद्धाः केवलज्ञानवन्तो भवन्ति, नो द्वयादिज्ञानवन्तो, नो वा अज्ञानवन्तो भवन्ति ।

अथ नवमं संज्ञिहारमाह 'सन्नीणं पुच्छा' संज्ञिनः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? इति पृच्छा प्रश्नः, भगवानाह— 'जहा सइंदिया' हे गौतम ! यथा सेन्द्रियाः भजनया चतुर्ज्ञानिनः, त्र्यज्ञानिनश्चोक्तान्तथा संज्ञिनोऽपि भजनया चतुर्ज्ञानिनः त्र्यज्ञानिनश्च वक्तव्याः, 'असन्नी जहा वेइंदिया' असंज्ञिनो जीवा यथा द्वीन्द्रिया द्विज्ञानिनः;

अन्नाणो' हे भदन्त ! जो जावन भवसिद्धिक हें और न अभव सिद्धिक हें, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? नोभव-सिद्धिक और नोअभवसिद्धिकजीव सिद्धजीव होते हैं, अतः ये 'जहा सिद्धा' इस सूत्र द्वारा इस रूपसे प्रकट किये गये हैं । कि ये सिद्धोंकी तरह ज्ञानी ही केवलज्ञानवाले ही होते हैं अज्ञानी नहीं होते हैं । और न ये दो आदि ज्ञानवाले ही होते हैं । अब सूत्रकार नौववां मञ्जिहारका कथन करते हैं इसमें गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'सन्नी णं पुच्छा' हे भदन्त ! जो संज्ञीजीव हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं ? या अज्ञानी होते हैं उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'जहा सइंदिया' हे गौतम ! सेन्द्रियजीव जिस प्रकारसे भजनासे चारज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं, उन्ही तरहसे संज्ञीजीव भी भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं, 'असन्नीजहा वेइंदिया' जैसे द्वीन्द्रियजीव दो ज्ञानवाले और दो अज्ञानवाले कहे गये हैं

अन्नाणी' हे भदन्त ! वे श्रवणसिद्धिक के अलवसिद्धिक होता नहीं तेवा श्रवण ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? नोअलवसिद्धिक अने नोअलवसिद्धिक श्रवण सिद्ध होय छे अतएव 'जहा सिद्धा' अे सूत्र पाठद्वारा नियमित करेव सिद्धोनी भाइक होय छे. तेओ सिद्धोनी भाइक डेवणज्ञानवाणा व होय छे अज्ञानी होता नहीं तेभव अे के त्रषु ज्ञानवाणा पशु होता नहीं हवे सूत्रकार नवमा सञ्जीहारने उद्देशीने कहे छे तेमा गौतम स्वामी अबु पूछे छे के 'सन्नीणं पुच्छा' हे भदन्त ! वे सञ्जी श्रवण होय छे ते श्रुं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? उत्तर — 'जहा सइंदिया' हे गौतम ! सेन्द्रिय श्रवण अे रीते चार ज्ञान अने त्रषु अज्ञानवाणा कइया छे अे व रीते सञ्जीश्रवण पशु लजनाथी चार ज्ञान अने त्रषु अज्ञान-वाणा कइया छे 'असन्नी जहा वेइंदिया' अे रीते अे धन्द्रिय श्रवण अे ज्ञानवाणा अने



इयज्ञानिषध नियमतः प्रतिपादितारुथा अपर्याप्तकारणार्था सासादनगुण-  
 स्थानकृतया ज्ञानइयधन्त स्युः, पर्याप्तकारणार्था तु सासादनगुणस्थानकृत्वा  
 मावात् अज्ञानइयधन्त एष स्युरिति भावः, 'नोसन्नि नोभसन्नी नहा  
 सिद्धा ९' नोसन्नि नोभसन्निषध सिद्धाः त्रयोदशचतुर्दशगुणस्थानकृतिनी  
 जीवाश्च यथा सिद्धाः केवलज्ञानिन उक्तास्तथैव नियमतः केवलज्ञानिनः ॥६०॥

दशमे अधिधारे मष्पिमहानाह-

सूत्रम्— कर्हविहा णं भते ! लक्ष्मी पण्णत्ता ? गोयमा !  
 दसविहा लक्ष्मी पण्णत्ता ' तजहा—नाणलक्ष्मी १, ढसणलक्ष्मी २,  
 चरित्तलक्ष्मी ३, चरित्ताचरित्तलक्ष्मी ४, दाणलक्ष्मी ५, लामलक्ष्मी ६,  
 भागलक्ष्मी ७, उवभोगलक्ष्मी ८, विरियलक्ष्मी ९, इदियलक्ष्मी १०,  
 गाणलक्ष्मी णं भते ! कर्हविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पचविहा

अर्थात् अपर्याप्तकारणस्थानमें सासादनगुणस्थानवाले होनेसे बेडिन्द्रियजीव  
 मतिज्ञान और भुतज्ञान इन दो ज्ञानवाले होते कहे गये हैं और  
 पर्याप्तकारणस्थानमें सासादनगुणस्थान नहीं होनेसे मत्स्यज्ञान और भुता  
 ज्ञान इन दो अज्ञानवाले कहे गये हैं उसी प्रकार असंज्ञी जीव भी  
 ऐसे ही होते हैं ऐसा जानना चाहिये । 'नो सन्नी नो असन्नी  
 नहा सिद्धा' जो जीव न संज्ञी है और न असंज्ञी है ऐसे सिद्धजीव  
 तथा तेरहवें गुणस्थानवर्ती और चौदहवें गुणस्थानवर्तीभीष नियमसे  
 केवलज्ञानवाले ही होते हैं । दो भाविज्ञानवाले नहीं होते हैं । जैसे  
 सिद्धजीव एक केवलज्ञानवाले है । उसी प्रकारसे ये होते हैं ॥६०॥

ये अज्ञानवर्ता कथा है अर्थात्-अपर्याप्तकारणस्थानों सासादन गुणस्थानवाला होवाची  
 ने प्रदिय एव भविष्यत आने सुव्ययान को ने ज्ञानवाला होवानु अहेतु है आने  
 अपर्याप्तकारणस्थानों सासादन गुणस्थान नहीं होवाची मत्स्यज्ञान आने सुव्ययान को ने  
 अज्ञानवर्ता अहेतु है जेव रीते असंज्ञी एव पद्म तेवाच होव है तेम समबर्तु  
 'नो सन्नी नो असन्नी नहा सिद्धा' के एव सन्ती के असंज्ञी होवा नथी तेवा  
 सिद्ध एव तेमव तेरभा आने बीडभा सुकस्थानभा रहैनाश एव निवमथी केवलज्ञानवाला  
 व होव है ने भावि ज्ञानवाला होता नथी, नथी रीते सिद्ध एव अक केवलज्ञानवाला  
 होव है तेवीर रीते तेम पद्म होव है । न. स. ६॥

पण्णत्ता, तंजहा आभिणिबोहियणाणलद्धी, जाव केवलणाण-  
लद्धी । अन्नाणलद्धी णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-मइअन्नाणलद्धी, सुयअन्नाणलद्धी,  
विभंगनाणलद्धी । दंसणलद्धी णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ?  
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-सम्मदंसणलद्धी, मिच्छा-  
दंसणलद्धी, सम्मामिच्छादंसणलद्धी । चरित्तलद्धी णं भंते !  
कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-  
सामाइयचरित्तलद्धी, छेदोवट्टावणियचरित्तलद्धी, परिहार-  
विसुद्धचरित्तलद्धी, सुहुमसंपरायचरित्तलद्धी, अहक्खायचरित्त-  
लद्धी । चरित्ताचरित्तलद्धी णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा !  
एगागारा पण्णत्ता, एवं जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णत्ता ।  
वीरियलद्धी णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता,  
तंजहा बालवीरिय लद्धी, पंडियवीरियलद्धी, बालपंडियवीरिय लद्धी ।  
इंदियलद्धी णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंचविहा  
पण्णत्ता, तंजहा-सोइंदियलद्धी, जाव-फासिंदियलद्धी । नाण-  
लद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी,  
नो अन्नाणी, अत्थेगइया दुन्नाणी, एवं पंच नाणाइं भयणाए ।  
तस्स अलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा  
नो नाणी, अन्नाणी, अत्थेगइया दुअन्नाणी, तित्ति अन्नाणाणि  
भयणाए । आभिणिबोहियणाणलद्धिया णं भंते ! जीवा किं

नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, अत्येगइया  
 दुन्नाणी, तिन्नि नाणाइ चत्तारि नाणाइ भयणाए । तस्स  
 अलद्धिया ण भते । जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी  
 वि अन्नाणी वि, जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी,  
 जे अन्नाणी ते अत्येगइया दुअन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाइ  
 भयणाए । एव सुयनाणलद्धिया वि । तस्स अलद्धिया वि जहा  
 आभिणिषोहियनाणस्स अलद्धीया । ओहिनाणलद्धिया णं  
 पुच्छा ? गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी, अत्येगइया तिन्नाणी,  
 अत्येगइया चउनाणी, जे तिन्नाणी ते आभिणिषोहियनाणी  
 सुयनाणी, ओहिनाणी, जे चउनाणी ते आभिणिषोहिय  
 नाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी, तस्स अलद्धिया  
 ण भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी वि,  
 अन्नाणी वि, एव ओहिनाणधज्जाइ चत्तारि नाणाइ, तिन्नि  
 अन्नाणाइ भयणाए मणपज्जवनाणलद्धिया ण पुच्छा ? गोयमा !  
 नाणी, नो अन्नाणी, अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउनाणी,  
 जे तिन्नाणी ते आभिणिषोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जव  
 नाणी, जे चउनाणी ते आभिणिषोहियनाणी, सुयनाणी,  
 ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी, तस्स अलद्धिया णं पुच्छा ? गोयमा !  
 नाणी वि अन्नाणी वि, मणपज्जवनाण धज्जाइ चत्तारिणाणाई  
 तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए, केवलनाणलद्धियाणं भंते ! जीवा  
 किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, नियमा

एगणाणी-केवलनाणी, तस्स अलद्धिया णं पुच्छा ? गोयमा !  
 नाणी वि, अन्नाणी वि, केवलनाणवज्जाइं चत्तारि णाणाइं, तिन्नि  
 अण्णाणाइं भयणाए, अन्नाणलद्धिया णं पुच्छा ? गोयमा !  
 नोनाणी, अन्नाणी तिन्नि अण्णाइं भयणाए, तस्स अलद्धिया णं  
 पुच्छा ? गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, पंच नाणाइं भयणाए,  
 जहा-अन्नाणस्स लद्धिया, अलद्धिया य भणिया, एवं मइ-  
 अन्नाणस्स, सुयअण्णाणस्स य लद्धिया, अलद्धिया य भाणियद्वा,  
 विभंगनाणलद्धिया णं तिन्नि अन्नाणाइं नियमा, तस्स  
 अलद्धियाणं पंचनाणाइं भयणाए, दो अन्नाणाइं नियमा?सू.॥६॥

छाया- कतिविधा खलु भदन्त ! लब्धिः प्रज्ञप्ता ? गौतम ! दशविधा  
 लब्धिः प्रज्ञप्ता, तद्यथा-ज्ञानलब्धिः १, दर्शनलब्धिः २, चारित्रलब्धिः ३,  
 चारित्राचारित्रलब्धिः ४, दानलब्धिः ५, लाभलब्धिः ६, भोगलब्धिः ७,  
 उपभोगलब्धिः ८, वीर्यलब्धिः ९, इन्द्रियलब्धिः १०, ज्ञानलब्धिः खलु भदन्त !

दशवे लब्धिद्वारमं लब्धिभेदकथन-

‘कइविहा ण भंते ! लद्धी पणत्ता’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(कइविहा णं भंते ! लद्धी पणत्ता)हे भदन्त ! लब्धि कितने  
 प्रकारकी कही गई है ! (गोयमा) हे गौतम ! (दसविहा लद्धी पणत्ता)  
 लब्धि दशप्रकारकी कही गई है । (तंजहा) जैसे(नाणलद्धी१, दंसणलद्धी२,  
 चरित्तलद्धी३, चरित्ताचरित्तलद्धी४, दाणलद्धी५, लाभलद्धी६, भोगलद्धी७,  
 उवभोगलद्धी८, वीरियलद्धी९, इंदियलद्धी१०) ज्ञानलब्धि१, दर्शनलब्धि२,  
 चारित्रलब्धि३, चारित्राचारित्रलब्धि४, दानलब्धि५, लाभलब्धि६, भोग-

दशमां लब्धिद्वारमां लब्धिना लेटोनुं कथन

कइविहाणं भंते ! लद्धी पणत्ता इत्यादि.

सूत्रार्थ :- कइविहाणं भंते ! लद्धी पणत्ता ’ हे भगवान ! लब्धि इतना  
 प्रकारनी कहेली छे ? ‘गोयमा ’ हे गौतम ! दसविहा लद्धी पणत्ता ’ लब्धि दश  
 प्रकारनी कहेली छे ‘तंजहा ’ ते आ प्रकार छे ‘ नाणलद्धी १ ’, ‘ दंसण-  
 लद्धी २ ’, ‘ चरित्तलद्धी ३ ’, ‘ चरित्ताचरित्तलद्धी ४ ’ ‘ दाणलद्धी ५ ’  
 ‘ लाभ लद्धी ६ ’ ‘ भोग लद्धी ७, ‘ उवभोग लद्धी ८ ’, ‘ वीरियलद्धी ९ ’,

कतिविधा प्रज्ञता ? गौतम ! पञ्चविधा प्रज्ञता, तद्यथा-आमिनिबोधिकज्ञान  
लब्धिः, यावत्- केवलज्ञानलब्धिः। अज्ञानलब्धिः खलु भदन्त ! कतिविधा  
प्रज्ञता ? गौतम ! त्रिविधा प्रज्ञता, तद्यथा मत्प्रज्ञानलब्धिः, भुताज्ञानलब्धिः,  
विमद्भूतज्ञानलब्धिः, दर्शनलब्धिः खलु भदन्त ! कतिविधा प्रज्ञता ? गौतम !  
त्रिविधा प्रज्ञता तद्यथा - सम्पददर्शनलब्धिः, मिथ्यादर्शनलब्धिः, सम्पद

लब्धिः७ उपभोगलब्धिः८, धीपलब्धिः९ और इन्द्रियलब्धि १० । (गाण  
लक्ष्मी ग मते ! कश्चिद्वा पण्यत्ता) हे भदन्त ! ज्ञानलब्धि कितने  
प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! ( पञ्चविद्वा पण्यत्ता )  
ज्ञानलब्धि पांचप्रकारकी कही गई है । (तजहा) जैसे (आमिनिबोहिय  
नाणलक्ष्मी, जाय केवलज्ञानलक्ष्मी) आमिनिबोहियज्ञानलब्धि, यावत्  
केवलज्ञानलब्धि (अज्ञानलक्ष्मी ग मते ! कश्चिद्वा पण्यत्ता) हे भदन्त !  
अज्ञानलब्धि कितने प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम !  
(तिविद्वा पण्यत्ता) अज्ञानलब्धि तीन प्रकारकी कही गई है (तजहा)  
जैसे-(मह अज्ञानलक्ष्मी, सुय अज्ञानलक्ष्मी, विमंगनाणलक्ष्मी) मत्प्रज्ञान  
लब्धि, भुताज्ञानलब्धि, विमंगनाण लब्धि । ( वसणलक्ष्मी ग मते !  
कश्चिद्वा पण्यत्ता) हे भदन्त ! दर्शनलब्धि कितने प्रकारकी कही  
गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिविद्वा पण्यत्ता) दर्शनलब्धि तीन  
प्रकारकी कही गई है । ( तजहा ) जैसे-(सम्पदसणलक्ष्मी, मिथ्या

' इन्द्रियलक्ष्मी '०' ज्ञानलब्धि १ अज्ञान लब्धि २ आरि य लब्धि ३ अरिभय  
आदि लब्धि ४ धान लब्धि ५, ज्ञान लब्धि ६ भोग लब्धि ७ उपसोय लब्धि ८  
वीर्यलब्धि ९ मते १० प लक्ष्मी १० ' नाणलक्ष्मी ग मते कश्चिद्वा पण्यत्ता'  
के अन्वयानुसारलब्धि ८ का प्रसारनी ७ ? ' गोयमा ' के गौतम ! ' पञ्चविद्वा पण्यत्ता'  
ज्ञानलब्धि पांच प्रकारकी कही है ' तं महा ' के मते ' आमिनिबोहियनाणलक्ष्मी  
जाय केवलज्ञानलक्ष्मी ' आमिनिबोहिय ज्ञान लब्धि-यावत्-केवल ज्ञान लब्धि  
' अज्ञानलक्ष्मी ग मते कश्चिद्वा पण्यत्ता ' के अन्वयानुसार लब्धि ८ का  
प्रसारनी कही है ' गोयमा ' के गौतम ! ' त्रिविद्वा पण्यत्ता ' अज्ञानलक्ष्मी त्रय  
प्रकारकी कही है ' तं महा ' के मते ७ के मत्प्रज्ञानलक्ष्मी सुयप्रज्ञान लक्ष्मी,  
विमंगनाणलक्ष्मी ' मत्प्रज्ञान लब्धि भुताज्ञान लब्धि मते विमंगनाण लब्धि  
' वसणलक्ष्मी ग मते कश्चिद्वा पण्यत्ता ' के अन्वयानुसार लब्धि ८ का  
प्रसारनी है ' गोयमा ' के गौतम ! ' त्रिविद्वा पण्यत्ता ' के मते त्रय प्रकारकी  
कही है ' तं महा ' के मते प्रमाण ७. ' सम्पदसणलक्ष्मी मिथ्यादर्शनलक्ष्मी,

मिथ्यादर्शनलब्धिः । चारित्रलब्धिः खलु भदन्त' कतिविधा प्रज्ञप्ता ? गौतम ! पञ्चविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा - सामायिकचारित्रलब्धिः, छेदोपस्थापनीयचारित्रलब्धिः, परिहारविशुद्धिकःचारित्रलब्धिः, सूक्ष्मसंपरायचारित्रलब्धिः, यथाख्यातचारित्रलब्धिः, चारित्राचारित्रलब्धिः खलु भदन्त ! कतिविधा प्रज्ञप्ता । गौतम ! एकाकारा प्रज्ञप्ता, एव यावत् उपभोगलब्धिः एकाकारा प्रज्ञप्ता, वीर्यलब्धिः खलु भदन्त ! कतिविधा प्रज्ञप्ता ? गौतम ! त्रिविधा-

दंमणलद्धी, सम्मामिच्छादंसणलद्धी) सम्यक् दर्शनलब्धि, मिथ्यादर्शनलब्धि, सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धि. ( चरित्तलद्धी ण भंते ! कइविहा पणत्ता) हे भदन्त ! चारित्रलब्धि कितने प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहा पणत्ता) चारित्रलब्धि पांच प्रकारकी कही गई है ( तं जहा-जैसे ( सामाडयचरित्तलद्धी, छेदोवट्टावणिय चरित्तलद्धी, परिहारविशुद्ध चरित्तलद्धी, सुहुमसंपरायचरित्तलद्धी, अहक्खायचरित्तलद्धी) ? सामायिकचारित्रलब्धि, २ छेदोपस्थापनीयचारित्रलब्धि, ३ परिहारविशुद्धिकचारित्रलब्धि, ४ सूक्ष्मसंपरायचारित्रलब्धि, ५ और यथाख्यात चारित्रलब्धि. (चरित्ताचरित्तलद्धी णं भते ! कइविहा पणत्ता) हे भदन्त ! चारित्राचारित्रलब्धि कितने प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! ( एगागारा पणत्ता ) चारित्राचारित्रलब्धि एक प्रकारकी कही गई है ? ( एवं जाव उवभोगलद्धी एगागारा पणत्ता) इसी तरहसे यावत् उपभोगलब्धि एक प्रकारकी कही गई है । ( वीरियलद्धी णं भंते ! कइविहा पणत्ता ) हे भदन्त ! वीर्यलब्धि कितने

सम्मामिच्छादंसण लद्धी ' सम्यक्दर्शन लब्धि, मिथ्यादर्शन लब्धि अने सम्यक्-मिथ्यादर्शन लब्धि ' चरित्तलद्धीणं भंते कइविहा पणत्ता ' हे भगवन् ! आरिउय लब्धि डेटला प्रकारनी छे ? ' गोयमा ' हे गौतम ! ' पंचविहा पणत्ता ' ते पाउय प्रकारनी छे ' तंजहा ' जेभे ' सामाडयचरित्तलद्धी ' ' छेदोवट्टावणियचरित्तलद्धी, परिहारविशुद्धलद्धी सुहुमसंपरायचरित्तलद्धी अहक्खायचरित्तलद्धी, ' सामायिक आरिउयलब्धि १, छेदोपस्थापनीय आरिउय लब्धि २, परिहार विशुद्धिक आरिउय लब्धि ३, अने सूक्ष्मसंपराय आरिउय लब्धि ४, यथाख्यात आरिउय लब्धि ५ चरित्ताचरित्तलद्धीणं भंते कइविहा पणत्ता ' हे भदन्त ! आरिउया आरिउय लब्धि डेटला प्रकारनी छे ' गोयमा ' हे गौतम ! ' एगागारा पणत्ता ' आरिउयाआरिउय लब्धि अेक प्रकारनी छे ' एवं जाव उवभोगलद्धी एगागारा पणत्ता ' तेवीज् रीते-यावत्-उपभोग लब्धि पण्ठे अेक प्रकारनी-दरी छे ' वीरियलद्धीणं भंते कइविहा पणत्ता '

प्रज्ञा, तयया-बाल्मीक्येऽपि, पण्डितवीर्येऽपि, बाल्मिक्येऽपि ।  
इन्द्रियलब्धिं सख्यं मदन्त । कतिपिमा प्रज्ञा ? गौतम ! पञ्चपिमा प्रज्ञा,  
तयया-धोत्रेन्द्रियेऽपि यावत् स्पर्शेन्द्रियलब्धि । ज्ञानलब्धिश्च सख्यं  
मदन्त ! मीमा किं ज्ञानिनः, अज्ञानिन ? गौतम ! ज्ञानिन, ना अज्ञानिन,  
सन्ति एकके द्विज्ञानिनः, एष पञ्च ज्ञानानि मननया, तस्य अलब्धिश्च सख्यं

प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! (तिविहा पण्णसा) वीर्य  
लब्धि तीन प्रकारकी कही गई है । (त जहा) जैसे-(बाल्मीक्येऽपि,  
पण्डितवीर्येऽपि, बाल्मिक्येऽपि) बाल्मीक्येऽपि, पण्डितवीर्येऽपि,  
और बाल्मिक्येऽपि । (इन्द्रियलब्धिं षं मते । कतिपिमा पण्णसा)  
हे मवत्त ! इन्द्रियलब्धि कितने प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे  
गौतम ! (पञ्चपिमा पण्णसा) इन्द्रियलब्धि पांच प्रकारकी कही  
गई है ? (त जहा) जैसे - (सोइन्द्रियलब्धिं जाव फासिन्द्रियलब्धिं )  
धोत्रेन्द्रियलब्धिं यावत् स्पर्शेन्द्रियलब्धिं । (नाणलब्धिं षं मते । जीषा  
किं नाणी अन्नाणी) हे मवत्त ! ज्ञानलब्धिबाले जीव क्या जानी होते  
हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी नो अन्नाणी)  
ज्ञानलब्धिबाले जीव ज्ञानी ही होते हैं, अज्ञानी नहीं होते । (अस्ये  
गइया दु-नाणी, एष पचनाणाइ मयणाए) इनमें कितनेक ज्ञानी जीव  
वा ज्ञानबाले होते हैं-इस तरह इनको भजना से पांच ज्ञान होते हैं ।

हे भगवन् वीर्य लब्धिं तेषां प्रज्ञानी इति । गोयमा' हे गौतम ! 'तिविहा  
पण्णसा' विषय लब्धिं तस्य प्रज्ञानी इति । 'त जहा' नेमडे 'बाल्मीक्येऽपि,  
'पण्डितवीर्येऽपि, बाल्मिक्येऽपि' आदयिण लब्धि, पण्डितवीर्य  
लब्धि अने बाल्मिक्येऽपि लब्धि 'इन्द्रियलब्धिं षं मते कतिपिमा पण्णसा'  
हे भगवन् ! इन्द्रिय लब्धिं तेषां प्रज्ञानी इति ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'पञ्चपिमा  
पण्णसा' इन्द्रिय लब्धिं पांच प्रकारकी । 'त जहा' नेमडे 'सोइन्द्रिय लब्धिं जाव  
फासिन्द्रियलब्धिं' धोत्रेन्द्रिय लब्धि-यावत्-स्पर्शेन्द्रिय लब्धि, 'नाणलब्धिं षं मते  
जीषा किं नाणी अज्ञानी' हे भगवन् ! ज्ञान लब्धिबाले एष ज्ञानी एष  
अज्ञानी ! 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी नो अज्ञानी' ज्ञानलब्धिबाले एष ज्ञानी  
एष अज्ञानी इति । 'अस्ये गइया दु-नाणी एष पचनाणाइ मयणाए' नेमडे  
तेषां प्रज्ञानी एष ने ज्ञानबाले इति । अने इति तेषां ने भगवन् एष ज्ञान

भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम ! नो ज्ञानिनः, अज्ञानिनः, सन्ति एकके द्वयज्ञानिनः, त्रीणि अज्ञानानि भजनया । आभिनिबोधिकज्ञान-लब्धिकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम ! ज्ञानिनः, नो अज्ञानिनः, सन्ति एकके द्विज्ञानिनः त्रीणि ज्ञानानि चत्वारि ज्ञानानि भजनया । तस्य अलब्धिकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ?

(तस्म अलद्धीया णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! ज्ञान लब्धिरहित जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (णो णाणी, अन्नाणी) हे गौतम ! ज्ञानकी लब्धि रहित जीव ज्ञानी नहीं होते हैं अज्ञानी होते हैं । (अत्येगइया दु अन्नाणी, तिण्णि अन्नाणाणी भयणाए) कितनेक इनमें दो अज्ञानवाले होते हैं, कितनेक तीन अज्ञानवाले होते हैं. इस तरह से ये भजनासे तीन अज्ञानवाले होते हैं । (आभिनिबोधियणाणलद्धिया णं भंते ! जीवा किं णाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धिवाले जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी नो अन्नाणी) आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धिवाले जीव ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं । (अत्येगइया दुन्नाणी, चत्तारि नाणाइं भयणाए) इनमें कितनेक जीव दो ज्ञानवाले होते हैं । चार ज्ञानवाले इनमें भजना से होते हैं । अर्थात् कितनेक तीन ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक चार ज्ञानवाले होते हैं । (तस्म अलद्धिया णं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! आभिनिबोधिकज्ञानकी लब्धि से रहित जीव क्या ज्ञानी

होय छे 'तस्म अलद्धीयाणं जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! ज्ञान लब्धि रहित जीव क्यो शु ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'नो नाणी अन्नाणी' हे गौतम ! ज्ञान लब्धिरहित जीव ज्ञानी नहीं पण अज्ञानी होय छे 'अत्येगइया दु अन्नाणी, तिण्णि अन्नाणाणी भयणाए' तेमां केटवाक भे अज्ञानवाणा अने केटवाक त्रय अज्ञानवाणा होय छे आ रीते भजनथी ते त्रय अज्ञानवाणा होय छे 'आभिनिबोधियणाणलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धिवाणा जीवो शु ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी नो अन्नाणी' ते ज्ञानीय होय छे, अज्ञानी होता नथी. 'अत्येगइया दुन्नाणी चत्तारिणाणाइं भयणाए' तेमां केटवाक जीव भे ज्ञानवाणा होय छे अने केटवाकने चार ज्ञाननो भजन होय छे तेमां केटवाक त्रय ज्ञानवाणा अने केटवाक चार ज्ञानवाणा होय छे 'तस्म अलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! आभिनिबोधिक ज्ञान



गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, ये ज्ञानिनस्ते नियमात् एकज्ञानिनः-  
 केवलज्ञानिनः, ये अज्ञानिनस्ते सन्ति एकके इयज्ञानिनः, प्रीणि अज्ञानानि  
 मजनया, एव भ्रुतज्ञानलम्बिका अपि, तस्य अलम्बिका अपि यथा आमिति  
 बोधिकज्ञानस्य अलम्बिका । अथपिज्ञानलम्बिकाः खलु पृच्छा ? गौतम !  
 ज्ञानिनः, नो अज्ञानिन, सन्ति एकके अज्ञानिनः, सन्ति एकके चतुर्ज्ञानिन,

होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( गोयमा ! नाणी वि अन्नाणी वि,  
 जे नाणी ते नियमा एगनाणी, केवलनाणी, जे अन्नाणी ते अरथे  
 गइया दुअन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाइ मयणाए, एवं सुयनाणलदिया  
 वि ) हे गौतम ! आमिनियोधिक ज्ञान लम्बिसे रहित जीव ज्ञानी भी  
 होत हैं, अज्ञानी भी होते हैं । जो ज्ञानी होते हैं, वे नियमसे एक  
 ज्ञानवाले होते हैं । जो अज्ञानी होते हैं उनमें कितनेक दो अज्ञानवाले  
 होते हैं और कितनेक तीन अज्ञानवाले होते हैं । इसी तरहसे भ्रुत  
 ज्ञानलम्बिवाले जीवों का भी जानना चाहिये । ( तस्म अलदिया वि  
 जहा आमिणिसोदियनाणस्स अलदिया ) भ्रुतज्ञानलम्बि रहित जीव  
 आमिनियोधिक ज्ञान लम्बि रहित जीवोंकी तरह होते हैं । ( आहि  
 नाणलदियाणं पुच्छा ) हे भदन्त ! अथपिज्ञान लम्बिवाले जीव क्या  
 ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( नाणी, ना अन्नाणी ) हे गौतम !  
 अथपिज्ञान लम्बिवाले जीव ज्ञानी होत हैं, अज्ञानी नहीं होते । ( अरथे  
 गइया तिन्नाणी, अरथेगइया चउनाणी ) इनमें कितनेक जीव तीन

अज्ञानी एवं ज्ञानी दोष से हैं अज्ञानी दोष से । ' गोयमा ' हे गौतम ! ' नाणी  
 वि अन्नाणी वि जे, नाणी त नियमा एगनाणी केवलनाणी जे अन्नाणी  
 ते अरथेगइया दु अन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाइ मयणाए एवं सुयनाण  
 लदिया वि ' हे गौतम । आमिनियोधिक ज्ञान विनाया एवं अर्थिन पण दोष से अने  
 अज्ञानी दोष से ? ज्ञानी दोष से ते नियमधी जेठ ज्ञानवाला दोष से ते अज्ञानी  
 दोष से तेमा हेतवाक से अज्ञानवाला अने हे वाक मय अज्ञानवाला दोष से जेव  
 रति भ्रुतज्ञान लम्बिवाला अनेने मय समस्त एव । ' तस्मअलदिया वि जहा  
 आमिणिसोदियनाणस्स अलदिया ' भ्रुतज्ञान लम्बि रहित एवं आमिनियोधिक  
 ज्ञान लम्बि विनाया अनेनी माहेठ दोष से ' मोहिनाणलदियाणं पुच्छा '  
 हे भदन्त ! अथपिज्ञान लम्बिवाला एवं ज्ञानी दोष से हैं अज्ञानी । ' नाणी नो  
 अन्नाणी ' हे गौतम । अथपिज्ञान लम्बिवाला एवं ज्ञानी दोष से अज्ञानी नहीं ।  
 अरथेगइया तिन्नाणी, अरथेगइया चउनाणी ' तेमा हेतवाक एवं मय ज्ञानवाला

ये त्रिज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिनः, श्रुतज्ञानिन, अवधिज्ञानिनः, मनः-पर्यवज्ञानिन. । तस्य अलब्धिका खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः ? अज्ञानिनः ? गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, एवम् अवधिज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि भजनया । मनःपर्यवज्ञानलब्धिकाः खलु पुच्छा ? गौतम ! ज्ञानिन, नो अज्ञानिन, सन्ति एकके त्रिज्ञानिन सन्ति

ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक जीव चार ज्ञानवाले होते हैं । ( जे तिन्नाणी-ते आभिनिबोधियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी ) जो तीन ज्ञानवाले होते हैं. वे आभिनिबोधिक ज्ञानवाले होते हैं, श्रुतज्ञानवाले होते हैं और अवधिज्ञानवाले होते हैं । (जे चउनाणी-ते आभिनिबोधियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी) जो चार ज्ञानवाले होते हैं-वे मतिज्ञानवाले श्रुतज्ञानवाले, अवधिज्ञानवाले और मनःपर्यव ज्ञानवाले होते हैं । (तस्स अलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी अन्नाणी ) हे भदन्त ! जो जीव अवधिज्ञान लब्धिसे रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (नाणी वि, अन्नाणी वि) हे गौतम ! अवधिज्ञान लब्धि रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । (एवं ओहिनाणवज्जाइं चत्तारि नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए) इस तरह अवधिज्ञान लब्धि रहित ज्ञानी जीवों के अवधिज्ञानको छोड़ कर चार ज्ञान और अज्ञानी जीवों के तीन अज्ञान भजना से होते हैं । मणपज्जवनाणलद्धियाण पुच्छा । हे भदन्त ! मनःपर्यव ज्ञान लब्धिवाले जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते

होय छे ३२६।३ छव थार ज्ञानवाणा होय छे 'जे तिन्नाणी ते आभिनिबोधियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी' ने त्रयु ज्ञानवाणा छे आभिनिबोधिकज्ञान श्रुतज्ञान,अने अवधिज्ञानवाणा होय छे ते चउनाणी ते आभिनिबोधियनाणी सुयनाणी ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी' ने थार ज्ञानवाणा होय छे ते मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अवधिज्ञान अने मन पर्यवज्ञान अने थार ज्ञानवाणा होय छे 'तस्स अलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! ने छव अवधि ज्ञान लब्धि रहित होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'नाणी वि अन्नाणी वि' हे गौतम ! अवधिज्ञान लब्धि विनाना छव ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे 'एवं ओहिनाणवज्जाइं चत्तारि नाणाइ, तिन्नि अन्नाणाइं, भयणाए' अने रीते अवधिज्ञान लब्धि विनाना एवने अवधिज्ञानने छोडीने थार ज्ञान अने अज्ञानी एवने त्रयु अज्ञान सज्जनाथी होय छे. 'मणपज्जवनाणलद्धियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! मन पर्यवज्ञान लब्धिवाणा छव

एकके चतुर्हानि, ये त्रिहानिनस्ते आमिनिषोधिकज्ञानिन सुतज्ञानिन,  
 अवधिज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिन । तस्य भलद्विधाः खलु पृच्छा ? गौतम ।  
 ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, मनःपर्यवज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि, धीनि  
 अज्ञानानि भवन्त्या । केवलज्ञानलब्धिकाः खलु मदन्त ! जीवा किं ज्ञानिन,

हैं? (जाणी-नो अजाणी) हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञानलब्धिवाले जीव  
 ज्ञानी होते हैं-अज्ञानी नहीं होते ! (अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया  
 चउनाणी, जे तिन्नाणी ते आमिणिषोहियनाणी सुयनाणी  
 मणपञ्चवणाणी-जे चउनाणी ते आमिणिषोहियनाणी, सुयनाणी,  
 ओहिनाणी, मणपञ्चवणाणी) इनमें कितनेक तो तीन ज्ञानवाले  
 होते हैं और कितनेक चार ज्ञानवाले होते हैं । जो तीन ज्ञान वाले  
 होते हैं, वे आमिनिषोधिकज्ञान वाले भुतज्ञानवाले और मनः  
 पर्यवज्ञानवाले होते हैं और जो चार ज्ञानवाले होते हैं वे  
 आमिनिषोधिकज्ञानवाले भुतज्ञानवाले, अवधिज्ञानवाले, और  
 मनःपर्यवज्ञानवाले होत हैं । (तस्स भलदियानं पृच्छा -)  
 हे मदन्त ! जो मनःपर्यवज्ञानलब्धिसे रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी  
 होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञान  
 लब्धिसे रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं ।  
 (मणपञ्चवणाणवज्जाइ चत्वारिणाणाइ, तिन्निअण्णाणाइ मयणाए) जो  
 ज्ञानी होते हैं उनको मनःपर्यवज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान और  
 अज्ञानीको तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (केवलज्ञानलब्धिवाण

ज्ञानी केय ७? अज्ञानी केय ७? 'जाणी ना अजाणी' हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञान  
 लब्धिवाणा एव ज्ञानी केय ७ अज्ञानी केय ७ नही । अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया  
 चउनाणी जे तिन्नाणी ते आमिणिषोहियनाणी, सुयनाणी, मणपञ्चवणाणी  
 जे चउनाणी ते आमिणिषोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपञ्चवणाणी'  
 तेभं केटवाइ मयु खलवाणा केय ७ तेभने आमिनिषोधिक ज्ञान सुतज्ञान जने मनःपर्यव  
 ज्ञान छेदीने चार ज्ञानवाण्णेने आमिनिषोधिक ज्ञान, सुतज्ञान, अवधिज्ञानजने मनःपर्यव  
 ज्ञान जे चार ज्ञान केय ७ 'तस्स भलदियानं पृच्छा' हे मदन्त जे मनःपर्यव  
 ज्ञान लब्धि विनाना केय ७ ते तु ज्ञानी केय ७ अजाणी ? 'गोयमा' हे गौतम !  
 मनःपर्यवज्ञान लब्धि वजरना एव ज्ञानी पण केय ७ जने अज्ञानी पण केय ७  
 'मणपञ्चवणाणवज्जाइ चत्वारिणाणाइ तिन्निअण्णाणाइ मयणाए' जे ज्ञानी केय ७  
 तेज्जेने मनःपर्यवज्ञान जने छेदीने चार ज्ञान जने अज्ञानीने मयु अज्ञान अजाणी

अज्ञानिन ? गौतम ! ज्ञानिन, नो अज्ञानिन, नियमात् एकज्ञानिन-केवल-  
ज्ञानिन, तस्य अलब्धिका; खलु पृच्छा ? गौतम ! ब्र.निनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि  
केवलज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि भजनया । अज्ञानलब्धिकाः  
खलु पृच्छा ? गौतम ! नो ज्ञानिनः, अज्ञानिनः त्रीणि अज्ञानानि भजनया,

भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव केवलज्ञान  
लब्धिवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ?  
(गोयमा) हे गौतम ! (नाणी, नो अन्नाणी-नियमा एगनाणी केवलनाणी)  
केवल ज्ञानलब्धिवाले जीव ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं होते । ज्ञानी  
होते पर भी वे केवल एक ज्ञानवाले ही होते हैं दो आदि ज्ञान  
वाले नहीं होते । एक ज्ञान में भी वे केवलज्ञान वाले ही  
होते हैं । (तस्स अलद्धियाणं पृच्छा) हे भदन्त ! जो जीव केवलज्ञान  
लब्धि से रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होता हैं या अज्ञानी होता है ?  
(गोयमा) हे गौतम ! (नाणी वि, अन्नाणी वि केवलनाणवज्जाहं चत्तारि-  
णाणाहं तिन्नि अन्नाणाहं भयणाए) केवल ज्ञान लब्धि से रहित जीव  
ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । यदि वे ज्ञानी होते  
हैं तो केवल ज्ञानवर्ज चार ज्ञानवाले होते हैं और यदि अज्ञानी  
होते हैं तो तीन अज्ञानवाले होते हैं । ऐसे जो वे होते  
हैं सो नियम से नहीं होते हैं किन्तु भजना से ही होते हैं ।  
(अन्नाणलद्धियाणं पृच्छा) हे भदन्त ! जो जीव अज्ञान लब्धिवाले

होय छे ' केवलनाणलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ' हे भगवान !  
जे श्व डेवणज्ञान लब्धिवाणा होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'गोयमा' गौतम !  
' नाणी नो अन्नाणी नियमा एगनाणी केवलनाणी ' डेवण ज्ञान लब्धिवाणा  
श्व ज्ञानी होय छे अज्ञानी होता नथी अने ते डेवण अेक ज्ञानवाणा होय छे  
जे आदिज्ञानवाणा होता नथी अेक ज्ञानमा पशु डेवण ज्ञानवाणा होय छे  
' तस्स अलद्धियाणं पृच्छा ' जे श्व डेवणज्ञान लब्धिथी रहित होय छे ते शु ज्ञानी  
होय छे के अज्ञानी ? 'गोयमा' हे गौतम ! ' नाणी वि अन्नाणी वि केवल-  
नाणवज्जाहं चत्तारिणाणाहं तिन्नि अन्नाणाहं भयणाए ' डेवण ज्ञान लब्धि वररता  
श्व ज्ञानी पशु होय छे अने अज्ञानी पशु होय छे जे ते ज्ञानी होय छे तो तेओ  
डेवण ज्ञानने छोडीने आर ज्ञानवाणा होय छे अने जे अज्ञानी होय तो त्रशु अज्ञानवाणा  
होय छे अेवा तेओ नियमथा होता नथी परतु लज्जनाथी होय छे ' अन्नाणलद्धि-  
याण पृच्छा ' हे भगवान ! जे श्व अज्ञान लब्धिवाणा होय छे ते शु ज्ञानी होय छे के

एकके घटुर्ज्ञानिन, ये त्रिज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिन सुतज्ञानिनः, अघघिज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिन । तस्य अलक्षिकाः खलु पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, मनःपर्यवज्ञानिनानि चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया । केवलज्ञानलक्षिकाः खलु भद्व ! जीवा किं ज्ञानिन,

हे ? (जाणी नो अजाणी) हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञानलक्षिवाले जीव ज्ञानी होतेहे-अज्ञानी नहीं होते ! (अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउनाणी, जे तिन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी मणपज्जवणाणी-जे चउनाणी ते आभिणियोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवणाणी) इन्में कितनेक तो तीन ज्ञानवाळे होते हैं और कितनेक चार ज्ञानवाळे होते हैं । जो तीन ज्ञान वाळे होते हैं, वे आभिनिबोधिकज्ञान वाले भुतज्ञानवाळे और मनःपर्यवज्ञानवाळे होते हैं और जो चार ज्ञानवाळे होते हैं वे आभिनिबोधिकज्ञानवाळे भुतज्ञानवाळे, अघघिज्ञानवाळे, और मनःपर्यवज्ञानवाळे होते हैं । (तस्स अलदियार्णं पुच्छा -) हे भद्वन्त ! जो मनःपर्यवज्ञानलक्षिसे रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञान लक्षिसे रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । (मणपज्जवणाणवज्जाइ चत्वारिणाणाइ, तिन्निअण्णाणाइ भयणाए) जो ज्ञानी होते हैं उनको मनःपर्यवज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान और अज्ञानीको तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (केवलज्ञानलक्षिपाण

ज्ञानी होय हे ? के अज्ञानी होय हे ? 'जाणी ना अजाणी' हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञान लक्षिवाला एक ज्ञानी होय हे अज्ञानी होय नाही । अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउनाणी जे तिन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवणाणी जे चउनाणी ते आभिणियोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवणाणी' तेमाइतलाइ प्रत्युत्तानवाया होय हे तेमने आभिनिबोधिक ज्ञान सुतज्ञान अने मनःपर्यव ज्ञान छोडीने चार ज्ञानवाळाणेने आभिनिबोधिक ज्ञान, सुतज्ञान, अघघिज्ञान अने मनःपर्यव ज्ञान अने चार ज्ञान होय हे 'तस्स अलदियार्णं पुच्छा' हे भद्वन्त हे मनःपर्यव ज्ञान लक्षि विनाना होय छ त तु ज्ञानी होय हे अज्ञानी ? 'गोयमा' हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञान लक्षि वजरेना एक ज्ञानी प्रत्युत्तान होय हे अने अज्ञानी प्रत्युत्तान हे 'मणपज्जवणाणवज्जाइ चत्वारिणाणाइ तिन्निअण्णाणाइ भयणाए' हे ज्ञानी होय हे तेमने मनःपर्यवज्ञान छोडीने चार ज्ञान अने अज्ञानीने प्रत्युत्तान अज्ञानी

अज्ञानिन ? गौतम ! ज्ञानिन, नो अज्ञानिन, नियमात् एकज्ञानिन—केवल-  
ज्ञानिन, तस्य अलब्धिका, खलु पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि  
केवलज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि भजनया । अज्ञानलब्धिकाः  
खलु पृच्छा ? गौतम ! नो ज्ञानिन, अज्ञानिनः त्रीणि अज्ञानानि भजनया,

भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव केवलज्ञान  
लब्धवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ?  
(गोयमा) हे गौतम ! (नाणी, नो अन्नाणी-नियमा एगनाणी केवलनाणी)  
केवल ज्ञानलब्धवाले जीव ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं होते । ज्ञानी  
होते पर भी वे केवल एक ज्ञानवाले ही होते हैं दो आदि ज्ञान  
वाले नहीं होते । एक ज्ञान में भी वे केवलज्ञान वाले ही  
होते हैं । (तस्स अलद्धियाणं पुच्छा) हे भदन्त ! जो जीव केवलज्ञान  
लब्धि से रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होता हैं या अज्ञानी होता है ?  
(गोयमा) हे गौतम ! (नाणी वि, अन्नाणी वि केवलनाणवज्जाहं चत्तारि-  
णाणाहं तिन्नि अन्नाणाहं भयणाए) केवल ज्ञान लब्धि से रहित जीव  
ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । यदि वे ज्ञानी होते  
हैं तो केवल ज्ञानवर्ज चार ज्ञानवाले होते हैं और यदि अज्ञानी  
होते हैं तो तीन अज्ञानवाले होते हैं । ऐसे जो वे होते  
हैं सो नियम से नहीं होते हैं किन्तु भजना से ही होते हैं ।  
(अन्नाणलद्धियाणं पुच्छा) हे भदन्त ! जो जीव अज्ञान लब्धवाले

होय छे ' केवलनाणलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ' हे भगवान !  
जे एव डेवणज्ञान लब्धिवाणा होय छे ते ज्ञानी होय छे डे अज्ञानी ? 'गोयमा' गौतम !  
' नाणी नो अन्नाणी नियमा एगनाणी केवलनाणी ' डेवण ज्ञान लब्धिवाणा  
एव ज्ञानी होय छे अज्ञानी होता नथी अने ते डेवण अेक ज्ञानवाणा होय छे  
जे आदिज्ञानवाणा होता नथी अेक ज्ञानमा पथु डेवण ज्ञानवाणा होय छे  
' तस्स अलद्धियाणं पुच्छा ' जे एव डेवणज्ञान लब्धिथी रहित होय छे ते शु ज्ञानी  
होय छे डे अज्ञानी ? ' गोयमा ' हे गौतम ! ' नाणी वि अन्नाणी वि केवल-  
नाणवज्जाहं चत्तारिणाणाहं तिन्नि अन्नाणाहं भयणाए ' डेवण ज्ञान लब्धि वरना  
एव ज्ञानी पथु होय छे अने अज्ञानी पथु होय छे जे ते ज्ञानी होय छे तो तेओ  
डेवण ज्ञानने छोडीने आर ज्ञानवाणा होय छे अने जे अज्ञानी होय तो तथु अज्ञानवाणा  
होय छे अेवा तेओ नियमथी होता नथी परतु अज्ञानथी होय छे ' अन्नाणलद्धि-  
याण पुच्छा ' हे भगवान ! जे एव अज्ञान लब्धिवाणा होय छे ते शु ज्ञानी होय छे डे

तस्य अलम्बिका स्वच्छा पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनः, नो अज्ञानिनः, पक्ष ज्ञानानि भजनया, यथा अज्ञानस्य लम्बिका अलम्बिकाश्च भणिता, एव मत्पज्ञानस्य भुताज्ञानस्य च लम्बिका, अलम्बिकाश्च भणितव्याः, विमद्भूतज्ञान लम्बिकानां श्रीणि अज्ञानानि नियमात्, तस्य अलम्बिकानां पक्ष ज्ञानानि भजनया, द्वे अज्ञान नियमात् ॥ सू० ६ ॥

होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोपमा) हे गौतम ! (नो नाणी, अन्नाणी त्तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए) अज्ञान लम्बिकावाले जीव ज्ञानी नहीं होते हैं किन्तु अज्ञानी ही होते हैं। इस पर भी वे भजना से तीन अज्ञानवाले होते हैं। (तस्स अलदिया यार्णं पुच्छा) हे भदन्त ! जो जीव अज्ञान लम्बिका से रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं। (नाणी, नो अन्नाणी-पक्ष नाणाइ भयणाए) हे गौतम ! अज्ञान लम्बिका से रहित जीव ज्ञानी होते हैं अज्ञानी नहीं होते हैं। ज्ञानी होने पर भी वे भजना से पांच ज्ञानवाले होते हैं। (जहा अन्नाणस्स लदिया अलदिया य भणिया एव मह अन्नाणस्स सुय अन्नाणस्स य लदिया य अलदिया य भाणियव्वा विमग्गनाणलदियाणं त्तिन्नि अन्नाणाइ नियमा, तस्स अलदियाणं पक्षनाणाइ भयणाए, दो अन्नाणाइ नियमा) जिस प्रकार से अज्ञान लम्बिकावाले और अज्ञान लम्बिका बिना क जीव कहे उसी प्रकार से मत्पज्ञान भुताज्ञान लम्बिकावाले और उनकी लम्बिका बिना क जीव कहना चाहिये। विमग्गज्ञान लम्बिकावाले जीवोंके नियम से

अज्ञानी होय है। 'गोपमा' हे गौतम ! नो नाणी अन्नाणी त्तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' अज्ञान लम्बिकावाला एव ज्ञानी होता नहीं पक्ष अज्ञानी होय है अने तेन्ने अज्ञानाणी अथ अज्ञानवाला होय है 'तस्स अलदियाय पुच्छा' हे भदन्त ! ने एव अज्ञान लम्बिका वरना होय है ते ज्ञानी होय है हे अज्ञानी ! 'नाणी नो अन्नाणी पक्षनाणाइ भयणाए' हे गौतम ! अज्ञान लम्बिका बिना एव ज्ञानी होय है अज्ञानी होता नहीं अने अज्ञानाणी पाक्ष अज्ञानवाला होय है 'जहा अन्नाणस्स लदिया, अलदियाय भणिया एव मह अन्नाणस्स, सुय अन्नाणस्स य लदियाय, अलदियाय भाणियव्वा विमग्गनाणलदियाणं त्तिन्नि अन्नाणाइ नियमा तस्स अलदियाय पक्षनाणाइ भयणाए दो अन्नाणाइ नियमा' हे गौतम ! अज्ञान लम्बिकावाला अने अज्ञान लम्बिका बिना एव कहे है तेहीन हीते मत्पज्ञान, भुताज्ञान, लम्बिकावाला अने तेहीन लम्बिका बिना एव नियमों पक्ष अज्ञान होयुं, विलम्बिका लम्बिकावाला एवने

टीका-अधुना नवमे लब्धद्वारे लब्धिभेदानाह- 'कइविहा णं भंते' इत्यादि । 'कइविहा णं भंते ! लद्धी पणत्ता ?' गौतमः पृच्छति- हे भदन्त ! कतिविधा क्रियत्प्रकारा खलु लब्धिः प्रज्ञप्ता तत्र लब्धि = तत्तत्कर्मक्षयादितः आत्मनो ज्ञानादिगुणलाभ, प्रज्ञप्ता ? कथिता ? भगवानाह- 'गोयमा ! दसविहा लद्धी पणत्ता' हे गौतम ! दशविधा लब्धि प्रज्ञप्ता, तदेवाह- 'तंजहा ? नाणलद्धी, २ दंसणलद्धी, ३ चरित्तलद्धी, ४ चरित्ताचरित्तलद्धी, ५ दाणलद्धी, ६ लाभलद्धी, ७ भोगलद्धी, ८ उवभोगलद्धी, ९ वीरियलद्धी, १० इंदियलद्धी, तद्यथा १ ज्ञानलब्धि, २ दर्शन-

तीन अज्ञान होते हैं । और जो विभंग ज्ञान लब्धि से रहित होते हैं उनके भजना से पांच ज्ञान होते हैं या नियम से दो अज्ञान होते हैं ।

टीकार्थ- सूत्रकारने इस नौवे लब्धिद्वारमें लब्धिके भेदोंको कहा है, इसमें गौतमने प्रभु से ऐसा पूछा है कि 'कइ विहाणं भंते ! लद्धी पणत्ता' हे भदन्त ! लब्धियां कितने प्रकारकी कही गई हैं ? प्रतिबन्धक कर्म के क्षयादिक से आत्माको ज्ञानादिक गुणोंका लाभ होना इसका नाम लब्धि है । इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'दसविहा लद्धी पणत्ता' लब्धियां दश प्रकार की कही गई हैं । जो इस प्रकार से हैं- 'नाणलद्धी' एक ज्ञानलब्धि, दूसरी 'दंसणलद्धी' दर्शनलब्धि, तीसरी 'चरित्तलद्धी' चारित्र्यलब्धि, चौथी 'चरित्ताचरित्तलद्धी' चारित्र्याचारित्र्यलब्धि, पांचवी 'दाणलद्धी' दानलब्धि, छठी 'लाभलद्धी' लाभलब्धि, सातवीं 'भोगलद्धी' 'भोगलब्धि, आठवीं 'उवभोगलद्धी' उपभोगलब्धि, नौवीं 'वीरियलद्धी' वीर्यलब्धि, दशवीं

नियमथी त्रय अज्ञान होय छे अने विलगज्ञानलब्धि विनाना भवने तेमने लब्धनाथी पांच ज्ञान होय छे अगर नियमथी के अज्ञान होय छे

टीकार्थ - सूत्रकारे आ नवमा लब्धिद्वारमा लब्धिना भेदा कला छे जेमां गौतम स्वामी प्रभुअ जेवु पूछे छे हे ' कइविहाणं भंते लद्धी पणत्ता ' हे भदन्त ! लब्धियां डेटला प्रकारनी कडेकी छे प्रतिबन्धक कर्मना क्षयादिकथी आत्माने ज्ञानादिक गुणोना लाभ थवे तेनु नाम लब्धि छे ७- ' गोयमा ' हे गौतम ! ' दसविहा लद्धी पणत्ता ' लब्धियां दश प्रकारनी कडेकी छे जे आ प्रकारे छे ' नाणलद्धी १, ज्ञानलब्धि १, दंसणलद्धी २, दर्शन लब्धि २, चरित्तलद्धी ३, चारित्र्य लब्धि ३, चरित्ताचरित्तलद्धी ४, चारित्र्याचारित्र्य लब्धि ४, दाणलद्धी ५, दान लब्धि ५, लाभलद्धी ६, लाभ लब्धि ६, भोगलद्धी ७, भोग लब्धि ७, उवभोग लद्धी ८, उपभोग लब्धि ८, वीरियलद्धी ९, वीर्य लब्धि ९, इंदिय लद्धी १०,



दृग्भिः, ३ चारित्र्यलब्धिः ४ चारित्र्यचारित्र्यलब्धिः, ५ ज्ञानलब्धिः, ६ साधनलब्धिः, ७ भोगलब्धिः, ८ उपभोगलब्धिः, ९ धीर्यलब्धिः १० इन्द्रियलब्धिः । तत्र ज्ञानस्य मतिश्रुतादिस्मरणस्य पञ्चमप्रकारस्य विशुद्धयोरूपस्य तथाविधदानावरणक्षय-क्षयोपशमार्थं यथासमवर्तन्निवृत्तः ज्ञानलब्धिः १ दर्शनं क्वचिद्विषयः आत्मनः परिणामः, तस्य लब्धिः दर्शनलब्धिः २, चारित्र्यम् चारित्र्यमोहनीयकर्मणः क्षयात्, उपशमनात्, क्षयोपशमार्थं वा जायमानो विरतिलक्षणः नीचपरिणामः, तस्य लब्धिः चारित्र्यलब्धिः ३, चारित्र्यश्च तदचारित्र्यश्चेति चारित्र्याचारित्र्यसमसासयम्, तस्य लब्धिः अप्रत्याख्यानकृपायक्षयोपशमजन्यो वेषाविरतिरूपः आत्मपरिणामधारित्र्याचारित्र्यलब्धिः, ४, पञ्चप्रकारान्तरायकर्मक्षय-क्षयोपशमजन्या दानादिपञ्चलब्ध्या घोष्या, तत्र पिशित्परिणामपूर्वक स्वकीयवस्तुन परस्वत्त्वापादनम्, तस्य लब्धिः दानलब्धिः ५, यत्रैव

‘इन्द्रियलब्धिः’ इन्द्रियलब्धिः । तथाविध ज्ञानावरणकर्मके क्षय अथवा क्षयोपशमसे यथासमवृत्त मतिश्रुत आदि पांच प्रकारके ज्ञानका लाभ होना इसका नाम ज्ञानलब्धि है । सम्पत्, मिथ या मिथ्यादानरूप आत्मपरिणाम का लाभ होना इसका नाम दर्शनलब्धि है । चारित्र्यमोहनीय कर्मके क्षयोपशमसे, क्षयसे या उपशमसे जायमान विरतिरूप आत्मपरिणाम की प्राप्ति का नाम चारित्र्यलब्धि है । अप्रत्याख्यान कृपायके क्षयोपशम से जायमान वेषाविरतिरूप आत्मपरिणामकी प्राप्ति का नाम चारित्र्याचारित्र्यलब्धि है । पांच प्रकारके अन्तराय कर्मके क्षय अथवा क्षयोपशमसे दानादिक पांच लब्धियाँ होती हैं- इनमें पिशित् परिणामपूर्वक अपनी वस्तु को पर के लिये दाना इसका नाम दान है- ‘अनुग्रहार्थं स्वस्वातिसर्गो दानम्’ ऐसा

उक्ति लब्धि १ तथा ते प्रकारना ज्ञानवरण कर्मना क्षय अथवा क्षयोपशमधी वेषाविरत मतिश्रुत आदि पांच प्रकारना ज्ञानना लाभ भवे तेनु नाम ज्ञान लब्धि २ सम्पत्मिथ या मिथ्यादान रूप आत्मपरिणामना लाभ भवे तेनु नाम दर्शन लब्धि ३ चारित्र्यमोहनीय कर्मके क्षयोपशमार्थं क्षयधी के उपशमधी यथासम विरतीरूप आत्मपरिणामनी प्राप्तिनु नाम चारित्र्य लब्धि ४ अप्रत्याख्यान कृपायके क्षयोपशमधी यथासम वेषाविरती रूप आत्मपरिणामनी प्राप्तिनु नाम चारित्र्याचारित्र्य लब्धि ५ पांच प्रकारना अन्तराय कर्मना क्षय अथवा क्षयोपशमधी प्रत्येके पांच लब्धिये दान ६ तेना विशेष परिणाम पूर्वक पीतानी वस्तुने पीतानी दान आपत्ती तेनु नाम दान लब्धि ७ ‘अनुग्रहार्थं स्वस्वातिसर्गो दानम्’ जेनु सिद्धांतनु वक्तु ८ तेनी

परस्वत्वापादनं कृतं तदगैव गृह्यमाणं प्रतिग्रहीत्रा आदेयलाभः, तस्य लब्धिः  
लाभलब्धिः ६, भोगलब्धिः- भोगो मनोहारिशब्दादिविषयानुभवनम् तस्य,  
लब्धिः भोगलब्धिः ७, अथ च पौनःपुन्येनय न्योपयोगः संभवति स वस्त्र-  
भवनादिः उपभोगो व्यवह्रियते तस्य लब्धिरुपभोगलब्धिः ८, वीर्यलब्धिः-  
वीर्यमात्मपरिणामो विशेषचेष्टालक्षणस्नस्य लब्धिः वीर्यलब्धिः ९, तथा-  
इन्द्रियाणां स्पर्शनादीनां मतिज्ञानावरणक्षयोपशमसंभूतानामेकेन्द्रियादिजाति-  
नामरुमोदयनियमितक्रमाणा पर्याप्तकामरुमादिसामर्थ्यसिद्धानां द्रव्यभाररूपाणां  
लब्धिरात्मन इति इन्द्रियलब्धिः १०, ।

सिद्धान्तका कथन है- उसकी लब्धि होना- इसका नाम दानलब्धि  
है । प्रतिग्रहीताको दिये गये दानसे जो लाभ प्राप्त होता है उसका  
नाम लाभलब्धि है- यह लाभलब्धि लाभान्तराय कर्मके क्षयादिकसे  
प्राप्त होती है । मनोहारी शब्दादिक विषयोंका अनुभवन करना  
इसका नाम भोग है- इस भोग की प्राप्ति का नाम भोगलब्धि है ।  
जिस वस्तुका बारबार उपयोग होता है उसका नाम उपभोग है-  
जैसे वस्त्र, भवन आदि- इसकी प्राप्ति होना सो उपभोगलब्धि है ।  
भोग और उपभोगका लक्षण इस प्रकारसे सिद्धान्तकारोंने कहा है-  
'भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो, भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः ।

उपभोगोऽज्ञानवसनप्रभृति पचेन्द्रियो विषयः ॥'

आत्माका विशेषचेष्टा रूप जो परिणाम है उसका नाम वीर्य है,  
इस वीर्यको लब्धिका नाम वीर्यलब्धि है । मतिज्ञानावरण कर्म के

लब्धि यवी तेनु नाम दान लब्धि छे अतः हिताने (लेनाग्ने) आपेला दानथी ने लाल  
प्राप्त थाय तेनु नाम लाललब्धि छे आ लाभ लब्धि लालान्तराय कर्मना क्षमादिकथी  
प्राप्त थाय छे मनोहारी शब्दादि विषयने अनुभव करवे तेनु नाम भोग छे, तेनी  
प्राप्तितुं नाम भोगलब्धि छे (एक वपत भोगववामा आवे ते भोग छे बारवार  
भोगववामा आवे ते उपभोग छे नेभडे वस्त्र, भवन धत्यादि) तेनी प्राप्तीनु डोलुं ते  
उपभोग लब्धि छे भोग अने उपभोगनु लक्षण सिद्धांतकाराये नीचे प्रमाणे दर्शावे छे -

'भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो' धत्यादि.

आत्मानुं विशेष चेष्टाअप ने परिणाम छे तेनु नाम वीर्य छे ते वीर्यनी  
लब्धितु नाम वीर्यलब्धि छे मतिज्ञानावरण कर्मना क्षयोपशमथी लावेन्द्रियतुं तथा  
अेकेन्द्रियार्थं ज्ञाति नाम कर्मना उदयथी तथा पर्याप्त नाम कर्मना उदयथी प्राप्त

गौतमः पृच्छति— 'नाणसूदी ण मते ! कइविहा पण्णाचा ?' हे भदन्त !  
 ज्ञानलब्धिः स्वच्छ कतिविधा कियत्प्रकारा प्रज्ञप्ता ? भगवानाह— 'गोयमा !  
 पचविहा पण्णाचा' हे गौतम ! ज्ञानलब्धिः पञ्चविधा प्रज्ञप्ता, 'तमहा—आमिणि  
 बोद्धियणाणसूदी भाव केवलणाणसूदी' तथा— आमिनिबोधिकज्ञानलब्धिः  
 मतिज्ञानलब्धिरित्यर्थः यावत्— भुतज्ञानलब्धि, अवधिज्ञानलब्धिः, मनःपर्यष  
 ज्ञानलब्धिः, केवलज्ञानलब्धिश्च । अथ ज्ञानलब्धेरधिपरीतामज्ञानलब्धिप्ररूपयितु  
 पृच्छति— 'अज्ञानसूदी ण मते ! कइविहा पण्णाचा ?' हे भदन्त ! अज्ञानलब्धि  
 स्वच्छ कतिविधा प्रज्ञप्ता ? भगवानाह— 'गोयमा ! तिविहा पण्णाचा' हे गौतम !

क्षयोपशमके प्राप्त भावेन्द्रियका तथा एकेन्द्रियादि जानि नाम कर्मके  
 उदयसे तथा पर्याप्तनामकर्मके उदयसे प्राप्त द्रव्येन्द्रियका लाभ होना  
 अर्थात् द्रव्येन्द्रिय एष भावेन्द्रियरूप इन्द्रियोंकी प्राप्त होना इसका  
 नाम इन्द्रियलब्धि है । अथ गौतम प्रश्नसे ऐसा पृच्छते हैं—  
 'नाणसूदीण मते ! कइविहा पण्णाचा' हे भदन्त ! ज्ञानलब्धि कितने  
 प्रकारकी कही गई है ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा ! पचविहा  
 पण्णाचा' हे गौतम ! ज्ञानलब्धि पाँच प्रकारकी कही गई है । 'तंजहा'  
 जैसे— आमिणिबोद्धियणाणसूदी, जाव केवलणाणसूदी' आमिणि  
 बोधिकज्ञान—मतिज्ञानलब्धि, भुतज्ञानलब्धि, अवधिज्ञानलब्धि, मनः  
 पर्यषज्ञानलब्धि और केवलज्ञानलब्धि । अथ गौतम इस ज्ञानलब्धिसे  
 धिपरीततायाकी अज्ञानलब्धिके विषयमें प्रश्न पृच्छत हैं— 'अज्ञान  
 सूदीण मते ! कइविहा पण्णाचा' हे भदन्त ! अज्ञानलब्धि कितने  
 प्रकारकी कही गई है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा तिविहा पण्णाचा'

द्रव्येन्द्रियतु नाम ताव उ अर्थात् द्रव्येन्द्रिय अने भावेन्द्रिय रूप धिपरीतनी प्रपत्ती कही  
 तनु नाम धिन्द्रिय लब्धि उ अर्थः ' नाणसूदीण मते कइविहा पण्णाचा '  
 ज्ञान लब्धि केला प्रश्नानी उ ? तेना उत्तरमा प्रश्न इवे उ । ' गोयमा ' ' पचविहा  
 पण्णाचा ' हे गौतम । ज्ञान लब्धि पाँच प्रकारनी उ ते ' तमहा ' अनेके ' आमिणि  
 बोद्धियणाणसूदी भाव केवलणाणसूदी ' अकिनिबोधिः ज्ञान मतिज्ञान लब्धि  
 भुतज्ञान लब्धि अवधि ज्ञान लब्धि मन पर्यष ज्ञान लब्धि अने केवला ज्ञान लब्धि इवे  
 ओक्ता स्वाभी ज्ञान लब्धिधी विपरीत स्वप्नवाणी अज्ञान लब्धित्त विषयमा प्रश्नने  
 पूठे उ ' अज्ञानसूदी ण मते कइविहा पण्णाचा ' हे भदन्त ! अज्ञान लब्धि केला  
 प्रश्ननी केवली उ ' गोयमा ' ' तिविहा पण्णाचा ' हे गौतम ! अज्ञान लब्धि पच

अज्ञानलब्धिः खलु त्रिविधा प्रज्ञप्ता, 'तंजहा-मइअन्नाणलद्धी, सुयअन्नाणलद्धी, विभंगनाणलद्धी' तद्यथा-मत्यज्ञानलब्धिः, श्रुताज्ञानलब्धिः, विभङ्गज्ञानलब्धिः, ।  
 गौतमः पृच्छति- 'दंसणलद्धी णं भंते! कइविहा पणत्ता' हे भदन्त !  
 दर्शनलब्धिः खलु कतिविधा प्रज्ञप्ता? भगवानाह- 'गोयमा ! तिविहा पणत्ता'  
 हे गौतम ! दर्शनलब्धिः खलु त्रिविधा प्रज्ञप्ता, 'तंजहा - सम्मदंसणलद्धी,  
 मिच्छादंसणलद्धी, सम्मामिच्छादंसणलद्धी ' तद्यथा - सम्यग्दर्शनलब्धिः,  
 मिथ्यादर्शनलब्धिः, सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिः, तत्र मिथ्यात्वमोहनीय  
 कर्मोपशम-क्षय-क्षयोपशमजन्यः श्रद्धारूपलक्षणः आत्मपरिणामः सम्यग्दर्शन-  
 लब्धिः, मिथ्यात्वपुद्गलदलिकवेदनसमुद्भवो विपर्यासरूपो जीवपरिणामो

हे गौतम ! अज्ञानलब्धि तीन प्रकारकी कही गई है । जैसे-  
 'मइ अन्नाणलद्धी, सुय अन्नाणलद्धी, विभंगनाणलद्धी' मत्यज्ञानलब्धि,  
 श्रुताज्ञानलब्धि और विभङ्गज्ञानलब्धि । अब गौतम स्वामी प्रभुसे  
 ऐसा पूछते हैं- 'दंसणलद्धीणं भंते ! कइविहा पणत्ता' हे भदन्त !  
 दर्शनलब्धि कितने प्रकारकी कही गई है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं-  
 'तिविहा पणत्ता' हे गौतम ! दर्शनलब्धि तीन प्रकारकी कही गई है-  
 'तंजहा' जैसे- 'सम्म दंसणलद्धी, मिच्छा दंसणलद्धी, सम्मामिच्छा-  
 दंसणलद्धी' सम्यग्दर्शनलब्धि, मिथ्यादर्शनलब्धि, सम्यग्मिथ्यादर्शन-  
 लब्धि इनमें- मिथ्यात्वमोहनीय कर्मके उपशमसे, क्षयसे, अथवा  
 क्षयोपशमसे जन्य जो श्रद्धारूप आत्मपरिणाम प्राप्त होता है उसका  
 नाम सम्यग् दर्शनलब्धि है । अशुद्ध मिथ्यात्व पुद्गलके दलिकके  
 वेदनसे समुत्पन्न जो विपर्यासरूप जीव परिणाम होता है उसका नाम

प्रकारनी डेटवी छ नेभडे 'मइअन्नाणलद्धी विभंगनाणलद्धी' मत्यज्ञान लब्धि  
 श्रुतज्ञान लब्धि अने विभाज गान लब्धि प्रभः- 'दंसणलद्धीणं भंते कइविहा  
 पणत्ता' हे भगवन ! दर्शन लब्धि डेटला प्रकारनी डेटवी छ ? ७ - 'तिविहा पणत्ता'  
 हे गौतम ! दर्शन लब्धि त्रय प्रकारनी छ 'जहा' नेभडे 'सम्मदंसणलद्धी  
 मिच्छादंसण लद्धी सम्मामिच्छादंसणलद्धी सम्यग् दर्शन लब्धि, मिथ्या दर्शन लब्धि  
 अने सम्यग् मिथ्या दर्शन लब्धि तेमा मिथ्यात्व मोहनीय कर्मना उपशमथी, क्षयथी  
 अथवा क्षयोपशमथी थवावाणी श्रद्धारूप आत्मपरिणाम प्राप्त थाय छे तेनु नाम  
 सम्यग् दर्शन लब्धि छे अशुद्ध मिथ्यात्व पुद्गलना दलिकेना वेदनथी उत्पन्न थवावाणुं  
 ने विपर्यास रूप थव परिणाम रूप थाय छे. तेनु नाथ मिथ्या दर्शन लब्धि छे अर्ध

मिथ्यादर्शनलब्धिः, अर्धविशुद्धमिथ्यात्वपुद्गलद्रविकोटयसमुद्भवो मि  
 रुचिलस्रगो जीवपरिणामः सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिः । गौतमः पृच्छति  
 'चरित्तल्लदी ण मते ! कइविहा पण्णात्ता' हे भदन्त ! चरित्रलब्धि खलु क्व  
 विधा प्रकृता ? भगवानाह- 'गोयमा ! पचविहा पण्णात्ता' हे गौतम ! चरि  
 त्तल्लब्धिः खलु पञ्चविधा प्रकृता, 'तज्जहा-सामाहयचरित्तल्लदी, छेदोपद्वावणि  
 चरित्तल्लदी परिहागविमुद्धिचरित्तल्लदी, सुहूमसपरायचरित्तल्लदी, अहक्स्वा  
 चरित्तल्लदी' तद्यथा- सामायिकचारित्रल्लब्धिः, छेदोपस्थापनीयचारित्रल्लब्धि  
 परिहारविशुद्धिचारित्रल्लब्धिः, सूक्ष्मसपरायचारित्रल्लब्धिः, यथास्यात्  
 चारित्रल्लब्धिः, तत्र १ - प्राणातिपातादिसावधयोगविरतिरुत्तमसामायिक  
 रूपचारित्रस्य लब्धि सामायिकचारित्रल्लब्धि, सामायिकचारित्रस्य द्विरिभ

मिथ्यादर्शनलब्धि है । अर्धविशुद्ध मिथ्यात्वपुद्गलके दलिकोष  
 उदयसे समुत्पन्न हुआ मिश्रलब्धि रूप जीवका परिणाम इसका नाम  
 सम्यग् मिथ्यादर्शनलब्धि है । अब गौतम प्रश्न से ऐसा पूछते हैं कि-  
 'चरित्तल्लदीणं मते ! कइविहा पण्णात्ता' हे भदन्त ! चरित्रलब्धि  
 कितने प्रकारकी कही गई है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं- 'गोयमा  
 हे गौतम ! पचविहा पण्णात्ता' चरित्रलब्धि पाच प्रकारकी कही गई  
 है- 'तज्जहा' वे उसके पाच प्रकार इस तरहसे हैं- 'सामाहयचरित्त  
 ल्लदी, छेदोपद्वावणिय चरित्तल्लदी, परिहारविशुद्धिचरित्तल्लदी, सुहूम  
 संपराय चरित्तल्लदी, अहक्स्वायचरित्तल्लदी,' सामायिक चरित्रल्लब्धि,  
 छेदोपस्थापनीय चारित्रल्लब्धि, परिहारविशुद्धिचारित्रल्लब्धि सूक्ष्म  
 सांपरायचारित्रल्लब्धि और यथास्यात् चारित्रल्लब्धि । प्राणातिपातादि  
 सावधयोगविरतिरूप सामायिकचारित्रका लाभ होना इसका नाम

विशुद्ध मिथ्यात्व पुद्गलका दलिकोष उदयसे उत्पन्न यथासंभव मिथ्य रूप समुत्पन्न  
 परिणाम तेषु नाम अर्धविशुद्धमिथ्या दर्शन लब्धि है प्रश्न - 'चरित्तल्लदी ण मते  
 कइविहा पण्णात्ता' हे भगवान् चरि म लब्धि डेटला प्रकृती है उ.- 'गोयमा'  
 हे गौतम ! 'पचविहा पण्णात्ता' चरित्र लब्धि पाच प्रकारकी कहेवा है 'तज्जहा'  
 'सामाहयचरित्त ल्लदी छेदोपद्वावणियचरित्तल्लदी परिहारविशुद्धचरित्त  
 ल्लदी, सुहूमसपरायचरित्तल्लदी, अहक्स्वायचरित्त ल्लदी' सामायिक चरित्र  
 लब्धि, छेदोपस्थापनीय चरित्र लब्धि परिणाम विशुद्ध चरित्र लब्धि संपराय चरित्र  
 लब्धि जने यथासं चरित्र लब्धि प्राणातिपातादि सावधयोग निरतीक्ष्ण सामायी  
 चरित्रल्लब्धि लाल यथा तेषु नाम सामायिक चरि म उ आ सामायिक चरित्र ल

इत्वरं, यावत्कथिकञ्च, तत्राल्पकालिकम् इत्वरम्, तच्च प्रथमान्तिमतीर्थङ्करतीर्थेषु अनारोपितव्रतस्य शिक्षकस्य भवति, यावत्कथिकञ्च यावज्जीविकं सामायिक-चारित्र, तत्र मध्यमद्वविंशतितीर्थङ्करतीर्थेषु महाविदेहविहरमाणतीर्थङ्कर-तीर्थवर्तिनां साधूनां बोध्यम्, तेषामुपस्थापनाया अभावात्, इत्वर सामायिकवतां साधूनामपि यावज्जीवं सावद्ययोगविरतिप्रतिज्ञानात् पुनश्छेदोप-स्थापनीयचारित्रग्रहणे पूर्वचारित्रत्यागापत्त्या प्रतिज्ञाभङ्गः कथं नेति न

सामायिक चारित्र हैं— यह सामायिकचारित्र दो प्रकारका होता है— एक इत्वर और दूसरा यावत्कथिक अल्पकालीनका नाम इत्वर है। इत्वर सामायिक चारित्र प्रथम और अन्तिम तीर्थंकरके तीर्थमें प्रथम दीक्षा लेनेवालेको होता है। यावज्जीव रहनेवाले सामायिकचारित्र का नाम यावत्कथिक सामायिक चारित्र है।

यह चारित्र मध्यम २२ तीर्थंकरोंके तीर्थमें महाविदेहमें विहर-माण तीर्थंकरोंके तीर्थमें वर्तमान साधुओंके होता है। क्योंकि उनमें उपस्थापनाका अभाव रहता है— इसका कारण यह है कि ये साधु ऋजु प्राज्ञ होते हैं। इस लिये इनके चारित्रमें दोष नहीं लगते हैं। यहां ऐसी आशंका नहीं करना चाहिये कि— 'इत्वर सामायिकवाले साधुओंके भी जो सामायिकचारित्र होता है वह भी तो यावत् जीव सावद्ययोगविरतिरूप होता है— क्योंकि इसमें सावद्ययोगके त्यागकी प्रतिज्ञा यावत्जीव रहती है फिर छेदोपस्थाप-नीयचारित्रके ग्रहण करनेमें पूर्वचारित्र के त्याग होने की आपत्ति से प्रतिज्ञाभंगरूप दोष क्यों नहीं लगता है !' क्यों कि छेदोपस्थापनीय-

प्रकारनु होय छे १ इत्वर अने श्रीलु यावत्कथित २ अल्पकालिननु नाम इत्वर छे. इत्वर सामायिक चारित्र्य पड़ेला अने छेदला तीर्थ करना तीर्थमा प्रथम दीक्षा लेवावाणाने थाय छे यावत्-लुवत पर्यंत रहेवावाणा सामायिक चारित्र्यनु नाम यावत्कथित सामायिक चारित्र्य छे आ चारित्र्य मध्यम २२ आवीशमा तीर्थ करेना तीर्थमा तथा महाविदेहमा विचरता तीर्थकरेना तीर्थमा वर्तमान साधुओने होय छे केभके तेमनामा उपस्थापनाने अभाव होय छे. तेनु कारणे छे छे साधु ऋजु अने प्राज्ञ होय छे तेथे तेमना चारित्र्यमा दोष लागते नथी अर्ही अेवी शंका न ठरवी के इत्वर सामायिक साधुओने पशु ने सामायिक चारित्र्य होय छे ते पशु यावत्लुव सावद्योग विरतीइय होय छे केभके ओमा सावद्योगना त्यागनी प्रतिज्ञा यावत्लुव रहे छे पछी छेदोपस्थापनीय चारित्र्यना अर्हणु करवामा पड़ेलाना चारित्र्यना त्याग थवानी आपत्तिथी प्रतिज्ञा लंग होय लागते नथी केभके सामायिक चारित्र चारित्र्यमा पशु

वाच्यम्, छेदोपस्थापनीयचारित्र्येऽपि प्राणातिपातादिसाधयोगनिरतिसत्त्वेन प्रतिज्ञामद्भसमवात्, किन्तु तद्यारित्रस्य विशेषशुद्धिसम्भवेन नाममात्रत स्तगोर्मदा । २ - पूर्वचारित्र्यपर्यायसक्षणस्यप्राक्तनस्य यमस्य व्यवच्छेदे सति उपस्थापनीयम् अनगारे भारोपणीय छेदोपस्थापनीयचारित्र्य पूर्वचारित्र्य पर्याय व्यवच्छिद्य पुनर्महाव्रतारोपणमित्यर्थः, तद् द्विषिषं सातिचार निरतिचारं चेति, तत्र इत्तरसामायिकवत् प्रथमदीक्षितस्य पुनर्महाव्रतारोपणम्, अन्य तीर्थङ्करानगाराणाम् तीर्थङ्करान्तरतीर्थमषष्ठे वा निरतिचारचारित्र्यं भवति, यथा पार्श्वनाथस्यानगाराणां महावीरस्य तीर्थे समागत्य पञ्चमहाव्रतधर्मग्रहण

चारित्र्यमें भी प्राणातिपात आदि साधयोग की त्यागस्य चिरति रहती ही है- इसलिये प्रतिज्ञामद्भका दोष नहीं लगता है । छेदोपस्थापनीय चारित्र्यके चरण करनेसे पूर्वचारित्र्यमें विशेष शुद्धिकी सम्भावनासे उन दोनोंमें नाम मात्रका ही भेद है । छेदोपस्थापनीय-पूर्वकी चारित्र्यपर्यायका छेद करके पुन महाव्रतोंका उस अनगारमें आरोपण किया जाता है इस लिये इस चारित्र्यका नाम छेदोपस्थापनीय चारित्र्य ऐसा है । इस तरह यह चारित्र्य पूर्वचारित्र्यपर्यायको छेद करके पुनः महाव्रतोंको आरोपण करनेके निमित्त होता है । यह चारित्र्य सातिचार और निरतिचारके भेदस दो प्रकारका है । प्रथम दीक्षित इत्तर चारित्र्यवालेके पुन महाव्रतोंका आरोपण करना यह निरतिचार इत्तरिकचारित्र्य है । अथवा- अन्य तीर्थकरके अनगारोंका अन्य तीर्थङ्करके तीर्थमें प्रवेश करने पर यह निरतिचार चारित्र्य होता है । जैसे पार्श्वनाथके अनगारोंका महावीरके तीर्थमें आकरके पंचमहाव्रत

प्राणतिपातादि आचरणभावना त्यागश्च निरती रहे छे, तेथी प्रतिज्ञा कर्तना दोष वाच्ये नथी छे। उपस्थापनीय चारित्र्यना पारस्य कर्तव्यी पदवाच्य चारित्र्यभां विशेष शुद्धिनी च वाच्यना छे। चाथी ते जनेभां नाम मात्रने च कोइ छे छेदोपस्थापनीय पदवाच्य चारित्र्य पर्यायने छे। करीने करी महाव्रतानु ते अनगारभां आरोपण करण छे जेठ्ठे च्य चारित्र्यनु नाम छेदोपस्थापनीय चारित्र्य छे आ रीते च्य चारित्र्य पूव चारित्र्य पर्यायने छे। करीने पुन - करी महाव्रताने आरोपण करवामां निमित्त छे। च्य च्य चारित्र्य साधनचर कने निरतीवाच्यना कोरथी ने प्रवृत्तनु छे प्रथम शिक्षित इत्तर चारित्र्यवाच्यने करी महाव्रतानु आरोपण करनु ते निरतीचार इत्तर चारित्र्य छे अथवा अन्य तीर्थङ्करे अनगारानु अन्य तीर्थ करीना तीर्थभां प्रवेश करवायां च्य निरतिचार चारित्र्य वाच्य छे जेठ्ठे पार्श्वनाथना आनशरानु महावीरना तीर्थभां आवांने पंच महाव्रत धर्मनु

भवेत्, तथा समूलमहाव्रतघातिनामनगाराणां पुनर्महाव्रतग्रहणं सातिचार-  
चारित्रं भवति, ३-तपोविशेषः परिहारस्तेन आत्मनो विशुद्धिर्यस्मिस्तत् परिहार-  
विशुद्धिकं चारित्रं, तस्य लब्धिः-परिहारविशुद्धिकचारित्रलब्धिः, तच्चारित्रं  
द्विविधम्-निर्विशमानकम्, निर्विष्टकायिकञ्च, यथा नवसाधूनामेको गणरतत्र  
चत्वारः परिहारिकास्तपश्चरन्तो भवेयुः, चत्वारश्च वैयावृत्यकराः, एकश्च वाचना-  
चार्यो भवेत्, तत्राद्याश्चत्वारो निर्विशमानकाः, अन्तिमाः पञ्च निर्विष्टकायिका  
उच्यन्ते, तत्र निर्विशमानकानां जघन्येन तपोमानं - ग्रीष्मे ऋतो जघन्य  
एकोपवासः. मध्यमौ द्वावुपवासौ, उत्कृष्टास्त्रय उपवासाः; शिशिरे

धर्मका ग्रहण हुआ है । तथा समूल महाव्रतोंका घात करनेवाले  
साधुओंका जो फिरसे महाव्रतोंका ग्रहण करना होता है वह  
सातिचार चारित्र कहलाता है । तपोविशेषका नाम परिहार है । उस  
परिहारसे आत्माको विशुद्धि जिसमें होती है वह परिहार विशुद्धिक  
चारित्र है । इस चारित्रकी लब्धिका होना इसका नाम परिहार  
विशुद्धिकचारित्रलब्धि है । यह चारित्र दो प्रकारका होता है- एक  
निर्विशमानक और दूसरा निर्विष्टकायिक जैसे- नौ साधुओंका  
एक गच्छ होता है, इनमें चार साधु तप करनेवाले होते हैं,  
चार वैयावृत्य करनेवाले होते हैं और एक वाचनाचार्य होता है ।  
इनमें चार साधु जो तपस्या करते हैं वे निर्विशमानक और अन्तिम  
पांच निर्विष्टकायिक कहलाते हैं । निर्विशमानकोंका तप जघन्यरूपसे  
इस प्रकारसे हैं-ग्रीष्मऋतुमें जघन्य एक उपवास, मध्यम दो उपवास

अहणु थयुं छे तथा समूल महाव्रतेनो घात करवावाणा साधुओना न इरीथी  
महाव्रतेनो अहणु करवुं थाय छे ते सातिचार्य्य अरिन्थ्य कडेवाय छे तपो विशेषनु नाम  
परिहार छे ते परिहारथी आत्मानो विशुद्ध नेमा थाय छे ते परिहार विशुद्धि अरिन्थ्य  
छे ते अरिन्थ्यनी लब्धिनु थयु तेनु नाम परिहार विशुद्धिक अरिन्थ्य लब्धि छे. आ  
अरिन्थ्य मे प्रकारना होय छे १ निर्विशमानक, २ निर्विष्टकायिक नेमके नवसाधुओना  
ओक गच्छ होय छे तेमा आर साधु तप करवावाणा होय आर वैयावृत करवावाणा  
होय अने ओक वाचनाचार्य्य होय छे तेमा आर साधुओ तपस्या करे छे ते निर्विश  
मानक अने अतिम पांच निर्विष्ट कायिक कडेवाय छे निर्विशमानकेनु तप जघन्य  
इपथी आ प्रभावे छे-ग्रीष्म ऋतुमा जघन्य ओक उपवास, मध्यम मे उपवास अने  
उत्कृष्ट त्रय उपवास वर्षाऋतुमा जघन्य त्रय उपवास, मध्यम आर उपवास अने



जपयी द्वावुपवासा, मध्यमाश्रय उपवासाः, उत्कृष्टाश्रय उपवासाः, षण्ठी  
 जघन्याश्रय उपवासा, मध्यमाश्रय उपवासाः, उत्कृष्टा पञ्च उपवासाः,  
 पारणा, आधामश्र (आयसील) भवति, एवंरीत्या षण्मासावधि तपश्चरन्तान्तरं  
 तपश्चरका वैशाखस्य कुर्वन्ति, वैशाखस्यकराश्च षण्मासावधि तपश्चरन्ति,  
 ततो वाचनाचार्योऽपि षण्मासावधि तपश्चरति, तेषु एकौद्युः शेषा भूयै तद्  
 वैशाखस्यकरा भवन्ति, परिहारविशुद्धिकचारित्रनिघृष्टसस्तीर्यङ्कसकाशात्  
 केवलज्ञानिसकाशाद् वा चारित्रं गृह्णन्ति, अथवा तीर्यङ्करकेषमिनिकट  
 गृहीतमग्न्यस्यानगारस्य सकाशात् गृह्णन्ति ३, यत्र सूक्ष्मस्य स्वल्पस्य एव

और उत्कृष्ट तीन उपवास वर्षाश्रुतुमें जघन्य तीन उपवास, मध्यम  
 चार उपवास, उत्कृष्ट पांच उपवास, शिष्टारश्रुतुमें जघन्य दो उपवास,  
 मध्यम तीन उपवास, उत्कृष्ट चार उपवास पारणाके दिन आयषिल  
 करपन्थित निविष्टकायिक चार वैशाखस्य करनेवाले और एक  
 वाचनाचार्य ये- प्रतिदिन आयषिल करते हैं। इस रीतिसे छ मास  
 तपस्या करनेके बाद तप करनेवाले माघ वैशाखस्य करते हैं और  
 वैशाखस्य करनेवाले साधु छ मास तक तपस्या करते हैं। इसके  
 बाद वाचनाचार्य भी छ मास तक तपस्या करते हैं। इनमें से फिर  
 एक वाचनाचार्य बनता है, शेष आठ उसकी वैशाखस्य करनेवाले होते  
 हैं। परिहार विशुद्धिक चारित्र को ग्रहण करने की इच्छापाला साधु  
 तीर्यङ्कर या केवलज्ञानी के पास चारित्र ग्रहण करता है। अथवा  
 जिम माघने तीर्यङ्कर या केवली के पास मग्न्या ग्रहण की है  
 उससे भी इस चारित्र को ग्रहण करता है। जहाँ स्वल्प सपराय-

उत्कृष्ट पांच उपवास छ शिशिर ऋतुमा जघन्य छ उपवास, मध्यम चार उपवास  
 अन उत्कृष्ट चार उपवास अने तमाम चारषाने त्विसे ज्ञानविद्वेद छे अने कल्पित  
 निविष्टकायिक चार शिष्टार करवावाण्य अने अक वचनचार्य ते प्रथेक द्विसे  
 ज्ञानविद्वेद छे ते रीते छ मान सुधी तपस्य करे नाह तप करवावाणा साधु  
 वैशाख करे अने माघ ३ वावाण साधु छ भदि-ः सुधी तपस्या करे ते पञ्ची  
 वचनाचार्य पञ्च छ मास सुधी तपस्या करे अथ शि-तेजेभाषी जेक वाचनाचार्य  
 अने अन आहीना आठ तमनी वैशाखस्य करवावाण्य थाक छे परिहार विशुद्धिक  
 चारित्रिये अद्वय ३ वावाण साधु तप्य करे ना केवलज्ञानी नी पास चारित्र अद्वय करे छे  
 अथवा जे साधुनी तीर्यङ्करीनी के वैश्वीनी पास प्रबन्ध अद्वय करे छे तप तेमनी  
 पासैपी आ आर वनु अद्वय करे छे अथ २३०५ सपसा ३५५ दोआंशनी ७६५

संपरायस्य कषायस्य लोभांशरूपस्योदयो भवति तत् सूक्ष्मसंपरायचारित्र्यं तस्य लब्धिः सूक्ष्मसंपरायचारित्र्यलब्धिः, तच्चारित्र्यं द्विविधं-विशुद्ध्यमानकं, संक्लिश्यमानकं च तत्र विशुद्ध्यमानचारित्र्यं क्षपकश्रेण्याम् उपशमश्रेण्याञ्च-रोहकस्य भवति, संक्लिश्यमानकञ्च उपशमश्रेणितः अधःपतितस्य भवति ४, यत्र सर्वथा कषायोदयाभावो भवति तत् यथाख्यातचारित्र्यमुच्यते, येन प्रकारेण अकषायितया आख्यात यथाख्यातमिति व्युत्पत्तेः, तच्चापि द्विविधम्-उपशमकम्, क्षपकञ्च गौतमः पृच्छति - 'चरित्ताचरित्तलद्धीणं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ?' हे भदन्त ! चारित्र्याचारित्र्यलब्धिः खलु देशविरतिलब्धिरूपा कतिविधा प्रज्ञप्ता ? भगवानाह- 'गोयमा ! एगागारा पण्णत्ता ' हे गौतम !

कषाय-लोभांश का उदय होता है वह सूक्ष्म संपराय चारित्र्य है । इस चारित्र्य की प्राप्ति का नाम सूक्ष्म संपराय चारित्र्यलब्धि है । यह चारित्र्य दो प्रकार का होता है- एक विशुद्ध्यमानक और दूसरा संक्लिश्यमानक इनमें विशुद्ध्यमानकचारित्र्य क्षपकश्रेणी और उपशम-श्रेणीमें चढ़नेवालेको होता है । और संक्लिश्यमानकचारित्र्य उपशम-श्रेणीसे नीचे गिरनेवाले के होता है । जिस चारित्र्य में कषाय के उदय का सर्वथा अभाव होता है वह यथाख्यातचारित्र्य है । यथा-येन प्रकारेण अकषायितया आख्यातं तत् यथाख्यातं' ऐसी यथाख्यात की व्युत्पत्ति है । यह चारित्र्य भी दो प्रकारका होता है एक उपशमक और दूसरा क्षपक । अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'चरित्ताचरित्तलद्धीणं भंते ! कइविहा पण्णत्ता' हे भदन्त ! चारित्र्या-चारित्र्यलब्धि कितने प्रकारकी कही गई हैं ? चारित्र्याचारित्र्यलब्धि का तात्पर्य देशचारित्र्यलब्धिसे है । इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं- 'गोयमा'

थाय छे ते चारित्र्यनुं नाम सूक्ष्म संपराय चारित्र्य लब्धि छे आ चारित्र्य के प्रकारनु छे १ विशुद्ध्यमानक अने २ संक्लिश्यमानक तेषां विशुद्ध्यमानक चारित्र्य क्षपकश्रेणी अने उपशम श्रेणीमां उडवावाणाअने होय छे अने संक्लिश्यमान चारित्र्य उपशमश्रेणीथी नीचे नवावाणा होय छे ने चारित्र्यमा कषायना उदयना सर्वथा अभाव होय ते यथाख्यात चारित्र्य छे 'यथा-येन प्रकारेण अकषायितया आख्यातं तत् यथाख्यातं' अथी यथाख्यातनी व्युत्पत्ति छे ते चारित्र्य पण्णु के प्रकारनु छे १ उपशम अने २ क्षपक प्रश्न :- 'चरित्ताचरित्तलद्धीणं भंते ! कइविहा पण्णत्ता' हे भदन्त ! चारित्र्याचारित्र्य लब्धि डेट्ठा प्रकारनी छी छे ? ( चारित्र्या चारित्र्य लब्धिनुं तात्पर्य देश चारित्र्य लब्धिथी छे ) उ :- 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगागारा पण्णत्ता' देश विरती लब्धिइय ते चारित्र्याचारित्र्य लब्धि अेक

चारिमाचारिभ्रलम्बिः एकाकारा एकप्रकारा एव प्रज्ञप्ता, मूलगुणोचरगुणानां तद्भेदानाश्चाविचक्षणात् द्वितीयकृपायक्षयोपश्रमजन्यपरिणाममात्रस्यैव च विचक्षणात् चारिमाचारिभ्रलम्बेरेकाकारत्व निम्नेयम्, 'एव जाव उचभोगलद्धी एगागारा पण्णा' एव चारिमाचारिभ्रलम्बिचक्षेव यावत्- दानलम्बि, सामलम्बि, भोगलम्बि, उपभोगलम्बिः एकाकारा प्रज्ञप्ता, -दानलम्ब्यादीनामपि अद्यान्तरभेदानामविचक्षणात् एकाकारत्वम् एकप्रकारकत्वमवसयमित्यर्थः । गौतम पृच्छति- 'वीरियलद्धिणं भते ! कइविहा पण्णाचा ?' हे भदन्त ! वीर्यलम्बिः स्वल्ल कतिविधा प्रज्ञप्ता ? मगधानाह- 'गायमा ! तिचिहा पण्णाचा'

हे गौतम ! 'एगागारा पण्णाचा' देशादिरिति लम्बिरूप यह चारिमाचारिभ्रलम्बि एक प्रकारकी ही कही गई है । यहा पर उसके मूलगुण और उचरगुणरूप भेदोंकी और उन भेदोंकी भी भेदोंकी विचक्षा नहीं की गई है । केवल द्वितीय कृपाय जो अप्रस्थाख्यात क्रोध मान माया और सोम है उनके क्षयोपश्रमसे जन्य परिणाम मात्रकीही विचक्षा की गई है अत इस चारिमाचारिभ्रलम्बि को एक प्रकारवाला कहा गया है । 'एव जाव उचभोगलद्धी एगागारा पण्णा' इसी तरहसे- चारिमाचारिभ्रलम्बिकी तरह ही यावत्- दानलम्बि, सामलम्बि, भोगलम्बि और उपभोगलम्बि ये लम्बियां भी एक एक प्रकारकीही कही गई है । यहाँ पर भी इनके अद्यान्तर भेदोंकी विचक्षा नहीं की गई है । अथ गौतम मनु से ऐसा पूछते हैं- 'वीरियलद्धिणं भते ! कइविहा पण्णाचा' हे भदन्त ! वीर्यलम्बि कितने प्रकारकी कही गई है ! इसके अक्षरमें मनु कहेते हैं 'गायमा' हे गौतम ! 'तिचिहा पण्णाचा'

प्रज्ञप्ती कहेली छे । कइविहा तेन भूणं शुभ्रं जने उत्तरं शुभ्रं भेदिनी जने ते वेदिना पयु वेदिनी विवक्षा करी नथी । केवल द्वितीय कृपाय जे अप्रस्थाख्यात क्रोध, भय, मान, माया, जने वेदिना छे तेना क्षयोपश्रमस्यैव स्थावत्या पत्त्याम मात्रनी जे विवक्षा करी छे जेदका माटे त बन्धिने जेक प्रज्ञप्ती कहेली छे 'एव जाव उचभोगलद्धी एगागारा पण्णाचा' जेन रीते चारिमाचारिभ्रलम्बिनी माहक यावत्-दान लम्बि, साम लम्बि, भोग लम्बि, उपभोगलम्बि जे लम्बिजे । पयु जेक प्रज्ञप्ती कही छे । कइविहा पयु तेजोना अद्यान्तर भेदिनी लभीछा (विवक्षा) करी नथी । जेने गौतम स्वामी लम्बि विचक्षण करवा कहे छे । वीरियलद्धिणं भते कइविहा पण्णाचा' हे भदन्त ! वीर्य लम्बि केदका प्रज्ञप्ती छे ? उत्तरमां प्रभु कहे छे 'गायमा' छे गौतम ।

હે ગૌતમ ! વીર્યલઘ્વિઃ ત્રિવિધા પ્રજ્ઞા 'તંજહા વાલવીરિયલઘ્વી, પંડિયવીરિયલઘ્વી, વાલપંડિયવીરિયલઘ્વી' તદ્વથા- વાલવીર્યલઘ્વિઃ, પણ્ડિતવીર્યલઘ્વિઃ, વાલપણ્ડિતવીર્યલઘ્વિઃ । વાલસ્ય-અસંયતસ્ય યદ્વીર્યમ્-અસંયમયોગેષુ પ્રવૃત્તિનિમિત્તભૂતમ્ તસ્ય યા લઘ્વિઃ સા વાલવીર્યલઘ્વિઃ, યદ્વા ચારિત્રમોહોદયાત્ વીર્યાન્તરીયક્ષયોપશમાન્ન જાયમાના યા લઘ્વિઃ સા વાલવીર્યલઘ્વિઃ, પણ્ડિતસ્ય સયતસ્ય યદ્વીર્યં સયમયોગેષુ પ્રવૃત્તિકારણભૂતં તસ્ય યા લઘ્વિઃ સા પણ્ડિતવીર્યલઘ્વિઃ, તથા વાલપણ્ડિતસ્ય તુ સયતાસંયતસ્ય દેશવિરતસ્ય યા લઘ્વિઃ

વીર્યલઘ્વિ ટીન પ્રકારકી કહી ગઈ છે- 'તંજહા' જૈસે- 'વાલવીરિયલઘ્વી પંડિયવીરિયલઘ્વી, વાલપંડિયવીરિયલઘ્વી' વાલવીર્યલઘ્વિ, પંડિતવીર્યલઘ્વિ, વાલપંડિતવીર્યલઘ્વિ. અસંયમ યોગોમે પ્રવૃત્તિકા નિમિત્તભૂત જો અસંયત જીવકા-સંયમરહિત અજ્ઞાની જનકા વીર્ય છે વહ વાલવીર્ય છે- ઇસ વાલવીર્યકી લઘ્વિ કા નામ વાલવીર્યલઘ્વિ છે । તાત્પર્ય કહનેકા યહ છે કિ સંયમરહિત જીવ કી અજ્ઞાનપૂર્વક જો કષ્ટાનુષ્ઠાનમે પ્રવૃત્તિ હોતિ છે વહ વાલવીર્યલઘ્વિ છે । યહ લઘ્વિ ચારિત્ર મોહનીય કર્મકે ઉદયસે ઓર વીર્યાન્તરાય કર્મકે ક્ષમોપશમસે પ્રાપ્ત હોતી છે । જિસ લઘ્વિકી પ્રાપ્તિસે સંયમમે જીવકી પ્રવૃત્તિ હોતી છે વહ પણ્ડિતવીર્યલઘ્વિ છે । યહાં પર પણ્ડિત શબ્દકા અર્થ સંયત છે । સંયતકી વીર્યલઘ્વિ ઉસે સંયમયોગોમે પ્રવૃત્તિકી કારણભૂત હોતી છે । તથા જિસ લઘ્વિસે દેશવિરતિમે પ્રવૃત્તિ હોતી છે વહ વાલપણ્ડિત-

'ત્રિવિધા પણ્ણત્તા' વીર્યલઘ્વિ ત્રણ પ્રકારની કહી છે 'તંજહા' જેમકે વાલવીરિયલઘ્વી પંડિયવીરિયલઘ્વી વાલપંડિયવીરિયલઘ્વી ' વાલવીર્ય લઘ્વિ, પંડિતવીર્ય લઘ્વિ અને વાલપંડિત વીર્ય લઘ્વિ. અસંયમ યોગોમા પ્રવૃત્તિના નિમિત્તભૂત જે અસંયત જીવનું-સંયમ વિનાના અજ્ઞાની જનનુ વિનાના અજ્ઞાની જનનુ વીર્ય હોય છે તે વાલવીર્ય છે. તેનુ નામ વાલવીર્ય લઘ્વિ છે તાત્પર્ય કહેવાનું એ છે કે સંયમ વિનાના જીવેનુ અજ્ઞાનપૂર્વક જે કષ્ટપૂર્વક અનુષ્ઠાનમા પ્રવૃત્તિ હોય છે તે વાલવીર્ય લઘ્વિ છે આ લઘ્વિ ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયથી અને વિર્યાન્તરાય કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રાપ્ત થાય છે જે લઘ્વિકી પ્રાપ્તિથી સંયમમા જીવની પ્રવૃત્તિ થાય છે તે પંડિતવીર્ય લઘ્વિ છે અહીં પંડિત શબ્દનો અર્થ સંયત એવો છે સંયતની વીર્યલઘ્વિ જેને સંયમ યોગોમા પ્રવૃત્તિની કારણભૂત હોય છે તથા જે લઘ્વિકી દેશવિરતિમા પ્રવૃત્તિ હોય છે તે વાલ પંડિત વીર્યલઘ્વિ હોય છે વાલપંડિત શબ્દનો

सा बासपण्डितधीर्यलम्बिः । गौतम पृच्छति- इदियलम्बी क्व मते । कश्चि  
 पण्यत्ता ?' हे भदन्त ! इन्द्रियलम्बि स्वसु कतिपिषा मगधा ? मगधाना  
 'गोयमा ! पंचविहा पण्यत्ता' हे गौतम ! इन्द्रियलम्बिः स्वसु पञ्चविषा प्र  
 'तजहा-सोइदियलम्बी, जाष फासिदियलम्बी' तद्यथा- ओत्रेन्द्रियलम्बि  
 यावत्-प्राणेन्द्रियलम्बि, रसनेन्द्रियलम्बि, बभ्रुरिन्द्रियलम्बि, स्पर्शन्दि  
 लम्बिः । गौतम पृच्छति-नाणलम्बिया क्व मते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी  
 हे भदन्त ! ज्ञानलम्बिकाः ज्ञानस्य लम्बिये पांने तथा ज्ञानलम्बिम त इत्य  
 जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? मगधानाह- 'गायमा  
 नाणी, नो अन्नाणी, भस्येगइया दुन्नाणी, एव प च नाणाइ भयणा

धीर्यलम्बि है । बालपण्डित शम्भुका अर्थ यहाँ पर सयतासयत-दे  
 बिरति भावक लिया गया है । अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं  
 'इदियलम्बिण मते ! कश्चिहा पण्यत्ता' हे भदन्त ! इन्द्रियलम्बि  
 कितन प्रकारकी कही गई है ? उधरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा  
 हे गौतम ! 'पंचविहा पण्यत्ता' इन्द्रियलम्बि पांच प्रकारकी कही गई  
 है । 'तजहा' जैसे- 'सोइदियलम्बी, जाष फासिदियलम्बी' ओत्रेन्द्रिय  
 लम्बि, यावत् बभ्रुरिन्द्रियलम्बि, प्राणेन्द्रियलम्बि, रसनेन्द्रियलम्बि, और  
 स्पर्शनेन्द्रियलम्बि । अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं- 'नाणलम्बियाणं  
 मते । जीवा किं नाणो, अन्नाणी' हे भदन्त ! जो ज्ञानलम्बिवाले  
 जीव है वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उधर में प्रभु  
 कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी, नो अन्नाणी, भस्येगइया  
 दुन्नाणी, एव पचनाणाइ भयणाण' ज्ञानलम्बिवाले जीव ज्ञानी होते हैं,

अर्थ सवदासयत देवविरती भावक जेवो भाव उ प्रभु :- 'इदियलम्बीण मते  
 कश्चिहा पण्यत्ता' हे भगवन् । इदिय लम्बि देवता प्रकारनी कही उ उधरमा प्रभु  
 कहे उ हे 'गोयमा' हे गौतम । 'पंचविहा पण्यत्ता' इदिय लम्बि पांच प्रकारनी  
 कही उ 'तजहा' जैसे 'सोइदिय लम्बी, जाष फासिदियलम्बी, ओत्रेन्द्रिय  
 लम्बि, यावत्प्राणेन्द्रियलम्बि रसनेन्द्रिय लम्बि, बभ्रुरिन्द्रिय लम्बि अने स्पर्शनेन्द्रिय लम्बि

प्रभ - नाणलम्बियाणं मते जीवा किं नाणी अन्नाणी'  
 हे भगवन् । ज्ञान लम्बिवाला जेवो उ ज्ञानी देव उ अज्ञानी देव उ ? उ :-  
 'गायमा' हे गौतम । 'नाणी नो अन्नाणी भस्येगइया दुन्नाणी, एव  
 पचनाणाइ भयणाण' ज्ञानलम्बिवाला जेवो ज्ञानी देव उ, अज्ञानी देवा नबी न

हे गौतम ! ज्ञानलब्धिमन्तो जीवा ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिनः, तत्र सन्ति एकके केचन द्विज्ञानिनः, एव तेषां पञ्च ज्ञानानि भजनया-केचन त्रिज्ञानिनः, केचन चतुर्ज्ञानिनः, केचन एकज्ञानिनः, तत्रापि पूर्ववत् एकज्ञानिनः केवल-ज्ञानिनो भवन्ति । गौतमः पृच्छति- 'तस्स अलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! तस्य ज्ञानस्य अलब्धिका अलब्धिकमन्तो ज्ञानलब्धिरहिताः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह- 'गोयमा ! नो नाणी, अन्नाणी 'हे गौतम ! ज्ञानलब्धिरहिता जीवाः नो ज्ञानिनो भवन्ति, अपितु अज्ञानिन एव भवन्ति, तत्र 'अत्येगइया दुअन्नाणी तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए' सन्ति एकके केचन अज्ञानिनो जीवा द्वयज्ञानिनो

अज्ञानी नहीं होते । जो ज्ञानी होते हैं उनमें कितनेक दो ज्ञानवाले होते हैं, कितनेक तीन ज्ञानवाले होते हैं, कितनेक चार ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक एक ज्ञानवाले होते हैं । जो एक ज्ञानवाले होते हैं वे केवलज्ञानवाले होते हैं- दो ज्ञानवाले जो होते हैं वे अतिज्ञान और श्रुतज्ञानवाले होते हैं इत्यादि सब कथन पहिले जैसा जानना चाहिये । अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'तस्स अलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी? हे भदन्त ! जो ज्ञानलब्धिसे रहित होते हैं- ऐसे जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो नाणो अन्नाणी' ज्ञानलब्धि रहित जीव ज्ञानी नहीं होते हैं, किन्तु अज्ञानी ही होते हैं । इन अज्ञानी जीवोंमें 'अत्येगइया दु अन्नाणी तिन्नि अण्णाणाणि भयणाए' कितनेक जीव दो अज्ञानवाले होते हैं और कितनेक अज्ञानी जीव

ज्ञानी होय छे तेमा डेटलाक भे गानवाणा अने डेटलाक त्रयु ज्ञानवाणा अने डेटलाक चार ज्ञानवाणा अने डेटलाक अेक ज्ञानवाणा होय छे ने अेक ज्ञानवाणा होय छे-ते डेवणज्ञानवाणा न होय छे ने भे गानवाणा होय छे ते भतिज्ञान अने श्रुत ज्ञानवाणा होय ते धत्यादि समग्रकथन पहिलानी नेम समग्र वेवु प्रश्न - तस्स अलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' छे लगवन। ने श्रुतज्ञान लब्धि वगरना होय छे ते शु ज्ञानी होय छे डे अज्ञानी होय छे? उ :- ' नो नाणी अन्नाणी' गानलब्धि रहीत श्रुत ज्ञानी नही पणु अज्ञानी छे अने ते अज्ञानीओभां 'अत्येगइया दुअन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाणि भयणाए' डेटलाक श्रु वे अज्ञानवाणा, डेटलाक त्रयु अज्ञानवाणा होय छे ओ रीते त्रयु अज्ञानवाणानी सज्जना छे प्रश्न :-



बोधिकज्ञानस्य अलब्धिकाः लब्धिरहिताः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह— 'गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि' हे गौतम ! मतिज्ञानलब्धिरहिता जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि, तत्र 'जे नाणी ते नियमा एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी ते अत्येगडया दुअन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' मतिज्ञानलब्धिरहिता ये ज्ञानिनो भवन्ति ते नियमात् एकज्ञानिनः केवलज्ञानिनो बोध्याः, ये तु अज्ञानिनस्ते सन्ति एकके द्वयज्ञानिनः, तेषां त्रीणि अज्ञानानि भजनया, केचन त्रयज्ञानिनः इत्यर्थः, 'एवं सुयनाणलद्धिया वि' एवम् आभिनिबोधिकज्ञानलब्धिकवदेव श्रुतज्ञानलब्धिका

'तस्सअलब्धियाणं भंते ! जीवा किंनाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव आभिनिबोधिकज्ञानलब्धि से रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं 'नाणी वि, अन्नाणी वि' हे गौतम ! आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । इनमें 'जे नाणी ते नियमा एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी ते अत्येगडया दुअन्नाणी, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' जो ज्ञानी होते हैं वे नियम से एक केवलज्ञानसे ज्ञानी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं, उनमें कितनेक दो अज्ञानवाले होते हैं तथा इनमें जो तीन अज्ञानी होते हैं । वे भजना से होते हैं । अर्थात् कोई २ इनमें तीन अज्ञानवाले भी होते हैं । 'एवं सुयनाणलद्धिया वि' आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धि-वालों की तरह ही श्रुतज्ञान लब्धिवालोंको भी ज्ञानी ही जानना

हे भगवान ने अब आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धिही रहित होय छे तेओ शूं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? उ - 'नाणी वि अन्नाणी वि' हे गौतम ! आभिनिबोधिक ज्ञान लब्धिक वगरना अबे ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे तेमनामा 'जे नाणी ते नियमा एगनाणी केवलनाणी जे अन्नाणी ते अत्येगडया दुअन्नाणी तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' ने ज्ञानी होय छे ते नियमथी ओक ज्ञानवाणा होय छे अने ने अज्ञानी होय छे, तेमां डेटवाक वे अज्ञानवाणा अने त्रणु अज्ञानवाणा सज्जनाथी होय छे अर्थात् कोछ कोछ त्रणु अज्ञानवाणा पणु होय छे 'एवं सुयनाणलद्धियावि' आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धिवाणाओनी माइक न श्रुतज्ञानलब्धि-वाणाओने पणु ज्ञानी न समज्जा, अज्ञानी नही, ज्ञानीथेमा पणु कोछ वे ज्ञानवाणा अने



अपि अवसेया, तेषपिज्ञानिनो नो भ्रान्निन, तथापि केचन द्विज्ञानिनाः, केचन त्रिज्ञानिनः, कश्चन चतुर्ज्ञानिनो भवन्ति - इति भावः । 'तस्म अलदिया यि जहा आमिणिबोहियनाणस्स भलदिया' तस्य भुतज्ञानस्य अलम्बिका अपि लम्बिरहिता अपि जीवा यथा आमिनिबोधिक्-ज्ञानस्य अलम्बिका पूर्ववर्णितास्तप्यैव ज्ञानिनोऽपि, भ्रान्निनोऽपि, य ज्ञानिनस्ते नियमात् एकज्ञानिनः केवलज्ञानिनः, ये अज्ञानिनस्ते मननया कश्चन द्वयज्ञानिनः, केचन त्रयज्ञानिनो भवन्ति इति भावः । गौतम पृच्छति- 'आहिनाणलदिया ण पुच्छा ?' हे भवन्त ! अवधिज्ञानलम्बिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनः ? किंवा भ्रान्निनो भवन्ति ? इति पृच्छा महनः, मगवानाह- 'गोयमा ! नाणी, नो अभाणी' हे गौतम ! अवधिज्ञानलम्बिमन्तः ज्ञानिना भवन्ति, नो भ्रान्निनः, तथापि 'अत्येगइया तिस्राणी, अत्येगइया चउनाणी'

आहिणे अज्ञानी नहीं, ज्ञानियों में कोई दो ज्ञानवाले कोई तीन ज्ञानवाले और कोई चार ज्ञानवाले होते हैं । 'तस्म अलदिया यि जहा आमिणिबोहियनाणस्स अलदिया' भुतज्ञानकी लम्बि से रहित जीव भी आमिनिबोधिकज्ञानलम्बि से रहित जीवोंकी तरह ही जानना चाहिये । अर्थात् इनमें ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । जो ज्ञानी होते हैं वे नियमसे एक ज्ञान केवलज्ञान से ज्ञानी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वे भजना से कितनेक दो अज्ञानवाले होते हैं, और कितनेक तीन अज्ञानवाले होते हैं । अब गौतमम्हामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं 'ओहिनाणलदियाण पुच्छ' हे भवन्त ! अवधिज्ञान लम्बिक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर दते हुए प्रश्न कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी, नो अभाणी' अवधिज्ञान लम्बिक जीव ज्ञानी ही होते हैं, अज्ञानी नहीं होत । ज्ञानीमें 'अत्येगइया तिस्राणी, अत्ये

इस चार ज्ञानवाले के अति तस्म अवदियायि जहा आमिणिबोहियनाणस्स अलदिया' भुतज्ञान लम्बि वरन्त अने एक आमिनीबोधिक ज्ञानलम्बि रहित अज्ञानी भ्रान्त समझना, अर्थात् तेमन्तभा इतराक ज्ञानी केवाक अज्ञानी प्रश्न के अति अज्ञानी के ज्ञानी के अति ते नियमधी के ज्ञान-केवलज्ञानवाले के अति अने ते अज्ञानी के अति तेमन्तभा अने के इतराक ते अज्ञानवाला अने इतराक एक अज्ञानवाले के अति अज्ञान - आहिनाणलदियाण पुच्छा' हे भवन्त ! अवधिज्ञान लम्बिमन्त अने ज्ञानी वाप्ये के अज्ञानी ? - 'गोयमा' के बी म । 'नाणी नो अभाणी' अवधिज्ञान लम्बिमन्त अने ज्ञानी के अति अज्ञानी केवा नथी. ज्ञानीमें अर्थात्

सन्ति एक्के केचन अवधिज्ञानलब्धिकाः त्रिज्ञानिनः, केवलमनःपर्यवज्ञाना  
सद्भावे त्रिज्ञानिनो भवन्ति, सन्ति एक्के केचन चतुर्ज्ञानिनो भवन्ति, तेषां  
केवलज्ञानाभावात्, तत्र-जे तिन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी  
ओहिनाणी' ये त्रिज्ञानिनोऽवधिज्ञानलब्धिकास्ते आभिनिबोधिक ज्ञानिनः,  
श्रुतज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनो भवन्ति, 'जे चउनाणी ते आभिणिवोहियनाणी,  
सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी' ये तु चतुर्ज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिक-  
ज्ञानिनः, श्रुतज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिनो भवन्ति । गौतमः  
पृच्छति- 'तस्स अलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त!  
तस्य अवधिज्ञानस्य अलब्धिका लब्धिका लब्धिरहिताः खलु जीवाः किं  
ज्ञानिनः, अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह- 'गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि,

गइया चउनाणी' कितनेक जीव तीन ज्ञानवाले होते हैं और  
कितनेक चार ज्ञानवाले होते हैं । जो तीन ज्ञानवाले होते हैं उनके  
मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान नहीं होता है और जो चार ज्ञानवाले  
होते हैं उनको केवलज्ञान नहीं होता है. 'जे तिन्नाणी ते आभिणि-  
बोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी' यही बात त्रिज्ञानी होनेमें इस  
सूत्रपाठ द्वारा प्रकट की गई है । तथा 'जे चउनाणी ते आभिणि-  
बोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी' चार ज्ञानों से  
ज्ञानी होनेकी बात इस सूत्रपाठ द्वारा प्रकट की गई है । अब गौतम  
प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'तस्स अलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी  
अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव अवधिज्ञानलब्धिवाले नहीं होते हैं  
वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं उत्तरमें प्रभु कहते हैं-

' अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउ नाणी ' डेट्ठाड्ठ एव तथु ज्ञानवाणा अने  
डेट्ठाड्ठ एव चार ज्ञानवाणा होय छे जे तथु ज्ञानवाणा होय छे तेमनामा मन.पर्यव-  
ज्ञान अने डेवणज्ञान होतु नथी अने जे चार ज्ञानवाणा होय छे तेमने डेवणज्ञान  
होतु नथी जे ' तिन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहियनाणी '  
जे तथु ज्ञानवाणा होय छे तेओ आभिनिबोधिक ज्ञानश्रुतज्ञान, अने अवधिज्ञान ओ तथु  
ज्ञानवाणा होय छे ' जे चउनाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी ओहियनाणी,  
मणपज्जवनाणी ' चार ज्ञानथी ज्ञानी होवानी वात उपरना सूत्रपाठथी स्पष्ट थाय छे  
प्रश्न.- ' तस्स अलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ' हे भदन्त ! जे एव  
अवधिज्ञान लब्धिवाणा नथी होता ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? ७ :-

हे गौतम ! अबधिज्ञानलम्बिरहिता ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति 'एष ओहिनामवज्जाइ चचारि नाणाइ, तिन्निअण्णाणाइ भयणाए' एव स्वच्छ अबधिज्ञानवर्जानि स्वस्वारिज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि च भजनया भवन्ति, तथा चाबधिज्ञानम्य लम्बिरहिता य ज्ञानिनस्त मतिभुतापेक्षया द्विज्ञानिनः, मतिभुतमनःपर्यवज्ञानापेक्षया त्रिज्ञानिनः, केवलज्ञानापेक्षया एकज्ञानिनो भवन्ति, ये तु अज्ञानिनस्ते मस्पज्ञान-भुताज्ञानापेक्षया द्वयज्ञानिनः, विमङ्गज्ञान सहितापेक्षया च व्यज्ञानिनो भवन्तीति भाष । गौतमः पृच्छति- 'मण पञ्चवनाणलद्वियाण पुच्छा' भदन्त ! मनःपर्यवज्ञानलम्बिकाः स्वच्छ त्रीणाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिना वा भवन्ति ? इति पृच्छा प्रश्नः 'मगवानाइ- 'गोयमा ! नाणी, गो अभाणी' हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञानलम्बिकाः जीवा 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी चि अभाणी चि' जो जीव अबधिज्ञान लम्बिवाले नहीं होते हैं वे ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । 'एष ओहिनामवज्जाइ चचारि नाणाइ तिन्नि अण्णाणाइ मयणाए' जो ज्ञानी होते हैं व मतिज्ञानवाले, भुतज्ञानवाले होते हैं । तथा- मतिज्ञान, भुतज्ञान और मनःपर्यवज्ञानवाले होते हैं, तथा एकज्ञान-केवलज्ञानवाले होते हैं । और जो अज्ञानी होते हैं वे मत्याज्ञान, भुताज्ञानकी अपेक्षासे दो अज्ञानवाले होते हैं, विमङ्गज्ञान सहितकी अपेक्षासे तीन अज्ञानवाले होते हैं । अब गौतम प्रश्नसे ऐसा पृच्छते हैं- 'मणपञ्चवनाणलद्वियाण पुच्छा' हे भदन्त ! मनःपर्यवज्ञानलम्बिवाले जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा ! 'नाणी गो अभाणी' हे गौतम !

'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी चि अभाणी चि' के रूप अबधिज्ञान लम्बि रहित देखे थे ते ज्ञानी पक्ष देखे थे अने अज्ञानी पक्ष देखे थे 'एष ओहिनाम वज्जाइ चचारिनाणाइ तिन्नि अण्णाणाइ मयणाए' के ज्ञानी देखे थे ते मतिज्ञान अने भुत ज्ञानवाला देखे थे तेमके मतिभुत अने मनःपर्यवज्ञानवाला देखे थे तथा ओके ज्ञान-केवलज्ञानवाला व देखे थे अने वे अज्ञानी देखे थे ते मत्याज्ञान, भुताज्ञानकी अपेक्षासे दो अज्ञानवाला देखे थे अने विमङ्गज्ञान सहितकी अपेक्षासे त्रय अज्ञानवाला देखे थे अतः - 'मणपञ्चवनाणलद्वियाण पुच्छा' हे भदन्त ! मन पर्यवज्ञान लम्बिवाला रूप ज्ञानी देखे थे वे अज्ञानी देखे थे । ६. - 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी गो अभाणी' मनःपर्यवज्ञानलम्बिवाला रूप ज्ञानी व देखे थे

ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिनः, तत्र 'अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउनाणी' सन्ति एकके मनःपर्यवल्धिमन्तो ज्ञानिनः अवधिकेवलज्ञान-  
स्यैवाभावात् चतुर्ज्ञानिनो भवन्ति, तत्र 'जे तिन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी,  
सुयणाणी, मणपज्जवणाणी' ये त्रिज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिनः, श्रुत-  
ज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिनो भवन्ति, 'जे चउनाणी ते आभिणिवोहियणाणी,  
सुयनाणी, ओहिनाणी, मणपज्जवणाणी' ये तु चतुर्ज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिक-  
ज्ञानिनः, श्रुतज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिनश्च भवन्ति—इति भावः।  
गौतम पृच्छति— 'तस्स अलद्धियाणं पुच्छा ? हे भदन्त ! तस्य मनःपर्यव-  
ज्ञानस्य अलब्धिका लब्धिरहिताः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो  
वा ? इति पृच्छा प्रश्नः, भगवानाह— 'गोयमा ! णाणी वि, अन्नाणी वि'  
हे गौतम ! मनःपर्यवज्ञानलब्धिरहिताः जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनो-

मनःपर्यवज्ञानलब्धिवाले जीव ज्ञानी ही होते हैं अज्ञानी नहीं होते।  
इनमें 'अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउनाणी' कितनेक मनःपर्यव-  
ज्ञानलब्धिवाले जीव अवधिकेवलज्ञानके अभावसे मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी  
और मनःपर्यवज्ञानी होते हैं तथा कितनेक केवलज्ञानके अभावसे  
चार ज्ञानी— मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी और मनःपर्यवज्ञानी  
होते हैं। यही बात 'जे तिन्नाणी, ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी,  
मणपज्जवणाणी' इन सूत्रपाठोंसे प्रकट की गई हैं। अब गौतम प्रश्नसे  
ऐसा पूछते हैं— 'तस्स अलद्धियाणं भन्ते ! पुच्छा' हे भदन्त ! जो  
मनःपर्यवज्ञानलब्धिसे रहित होते हैं—ऐसे जीव क्या ज्ञानी होते हैं या  
अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं— 'गोयमा' हे गौतम ! 'णाणी वि  
अन्नाणी वि' मनःपर्यवज्ञानलब्धिसे रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और

अज्ञानी होता नथी तेमनामां 'अत्येगइया तिन्नाणी, अत्येगइया चउनाणी'  
डेटलाड मनःपर्यवज्ञान लब्धिवाणा एवे डेवणज्ञानना अभावमा मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी  
अने मनःपर्यवज्ञानी होय छे अने डेटलाड डेवण ज्ञानना अभावमा मतिज्ञानी,  
श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी अने मनःपर्यवज्ञानी अे चार ज्ञानवाणा होय छे. अेण वात  
'जे तिन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवणाणी, जे  
चउनाणी ते आभिणिवोहियनाणी सुयनाणी, मणपज्जवणाणी' अे सूत्रपाठथी  
समज्जव्या छे प्रश्न :- 'तस्स अलद्धियाणं भन्ते पुच्छा' हे भदन्त ! ने मनःपर्यव-  
ज्ञानलब्धि रहित होय छे अेवा एवे ज्ञानी होय छे डे अज्ञानी ? ७ - 'गोयमा'  
हे गौतम ! 'णाणी वि अन्नाणी वि' मनःपर्यवज्ञान लब्धिथी रहित एव ज्ञानी

ऽपि, तत्र 'मणपञ्चदशाणवज्जाइ चत्तारि षाणाइ, तिथि भन्नाणाइ भयणाए' मनःपर्यवधानवर्गानि चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि अज्ञानानि च भजनया भवन्ति, तथा च मनःपर्यवधानस्यालम्बिका य ज्ञानिनस्ते मतिभ्रुतापेक्षया द्विज्ञानिनः, मतिभ्रुताचिज्ञानापेक्षया त्रिज्ञानिनः, केवलज्ञानापेक्षया तु एकज्ञानिनो भवन्ति, य तु अज्ञानिनस्ते मत्पज्ञान-भ्रुताज्ञानापेक्षया द्वयज्ञानिनः, मत्पज्ञान-भ्रुताज्ञान विभङ्गज्ञानापेक्षया तु न्यज्ञानिनो भवन्तीति भावः । गौतमः पृच्छति- 'केवलज्ञानलम्बिका णं मते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ?' केवलज्ञानलम्बिका खलु भदन्त ! जीवा किं ज्ञानिना भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? मगवानाइ- 'गायमा ! नाणी, ना अन्नाणी, नियमा एगणाणी करवनाणी' हे गौतम ! केवलज्ञानलम्बिका जीवा ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिनः, तथापि नियमात्

अज्ञानी भी होते हैं । जो इनमें ज्ञानी-होते हैं वे मणपञ्चदशाण वज्जाइ चत्तारिणाणाइ तिथि अज्ञाणाइ भयणाए' मतिज्ञान, भ्रुतज्ञानकी अपेक्षासे दो ज्ञानवाले होते हैं और मतिज्ञान, भ्रुतज्ञान और अचि ज्ञानकी अपेक्षासे तीनज्ञानवाले हैं और केवलज्ञानकी अपेक्षासे एक ज्ञानवाले होते हैं । तथा जो इनमें अज्ञानी होते हैं वे मत्पज्ञान, भ्रुताज्ञानकी अपेक्षासे दो अज्ञानवाले और विभंगज्ञान सहित तीन अज्ञानवाले होते हैं । अथ गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'केवल नाणलदियाण मते ! जीवा किं नाणी, अज्ञाणी हे भदन्त ! जा जीव केवलज्ञान लम्बिवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गायमा' हे गौतम ! 'नाणी, नो अज्ञाणी' केवलज्ञान लम्बिवाले जीव नियमसे ज्ञानी ही होते हैं

पद्य दोष ७ ज्ञाने अज्ञानं पद्य दोष ७ वेदनाभां ने खानी दोष ७ तेजो । 'मणपञ्चदशाणवज्जाइ चत्तारिणाणाइ, तिथि अन्नाणाइ भयणाए' मतिज्ञान भ्रुतज्ञान ज्ञाने ने खानथी खानवणा दोष ७ ज्ञाने भवित्तान भ्रुतज्ञान ज्ञाने अवाधखाननी अपेक्षासे त्रयु खानवणा ज्ञाने वेदनाखाननी अपेक्षासे द्वयु खानवणा ज्ञाने दोष ७ तथा तेजोभा ने अज्ञानो दोष ७ वे मत्पज्ञान भ्रुतज्ञानकी अपेक्षासे वे अज्ञानवणा ज्ञाने विभङ्गज्ञान सहितकी अपेक्षासे त्रयु खानवणा दोष ७ अतः- 'केवलज्ञानलम्बिका मते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! ने एव वेदना खानवन्निवणा दोष ७ वे खानी दोष ७ हे अज्ञानी दोष ७ । ७. - 'गायमा' हे गौतम ! 'नाणी नो अज्ञाणी' वेदनाखानवणा एव नियमधी खानी ने दोष ७

नियमतः केवलज्ञानलब्धिका एकज्ञानिनः केवलज्ञानिन एव भवन्ति । गौतमः पृच्छति— 'तस्स अलद्धिया णं पुच्छा?' हे भदन्त ! तस्य केवलज्ञानस्य अलब्धिका लब्धिरहिताः किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा ? इति पृच्छा, भगवानाह— 'गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि,' हे गौतम ! केवलज्ञानलब्धिरहिता जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि, तत्र 'केवलनाणवज्जाइ चत्तारि णाणाइ, तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' केवलज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि च भजनया भवन्ति, तथाच केवलज्ञानालब्धिकानां मध्ये ये ज्ञानिनस्ते केचन मतिश्रुतज्ञानिनः, केचन मतिश्रुतावधिज्ञानिनः, मतिश्रुतमनःपर्यवज्ञानिनो वा, केचन तु मतिश्रुतावधिमनःपर्यवज्ञानिनो

अज्ञानी नहीं होते और न वे दो आदिज्ञानवाले ही होते हैं । किंतु एक केवलज्ञानवाले ही होते हैं । अब गौतमस्वाखी प्रभुसे ऐसा पूछने हैं कि 'तस्स अलद्धियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जो जीव केवलज्ञानलब्धिसे रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं, या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि' केवलज्ञानलब्धिसे रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । इनमें जो ज्ञानी होते हैं वे 'केवलनाणवज्जाइ चत्तारि णाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' भजनासे केवलज्ञानवर्जित चार ज्ञानवाले होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वे भजनासे तीन अज्ञानवाले होते हैं । कहनेका तात्पर्य यह है कि केवलज्ञानलब्धिक जीवोंके बीचमें जो ज्ञानी होते हैं वे कितनेक तो मतिज्ञान और श्रुतज्ञानवाले होते हैं और कितनेक मति, श्रुत, अवधिज्ञानवाले होते हैं, या मति श्रुत, मनःपर्यवज्ञानवाले होते हैं

तस्मै ज्ञे आदि ज्ञानवाणा होता नथी प्रश्न.— 'तस्स अलद्धियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! जे एव केवलज्ञानलब्धिरहित होय छे ते ज्ञानी होय छे हे अज्ञानी ?

उः— गोयमा हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि' केवलज्ञानलब्धिही रहित एव ज्ञानी पण्य होय छे अने अज्ञानी पण्य होय छे, तेज्जोभा जे ज्ञानी होय छे ते 'केवलनाणवज्जाइ, चत्तारिणाणाइ, तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' लब्धनाथी केवलज्ञान रहित चार ज्ञानवाणा होय छे अने जे अज्ञानी होय छे ते लब्धनाथी त्रय्य अज्ञानवाणा होय छे कडेवानु तात्पर्य जे छे हे केवलज्ञान लब्धिवाणा एवोभा जेज्जो ज्ञानी होय छे ते पैडा डेटलाक मतिज्ञान अने श्रुत ज्ञानवाणा अने मति-श्रुत अने अवधिज्ञानवाणा होय छे अजर मति, श्रुत, अने मनःपर्यवज्ञानवाणा होय छे तथा

भवन्ति इत्यर्थः, ये तु भ्रान्तिनिवृत्ते केचन मत्स्यज्ञानि-भ्रुताज्ञानिनः, केचन मत्स्यज्ञान-भ्रुताज्ञान-विमद्भ्रान्तवन्तश्च भवन्ति, इत्यथमुभयत्र भ्रजनयाऽचरसेया । गौतमः पृच्छति- 'अस्मान्मद्विद्या ष पृच्छा ?' हे भदन्त ! भ्रान्तलम्बिकाः स्वल्प जीवा किं भ्रान्तिनः, भ्रान्तिनो वा भवन्ति ? मगवानाह- 'गोयमा । नो नाणी, भ्रान्ताणी, तिमि अस्माणाइ मयणाए' हे गौतम ! भ्रान्तलम्बिका जीवा नोभ्रान्तिनः, अपितु भ्रान्तिनो भवन्ति, तत्र च श्रीमि भ्रान्तानि भ्रजनया, केचन भ्रान्तलम्बिका इध्रान्तिनः, केचन मत्स्यज्ञानि इत्यर्थः । गौतमः पृच्छति- 'तस्स भलद्विद्या ष पृच्छा ?' हे भदन्त ! तस्य भ्रान्तस्य अस्मिन्बिका मग्धि

और कितनेक मति भ्रुत, अथधि एव मनः पयवज्ञानवाले होते हैं । तथा जो अज्ञानो होते हैं वे कितनेक मत्स्यज्ञान भ्रुताज्ञानवाले होते हैं और कितनेक मतिअज्ञान, भ्रुतअज्ञान एवं विमद्भ्रान्तवाले होते हैं । इस तरहसे दोनोंमें ज्ञान और अज्ञानकी भ्रजना जानना चाहिये । अथ गौतम प्रश्नसे पेसा पूछते हैं 'अस्मान्मद्विद्या ष पृच्छा' हे भदन्त ! जो अज्ञानलम्बिवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो नाणी, भ्रान्ताणी' अज्ञानलम्बिवाले जीव ज्ञानी नहीं होते हैं, किन्तु अज्ञानी होते हैं । इनमें 'तिमि अस्माणाइ मयणाए' तीन अज्ञान भ्रजनासे होते हैं । अर्थात् कितनेक अज्ञानलम्बिवाले जीव दो अज्ञानवाले होते हैं और कितनेक तीन अज्ञानवाले होते हैं । अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे पेसा पूछते हैं 'तस्स भलद्विद्या ष पृच्छा' हे भदन्त ! जो जीव अज्ञानकी

ने अज्ञानी होय छे तेके पेशी केवाक भ्रजतान भ्रुताज्ञानवाला होय छे अने इटकाक मत्स्यज्ञान, भ्रुताज्ञान अने विमद्भ्रान्तवाला होय छे अने शीते के प्रक्रोभा ज्ञान अने अज्ञानकी भ्रजना समस्त देखी

प्रश्न - 'अस्मान्मद्विद्या ष पृच्छा' हे भदन्त ! ने अज्ञानलम्बिवाला होय छे ते ज्ञानी होय छे हे अज्ञानी होय छे । उ. - 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो नाणी अन्ताणी' अज्ञान लम्बिवाला एव ज्ञानी होता नथी, किन्तु अज्ञानी अ होय छे तेकेना 'तिमि अस्माणाइ मयणाए' मत्स्य ज्ञान भ्रजनाधी होय छे अर्थात् इटकाक अज्ञानलम्बिवाला एव के अज्ञानवाला होय छे अने इटकाक मत्स्य ज्ञानवाला होय छे । उ. - 'तस्स भलद्विद्या ष पृच्छा' हे भदन्त ! ने एव

रहिता जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा? इति पृच्छा प्रश्नः, भगवानाह— 'गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी' हे गौतम ! अज्ञानलब्धिकाः जीवाः ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिनः 'पंचनाणाइं भयणाए' अज्ञानालब्धिकानां पञ्च ज्ञानानि भजनया भवन्ति, तानि च पूर्वोपदर्शितरीत्या स्वयमूहानि । 'जहा अन्नाणस्स लद्धिया अलद्धिया य भणिया, एव मइअन्नाणस्स सुयअन्नाणस्स य लद्धिया अलद्धिया य भाणियव्वा' यथा अज्ञानम्य लब्धिकाः अलब्धिकाश्च भणिताः, एवं मत्तज्ज्ञानस्य श्रुताज्ञानस्य च लब्धिकाः अलब्धिकाश्च भणितव्याः,

लब्धिसे रहित होते हैं वे वया ज्ञानी होते हैं अथवा अज्ञानी होते हैं इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'नाणी, नो अन्नाणी' हे गौतम ! अज्ञानलब्धिसे रहित जीव ज्ञानी ही होते हैं अज्ञानी नहीं होते हैं । इनको 'पंचनाणाइं भयणाए' पांच ज्ञान भजनासे है—ये किस प्रकार से होते हैं सो यह बात पहिले जैसी प्रकट की गई है उसी तरह जाननी चाहिये । 'जहा अण्णाणस्सलद्धिया, अलद्धिया भणिया, एवं महअण्णाणस्स सुय अन्नाणस्स लद्धिया अलद्धिया वि भाणियव्वा' जिस प्रकारसे अज्ञानकी लब्धिवाले और अज्ञानकी अलब्धिवाले जीव कहे गये हैं उसी प्रकारसे मतिअज्ञान लब्धिवाले एवं मत्तज्ज्ञान अलब्धिवाले, श्रुतअज्ञानलब्धिवाले और श्रुतअज्ञान अलब्धिवाले जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये । तथा — जिस प्रकारसे अज्ञानलब्धिवाले जीवोंके तीन अज्ञान भजनासे कहे गये हैं उसी तरहसे मत्तज्ज्ञान और श्रुतअज्ञान लब्धिवाले जीवोंको भी तीन अज्ञान भजनासे कहना चाहिये।

अज्ञानलब्धिथी रहित होय छे ते शु ज्ञानी होय छे छे अज्ञानी होय छे ? उ :- 'नाणी नो अन्नाणी' छे गौतम ! अज्ञानलब्धिथी रहित होवे ज्ञानी न होय छे तेओ अज्ञानी होय नथी तेओमां 'पंचनाणाइं भयणाए' पांच ज्ञान भजनाथी होय छे. ते देवी रीते होय छे ते बात पड़ेला देवी रीते प्रकट करी छे, तेन रीते समओ देवी 'जहा अन्नाणस्स लद्धिया, अलद्धिया भणिया एवं मइअन्नाणस्स, सुयअन्नाणस्स लद्धिया अलद्धिया वि भाणियव्वा' ने प्रकारे अज्ञान लब्धिवाणा अने अज्ञाननी अलब्धिवाणा होवोना विषे कहुं छे तेन रीते मत्तज्ज्ञानलब्धिवाणा अने मत्तज्ज्ञान अलब्धिवाणा, श्रुताज्ञान लब्धिवाणा अने श्रुताज्ञान अलब्धिवाणा होवोना विषयमा पणु समजवु तेवी न रीते अज्ञान लब्धिवाणा होवोने तणु अज्ञान भजनाथी कड़ेला छे तेन रीते मत्तज्ज्ञान अने श्रुताज्ञान लब्धिवाणा होवोने पणु तणु अज्ञान भजनाथी समजवा अने देवी रीते अज्ञान अलब्धिवाणा होवोने पांच ज्ञान



तथा च यथा अज्ञानलम्बिकानां श्रेणि अज्ञानानि मजनयोक्तानि तथैव मत्स्यज्ञान-  
श्रुताज्ञानलम्बिकानामपि तानि घोषयानि, एवम् अज्ञान लम्बिकानां यथा पञ्च  
ज्ञानानि मजनयोक्तानि तथैव मत्स्यज्ञान-श्रुताज्ञानालम्बिकानामपि मजनयैव  
पञ्च ज्ञानानि इत्यर्थ, 'विमगनाणसद्विया ण विन्नि अन्नाणाइं नियमा,' विमग्न  
ज्ञानलम्बिकानां श्रेणि अज्ञानानि मत्स्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विमग्नज्ञानरूपाणि नियमात्  
नियमतो भवन्ति, 'तस्स अलद्वियाण पचनाणाइ मयणाए, दा अन्नाणाइ  
नियमा' सम्य विमग्नज्ञानस्य अलम्बिकानां ज्ञानिनां पञ्च ज्ञानानि मजनया  
भवन्ति केचन विमग्नज्ञानालम्बिका द्विज्ञानिनः, केचन त्रिज्ञानिनः, केचन  
चतुर्ज्ञानिनः, केचन एकज्ञानिनो भवन्ति, द्वे अज्ञाने तु मत्स्यज्ञान-श्रुताज्ञाने  
नियमात् नियमतो भवत एवेति भावः ॥ सू० ७ ॥

और जिस प्रकारसे अज्ञान अलम्बिवाले जीवोंके पांच ज्ञान भजनासे  
कहे गये हैं उसी प्रकारसे मत्स्यज्ञान और श्रुताज्ञान अलम्बिवालोंकेभी  
पांच ज्ञान भजनासे कहना चाहिये। 'विमगनाणसद्विया णं विन्नि  
अन्नाणा नियमा' विमग्नज्ञान लम्बिवाले जीवोंके तीन अज्ञान-  
मत्स्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विमग्नज्ञान नियमसे होते हैं। 'तस्स  
अलद्वियाण पचनाणाइ मयणाए, दा अन्नाणाइं नियमा' तथा जो  
विमग्नज्ञान लम्बिवाले नहीं होते हैं उनको पांच ज्ञान भजनासे होते हैं-  
अर्थात् कितनेक विमग्नज्ञान लम्बिवाले जीव दो ज्ञानवाले होते हैं, कित-  
नेक तीन ज्ञानवाले होते हैं, कितनेक चार ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक  
एक ज्ञान-केवलज्ञानवाले होते हैं। यदि इनमें कोई अज्ञानी होते हैं तो  
वे नियमसे मत्स्यज्ञान और श्रुताज्ञानवाले होते हैं ॥ सू० ७ ॥

अज्ञानाधी इदं वा ७ तेष शीते मत्स्यज्ञान अने श्रुताज्ञान अलम्बिवालाओंने जिन पञ्च  
पांच ज्ञान अज्ञानाधी समज्जया। 'विमगनाणसद्वियाणं विन्नि अन्नाणाइं नियमा'  
विमग्नज्ञान लम्बिवालाओंने मत्स्यज्ञान, श्रुताज्ञान अने विमग्नज्ञान अने पञ्च अज्ञान  
नियमधी होय ७ 'तस्स अलद्वियाण पचनाणाइ मयणाए दोअन्नाणाइं नियमा'  
तथा जे विमग्न ज्ञानलम्बिवाला नहीं दावा तेओने पांच ज्ञान अज्ञानाधी होय ७  
अर्थात् इदं वा ७ विमग्नज्ञान लम्बिवाला अने ज्ञानवाला होय ७ अने इदं वा ७ मत्स्य  
ज्ञानवाला होय ७ इदं वा ७ चार ज्ञानवाला होय ७ अने इदं वा ७ जेक ज्ञान इवण-  
ज्ञानवाला होय ७ जे तेओभा इदं अज्ञानी होय तो ते नियमधी मत्स्यज्ञान अने  
श्रुताज्ञानवाला ७ होय ७ ॥ सू० ७ ॥

मूलम्-दंसणलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?  
 गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि, पंच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं  
 भयणाए, तस्स अलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?  
 गोयमा ! तस्स अलद्धिया नत्थि, सम्मदंसणलद्धियाणं पंच-  
 नाणाइं भयणाए, तस्स अलद्धियाणं तिन्नि अण्णाणाइं भयणाए ।  
 मिच्छादंसणलद्धिया णं भंते ! पुच्छा ? तिन्नि अन्नाणाइं  
 भयणाए, तस्स अलद्धियाणं पंच नाणाइं तिन्नि य अन्नाणाइं  
 भयणाए, सम्मामिच्छादंसणलद्धिया य, अलद्धिया य, जहा  
 मिच्छादंसणलद्धिया, अलद्धिया तहेव भाणियव्वा शासू. ८॥

छाया- दर्शनलब्धिकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः,  
 गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया,  
 तस्य अलब्धिकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम !

‘दंसणलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ इत्यादि.

सूत्रार्थ-(दंसणलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे  
 भदन्त ! जो जीव दर्शनलब्धिवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं  
 या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी वि, अन्नाणी वि)  
 हे गौतम ! दर्शनलब्धिवाले जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी  
 होते हैं (पंच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए) जो ज्ञानी  
 होते हैं उनके पांच ज्ञान और जो अज्ञानी होते हैं उनके  
 तीन अज्ञान भजनासे होने हैं । ( तस्स अलद्धियाणं भंते !

‘दंसणलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ इत्यादि

सूत्रार्थ :- ‘दंसणलद्धियाणं भंते किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवान् ! जे  
 अथ दर्शनलब्धिवाणा होय छे ते ज्ञानी होय छे जे अज्ञानी होय छे उ :- ‘गोयमा’  
 हे गौतम ! ‘नाणी वि अन्नाणी वि’ दर्शनलब्धिवाणा अथवा ज्ञानी पणु होय छे  
 अने अज्ञानी पणु होय छे ‘पंचनाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए’ जे ज्ञानी  
 होय छे तेओने पाच ज्ञान अने जे अज्ञानी होय छे तेओने त्रयु अज्ञान लब्धताथी  
 होय छे ‘तस्स अलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भगवान् जे

तस्य अलम्बिकाः न सन्ति, सम्यग्दर्शनलम्बिकानां पञ्च ज्ञानानि भजनया,  
 तस्य अलम्बिकानां त्रीणि अज्ञानानि भजनया । मिथ्यादर्शनलम्बिकाः स्रष्टु  
 भवन्त ! पृच्छा, त्रीणि अज्ञानानि भजनया, तस्य अलम्बिकानां पञ्च ज्ञानानि,  
 त्रीणि च अज्ञानानि भजनया, सम्यग्मिथ्यादर्शनलम्बिकाश्च अलम्बिकाश्च  
 यथा मिथ्यादर्शन लम्बिका अलम्बिकास्तथैव मणितव्या, ॥ सू० ८ ॥

जीवा किंनाणी अज्ञानी) हे भवन्त ! जो दर्शनलम्बिकसे रहित जीव  
 होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे  
 गौतम ! (तस्म अलदिया नत्थि) हे गौतम ! दर्शनकी अलदिकासे  
 कोई जीव नहीं होते हैं । 'सम्मदसणलदियाणं पंच नाणाइ भयणाए'  
 जो जीव सम्यग्दर्शनलम्बिकासे होते हैं उनको पांच ज्ञान भजनासे  
 होते हैं । (तस्स अलदियाण तिन्नि अणाणाइ भयणाए) जो जीव  
 सम्यग्दर्शनलम्बिकसे रहित होते हैं उनमें तीन अज्ञान भजनासे होते  
 (मिच्छादंसणलदियाणं भते ! पुच्छा) हे भवन्त ! जो जीव मिथ्या  
 दर्शनलम्बिकासे होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ?  
 (तिन्नि अणाणाइ भयणाए) हे गौतम ! जो जीव मिथ्यादर्शनलम्बिकासे  
 होते हैं उनमें तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (तस्स अलदियाणं  
 पंचनाणाइ तिन्नि य अणाणाइ भयणाए) जो जीव मिथ्यादर्शनलम्बिकसे  
 रहित होते हैं उनमें पांच ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजनासे होते हैं  
 (सम्मामिच्छादंसणलदिया य, अलदिया य, जहा मिच्छादसणलदी,

दर्शनलम्बिक रहित एव हेयं ए ते ज्ञानी होयं ए ते अज्ञानी । 'गोयमा' हे गौतम !  
 'तस्स अलदिया नत्थि' अज्ञान लम्बिकविनाशना हेयं एव हेता नदी । 'सम्मदसण  
 लदियाणं पंचनाणाइ भयणाए' ने एव सम्यग् दर्शनवाणा होयं ए तेजोने पंच  
 ज्ञान भजनवाणी हेयं ए 'तस्स अलदियाणं तिन्नि अणाणाइ भयणाए' ने एव  
 सम्यग् दर्शन रहित होयं ए तेजोभा ननु अज्ञान भजनवाणी हेयं ए 'मिच्छादंसण  
 लदियाणं भते पुच्छा' हे भवन्त ! ने एव मिथ्या दर्शनलम्बिकवाणा होयं ए ते ज्ञानी  
 होयं ए ते अज्ञानी ? 'तिन्नि अणाणाइ भयणाए' हे गौतम ! ने एव मिथ्यादर्शन  
 लम्बिकवाणा हेयं ए तेजोभा ननु अज्ञान भजनवाणी हेयं ए

'तस्स अलदियाणं पंचनाणाइ तिन्नि अणाणाइ भयणाए' ने एव  
 मिथ्यादर्शनवाणी रहित होयं ए तेजोभा पांच ज्ञान तथा ननु अज्ञान भजनवाणी हेयं ए  
 'सम्मामिच्छादंसणलदिया य, अलदिया य जहा मिच्छादसणलदि' अत्रदि तद्वै

टीका- गौतमः पृच्छति- 'दंसणलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! दर्शनलब्धिकाः श्रद्धानमात्रलब्धिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह- 'गोयमा ! नाणी वि अन्नाणी वि' हे गौतम ! दर्शनलब्धिका जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति, तत्र सम्यक्श्रद्धानवन्तो ज्ञानिनस्तदितरे तु मिथ्याश्रद्धानवन्तः अज्ञानिन इति भावः । 'पंच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' तत्र ज्ञानिनां सम्यक्श्रद्धानवतां भजनया पञ्च ज्ञानानि, अज्ञानिनां तु त्रीणि अज्ञानान्यपि भजनयैव

अलङ्गी तहेव भाणियव्वं) सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिवाले और इसकी लब्धि विना के जीव जैसे मिथ्यादर्शनकी लब्धिवाले और इसकी अलब्धिवाले जीव कहे गये हैं वैसे ही कहना चाहिये ।

टीकार्थ-गौतमस्वामीने प्रभुसे ऐसा पूछा है 'दंसणलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त ! दर्शनलब्धिवाले श्रद्धान मात्र लब्धिवाले जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि' दर्शनलब्धिवाले जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । इनमें ज्ञानी वे होते हैं जो सम्यक्श्रद्धानवाले होते हैं । और जो मिथ्याश्रद्धानवाले होते हैं वे अज्ञानी होते हैं । 'पंच नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' सम्यक्श्रद्धानवाले ज्ञानियोंको भजनासे पांच ज्ञान होते हैं, तथा मिथ्याश्रद्धानवाले अज्ञानियोंको तीन अज्ञान भी भजनासे ही होते हैं । ज्ञानियोंमें यदि एक ज्ञान हो तो वह केवल-ज्ञान होता है, दोज्ञान हों तो वे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान होते हैं,

भाणियव्वं' सम्भग्मिथ्यादर्शन लब्धिवाणा अने तेनी लब्धिथी रद्धित एव नेवी रीते मिथ्यादर्शन लब्धिवाणा अने तेनी अलब्धिवाणा एवाने विषे कळुं छे ते प्रभाणुे समञ्ज लेवुं

टीकार्थ :- गौतम स्वामीने प्रभुने एवु पूछ्यु के 'दंसणलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भगवान् ! दर्शनलब्धिवाणा एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? उत्तर - 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी वि अन्नाणी वि' दर्शनलब्धिवाणा एव ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे तेमा ज्ञानी ते होय छे के ने सम्यक्श्रद्धानवाणा होय छे अने मिथ्याश्रद्धानवाणा होय छे ते अज्ञानी होय छे 'पंचनाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' सम्भग्मश्रद्धानवाणा ज्ञानीओने भजनाथी पांच ज्ञान होय छे तथा मिथ्या-श्रद्धानवाणा अज्ञानीओने त्रणु अज्ञान भजनाथी होय छे ज्ञानीओमां ने अेकज ज्ञान होय तो ते केवलज्ञान न होय छे. ये ज्ञान होय तो मतिज्ञान अने श्रुतज्ञान होय छे.

मरन्ति इति भाषाः, गौतमः पृच्छति— 'तस्स अलद्धिया णं मते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! तस्य दर्शनस्य अलद्धिका लङ्घिरहिताः स्यात् जीवाः किं ज्ञानिनो मरन्ति, अज्ञानिनो वा ? मगधानाह— 'गोयमा ! तस्स अलद्धिया नत्थि' हे गौतम ! तस्य दर्शनस्य अलद्धिका न सन्ति, यथा तस्य दर्शनस्यालङ्घिस्ते न सन्त्येव सर्वजीवाना रुचिमात्रस्य सपवेन सम्पत्-

तीन ज्ञान हों तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान मन पर्यवज्ञान ये तीन ज्ञान होते हैं । चार ज्ञान हों तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन-पर्यवज्ञान होते हैं । अज्ञान नियोगिं यदि अज्ञान हों तो वे मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ये दो अज्ञान होते हैं, यदि तीन अज्ञान हो तो वे मत्यज्ञान, श्रुतज्ञान और विभगज्ञान होते हैं । इस तरहसे पांच ज्ञान और तीन अज्ञानोंकी अजना जाननी चाहिये । अथ गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'तस्स अलद्धियाण भव ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! जो जीव दर्शनलङ्घिसे रहित होत हू वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'तस्स अलद्धिया नत्थि' हे गौतम ! ऐसा एक भी जीव नहीं है जो दर्शन सामान्य अज्ञान रूपदर्शन की लङ्घिसे रहित हो । दर्शमकर तात्पर्य यहाँ रुचिमात्र लिया गया है यह रुचि जीवोंमें तीन प्रकारकी पायी जाती है, एक सम्पत्कूप, दूसरी मिथ्यासत्त्व, और तीसरी मिथ्यरूप । इनमेंसे जीवों

प्रश्न ज्ञान होत तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, चार मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मन-पर्यवज्ञान होत है । चार ज्ञान होत तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्यवज्ञान होत है । अज्ञानीजोभा वे अज्ञान होत तो मत्यज्ञान, श्रुतज्ञान, विभगज्ञान होत है । जो प्रश्न अज्ञान होत तो मत्यज्ञान, श्रुतज्ञान, विभगज्ञान, मन-पर्यवज्ञान होत है । जो रीते पांच ज्ञान होने प्रश्न अज्ञानोनी अजना समस्त है।

प्रश्न— 'तस्स अलद्धियाण मते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! ने एव अज्ञानलङ्घि रहित होत है ते ज्ञानी होत है वे अज्ञानी होत है ।

उत्तर :— 'तस्स अलद्धिया नत्थि' हे गौतम ! जो वे जो वे एव होत है नही है वे अज्ञान-सामान्य अज्ञान-रूप अज्ञानी लङ्घिसे रहित होत है । अज्ञान-नु-तात्पर्य अज्ञानी रुचिमात्र के प्रकृत्य प्रकृत्य है । जो रुचि एवोत्र प्रश्न प्रकृत्यी ज्ञेयार्थ जावे है । १. सम्पत्कूप, मिथ्यासत्त्व, ३. मिथ्यरूप एवोत्र जो पीछे होतने प्रकृत्य रुचि अज्ञान होत है ।

मिथ्या - मिश्रश्रद्धानेषु अन्यतमो वश्यंभावात् 'सम्मदंसणलद्धियाणं पंच  
 नाणाइं भयणाए' सम्यग्दर्शनलब्धिकानां सम्यग्दृष्टीनां पञ्च-  
 ज्ञानानि भजनया भवन्ति, 'तस्स अलद्धियाणं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए'  
 तस्य सम्यग्दर्शनस्य अलब्धिकानां मिथ्यादृष्टीनां मिश्रदृष्टीनाञ्च त्रीणि  
 अज्ञानानि भजनया भवन्ति, मिश्रस्य तात्त्विकसद्बोधजनकत्वाभावेन  
 मिश्रदृष्टीनामपि अज्ञानमेवेति भावः। गौतमः पृच्छति- 'मिच्छादंसणलद्धियाणं  
 भंते! पुच्छा?' हे भदन्त! मिथ्यादर्शनलब्धिकाः खलु जोवाः किं ज्ञानिनः  
 किंवा अज्ञानिनो भवन्ति? इति पृच्छा प्रश्नः, भगवानाह- 'तिन्नि अन्नाणाइं

के कोई न कोई रुचि अवश्य होती हैं। अतः यहाँ ऐसा कहा गया  
 है कि सामान्य रुचि रहित कोई भी जीव नहीं होता है। 'सम्म-  
 दंसणलद्धियाणं पंच नाणाइं भयणाए' जो जीव सम्यग्दर्शनलब्धिवाले  
 होते हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि होते हैं उनको पांच ज्ञान भजनासे होते हैं।  
 भजनासे किस प्रकारसे होते हैं यह बात ऊपर प्रकट की जा चुकी  
 है। 'तस्स अलद्धियाणं तिन्नि अन्नाणाइं' जो सम्यग्दर्शनरूप  
 लब्धि से रहित होते हैं अर्थात् सम्यग्दृष्टि नहीं होते मिथ्यादृष्टि  
 होते हैं उनको तीन अज्ञान भजनासे होते हैं। इसी तरहसे  
 मिश्रदृष्टियों को भी तीन अज्ञान भजनासे होते हैं। क्योंकि  
 जो मिश्र दृष्टि जीव होते हैं उनमें तात्त्विकबोध नहीं होता  
 है अतः उनकी मिश्रदृष्टि तात्त्विक बोधकी जनकता के अभावसे  
 अज्ञानरूप ही होनी है। अब गौतम प्रश्नसे पूछते हैं 'मिच्छादंसण-  
 लद्धिया णं भंते! पुच्छा' हे भदन्त! मिथ्यादर्शनलब्धिवाले जीव  
 क्या ज्ञानी होते हैं? या अज्ञानी होते हैं? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते  
 'तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' हे गौतम! मिथ्यादर्शनलब्धिवाले जीवोंमें

अपेक्षे न अर्ही अपे उ उडेवामा आवे छे डे सामान्य रुचि रहित डोष्ठपणु एव होता नथी  
 'सम्मदंसणलद्धियाणं, पचनाणाइं भयणाए' ने एव सम्यग्दर्शनवाणा डोय छे  
 तेअने पाय ज्ञान लज्जाथी डोय छे लज्जाथी डेवी रीते डोय छे ते डपर प्रकट  
 करवामा आवी छे 'तस्स अलद्धियाणं तिन्नि अन्नाणाइं' ने सम्यग्दर्शनस्य लब्धिथी  
 रहित डोय छे. अपेक्षे डे मिथ्यादृष्टिस्य डोय छे तेअने त्रणु अज्ञान लज्जाथी डोय छे.  
 अपेवीर रीते मिश्रदृष्टिवाणा एवामा पणु त्रणु अज्ञान लज्जाथी डोय छे डेअडे ने मिश्रदृष्टि  
 एव डोय छे तेअनेमा तात्त्विक बोध डोतो नथी प्रश्न - 'मिच्छादंसणलद्धियाणं  
 भंते पुच्छा' हे भगवान्! मिथ्यादर्शन लब्धिवाणा एवो ज्ञानी डोय छे डे अज्ञानी  
 डोय छे? उत्तर - 'तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' हे गौतम! मिथ्यादर्शन लब्धिवाणा

मयणाए' हे गौतम ! मिथ्यादर्शनबन्धिकाणां मिथ्याहृतीनां त्रीणि अज्ञानानि मजनया मषन्ति, 'तस्म अलद्वियाण पंच नाणाइ मयणाए' तस्य मिथ्या दर्शनस्य अष्विकानां सम्यग्हृतीनां मिथ्यहृतीनां च क्रमण पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि च अज्ञानानि मजनया मषन्ति, 'सम्मामिच्छादसणलद्विया य अद्विया य जहा मिच्छादसणलद्विया, अलद्विया तद्देव माणियष्य' सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिकाश्च अलब्धिकाश्च यथा मिथ्यादर्शनलब्धिकाः अज्ञानिनो मजनया, यथा च मिथ्यादर्शन स्यालब्धिका पञ्चज्ञानिनः, अज्ञानिनश्च मजनयोक्तास्तथैव क्रमशः प्रथमे मजनया अज्ञानिन, चरमे च पञ्चज्ञानिनः, अज्ञानिनश्च मजनयैव प्रतिपत्तव्याः ॥५०८॥

तीन अज्ञान 'मजनासे' होते हैं । 'तस्म अलद्विया णं पंच नाणाइ, तिन्नि य अन्नाणाइ मयणाए' जो जीव मिथ्यादर्शनलब्धिकाए नही होते हैं, अर्थात् सम्यग्दृष्टि होते हैं, या मिथ्यदृष्टिवाले होते हैं, उनमें क्रमशः मजनासे पांच ज्ञान और तीन अज्ञान होते हैं तथा 'सम्मा मिच्छादसणलद्विया य, अलद्विया इ महा मिच्छादसणलदि अलद्वी तद्देव माणियष्य' सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिकाए तथा इनकी अलब्धिकाए जीव जैसे मिथ्यादर्शनलब्धिकाए जीव तीन अज्ञानवाले मजनासे होते हैं और मिथ्यादर्शनकी अलब्धिकाए जीव मजनासे पांचज्ञानवाले होते हैं तथा तीन अज्ञानवाले होते हैं, उसी प्रकारसे क्रमशः प्रथममें मजनासे तीन अज्ञानवाले और अन्तके पांच ज्ञानवाले होते हैं । तात्पर्य कहनेका यह है कि सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिकाए और इसकी अलब्धिकाए जीव क्रमशः तीन अज्ञानवाले और पांच ज्ञानवाले या तीन अज्ञानवाले मजनासे होते हैं । सू०८॥

अथोभा मज्जु अज्ञान अज्ञानाधी डेल ७ 'तस्म अलद्वियाण पंचनाणाइ तिन्नि य अन्नाणाइ मयणाए' हे छत्र मिथ्यादर्शन लब्धिकाए डेलता नही, अर्थात् सम्यग्दृष्टिकाए या मिथ्यदृष्टिकाए डेल ७ तेजोभां इमस्य अज्ञानाधी पांच ज्ञान जने मज्जु अज्ञान अज्ञानाधी डेल ७ 'सम्मामिच्छादसणलद्विया य अलद्विया य जहा मिच्छादसणलद्वि अलदि तद्देव माणियष्य' सम्यग्मिथ्यादर्शन लब्धिकाए तथा तेनी अलब्धिकाए छत्र तेनी रीते मिथ्यादर्शन लब्धिकाए छत्र मज्जु अज्ञानवाण अज्ञानाधी डेल ७ जने मिथ्यादर्शननी अलब्धिकाए अज्ञानाधी पांच ज्ञानवाण जने मज्जु अज्ञानवाण डेल ७ तेज रीते इमस्य प्रथमभां अज्ञानाधी मज्जु अज्ञानवाण जने अतर्भां पांच ज्ञानवाण डेल ७ तात्पर्य इतिवानु जे ७ हे सम्यग्मिथ्यादर्शन लब्धिकाए जने तेनी अलब्धिकाए छत्र इमधी मज्जु अज्ञानवाण जने पांच ज्ञानवाण अथर मज्जु अज्ञानवाण अज्ञानाधी डेल ७ ॥ सू. ८ ॥

मूलम्—चरित्तलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?  
 गोयमा ! पंच नाणाइं भयणाए, तस्स अलद्धियाणं मणपज्जव-  
 नाणवज्जाइं चत्तारि नाणाइ, तिन्नि य अन्नाणाइं भयणाए,  
 सामाइयचरित्त लद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ?  
 गोयमा ! नाणी, केवलवज्जाइं चत्तारि नाणाइं भयणाए, तस्स  
 अलद्धियाणं पंच नाणाइं तिन्नि य अन्नाणाइं भयणाए, एवं  
 जाव सामाइयचरित्तलद्धिया, अलद्धिया य भणिया, एवं जाव  
 अहक्खायचरित्तलद्धिया, अलद्धिया य भाणियवा, नवरं अह-  
 क्खायचरित्तलद्धियाणं, पंच नाणाइं भयणाए—३. चरित्ताचरित्त  
 लद्धिया णं भंते ! जीवा, किं नाणी, अन्नाणी ? गोयमा ! नाणी,  
 णो अण्णाणी, अत्थेगइया दुण्णाणी, अत्थेगइयो तिन्नाणी, जे  
 दुन्नाणी ते आभिणिवोहियनाणी य सुयनाणी य, जे तिन्नाणी,  
 ते आभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, तस्स अल-  
 द्धियाणं पंच णाणाइं, तिन्नि अण्णाणाइं भयणाए ४, दोणलद्धि-  
 या णं पंचनाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए, तस्स अल-  
 द्धियाणं पुच्छा ? गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी, नियमा एग-  
 नाणी केवलनाणी ५, एवं जाव वीरियस्सलद्धी अलद्धी य  
 भाणियवा, बालवीरियलद्धियाणं तिन्नि नाणाइं तिन्नि अन्ना-  
 णाइं भयणाए, तस्स अलद्धियाणं पंचनाणाइं भयणाए, पंडिय-  
 वीरियलद्धियाणं पंच नाणाइं भयणाए, तस्स अलद्धियाणं  
 मणपज्जवनाणवज्जाइं णाणाइं अन्नाणाइ तिन्नि य भयणाए,



बालपण्डित्यत्रीरियलद्धियाण भते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?  
 तिस्रि नाणाइ भयणाए, तस्स अलद्धियाण पंच नाणाइ तिस्रि  
 अन्नाणाइ भयणाए, इदियलद्धिया ण भंते ! जीवा किं नाणी,  
 अन्नाणी ? गोयमा ! चत्तारि णाणाइ, तिन्नि य अण्णाणाइ  
 भयणाए तस्स अलद्धिया ण पुच्छा ? गोयमा ! नाणी, नो  
 अन्नाणी, नियमा एगनाणी, केवलनाणी, सोइदियलद्धियाण  
 जहा इदियलद्धिया, तस्स अलद्धिया ण पुच्छा, गोयमा ! नाणी  
 वि, अन्नाणी वि, जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी, अत्ये-  
 गइया एगनाणी, जे दुन्नाणी ते आभिणिषोहियनाणी,  
 सुयनाणी ? जे एगनाणी ते केवलनाणी, जे अन्नाणी ते नियमा  
 दुअन्नाणी, न जहा-मइअन्नाणी य सुयअन्नाणी य, चर्क्खि  
 दिय घाणि दियाण लद्धियाण अलद्धियाण य, जहेव सोइदिय  
 स्स जिब्भिदियलद्धियाणं चत्तारि णाणाइ, तिन्नि य अन्ना  
 णाणि भयणाए, तस्स अलद्धिया ण पुच्छा ? गोयमा ! नाणी  
 वि, अन्नाणी वि, जे नाणी ते नियमा एगनाणी, केवलनाणी,  
 जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, त जहा-मइअन्नाणी य  
 सुयअन्नाणी य, फासिदियलद्धिया ण अलद्धिया ण जहा इदिय  
 लद्धिया य अलद्धिया य ॥ सू० ९ ॥

छाया- पाणिबल्लिषका खलु मरुन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, भज्जानिनः ?  
 गौतम ! पय्य ज्ञानानि ममनया, तस्य असब्धिकानां मन पर्यपज्ञानवर्गानि  
 चत्तारि ज्ञानानि, धीणि च भज्जानानि ममनया, मामाभिकचारियल्लिषकाः

खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम ! ज्ञानिनः, केवल-  
वर्जानि चत्वारि ज्ञानानि भजनया, तस्य अलब्धिकानाम् पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि  
च अज्ञानानि भजनया, एवं यथा सामायिकचारित्र्यलब्धिकाः अलब्धिकाश्च  
भणिताः एवं यावत् यथाख्यातचारित्र्यलब्धिकाः, अलब्धिकाश्च भणितव्याः, नवरं

‘चरित्तलद्धिया ण भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (चरित्तलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे  
भदन्त ! जो जीव चारित्र्यलब्धिवाले होते हैं, ये क्या ज्ञानी होते हैं  
या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंच नाणाइं भयणाए)  
चारित्र्य लब्धिवाले जीव भजनासे पांच ज्ञानवाले होते हैं । (तस्स अल-  
द्धिया णं मणपज्जवनाणवज्जाइं चत्तारिनाणाइं तिन्नि य अन्नाणाइं भय-  
णाए) जो जीव चारित्र्यलब्धिवाले नहीं होते हैं उनमें मनःपर्यवज्ञान  
को छोड़कर चार ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजना से होते हैं ।  
(सामाहयचरित्तलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त !  
सामायिक चारित्र्यलब्धिवाले जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी, केवलवज्जाइं चत्तारि नाणाइं  
भयणाए) सामायिक चारित्र्यलब्धिवाले ज्ञानी होते हैं । इनमें  
भजनासे केवलज्ञानको छोड़कर चार ज्ञान होते हैं । (तस्स अलद्धियाणं  
पंचनाणाइं तिन्नि य अन्नाणाइ भयणाए, एवं जहा सामाहयचरित्त-

‘चरित्तलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ इत्यादि

सूत्रार्थ - ‘चरित्तलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त !  
ये एव चारित्र्यलब्धिवाणा होय छे ते शुं ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ‘गोयमा’  
हे गौतम ! ‘पंचनाणाइं भयणाए’ चारित्र्यलब्धिवाणा एव भजनाथी पाच ज्ञानवाणा  
हेय छे ‘तस्स अलद्धियाणं मणपज्जवनाणवज्जाइं चत्तारिनाणाइं तिन्नि य  
अन्नाणाइं भयणाए’ ये एव चारित्र्यलब्धि विनाना होय छे तेमनामा मनःपर्यव  
ज्ञान छोडीने चार ज्ञान तथा त्रयु अज्ञान भजनाथी होय छे ‘सामाहय चरित्त-  
लद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ? हे भगवन् ! सामायिक चारित्र्य  
लब्धिवाणा एव ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नाणी केवल  
वज्जाइं चत्तारि नाणाइं भयणाए’ सामायिक चारित्र्य लब्धिवाणा ज्ञानी न होय छे.  
तेमनामा भजनाथी केवण ज्ञान छोडीने चार ज्ञान होय छे. ‘तस्स अलद्धियाणं  
पंचनाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए एवं जहा सामाहयचरित्तलद्धिया  
अलद्धियाय भणिया एवं जाव अहक्खाय चरित्तलद्धिया अलद्धियाय

यथाख्यातचारित्र्यलम्बिषानां पञ्च ज्ञानानि मज्जनाया ३ चारित्र्याचारित्र्यलम्बिकाः  
खलु मदन्त ! जीवा किं ज्ञानिन, भजानिन ? गौतम ! ज्ञानिनः, नो भजानिनः,  
सन्ति एकके द्विज्ञानिन सन्ति, एकके त्रिज्ञानिनः, ये द्विज्ञानिनस्ते आमिनि-  
योधिकज्ञानिनश्च ध्रुतज्ञानिनश्च, य त्रिज्ञानिनस्ते आमिनिबोधिकज्ञानिनः, ध्रुत

लदिया, अलद्विया य भणिया एवं जाय अहक्खायचरित्तलदिया,  
अलदिया य भाणियग्घा, नवरं अहक्खायचरित्तलदिया, पचनाणाह  
'मयणाए' जो जीव सामायिक चारित्र्यलम्बिषाळे नहों होते हैं, उनमें  
पांच ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजनासे होते हैं। जिस तरहसे सामायिक  
चारित्र्यलम्बिषाळे और इसकी असम्बिषाळे जीव कह गये है उसी  
तरहसे यावत् यथाख्यात चारित्र्यलम्बिषाळे और इसकी अलम्बिषाळे  
जीव कहना चाहिय। विशेषता यह है—यथाख्यात चारित्र्यलम्बिषाळे  
जीव भजनासे पांच ज्ञानवाले होते हैं। (चरित्ताचरित्तलद्विगण भते !  
जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे मदन्त ! चारित्र्याचारित्र्य लम्बिषाळे  
जीव क्या ज्ञानी होते हैं, या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम !  
(णाणी, णो अण्णाणी) चारित्र्याचारित्र्य लम्बिषाळे जीव ज्ञानी होते  
हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं। (अत्थेगइया दुण्णाणी, अत्थेगइया तिन्नाणी)  
इनमें कितनेक वा ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक तीन ज्ञानवाले  
होते हैं। (जे दुन्नाणी, ते आमिनिबोधिकयणाणी य सुयणाणीय) जो  
दो ज्ञानवाले होते हैं वे आमिनिबोधिकज्ञानी होते हैं, और ध्रुतज्ञानी

माणियणरा नवरं अहक्खायचरित्तलदिया पचनाणाह 'मयणाए' ने एव  
आमिनिबोधिक चारित्र्य लम्बिषाळा होता नहीं। तेजोभावाय पांच ज्ञान तथा तस्य अज्ञान  
अज्ञानाधी होय छे केही रीते आमिनिबोधिक चारित्र्यलम्बिषाळा अने तेनी अलम्बिषाळा  
छवेना निरे इहेल छे तेन रीते यावत्—यथाख्यात चारित्र्यलम्बिषाळा अने तेनी  
अलम्बिषाळा छवेना निरे तसु समकथं विवैपता केवण ओट्ठी न छे हे यथाख्यात  
चारित्र्यवाळा एव अज्ञानाधी पांच ज्ञानवाळा होय छे 'चरित्ताचरित्तलदियारणं  
भते जीवा किं नाणी भजानी ?' हे अगवत् ! चारित्र्याचारित्र्य एव खनी  
होय छे हे अज्ञानी होय छे ! 'गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी नो अन्नाणी'  
चारित्र्याचारित्र्यवाळा एव खनी होय छे अज्ञानी नहीं। 'अत्थेगइया दुन्नाणी,  
अत्थेगइया तिन्नाणी' तेना इहेल छे ज्ञानवाळा अने इहेल छे तसु ज्ञानवाळा होय छे  
'जे दुन्नाणी ते आमिनिबोधिकयणाणि य सुयणाणी य' ने जे ज्ञानवाळा इहेल छे

ज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनः, तस्य अलब्धिकानां पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया ॥४॥ दानलब्धिकानां पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया, तस्य अलब्धिकानां पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनः, नो अज्ञानिनः, नियमात् एक ज्ञानिनः केवलज्ञानिनः-॥ ५ ॥ एवं यावत् वीर्यस्य लब्धिः, अलब्धिश्च भणितव्या, बालवीर्यलब्धिकानां त्रीणि ज्ञानानि, त्रीणि च अज्ञानानि भजनया,

होते हैं । ( जे तिन्नाणी, ते आभिनिबोहिद्य नाणी, सुयनाणी ओहिनाणी ) जो तीन ज्ञानवाले होते हैं उनमें आभिनिबोधिक ज्ञानी होते हैं, श्रुतज्ञानी होते हैं और अवधिज्ञानी होते हैं- ( तस्स अलद्धिया णं पंचनाणाइं, तिन्नि अण्णाणाइं भयणाए ) जो जीव चारित्राचारित्र लब्धिवाले नहीं होते हैं उनके भजनासे पांच ज्ञान होते हैं या तीन अज्ञान होते हैं । ( दानलद्धिया णं पंचनाणाइं, तिन्नि अण्णाणाइं भयणाए ) दानलब्धिवाले जीवों के भजना से पांच ज्ञान या तीन अज्ञान होते हैं । ( तस्स अलद्धिया णं पुच्छा ) हे भदन्त ! जो दानलब्धिवाले जीव नहीं होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( नाणी, नो अन्नाणी नियमा एगनाणी केवलनाणी ) दानलब्धिसे रहित जीव ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं । ज्ञानी होने पर भी वे नियम से एकज्ञान-केवलज्ञानवाले होते हैं । ( एवं जाव वीरियस्सलद्धी, अलद्धी य भाणियव्वा ) इसी तरहसे वीर्यलब्धिवाले और इसकी अलब्धिवाले

तेषां आभिनिबोधिक अने श्रुतज्ञानवाणा होय छे ' जे तिन्नाणी ते आभिनिबोहियनाणी सुयनाणी ओहियनाणी ' ने तथु ज्ञानवाणा होय छे तेसां अलिनिबोधिक ज्ञानवाणा, श्रुतज्ञानवाणा अने अवधिज्ञानवाणा होय छे ' तस्स अलद्धियाणं पंचनाणाइं तिन्नि अण्णाणाइं भयणाए ' ने एव चारित्र्याचरित्र्य लब्धिवाणा होता नथी तेषांने लज्जनाथी पाय ज्ञान अने तथु अज्ञान होय छे ' दानलद्धियाणं पंचनाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए ' दानलब्धिवाणा एवने लज्जनाथी पाय ज्ञान अने तथु अज्ञान होय छे ' तस्स अलद्धियाणं पुच्छा ' हे लज्जवान ! ने दानलब्धिवाणा एव नथी होता तेषां ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ' गोयमा ' हे गौतम ! ' नाणी नो अन्नाणी नियमा एगनाणी केवलनाणी ' दानलब्धि रहित एव ज्ञानी होय छे अज्ञानी होता नथी अने ज्ञानीयोम पथु तेषां नियमथी डेवण येक ज्ञानी न होय छे ' एवं जाव वीरियलद्धि अलद्धिय भाणियव्वा ' येन रीते विद्ये लब्धिवाणा अने तेनी अलब्धिवाणा एवने विषयभा पथु समन्वयु ' बालवीरिय-

तस्य अलम्बिकानां पञ्च ज्ञानानि भजनया, पण्डितवीर्यस्य लम्बिकानां पञ्च ज्ञानानि मभनया, तस्य अलम्बिकानां मनःपर्यवधानवर्मानि ज्ञानानि, अज्ञानानि श्रीणि च भजनया । बालपण्डितवीर्यलम्बिका स्वल्प मवन्त । श्रीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः? श्रीणि ज्ञानानि भजनया, तस्य अलम्बिकानां पञ्च ज्ञानानि, श्रीणि अज्ञानानि भजनया ९ इन्द्रियलम्बिका

जीवों के विषयमें भी जानना चाहिये । (बालवीर्यलदियाणं तिन्नि नाणाइ, तिन्नि अन्नाणाइ) जो जीव बालवीर्यलम्बिकाले होते हैं उनमें तीन ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजना से होते हैं । (तस्स अलदियाण पचनाणाइ भयणाए) बालवीर्यकी लम्बिकाले जो जीव हैं उनमें पांच ज्ञान भजना से होते हैं । (पण्डितवीर्यलदियाणं पचनाणाइ भयणाए) जो जीव पण्डितवीर्य लम्बिकाले होते हैं, उनको पांच ज्ञान भजनासे होते हैं । (तस्स अमदियाण मणपञ्चवनाणयञ्जाइ णाणाइ, अन्नाणाइ, तिन्नि य भयणाए) जो जीव पण्डितवीर्य लम्बिकाले नहीं होते हैं उनको मनःपर्यवधानको छोड़कर चार ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजना से होते हैं । (बालपण्डितवीर्य लदियाणं भस ! जीवा किं नाभी अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव बालपण्डितवीर्य लम्बिकाले होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं? (तिन्नि नाणाइ भयणाए) हे गौतम ! बालपण्डित वीर्य लम्बिकालेको तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (तस्स अलदियाण पच

लदियाणं तिन्नि नाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ' ने एव बालवीर्यलम्बिकाणां होय ७ तेभ्योर्भां तस्य ज्ञान तथा तस्य अज्ञान भजनाधी होय ७ 'तस्स अलदियाणं पचनाणाइ भयणाए' बालवीर्यलम्बिक विनाना ने एव ७ तेभ्योर्भां पांच ज्ञान भजनाधी होय ७ 'पण्डितवीर्यलदियाणं पचनाणाइ भयणाए' ने एव पण्डितवीर्यलम्बिकाले होय ७ तेभ्योर्भां पांच ज्ञान भजनाधी होय ७ 'तस्स अमदियाणं मणपञ्चवनाणयञ्जाइ णाणाइ, अन्नाणाइ, तिन्नि य भयणाए' ने एव पण्डितवीर्यलम्बिक विनाना होय ७ तेभ्योर्भां मनःपर्यवधान छोड़ने चार ज्ञान तथा तस्य अज्ञान भजनाधी होय ७ 'बालपण्डितवीर्यलदियाणं भस ! जीवा किं नाभी अन्नाणी' हे भदन्त ! ने एव बालपण्डित वीर्यलम्बिकाले होय ७ तेभ्योर्भां ज्ञानी होय ७ ३ अज्ञानी होय ७ । 'तिन्नि नाणाइ भयणाए' हे गौतम ! बालपण्डितवीर्य लम्बिकालेको तीन अज्ञान भजनासे होय ७ 'तस्स अलदियाणं पच नाणाइ

खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? गौतम ! चत्वारि ज्ञानानि त्रीणि च अज्ञानानि भजनाया, तस्य अलब्धिकानां पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनः, नो अज्ञानिनः, नियमात् एकज्ञानिनः—केवलज्ञानिनः, श्रोत्रेन्द्रियलब्धिकाः यथा इन्द्रियलब्धिकाः, तस्य अलब्धिकाः खलु पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनोऽपि,

नाणाइ तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए) वाल पण्डितवीर्यंती लब्धि विद्या के जीवोंमें पांच ज्ञान और तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (इन्द्रिय-लब्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव इन्द्रियलब्धिवाले होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (चत्वारि णाणाइ, तिन्नि य अण्णाणाइ भयणाए) इन्द्रियलब्धिवाले जीवों में चार ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (तस्स अलब्धियाणं पुच्छा) हे भदन्त ! जो जीव इन्द्रियलब्धि विनाके होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं । (गोयमा ! नाणी नो अन्नाणी नियमा एगनाणी, केवलनाणी) इन्द्रियलब्धि विनाके जीव ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं । ज्ञानीमें उनमें नियमसे एकज्ञान-केवलज्ञानवाले ही होते हैं । (सो इन्द्रियलब्धियाणं जहा इन्द्रियलब्धिया) श्रोत्रेन्द्रिय लब्धिवाले जीव इन्द्रिय लब्धिवालोंकी तरहसे होते हैं । (तस्स अलब्धियाणं पुच्छा) हे भदन्त ! श्रोत्रइन्द्रिय लब्धिरहित जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! श्रोत्रइन्द्रिय लब्धिरहित जीव (णाणी वि

तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' आक्षेपित वीर्यलब्धि विनाना श्रवणा पाय ज्ञान अने तस्य अज्ञान भजनाथी होय छे ' इन्द्रियलब्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! ने श्रवण इन्द्रियलब्धिवाणा होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'चत्वारिनाणाइं तिन्नि य अन्नाणाइ भयणाए' इन्द्रियलब्धिवाणा श्रवणा आर ज्ञान तथा तस्य अज्ञान भजनाथी होय छे ' तस्स अलब्धियाणं पुच्छा' हे भदन्त ! ने श्रवण इन्द्रियलब्धि सिवायना होय छे ते श्रु ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे । 'गोयमा' 'नाणी नो अन्नाणी नियमा एगनाणी केवलनाणी' इन्द्रियलब्धि सिवायना श्रवणा ज्ञानी न होय छे अज्ञानी होला नथी अने तेओ नियमथी ओके देवपानवाणा न होय छे 'सो इन्द्रियलब्धियाणं जहा इन्द्रियलब्धिया' श्रोत्रेन्द्रिय लब्धिवाणा श्रवण इन्द्रिय लब्धिवाणा श्रवणा नो भजना समजवा 'तस्स अलब्धियाणं पुच्छा' हे भगवन् ! श्रोत्रेन्द्रिय लब्धि सिवायना श्रवणा ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? 'गोयमा' हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय लब्धि रहित श्रवण 'नाणी वि अन्नाणी वि' ज्ञानी पण्य होय छे अने

અજ્ઞાનિનોડપિ, ય જ્ઞાનિનસ્તે સન્તિ એકકે દ્વિજ્ઞાનિનઃ, સન્તિ એકકે એક જ્ઞાનિનઃ, યે દ્વિજ્ઞાનિનસ્તે આભિનિયોષિકજ્ઞાનિનઃ, ધ્રુતજ્ઞાનિનઃ, ય એકજ્ઞાનિનસ્તે કેવલજ્ઞાનિન, ય મજ્ઞાનિનસ્તે નિયમાત્ મધજ્ઞાનિન, તથા-મત્ય જ્ઞાનિનઃ, ધ્રુવાજ્ઞાનિનઃ, ચક્ષુરિન્દ્રિય-ધ્રાણેન્દ્રિયાણાં સ્મિધિકાનામ્ અલ્પચક્ષુ નાશ્ચ પર્યેવ ધ્રોગન્દ્રિયસ્ય, નિહ્વેન્દ્રિયસ્મિધિકાનાં ષત્પારિ જ્ઞાનાનિ, શ્રીણિ

અન્નાણી ષિ) જ્ઞાની મી હોતે હું, અજ્ઞાની મી હોત હું । (જે નાણાં, તે અસ્થેગદ્યા વુન્નાણી, અસ્થેગદ્યા યગ નાણી) જો જ્ઞાની હોતે હું-ઉનમેં કિતનેક દો જ્ઞાનવાલે હોતે હું ઓર કિતનેક એક જ્ઞાનવાલે હોતે હું (જે વુન્નાણી, તે આભિનિયોષિકજ્ઞાનણી, સુચનાણી) જો જીવ દો જ્ઞાનવાલે હોતે હું, તે આભિનિયોષિક જ્ઞાનવાલે હોતે હું ઓર ધ્રુતજ્ઞાનવાલે હોતે હું । (જે યગનાણી-તે કેવલનાણો) જો એકજ્ઞાનવાલે હોતે હું તે કેવલજ્ઞાનવાલે હી હોતે હું । (જે અન્નાણી - તે નિયમા દુઅનાણી તમદા મદ અન્નાણી ય, સુચ અન્નાણી ય) જો અજ્ઞાની હોતે હું તે નિયમસે દો અજ્ઞાનવાલે હોતે હું- જૈસે- મત્ય જ્ઞાનવાલે ઓર ધ્રુતાજ્ઞાનવાલે (ચક્ષુરિન્દ્રિય ધ્રાણેન્દ્રિયાણાં અલ્પચક્ષુ અલ્પચક્ષુ ય-જહેચ સોદિયસ્સ, ઝિર્મિદિય અલ્પચક્ષુ ષત્પારિ પાણાઃ સિન્નિ ય અન્નાણાણિ મયપાણ) ચક્ષુરિન્દ્રિય ઓર ધ્રાણેન્દ્રિય અલ્પચક્ષુ ઓર ઇનકી અલ્પચક્ષુવાલે જીવ આત્રેન્દ્રિયસ્મિધિકાવાલે ત્રીણોં કી તરહસે ચાર જ્ઞાનવાલે ઓર ત્રીન અજ્ઞાનવાલે હોતે હું એસા જાનના

અજ્ઞાની એક હોય છે ' જે નાણી તે અસ્થેગદ્યા વુન્નાણી અસ્થેગદ્યા યગનાણી ' એ જ્ઞાની હોય છે તેઓનાં કેવલકે જે જ્ઞાનવાળા અને કેવલકે જે જ્ઞાનવાળા હોય છે ' જે વુન્નાણી તે આભિનિયોષિકજ્ઞાનણી સુચનાણી ' એ એક જે જ્ઞાનવાળા હોય છે તેઓ આભિનિયોષિક જ્ઞાન અને ધ્રુતજ્ઞાન એમ બે જ્ઞાનવાળા હોય છે. ' જે યગનાણી તે કેવલનાણી ' એ એક જ્ઞાનવાળા હોય છે તે કેવલજ્ઞાનવાળા એ હોય છે તે અન્નાણી તે નિયમા દુઅનાણી તમદા મદઅન્નાણીય સુચઅન્નાણીય ' એ અજ્ઞાની હોય છે તે નિયમથી બે અજ્ઞાની હોય છે તેઓને અજ્ઞાન અને ધ્રુતજ્ઞાન એમ બે જ્ઞાન હોય છે ' ચક્ષુરિન્દ્રિયધ્રાણેન્દ્રિયાણાં અલ્પચક્ષુ અલ્પચક્ષુ ય-જહેચ સોદિયસ્સ ઝિર્મિદિયઅલ્પચક્ષુ ષત્પારિ નામાઃ સિન્નિ ય અન્નાણાણી મયપાણ ' એક ઈન્દ્રિય અને ત્રણ ઈન્દ્રિયસ્મિધિકાણાં અને તે સિવાયના એક આત્રેન્દ્રિય અલ્પચક્ષુ એનાની ત્રણ આર જ્ઞાનવાળા અને ત્રણ અજ્ઞાનવાળા હોય છે તથા તે બંને

च अज्ञानानि भजनया, तस्य अलब्धिकाः खलु पृच्छा ? गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानिनोऽपि, ये ज्ञानिनस्ते नियमात् एकज्ञानिनः—केवलज्ञानिनः, ये अज्ञानिनस्ते नियमात् द्व्यज्ञानिनः तद्यथा—मत्यज्ञानिनश्च, श्रुताज्ञानिनश्च, स्पर्शेन्द्रियलब्धिकाः खलु अलब्धिकाः खलु यथा इन्द्रियलब्धिकाश्च, अलब्धिकाश्च ॥सू. ९॥

चाहिये । तथा इन दोनो इन्द्रियोंकी लब्धि बिनाके जीव श्रोत्रेन्द्रिय लब्धिग्रहित जीवोंकी तरह दो ज्ञानवाले या दो अज्ञानवाले या एक केवलज्ञानवाले होते हैं । जो जीव जिन्हा इन्द्रियकी लब्धिवाले होते हैं उनमें चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (तस्स अलद्धिया णं पुच्छा) हे भदन्त ! जो जीव जिन्हेन्द्रियलब्धिसे रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (नाणी वि अन्नाणी वि) हे गौतम ! जिन्हेन्द्रियलब्धिसे रहित जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । (जे नाणी, ते नियमा, एगनाणी केवलनाणी, जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी—तं जहा मइ अन्नाणी य, सुय अन्नाणी य) जो ज्ञानी होने हैं वे नियमसे एक ज्ञान—केवलज्ञानवाले ही होते हैं । तथा जो अज्ञानी होते हैं, वे नियमसे दो अज्ञानवाले होते हैं—एक मति अज्ञानवाले और दूसरे श्रुत अज्ञानवाले । (फारसिदियलद्धियाणं, अलद्धियाणं जहा इदिय लद्धिया य अलद्धिया य) स्पर्शन इन्द्रिय लब्धिवाले और इसकी अलब्धिवाले जीव इन्द्रिय लब्धिवाले और इन्द्रिय की अलब्धिवाले जीवोंकी तरह जानना चाहिये ।

ध्रियेन्द्रियलब्धि सिवायना एव श्रोत्रेन्द्रिय लब्धि रहित एवानी भाङ्क जे ज्ञानवाणा अने तेषु अज्ञानवाणा अने ऐक केवलज्ञानवाणा होय छे जे एव एवमिन्द्रिय लब्धिवाणा होय छे तेमनामा यार ज्ञान अने तेषु अज्ञान लभनाथी होय छे. ' तस्स अलद्धियाणं पुच्छा ' छे भगवान् जे एव इन्द्रिय लब्धि सिवायना होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी । ' गोयमा ' छे गौतम । ' नाणी वि अन्नाणी वि ' इन्द्रियलब्धि रहित एवानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे ' जे नाणी ते नियमा एगनाणी केवल नाणी जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी तं जहा मइ अन्नाणीय सुय अन्नाणीय ' जे ज्ञानी होय छे ते नियमथी ऐक ज्ञान केवलज्ञानवाणा होय छे तथा जे अज्ञानी होय छे ते नियमथी मत्यज्ञान अने श्रुत अज्ञान ऐम जे अज्ञानवाणा होय छे ' फारसिदियलद्धियाणं अलद्धियाणं जहा इदियलद्धिया य अलद्धिया य ' स्पर्शन इन्द्रियलब्धिवाणा अने तेमनी लब्धि सिवायना एव इन्द्रियलब्धिवाणा अने इन्द्रियलब्धि सिवायना एवानी भाङ्क य समञ्चा.



टीका- गौतम पृच्छति- ' चरित्तलद्वियाणं मंते ! जीवा किं नाणी, अघाणी ? हे भदन्त ! चारिअलब्धिका खलु जीवा किं ज्ञानिनः, किं वा अज्ञानिनो भवन्ति ? मगधानाह- गोयमा ! पच नाणाह मयणाए' हे गौतम ! चारिअलब्धिकानां पच ज्ञानानि मजनया भवन्ति, यतः कवलिनोऽपि चारिभि-  
 स्वात् चारिअलब्धिका ज्ञानिन एव भवन्ति, 'तस्स अलद्वियाणं मणपञ्चवनाण वज्जाह चचारि नाणाहं, तिन्नि य अन्नाणाहं मयणाए' तस्य चारिअस्य

टीकार्थ-गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं ( चरित्तलद्वियाणं मंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव चारिअलब्धिवाले होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? सम्पक् सहित ज्ञान जिनके हैं वे ज्ञानी और मिट्टयास्य सहित ज्ञान जिनके हैं वे अज्ञानी हैं ऐसा ज्ञानी और अज्ञानीका लक्षण यहां जानना चाहिये। अज्ञान-ज्ञानका सर्वथा अभाव जिनमें हैं वे अज्ञानी हैं ऐसा अज्ञानी शब्दका अर्थ नहीं है। अतः इसी अभिप्रायको लेकर प्रभु उनसे कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'पचनाणाहं, मयणाए' चारिअलब्धि वाले जीवोंमें भजनासे पांच ज्ञान होते हैं। नियमसे नहीं होते हैं। क्यों कि केवली भी चारिअवान् होनेके कारण चारिअलब्धिवाले ज्ञानी ही होते हैं। इस लिये यहां पर चारिअलब्धिवाले पांच ज्ञान तक भजनासे कहे गये हैं। अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं- 'तस्स अलद्विया ण मणपञ्चवनाणवज्जाह, चचारि नाणाह, तिन्नि य अण्णा

टीकाथ - जीवामी प्रभुने जेवु पूछे ७ ठे ' चरित्तलद्वियाणं मंते जीवा किं नाणी अघाणी ' हे भदन्त ! ने एव चारिअलब्धिवाणा होय ७ ते जानी होय ७ अज्ञानी ? सम्पक् ज्ञान ज्ञेयताया होय ७ ते जानी अने निष्पदव्यसहित ज्ञान ज्ञेयताया होय ७ ते अज्ञानी ७ जे प्रभावे ज्ञानी अने अज्ञानीनुं लक्ष्य व्यसर्गु- अज्ञान अने ज्ञानने। अथवा अज्ञान ज्ञेयताया होय ७ ते अज्ञानी ७ जेने अज्ञानी सम्पदने। अर्थ यतो नथी अटते जेव अविभावेने उदेशीने प्रभु गौतमने ७ठे ७ ठे ' गोयमा ' हे गौतम ! ' पचनाणाहं मयणाए ' चारिअलब्धिवाणा एतेषा अज्ञानाधी पांच ज्ञान होय ७ नियमधी दोष नथी हेयो हेवणी पच चारिअी होवने इत्ये चारिअलब्धिवाणा जानी ७ होय ७ जेवला मटे अर्द्ध चारिअलब्धिवाणाअने पाच ज्ञान सुधी अज्ञानाधी इत्ये ७ प्रश्न - ' तस्स अलद्वियाणं मणपञ्चवनाणवज्जाह चचारि नाणाहं तिन्नि य अन्नाणाहं मयणाए ' हे भदन्त ! ने एव चारिअलब्धि

अलब्धिकानां मनःपर्यवज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि च अज्ञानानि भजनया भवन्ति, तथाहि—चारित्र्यालब्धिमताम् असंयतत्वे आद्यं ज्ञानद्वयं ज्ञान-त्रयं वा भवति, सिद्धत्वे च केवलज्ञान, सिद्धानामपि चारित्र्यालब्धिरहितत्वात् ते नो चारित्रिणो नो अचारित्रिणो भवन्ति, ये तु चारित्र्यालब्धिमन्तोऽज्ञानिन-स्ते भजनया द्वयज्ञानिनोऽपि, । व्यज्ञानिनोऽपि भवन्ति गौतमः पृच्छति—

णाइं भयणाए' हे भदन्त ! जो जीव चारित्र्यालब्धिसे रहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं कि ये ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । ज्ञानियोंमें यहाँ चार ज्ञान तक हो सकते हैं मनःपर्यवज्ञानको छोड़कर । तथा अज्ञानियोंमें तीन अज्ञानतक हो सकते हैं । यही भजना है । जिनके चारित्र्यालब्धि नहीं होती है ऐसे जीव असंयत भी होते हैं, अतः चतुर्थगुणस्थानवर्ती होनेके कारण ऐसे जीवोंके आदिके मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान भी हो सकते हैं । और मतिज्ञान, श्रुत-ज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन ज्ञान भी हो सकते हैं । तथा चारित्र्यालब्धिसे रहित ऐसे सिद्धोंकी जब विवक्षा, ज्ञानी होनेके विचारमें की जाती है तब इनके क्षायोपशमिक मत्यादिक ज्ञान न होनेके कारण केवल एक क्षायिक केवलज्ञान ही होता है । सिद्ध न चारित्री होते हैं और न अचारित्री होते हैं । उसी तरहसे जब चारित्र्यालब्धिवालोंमें अज्ञानियोंकी गणना होती है— तब अज्ञानी होनेके कारण उनके

रहित होय छे ते शु ज्ञानी होय छे डे अज्ञानी होय छे तेना उत्तरमा प्रभु कहे छे  
 डे ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे ज्ञानीओमा 'मनःपर्यवज्ञान छोडीने  
 तेमनामा आर ज्ञान होय छे अने अज्ञानीओमा त्रणु अज्ञान सुधी होय छे ओण  
 भवना छे . जेओमा आरिन्ध्रलब्धि होती नथी, तेवा उवेा असंयत पणु होय छे.  
 'चतुर्थगुणस्थानवर्ती' होवाना कारणे ओवा उवेां मति अने श्रुत ज्ञान ओ ओ ज्ञान  
 होय छे अने मतिज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवधिज्ञान ओ त्रणु ज्ञान पणु होय छे अके छे.  
 तथा आरिन्ध्र लब्धिधी रहित ओवा सिद्धोनी ज्ञानी होवाना सं'धनी विवक्षाधी न्यारे  
 विचारणा करवामा आवे छे त्तारे तेओमां क्षयोपशमिक मत्यादिक ज्ञान न होवाना कारणे  
 केवल ओक क्षायिक केवलज्ञान न होय छे सिद्धो आरिन्ध्र के अचारिन्ध्र होता नथी  
 ओण रीते न्यारे आरिन्ध्र लब्धिवाणोओमा अज्ञानीओनी गणना थाय छे. त्तारे अज्ञानी  
 होवाना कारणे तेमनु ज्ञान अज्ञानइय होय छे. अटवा भट्टे तेओमां ओओमा ओओ

‘सामाह्यपरिचलद्विधा ण मते ! जीवा कि नाणी, अन्नाणी ?’ हे मद्दन्त ! सामायिकचारिअलम्बिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो मयन्ति । अज्ञानिनो वा ? महावनाइ-‘गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी’ हे गौतम ! सामायिकचारिअलम्बिका जीवाः ज्ञानिनो मयन्ति, नो अज्ञानिनः, केवलवज्जाइ चचारि नाणाइ मयणाए’ सामायिकचारिअलम्बिकानां केवलज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि ममनया मयन्ति, सर्वेषामेव सामायिकचारिअलम्बिमतां ज्ञानित्वात्, ‘तस्स अलद्विधाण पञ्च नाणाइ, तिन्नि य अन्नाणाइ मयणाए’ तस्य सामायिकचारिअस्य अलम्बिकानां पञ्च ज्ञानानि, धीणि च अज्ञानानि ममनया मयन्ति,

ज्ञान अज्ञानरूप होते हैं इसलिये इनमें कमसे कम दो अज्ञानतक और अधिकसे अधिक तीन अज्ञानतक हो सकते हैं । अब गौतम स्वामी प्रभुसे एसा पूछते हैं ‘सामाह्य परिचलद्विधा ण मते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे मद्दन्त ! जो जीव सामायिक चारिअलम्बिवाले होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं- ‘गोयमा’ हे गौतम ! सामायिकचारिअलम्बिवाले जीव ‘नाणी’ ज्ञानी होते हैं ‘नो अन्नाणी’ अज्ञानी नहीं होते हैं । ‘केवलवज्जाइ चत्वारि नाणाइ मयणाए’ ये केवलज्ञानको छोड़कर चार ज्ञानवाले भजनासे होते हैं क्यों कि जितने भी सामायिकचारिअलम्बिवाले जीव होते हैं वे सब ज्ञानी होते हैं । तस्स अलद्विधाण पञ्चनाणाइ, तिन्नि य अन्नाणाइ मयणाए’ जो जीव सामायिक चारिअके अलम्बिक होते हैं वे भजनासे पांच ज्ञानवाले भी हो सकते हैं और तीन अज्ञानवाले भी हो सकते हैं । तात्पर्य यह है

वे ज्ञान सुधी अने वधाएमां वधाए म्हु अज्ञान सुधी होय गडे छे प्रक-  
‘सामाह्यपरिचलद्विधाण मते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे मयवन् । ने एव  
सामायिक चारिअ लम्बिकाण होय छे ते ज्ञानी होय छे ते अज्ञानी । उ- ‘गोयमा’  
हे गौतम ! सामायिक चारिअलम्बिकाण एव ‘नाणी’ ज्ञानी च होय छे ‘नो अन्नाणी’  
अज्ञानी होय नथी. ‘केवलवज्जाइ चत्वारि नाणाइ मयणाए’ तेज्जे केवलज्ञाने  
छेडीने अज्ञानापी चार ज्ञानवाण होय छे अरु नेटता सामायिकचारिअ लम्बिकाण  
एव होय छे ते वधाए ज्ञानी च होय छे ‘तस्स अलद्विधाण पञ्चनाणाइ तिन्नि-  
अन्नाणाइ मयणाए’ ने एव सामायिक चारिअनी अलम्बिकाण होय छे तेज्जे  
अज्ञानापी पांच ज्ञानवाण अने म्हु अज्ञानवाण होय छे अरेवने हेतु जे छे ते

सामायिकचारित्रालब्धिमतं मध्ये ये ज्ञानिनस्तेषां छेदोपस्थापनीयादि संभवेन सिद्धभावेन वा पञ्च ज्ञानानि भजनया, ये तु अज्ञानिनस्तेषां त्रीणि अज्ञानानि च भजनयैव, 'एवं जहा सामाह्यचारित्तलद्धिया अलद्धिया य भणिया, एवं जाव अहक्खायचरित्तलद्धिया अलद्धिया य भाणियन्वा' एव रीत्या यथा सामायिकचारित्रलब्धिकाः अलब्धिकाश्च भणिताः, एवं यावत्-छेदोपस्थापनीय-चारित्रलब्धिकाः अलब्धिकाः, परिहारविशुद्धिकचारित्रलब्धिकाः अलब्धिकाश्च यथाख्यात चारित्रलब्धिका अलब्धिकाश्च भणितव्याः तत्र क्रमशः प्रथमे ज्ञानि

किं सामायिकचारित्रकी अलब्धिवालोंमें छेदोपस्थापनीयादि चारित्रवाले भी आते हैं और सिद्ध भी आते हैं । सो ये सब अज्ञानी न होकर ज्ञानी ही होते हैं । क्यों कि इन सबमें सम्यग्दर्शन होता है । अतः जब सामायिकचारित्रकी अलब्धिवाले जीवोंके बीचमें उन्हे लिया जाता है तब इनमें पांच ज्ञान तक हो सकते हैं । और जब सामायिकचारित्रकी अलब्धिवालोंमें मिथ्यादृष्टि लिये जाते हैं- तब वे अज्ञानी होनेके कारण उनके तीन अज्ञानतक हो सकते हैं । 'एवं जहा सामाह्यचरित्तलद्धिया, अलद्धिया य भणिया, एवं जाव अहक्खाय चरित्तलद्धिया अलद्धिया य भाणियन्वा' जिस तरह से सामायिक चारित्रलब्धिवाले और इसकी अलब्धिवाले जीवोंके विषयमें कहा गया है, उसी प्रकारसे यावत्- छेदोपस्थापनीयचारित्रकी लब्धिवाले एवं इसकी अलब्धिवाले, परिहार विशुद्धिकचारित्रकी लब्धिवाले एवं इसकी अलब्धिवाले, तथा यथाख्यात चारित्र की लब्धिवाले एवं इसकी

सामायिक चारित्रकी अलब्धिवालाओंमें छेदोपस्थापनीयादिक चारित्रवालाओंमें समावेश थोड़ा जगह है अने सिद्धोंमें पाणु समावेश थाय छे तेथी तेओ ज्ञानी न होय छे कारण छे तेमनामा सम्यग्दर्शन होय छे. अतः न्यारे सामायिक चारित्रकी अलब्धिवाला ओवामा तेओने थोणु करवामा आवे त्यारे तेओमा पाच ज्ञान पर्यंत होय शक्य छे. अने न्यारे सामायिक चारित्रकी अलब्धिवालाओंमा मिथ्यादृष्टि लेवामा आवे छे त्यारे तेओ अज्ञानी होवाना कारण तेओमा त्रणु अज्ञान पर्यंत होय शक्य छे 'एवं जहा सामाह्यचरित्तलद्धिया अलद्धियाय भणिया एवं जाव अहक्खाय चरित्तलद्धिया अलद्धियाय भाणियन्वा' न रीते सामायिक चारित्र लब्धिवाला अने तेनी अलब्धिवाला ओवामा विषयमा छोडवामा आण्यु छे ते न रीते यावत्-छेदोपस्थापनीय चारित्रकी लब्धिवाला अने तेनी अलब्धिवाला, परिहार विशुद्धिक चारित्रकी लब्धिवाला अने तेनी अलब्धिवाला तथा यथाख्यात चारित्रकी लब्धिवाला अने तेनी अलब्धिवाला

नो, नो भ्रान्तिनः केवलज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि भजनया च तेषां परिहारविशुद्धिकान्तचारिप्रलम्बिमतां भवन्ति, तदलम्बिज्ञाना तु पञ्च ज्ञानानि, श्रीणि च अज्ञानानि भजनयैव भवन्ति 'नवरं अष्टकस्वायचरित्तलद्वियाणं पच नाणाह मयणाए'नवरं यथाख्यातचारिप्रलम्बिज्ञानां पञ्च ज्ञानानि भजनया चाध्यानि, तथा च छेदोपस्थापनीयादि चारित्र्यप्रयत्नमन्तो ज्ञानिन एव, तेषां चाद्यानि चत्वारि ज्ञानानि भजनया भवन्ति, तदलम्बिमन्तो यथाख्यातचारित्र्यप्रलम्बिमन्तश्च अलम्बिवाले जीवों के विषयमें भी समझना चाहिये । अर्थात् छेदोपस्थापनीयचारिप्रकी लम्बिवालसे छेदर यथाख्यात चारित्र्यतक की लम्बिवाले जीवोंमें ज्ञानी ही जीव होते हैं अतः व सय भजनासे केवलज्ञानवर्ज चार ज्ञानवाले होते हैं और जो इनकी अलम्बिवाले होते हैं वे ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं- ज्ञानियोंमें पाच ज्ञान तक हो सकते हैं और अज्ञानियोंमें तीन अज्ञानतक हो सकते हैं । परन्तु 'नवरं' यथाख्यातचारित्र्यलम्बिवालमें जो विशेषता है यह 'अष्टकस्वाय चरित्तलद्विया पंचनाणाह मयणाए' इस प्रकारसे है कि सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धिक और सूक्ष्मसांपराय इनकी लम्बिवाले जीव छद्मस्थ होते हैं- अतः छद्मस्थ होनेके कारण इनमें चार ही ज्ञान भजनमें होते हैं परन्तु जो यथाख्यातचारित्र्य लम्बिवाले जीव होते हैं वे छद्मस्थ भी होते हैं और केवलीभी होते हैं । अतः इन में तथा सामायिक चारित्र्य आदि की अलम्बिवाले

अज्ञाना विषयमां पञ्च सुभक्तु अर्थात् छेदोपस्थापनीय चारित्र्यलम्बिवालाओंकी लक्षण वथाख्यात चारित्र्य परतनी लम्बिवाला अथवा ज्ञानी व छेद व ज्ञेया भाटे तेजोने लक्षणमा इवज्ज्ञानने छोड़ने चार ज्ञानवाला ठका व अने तेनी अलम्बिवाला होय व तेजो ज्ञानी अने अज्ञानी जने होय व ज्ञानीओंमा पांच ज्ञान सुभीय अने अज्ञानी-ओंमज्जु अज्ञान सुभी होय व परतु 'नवरं' वथाख्यात चारित्र्यलम्बिवालाओंमा व विशेषता व ते 'अष्टकस्वाय चरित्तलद्विया पंचनाणाह मयणाए' ते ज्ञेवी रीते व के सामायिक छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धिक अने सूक्ष्म सांपराय तेनी लम्बिवाला अथ छद्मस्थ होय व ज्ञेवी अक्षर्य होयाना कारणे तेजोमा चार व ज्ञान लक्षणमा होय व परतु व वथाख्यात चारित्र्यलम्बिवाला अथ होय व ते छद्मस्थ पञ्च होय व अने तेजो पञ्च होय व ज्ञेवी भाटे तेजनामा तथा सामायिक चारित्र्य आदिनी अलम्बिवाला ज्ञानीओंमा अज्ञानमा पांच ज्ञान होय व वथाख्यात चारित्र्यने बीतराज चारित्र्य रहेल व

ये ज्ञानिनस्तेषां पञ्च ज्ञानानि भजनया, ये तु अज्ञानिनस्तेषामज्ञानत्रयं भजनयैव, यथाख्यातचारित्र्यलब्धिमतामुक्तविशेषं सूचयितुमाह-नवरमित्यादि । एवञ्च सासायिकादि चारित्र्यचतुष्टयलब्धिमतां छद्मस्थतया चत्वारि एव ज्ञानानि भजनया, यथाख्यातचारित्र्यलब्धिमतान्तु छद्मस्थभिन्नतया पञ्चापि ज्ञानानि भवन्तीति भावः । गौतमः पृच्छति 'चरित्ताचरित्तलद्धिया णं भंते । जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! चारित्र्याचारित्र्यलब्धिका देशविरतिमन्तः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति ? अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह-'गोयमा ! नाणी, नो अन्नाणी' हे गौतम ! चारित्र्याचारित्र्यलब्धिका जीवाः ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिनः, तत्र 'अत्येगइया दुण्णाणी, अत्येगइया तिन्नाणी' सन्ति एकके चारित्र्याचारित्र्यलब्धिमन्तो ज्ञानिनो द्विज्ञानिनो भवन्ति, सन्ति एकके तादृशलब्धिमन्तो ज्ञानित्विज्ञानिनः 'जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी य, सुय-

ज्ञानिर्योमें भजनासे पांच ज्ञान होते हैं । यथाख्यातचारित्र्य वीतराग चारित्र्य कहा है । और इसमें जो पाँचों ज्ञानोंको भजना से कहा गया है वह ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानको लेकर कहा गया है । अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'चरित्ताचरित्त लद्धियाण भंते! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव चारित्र्याचारित्र्य लब्धिवाले-देशविरतिवाले होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! देशविरतिवाले जीव 'नाणी, नो अन्नाणी' ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं । इनमें 'अत्येगइया दुण्णाणी, अत्येगइया तिन्नाणी' कितनेक देशविरतिवाले जीव दो ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक देशविरतिवाले जीव तीन ज्ञानवाले होते हैं । 'जे दुन्नाणी, ते आभिणिबोहियनाणी य,

अने तेभनाभां ने पाय ज्ञान लब्धनाथी कडेल छे ते ११ अण्णारमा अने १२ णारम शुब्धुस्थानने लधने न कडेल छे प्रश्न - चरित्ताचरित्तलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' छे भगवण । ने एव चारित्र्याचारित्र्य लब्धिवाणा-देशविरतीवाणा होय । ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? उ- 'गोयमा' छे गौतम ! देशविरतीवाणा ए 'नाणी, नो अन्नाणी' ज्ञानी न होय छे अज्ञानी होता नथी 'अत्येगइया दुन्नाणी अत्येगइया तिन्नाणी' केटवाक देश विरतीवाणा एव भे ज्ञानवाणा अने केटवाक ज्ञानवाणा होय छे 'जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य

नाणी य' य द्विज्ञानिनस्ते आमिनिबोधिज्ञानिनश्च, श्रुतज्ञानिनश्च भवन्ति, 'जे तिन्याणी ते आमिणिबोधिनाणी सुयनाणी, ओहिनाणी य' य त्रिज्ञानिनस्ते आमिनिबोधिज्ञानिन, श्रुतज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनश्च भवन्ति, 'तस्म अलद्वियाण पंच नाणाइ, तिभि अझाणाइ मयणाए' तस्य चारिशाचारिअस्य अलद्वियाणां धावकमिन्नानां ज्ञानिनां पञ्च ज्ञानानि भजनया भवन्ति य तु अज्ञानिनस्तेषां प्रीप्पि अज्ञानानि भजनयैव भवन्ति, 'दाणलद्वियाण पचनाणाइ, तिन्नि अन्नाणाइ मयणाए' दानान्तरायकर्मक्षयक्षयोपशमाव् दाने दातव्ये वस्तुनि

सुयनाणी य' दो ज्ञानवाले जीवोंमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान होते हैं तथा 'जे तिश्राणी ते आमिणिबोधिनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी य' तीन ज्ञानवालोंमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये तीन ज्ञान होते हैं । 'तस्स अलद्वियाण पचनाणाइ तिभि अन्नाणाइ मयणाए' तथा जो जीव चारिशाचारिअ लक्षिवाले नहीं होते हैं- वे ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं जो ज्ञानी होते हैं व भजनासे पांच ज्ञानवाले होते हैं- क्यों कि य धावक के चारिअ से सिन्न चारिअवाले हैं । तथा जो यहाँ अज्ञानी होते हैं इनमें भी तीन अज्ञान भजनासे होते हैं अर्थात् दो अज्ञान तो होंगे ही- पर तीसरा अज्ञान-धियगज्ञान हो नी सकता है- और नहीं भी हो सकता है । 'दाणलद्विया णं पचनाणाइ तिभि अझाणाइ मयणाए' दानान्तरायकर्मक क्षयोपशमसे दान-दातव्य वस्तुमें जिनकी लक्षि हाती है वे दानलक्षिवाले जीव हैं । ऐसे जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानो

ने वे ज्ञानवाले अथवा अतिज्ञान करने श्रुतज्ञान के ज्ञान होय है तथा 'जे तिन्याणी ते आमिणिबोधिनाणी, सुयनाणी ओहिनाणी य' तस्य ज्ञानवाले अतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान के तस्य ज्ञान होय है 'तस्स अलद्वियाण पचनाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ मयणाए' के अथ चारिआ चारिअलक्षि संबद्ध होय है ते ज्ञानी पक्ष होय है करने अज्ञानी पक्ष होय है तेजे अज्ञानाधी पञ्च ज्ञानवाला होय है तेभजे तेजे आवज्जा चारिअधी गुहा प्रभरणा चारिअवज्जा होय है तथा नेभने अज्ञी अज्ञानी अवज्जाना है तेभनाअ पक्ष तस्य अज्ञान अवज्जानी होय है अर्थात् तेभनाअ के अज्ञान तो होय व परंतु त्रीक्ष विज्ज अज्ञान-विज्ज अज्ञान पक्ष होय व है है करने हेतु पक्ष नहीं 'दाणलद्वियाण पचनाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ मयणाए' अन्तन्तरायकर्मना अथवापक्षधी धन दातव्य वस्तुमें नेनी लक्षि बाध है ते दानलक्षि अथ है तेना अथ

लब्धिर्घेपां ते दानलब्धयः, ते च ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च भवन्ति, तत्र ये ज्ञानिन-  
स्तेषां पञ्च ज्ञानानि भजनया भवन्ति, केवलज्ञानिनामपि दानलब्धिपुक्तत्वात्, ये  
तु अज्ञानिनो दानलब्धिमन्तस्तेषां त्रीणि अज्ञानानि भजनयैव भवन्ति । गौतमः  
पृच्छति-‘तस्स अलद्धिया पुच्छा’ हे भदन्त ! तस्य दानस्य अलब्धिका जीवाः  
किं ज्ञानिनो भवन्ति. अज्ञानिनो वा ? इति पृच्छा प्रश्नः, भगवानाह-‘गोयमा !  
नाणी, नो अन्नाणी, नियमा एगनाणी केवलनाणी’ हे गौतम ! दानरग अल-  
ब्धिकाः जीवाः ज्ञानिनो भवन्ति, नो अज्ञानिन दानालब्धिमन्तस्तु सिद्धा, ते  
च दानान्तरायक्षयेऽपि दातव्याभावात् सम्प्रदानासत्त्वात् दानप्रयोजनाभावाच्च  
दानालब्धयः प्रोक्तास्ते नियमात् नियमनः एकज्ञानिनः-केवलज्ञानिनो भवन्ति।  
अथ लाभभोगोपभोगवीर्यलब्धीस्तदलब्धयथातिद्विगन्नाह-‘ एवं जाय वीरियस्स

भी होते हैं । इनमें जो जानी होते हैं वे भजनासे पांच ज्ञानवाले  
होते हैं । क्यों कि केवलज्ञानियोंको भी दानलब्धिसे युक्त माना गया  
है । तथा जो दानलब्धिवाले अज्ञानी होते हैं उनके तीन अज्ञान  
भजनासे ही होते हैं । अब गौतम स्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं-  
‘तस्स अलद्धियाण पुच्छा’ हे भदन्त ! जो दानलब्धिवाले नहीं होते हैं-  
ऐसे जीव क्या जानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें  
प्रभु कहते हैं- ‘गोयमा’ हे गौतम ‘नाणी, नो अन्नाणी नियमा एग-  
नाणी केवलनाणी’ दानकी अलब्धिवाले जीव जानी होते हैं, अज्ञानी  
नहीं होते हैं । दानालब्धिवालोंमें सिद्ध जीवोंको लिया गया है.  
इनके यद्यपि दानान्तरायके क्षयसे दानलब्धि होनी चाहिये- परन्तु  
दातव्य वस्तुके अभावसे, सम्प्रदानके अमत्त्वसे, और दानप्रयोजनके  
अभावसे इन्हें दानालब्धिवाले कहा गया है । ये नियमसे एक ज्ञान

ज्ञानी पशु होय छे अने अज्ञानी पशु होय छे तेभा ने ज्ञानी होय छे तेओ लब्धनाथ  
पांथ ज्ञानवाणा होय छे केभडे केवणज्ञानीओने पशु दानलब्धिवाण मानवामा आव्वा छे  
तथा ने दानलब्धिवाणा अज्ञानी होय छे तेमने त्रण अज्ञान लब्धनाथी होय छे प्रश्न-  
‘तस्स अलद्धियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! ने दानलब्धिवाणा होता नथी तेवा छे  
ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? :- ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नाणी नो अन्नाणी  
‘नियमा एगनाणी केवलनाणी’ दानलब्धिवाणा एव ज्ञानी होय छे, अज्ञानी होत  
नथी दान लब्धिवाणाओमा सिद्ध ज्ञानी गणुत्री करवामा आवी छे ने के तेओभा  
दानान्तरायना क्षयथी दानलब्धि होवी जेधमे परतु दानत्व परतुना अभावथी संप्रदान-  
असत्त्वथी अने दान प्रयोजनना अभावथी तेओने दानालब्धिवाणा उक्ता छे ओ नियमसे



લ્હદી, અલ્હદી ય માણિયશ્વા' એ વાનસ્ય લલ્હિષદેવ યાવત્-લામસ્ય, મોગસ્ય, ઉપમોગસ્ય, ઘીર્યસ્ય ય લલ્હિષ, અલલ્હિષમ મણિતશ્વા યત્કશ્વા, તપ્ત લામાદી નામપિ પ્રલ્હિષયઃ સિદ્ધાનામેવ દાનાલ્હિષવદષસેયા, ન ચ દાનાઘન્ટરાય ક્ષયાત્ કેલ્હિનાં દાનાદયઃ સર્વથા કય ન મષન્તિ ? इति वाच्यम्, તેવા હિ મગરતાં કૃતકૃત્પતયા પ્રયોજનામાવાત્ તદમાવસિદ્ધેઃ 'વાલ્હીરીયલ્હિયાણં તિન્નિ નાણાઃ તિન્નિ અન્નાણાઃ મયણાપ' વાલ્હીરીયલ્હિયાણામ્ અમયઠાનાં જ્ઞાનિનાં શ્રીષિ જ્ઞાનિના, અજ્ઞાનિનાશ્ચ શ્રીષિ અજ્ઞાનિના મષનત્યા મવન્તિ, 'ઉસ્સ

વાલે અર્થાત્ કેલ્હમ જ્ઞાનવાલે હોતે હ્ । 'એ વાલ્હીરીયસલ્હી અલ્હદી ય માણિયશ્વા' હસી તરહસે યાવત્- લામ, મોગ, ઉપમોગ ઔર ઘીર્ય જ્ઞાની લલ્હિષવાલે ઔર અલલ્હિષવાલે મી કહના વાહિયે । જ્ઞાન મેં લામાદિકોં વી અલ્હિષવાલોંમેં સિદ્ધોંકો લિયા ગયા હે- અતઃ હહે જ્ઞાની હી જ્ઞાનના વાહિયે ઔર યે એક જ્ઞાનવાલે હી હોતે હ્ । યહાં પર ગેમી આદાંકા નહીં કરના વાહિયે 'કિ સિદ્ધોંમેં વાનાદિક અન્તરાય વા સર્વથા ક્ષય હો જાતા હે તય ( કેલ્હિયો ) સિદ્ધોંમેં વાનાદિકોં વા અમાય સર્વથા આપ કૈસે કરતે હે ?' ક્યોંકિ વે મગવાન્ મૃતમૃત્ય હો જાત હે- ડમ લિયે ઉન્હેં કોઈ પ્રયોજન મહી રહતા હે અત પ્રયોજનામાવાત્ વાનાદિ લલ્હિષયોંકા વહાં અમાય સિદ્ધ ટોતા હે । વાલ્હીરીયલ્હિયા ણ તિન્નિ નાણાઃ તિન્નિ અન્નાણાઃ મયણાપ' જો વાલ્હીરીયલ્હિષવાલ જીવ હાતે હે- વ જ્ઞાની મી હોતે હ્ ઔર

કેવળજ્ઞાન-એક જ્ઞાનવાળા હોય છે । 'એ વાલ્હીરીયલ્હી અલ્હદીય માણિયશ્વા' એવું હીતે - યાવત્ - લામ ક્ષેત્ર ઉપશ્લેષ વીધ તેની અલ્હિષ અને લલ્હિષવાળાના નિવધમાં પણ સમ વું તેમા લામાદિકોની અલ્હિષવાળાઓમા સિદ્ધોને અનુવામાં આભા છે એવું તેમને યાની / જાણના અને તે એક જ જ્ઞાનવાળા હોય છે અહીં જોવી શકા ન કરવી હે સિદ્ધોમા યાનાન્તરાયને સવથા નાશ થઈ જાય છે ત્યારે ( કેવળજ્ઞ ) સિદ્ધોમાં જ્ઞાનિનો સવથા અભાવ આપ કેવી રીતે મ્હો છે । અલ્હદી તેમા મૃતમૃત્ય મ્હાં જાય છે એકમે તેઓને કોઈ પ્રયોજન રહેવું નથી એટલે પ્રયોજનનો અભાવ વોલ્હી યાનાલ્હિષઓનો અભાવ પણ સિદ્ધ થાય છે 'વાલ્હીરીયલ્હિયાણં તિન્નિ નાણાઃ તિન્નિ અન્નાણાઃ મયણાપ' વાલ્હીરીય લલ્હિષવાળા હવે હોય છે ત જ્ઞાની પણ હોય છે અને અજ્ઞાની પણ હોય છે અને જે જ્ઞાની હોય છે તેઓમાં

अलद्धियाणं पंच नाणाइ भयणाए' तस्य वालवीर्यस्य अलब्धिकानां संयतानां संयतासंयतानां च ज्ञानित्वेनैव पञ्च ज्ञानानि भजनया भवन्ति, 'पण्डियवीरियलद्धियाणं पच नाणाइं भयणाए' पण्डितवीर्यलब्धिकानां संयतानां ज्ञानित्वेनैव पञ्च ज्ञानानि भजनया भवन्ति, 'तस्स अलद्धियाणं मणपज्जवनाणवज्जाइं णाणाइं अन्नाणाइं तिन्नि य भयणाए' तस्य पण्डितवीर्यस्य अलब्धिकानाम् असंयतानां संयतासंयतानां सिद्धानाञ्च मध्ये असंयतानामाद्यं ज्ञानत्रयं मनःपर्यवर्जितम् अज्ञानत्रयं च भजनया भवति, संयतासंयतानां तु ज्ञानत्रयं भजन-

अज्ञानी भी होते हैं- जो ज्ञानी होते हैं उनमें भजनासे ही तीन ज्ञान होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं उनमें भी तीन अज्ञान भजनासे ही होते हैं । 'तस्स अलद्धियाणं पंचनाणाइं भयणाए' तथा जो वालवीर्यकी अलब्धिवाले जीव होते हैं वे संयत और संयत-संयत होते हैं अतः इनमें 'पंचनाणाइं भयणाए' पांच ज्ञान भजनासे ही होते हैं । क्यों कि ये ज्ञानी ही होते हैं । 'पण्डियवीरियलद्धियाणं पचनाणाइं भयणाए' पण्डितवीर्यलब्धिवाले जीव संयत होनेसे ज्ञानी ही होते हैं. इस कारण इनमें पांच ज्ञान भजनासे होते हैं । 'तस्स अलद्धियाणं मणपज्जवनाणवज्जाइं णाणाइं अन्नाणाइं तिन्नि य भयणाए' पण्डितवीर्यकी अलब्धिवालोंमें असंयत, संयतासंयत और सिद्ध ये सब आते हैं-इनके बीचमें जो असंयत ज्ञानी होते हैं उनमें मनःपर्यवज्ञानको छोड़कर आदि के ज्ञानत्रय, भजनासे होते हैं तथा इन असंयतोंमें जो

भजनाधी त्रयु ज्ञान होय छे अने ने अज्ञानी होय छे तेमनामां भजनाधी त्रयु अज्ञान होय छे 'तस्स अलद्धियाणं पंचनाणाइं भयणाए' तथा आलपण्डितवीर्यनी ने अलब्धि-वाणा एव होय छे, ते संयतासंयत होय छे ओरला भाटे तेओमां 'पंचनाणाइं भयणाए' पांच ज्ञान भजनाधी होय छे ईभडे तेओ ज्ञानी न होय छे. 'पण्डिय-वीरियलद्धियाणं पचनाणाइं भयणाए' पण्डितवीर्यलब्धिवाणा एव संयत होवाना धारणे ज्ञानी न होय छे ओरला भाटे तेओमां पांच ज्ञान भजनाधी होय छे. 'तस्स अलद्धियाणं मणपज्जवनाणवज्जाइं नाणाइं अन्नाणाइं तिन्नि य भयणाए' पण्डितवीर्यनी अलब्धिवाणाओ असंयत, संयतासंयत अने सिद्ध ओ सधणाने सभावेश थाय छे तेओमा ने असंयत अने संयतासंयत अने सिद्ध ओ सधणाने सभावेश थाय छे तेओमा ने असंयत ज्ञानी होय छे तेमनामा मनःपर्यवज्ञान छोडीने आनिना त्रयु ज्ञान

यैव भवति, सिद्धानां च पण्डितवीर्यशास्त्र्य प्रत्युपेक्षणाघनुष्ठाने प्रवृत्त्यभावेन पण्डितवीर्यलम्बिकतया केवलज्ञानमेष भवति, मनःपर्यवज्ञानन्तु पण्डितवीर्यलम्बिमतामेष भवतीत्याश्रयेनाह—मनःपर्यवज्ञानवर्जितानि ज्ञानानि अज्ञानानि श्रीणि च भजनया इति । गौतमः पृच्छति— बालपण्डितवीर्यलम्बिकया च मते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भवन्त ! बालपण्डितवीर्यलम्बिका खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह—'तिन्नि नाप्पाइ मयणाए' हे गौतम ! बालपण्डितवीर्यलम्बिकानां श्रीणि ज्ञानानि भजनया भवन्ति, 'तस्स

अज्ञानी होते हैं उनमें तीन अज्ञान भजनास होते हैं तथा जो मयतासंपत्त जीव होते हैं उनमें तीन ज्ञान भजना से होत हैं । तथा सिद्धजीव पण्डितवीर्यशास्त्र्य प्रत्युपेक्षणारिरूप (पण्डितेइणादि) अनुष्ठानमें प्रवृत्ति रहित होते हैं । अतः इसमें उनकी प्रवृत्तिके अभावमें पण्डितवीर्यलम्बिकता होनेसे केवलज्ञान ही होता है अन्य ज्ञान नहीं । मनःपर्यवज्ञानको जो यहां मूत्रमें छोड़नेकी बात कही गई है उसका कारण यह है कि मनःपर्यवज्ञान पण्डितवीर्यलम्बिकालोंको ही होता है । अब गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'बालपण्डितवीर्यलम्बिकारिणां मते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भवन्त ! जो जीव बालपण्डितवीर्यलम्बिकवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? हमके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं— तिन्नि नाणाइ 'मयणाए' हे गौतम ! बालपण्डितवीर्यलम्बिकालोंमें तीन ज्ञान भजना से होते हैं तात्पर्य कहनेका यह है कि बालपण्डित वीर्यलम्बिकवाले जीव ज्ञानीही होते हैं— अतः उनमें भजनासे ही तीन ज्ञान होते हैं । तथा जो जीव बाल-

अज्ञानी होते हैं तथा जो मयतासंपत्त जीव होते हैं वेभने प्रश्न ज्ञान अज्ञानकी दोष से किन्तु अज्ञान पण्डितवीर्यशास्त्र्य प्रत्युपेक्षणारिरूप अनुष्ठानमा प्रवृत्ति विनामा दोष से तेषी तेजोभा वेनी प्रवृत्तिना अभावमा पण्डितवीर्यलम्बिकता दोषाधी केवलज्ञान च दोष से अज्ञान नहीं अज्ञानपर्यवज्ञानने अर्द्धी अज्ञाना अनुष्ठानानु कहेव से तेषु ज्ञानने से मनःपर्यवज्ञान पण्डितवीर्यलम्बिकवालाज्योने च दोष से अज्ञान 'बालपण्डितवीर्यलम्बिकारिणां मते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भवन्त ! वे अज्ञानपण्डितवीर्यलम्बिकवाला दोष से तेषो ज्ञानी केव से अज्ञानी ? अतः तिन्नि नाणाइ 'मयणाए' हे गौतम ! बालपण्डितवीर्यलम्बिकवालाज्योभां प्रश्न ज्ञान अज्ञानकी दोष से कहेवानु तात्पर्य ने से बालपण्डितवीर्यलम्बिकवाला अज्ञानी च दोष से तेषी ज्योभां अज्ञानकी प्रश्न ज्ञान दोष से तथा जो अज्ञानपण्डितवीर्यलम्बिक

अलद्धियाणं पच नाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' तस्य वालपण्डितवीर्यस्य संयतासंयतस्य अलब्धिकानाम् अश्रावकाणाम् पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया भवन्ति । गौतमः पृच्छति—'इन्द्रियलद्धिया णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! इन्द्रियलब्धिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह—'गोयमा ! चत्तारि णाणाइं, तिन्नि य अन्नाणाइं भयणाए' हे गौतम ! इन्द्रियलब्धिकानां चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि च अज्ञानानि

पण्डितवीर्यकी अलब्धिवाले होते हैं 'तस्मअलद्धियाणं पच नाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' वे ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं—जो जीव इनमें ज्ञानी होते हैं उनमें भजनासे पांच ज्ञान तक हो सकते हैं और जो अज्ञानी होते हैं उनमें भी भजनासे तीन अज्ञान तक हो सकते हैं । वालपण्डितवीर्यका तात्पर्य संयतासंयतसे है— इसकी अलब्धिवाले अश्रावक होते हैं । अश्रावकमें सिद्ध भी आजाते हैं । अतः इसी अपेक्षासे यहाँ पांच ज्ञानोंका होना भजनासे कहा गया है।

अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं— 'इन्द्रियलद्धियाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त ! जो जीव इन्द्रियलब्धिवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं— 'चत्तारि नाणाइ तिन्नि य अन्नाणाइं भयणाए' हे गौतम ! जो जीव इनमें ज्ञानी होते हैं उनको भजनासे चार ज्ञान होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं उनमें तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । इन्द्रियलब्धिवाले ज्ञानियोंमें केवलज्ञान नहीं होता है, क्यों कि

अलब्धिवाणा होय छे तेओ 'तस्म अलद्धियाण पंचनाणाइ तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे ने एव तेओमा ज्ञानी होय छे तेओमा पांच ज्ञान लजनाथी होय छे अने ने एव अज्ञानी होय छे तेओने त्रणु अज्ञान लजनाथी होवानी शक्यता छे—होय छे आक्षयडितवीर्यनुं तात्पर्य संयता संयतथी छे, तेनी अलब्धिवाणा अश्रावक होय छे अश्रावकमां सिद्धो पणु आवी नय छे ओटला भाटे ते अपेक्षाओ पांच ज्ञानोनु होवुं—लजनाथी कहु छे प्रश्न—'इन्द्रियलद्धियाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! ने एव इन्द्रिय लब्धिवाणा होय छे तेओ ज्ञानी होय छे ते अज्ञानी ? उः—'चत्तारिनाणाइ तिन्नि य अन्नाणाइं भयणाए' हे गौतम ! ने एव तेओमा ज्ञानी होय तेओने लजनाथी चार ज्ञान होय छे अने ने अज्ञानी होय छे तेओमा लजनाथी त्रणु अज्ञान होय छे इन्द्रियलब्धिवाणा ज्ञानी-ओमा डेवणज्ञान होवुं नथी कमडे डेवणीओमा इन्द्रियोना उपयोगेना असाव होय छे.

मजनया भवन्ति, तथा च-इन्द्रियलब्धिका य ज्ञानिनस्तेषां चत्वारि ज्ञानानि  
मजनया बोध्यानि, केवलज्ञानन्तु न, केवलिनामिन्द्रियोपयोगामावात्,  
य तु अज्ञानिनस्तेषामज्ञानप्रथं मजनयैवेति माय । गौतमः पृच्छति-‘तस्म  
अलक्षिणां पुच्छा’ हे भवन्ति । तस्य इन्द्रियस्य अलक्षिका जीवाः किं ज्ञानिनो  
भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? इति पृच्छा प्रश्नः, ‘मगवानाह-‘गोयमा ! नाणी,  
नो अज्ञानी, नियमा एगनाणी केवलनाणी’ हे गौतम ! इन्द्रियालब्धिकाः  
ज्ञानिनो-भवन्ति, ना-अज्ञानिनः, ते-खलु-इन्द्रियालब्धिका केवलिन एव इति  
नियमात् नियमतः एकज्ञानिनस्ते केवलज्ञानिन एव भवन्ति, ‘सोऽद्वियलक्षिणा  
य महा इदियलक्षिया’ भोत्रेन्द्रियलब्धिकाः खलु जीवा यथा इन्द्रियलब्धिका  
स्तथैव वक्तव्या, ते च ये ज्ञानिनस्ते केवलमिन्नत्वात् मजनया प्रथमज्ञान-  
चतुष्टयशक्तिनो भवन्ति, अज्ञानिनस्तु मजनया अज्ञानिनो भवन्ति । गौतमः

केवलियोंको इन्द्रियोंके उपयोगका अभाव रहता है । अथ गौतमस्वामी  
प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं- ‘तस्म अलक्षिणां पुच्छा’ किं हे भवन्ति !  
जो जीव इन्द्रियालब्धिवाले होते हैं- वे क्या ज्ञानी होते हैं या  
अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न करते हैं- ‘नाणी, नो अज्ञानी’  
हे गौतम ! जो जोष इन्द्रियोंकी क्षमि घिनाके होते हैं व ज्ञानी होते  
हैं अज्ञानी नहीं होते हैं । ज्ञानियोंमें भी वे दो तीन आदि ज्ञानवाले  
नहीं होते हैं । किन्तु एक केवलज्ञानवाले ही होते हैं । ऐसा नियम है  
‘सोऽद्वियलक्षिणां जहा इदियलक्षिया’ जिस तरहसे इन्द्रिय लब्धिवाले  
जीवोंको कहा गया है उसी तरहसे भोत्रेन्द्रिय लब्धिवाले जीवोंको  
जानना चाहिये । अर्थात् भोत्रेन्द्रिय लब्धिवाले जीव ज्ञानी और  
अज्ञानी दोनों प्रकारके होते हैं इनमें जो ज्ञानी होते हैं वे केवलीसे  
भिन्न होते हैं इसलिये वे मजनसे चार ज्ञानवाले होते हैं और जो

प्रश्न- ‘तस्म अलक्षिणां पुच्छा’ हे भवन्ति ! ये एवं इन्द्रियलब्धिवाला होय छे  
ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? - ‘नाणी नो अज्ञानी’ हे गौतम !  
ये एवं इन्द्रियानी लब्धि रक्षित होय छे तेजो ज्ञानी व होय छे अज्ञानी होय नही  
ज्ञानीज्येभा पञ्च छे तत्र आदिज्ञानवाणा नही पञ्च हेतु ज्ये केवलज्ञानवाणा व होय छे  
तेजो नियम छे ‘सोऽद्वियलक्षिणां जहा इदियलक्षिया’ ज्ये रीते इन्द्रियलब्धिवाला  
ज्येना जिये कलु छे तेजो रीते भोत्रेन्द्रियलब्धिवाला ज्येना विषयभा पञ्च समस्त  
अर्थात् भोत्रेन्द्रियलब्धिवाला एवं ज्ञानी जने अज्ञानी जने प्रधारना होय छे तेजोयं जे  
ज्ञानी होय छे तेजो केवलज्येथी लुहा प्रधारना होय छे ज्येथे लज्जनाथी तेजो जार  
ज्ञानवाणा होय छे जने तेजोभांजा अज्ञानी लज्जनाथी तत्र अज्ञानवाणा होय छे प्रश्न-

पृच्छति—‘तस्स अलद्धिया णं पुच्छा’ तस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य अलब्धिकाः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? इति पृच्छा प्रश्नः, भगवानाह—‘गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि’ हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रियालब्धिका जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि, ‘जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी, अत्येगइया एगनाणी’ ये श्रोत्रेन्द्रियालब्धिका ज्ञानिनस्ते सन्ति एकके केचन द्विज्ञानिनो भवन्ति, सन्ति एकके तु एकज्ञानिनो भवन्ति, ‘जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी, जे एगनाणी ते केवलनाणी’ ये द्विज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनो भवन्ति, ये एकज्ञानिनस्ते केवलज्ञानिनो भवन्ति, तथा च श्रोत्रेन्द्रियालब्धिमन्तो जीवा ये ज्ञानिनस्ते प्रथमद्वयज्ञानशालिनः, ते च अपर्या-

इनमें अज्ञानी होते हैं वे भजनासे तीन अज्ञानवाले होते हैं ।

अब गौतम स्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—‘तस्स अलद्धियाणं पुच्छा’ हे भदन्त ! जो जीव श्रोत्रेन्द्रियके लब्धिवाले नहीं होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इस के उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘गोयमा नाणी वि अन्नाणी वि’ हे गौतम ! श्रोत्रेन्द्रियकी अलब्धिवाले जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं— ‘जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी, अत्येगइया एगनाणी’ जो इनमें ज्ञानी होते हैं उनमें कितनेक दो ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक एक ज्ञानवाले होते हैं । ‘जे दुन्नाणो ते आभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी य’ जो दो ज्ञानवाले होते हैं उनमें आभिनिबोधिक ज्ञानवाले और श्रुतज्ञानवाले होते हैं । ‘जे एगनाणी ते केवलनाणी’ और जो एक ज्ञानी होते हैं वे केवलज्ञानी ही होते हैं । यहाँ पर जो श्रोत्रेन्द्रियालब्धिक जीवोंको दो ज्ञानवाला कहा गया है उनमें अपर्याप्तक सासादन शुण-

‘तस्स अलद्धियाणं पुच्छा’ हे भगवन्त ! ये एव श्रोत्रेन्द्रियलब्धि विनाना होय छे तेओ ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? ७ - ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नाणी वि अन्नाणी वि’ श्रोत्रेन्द्रियलब्धिवाणा एव ज्ञानी पणु होय छे अने अज्ञानी पणु होय छे ‘जे नाणी ते अत्येगइया दुन्नाणी, अत्येगइया एगनाणी’ तेओभा डेटलाक भे ज्ञानवाणा अने डेटलाक ओक ज्ञानवाणा होय छे जे दुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणी य, सुयनाणी य’ ने भे ज्ञानवाणा होय छे ते आभिनिबोधिक ज्ञान अने श्रुतज्ञानवाणा होय छे ‘जे एगनाणी ते केवलनाणी’ अने ने ओक ज्ञानवाणा होय छे ते इकत डेवणज्ञानवाणा न होय छे अर्डीआ श्रोत्रेन्द्रियलब्धिवाणा एवोने भे ज्ञानवाणा इबा छे तेमा अपर्याप्तक सासादन शुणुस्थानभां रहेवावाणा सम्यक् दृष्टि

सका सासादनगुणस्यानपवर्तिसम्पदर्शनो विकलेन्द्रियाः, एकज्ञानिनो वा केवलज्ञानिनः, ते हि भ्रोजेन्द्रियालम्बिकाः इन्द्रियोपयोगामावात्, 'जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी, त जहा-मइअन्नाणी य, सुयअन्नाणी य' ये तु भ्रोजेन्द्रियालम्बिमन्तोऽज्ञानिनस्ते नियमात् इषज्ञानिना भवन्ति, आद्यद्वयाज्ञानशक्तिः, तद्यथा-मत्यज्ञानिनश्च, भुताज्ञानिनश्च, 'चर्षिस्त्वदियघाणिदिया ण सद्धियाण अलद्धियाण य जइए सोइदियस्स' चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रियाणां लम्बिकानाम् चक्षुरिन्द्रियसङ्घिकानां घ्राणेन्द्रियसङ्घिकानामित्यर्थ, एषम् तदुभयालम्बिकानामप्या भ्रोजेन्द्रियस्य लम्बिमतां चत्वारि ज्ञानानि भजनया, त्रीणि चाज्ञानानि मननयैव, तदलम्बिमतां च द्वे च ज्ञाने, त्रे च अज्ञाने, एक च ज्ञानमुक्तम्

स्यानवर्ती सम्पगृह्णति विकलेन्द्रिय जीवों को ग्रहण किया गया है तथा एक ज्ञानवाले जो केवली यहाँ ग्रहण किये गये हैं उसका कारण यह है कि केवलियोंमें इन्द्रियअप्य उपयोगका अभाव होता है अतः वे भी भ्रोजेन्द्रियालम्बिकोंमें परिगणित हुए हैं। 'जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी संजहा-मइ अन्नाणीय, सुय अन्नाणी य' तथा इन भ्रोजेन्द्रियालम्बिकोंमें जो जीव अज्ञानी होते हैं वे नियम से दो अज्ञानवाले-मतिअज्ञानवाले और भुतअज्ञानवाले होते हैं। 'चर्षिस्त्वदियघाणिदियाणं सद्धियाण अलद्धियाण य जइए सोइदियस्स' चक्षु इन्द्रिय सङ्घिवाले जीवोंमें तथा घ्राणेन्द्रिय लम्बिवाले जीवों में और इन दोनोंकी अलम्बिवाले जीवोंमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकारके जीव होते हैं। सो जिस प्रकारसे भ्रोजेन्द्रियकी लम्बिवालोंमें भजनासे चार ज्ञान और तीन अज्ञान होते कहे गये हैं तथा इसकी अलम्बिवालोंमें दो ज्ञान, दो अज्ञान और एक ज्ञान कहा गया है इसी

विकलेन्द्रिय जीवोंने मकलु कर्मा से तथा एक ज्ञानवाला से इवण्णु कर्मा अकलु कर्मा से वेणु कर्मा से से इवण्णुकोमा इन्द्रियस्य उपभोगतो जलाप देव से भ्रोजे तेजोनी यत्तु भ्रोजेन्द्रिय लम्बिकाणां अज्ञाना इत्थं से 'जे अन्नाणी ते नियमा दुअन्नाणी तं जहा मइअन्नाणीय, सुयअन्नाणीय' तथा भ्रोजेन्द्रिय लम्बिकाणां से एष अज्ञानी देव से तेजो नियमयी भविअज्ञान अने सुतअज्ञान जेभ, ते ज्ञानवाला देव से 'चर्षिस्त्वदिय घाणिदियाणं सद्धियाण अलद्धियाण य जइए सोइदियस्स' चक्षु इन्द्रियलम्बिकाणां जीवाम् तथा सद्धेन्द्रियलम्बिकाणां जीवाम् अने ते अज्ञानी लम्बिकाणां जीवाम् ज्ञानी अने अज्ञानी जेभ अने प्रकटना एवे देव से ते देवी शीते ! भ्रोजेन्द्रियकी लम्बिकाणांमें अज्ञानाती चार ज्ञान अने त्रय अज्ञान इहेल से

तथैव वक्तव्यम्, तत्र चक्षुरिन्द्रियलब्धिकाः, घ्राणेन्द्रियलब्धिकाश्च ये पञ्चेन्द्रियास्तेषां केवलज्ञानवर्जानि चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि चाज्ञानानि भजनयैव. ये तु विकलेन्द्रियाश्चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रियलब्धिकास्तेषां सासादनगुणस्थानकवर्तिसम्यग्दर्शनित्वे आद्यं ज्ञानद्वयम्, तदभावे तु आद्यमेवाज्ञानद्वयम्, चक्षुरिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रियालब्धिकास्तु यथायोग्यं त्रिद्वयेकेन्द्रियाः, केवलिनश्च, तत्र द्वीन्द्रियादीनां सासादनगुणस्थानकवर्तित्वे आद्यज्ञानद्वयं संभवति, तदभावे तु आद्यमज्ञानद्वयं संभवति,

प्रकारसे इन चक्षुइन्द्रिय लब्धिवालोंमें, घ्राणेन्द्रिय लब्धिवालों में और इनकी अलब्धिवालोंमें जानना चाहिये । तात्पर्य कहनेका यह है कि-जो जीव चक्षुइन्द्रिय लब्धिक और घ्राणेन्द्रियलब्धिक पंचेन्द्रिय ज्ञानी हैं उनमें केवलज्ञान वर्ज चार ज्ञान होते हैं और जो अज्ञानी है, उनमें तीन अज्ञान होते हैं सो ऐसा यह कथन भजनासे ही जानना चाहिये नियमसे नहीं । तथा चक्षुइन्द्रिय और घ्राणेन्द्रियलब्धिक जो विकलेन्द्रिय जीव हैं वे यदि सासादन गुणस्थानवर्ति सम्यग्दर्शनवाले हैं तो उनमें आदिके दो ज्ञान होते हैं और यदि अज्ञानी हैं तो इनमें आदिके दो अज्ञान होते हैं । चक्षुइन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय अलब्धिक यथायोग्य तीन इन्द्रियवाले जीव, दो इन्द्रियवाले जीव, एकेन्द्रिय जीव एवं केवली होते हैं- सो द्वीन्द्रियादि जीव जब सासादन गुणस्थानवर्ती हों तब ज्ञानी होनेसे इनमें आदिके दो ज्ञान होते हैं और यदि ये सासादन गुणस्थानवर्ती न हों-तब अज्ञानी होनेसे इनमें आदिके

तथा तेनी अलब्धिवाणाओमां मे ज्ञान अने मे अज्ञान अने अेक ज्ञान कहेल छे. अेव प्रभारथी आ अक्षुध्द्रियलब्धिवाणाओमा, घ्राणेन्द्रियलब्धिवाणाओमां अने तेनी अलब्धिवाणाओमा विषयमा पणु समञ्जुं कहेवानु तात्पर्य अे छे के छव अक्षुध्द्रियलब्धिवाणा अने घ्राणेन्द्रिय लब्धिवाणा पञ्चेन्द्रिय ज्ञानी छे तेओमा केवजज्ञान छोडीने थार ज्ञान होय छे अने ने अज्ञानी होय छे तेओमां त्रणु अज्ञान होय छे आ कथन लजनाथी समञ्जु, नियमथी नई. तथा अक्षुध्द्रिय अने घ्राणेन्द्रिय लब्धिवाणा ने विकलेन्द्रिय छेवा होय छे तेओ ने सासादन गुणस्थानवर्ति सम्यग् दर्शनवाणा होय तो तेओमा पडेलाता मे ज्ञान होय छे अने अज्ञानी होय तो तेओमा आदिना मे अज्ञान होय छे अक्षुध्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय अलब्धिक यथायोग्य त्रणु ध्द्रियवाणा छेवा मे ध्द्रियवाणा छेवा अने अेकेन्द्रिय छव अने केवली होय छे तेमज द्विन्द्रियदिक् छव न्यादे सासादन गुणस्थानवर्ती होय तारे ज्ञानी होवाथी तेओमा आदिना मे ज्ञान होय छे अने



केवलिनो तु एक केवलज्ञानमेवेति भावः । मिर्मिदियलदियाणं चत्तारि  
णाणाइं, तिन्नि य अन्नाणाणि मयणाए' जिह्वेन्द्रियलम्बिकानां चत्तारि ज्ञानानि  
शीषि च अज्ञानानि मजनया भवन्ति । गौतम पृच्छति- 'तस्स अलदियाणं पं  
पुच्छा' हे मदन्त ! तस्य जिह्वेन्द्रियस्य अलम्बिकाः स्वल्पजीवाः किं ज्ञानिनो  
भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह- 'गोयमा ! नापी वि, अन्नापी वि' हे  
गौतम ! जिह्वेन्द्रियस्य अलम्बिका ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि भवन्ति,  
'जिह्वेन्द्रियलम्बिकमिषाः केवलिनः, एकेन्द्रियाश्च, भवन्ति, तत्र 'जे नापी, ते  
नियमा एगनापी केवलनापी, जे अन्नापी ते नियमा दुअन्नापी, त जहा-

दो अज्ञान होते हैं । केवलियों में एक केवलज्ञान ही होता है ।  
'जिर्मिदियलदियाणं चत्तारि णाणाइं, तिन्नि य अन्नाणाणि मयणाए  
जिह्वेन्द्रिय लम्बिक जीवों में चार ज्ञान तथा तीन अज्ञान मजनासे  
होते हैं- तात्पर्य यह है कि जिह्वेन्द्रियलम्बिक जीव ज्ञानी भी होते  
हैं और अज्ञानी भी होते हैं- जो ज्ञानी होते हैं वे केवलज्ञान पर  
चार ज्ञानवाले भी होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं वे तीन अज्ञान-  
वाले भी होते हैं तथा जो 'तस्स अलदियाणं पुच्छा' जिह्वेन्द्रिय लम्बिक  
जीव हैं वे भी ज्ञानी और अज्ञानी दोनों प्रकारके होते हैं । जिह्वेन्द्रिय  
लम्बिक जीव एकेन्द्रिय और केवली होते हैं- इनमें 'जे नापी ते  
नियमा एगनापी केवलनापी' जो ज्ञानी होते हैं वे तो नियमसे एक  
केवलज्ञानवाले ही होते हैं । 'जे अन्नापी ते नियमा दुअन्नापी' और  
जो अज्ञानी होते हैं, वे नियमसे दो अज्ञानवाले होते हैं- दो अज्ञान

जे सासहन सुखरसानवती' न कोय ते त्थरे अया १ कोवाधी तेआभा आदिना जे  
अज्ञान कोय छे । इत्थणीआभा कोय इवणमान न कोय ॥ 'मिर्मिदियलदियाणं  
चत्तारि नाणाइं तिन्नि य अन्नाणाणि मयणाए' इह्वेन्द्रिय लम्बिकजीव अनेमां चार  
ज्ञान तथा त्रय अज्ञान अजनाधी कोय छे । तात्पर्य अछे छे छे इह्वेन्द्रिय लम्बिकजीव  
एव ज्ञानी पक्ष कोय ॥ अने अज्ञानी पक्ष कोय छे ॥ जे ज्ञानी कोय ॥ ते इवणमानने  
छेदिने चार ज्ञानवाला पक्ष कोय ॥ अने जे अज्ञानी कोय ॥ ते त्रय ज्ञानवाला पक्ष  
कोय ॥ 'तस्स अलदियाणं पुच्छा' जे इह्वेन्द्रिय लम्बिक अने छे ते तु ज्ञानी  
कोय ॥ ३ अज्ञानी कोय ॥ १ ॥ - 'गोयमा' हे गौतम ! 'नापी वि अन्नापी  
वि' इह्वेन्द्रिय लम्बिक अनेमां पक्ष ज्ञानी अने अज्ञानी अने प्रकृत्या अने कोय  
॥ इह्वेन्द्रिय लम्बिक एव एकेन्द्रिय अने इत्थणी कोय छे । तेअम 'जे नापी ते  
नियमा एगनापी केवलनापी' जे ज्ञानी कोय ॥ ते ते नियमधी कोय इवण

मइअन्नाणी य, सुयअन्नाणी य' ये जिह्वेन्द्रियलब्धिरहिता ज्ञानिनः, केवलिनः, ते च नियमात् नियमत एकज्ञानिनः केवलज्ञानिनो भवन्ति, ये च अज्ञानिन एकेन्द्रियास्ते नियमात् द्वयज्ञानिनः एकेन्द्रियाणां सम्यग्दर्शनस्याभावात्, विभङ्गाभावाच्च, तद्यथा मत्यज्ञानिनश्च, श्रुताज्ञानिनश्च भवन्ति, 'फासिंदियलद्धिया णं अलद्धिया णं जहा इंदियस्स लद्धिया य, अलद्धिया य' स्पर्शेन्द्रियलब्धिकाः, तदलब्धिकाः, खलु यथा इन्द्रियलब्धिकाश्च तदलब्धिकाश्चोक्ताः तथा वाच्याः, तथा च स्पर्शनेन्द्रियलब्धिकाः केवलज्ञानभिन्नाद्यज्ञानचतुष्टयवन्तो भजनया भवन्ति, तथैवाज्ञानत्रयवन्तो वा, स्पर्शनेन्द्रियालब्धिकास्तु केवलिन एव भवन्तीति भावः ॥ सू. ९ ॥

वालोंमें 'मइ अन्नाणी य सुय अन्नाणीय' मत्यज्ञान और श्रुताज्ञानवाले होते हैं। तथा जो जिह्वेन्द्रिय लब्धिरहित ज्ञानी होते हैं उनमें एक केवलज्ञानी ही होते हैं। जो अज्ञानी एकेन्द्रिय हैं वे नियमसे दो अज्ञानवाले होते हैं। एकेन्द्रिय जीवोंमें सम्यग्दर्शनका अभाव रहता है और विभंगज्ञानका अभाव रहता है। अतः इन्हें दो अज्ञानवाला-मत्यज्ञानवाला और श्रुताज्ञानवाला कहा गया है। 'फासिंदिय लद्धियाणं अलद्धियाणं जहा इंदियलद्धिया य अलद्धिया य' जिस प्रकारसे इन्द्रिय लब्धिक और इन्द्रियालब्धिक जीव कहे जा चुके हैं, उसी प्रकार से स्पर्शनेन्द्रियलब्धिक और अलब्धिक जीव भी जानना चाहिये तथा च स्पर्शनेन्द्रियलब्धिक ज्ञानी जीव भजनासे चार ज्ञान और तीन अज्ञानवाले होते हैं। और जो इसकी अलब्धिवाले होते हैं ऐसे वे केवली

ज्ञानवाणा न् डोय छे 'जे अन्नाणी ते नियमा दुन्नाणी' अने ने अज्ञानी डोय छे ते नियमथी ने अज्ञानवाणा डोय छे अने ने अज्ञानवाणाओमा 'मइअन्नाणी य सुय अन्नाणी य' मत्यज्ञान अने श्रुताज्ञान डोय छे तथा ने ल्हवेन्द्रियलब्धि रहित ज्ञानी डोय छे तेमा इडण ओइ डेवणज्ञान न् डोय छे. ने अज्ञानी ओइन्द्रिय डोय छे, ते नियमथी ने अज्ञानवाणा डोय छे ओइन्द्रिय ल्हवेमा सम्यग्दर्शनने। अने विसंगज्ञानने। अलाव डोय छे ओइडे तेओने मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान ओ ने अज्ञानवाणा डेवामा आव्या छे फासिंदियलद्धिया णं अलद्धियाणं जहा इंदियलद्धियाय अलद्धियाय' ने रीते धद्रियलब्धिवाणा अने धद्रियअलब्धिवाणा ल्व विषे पडेवा डेवामा आव्यु छे ओइ रीते स्पर्शनेन्द्रियलब्धिवाणा अने तेओनी अलब्धिवाणा ल्हवेमा विषे पधु समज्जुं तेमन् स्पर्शनेन्द्रिय लब्धिवाणा ज्ञानी ल्व लज्जनाथी चार

एकादशोपयोगादिद्वारवक्तृभ्यसामाह—

मूर्ध्—‘सागारोवउत्ता ण भस्ते । जीवा किं नाणी, अन्नाणी? पच नाणाइ तिस्त्रि अन्नाणाइ भयणाए, आभिणिघोहियनाण सागारोवउत्ता ण भस्ते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? चत्तारि नाणाइ भयणाए, एव सुयनाणसागारोवउत्ता वि, ओहिनाणसागारोवउत्ता जहा ओहिनाणलद्धिया, मणपज्जव नाणसागारोवउत्ता जहा मणपज्जवनाणलद्धिया, केवलनाण सागारोवउत्ता, जहा केवलनाणलद्धिया, मइअन्नाणसागारोव उत्ताण तिस्त्रि अन्नाणाइ भयणाए, एव सुयअन्नाणसागारोव उत्ता वि, विभगनाणसागारोवउत्ताण तिस्त्रि अन्नाणाइ नियमा । अणागारोवउत्ता णं भस्ते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? पच नाणाइ, तिस्त्रि अन्नाणाइ भयणाए, एव चक्खुदसण-अषक्खु दंसणअणागारोवउत्तावि, नवर चत्तारि नाणाइ, तिस्त्रि अन्ना णाइ भयणाए, ओहिदसणअणागारोवउत्ता ण पुच्छा, गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि, जे नाणी ते अस्थेगइया तिस्त्रिनाणी, अस्थेगइया चउनाणी, जे तिष्णाणी ते आभिणिघोहियनाणी, सुयनाणी, ओहिनाणी, जे चउणाणी ते आभिणिघोहियनाणी, जाव मणवज्जवनाणी, जे अन्नाणी ते नियमा तिस्त्रिअन्नाणी,

ही होते हैं— अतः इनमें एक ज्ञान ही होते हैं और वे एक केवलज्ञान-  
पासे ही होते हैं ॥ सू. ९ ॥

शानवाणां ज्जे पच अण्णानवाणां होय उ ज्जे ने तेनी अण्णानवाणां होय उ ज्जेवा  
दसणीअण्णो होय उ तेथी तेअण्णानां होय उ वण्णानां होय उ ॥ सू. ९ ॥

तं जहा—मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी, विभंगनाणी, केवलदंसण-  
अणागारोवउत्ता, जहा केवलनोणलद्धिया । सजोगी णं भंते !  
जीवा किं नाणी; अन्नाणी ? जहा सकाइया, एवं मणजोगी,  
वइजोगी, कायजोगी वि, अजोगी जहा सिद्धा । सलेस्सा णं भंते !  
जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? जहा सकाइया । कणहलेस्सा णं  
भंते ! जहा सइंदिया । एवं जाव पम्हलेस्सा, सुक्कलेस्सा  
जहा सलेस्सा, अलेस्सा जहा सिद्धा । सकसाई णं भंते ! जीवा  
किं नाणी, अन्नाणी ? जहा सइ दिया, एवं जाव लोहकसाई ।  
अकसाई णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ? पंच नाणाइं  
भयणाए । सवेद्गा णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी ? जहा  
सइंदिया, एवं इत्थिवेद्गा वि; एवं पुरिसवेयगा वि, एवं नपुंसग-  
वेयगा वि, अवेयगा जहा अकसाई । जहा सकसाई नवरं  
केवल नाणं वि, अणाहारगा णं भंते ! जीवा किं नाणी,  
अन्नाणी ? मणपज्जवनाणवज्जाइं नाणाइं, अन्नाणाणि य तिन्नि  
भयणाए ॥ सू० १० ॥

—छाया—साकारोपयुक्ताः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ?  
पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि भजनया, आभिनिवोधिकज्ञानसाकारोपयुक्ताः

‘सागारोवउत्ताणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ - ( सागारोवउत्ताणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी )  
हे भदन्त ! साकार उपयोगवाले जीव क्या जानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? ( पंचनाणाइं तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए ) हे गौतम ! साकार

‘ सागारोवउत्ताणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ’ इत्यादि

सूत्रार्थ :- सागारोवउत्ताण भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ’ हे सगवान्  
साकार उपयोगवाणा एव शु ज्ञानी होय छे के अज्ञानी ? ‘ पंचनाणाइं तिन्नि  
अन्नाणाइ भयणाए ’ हे गौतम ! साकार उपयोगवाणा एवने पांथ ज्ञान तथा त्रषु

सद्य मयन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? अस्वारि ज्ञानानि मज्जनापा, एष भुवज्ञानसाकारोपयुक्ता अपि, अवधिज्ञानसाकारोपयुक्ताः यथा अवधिज्ञान लब्धिकाः, मनःपर्यवज्ञानसाकारोपयुक्ताः यथा मन पर्यवज्ञानलब्धिकाः, केवलज्ञानसाकारोपयुक्ता यथा केवलज्ञानलब्धिकाः, मत्स्यज्ञानसाकारोपयुक्तानां शीघ्रि

उपयोगवाले जीवोंके पांच ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजनासे होते हैं । (आमिनिबोधिय नाण सागारोवउत्ताणं मते ! जीवा किं नाणी अज्ञानी ?) हे मयन्त ! आमिनिबोधिक (मतिज्ञानवाले) साकार उपयोगवाले जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (अस्वारि णाणाइ मयणाए) आमिनिबोधिक साकार उपयोगवाले जीव ज्ञानी ही हाते हैं, अज्ञानी नहीं होते हैं । उनमें चार ज्ञान भजनासे होते हैं (एष सुयनाण सागारोवउत्ता वि) इसी तरहसे भुवज्ञान साकार उपयोगवाले जीवोंको भी जानना चाहिये (ओहिणाणसागारोवउत्ता जहा ओहिणाण लद्धिया, मणपज्जमनाण सागारोवउत्ता जहा मणपज्जमनाणलद्धिया, केवलनाणसागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया) अवधिज्ञान साकारोपयुक्त जीवोंको अवधिज्ञान लब्धियाले जीवोंकी तरह जानना चाहिये । मनःपर्यवज्ञान साकार उपयोगवाले जीवोंको मनःपर्यव ज्ञान लब्धियाले जीवोंकी तरह जानना चाहिये । केवलज्ञान साकार उपयोग वाले जीवोंको केवलज्ञान लब्धियाले जीवोंकी तरह जानना चाहिये । (मइमनाणसागारोवउत्ताण तिन्नि अन्नाणाइ मयणाए, एवं सुय

अज्ञान भजनाधी देव ७ 'आमिनिबोधियनाणसागारोवउत्ताणं मते जीवा किं नाणी अज्ञानी' हे भगवान् । आमिनिबोधिक साकार उपयोगवाला एव यानी देव ७ हे अज्ञानी देव ७ ? 'अस्वारिणाणाइ मयणाए' आमिनिबोधिक साकार उपयोगवाला एव यानी अ देव ७ अज्ञानी होता नहीं मने तेजे। अज्ञानी आर यानवाला देव ७ 'एवं सुयनाणसागारोवउत्तावि' ज्येवी रीते सुययान साकार उपयोगवाला ज्येवने पद्य समन्वय । 'ओहिणाणसागारोवउत्ता जहा ओहिणाण लद्धिया मणपज्जमनाणसागारोवउत्ता जहा मणपज्जमनाणलद्धिया केवलनाण सागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया' अवधिज्ञान साकार उपयोगवाला ज्येवने अवधिज्ञानलब्धियाला ज्येवनी भाइके समन्वय । मनःपर्यवज्ञान साकार उपयोगवाला ज्येवने मनःपर्यवज्ञानलब्धियाला ज्येवनी भाइके अ समन्वय । केवलज्ञान साकार उपयोगवाला ज्येवने केवलज्ञान लब्धियाला ज्येवनी भाइके समन्वय । 'मइमनाणसागारोव

અજ્ઞાનાનિ મજનયા, एवं श्रुताज्ञानसाकारोपयुक्ता अपि, विभङ्गज्ञानसाकारोप-  
युक्तानां त्रीणि अज्ञानानि नियमात् । अनाकारोपयुक्ताः खलु भदन्त ! जीवाः  
किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? पञ्च ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि मज्जनाया, एवं चक्षु-  
दर्शनाचक्षुर्दर्शनानाकारोपयुक्ता अपि, नवरम् चत्वारि ज्ञानानि, त्रीणि अज्ञानानि  
मज्जनाया । अवधिदर्शनानाकारोपयुक्ताः खलु पृच्छा, गौतम ! ज्ञानिनोऽपि, अज्ञानि-

अघ्नोणसागरोवउत्ता वि, विभंगनाणसागरोवउत्ताणं तिन्नि  
अघ्नाणाइं नियमा) जो जीव मत्यज्ञान साकारोपयोगवाले होते हैं  
उनमें नियमसे तीन अज्ञान होते हैं । (अणागारोवउत्ताणं भते !  
जीवा किं नाणी, अघ्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव अनाकारोपयोगवाले  
होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (पचनाणाइं  
तिन्नि अघ्नाणाइं भयणाए) हे गौतम ! जो जीव अनाकारोपयोगवाले  
होते हैं उनमें पांच ज्ञान तथा तीन अज्ञान भजनासे-विकल्पसे होते  
हैं । (एवं चक्खुदंसण, अचक्खुदंसण अणागारोवउत्ता वि नवरं-  
चत्वारि नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए) इसी प्रकार चक्षुदर्शन,  
अचक्षुदर्शन अनाकार उपयोगवाले जीवोंमें भी जानना चाहिये.  
परन्तु- इनमें चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते हैं ।  
(ओहिदंसण अणागारोव उत्ताणं पुच्छ) हे भदन्त ! जो जीव अवधि-  
दर्शन अनाकारोपयोगवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! ( नाणी वि अन्नाणी वि ) जो जीव

उत्ताण तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए एवं सुयअन्नाण सागरोव उत्तावि विभंगनाण  
सागरोवउत्ताणं तिन्नि अन्नाणाइं नियमा ' ने एव मत्यज्ञान साकार उपयोगवाणा  
હોય છે તેમનામાં ત્રણ જ્ઞાન ભજનાથી હોય છે. એજ રીતે શ્રુતજ્ઞાન સાકર  
ઉપયોગવાળા હોય છે તેમા નિયમથી ત્રણ અજ્ઞાન હોય છે ' અણગારોવઉત્તાણં  
ભંતે જીવા કિં નાણી અન્નાણી ' હે ભગવાન્ । ને એવ અનાકાર ઉપયોગવાળા  
હોય છે. તેઓ શુ જ્ઞાની હોય છે કે અજ્ઞાની ? 'પંચનાણાઙ તિન્નિ અઘ્નાણાઙ ભયણાણ'  
હે ગૌતમ ? ને એવ અનાકાર ઉપયોગવાળા હોય છે તેઓમા પાચ જ્ઞાન તથા ત્રણ અજ્ઞાન-  
ભજનાથી હોય છે ' एवं चक्खुदंसण, अचक्खुदंसण अणागारोवउत्तावि नवरं  
चत्वारि नाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' એજ રીતે ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન  
અનાકાર ઉપયોગવાળા જીવોના વિષે પણ સમજવું પરંતુ તેઓ માટે ચાર જ્ઞાન અને  
ત્રણ અજ્ઞાન ભજનાથી હોય છે ' ओहिदंसण अणागारोवउत्ताणं पुच्छा ' હે ભગવાન્  
ને એવ અવધિદર્શન અનાકારોપયોગવાળા હોય છે તેઓ શુ જ્ઞાની હોય છે કે અજ્ઞાનો ?

નોડપિં યે જ્ઞાનિનસ્તે સન્તિં એકકે પ્રિજ્ઞાનિનઃ, સન્તિં એકકે ષત્તુજ્ઞાનિન ય પ્રિજ્ઞાનિનસ્તે આમિનિરોધિકજ્ઞાનિનઃ, અસજ્ઞાનિનઃ, અવધિજ્ઞાનિનઃ, યે ષત્તુજ્ઞાનિનસ્તે આમિનિરોધિકજ્ઞાનિનઃ, યાદત્ મનપર્યવજ્ઞાનિન, ય અજ્ઞાનિનસ્તે નિયમત્ શ્યજ્ઞાનિનઃ સઘયા મત્યજ્ઞાનિનઃ, ભુતાજ્ઞાનિનઃ, વિમદ્જ્ઞાનિનઃ । કેવલદ્વંડનાના કારોપયુક્તા યયા કવલજ્ઞાનઅભિક્ષિકા, સયોગિનઃ યલ્લુ મદત્ ! ઝીષા કિં જ્ઞાનિન, પ્રજ્ઞાનિન ? યયા સજ્ઞાયિકા, એવ મનોયોગિન, ષઘાયોગિનઃ,

અવધિદર્શન અનાકારોપયોગવાલે હોતે હે યે જ્ઞાની ઝી હોતે હેં ઔર અજ્ઞાની ઝી હોતે હેં । (જે નાળી-તે અત્યેગદ્યા તિષ્ઠાળી, અત્યેગદ્યા ષઠનાળી, જે તિષ્ઠાળી તે આમિનિરોધિયનાળી સુચનાળી ઔહિનાળી, જે ષઠનાળી તે આમિનિરોધી ૦ જાઘ મળપજ્ઞચના ૦) જો હનમેં જ્ઞાની હોતે હેં, યે કિતનેક ત્રીન જ્ઞાનવાલે હોતે હે- મતિજ્ઞાનવાલે, ભુત જ્ઞાનવાલે ઔર અવધિજ્ઞાનવાલે ઔર કિતનેક ઘાર જ્ઞાનવાલે હોતે હે- મતિજ્ઞાનવાલે, ભુતજ્ઞાનવાલે, અવધિજ્ઞાનવાલે ઔર મનપર્યવજ્ઞાનવાલે । (જે અન્નાળી, તે નિયમા તિ અન્નાળી-તજદ્વા-મદ્ અન્નાળી, ઘુચ અન્નાળી, ષિમગનાળી) જો હનમેં અજ્ઞાની હોતે હેં, યે નિયમસે ત્રીન અજ્ઞાનવાલે હોતે હેં । જૌસે- મત્યજ્ઞાનવાલે ભુત અજ્ઞાનવાલે ઔર યિમંગ જ્ઞાનવાલે ( કેવલદ્વંડનાનાગારોષઠ્ઠા જદ્વા કેવલનાળ-લદ્વિયા) કેવલદર્શન અનાકારોપયાગવાલે જીઘ કેવલજ્ઞાન લઘિષવાલે ઝીરોક્તી તરદ્ હોતે હેં । (સજોગીળ મતે ! ઝીષા કિં નાળી, અન્નાળી) હેં મદન્ત ! મયોગી જીઘ યયા જ્ઞાની હોતે હેં યા અજ્ઞાની હોતે હેં ?

‘ ઝોયમા ’ હે ઝોતમ ! ‘ નાઘી તિ અન્નાળી તિ ’ હે એ અવધિક્ષિકાન અનાકારોપયોગવાળા હેમ છે તે જ્ઞાની યલ્લુ હેમ છે અને અજ્ઞાની યલ્લુ હેમ છે ‘ જે નાળી ત અત્યેગદ્યા, તિષ્ઠાળી અત્યેગદ્યા ષઠનાળી, જે તિન્નાઘી તે આમિનિરોધિયનાળી, જાઘ મળપજ્ઞચનાળી ’ તેઝેમ્મા હે જ્ઞાની હેમ છે તે ઝી ડેટલાક મતિયાન સુવજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાનવાળા હેમ છે અને ડેટલાક મતિયાન સુવજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન અને મનપર્યવજ્ઞાન ઝિમ ઘાર જ્ઞાનવાળા હેમ છે ‘ જે અજ્ઞાની તે નિયમા તિ અન્નાળી ત જદ્વા મદ્ અન્નાળી ઘુચ અન્નાળી ષિમગનાળી ’ તેઝેમ્મા હે અજ્ઞાની હેમ છે તે નિષમઘી મત્યજ્ઞાન જ્ઞાનવાળા અને વિષમજ્ઞાન જે અજ્ઞાનવાળા હેમ છે ‘ કેવલદ્વંડનાનાગારોષઠ્ઠા જદ્વા કેવલનાળલદ્વિયા ’ તેવલદર્શન અનાકારોપયોગવાળા એવ તેવજ્ઞાનલઘિષવાળા હેવોની માધક હેમ છે ‘ સજોગીળ મતે ઝીષા કિં નાઘી અન્નાળી ’ હે મદન્ત ! ઝીષોઝી એ જ્ઞાની

काययोगिनोऽपि, अयोगिनो यथा सिद्धाः, सलेश्याः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा सकायिकाः, कृष्णलेश्याः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा सेन्द्रियाः, एवं यावत्-पद्मलेश्याः शुक्ललेश्या यथा सलेश्याः, अलेश्या यथा सिद्धाः । सकषायिणः खलु भदन्त ! जीवा किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः ? यथा सेन्द्रियाः, एवं यावत्-लोभकषायिणः,

(जहा सकाइया) हे गौतम ! सयोगी जीव सकायिक जीवों की तरह होते हैं । ( एवं मणजोगी, वइजोगी, कायजोगी वि ) इसी प्रकार मनयोगी, वचनयोगी, और काययोगी होते हैं । (अजोगी जहा सिद्धा) अयोगी जीव सिद्धोंकी तरह होते हैं । (सलेस्सा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव लेश्यावाले होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( जहा सकाइया ) हे गौतम ! लेश्यावाले जीव सकायिक जीवोंकी तरह होते हैं । ( कणहलेस्सा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! कृष्णलेश्यावाले जीव ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ( जहा सइदिया ) हे गौतम ! कृष्णलेश्यावाले जीव सेन्द्रिय जीवोंके जैसे होते हैं । ( एवं जाव पम्हलेस्सा, सुक्लेस्सा, जहा सलेस्सा, अलेस्सा जहा सिद्धा ) इसी प्रकार यावत् पद्मलेश्यावाले जीव होते हैं । शुक्ललेश्यावाले जीव सलेश्य जीवों जैसे होते हैं । तथा जो लेश्यासे रहित जीव हैं वे सिद्धोंकी तरह होते हैं । (सकसाईणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी)

छाय छे के अज्ञानी छाय छे ? ' जहा सकाइया ' हे गौतम ! सयोगी छव सकायिक छवोनी भाइक छाय छे ' एवं मणजोगी वइजोगी कायजोगी वि ' अण रीते मनोयोगी, वचनयोगी, अने काययोगी छवोने पणु समण्वा 'अजोगी जहासिद्धा' अयोगी छव सिद्धोनी भाइक छाय छे ' सलेस्साणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ' ने छव देश्यावाणा छाय छे ते ज्ञानी छाय छे के अज्ञानी छाय छे ? ' जहा सकाइया ' हे गौतम ! देश्यावाणा छव सकायिक छवोनी भाइक छाय छे ' कणहलेस्साणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ' हे भगवन् ! कृष्णलेश्यावाणा छव ज्ञानी छाय छे के अज्ञानी छाय छे ? ' जहा सइदिया ' हे गौतम ! कृष्णलेश्यावाणा छव सेन्द्रिय छवोनी भाइक न छाय छे ' एवं जाव पम्हलेस्सा, सुक्लेस्सा जहा सलेस्सा, अलेस्सा जहा सिद्धा ' अण रीते यावत् पद्मलेश्यावाणा छव छाय छे शुक्ललेश्यावाणा छव सलेश्य छवोनी नेवा छाय छे तथा ने लेश्या विनाना छव छाय छे तेने सिद्धोनी भाइक समण्वा ' सकाइयाण भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी ' ने छव उपायसहित



अकपायिणः खलु भदन्त । जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः, एव ज्ञानानि मन  
नया, सषेदकाः खलु भदन्त । किं ज्ञानिन , अज्ञानिनः ? यथा सेन्द्रियाः । एव  
स्त्रीवेदका अपि, एवं पुरुष वेदका अपि, एव नपुसकवेदका अपि, भवेदकाः  
यथा अकपायिणः । आहारका खलु भदन्त । जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः?

हे भद त ! जो जीव कपायसहित होते हैं, वे क्या ज्ञानी होते हैं  
या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सहृदिया - एव जाव लोमकसाई)  
हे गौतम ! कपायसहित जीव सेन्द्रिय जीवोंकी तरह होते हैं । इसी  
तरहसे यावत् लोमकपायी जीवोंको भी जानना चाहिये । (अकसायण  
भंते ! जीवा किं नाणी, अनाणी) हे भद त ! जो जीव कपायरहित  
होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (पंचनाणाई  
भयणाए) हे गौतम ! अकपायी जीवोंमें पांच ज्ञान भजनासे होते हैं  
(सषेदगा णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव  
वेदसहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ?  
(जहा सहृदिया) हे गौतम ! वेदसहित जीव सेन्द्रिय जीवोंकी तरहसे  
होते हैं । (एवं इत्थीवेयगा वि, एवं पुरिस्वेयगा वि, एव नपुसग  
वेयगा वि, अवेयगा अहा अकसाई) इसी प्रकारसे स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी  
और नपुसकवेदी जीवोंको भी जानना चाहिये । वेदरहित जीवोंको  
अकपायी जीवोंकी तरह जानना चाहिये । (आहारगायं भंते ! जीवा

वेद ॐ ते शु ज्ञानी वेद ॐ हे अज्ञानी वेद ॐ ? 'जहा सहृदिया एव जाव  
लोम कसाई' हे जीवम ! कपायनाणा एवे सेन्द्रिय एवेनी भावः वेद ॐ जेन  
रति-यावत् - वेदा कपाय एवेने पक्ष समञ्जसा. 'अकसायणं मते जीवा किं नाणी  
अन्नाणी' हे भदन्त । १ एव कपाय रहित वेद ॐ ते ज्ञानी वेद ॐ हे अज्ञानी  
वेद ॐ ? 'पंचनाणाई भयणाए' हे जीवम ! अकपायिक एवेना कपायभी पांच  
ज्ञान वेद ॐ 'सषेदगाणं मते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त । २ एव  
वेद रहित वेद ॐ ते शु ज्ञानी वेद ॐ हे अज्ञानी वेद ॐ ! 'जहा सहृदिया'  
हे जीवम ! वेद रहितना एवेने सेन्द्रियनी भावः समञ्जसा. 'एव इत्थीवेयगावि एव  
पुरिस्वेयगावि, एव नपुसकवेयगावि अवेयगा अहा अकसाई' जेन रति स्त्रीवेदी,  
पुरुषवेदी जेने नपुसकवेदी एवेने पक्ष समञ्जसा जेने वेद रहित एवेने अकपायिक एवेनी भावः  
समञ्जसा. 'आहारगायं मते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त । आहारः  
एव ज्ञानी वेद ॐ हे अज्ञानी वेद ॐ ? 'जहा सहृदिया' हे जीवम ! आहारः एवेने  
अकपायिक एवेनी जेन समञ्जसा. 'नर्ष केवचनायं वि' जेनेभां केवनायं

यथा सकषायिणः, नवरं केवलज्ञानिनोऽपि । अनाहारकाः खलु भदन्त ! जीवाः किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानवर्जानि ज्ञानानि, अज्ञानानि च त्रीण भजनया ॥ सू० १० ॥

टीका—अथ एकादशोपयोगद्वारमाश्रित्य ज्ञानादिकं प्ररूपयितुमाह—‘सागारोवउत्ता णं भंते !’ इत्यादि । ‘सागारोवउत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ? गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! साकारोपयुक्ताः, आकारः—जाति—गुण—क्रियादि—स्वरूपो विशेषस्तेन सह वर्तते यो बोधः स साकारः विशेषग्राहको बोधः, तस्मिन् उपयुक्ताः उपयोगसहिताः तत्संवेदनका ये ते साकारोपयुक्ताः खलु जीवाः

किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! आहारक जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (जहा सकसाई) हे गौतम ! आहारक जीवको सकषायी जीवों की तरह जानना चाहिये । (नवरं केवलनाणं च) इनमें केवलज्ञान होनेकी विशेषता है । (अणाहारगाणं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी) हे भदन्त ! जो जीव अनाहारक होने हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? (मणपज्जवनाण वज्जाइं, अन्नाणाणिय त्तिन्नि भयणाए) हे गौतम ! इनके मनःपर्यवज्ञानको छोड़कर चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजनासे होते हैं ।

टीकार्थ— ग्यारहवे उपयोगद्वारको आश्रित करके ज्ञानादिक की प्ररूपणा करनेके निमित्त गौतम स्वामी प्रभु से पूछते हैं—‘सागारोवउत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो जीव साकार उपयोगसे युक्त हैं जाति, गुण, क्रिया आदि स्वरूप विशेषका नाम आकार है— यह आकार जिस बोधमें हो उसका नाम साकार उपयोग है— अर्थात् विशेष ग्राहकबोधका नाम साकार उपयोग है, उसमें उपयुक्त— साकार उपयोगवाले जो जीव हैं—

होवानी विशेषता छे ‘अणाहारगाणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ छे गौतम ! ने एव अनाहारक होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे ? ‘मणपज्जवनाणवज्जाइं नाणाइं अन्नाणाणिय त्तिन्नि भयणाए’ छे गौतम ! तेओभा मनःपर्यवज्ञान छोडीने थार ज्ञान अने त्रलु अज्ञान— अज्ञनाथी होय छे

टीकार्थ— अगीपारमां उपयोगद्वारने आश्रय करीने ज्ञानादिकनी प्ररूपणा करवा भाटे गौतम स्वामी प्रभुने पूछे छे ‘सागारोवउत्ताणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’ छे भदन्त ! ने एव साकार उपयोगथी युक्त होय छे जाति, गुण, क्रिया आदि स्वरूप विशेषणुं नाम साकार छे—आ साकार नेना ज्ञानमा होय तेनु नाम साकार उपयोग छे अर्थात्— विशेष ग्राहक बोधणुं नाम साकार उपयोग छे. तेमां उपयुक्त ने एव होय

किं ज्ञानिनः, अज्ञानिनो वा भवन्ति ? भगवानाह—‘पञ्च नाणाह, तिस्रि अन्नाणाह मयणाए’ हे गौतम ! साकारोपयोगवन्तो जीवाः ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनश्च, तत्र ज्ञानिनां पञ्च ज्ञानानि, भजनया भवन्ति, तथाहि—कदाचित् वे, कदाचित् प्रीणि, कदाचिच्चर्यारि, कदाचिदेकमेवेत्यय, तत्र यच्च कदाचिदेकम्, पञ्च कदाचिद् द्वे इत्यादि<sup>१</sup>च्यते तद् लब्धिमात्रापेक्षया बोध्यम्, उपयोगापेक्षया तु एकदा एकमेव ज्ञानमज्ञानं वा भवति, इति विज्ञेयम्, अज्ञानिनां तु त्रीणि अज्ञानानि

ये क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? ऐसा यहाँ यह प्रश्न है—इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं—‘पञ्चनाणाह, तिस्रि अन्नाणाह मयणाए’ हे गौतम ! साकार उपयोगवाले जीव ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । इनमें जो ज्ञानी होते हैं व भजनासे पांच ज्ञानवाले होते हैं— कितनेक साकारोपयोगवाले जीव कदाचित् दो ज्ञानवाले हैं, कितनेक साकार उपयोगवाले जीव कदाचित् तीन ज्ञानवाले होते हैं, कितनेक जीव कदाचित् चार ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक जीव कदाचित् एक ही ज्ञानवाले होते हैं । ‘कदाचित् एक, कदाचित् दो आदि उपयोगवाले जीव होते हैं’ ऐसा जो कहा गया है वह लब्धिकी अपेक्षासे कहा गया है ऐसा जानना चाहियो क्यों कि उपयोग एक समयमें जीवमें एक ही होता है । चाहे वह ज्ञानरूप हो चाहे अज्ञानरूप । अज्ञानियों में तीन अज्ञान भजना से होते हैं । कदाचित् दो और कदाचित् तीन । यह पहिले प्रकट किया जा चुका है कि उपयोग साकार और असाकारके भेदसे दो प्रकारका

ते साकार उपभोगवाला एव अज्ञेय ए तेना ज्ञानी होय ए ते अज्ञानी । तेना उपभोग भजवान् अहे ३ । ‘पञ्च नाणाह तिस्रि अन्नाणाह मयणाए’ हे गौतम ! साकार उपभोगवाला ज्ञानी अने अज्ञानी के प्रकारना होय ए तेजोभा के ज्ञानी होय ए ते अज्ञानी पांच ज्ञानवाला होय ३ इतलाक साकारोपभोगवाला एव अज्ञेय के ज्ञानवाला अने इतलाक एव अज्ञेय ज्ञानवाला होय ३ इतलाक एव अज्ञेय चार ज्ञानवाला होय ३ अने इतलाक एव अज्ञेय अज्ञेय ज्ञानवाला होय ३ अज्ञेय अज्ञेय के आदि उपभोगवाला एव होय ३ जेवु के अज्ञेय अज्ञेय ३ ते लब्धिनी अपेक्षाधी अज्ञेयमा अज्ञेय ३ तेन समजवु तेन उपभोग अज्ञेय समजवु एव अज्ञेय होय ३ चाहे ते ज्ञानरूप होय चाहे अज्ञानरूप अज्ञानीजोभा तत्र अज्ञान साकाराधी होय ३ अज्ञेय के अने अज्ञेय अज्ञेय अज्ञेय ३ जे पहिला प्रश्न अज्ञेयमा अज्ञेय ३ ते उपभोग साकार अने असाकारन केधी के प्रकारना होय ३

भजनयैव भवन्ति । अथ साकारोपयोगभेदापेक्षया प्राह - आभिनिवोहियनाण-  
सागारोवउत्ता णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! आभिनि-  
वोधिकज्ञानसाकारोपयुक्ताः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ?  
भगवानाह- 'चत्वारि णाणाइं भयणाए' हे गौतम ! आभिनिवोधिकज्ञान साकारो-  
पयोगवन्तो जीवाः ज्ञानिनो भवन्ति, तेषाञ्च चत्वारि ज्ञानानि मतिश्रुतावधि-

होता है- इनमें साकार उपयोग आठ प्रकारका और अनाकारउपयोग  
तीन प्रकारका होता है- सो अब गौतम स्वामी साकार उपयोग के  
भेदोंको आश्रित करके प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि- 'आभिनिवोहिय-  
नाण सागारोव उत्ताणं भंते ! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त !  
जो जीव आभिनिवोधिक ज्ञानरूप साकार उपयोगमें उपयुक्त होते हैं-  
वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु  
कहते हैं- 'चत्वारि णाणाइं भयणाए' हे गौतम ! आभिनिवोधिक  
ज्ञानरूप साकार उपयोगवाले जीव ज्ञानी होते हैं उन में चार ज्ञान  
भजनासे होते हैं । एक मतिज्ञान, दूसरा श्रुतज्ञान, तीसरा अवधि-  
ज्ञान, और चौथा मनःपर्यवज्ञान. कहने का तात्पर्य यह है कि जब  
जीवाँका मतिज्ञानमें उपयोग होता है- तब लब्धि की अपेक्षा उनमें  
चार ज्ञान तक रह सकते हैं-क्यों कि एक जीव में एक साथ 'एकादीनि  
भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नावतुर्भ्यः' इस सिद्धान्तवाक्यके अनुसार चार  
ज्ञान तक हो सकते । इसीका नाम भजना है । दो होंगे तो मतिज्ञान  
और श्रुतज्ञान, तीन होंगे तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अथवा-  
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और चार होंगे तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान,

तेमा साकार उपयोग आठ प्रकारना अने अनाकार उपयोग त्रय प्रकारना होय छे हुवे  
गौतम स्वामी साकारोपयोगना लेने उद्देशीने प्रभुने अतुं पूछे छे हे - 'आभिनि-  
वोहियनाणसागारोवउत्ताणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त ! हे  
अव आभिनिवोधिक ज्ञानरूप साकार उपयोगमां उपयुक्त होय तेवा अवे ज्ञानी होय छे  
हे अज्ञानी ?

उत्तर :- चत्वारि नाणाइं भयणाए' आभिनिवोधिक ज्ञानरूप साकारोपयोगवाणा  
अव ज्ञानी होय छे तेमांमा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान अने मनःपर्यवज्ञान अवे  
चार ज्ञान भजनाथी होय छे उहेवानु तात्पर्य अवे छे हे अन्वारे अवेना मतिज्ञानमां  
उपयोग साथ छे त्त्यारे लब्धिनी अपेक्षाअवे तेमनामा चार ज्ञान सुधी रही शक छे  
कारणके अवे अवेसा अवे साथे 'एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नावतुर्भ्यः'  
अवे सिद्धांत वाक्यानुसार चार ज्ञान पर्यंत होय शक छे तेनी साथे उवजज्ञान होय

मनःपर्यवधानलक्षणानि भजनया भवन्ति, 'एवं स्रयनाणसागारोवउत्ता वि' एव भुतज्ञानसाकारोपयुक्ता अपि 'स्रयनाणसागारोवउत्ता ण मंते ! जीवा किं नापी अन्नापी' हे मइन्त ! भुताज्ञानसाकारोपयुक्ताः सल्ल जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति अज्ञानिनो वा ? भगवानाह—' चत्तारि नाणाई मयणाए' हे गीतम ! चत्वारि ज्ञानानि मतिभ्रुतावधिमनःपर्यवधानलक्षणानि भजनया भवन्ति 'ओहि नाणसागारोवउत्ता जहा आहिनाणसदिया' अवधिज्ञानसाकारोपयुक्ताः जीवा यथा अवधिज्ञानलम्बिका पूर्वमुक्ताः कदाचित् त्रिज्ञानिनः—मतिभ्रुतावधिपयोगात्, कदाचित् चतुर्ज्ञानिनः मतिभ्रुतावधिमनःपर्यवधानयोगात्, तथा पसकठ्थाः, 'मणपञ्चवनाणसागारोवउत्ता जहा मणपञ्चवनाणसदिया' मन-पर्यवधानसाकारोपयुक्ताः जीवाः यथा मनःपर्यवधानलम्बिका पूर्वमुक्ताः कदा

अवधिज्ञान और मनःपर्यवधान । इनके साथ केवलज्ञान नहीं होता है। अतः पार ज्ञान तक होनेकी बात कही गई है । 'एवं स्रयनाण सागारोवउत्ता वि' इसी तरह से अतज्ञानरूप साकारोपयोगवाले जीव भी ज्ञानी होते हैं इनमें चार ज्ञान तक भजनासे होते हैं । 'ओहिनाणसागारोवउत्ता जहा ओहिनाणसदिया' अवधिज्ञानरूप साकारोपयोगवाले जीव अवधिज्ञान लम्बिवाले जीवों जैसे होते हैं अर्थात् कदाचित् वे मतिभ्रुत और अवधिज्ञानवाले होते हैं और कदाचित् मति, भ्रत, अवधि और मनःपर्यवधानवाले होते हैं । 'मण पञ्चवनाणसागारोवउत्ता जहा मणपञ्चवनाणसदिया' मनःपर्यवधान रूप साकार उपयोगवाले जीव मनःपर्यवधानलम्बिवाले जीवों को जैसे होते हैं अर्थात् जिस प्रकारसे वे कदाचित् मति, भ्रुत, मनःपर्यवधानके

नहीं होते होते पार ज्ञान तक होनेकी बात कही गई है । 'एवं स्रयनाणसागारोवउत्ता वि' जैसे ही अतज्ञानरूप साकारोपयोगवाला एव होता है तेजसे भी अन्नापी पार ज्ञान पर्यंत देखे । 'ओहिनाणसागारोवउत्ता जहा ओहिनाणसदिया' अवधिज्ञान रूप साकारोपयोगवाला होनेसे अवधिज्ञान लम्बिवाला होनेकी भाँति समझना अवधिज्ञान-लम्बिके वजह से जैसा मति भ्रुत करने अवधिज्ञानवाला देखे है करने केवल वजह मति, भ्रुतअवधि करने मनःपर्यवधानवाला देखे । 'मणपञ्चवनाणसागारोवउत्ता जहा' मणपञ्चवनाणसदिया' मनःपर्यवधानरूप साकार उपयोगवाला होनेसे मन पर्यवधान लम्बिवाला होनेकी भाँति समझना अर्थात् वे हीते जैसा शोधवार मति भ्रुत करने मनःपर्यवधानवाला समझना वजह ज्ञानवाला होता है करने केवलवार मति, भ्रुत अवधि

चित् त्रिज्ञानिनः मतिश्रुतावधिमनःपर्यवज्ञानयोगात्, कदाचित् चतुर्ज्ञानिनः  
 मतिश्रुतावधिमनःपर्यवज्ञानयोगात्, तथा वक्तव्याः, 'केवलनाणसागारोवउत्ता  
 जहा केवलनाणलद्धिया' केवलज्ञानसाकारोपयुक्ताः जीवाः यथा केवलज्ञान-  
 लब्धिकाः एकज्ञानिनः केवलज्ञानिनः पूर्वं प्रतिपादितास्तथा केवलज्ञानिनो वक्तव्याः।  
 'मद् अन्नाणसागारोवउत्ताणं तिन्नि अण्णाणाइं भयणाए' मत्यज्ञानसाकारोपयुक्तानां  
 त्रीणि अज्ञानानि मत्यज्ञान-श्रुताज्ञान-विभङ्गज्ञानलक्षणानि भजनया भवन्ति,  
 'एवं सुयअन्नाणसागारोवउत्तावि' एवं श्रुताज्ञानसाकारोपयुक्ता अपि भजनया  
 त्र्यज्ञानिनो भवन्ति, कदाचित् मत्यज्ञानिनः, कदाचित् श्रुताज्ञानिनः कदाचित्

सबंधसे तीन ज्ञानवाले कहे गये हैं और कदाचित् मति, श्रुत, अर्वाध  
 एवं मनःपर्यवके योगसे चार ज्ञानवाले कहे गये हैं उसी प्रकार से  
 उन्हे भी कदाचित् तीन ज्ञानवाले और कदाचित् चार ज्ञानवाले  
 जानना चाहिये । 'केवल नाण सागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया'  
 केवल ज्ञानरूप साकार उपयोगवाले जीव केवलज्ञानलब्धिक जैसे होते  
 कहे गये हैं- अर्थात् इनमें एक केवलज्ञान ही होता है- अन्य ज्ञान  
 नहीं । इसलिये ये एक केवलज्ञानसे ही ज्ञानी होते हैं, अन्य ज्ञानोंसे  
 नहीं । 'मद् अन्नाणसागारोवउत्ताण तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए'  
 जो जीव मत्यज्ञानरूप साकार उपयोगवाले होते हैं उनमें तीन अज्ञान-  
 मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभङ्गज्ञान भजनासे होते हैं- कदाचित्  
 दो अज्ञान और कदाचित् तीन अज्ञान । एव सुयअन्नाण सागारोव  
 उत्ता वि' उसी तरहसे श्रुताज्ञानरूप साकारोपयोगवाले जीवोंकोभी जानना  
 चाहिये । अर्थात् ये भी कदाचित् दो अज्ञानवाले और कदाचित् तीन

अने मनःपर्यवज्ञानना योगथी चार ज्ञानवाणा होय छे अेण रीते तेअेने पणु कदाचित्  
 त्रणु ज्ञानवाणा अने कदाचित् चार ज्ञानवाणा समज्जवा. 'केवलनाणसागारोवउत्ता  
 जहा केवलनाणलद्धिया' देवणज्ञान साकार उपयोगवाणा एवने देवणज्ञान लब्धिवाणा  
 एवोनी माइक समज्जवा अर्थात् तेअेभा अेक देवणज्ञान ज् होय छे अेट्ठे तेअे अेक  
 देवणज्ञानथी ज् ज्ञानी होय छे 'मद् अन्नाण सागारोवउत्ताणं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए'  
 ने एव मत्यज्ञानरूप साकार उपयोगवाणा होय छे तेअेभा मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान अने  
 विभङ्गज्ञान अे त्रणु अज्ञान समज्जथी होय छे अेट्ठे क्कधवार मे अज्ञान अने क्कधवार  
 त्रणु अज्ञान होय छे 'एवं सुयअन्नाणसागारोवउत्ता वि' अेण रीते श्रुताज्ञान-  
 रूप साकारोप योगवाणा एवोने पणु समज्जवा अर्थात् अे पणु क्कधवार मे अज्ञानवाणा

विभङ्गज्ञानिनः, 'विभङ्गनाणसागारोषडत्ताण तिन्नि अन्नाणाइ नियमा' विभङ्ग-  
 ज्ञानसाकारोपयुक्तानां त्रीणि अज्ञानानि नियमात् नियमतो भवन्ति । गौतम  
 पृच्छति—'अनाकारोषडत्ता ण भते ! जीवा किं नापी, अन्नाणी ? हे भदन्त !  
 अनाकारोपयुक्ता स्वल्प अविद्यमान आकार-जाति-गुण-क्रियादिस्वरूपसंज्ञा  
 विशेषो यत्र सत् अनाकारं दर्शनं सामान्यज्ञान, तत्रोपयुक्ता उपयोगवन्तः तत्संबे  
 दनक्य इत्यर्थः जीवा किं ज्ञानिनो भवन्ति अज्ञानिनो भवन्ति ? मगबानाह-  
 'पच नाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ भयणाए' हे गौतम ! अनाकारोपयोगवन्तो जीवा  
 ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च भवन्ति, तत्र ज्ञानिनां लक्ष्यपेक्षया पञ्च ज्ञानानि मस्यादि-

अज्ञानबाले होते है । विभङ्गनाणसागारोषडत्ताण तिन्नि अण्णाणाइ  
 नियमा' विभङ्गज्ञान साकारोपयोगबाले जीव अज्ञानी होते हैं । इनमें  
 तीन अज्ञान-मत्त्यज्ञान, भुताज्ञान और विभङ्गज्ञान ये तीन अज्ञान  
 नियम से होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते है 'अणा-  
 गारोषडत्ता ण भते ! जीवा किं नापी अन्नाणी ' हे भदन्त ! जो जीव  
 अनाकार उपयोगबाले होते है, वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
 होते हैं ? अनाकार उपयोगका तात्पर्य उस षोष से है कि जिस  
 षोष में जाति, गुण, क्रिया आदि रूप आकार नहीं झलकता है । ऐसा  
 अनाकार उपयोग दर्शन रूप होता है । दर्शनका तात्पर्य सामान्य  
 ज्ञान से है । इसमें उपयोगवन्त जीव क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
 होते हैं ? इस प्रश्नके उत्तर में प्रश्न कहते है 'पच नाणाइ तिन्नि अन्ना-  
 णाइ भयणाए' हे गौतम ! अनाकार उपयोगबाले जीव ज्ञानी भी होते  
 हैं और अज्ञानी भी होते हैं । जो जीव इनमें ज्ञानी होते हैं उनमें

अन निर्धवार प्रत्यु अज्ञानवत्ता डोय छ विभङ्गनाणसागारोषडत्ताण तिन्नि  
 अन्नाणाइ नियमा' विभङ्ग ज्ञान साकारोपयोगवत्ता एव अज्ञानी डोय छ अने  
 तेजोभा मत्त्यज्ञान, भुताज्ञान अने विभङ्गज्ञान से प्रत्यु अज्ञान निवृत्त डोय छे  
 प्रश्न : अनाकारोषडत्ताण भते जीवा किं नापी अन्नाणी ' हे भदन्त ! ने एव  
 अनाकार उपयोगवत्ता डोय ते ज्ञानी डोय छे अज्ञानी ? अनाकारोपयोगवत् तात्पर्य  
 कोय लोभधी छे हे न लोभधी जाति, गुण, क्रिया आदि रूप आकार प्रकट भते नधी  
 कोयो अनाकार उपयोग वनश्च डोय छे, इसनेने तात्पर्याय सामान्यज्ञानधी छे तेभा  
 उपयोगवत्ता एव ज्ञानी डोय छे अज्ञानी । उ. :- पचनाणाइ तिन्नि अन्नाणाइ  
 भयणाए' हे गौतम ! अनाकार उपयोगवत्ता एव ज्ञानी प्रत्यु डोय छे अने अज्ञानी प्रत्यु  
 डोय छे तेजोभा ने एव ज्ञानी डोय छे, ते अविद्यनी अविद्यासे पंच ज्ञानवत्ता डोय छे

लक्षणानि भजनया भवन्ति, अज्ञानिनां तु त्रीणि अज्ञानानि मत्यज्ञानादिलक्षणानि भजनयैव भवन्ति । 'एवं चक्रवृदंसणअचक्रवृदंसणअणागारोवउत्तावि' एवं यथाऽनाकारोपयुक्ता ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चोक्तास्तथैवेत्यर्थः चक्षुर्दर्शनानाकारोपयुक्ताः, अचक्षुर्दर्शनानाकारोपयुक्ताश्चापि जीवा ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्च भवन्ति, किन्तु—'नवरं चत्वारि णाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' नवरं विशेषस्तु पुनरेतावानेव—यत् चक्षुर्दर्शनेतरोपयुक्ताः केवलिनो न भवन्ति इति तेषां चत्वारि ज्ञानानि भजनया भवन्ति, त्रीणि च अज्ञानानि भजनया भवन्ति । गौतमः

लब्धिकी अपेक्षा से पांच ज्ञान होते हैं और जो अज्ञानी होते हैं उन में तीन अज्ञान होते हैं । सो ऐसा यह कथन भजनासे ही जानना चाहिये. नियमतः नहीं । इसी तरह से 'चक्रवृदंसण, अचक्रवृदंसण, अणागारोवउत्ता वि' चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शनरूप अनाकार उपयोगवाले जीवोंके विषयमें भी जानना चाहिये । अर्थात् ये भी ज्ञानी और अज्ञानी उभय प्रकारके होते हैं । चक्षुजन्य ज्ञानके पहिले और अचक्षुजन्यज्ञानके पहिले जो सामान्य अवलोकनरूप बोध होता है उसका नामचक्षुदर्शन और अचक्षु दर्शन है. इनज्ञानवालोंमें ज्ञानियोंके 'नवरं चत्वारि णाणाइं, तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' चार ज्ञान और अज्ञानियोंके तीन अज्ञान तक हो सकते हैं । क्यों कि चक्षुदर्शनवालों में और अचक्षुदर्शनवालों में केवली नहीं होते हैं । अर्थात् केवली केवलदर्शनोपयुक्त होते हैं । इनमें चक्षुर्दर्शनोपयोग और अचक्षुदर्शनोपयोग नहीं होता है । अतः ये उससे उपयुक्त नहीं होते हैं । इसलिये चक्षुदर्शनोपयुक्तों में और अचक्षुदर्शनोपयुक्तों में भजना से केवल जानातिरिक्त चार ज्ञान और

अने न्ने अज्ञानी होय छे तेओमा त्रषु अज्ञान होय छे आ कथन लब्धनाथी समन्वुं नियमथी नहो तेन रीते 'चक्रवृदंसणअचक्रवृदंसणअणागारोवउत्ता वि' चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन रूप अनाकार उपयोगवाला एवोना विषयमां पणु समन्वुं. अर्थात् ओ पणु ज्ञानी अने अज्ञानी ओम अने प्रकारे होय छे चक्षुजन्यज्ञान पहिला अने अचक्षुजन्यज्ञानथी पहिला न्ने सामान्य अवलोकनरूप बोध थाय छे तेत्त नाम चक्षुदर्शन अने अचक्षुदर्शन छे तेवाओने (ज्ञानीओने) 'नवरं चत्वारिणाणाइं तिन्नि अन्नाणाइं भयणाए' चार ज्ञान अने त्रषु अज्ञान लब्धनाथी होय छे केमके चक्षुदर्शनवालाओमा अने अचक्षुदर्शनवालाओमा केवली होता नथी अर्थात् केवली केवलदर्शनोपयुक्त होय छे तेओमां चक्षुदर्शनोपयोग अने अचक्षुदर्शनोपयोग होता नथी ओटला माटे तेओ तेनाथी उपयुक्त होता नथी ओटला माटे ते मनेने



पृच्छति—‘ओद्दिस्सणअणागारोवउच्चा ञ पुच्छा’ हे मद्दन्त ! अबधिदर्शनाना-  
कारोपयुक्ताः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो मर्षन्ति, अज्ञानिनो वा ? इति पृच्छा  
प्रश्नाः, भगवानाह—‘गोयमा ! नाणी वि, अन्नाणी वि’ हे गौतम ! अबधि-  
दर्शनाऽनाकारोपयोगिनो जीवाः ज्ञानिनोऽपि भवन्ति, अज्ञानिनोऽपि, यतो हि  
दर्शनस्य सामान्यविषयतया, सामान्यस्य आमिन्नरूपत्वम ज्ञानिदर्शने अज्ञानि-  
दर्शने मदामानात् ‘जे नाणी न अत्थेगइया तिन्नाणी, अत्थेगइया चउन्नाणी’  
ये अबधिदर्शनाऽनाकारोपयुक्ता ज्ञानिनस्ते सन्ति एकके भिज्जानिनो भवन्ति,  
सन्ति एकके चतुर्ज्ञानिनो भवन्ति ‘जे तिन्नाणी ते आमिणिवोदियनाणी,  
सुयनाणी, ओद्दिनाणी’ ये भिज्जानिनस्ते आमिणिवोधिकज्ञानिनः, भ्रुतज्ञानिनः,

अज्ञानियोंमें तीन अज्ञान कहे गये हैं । अतः गौतमस्वामी प्रश्न से  
पूछते हैं की—ओद्दिस्सण अणागारोवउच्चा ञ पुच्छा’ जो जीव अबधि-  
दर्शनरूप अनाकार उपयोगवाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी  
होते हैं ? उत्तरमें प्रश्न करते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नाणी वि अन्नाणी  
वि’ जो जीव अबधिदर्शनरूप अनाकार उपयोगवाले होते हैं वे ज्ञानी  
भी होते हैं और अज्ञानी भी होते हैं । क्योंकि दर्शन सामान्यको  
विषय करनेवाला होता है और आ सामान्य होता है यह एकरूप होता  
है इसलिये ज्ञानीके दर्शनमें और अज्ञानीके दर्शनमें कोई भेद नहीं  
होता है । ‘जे नाणी ते अत्थेगइया तिन्नाणी, अत्थेगइया चउन्नाणी’  
इनमें जो ज्ञानी होते हैं उनमें कितनेक अबधिदर्शनरूप अनाकार उप-  
योगवाले जीव तीन ज्ञानवाले होते हैं और कितनेक चार ज्ञानवाले  
होते हैं । ‘जे तिन्नाणी ते आमिणिवोदियनाणी, सुयनाणी, ओद्दि-

विज्जानाने ओद्दिने ज्ञानीज्जिमां अचनानी आर ज्ञान जने अज्ञानीज्जिमां तसु अज्ञान  
होवानुं इत्थं उ । ३४ — ओद्दिस्सणअणागारोवउच्चाण पुच्छा’ ने एव अबधिदर्शन  
रूप अनाकार उपयोगवाला होय उ ते ज्ञानी होय उ । उत्तर —  
‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नाणी वि अन्नाणी वि’ ने एव अबधिदर्शनरूप  
अनाकार उपयोगवाला होय उ ते ज्ञानी होय उ । अज्ञानी होय उ तेभेके ज्ञान  
सामान्यने विषय करवावाणु होय उ जने ने सामान्य होय उ ते ओद्दिप होय उ  
ओद्दिमा भये ज्ञानीना इस नभां जने अज्ञानीना इस नभां केउं भेर होते नथी जे नाणी  
ते अत्थेगइया तिन्नाणी अत्थेगइया चउन्नाणी’ तेज्जिमां ने ज्ञानी होय उ ते भेके  
केउलाके अबधि दर्शनरूप अनाकारोपयोगवाला एव तसु ज्ञानवत्ता होय उ जने उद्दिना  
आर ज्ञानवाणा होय उ ‘जे तिन्नाणी ते आमिणिवोदियनाणी सुयनाणी

अवधिज्ञानिनो भवन्ति, 'जे चउणाणी ते आभिणिबोहियनाणी जाव मणपज्जव-  
नाणी' ये चतुर्ज्ञानिनस्ते आभिनिबोधिकज्ञानिनः, यावत्-श्रुतज्ञानिनः, अवधि-  
ज्ञानिनः, मनःपर्यवज्ञानिनो बोध्याः, 'जे अन्नाणी ते नियमा तिअन्नाणी' ये  
अज्ञानिनस्ते नियमात् त्र्यज्ञानिनो बोध्याः—'तं जहा-मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी,  
विभंगनाणी' तद्यथा-मत्यज्ञानिनः, श्रुताज्ञानिनः, विभङ्गज्ञानिनश्च, 'केवलदंसण-  
अणागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया' केवलदर्शनाऽनाकारोपयुक्ताः खलु जीवाः  
यथा केवलज्ञानलब्धिकाः एकज्ञानिनः केवलज्ञानिरूपाः पूर्वमुक्तास्तथा विज्ञेयाः,  
अथ द्वादशयोगद्वारमाश्रित्य गौतमः पृच्छति—'मजोगी णं भंते ! जीवा किं

नाणी' जो तीन ज्ञानवाले होते हैं वे आभिनिबोधिक ज्ञानवाले, श्रुत  
ज्ञानवाले और अवधिज्ञानवाले होते हैं । 'जे चउणाणी, ते आभिणि  
बोहियनाणी, जाव मणपज्जवनाणी' जो इनमें चार ज्ञानवाले होते हैं  
वे आभिनिबोधिक (मतिज्ञान) से लेकर यावत् मनःपर्यव ज्ञानतकवाले  
होते हैं । जे अन्नाणी ते नियमा ति अन्नाणी' अवधिदर्शनरूप अनाकार  
उपयोगवालों में जो जीव अज्ञानी होते हैं, वे नियम से तीन अज्ञान  
वाले होते हैं— 'त जहा' वे तीन अज्ञान ये हैं— 'मइ अन्नाणी, सुय  
अन्नाणी, विभंगनाणी' मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, और विभंगज्ञान इन तीन  
अज्ञानयुक्त वे होते हैं । 'केवलदंसण अणागारोवउत्ता जहा केवलनाण-  
लद्धिया' केवल दर्शनरूप अनाकार उपयोगवाले जीव केवलज्ञानलब्धि-  
वाले जीवोंकी तरह एक केवलज्ञानवाले ही होते हैं ।

अब बारहवें योगद्वारको आश्रित करके गौतमस्वामी प्रभुसे पूछते

ओहियनाणी' के त्रय ज्ञानवाला होय छे तेओ आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान अने अवधि-  
ज्ञानवाला होय छे 'जे चउणाणी ते आभिणिबोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी'  
तेओमा के चार ज्ञानवाला होय छे ते आभिनिबोधिक (मतिज्ञान) थी धरने मनःपर्यवज्ञान  
सुधीना ज्ञानवाला होय छे. 'जे अन्नाणी ते नियमा तिअन्नाणी' अवधिदर्शनरूप  
अनाकारोपयोगवालाओमा के एव अज्ञानी होय छे ते नियमथी त्रय अज्ञानवाला होय छे.  
'तंजहा' ते त्रय अज्ञान आ प्रभावे छे 'मइअन्नाणी सुयअन्नाणी, विभंगनाणी'  
मत्यज्ञान श्रुताज्ञान अने विलगज्ञान अने त्रय अज्ञानवाला होय छे 'केवलदंसणअणा-  
गारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया' केवलदर्शनरूप अनाकारोपयोगवाला एवोने  
केवलज्ञान लब्धिवाला एवोनी माइके ओके केवलज्ञानरूपथी के जानी समजवा.

हुवे पारमा योगद्वारने। आश्रय करीने प्रभुने गौतमी पूछे छे के 'संयोगीणं  
भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भन्त ! के एव योगवाला होय छे ते जानी

नाणी, अज्ञानी' हे भदन्त ! सयोगिनः स्वसु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह—'जहा सकाङ्ग्या ' हे गौतम । यथा पूर्वोक्तकर्मपट्टारे सकापिका भजनया पञ्चज्ञानिनस्त्वज्ञानिनश्चोक्ताम्वथा मयोगा अपि पञ्च ज्ञानिन स्त्वज्ञानिनश्च भजनया पञ्चभ्या , 'एष मणजोगी, यहजोगी, कायजोगी चि, अजोगी जहा सिद्धा' एष सयोगिश्च मनोयोगिनः, पचा योगिनः, काययोगि नोऽपि, भजनया पञ्च ज्ञानिनः, त्र्यज्ञानिनश्च विज्ञेयाः, कश्चिनामपि मनोयोगा- दीनां सदमात्रात्, ते पञ्चज्ञानिन , मिथ्यादृष्टीनां मनोयोगादिमतामज्ञानत्रया- गावात्, तेऽज्ञानिन अपोगिनो जीवाः यथा सिद्धाः पूर्वमुक्तास्तथैव शाध्याः

हैं— 'सुनोगीण भंसे ! जीवा किं नाणी, अज्ञानी' हे भदन्त जो जीव योगसहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं, या अज्ञानी होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं— 'जहा सकाङ्ग्या ' हे गौतम ! जिस प्रकार से पूर्वोक्त काय द्वार में सकापिक जीव भजना से पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं उसी तरह से यहाँ पर भी स्वयोगी जीव भी पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले होते हैं । 'एष मणजोगी, यहजोगी, कायजोगी चि अनोगी जहा सिद्धा' सयोगीकी तरह मनोयोगीको, वचनयोगीको और काययोगी जीवोंको भजनासे पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले मानना चाहिए । पांच ज्ञानोंकी और तीन अज्ञानोंकी भजना यहा पर इसलिये करी गइ है कि ये तीनों योग केशलियोंके भी होते हैं तथा मिथ्यादृष्टियोंके भी होते हैं । जो योगरहित होते हैं ऐसे अयोगी जीव जैसे सिद्ध एक केशलज्ञानरूप ज्ञानसे ज्ञानी दाते हैं उसी तरहसे एक ज्ञान केशल ज्ञानसे ही ज्ञानी होते हैं । अन्य ज्ञानोंसे नहीं । अथ सूत्रकार तेरहवें

श्लोक ३८ के अर्थान्ती श्लोक ३९ :- 'जहा सकाङ्ग्या ' हे गौतम ! ने शीते च्छेता कल्पद्रावर्मा सकापिके श्रवने कल्पनाधी पाच ज्ञानवाला अने प्रत्यु अज्ञानवाला इत्यादि तेवीच शीते अर्द्धांश प्रत्यु सयोगी श्रवने पाच ज्ञानवाला अने प्रत्यु अज्ञानवाला समकल्पा- 'एष मणजोगी, यहजोगी, कायजोगी चि अजोगी जहा सिद्धा' सयोगीनी नेमल मनोयोगीने वचनयोगीने अने काययोगी श्रवने कल्पनाधी पाच ज्ञान अने प्रत्यु अज्ञानवाला कल्पनाधी समकल्पा पाच ज्ञानोनी अने प्रत्यु अज्ञानोनी कल्पना अर्द्धांशे इत्यादि साह कल्पेनायं कल्पी छे हे प्रत्यु योज श्रवणश्रवणे तथा मिथ्या दृष्टिको को ननेने छेत्त छे ने योज श्रवित छेत्त छे, तेवा अयोगी श्रवणे शीते सिद्ध अर्थे इत्यज्ञानवाच्य ज्ञानधी ज्ञानी छेत्त छे अर्थे शीते अर्थे इत्यज्ञानधी च ज्ञानी छेत्त छे

अथ त्रयोदशलेश्याद्वारमाह—‘सलेस्सा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! सलेश्याः लेश्यावन्तः खलु जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा भवन्ति ? लेश्या च कृष्णादिद्रव्यसम्बन्धात् आत्मपरिणामविशेषलक्षणा बोध्या, सा च प्रज्ञपनायाः १७ सप्तदशपदे प्ररूपिता तत एव द्रष्टव्या । भगवानाह—‘जहा सकाइया’ हे गौतम ! यथा सकायिकाः भजनया पञ्चज्ञानिनः, त्र्यज्ञानिनश्च प्रतिपादितास्तथैव सलेश्या अपि भजनया पञ्च ज्ञानिनः, त्र्यज्ञानिनश्च वक्तव्याः केवलिनामपि शुक्ललेश्यासद्भावेन सलेश्यत्वात् । गौतमः पृच्छति—‘कण्ठलेस्सा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! कृष्ण लेश्यावन्तः खलु जीवाः

लेश्याद्वारका कथन करते हैं— ‘सलेस्सा णं भंते ! जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! जो जीव लेश्यावाले होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? कृष्णादि द्रव्यके संबंधसे आत्मपरिणाम विशेषका नाम लेश्या है, इस लेश्या की प्ररूपणा प्रज्ञापना के १७ वें पदमें की गई है । वहीं पर इसे देख लेना चाहिये । उत्तरमें प्रभु कहते हैं— ‘जहा सकाइया’ हे गौतम ! जिस प्रकारसे सकायिक जीव भजनासे पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं— उसी प्रकारसे सलेश्य जीव भी भजनासे पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं । यहां सलेश्य जीवोंको जो पांच ज्ञानवाले भजनासे कहा गया है उसका कारण यह है कि केवली भी पूर्वप्रज्ञापननय की अपेक्षासे शुक्ललेश्यावाले कहे गये हैं । अतः इनमें एक केवलज्ञान ही होता है । अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं— ‘कण्ठलेस्सा णं भंते जीवा किं नाणी, अन्नाणी’ हे भदन्त ! कृष्णलेश्यावाले जीव

इवे सूत्रकार तेमना देश्याद्वारना आश्रय करीने कडे छे कः - ‘सलेस्साणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’, हे भदन्त ! जे जीवा देश्यावाणा होय छे ते ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे कृष्णादि द्रव्यना सम्बन्धात् आत्म परिणाम विशेषणं नाम देश्या छे जे देश्यातु निश्चय प्रज्ञापना सूत्रना सत्तरमा पदमा करायुं छे जेतवे ते जेवानी धन्धावाणाज्जे त्थं नोष्ठ वेतुं उत्तर - ‘जहा सकाइया’ हे गौतम ! जे रीते सकायिक जेवने लज्जाथी पाय ज्ञान अने त्रय अज्ञान कथा छे. तेज रीते देश्यावाणा जेव पण लज्जाथी पाय ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणा होय छे अर्हीआ सलेश्य जेवने लज्जाथी पाय ज्ञानवाणा कथा छे. तेतु कारण जे छे के केवली पण पूर्वप्रज्ञापननयनी अपेक्षाज्जे शुक्ल देश्यावाणा कडेवाय छे जेतवे तेज्जेभां जेके केवजज्ञान जे होय छे प्रश्न :- कण्ठलेस्साणं भंते जीवा किं नाणी अन्नाणी’

किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह—‘जहा सहृदिया’ हे गौतम ! यथा सेन्द्रिया पूर्वं भजनया चतुर्ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिनश्च मोक्तास्तथाकृष्णछेद्यावन्तो जीवा अपि वक्तव्याः, ‘एव जाय पम्हलेस्सा, मुक्कलेस्सा जहा सछेस्सा, अछेस्सा जहा सिद्धा’ एव कृष्णछेद्यावदेव यावत्—नीलछेद्याः, कापोतछेद्याः, पद्मछेद्याः जीवा यथा सेन्द्रियाः भजनया चतुर्ज्ञानिन स्त्र्यज्ञानिनश्चोक्तास्तथैव भजनया चतुर्ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिनश्च, शुक्लछेद्यावन्तस्तु यथा सछेद्याः भजनया पञ्चज्ञानिनः त्र्यज्ञानिनश्चोपदर्शितास्तथैव भजनया पञ्च ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिनश्च बोध्याः, केपच्छि

भया ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तरमे प्रश्न कहते हैं ‘जहा सहृदिया’ हे गौतम ! जिस प्रकारसे सेन्द्रिय जीव पहिले भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं उसी प्रकारसे कृष्णछेद्यावाले जीव भी भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं । ‘एव जाय पम्हलेस्सा, मुक्कलेस्सा जहा सछेस्सा, अछेस्सा जहा सिद्धा’ कृष्णछेद्याकी तरह ही नीलछेद्यावाले जीव कापोत छेद्यावाले जीव, तेजोछेद्यावाले जीव और पद्मछेद्यावाले जीव भजना चाहिये— अर्थात् जिस प्रकारसे कृष्णछेद्यावाले जीव भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं उसी प्रकारसे ये पूर्वोक्त छेद्यावाले जीव भी भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं । तथा जिस प्रकारसे सछेद्य जीव भजनासे पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं, उसी प्रकारसे शुक्ल छेद्यावाले जीव भी भजनासे पांच ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं । यहां पर पांच ज्ञानोंकी भजना इमलिये कही गई है

दृक्क्षेत्रस्यावाणो ह्यव शु ज्ञानी होव छे ते अज्ञानी । उ. — ‘जहा सहृदिया’ अर्थात् सेन्द्रिय अवेने ने रीते अज्ञानधी आर ज्ञानवाणो अने त्रय अज्ञानवाणो अर्थात् ते अज्ञान रीते दृक्क्षेत्रस्यावाणो अने त्रय अज्ञानधी आर ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणो अर्थात् ‘एवं जाय पम्हलेस्सा, मुक्कलेस्सा जहा सछेस्सा अछेस्सा जहा सिद्धा’ दृक्क्षेत्रस्यावाणोअने नीलक्षेत्रस्यावाणो, कापोतक्षेत्रस्यावाणो तेजोक्षेत्रस्यावाणो अने पद्मक्षेत्रस्यावाणो अवेने समन्था अर्थात् ने रीते दृक्क्षेत्रस्यावाणो ह्यव अज्ञानधी आर ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणो अर्थात् ते अज्ञान रीते पूर्वोक्त क्षेत्रस्यावाणो अने त्रय अज्ञानधी आर ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणो होव छे तथा ने रीते अक्षेय ह्यव अज्ञानधी आर ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणो अर्थात् ते अज्ञान रीते शुक्ल क्षेत्रस्यावाणो अवेने त्रय पांच ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणो अर्थात् अज्ञान पांच ज्ञानोंअने अज्ञान अवेता भाटे अर्थात्

नोऽपि शुक्ललेश्यावत्त्वेन केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानित्वात्, अलेश्याः लेश्यारहिता-  
स्तु यथा सिद्धाः केवलज्ञानिन उक्तास्तथैव केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानिनो द्रष्टव्याः

अथ चतुर्दशं कपायद्वारमाश्रित्य पृच्छति— 'सकसाई णं भंते ! जीवाः किं  
नाणी, अन्नाणी ?' हे भदन्त ! सकषायिणः कषायवन्तः खलु जीवा किं  
ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा ? भगवानाह— 'जहा सइदिया' हे गौतम !  
यथा सेन्द्रियाः भजनया केवलज्ञानवर्जचतुर्ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिनश्चोक्तास्तथैव  
सकषायिणोऽपि भजनया, चतुर्ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिनश्च द्रष्टव्याः, 'एवं जाव लोह-  
कसाई' एवं सकषायिवदेव यावत् क्रोधकषायिणः, मानकषायिणः, माया-  
कषायिणः, लोभकषायिणश्च जीवाः भजनया चतुर्ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिनश्च द्रष्टव्याः ।

किं केवली शुक्ललेश्यावाले होते हैं । और वे एक केवलज्ञान से ही  
ज्ञानी होते हैं । लेश्यारहित जीव सिद्धोंकी तरह एक केवलज्ञानवाले ही  
होते हैं । अब सूत्रकार चौदहवें कपायद्वारको आश्रित करके कथन  
करते हैं— इसमें गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है— 'सकसाई णं भंते !  
जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त ! सकषायी-कषायवाले जीव  
क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—  
'जहा सइदिया' हे गौतम ! जैसे सेन्द्रिय जीव भजनासे केवलज्ञान  
वर्ज चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले कहे गये हैं, उसी तरहसे  
कषायवाले जीव भी भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले  
कहे गये हैं । 'एवं जाव लोहकसाई' सकषायी जीवों की तरह ही  
यावत्— क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभकषायी  
जीव भी भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले होते हैं ।

३ केवली शुक्ल-लेश्यावाणा होय छे अने ते केवण अकेल ज्ञान केवणज्ञानथी ज्ञानी  
होय छे लेश्या रहित छव सिद्धोनी भाङ्क अकेल केवणज्ञानवाणा न होय छे

इसे सूत्रकार चौदसा कषायद्वारने आश्रय करीने कहे छे ३ 'सकसाईण भंते  
जीवा किं नाणी अन्नाणी' छे भगवान ! सकषायि-कषायवाणा छव ज्ञानी होय छे  
३ अज्ञानी ? ७ :- 'जहा सइदिया' नेवी रीते हे गौतम ! सेन्द्रिय छवने भजनाथी  
केवणज्ञान छोडीने चार ज्ञानवाणा अने त्रय अज्ञानवाणा कहे छे. तेन रीते कषायवाणा  
छव पणु भजनाथी चार ज्ञान अने त्रय अज्ञानवाणा कडेवाय छे 'एवं जाव लोहकसाई'  
सकषायिक छवोनी भाङ्क-यावत् केव कषायी, मानकषायी, मायाकषायी, अने लोभ-कषायी  
छवो पणु भजनाथी चार ज्ञानवाणा अने त्रय अज्ञानवाणा होय छे. प्रश्न = 'अकसाईण

गौतम पृच्छति- 'अकसाईण मते! जीवा किं नाणी, अन्नाणी?' हे भदन्त! अकपायिणः कपायरहिताः स्वल्प जीवाः किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा भवन्ति, मगधानाह- 'पचनाणाह भयणाण' हे गौतम! अकपायिणां पञ्चज्ञानानि भजनया भवन्ति, तथाहि- छद्मस्थधीतरागस्य, केवलिनश्चाकपायितया छद्मस्थधीतरागस्य प्रथम ज्ञानचतुष्टय भजनया भवति, केवलिनस्तु पञ्चम केवलज्ञानलक्षणैकज्ञानमित्यर्थ । अथ पञ्चदश वेदद्वारमाभित्य गौतमः पृच्छति- 'सवेयगाण मते! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त! सबेदकाः स्वल्प जीवा किं ज्ञानिनो भवन्ति, अज्ञानिनो वा! मगधानाह- 'अहा सहृदिया' हे गौतम! यथा सेन्द्रियाः भजनया चतुर्ज्ञानिनस्त्र्यज्ञानिन-

अथ गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं- 'अकसाई ण मंते! जीवा किं नाणी, अन्नाणी' हे भदन्त! जो जीव अकपायी-कपायरहित होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी होते हैं? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं- 'पचनाणाह भयणाण' हे गौतम! कपायरहित जीवोंमें भजनासे पांच ज्ञान होते हैं। छद्मस्थ-धीतराग-ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानवर्ती जीवोंको और केवलियोंको कपायरहित होने के कारण ऐसा कहा गया है। अर्थात् छद्मस्थ धांतरागतो भजनासे बार ज्ञानवाले होते हैं और केवली पांचवें ज्ञान केवलज्ञानवाले होते हैं।

अथ पन्द्रहवें वेदद्वारको आश्रित करके गौतम प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं 'सवेयगाण मते! जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त! जो सबेदक जीव होते हैं वे क्या ज्ञानी होते हैं? अथवा अज्ञानी होते हैं? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं- 'अहा सहृदिया' हे गौतम! सेन्द्रिय जीव जिन

मते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त। ने एव अथाय रक्षित एव उ. ते एव एनी दोष उ ३ अज्ञानी? 'पच नाणाह भयणाण' हे गौतम। अथाय रक्षित एवेभां अकपायी पांच ज्ञान एव उ छद्मस्थ, धीतराग-अजीवारभा एने बारभा एव स्थानवर्ती एवे। एने वेदकीयो अथाय रक्षित दोषाना आरक्षे एव प्रभावे एव उ अर्थात् छद्मस्थ धीतरागते अकपायी एव एतन्नाणा दोष उ एने वेदकी पांचभा ज्ञान वेदद्वारभा दोष उ

इवे पदरभा वेदद्वारने। अथाय करीने जीवभा प्रश्नने एव उ एव उ ३ 'सवेयगाण मते जीवा किं नाणी अन्नाणी' हे भदन्त। ने एव एने उ दोष उ वे एव एनी दोष उ ३ अज्ञानी दोष उ ।

श्रोक्तास्तथैव सवेदका अपि भजनया केवलज्ञानभिन्नचतुर्ज्ञानिनस्त्यज्ञानि-  
नश्च वक्तव्याः, 'एवं इत्थिवेयगा वि, एवं पुरिसवेयगा वि. एवं नपुसग-  
वेयगा वि' एवं सवेदकवदेव स्त्रीवेदका अपि, एवं पुरुषवेदका अपि, एवं  
नपुसकवेदका अपि भजनया चतुर्ज्ञानिनस्त्यज्ञातिनश्च द्रष्टव्याः, 'अवेयगा जहा  
अकसाई' अवेदका वेदरहिताः यथा अकषायिणो भजनया पञ्चज्ञानिन उक्ता-  
स्तथैव विज्ञेयाः, यतोऽनिवृत्तिवादरादीनामवेदकतया तेषु छद्मस्थानां चत्वारि  
ज्ञानानि भजनया, केवलानां तु पञ्चममिति भावः,

तरह भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवाले होते हैं इसी  
तरह सवेदक जीव भी भजनासे चार ज्ञान और तीन अज्ञानवाले होते  
हैं । 'एवं इत्थिवेयगा वि, एवं पुरिसवेयगा वि, एवं नपुंसगवेयगा  
वि' मवेदक जीवकी तरह ही स्त्रीवेदवाले, पुरुषवेदवाले और नपुंसक  
वेदवाले जीव भी भजनासे चार ज्ञानवाले और तीन अज्ञानवालेहोते  
हैं । 'अवेयगा जहा अकसाई' जैसे अकषायोजीव-कषायरहितजीव  
भी-भजनासे पांच ज्ञानवाले कहे गये हैं उसी प्रकारसे अवेदक जीव  
भी वेद विनाके जीव भी भजनासे पांच ज्ञानवाले कहे गये हैं। इसका  
कारण यह है कि अनिवृत्तिवादर आदि गुणस्थानवाले जीव वेदरहित  
नौवे गुणस्थानसे आगेके जीव-अवेदक-वेद विनाके होनेके कारण  
चारहवे गुणस्थानतक तो भजनासे चार ज्ञानवाले होते हैं और केवली

७ :- 'जहा सइंदिया' हे गौतम धन्द्रियवाणा एव न् रीते लज्जनाथी यार ज्ञान  
अने त्रयु अज्ञानवाणा [लज्जनाथी] होय छे तेन् रीते सवेदक (वेदवाणा) एव पणु लज्जनाथी  
यार ज्ञान अने त्रयु अज्ञानवाणा होय छे 'एवं इत्थिवेयगा वि एवं पुरिसवेयगावि,  
एवं नपुसकवेयगावि' सवेदक एवोनी माक्षक स्त्रीवेदवाणा, पुरुषवेदवाणा अने  
नपुसकवेदवाणा लज्जनाथी यार ज्ञान अने त्रयु अज्ञानवाणा होय छे 'अवेयगा जहा  
अकसाई' न्वा रीते अकषायि एव कषाय रक्षित एव लज्जनाथी पाय ज्ञानवाणा कक्षा  
छे तेन् रीते अवेदक एव (वेद रक्षित एव) पणु लज्जनाथी पाय ज्ञानवाणा होय छे तेनुं  
कारणु अे छे हे अनिवृत्ति आदरादि शुषुस्थानवाणा एव-वेदरक्षित नवमा शुषुस्थ नथी  
आगणना एव-अवेदक-वेदविताना होवाना कारणु आरमा शुषुस्थान सुधी लज्जनाथी यार  
ज्ञानवाणा होय छे. अने देवणी लगवानने अेक देवणज्ञान न् होय छे अेटला माटे  
आवेदक एवने लज्जनाथी पाय ज्ञानवाणा कक्षा छे



અથ પોદશમાહારકદ્વારમાભિત્ય પૂછ્વતિ - 'આહારગા ણં મતે ! વીત્તા  
 ફિં નાળી, અન્નાળી ? હે મદન્ત ! આહારકાઃ સ્વલ્લ જીવાઃ ફિં જ્ઞાનિના મવન્તિ,  
 અજ્ઞાનિનો વા ? મગધાનાહ--'જહા સકસાર્ઈ' હે ગૌતમ ! યયા સકપાયિણો મજનપા  
 ઘતુર્જ્ઞાનિનસ્થ્યજ્ઞાનિનશ્ચાક્તાસ્તયૈવાહારકા અપિ મર્જનયા પચ્ચ જ્ઞાનિનસ્થ્યજ્ઞાનિનશ્ચ  
 દ્રષ્ટવ્યાઃ, તદાહ--'નવરં કેષલ્લનાળપિ' નવરં સકપાયપેક્ષયા વિશેપસ્તુ આહારકઃ  
 કેષલ્લજ્ઞાનિનોઽપિ મવન્તિ, કેષભિનોઽપિ આહારસહિતસ્વાત્ । ગૌતમઃ પૂછ્વતિ-  
 'અણાહારગા ણ મંતે ! જીવા ફિં નાળી, અન્નાળી ?' હે મદન્ત ! અનાહારકઃ  
 સ્વલ્લ જીવાઃ ફિં જ્ઞાનિનો મવન્તિ, અજ્ઞાનિનો વા ? મગધાનાહ-- 'મયપચ્ચ

મગધાનકે એક કેવલજ્ઞાન હી હાતા હૈ । ઇમલિયે અથેવકજીવ મજનાસે  
 પાંચ જ્ઞાનવાલે કહે ગયે હૈ । અથ સોલહવે આહારકદ્વાર કો આભિત  
 કરકે પ્રશ્નસે ગૌતમ એસા પૂછતે હૈ ફિ 'આહારગાળ મતે ! જીવા  
 ફિં નાળી અન્નાળી' હે મદન્ત ! જો જીવ આહારક હોતે હૈ વે કયા  
 જ્ઞાની હોતે હૈ યા અજ્ઞાની હાતે હૈ ? અપરમે પ્રશ્ન કહતે હૈ-- 'જહા  
 સકસાર્ઈ' હે ગૌતમ ! સકપાયી જીવોકો જિસ મંકાર મજનાસે પાર  
 જ્ઞાનવાલા ધૌર તીન અજ્ઞાનવાલા કહા ગયા હૈ ઇસી પ્રકારસે આહારક  
 જીવ મી મજનાસે ચાર જ્ઞાનવાલે ઓર તીન અજ્ઞાનવાલે કહે ગય હૈ ।  
 ઘલી ઘાત 'નવર કેષલ્લનાળ વિ' ઇસ સુત્રપાઠદ્વારા સમજાઈ ગઈ હૈ ।  
 રસમેં યહ મફટ ક્રિયા ગયા હૈ ફિ સકપાયી જીવકી અપેક્ષા આહારક  
 જીવોમેં યહી વિશેષતા હૈ ફિ આહારક જીવ કેવલજ્ઞાનવાલેમી હોતે  
 હૈ । ક્યોં ફિ-- કેવલી મી આહાર સહિત હોતે હૈ । અથ ગૌતમ  
 પ્રશ્નસે એસા પૂછતે હૈ -- 'અણાહારગા ણ મતે ! જીવા ફિં નાળી,  
 અન્નાળી' હે મદન્ત ! જો જીવ અનાહારક હાતે હૈ વે કયા જ્ઞાની

હવે સેવમ આહારક દારને। આમય કરીને ગૌતમ સ્વામી પ્રશ્નને એવું પૂછે છે કે  
 આહારગાળં મતે મીવા ફિં નાળી અન્નાળી' હે મગધાનાહ । તે એવ આહારક  
 દોષ છે તે જ્ઞાની દોષ છે કે અજ્ઞાની ? ઉ. - 'જહા સકસાર્ઈ' હે ગૌતમ ।  
 સકપાયિક છવેને તે રીતે અજ્ઞાનથી ચાર જ્ઞાન અને મધુ અજ્ઞાનવચ્ચ કથમ છે એવ  
 રીતે આહારક એવ પચ્ચ ચાર જ્ઞાન અને મજ અજ્ઞાનવચ્ચ દોષ છે એવ વાત  
 'નવરં કેષલ્લનાળ વિ' આ સુત્રપાઠ દ્વારા સમજાવ્યું છે તથા એ કથુ છે કે  
 આપયિક છવેનો અપેક્ષાને આહારક છવેનો એવ વિશેષતા છે કે આહારક એવ કેવલ-  
 જ્ઞાનવચ્ચ પચ્ચ દોષ છે કારણે કેવળી પચ્ચ આહાર સહિત દોષ છે મથા--  
 'અણાહારગાળ મતે જીવા ફિં નાળી અન્નાળી' હે મગધાનાહ । તે એવ આહારક

नाणवज्जाइं नाणाइं अन्नाणाणि य तिन्नि भयणाए' हे गौतम ! अनाहारकाणां मनःपर्यवज्ञानश्चर्जानि चतुर्ज्ञानानि, अज्ञानानि च त्रीणि भजनया भवन्ति, तथाहि—मनःपर्यवज्ञानस्याहाराणामेव सद्भावेन प्रथमं ज्ञानत्रयम् अज्ञान-त्रयञ्च विग्रहगत्यापन्नानामनाहारकाणां भवति, केवलज्ञानञ्च केवलिसमुद्घात-शैलेशीसिद्धावस्थासु अनाहारकाणामपि भवतीति भावः ॥ सू० १० ॥

ज्ञानगोचरवक्तव्यतामाह—

मूलम्—आभिणिबोहियनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पणत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पन्नत्ते, तं जहा-दवओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, दवओ णं आभिणिबोहिय-नाणी आएसेणं सब्बदवाइं जाणइ, पासइ, खेत्तओ आभिणि-बोहियनाणी आएसेणं सब्बखेत्तं जाणइ, पासइ. एवं कालओ वि, एवं भावओ वि । सुयनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पणत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पणत्ते; तं जहा-दवओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, दवओ णं सुयनाणी उव उत्ते सब्बदवाइं जाणइ, पासइ, एवं खेत्तओ वि, कालओवि,

होते हैं या अज्ञानी होते हैं? उत्तरमें प्रभु कहते हैं— 'मणपज्जवनाण वज्जाइं नाणाइ अन्नाणाणि य तिन्नि भयणाए' हे गौतम ! अनाहारक जीवोंके मनःपर्यवज्ञानको छोड़कर चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजनासे होते हैं— इसका कारण यह है कि मनःपर्यवज्ञान अनाहारक जीवोंके ही होता है इसलिये प्रथमके तीन ज्ञान और तीन अज्ञान विग्रहगत्यापन्न अनाहारक जीवोंके होते हैं और केवलज्ञान केवलिसमुद्घात शैलेशी सिद्धावस्थाओंमें अनाहारकोंके भी होता है ॥सू.१०॥

होय छे जे ज्ञानी होय छे के अज्ञानी होय छे 'मणपज्जवनाणवज्जाइं नाणाइं अन्नाणाणिय तिन्नि भयणाए' हे गौतम ! अनाहारक जेवने मन पर्यव ज्ञान छोडीने चार ज्ञान अने त्रय अज्ञान लज्जनाथी होय छे तेनु कारण जे छे के मनःपर्यव ज्ञान अहारक जेवने जे होय छे जेदला भाटे पडेलाना त्रय ज्ञान अने त्रय अज्ञान विग्रहगतिवाणा अनाहारक जेवने होय छे अने केवलज्ञान केवणी समुद्घात शैलेशी सिद्धावस्थाओभा अनाहारकेने पथु होय छे. ॥ सू. १० ॥

भावओ ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वभावे जाणइ, पासइ । ओहि  
नाणस्स णं भत्ते ! केवइए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से  
समासओ चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वओ, खेत्तओ, कालओ,  
भावओ, दव्वओ णं ओहिनाणी रुविदव्वाइ जाणइ, पासइ,  
जहा नंदीए जाव भावओ । मणपज्जवनाणस्स ण भत्ते ! केवइए  
विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते  
तं जहा—दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, दव्वओ णं उज्जु  
मई अणत्ते अणत्तपएसिए जहा नंदीए जाव भावओ । केवल  
नाणस्स ण भत्ते ! केवइए विसए पण्णत्ते ? गोयमा ! से समा-  
सओ चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वओ, खेत्तओ, कालओ,  
भावओ, दव्वओ ण केवलनाणी सव्वदव्वाइ जाणइ, पासइ एव  
जाव भावओ । मइअन्नाणस्स ण भत्ते ! केवइए विसए पण्णत्ते !  
गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा—दव्वओ, खेत्तओ,  
कालओ, भावओ, दव्वओ णं मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाइ,  
दव्वाइ जाणइ, पासइ, जाव भावओ मइअन्नाणी मइअन्नाण  
परिगए भावे जाणइ, पासइ । सुयअन्नाणस्स ण भत्ते ! केवइए  
विसए पण्णत्ते ? गोयमा से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा  
दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, दव्वओ ण सुयअण्णाणी सुय  
अन्नाणपरिगयाइ दव्वाइ आघवेइ, पन्नवेइ, परूवेइ, एव खेत्त  
ओ, कालओ भावओ ण सुयअन्नाणी सुयअन्नाणपरिगए भावे  
आघवेइ, त चेष । विमगनाणस्स ण भत्ते ! केवइए विसए

पणत्ते ? गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पणत्ते, तं जहा-  
द्वओ, खेत्तओ; कालओ, भावओ, द्वओ णं विभंगनाणी वि-  
भंगनाणपरिगयाइ द्वाइं जाणइ, पासइ, एवं जाव भावओ णं  
विभंगनाणी विभंगनाण परिगए भावे जाणइ पासइ॥सू०११॥

छाया- आभिनिवोधिकज्ञानस्य खलु भदन्त ! कियान् विषयः प्रज्ञप्तः ?  
गौतम ! स समासतः चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा - द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः,  
भावतः, द्रव्यतः खलु आभिनिवोधिकज्ञानी आदेशेन सर्वद्रव्याणि जानाति,  
पश्यति, क्षेत्रतः आभिनिवोधिकज्ञानी आदेशेन सर्वक्षेत्रं जानाति, पश्यति,  
एवं कालतोऽपि, एवं भावतोऽपि । श्रुतज्ञानस्य खलु भदन्त ! कियान् विषयः

ज्ञानगोचर वक्तव्यता-

‘आभिणिवोहियनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए’ इत्यादि

सूत्रार्थ- (आभिणिवोहियनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पणत्ते)  
हे भदन्त ! आभिनिवोधिकज्ञानका विषय कितना कहा गया है ?  
(गोयमा) हे गौतम ! (से समासओ चउव्विहे पणत्ते) आभिनिवोधिक  
ज्ञानका विषय संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है । (तंजहा) नैसे  
(द्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ) द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा,  
कालकी अपेक्षा, भाव की अपेक्षा (द्वओ णं आभिणिवोहियनाणी  
आएसेणं सव्वद्व्वाइं जाणइ पासइ, खेत्तओ आभिणिवोहियनाणी  
आएसेणं सव्वखेत्तं जाणइ, पासइ, एवं कालओ वि. एवं भावओ वि)

ज्ञानगोचरनी वक्तव्यता - निरूपणम्.

‘आभिणिवोहियनाणस्स णं भंते केवइए विसए’ इत्यादि.

सूत्रार्थ :-‘आभिणिवोहियनाणस्स णं भंते केवइए विसए पणत्ते’ हे श्रवणम् ।

आभिनिवोधिः ज्ञानना विषय इत्यादि कथा छे ? ‘गोयमा’ हे गौतम । ‘से समासओ  
चउव्विहे पणत्ते’ ते संक्षेपथी चार प्रकारना कथा छे ‘तं जहा’ नैसे ‘द्वओ,  
खेत्तओ, कालओ, भावओ’ द्रव्यनी अपेक्षाये क्षेत्रनी अपेक्षाये, कालनी  
अपेक्षाये अने भावनी अपेक्षाये चार प्रकारना छे ‘द्वओ णं आभिणिवोहिय  
नाणी आएसे णं सव्वद्व्वाइं जाणइ पासइ खेत्तओ आभिणिवोहिय  
नाणी आएसे णं सव्वखेत्तं जाणइ पासइ, एवं कालओ वि एवं  
भावओ वि’ द्रव्यनी अपेक्षाये आभिनिवोधिः ज्ञानी सामान्यरूपथी समस्त (सव्वणां)

प्रश्नः ? गौतम ! स समासतत्त्ववृत्तिषु प्रश्न, तद्यथा-द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, द्रव्यत खलु भुतज्ञानी उपयुक्त सर्व द्रव्याणि जानाति, पश्यति, एवं क्षेत्रतोऽपि कालतोऽपि, भावतः खलु भुतज्ञानी उपयुक्त सर्वभावं जानाति, पश्यति । अवधिज्ञानस्य खलु भदन्त ! कियान् विषयःप्रश्नः ?

द्रव्यकी अपेक्षा आभिनिद्योपिक ज्ञानी सामान्यरूप से समस्त द्रव्योंको जानता है और देखता है । क्षेत्रकी अपेक्षा आभिनिद्योपिक ज्ञानी सामान्य से समस्त क्षेत्रको जानता है और देखता है । इसी तरह से कालकी अपेक्षा भी जानना चाहिये और भावकी अपेक्षा भी जानना चाहिये । (सुयनाणस्स णं भते ! केवइए विसए पण्णसे ) हे भदन्त ! भुतज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (से समासओ षड्विहे पण्णसे) भुतज्ञानका विषय संक्षेप से चार प्रकारका कहा गया है । (तं जहा) जैसे (द्वयओ, खेचओ, कालओ भावओ) द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा (द्वयओ ण सुयनाणी षडउत्ते सव्वदुच्चाइं जाणइ पासइ) द्रव्यकी अपेक्षा भुतज्ञानी उपयोगयुक्त होकरके मय द्रव्यों को जानता है और देखता है । (एव खेचओ वि, कालओ वि, भावओ ण सुयनाणी षडउत्ते सव्वभावे जाणइ पासइ) इसी तरह क्षेत्रकी अपेक्षा भी, कालकी अपेक्षा भी जानना चाहिये और भावकी अपेक्षा भुत ज्ञानी उपयुक्त होकर समस्त भावोंको जानता है एव देखता है ।

इसोने आवे ॐ इमे ॐ क्षेत्रनी अपेक्षाओ आभिनिद्योपिक ज्ञानी सामान्यकी समस्त क्षेत्रने आवे ॐ अने इमे ॐ जेव रीते ज्ञानी अपेक्षाओ षडु आवुं जेधजे अने भावनी अपेक्षाओषडु आवुं जेधजे 'सुयनाणस्स ण भते केवइए विसए पण्णसे' हे भववन् । भुत ज्ञानना विषय इतहा जहा ॐ 'गोयमा' 'से समासओ षडविवे पय्यसे' भुतज्ञानना विषय संक्षेपकी चार प्रकारना जहा ॐ 'तं जहा' जेधे 'द्वयओ खेचओ कालओ भावओ' इत्यनी अपेक्षाओ, क्षेत्रनी अपेक्षाओ, ज्ञानी अपेक्षाओ अने भावनी अपेक्षाओ चार प्रकारना ॐ 'द्वयओ षडु सुयनाणी षडउत्ते सव्वदुच्चाइं जाणइ पासइ' इत्यनी अपेक्षाओ भुतज्ञानी उपयोग युक्त भवने समस्त-सधया इ वेने आवे ॐ अने इमे ॐ एवं खेचओ वि कालओ वि भावओ ण सुयनाणी षडउत्ते सव्वभावे जाणइ पासइ' जेव रीते क्षेत्रनी अपेक्षाओ अने ज्ञानी अपेक्षाओ सधयुं अने भावनी अपेक्षाओ भुतज्ञानी उपयोग युक्त भवने सधया भावने आवे ॐ अने इमे ॐ 'ओहिमाणरस णं भते केवइए विसए पण्णसे'

गौतम ! स समासतश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा-द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, द्रव्यतः खलु अवधिज्ञानी रूपिद्रव्याणि, जानाति, पश्यति, यथा नन्द्यां यावत् भावतः ! मनःपर्यवज्ञानस्य खलु भदन्त ! कियान विषयः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! स समासतश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा- द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, द्रव्यतः खलु ऋजुमति अनन्तान् अनन्तप्रदेशिकान् यथा नन्द्यां यावत् भावतः !

(ओहिनाणस्म णं भन्ते ! केवडए विमए पणत्ते) हे भदन्त ! अवधिज्ञानका विषय कितना कहा गया है ? ( गौयमा ) हे गौतम ! ( से समासओ चउन्विहे पणत्ते-तं जहा-द्वओ, खेतओ, कालओ, भावओ) अवधिज्ञानका विषय संक्षेप से चार प्रकारका कहा गया है । जैसे-द्रव्य की अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा (द्वओ णं ओहिनाणी रूपिद्व्वाइं जाणइ, पासइ) द्रव्यकी अपेक्षा अवधिज्ञानी रूपी द्रव्योंको जानता है देखता है । (जहा नंदीए जाव भावओ) इस तरह जैसा नंदी सूत्र में कहा गया है उसी तरह से यावत् भाव तक जानना चाहिये । (मणपज्जवनाणस्म णं भन्ते ! केवडए विमए पणत्ते) हे भदन्त ! मनःपर्यवज्ञानका विषय कितना कहा गया है ? (गौयमा) हे गौतम ! (से समासओ चउन्विहे पणत्ते) मनःपर्यवज्ञानका विषय संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है । (त जहा) जो इस प्रकारसे है. (द्वओ, खेतओ, कालओ भावओ) द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा (द्वओ णं उज्जुमई अणत्ते अणंत-

हे भगवन् ! अवधिज्ञानना विषय डेटला प्रकारना क्खा छे ! 'गौयमा' हे गौतम ! 'से समासओ चउन्विहे पणत्ते तं जहा द्वओ खेतओ, कालओ, भावओ' अवधिज्ञानना विषय संक्षेपथी चार प्रकारना छे जेभे द्रव्यनी अपेक्षाथी क्षेत्रनी अपेक्षाथी, कालनी अपेक्षाथी अने भावनी अपेक्षाथी 'द्वओणं ओहिनाणी रूपिद्व्वाइं जाणइ पासइ' द्रव्यनी अपेक्षाथी अवधिज्ञानी रूपि द्रव्येने ज्ञे छे अने हे छे 'जहा नंदीए जाव भावओ' जेरीते जेरीरीते नदीसूत्रमा क्खेवाभां आओ छे - यावत् - भावपर्यंत समस्त वेतु 'मणपज्जवनाणस्म णं भन्ते केवडए विमए पणत्ते' हे भगवन् ! मनःपर्यवज्ञानना डेटला विषय क्खा छे ? 'गौयमा' हे गौतम ! 'से समासओ चउन्विहे पणत्ते' मनःपर्यवज्ञानना विषय संक्षेपथी चार प्रकारना क्खा छे 'तं जहा' ते आ प्रभावे छे. 'द्वओ, खेतओ, कालओ, भावओ' द्रव्यनी अपेक्षाथी, क्षेत्रनी अपेक्षाथी, कालनी अपेक्षाथी अने भावनी अपेक्षाथी द्वओ णं उज्जुमई अणत्ते अणंतपर्यए जहा नंदीए जाव भावओ'

केवलज्ञानम्य स्वच्छ मदन्त ! कियान् विषयः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! स समासत-  
 भवुर्विषयः प्रज्ञप्तः, तद्यथा- द्रव्यत, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, द्रव्यत स्वच्छ  
 केवलज्ञानी सर्वद्रव्याणि जानाति, परयति, एष यावत् भावत । मत्प्रज्ञानम्य  
 स्वच्छ मदन्त ! कियान् विषयः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! स समासतभवुर्विषयः प्रज्ञप्तः,  
 तद्यथा- द्रव्यत, क्षेत्रतः, कालत, भावतः, द्रव्यत स्वच्छ मत्प्रज्ञानी मर्य

परमिए जहा नदीए जाव भावओ ) द्रव्यकी अपेक्षा ऋजुमति मनः  
 पर्यव ज्ञानी मनरूप से परिणत अनन्तप्रदेशी अनन्त स्फूर्धोको भैसा कि  
 नदीसुप्र में कहा गया है यावत् भावतक ज्ञानता है और दम्बता है।  
 (केवलज्ञानाणस्त न भते ! केषइए विमए पण्णत्ते) हे भवन्त ! केवल  
 ज्ञानका विषय कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (से  
 समासओ चउच्चिहे पण्णत्ते) वह संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है।  
 (तजहा) जैसे (द्रव्यओ, क्षेत्रओ, कालओ, भावओ) द्रव्यकी अपेक्षा,  
 क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा (द्रव्यओ न  
 केवलज्ञानी मत्प्रदब्बाइ जाणइ, पासइ-एष जाव भावओ) द्रव्य की  
 अपेक्षा केवलज्ञानी समस्त द्रव्योको जानता है और देखता है।  
 इसी तरहसे वह यावत् भावकी अपेक्षा भी समस्त भावोको जानता  
 देखता है। (स जहाणस्त न भते ! केषइए विसए पण्णत्ते) हे भवन्त !  
 (मत्प्रज्ञानका विषय कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम !  
 (से समासओ चउच्चिहे पण्णत्ते) वह संक्षेपसे चार प्रकारका कहा  
 गया है। (तजहा) जैसे (द्रव्यओ, क्षेत्रओ, कालओ भावओ) द्रव्यकी

द्रव्यकी अपेक्षाकी ऋजुमती मन य ज्ञानी मनद्रव्यकी परिचित अनन्तप्रदेशता, अनन्त  
 स्फूर्धोने लेयी रीते नदीसुप्रभा कल्प्यु छे-भावत तेवीर रीते भावपथ त लखे ७ जाने  
 देजे ७ 'केवलज्ञानाणस्त न भते केषइए विसए पण्णत्ते' हे भवन्त ! केवलज्ञानता  
 विषय देखा देखा ७ ! 'गोयमा' हे गौतम ! से समासओ चउच्चिहे पण्णत्ते'  
 ते संक्षेपतया चार प्रकारता देखा ७ 'स महा' केभे 'द्रव्यओ, क्षेत्रओ, कालओ,  
 भावओ' द्रव्यकी अपेक्षाकी क्षेत्रकी अपेक्षाकी मण्णती अपेक्षा भी जाने भावकी अपेक्षाकी  
 द्रव्यओ न केवलज्ञानी मत्प्रदब्बाइ जाणइ पासइ एवं भाव भावओ, द्रव्यकी  
 अपेक्षाके केवलज्ञानी समस्त (सजहा) द्रव्योने लखे ७ जाने देजे ७ केवल रीते  
 ते भावत भावकी अपेक्षा पर्यत पत्र सध्या भावोने लखे ७ जाने देजे ७  
 'मत्प्रज्ञानाणस्त न भते केषइए विमए पण्णत्ते' हे भवन्त ! मत्प्रज्ञानता विषय  
 देखा देखा ७ ! 'गोयमा' हे गौतम ! से समासओ चउच्चिहे पण्णत्ते'

ज्ञानपरिगतानि द्रव्याणि जानाति, पश्यति, यावत् भावतो मत्यज्ञानी मत्य-  
ज्ञानपरिगतं भावं जानाति, पश्यति । श्रुताज्ञानस्य खलु भदन्त ! कियान्  
विषयः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! स समासतश्चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा— द्रव्यतः,  
क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, द्रव्यतः खलु श्रुताज्ञानी श्रुताज्ञानपरिगतानि  
द्रव्याणि आख्यापयति, प्रज्ञापयति, परूपयति, एवं क्षेत्रतः, कालतः, भावतः

अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा  
(द्वयो ण मइ अन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाइं दव्वाइ जाणइ पासइ)  
द्रव्यकी अपेक्षा मत्यज्ञानी मत्यज्ञान के विषयभूत हुए द्रव्योंको जानता  
है और देखता है । (जाव भावओ मइ अन्नाणी, मइ अन्नाणपरिगए  
भावे जाणइ पासइ) इसी तरहसे वह मत्यज्ञानी मत्यज्ञानके विषयभूत  
हुए यावत् भावोंको जानता है और देखता है । (सुय अन्नाणस्स णं  
भंते ! केवइए विसए पणत्ते ?) हे भदन्त श्रुतज्ञानका विषय  
कितना कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (से समासओ चउव्विहे  
पणत्ते) वह संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है । (तंजहा) जैसे—  
(दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ) द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा  
कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा (दव्वओणं सुय अन्नाणी सुय अन्नाण-  
परिगयाइ दव्वाइ आघवेइ, पणवेइ, परूवेइ; एवं खेत्तओ कालओ भावओ)  
द्रव्यकी अपेक्षा श्रुताज्ञानी श्रुताज्ञानके विषयभूत हुए द्रव्योंको कहता

मत्यज्ञानना विषय संक्षेपतथी चार प्रकारना उक्त्वा छे 'तं जहा' नेभडे 'दव्वओ,  
खेत्तओ, कालओ भावओ' द्रव्यनी अपेक्षाथी, क्षेत्रनी अपेक्षाथी, कालनी अपेक्षाथी  
अने भावनी अपेक्षाथी 'दव्वओणं मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाइं दव्वाइ जाणइ  
'पासइ' द्रव्यनी अपेक्षाथी मत्यज्ञानी, मत्यज्ञानना विषयभूत थयेला द्रव्येन  
जण्णे छे अने हेजे छे 'जाव भावओ मइअन्नाणे मइअन्नाणपरिगए भावे जाणइ  
'पासइ' तेवी रीते मत्यज्ञानी मत्यज्ञानना विषयभूत थयेला — यावत् — सधणा भावने  
जण्णे छे अने हेजे छे 'सुय अन्नाणस्स णं भंते केवइए विसए पणत्ते'  
हे भदन्त ! श्रुतज्ञानना विषय उक्त्वा प्रकारना उक्त्वा आख्या छे 'गोयमा'  
हे गौतम ! 'से समासओ चउव्विहे पणत्ते' ते संक्षेपतथी चार प्रकारना छे 'तं जहा'  
नेभडे 'दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ' द्रव्यनी अपेक्षाथी, क्षेत्रनी अपेक्षाथी  
कालनी अपेक्षाथी अने भावथी 'दव्वओणं सुयअन्नाणी सुयअन्नाणपरिगयाइ  
दव्वाइ आघवेइ पणवेइ परूवेइ एवं खेत्तओ कालओ भावओ'



स्वल्प भ्रुतज्ञानी भ्रुतज्ञानपरिगत भावम् आम्यापरति, तदेव, विमङ्गज्ञानस्व-  
ल्पम् भवन्त ! क्रियान विषयः प्रश्न ? गौतम ! स समासतत्त्ववृत्तिषः प्रश्नः,  
तद्यथा- द्रव्यतः, क्षेत्रत, कालत, भावतः, द्रव्यतः स्वल्प विमङ्गज्ञानी विमङ्ग-  
ज्ञान परिगणानि द्रव्याणि जानाति, पश्यति, एव यावत्- भावतः स्वल्प विमङ्ग-  
ज्ञानी विमङ्गज्ञानपरिगत भाव जानाति, पश्यति ॥ सू० ११ ॥

टीका- अथ समुद्रज्ञानगात्रद्वारमाह- तत्र प्रत्यक्षज्ञानस्य विषय  
स्वरूप प्रवृत्तये- 'आमिणिवाट्टियनाणस्स ण भंते !' इत्यादि । 'आमिणिवाट्टिय-  
हे उहे जानता हे, उनकी मरूपणा करता हे इसी तरहसे क्षेत्र  
और कालकी अपेक्षा भी जानना चाहिय (भावओ ण सुय अभाणी  
सुय अन्नाणपरिगए भावे आघवेइ, तचेय) भावकी अपेक्षा भ्रुत  
अज्ञानी भ्रुत अज्ञानगत भावोंको कहता है, उन्हें जानता है उनकी  
मरूपणा करता है (विमंगनाणस्सण भंते ! केषइए विसए पण्णत्ते)  
हे भदन्त विमङ्गज्ञानका विषय कितना कहा गया है । (गोयमा)  
हे गौतम (से समासओ चठब्बिहे पण्णत्ते) यह संक्षेपसे चार  
प्रकारका कहा है । (सजइ) जैसे (द्रव्यओ, क्षेत्रओ, कालओ,  
भावओ) द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा, भावकी  
अपेक्षा ( द्रव्यओणं विमंगनाणो विमंगनाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ,  
पासइ, एव जाव भावओण विमंगनाणो विमंगनाणपरिगए भावे जाणइ  
पासइ) द्रव्यकी अपेक्षा विमंगज्ञानी विमंगज्ञानके विषयभूत द्रव्योंको  
जानता है और देखता है इसी तरहसे यावत् भावकी अपेक्षा वि-  
मंगज्ञानी विमंगज्ञानके विषयभूत भावोंको जानता है और देखता है ।

इसकी अपेक्षावा सुगम्यानी सुगम्यानना विषयभूत अवेसा इ वेने इहे  
उ तेने अवे उ तेनी प्रज्ञापना इहे उ अने तेनी प्रश्नम् इहे उ  
' विमंगनाणस्स ण भंते केषइए विमए पण्णत्ते' हे अत्रयन । (विमंगनाणस्स विषय  
इहेवा प्रज्ञापना इहे उ ? ' गोयमा' हे गौतम । से समासओ चठब्बिहे पण्णत्ते'  
ते अवेत्तमी आर प्रज्ञापना इहे उ ' तं वाडा' अत्रहे ' द्रव्यओ, क्षेत्रओ, कालओ,  
भावओ' इ वनी अपेक्षाओ क्षेत्रओ अपेक्षाओ, कालओ अपेक्षाओ अने भावओ अपेक्षाओ  
' द्रव्यओण विमंगनाणो विमंगनाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ पासइ एव जाव  
भावओण विमंगनाणो विमंगनाणपरिगए भावे जाणइ पासइ' इसकी अपेक्षाओ  
विमंगनाणी विमंगनाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ पासइ' इसकी अपेक्षाओ  
-भावओ अपेक्षाओ विमंगनाणी विमंगनाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ पासइ' अने इहे उ

નાણસ્સ ણં મંતે ! કેવહ્ણ વિમ્ણ પ્ણત્તે ?' ગૌતમઃ પૃચ્છતિ- હે મદન્ત ! આભિનિવોધિકજ્ઞાનસ્ય મતિજ્ઞાનલક્ષણસ્ય સ્વલ્લ ક્રિયાન્ કિંપરિમાણઃ વિષયઃ ગોચરઃ ગ્રાહ્યોઽર્થઃ પ્રજ્ઞપ્તઃ કથિતઃ ? મગવાનાહ- 'ગોયમા ! સે સમાસઓ ચઽઊન્વિવ્હે પ્ણત્તે' હે ગૌતમ ! સ આભિનિવોધિકજ્ઞાનસ્ય વિષયઃ, તદ્ વા આભિનિવોધિકજ્ઞાનં સમાસતઃ સંક્ષેપતઃ અવાન્તરભેદાનાં પ્રધાનભેદાન્તર્ભાવે- નેત્યર્થઃ ચતુર્વિધશ્ચતુર્વિધં વા પ્રજ્ઞપ્તમ્, 'તંજહા- દઁવઓ, સ્વેત્તઓ, કાલઓ, માવઓ' ત્વચ્ચા - દ્રવ્યતઃ-ધર્મારિતકાયાદીનિ દ્રવ્યાણિ આશ્રિત્ય, ક્ષેત્રત-

ટીકાર્થ- ૧૭વાં દ્વાર જ્ઞાનગોચર નામકા હૈ હસમેં પ્રત્યેક જ્ઞાનકા વિષય ઓર સ્વરૂપકા કથન હુઆ હૈ । સૂત્રકાર યહાં પર પ્રત્યેક જ્ઞાનકા વિષય કિતના હૈ યહી ઘાત પ્રકટ કર રહે હૈ- હસમેં ગૌતમને પ્રશ્નસે એના પૂછા હૈ 'આભિનિવોધિયનાણસ્સ ણ મંતે ! કેવહ્ણ વિમ્ણ પ્ણત્તે' હે મદન્ત ! આભિનિવોધિકજ્ઞાન-મતિજ્ઞાનકા કિતના વિષય હૈ ? અર્થાત્ મતિજ્ઞાન કિતને વિષયકો-ગ્રાહ્ય અર્થકો-જાનતા ઓર દેક્ષતા હૈ ? હસકે ઉત્તરમેં પ્રશ્ન કહતે હૈ 'ગોયમા' હે ગૌતમ ! સે 'સમાસઓ ચઽઊન્વિવ્હે પ્ણત્તે' મતિજ્ઞાન કા વિષય સંક્ષેપસે ચાર પ્રકારકા કહા ગયા હૈ । સંક્ષેપસે કહનેકા તાત્પર્ય એસા હૈ કિ મતિજ્ઞાનકે વિષયમ્ભૂત પદાર્થોકે જિતને મી અવાન્તર ભેદ હૈ ઊન સઽકા પ્રધાન ભેદોમેં અન્તર્ભાવ કર લિયા ગયા હૈ । 'તંજહા' ઊસકે ચાર પ્રકાર હસ તરહસે હૈ- 'દઁવઓ, સ્વેત્તઓ, કાલઓ, માવઓ, દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે, ક્ષેત્રકી અપેક્ષાસે, કાલકી અપેક્ષાસે, માવકી અપેક્ષાસે,

ટીકાર્થ :- સન્તરમા દારનુ નામ જ્ઞાનગોચર છે. તેમા દરેક જ્ઞાનના વિષય અને સ્વરૂપનુ કથન કર્યું છે સૂત્રકાર અહીંયા પ્રત્યેક જ્ઞાનના વિષય કેટલા છે. તેજ વાન પ્રશ્ન કરે છે તેમા ગૌતમે પ્રશ્નને એવુ પૂછ્યુ છે કે 'આભિનિવોધિયનાણસ્સ ણં મંતે કેવહ્ણ વિમ્ણ પ્ણત્તે' હે ભગવન્ ! અભિનિવોધિક જ્ઞાન - મતિજ્ઞાનના કેટલા વિષયો છે ? અર્થાત્ મતિજ્ઞાન કેટલા વિષયોને - એટલે આલ્પઅર્થને બોલે છે અને જેવે છે તેના ઉત્તરમા પ્રશ્ન કહે છે કે 'ગોયમા' હે ગૌતમ ! 'સે સમાસઓ ચઽઊન્વિવ્હે પ્ણત્તે' મતિજ્ઞાનના વિષય સંક્ષેપતથી ચાર પ્રકારના કહ્યા છે સંક્ષેપથી કહેવાનો હેતુ એ છે કે મતિજ્ઞાનના વિષયમ્ભૂત પદાર્થોના જેટલા અવાન્તર ભેદો છે તે સઘણાનો પ્રધાન ભેદોમા અતર્ભાવ કરી લીધો છે સમાવેશ કરી લીધો છે 'તંજહા' તેના ચાર પ્રકારો આ પ્રમાણે છે 'દઁવઓ, સ્વેત્તઓ, કાલઓ, માવઓ' દ્રવ્યનો અપેક્ષાથી, ક્ષેત્રની અપેક્ષાથી, કાળની અપેક્ષાથી અને ભાવની અપેક્ષાથી - દ્રવ્યનો અપેક્ષા

द्रव्याधारभूतम् आकाशमात्रं क्षेत्रमाभित्य, काष्ठ-—अर्थां द्रव्यपर्यायावस्थितिं वा  
 आभित्य, मासत - भौदयिकादिभावान् द्रव्यपर्यायान वा आभित्यत्यर्थाः,  
 तत्र 'द्रव्यमा ण आमिनिषोडियनाणी आपसथ सव्यदव्वाइ जाणइ, पासइ'  
 द्रव्यत द्रव्यमाभित्य आमिनिषोडिकज्ञानविषयद्रव्य वा समाभित्य ससु  
 आमिनिषोडिकज्ञानी भादशेन-सामान्य-विशेषलक्षणप्रकारण ओघतो द्रव्य-  
 माप्ररूपेण वा, नतु तदवान्तरसव्यिशेषरूपेण, अथवा भादेशन भुतज्ञान  
 जनितसंस्कारेण सर्वद्रव्याणि धर्मास्तिकायादीनि जानाति अवायधारणा

द्रव्यकी अपेक्षा लेकर जो मतिज्ञानका विषय कहा गया है उसमें  
 धर्मास्तिकायादिक द्रव्योंका आश्रय लिया गया है- क्षेत्रकी अपेक्षा  
 लेकर जो मतिज्ञानका विषय कहा गया है सो उसमें द्रव्यों के  
 आधारभूत आकाशमात्रक्षेत्रको ग्रहण किया गया है काष्ठी अपेक्षा  
 लेकर जो मतिज्ञानका विषय कहा गया है, उसमें द्रव्यपर्याय की  
 अवस्थितिरूप अर्द्धाकालको लिया गया है तथा भावकी अपेक्षा लेकर  
 जो मतिज्ञानका विषय कहा गया है उसमें भौदयिक भादि भावार्थों  
 या द्रव्योंकी पर्यायोंका आश्रित किया गया है । इनमें 'द्रव्यमा ण  
 आमिनिषोडियनाणी आपसेण सव्यदव्वाइ जाणइ पासइ' द्रव्य की  
 अथवा आमिनिषोडिकज्ञान के विषयभूत द्रव्य की अपेक्षा लेकर  
 आमिनिषोडिकज्ञानी भादेशसे-सामान्यरूपसे एव विशेषरूपसे अथवा  
 ओघ-द्रव्यमात्ररूपसे-तदवान्तर सर्वविशेषरूपसे नहीं अथवा भुतज्ञान  
 जनितसंस्कारसे धर्मास्तिकायादिक द्रव्योंको जानता है अवाय और

लक्षणे न मतिज्ञानना विषय इत्था छे तेमां धर्मास्तिकायादिक द्रव्योना आश्रय दीये छे  
 क्षेत्रकी अपेक्षाने लक्षणे मतिज्ञानना ने विषय इत्था छे तेमां द्रव्यना आधारभूत आकाश  
 मात्र क्षेत्र भद्रव्य इत्थु छे जाणनी अपेक्षा लक्षणे न मतिज्ञानना विषय इत्था छे तेमां  
 द्रव्य पर्यायनी अवस्थितिरूप अर्द्धाकालने जखे छे तथा भावनी अपेक्षा लक्षणे न  
 मतिज्ञानना विषय इत्था छे तेमां भौदयिकादि भावाने अथवा द्रव्योनी पर्यायोंना आश्रय  
 इक्षेने इत्थे छे 'द्वयमाणं आमिनिषोडियनाणी आपसथ सव्यदव्वाइ जाणइ  
 पासइ' द्रव्यनी अथवा आमिनिषोडिक ज्ञानना विषय भूत द्रव्यनी अपेक्षा लक्षणे  
 आमिनिषोडिक ज्ञाना सामान्यरूपकी अने विशेषरूपकी अथवा ओघ-द्रव्यरूपकी तेना  
 आवा-न्तर सब विशेष रूपकी नहीं अथवा भुतज्ञान जनित संस्कारकी धर्मास्तिकायादिक  
 द्रव्योने जखे छे अथवा अने धारकानी अपेक्षाकी तेना पीताना आश्रय विषयरूप

पेक्षयाऽवबुध्यते अवायधारणयोर्ज्ञानरूपत्वात्, पश्यति-अवग्रहेहापेक्षयाऽवबुध्यते  
अवग्रहेहयोर्दर्शनरूपत्वात्, उक्तञ्च भाष्ये-

‘नाणमवायधिर्इओ दंसणमिट्ठ जहोग्गहेहाओ,  
तह तत्तर्इ सम्मं, रोड्ज्जइ जेण तं णाणं ॥

छाया- ज्ञानमवायधियौ दर्शनमिट्ठं यथावग्रहे ईहे,  
तथा तत्र रुचिः सम्यक् रोचते येन त ज्ञानम् ॥

एवं-‘जं सामन्नग्रहण, दसणमेयं विसेसियं नाणं’

छाया- यत् सामान्यग्रहणं दर्शनमेतत् विशेषितं ज्ञानम्

अवग्रहेहे च सामान्यार्थग्रहणरूपे, अवायधारणे च विशेषग्रहणस्वभावे  
वर्तेते, खेत्तओ आभिणिबोहियणाणी आएसंण सव्वखेत्त जाणइ, पासइ’ एवं  
धारणाकी अपेक्षासे उन्हे अपना ग्राह्य विषय बनाता हैं- क्यों कि  
अवाय और धारणा ज्ञान रूप हैं ‘पश्यति’ अवग्रह और ईहाकी  
अपेक्षा उन्हे सामान्यरूपसे जानता है- क्यों कि ये दोनों दर्शनरूप  
हैं । भाष्यमें ऐसा ही कहा है- ‘नाणमवायधिर्इओ दंसणमिट्ठं जहो-  
ग्गहेहाओ, तह तत्तर्इ सम्मं रोड्ज्जइ, जे ण तं णाणं’ जं सामन्न-  
ग्रहणं दसणमेय विसेसियं नाणं’ तात्पर्य यह है कि अवग्रह और  
ईहा ये दोनों सामान्य अर्थग्रहण रूप हैं-अर्थात् मतिज्ञानके ‘अवग्रह  
ईहा अवाय और धारणा’ ऐसे चार भेद हैं- सो इनमें ‘अवग्रह  
ईहा’ ये दो भेद पदार्थको सामान्यरूपसे ग्रहण करते हैं, तथा अवाय  
और धारणा ये विशेषग्रहण स्वभाववाले होते हैं- अर्थात् ये दोनों  
पदार्थको विशेष रूपसे जानते हैं । इसलिये सूत्रकारने ‘जाणइ पासइ’  
ऐसे दो क्रियापदोका प्रयोग किया है । ‘खेत्तओ आभिणिबोहियणाणी-

अनावे छे केभडे अवाय अने धारणा ज्ञानरूप छे ‘पश्यति’ अवग्रह अने ईहाकी  
अपेक्षाथी तेने सामान्यरूपथी नल्ले छे केभडे ते अने दर्शनरूप छे भाष्यमा जेवु न  
बहु छे. ‘नाणमवायधिर्इओ दंसणमिट्ठं जहोग्गहेहाओ, तह तत्तर्इ सम्मं  
रोड्ज्जइ, जेण तं णाणं । जं सामन्नग्रहणं दसणमेयं विसेसियं नाणं’ तेनु  
तात्पर्य जे छे के अवग्रह अने ईहा जे अने सामान्य अर्थ ग्रहणरूप छे अर्थात्  
मतिज्ञानना अवग्रह, ईहा, अवाय अने धारणा जे चार वेदो छे तेमा अवग्रह अने  
ईहा जे जे वेद पदार्थने सामान्यरूपथी ग्रहण करे छे तथा अवाय अने धारणा जे  
विशेष ग्रहण स्वभाववाला होय छे अर्थात् ते अने पदार्थने विशेषरूप नल्ले छे  
अतएवा माटे सूत्रकारे ‘जाणइ पासइ’ जेवा जे क्रियापदोना प्रयोग क्यो छे. ‘खेत्तओ

क्षेत्रतः-क्षेत्रमाधित्य आभिनिबोधिकज्ञानी भावदेशेन आघत सामान्यरूपेण भ्रुतपरिकर्मतया वा ज्ञानजन्यसंस्कारेण सवक्षेत्रं लोकालोकक रूप जानाति, पश्यति, 'एष कालो वि' एष तथैव कालतोऽपि कालमाधित्यापि आभिनिबोधिकज्ञानी भावदेशेन सर्वकालान जानाति, पश्यति, 'एष भावो वि' एष तथैव भावतोऽपि भावमाधित्यापि आभिबोधिकज्ञानी भावदेशेन भ्रुतज्ञानजन्य संस्कारेण औदयिकादिपञ्चभावान जानाति, पश्यति, उक्तञ्च भाष्ये-

'आप्तोचि पगारो, ओपादेसेण सव्यद्व्याहं,  
धम्मत्थिकाइयाह, जाणइ नउ सव्यभावेय' ॥१॥

'खेच लोगाळाग, काल सव्यदमहव तिविहपि,  
पचोदइयाहए, भावे अणेउजएनेय मेघइय' ॥२॥

आप्तसेण सव्यखेच जाणइ पासइ' इमी तरहसे आभिबोधिकज्ञानी भावदेशसे- मोघसे सामान्यरूप से अथवा भ्रुतपरिकर्मित मतिवाला होनेके कारण ज्ञानजन्य संस्कारसे लोकालोकक रूप समस्त क्षेत्रको जानता है और देखता है । 'एष कालो वि' इमी तरह आभिनिबोधिकज्ञानी कालको आभित करके भी भावदेशसे सर्वकालोंको जानता है और देखता है । 'एष भावो वि' इसी तरह आभिनिबोधिकज्ञानी भावको आभित कर के भावदेशसे - भ्रुतज्ञानजन्य संस्कार से औदयिक आदि पाच भावोंको जानता है और देखता है । आप्तमें एसा ही कहा है- 'आप्तोचि पगारा ओपादेसेण सव्यद्व्याहं, धम्मत्थिकाइयाह जाणइ न उ सव्यभावेय, खेच लोगाळोर्ग कालं सव्यदमहव तिविह पि, पचोदइयाहए भावे अणेउजएनेय मेघइय' आप

आभिनिबोधियनापी आप्तसेणं सव्यखेचं जाणइ पासइ' जेउ रीते आभिनिबोधिकज्ञानी भावदेशी-ओपादी-सामान्यरूपधी ज्ञानता भ्रुतपरिकर्मित मतिवाला होवाना इत्ये ज्ञानजन्य संस्कारधी लोकालोकक रूप सधना क्षेत्रने जखे छे जने हेजे छे 'एष कालो वि' जेउ रीते आभिनिबोधिकज्ञानी ज्ञानने आभय इरीने पञ्च भावदेशी सधना ज्ञानने जखे छे जने हेजे छे 'एष भावो वि' जेउ रीते आभिनिबोधिकज्ञानी ज्ञानने आभय इरीने भावदेशी अतज्ञानजन्य संस्कारधी जने औदयिकआदि पाच भावधी जखे छे जने हेजे छे अतथाभां जेउ उ उ उ 'आप्तोचिपगारा ओपादेसेण सव्यद्व्याहं, धम्मत्थिकाइयाह जाणइ न उ सव्यभावेयं खेचं लोगाळोर्ग कालं सव्यदमहव तिविह पि पचोदइयाहए भाव अणेउजएनेय मेघइयं आप्तोचियं सुचं सुभाष्यदेसु वत्स

‘आएसोत्ति व सृत्तं, सुओवलद्धेसु तस्म मइनाणं ।  
 पसरइ तव्भावणया, विणावि सुत्ताणुसारेण’ ॥३॥ इति  
 छाया- आदेश इति प्रकारः ओघादेशेन सर्वद्रव्याणि ।  
 धर्मास्तिकायादीनि जानाति नत्तु सर्वभावेन ॥१॥  
 क्षेत्रं लोकालोकं कालं सर्वाद्धामधत्ता त्रिविधमपि ।  
 पञ्चोदयिकादिभावान् जानीयादेतद् एतावत्कम् ॥२॥  
 आदेश इति वा सृत्तं सूत्रोपलब्धेषु तस्य मत्तिज्ञानम् ।  
 प्रसरति तद्भावणया विनापि सूत्रानुसारेण ॥३॥

गौतमः पृच्छति- ‘सुयनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पणत्ते?’  
 हे भदन्त ! श्रुतज्ञानस्य खलु कियान् विषयः प्रज्ञप्तः? भगवानाह- ‘गोयमा !  
 से समासओ चउव्विहे पणत्ते’ हे गौतम ! स श्रुतज्ञानस्य विषयः तद् वा  
 श्रुतज्ञानं समासतः संपेक्षेण चतुर्विधं प्रज्ञप्तम्, ‘तंजहा-दव्वओ, खेत्तओ, कालओ,  
 भावओ,’ तद्यथा द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, तत्र ‘दव्वओ णं सुयनाणी  
 उव्वत्ते सव्वदव्वाइ जाणइ, पासइ’ द्रव्यतः- श्रुतज्ञानविषयं द्रव्यमाश्रित्य

सोत्तिव सृत्तं सुओवलद्धेसु तस्स मइनाणं पसरइ तव्भावणया विणावि  
 सुत्ताणुसारेण’ गौतम स्वामी प्रभुसे पूछते हैं- ‘सुयनाणस्स णं भंते !  
 केवहए विसए पणत्ते’ हे भदन्त ! श्रुतज्ञानका विषय कितना कहा  
 गया है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं ‘गोयमा !’ हे गौतम ! ‘से समासओ  
 चउव्विहे पणत्ते’ श्रुतज्ञानका विषय अथवा श्रुतज्ञान संक्षेप से चार  
 प्रकारका कहा गया है- ‘तंजहा’ वह इस प्रकार से है- ‘दव्वओ,  
 खेत्तओ, कालओ, भावओ’ द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी  
 अपेक्षा और भावकी अपेक्षा इनमें ‘दव्वओणं सुयनाणी उव्वत्ते  
 सव्वदव्वाइ जाणइ पासइ’ द्रव्यकी अपेक्षासे श्रुतज्ञानी भावश्रुतोप-  
 योगवाला बना रहकर धर्मास्तिकायादिक समस्त द्रव्योंको जानता है

मइनाणं पसरइ तव्भावणया विणा वि सुत्ताणुसारेण’ गौतम स्वामी प्रभुने  
 पूछे छे छे- ‘सुयनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पणत्ते’ हे भदन्त ! श्रुतज्ञानना  
 विषय कितना कहा छे ? उत्तरमा प्रभु कहे छे ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘से समासओ  
 चउव्विहे पणत्ते’ श्रुतज्ञानना विषय संक्षेपतथी चार प्रकारना कहेल छे ‘तं जहा’  
 ते आ प्रभावे छे ‘दव्वओ खेत्तओ, कालओ, भावओ’ द्रव्यनी अपेक्षाथी, क्षेत्रनी  
 अपेक्षाथी, भावनी अपेक्षाथी तेमा ‘दव्वओणं सुयनाणं उव्वत्ते सव्वदव्वाइ  
 जाणइ पासइ’ द्रव्यनी अपेक्षाथी श्रुतज्ञानी भावश्रुतोपयोगवाला भनीने धर्मास्तिकायिक

खलु भुतज्ञानी उपयुक्तः मावभुतोपयोगी, नानुपयोगी इत्यर्थः; सहिज्ञानामिभाना  
 दमिधेयप्रतिपत्तिमर्थो भवति अतः 'उपयुक्तः' इत्युक्तम्, सर्वद्रव्याणि  
 धर्मास्तिकायादीनि जानाति विज्ञेयतोऽवगच्छति भुतज्ञानस्य तत्त्वरूपत्वात्,  
 अथ च धृतानुमारीणा मानसेनाचक्षुर्दर्शनेन सर्वाभिलाष्याणेषु जानाति,  
 पश्यति चामिधदशपूर्वभारीः भुतकेवली 'एव खेचओ वि, काळमा वि'  
 एव द्रव्यत इव क्षेत्रतः भुतज्ञानक्षेत्रमाभित्यापि भुतज्ञानी मावभुतोपयुक्तः सर्व-  
 क्षेत्र जानाति, पश्यति, तथा-कालतः भुतज्ञानकालमाभित्यापि भुतज्ञानी माव  
 भुतोपयुक्तः सर्वकाल जानाति, पश्यति, 'मावभो य सुयनाणी उवउत्ते सभ

और देखता है । 'उवउत्ते' इस विशेषणसे यह पर यह समझाया  
 गया है कि भुतज्ञानी अनुपयोगवाला बना रह कर अभिधेय से  
 अभिधेयकी प्रतिपत्ति करानेमें समर्थ नहीं हो सकता है । धर्मास्तिका  
 कायादिक द्रव्योंको जानता है इसका अभिप्राय ऐसा है कि भुतज्ञानी  
 की अपेक्षा यह विशेषरूपसे उन्हें जानता है । क्योंकि भुतज्ञान  
 धर्मास्तिकायादिरूप होता है । जो आभिन्नदशपूर्वभारादि भुतकेवली  
 होते हैं वे धृतानुमारी अचक्षुदर्शनरूप मानस प्रत्यक्ष से समस्त  
 अभिलाषोंको जानते हैं और देखते हैं । 'एव खेचओ वि, काळमा वि'  
 जिस तरह भुतज्ञानी द्रव्यकी अपेक्षा करके उपयोगवाला बना रहकर  
 धर्मास्तिकायादिक द्रव्योंको जानता है वसी प्रकार से यह भुतज्ञानी  
 भुतज्ञानके क्षेत्रको आभित्त करके भी मावभुतरूप उपयोगवाला बना  
 रहकर सर्वक्षेत्रको जानता है और देखता है । कालकी अपेक्षा  
 भुतज्ञानके कालको आभित्त करके भी यह भुतज्ञानी मावभुतोपयुक्त

सभगाऽन्वोने आवे छ अने देवे छ उवउत्ते' जे विशेषणसे भुतज्ञान जे  
 धर्मास्तिकायादिक द्रव्योंको जानता है उसी प्रकार से यह भुतज्ञानी  
 भुतज्ञानके क्षेत्रको आभित्त करके भी मावभुतरूप उपयोगवाला बना  
 रहकर सर्वक्षेत्रको जानता है और देखता है । कालकी अपेक्षा  
 भुतज्ञानके कालको आभित्त करके भी यह भुतज्ञानी मावभुतोपयुक्त  
 समस्त अभिलाषोंको जानते हैं और देखते हैं । 'एव खेचओ वि, काळमा वि' जे  
 क्षेत्रकी अने कालकी जे से भुतज्ञानी द्रव्योंकी अपेक्षा करीने उपयोगवाला  
 भुतज्ञानी द्रव्योंको जानता है उसी प्रकार से यह भुतज्ञानी भुतज्ञानके क्षेत्रको  
 आभित्त करके भी मावभुतरूप उपयोगवाला बना रहकर सर्वक्षेत्रको जानता है  
 और देखता है । कालकी अपेक्षा भुतज्ञानके कालको आभित्त करके भी यह भुतज्ञानी  
 मावभुतोपयुक्त समस्त अभिलाषोंको जानते हैं और देखते हैं ।

भावे जाणइ, पासइ' भावतः श्रुतज्ञानभावमाश्रित्य खलु श्रुतज्ञानी उपयुक्तः भाव-  
श्रुतोपयुक्तः नानुपयुक्तः सर्वान् भावान् औदयिकादिष्वचभावान् जानाति,  
पश्यति, गौतमः पृच्छति—'ओहिनाणस्स णं भते ! केवइए विसए पणत्ते ?'  
हे भदन्त ! अवधिज्ञानस्य खलु कियान् विषयः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह—  
'गोयमा ! से समासओ चउव्विहे पणत्ते' हे गौतम ! सोऽवधिज्ञानविषयः  
समासतः संक्षेपतः चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, 'तंजहा— दव्वओ, खेत्तओ, कालओ,  
भावओ' तद्यथा— द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, 'दव्वओ ण ओहिनाणी  
रुविदव्वाइं जाणइ, पासइ, जहा नंदीए, जाव भावओ' द्रव्यतः अवधिज्ञान-  
विषयं द्रव्यमाश्रित्य खलु अवधिज्ञानी रूपिद्रव्याणि, पुद्गलद्रव्याणि, तानि च

होकर सर्वकालको जानता है और देखता है । 'भावओणं सुयनाणी  
उवउत्ते सव्वभावे जाणइ पासइ' भावकी अपेक्षा—श्रुतज्ञानी भावको  
आश्रित करके श्रुतज्ञानी भावश्रुतोपयुक्त हुआ समस्त औदयिकादि  
पांच भावोंको जानता है और देखता है । अब गौतम स्वामी  
प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'ओहिनाणस्स णं भते ! केवइए विसए पणत्ते'  
हे भदन्त ! अवधिज्ञानका विषय कितना है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं  
'गोयमा' हे गौतम 'से समासओ चउव्विहे पणत्ते' वह संक्षेप से  
चार प्रकारका कहा गया है "तंजहा" जैसे— 'दव्वओ, खेत्तओ,  
कालओ, भावओ' द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भाव से 'दव्वओ णं  
ओहिनाणी रुविदव्वाइं जाणइ, पासइ' अवधिज्ञानी—द्रव्यको आश्रित  
करके रूपी द्रव्योंको—पुद्गल द्रव्योंको जानता है और देखता है 'जहा  
नदीए जाव भावओ' अवधिज्ञानका विषयवर्णन जैसा नंदीसूत्र में

लब्धे छे अने दृष्टे छे ' भावओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वभावे जाणइ पासइ  
भावनी अपेक्षा—श्रुतज्ञानी भावने आश्रय करीने श्रुतज्ञानी भावश्रुतोपयुक्त यद्यने सधणा  
औदयिकादि पांचे भावने लब्धे छे अने दृष्टे छे प्रश्न :- 'ओहिनाणस्स णं भंते  
केवइए विसए पणत्ते ' हे भगवन् ! अवधिज्ञानना विषय केटका छे ? ' गोयमा '  
हे गौतम ! ' समासओ चउव्विहे पणत्ते ' ते संक्षेपतयी चार प्रकारना कथा छे .  
' तं जहा ' जेभके ' दव्वओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ ' द्रव्यथी, क्षेत्रथी,  
कालथी अने भावथी ' दव्वओ णं ओहिनाणी रुविदव्वाइं जाणइ पासइ '  
अवधिज्ञानी द्रव्यने आश्रय करीने रूपि द्रव्यने पुद्गल द्रव्यने लब्धे छे अने दृष्टे छे .  
' जहा नंदीए जाव भावओ ' अवधिज्ञाननु विशेष वस्तुंन जेवी रीते नदीसूत्रमां—



જગન્યેનાનન્તાનિ તૈજસમાપાદ્ર્યાપામન્તરાભવર્તીનિ, ઉક્તમ્—‘તૈયામાસાદ્ધ્વાપ  
 અતરા પ્ત્ય સમઙ્, પદ્મવમ્’ ઇતિ, ઉક્તૃષ્ટતસ્તુ સર્વશ્લક્ષ્મવાદરમેદમિજ્ઞાનિ  
 જાનાતિ વિશેષરૂપેણાશુચ્યતે જ્ઞાનસ્ય વિશેષાત્મકત્વાત્, પદ્યતિ સામાન્ય  
 રૂપેણાશુચ્યતે દર્શનસ્ય સામાન્યાત્મકત્વાત્, વિશેષજ્ઞાનસ્ય સામાન્યજ્ઞાન-  
 નિયતત્ત્વેન અવધિજ્ઞાનિનોઽવધિદર્શનસ્વાપદ્ય માવાત્, ન ચ પ્રથમં પદ્યતિ,  
 ઘટો જાનાતીતિ ક્રમનિયમાત્ જ્ઞાનાપેક્ષયા દર્શનસ્યૈષ પ્રથમોપસ્થિતત્ત્વેન ઉપા-  
 દાતૃમ્મુચિતત્ત્વાત્ તત્પરિત્યજ્ય જ્ઞાનસ્ય પ્રથમોપાદાનેન ક્રમવિપર્યાસે કિં

યાવત્ આવાધિકાર તક કહા ગયા હૈ વૈસા હી યહાં પર જાના  
 આહિયે । તાત્પય કહનેકા યહ હૈ કિ અવધિજ્ઞાન દ્રવ્યકી અપેક્ષાસે  
 જગન્ય અવસ્થામે આંતરૂપી દ્રવ્યોકો-તૈજસ ઓર આવાકે પ્રાપીગ્ય  
 વર્ગણાઓકે અન્તરાલચર્તી દ્રવ્યોકો વિશેષરૂપ સે જાનાતા હૈ ઓર  
 સામાન્યરૂપસે દેક્ષતા હૈ । સો હી ‘તૈયામાસા દ્ધ્વાણં અંતરા પ્ત્ય  
 સમઙ્ પદ્મવમ્’ ઇસ ગાથાર્થદ્વારા યહાં પ્રકટ ક્રિયા ગયા હૈ । તથા  
 અવધિજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટરૂપસે સમસ્તરૂપી દ્રવ્યોકો વાદર શ્લક્ષ્મરૂપી પદાર્થોકો  
 જાનાતા હૈ ઓર દેક્ષતા હૈ । વિશેષજ્ઞાન સામાન્યજ્ઞાનનિયત હોતા હૈ-  
 અર્થાત્ વિશેષજ્ઞાન હોતેકે પહિલે સામાન્યજ્ઞાન હોતા હૈ-સામાન્યજ્ઞાન  
 કા નામ હી દર્શન હૈ । ઇસલિયે અવધિજ્ઞાની કો અવધિદર્શન અવરય  
 હોતા હૈ । યદિ યહાં પર એસી આશ્ચર્યા કી જાવે કિ અબ વિશેષ  
 જ્ઞાન સામાન્યજ્ઞાન નિયત હોતા હૈ તો ‘જાનાતિ, પદ્યતિ’ એસા વર્ણો  
 કહા- ‘પદ્યતિ, જાનાતિ’ એસા કહના આહિયે ફિર એસા ન કહ

આવત્ - આવાધિકાર પર્યંત ક્ષુ ૭ તેવીજ રીતે અર્હીઆ પશુ સમજનું. તદ્વચ  
 ક્ષેત્રનું એ છે કે અવધિજ્ઞાની દ્રવ્યની અપેક્ષાએ જગન્ય અવસ્થામાં જન તરૂપી રબોને-  
 તેજસ અને આજના પ્રાણોજવન જ્ઞાનોના અતરાલવર્તિ રબોને વિશેષ રૂપથી આવે ૭  
 અને સામાન્યરૂપથી તે ૭ તેજ ‘તૈયા માસા દ્ધ્વાણ પ્ત્ય સમઙ્ પદ્મવમ્’  
 આ ગાથય દ્વારા અર્હીઆ પ્રકટ કરેલ છે. તથા અવધિજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટરૂપથી સમજણથી  
 રબોને આદર, સુદ્રમજૂપી પદ્યતિને આવે ૭ અને કેવે છે વિશેષ જ્ઞાન સામાન્યજ્ઞાન  
 નિયત હોય ૭ અર્થાત્ વિશેષજ્ઞાન હોવાના પહેલાં સામાન્યજ્ઞાન જન ૭ સામાન્યજ્ઞાનનું  
 નામ જ દર્શન હોય ૭ એટલે અવધિજ્ઞાનીને અવધિદર્શન અવસ્થ હોય છે એ અર્હીઆ  
 એવી સહ કરવામાં આવે કે જ્યારે વિશેષજ્ઞાન સામાન્યજ્ઞાન નિયત હોય ૭ તે  
 - ‘જાનાતિ, પદ્યતિ’ એવું શા માટે કહ્યું । ‘પદ્યતિ જાનાતિ’ એવું કહેવું

प्रमाणमिति वाच्यम्, अवधिज्ञानप्रस्तावात् तस्य प्राधान्यख्यापनार्थम् आदौ 'जानाति' इत्युक्तत्वात्, अवधिदर्शनस्य तु अवधिभिन्नसाधारणतयाऽप्रधानत्वेन 'पश्यति' इत्यस्य पश्चादभिधानात्, अथवा सर्वासामेव लब्धीनां साकारोपयोगोपयुक्तस्यैवोत्पद्यमानतया लब्धेश्चावधिज्ञानरूपत्वेन साकारोपयोगोपयुक्तस्यावधिज्ञानलब्धिर्मवतीत्यर्थस्य ज्ञापनार्थं साकारोपयोगाभिधायकस्य 'जानाति' इत्यस्य

कर जो क्रमका उल्लघन किया गया है. सो इसमें क्या बात है ? तो इस शका का समाधान इस प्रकारसे है— यहां पर अवधिज्ञानका प्रकरण चल रहा है— इसलिये ज्ञानकी प्रधानता प्रकट करनेके लिये आदिमें 'जानाति' इस क्रियापदका प्रयोग किया गया है तथा अवधिदर्शन अवधिज्ञानमें और विभंगज्ञानमें इन दोनोंमें साधारण रूपसे वर्तमान रहेनेके कारण प्रधान नहीं माना गया है इस बातको प्रकट करनेके लिये बादमें 'पश्यति' इस प्रकारसे कहेनेका तात्पर्य ऐसा भी है कि जितनी भी लब्धियां होती हैं वे सब साकार उपयोग वाले जीवको ही होती हैं—निराकार उपयोगवाले जीवको नहीं होती। अवधिज्ञान भी एक लब्धि विशेष है। इस कारण जब यह प्रथम उत्पन्न होती है तो ज्ञानरूप ही उत्पन्न होती है, दर्शनरूप नहीं। फिर इसमें क्रमशः उपयोगोंकी प्रवृत्ति होती है। अतः साकार उपयोगयुक्त जीवको ही अवधिज्ञान उत्पन्न होता है इस बातको समझानेके लिये साकारोपयोगवाचक 'जानाति' इस क्रियापदका प्रथम

नेधमे तो तेम न कडेता कमनु उल्लघन कथुं छे तेम शु डेतु छे ? ते शकानु समाधान करता कडे छे के अहीआ अवधिज्ञाननु प्रकरण यादी रह्यु छे अेटले ज्ञाननी मुप्यना प्रगट करवा माटे पडेला 'जानाति' अे क्रियापदने उल्लेख कथे छे. तेमअ अवधिज्ञान दर्शन अवधिज्ञानमां अने विन्न गज्ञानमां अे अनेमा साधारणरूपथी विवमान रहेवाने कारणे प्रधानता भजेन नथी आ वात प्रकट करवा माटे पाछणथी 'पश्यति' अेम कडेवानु तात्पर्य अे छे क नेटकी लब्धिअे होय ते तमाम साकारोपयोगवाणा अ्वने अ होय छे निराकारोपयोगवाणा अ्वने होती नथी अवधि पणु अेक लब्धि विशेष छे ते कारणे न्यारे ते पडेला उत्पन्न थाय छे. तो ज्ञानरूपे अ उत्पन्न थाय छे, दर्शन रूपे नही पछीथी तेमां कमशः उपयोगेनी प्रवृत्ति थाय छे अतः अेटला माटे साकारोपयोगी अ्वने अ अवधिज्ञान उत्पन्न थाय छे अे वातने समभववा माटे साकारोपयोगवाचक 'जानाति' अे क्रियापदने पडेला प्रयोग करेन छे अने ते

પ્રથમમુક્તવાત્, તતઃ ક્રમેણૈવોપયોગપ્રવૃત્તે 'પશ્યતિ' इत्यस्य पञ्चाङ्किकः  
 कृतेति भावः । यया नन्द्यां प्रतिपादितं तयाऽत्रापि प्रतिपद्यम्यम्, तत्र चोक्तम्-  
 'खेचमो ण ओहिणाणी जइन्नेण अगुलस्स असखेज्जइमागं जाणइ, पामइ'  
 इत्यादि; तस्यायमर्थः-क्षेत्रतोऽवधिज्ञानी जघन्यनाङ्गुलस्यासख्येयभागम् उत्कृष्टतो-  
 ऽसख्ययान्यलोके शक्तिमपेक्ष्य भोक्त्रमाप्यानि स्वण्डानि जानाति, परयति,  
 काम्तोऽवधिज्ञानी जघ-यनावसिमाया असख्येय भागम् उत्कृष्टतोऽसख्येया  
 उत्सर्पिणीः असर्पिणीः अतीता अनागतताम् जानाति, पश्यति, तद्व्यवस्था-  
 उच्चारण किया गया है । इसके बाद क्रमसे उपयोग की प्रवृत्ति को  
 लेकर 'पश्यति' इस क्रियापदका पञ्चात् उच्चारण किया गया है ।  
 नदीध्रुवमें इस प्रकारसे कहा गया है- 'खेचओणं ओहिणाणी,  
 जइन्नेणं अगुलस्स असखेज्जइमागं जाणइ, पामइ' इत्यादि इसका यह  
 अर्थ है कि- क्षेत्रकी अपेक्षासे अवधिज्ञानी अङ्गुलके असंख्यताके भाग  
 प्रमाण क्षेत्रमें स्थित रूपी द्रव्यको जघन्यसे जानता है और उत्कृष्टसे  
 अवधिज्ञानी अलोकाकाशमें यदि लोकप्रमाण असख्यता का  
 समवित हो जावे तो उन्हें भी जान सकता है और देख सकता है ।  
 ऐसा कथन अवधिज्ञानकी शक्तिको मध्यमें रखकर किया गया है ।  
 कालकी अपेक्षा अवधिज्ञानी जघन्यसे आवलिकाके असख्यताके  
 भागको जानता है और देखता है । और उत्कृष्टकी अपेक्षासे  
 असंख्यता उत्सर्पिणी प्रमाण और असख्यता असर्पिणी प्रमाण  
 अतीत एवं अनागतकालको जानता है और देखता है । अतएव  
 जानता है इसका तात्पर्य है कि इनका लगतरूपी द्रव्योंको जानता है

પછી કેમથી ઉપયોગની પ્રવૃત્તિનો આશય કરીને 'પશ્યતિ' એ વિચારવું ઉચ્ચારવું  
 કર્યું છે નહીંસુખમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે - 'ખેચમોઞ ઓહિનાણી જઈન્નેણ  
 અંગુલસ્સ અસંખેજ્જઈમાગં જાણઈ પામઈ' ઇત્યાદિ તેના અર્થ આ પ્રમાણે કે  
 ક્ષેત્રની અપેક્ષાથી અવધિજ્ઞાની જઘન્યના અસખ્યતા ભાગ પ્રમાણ ભાગમાં સ્થિત રૂપી  
 દ્રવ્યોને જઘન્યથી જાણે છે, અને ઉત્કૃષ્ટથી અવધિજ્ઞાની અલોકાકાશમાં નો લોક પ્રમાણ  
 પ્રમાણ પ્રમાણ ખંડ સુ સ્થિત સમ આજ તેને પણ જાણી શકે છે અને તેથી શકે છે.  
 એવું કથન અવધિજ્ઞાનની શક્તિને લક્ષ્યમાં રાખીને કરી છે કાવ્યની અપેક્ષાએ અવધિજ્ઞાની  
 જઘન્યથી અવધિજ્ઞાનના અસખ્યતામાં જાણને જાણે છે અને તેને છે અને ઉત્કૃષ્ટની અપેક્ષાએ  
 અસખ્યતા ઉત્સર્પિણી પ્રમાણ અને અસખ્યતા અવસર્પિણી પ્રમાણ અતીત અને  
 અનાગત કાલને જાણે છે અને તેને છે જાણને જાણે છે તે જ્ઞેવાનો હેતુ એ છે તેને

द्रव्यान्नगमात्, अत्र वक्तव्य नन्दीसूत्रावधिमाह- यावत्- भावतः, भावाधिकार-पर्यन्तमित्यर्थः, तथाच भावतोऽवधिज्ञानी जघन्येनानन्तान् भावान् आधार-द्रव्यानन्तत्वात्, जानाति, पश्यति, नतु प्रतिद्रव्यम्, उत्कृष्टतोऽपि अनन्तान् भावान् जानाति, पश्यति, तेऽपि चोत्कृष्टपदिनः सर्वपर्यायाणामनन्तभागम्; इति भावः । गौतमः पृच्छति- 'मणपञ्चवनाणस्स णं भंते ! केवइए विसए

वर्तमानकालको भी अवधिज्ञानी जानता और देखता है ऐसा जानना चाहिये । तथा भावकी अपेक्षा से अवधिज्ञानी जघन्यरूप से अनन्त पर्यायोंको जानता है और देखता है । पर्यायोंके आधारभूत द्रव्य अनन्त हैं, अतः इस अपेक्षा अनन्त पर्यायोंको जानने देखनेकी बात अवधिज्ञानीके लिये भावकी अपेक्षासे कही गई है । एक द्रव्य की अपेक्षासे नहीं । एक द्रव्यकी अपेक्षा तो अवधिज्ञानी संख्यात अथवा असंख्यात पर्यायोंको ही जानता देखता है । उत्कृष्ट से अवधिज्ञानी जीव अनन्त पर्यायोंको जानता और देखता है । जघन्यरूपसे भी अवधिज्ञानी अनन्तपर्यायोंको जानता है और देखता है और उत्कृष्टसे भी अनन्तपर्यायोंको जानता देखता है- सो उसमें जघन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट अनन्तगुणा होता है । अतः अवधिज्ञानी जघन्यसे सर्वरूपी द्रव्योंकी अपेक्षा पर्यायोंके अनन्तवे भागको जानता और देखता है ।

अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं- 'मणपञ्चवनाणस्स णं भंते केवइए विसए पणत्ते' हे भदन्त ! मनःपर्यवज्ञानका विषय कितना

लगता इति द्रव्योने ज्ञात्ते छे, वर्तमान कालने अवधिज्ञानी ज्ञात्ते छे अने हेमे छे अम सभज्जु तेमज्ज लावनी अपेक्षाये अवधिज्ञानी जघन्यरूपथी अनन्त पर्यायोंने ज्ञात्ते छे अने हेमे छे पर्यायाना आधारभूत द्रव्यो अनन्त छे, अतः ते अपेक्षाये ते अनन्तपर्यायोंने ज्ञात्तेवा अने हेभवानी वात अवधिज्ञानने माटे लावनी अपेक्षाथी ज् कही छे अेक ज् द्रव्योने आश्रय करीने नही अेक द्रव्यनी अपेक्षाये अवधिज्ञानी संख्यात् तथा असंख्यात् पर्यायोंने ज्ञात्ते छे अने हेमे छे उत्कृष्टथी अवधिज्ञानी एव अनन्त पर्यायोंने ज्ञात्ते छे अने हेमे छे जघन्यरूपथी अवधिज्ञानी अनन्त पर्यायोंने ज्ञात्ते छे अने हेमे छे अने हेमे छे अने उत्कृष्टथी पण् अनन्तपर्यायोंने ज्ञात्ते छे अने हेमे छे ते जघन्यनी अपेक्षाये उत्कृष्ट अनन्तगुणा थाय छे अेटवे अवधिज्ञानी जघन्यथी सर्वरूपी द्रव्योनी अपेक्षाथी पर्यायाना अनन्तमा लागोने ज्ञात्ते छे अने हेमे छे

प्रश्न - मणपञ्चवनाणस्स णं भंते केवइए विसए पणत्ते 'हु भगवान् ! मनः पर्यवज्ञानना हेटवा विषय क्खा छे ? उ. :- 'से समासओ चउत्तिवहे पणत्ते'

पण्णचे ?' हे भदन्त ! मनःपर्यवज्ञानस्य स्वल्प क्रियान् विषयः महत्त !  
 मगवानाह- 'गोयमा ! से समासआ चउव्विहे पण्णचे' हे गौतम ! स मनः  
 पर्यवज्ञानविषयः, तद् वा मनःपर्यवज्ञान समासतः सक्षेपतः चतुर्विधं प्रकृतम्  
 'तज्जहा- दब्बआ, खेसओ, कालओ, भावओ' तथया- द्रव्यतः, क्षेत्रतः,  
 कालतः, भावतः, 'दब्बआण उज्जुमई अणत्ते अणत्तपएसिण जहा नंदीण जाय  
 भावओ' द्रव्यतो-मनःपर्यवज्ञानविषयं द्रव्यमाश्रित्य स्वल्प ऋजुमतिः, मनन मतिः  
 सवेदनम्, ऋजुवी सामान्यप्राहिणी मतिः ऋजुमतिः- 'घटोऽनेन चिन्तित'  
 इत्येवमभ्यवसायजन्या मनोद्रव्यपरिच्छिन्तिः मनःपर्यवज्ञानमित्यर्थः, अथवा  
 ऋजुवी मतिर्यस्य असौ ऋजुमतिः तद्वानेव गृह्यते, अनन्तान् अपरिमितान्

कहा गया है- 'स समासओ चउव्विहे पण्णचे' हे गौतम ! मनः-  
 पर्यवज्ञानका विषय अथवा वह मनःपर्यवज्ञान मक्षेपसे चार प्रकारका  
 कहा गया है- 'तंजहा' जो इस तरहसे हैं- 'दब्बओ, खेसओ,  
 कालओ, भावओ' द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे 'दब्बओ व  
 उज्जुमई अणत्ते अणत्तपएसिण जहा नंदीण जाय भावओ' मनःपर्यव  
 ज्ञानके विषयभूत द्रव्यको आश्रित करके ऋजुमति मनःपर्यवज्ञानी  
 एतत्प्रदेशवाले अनन्त परमाणुरूप स्फुटोको जानता है और देखता है।  
 इस विषयमें जैसा नदीसूत्रमें कहा गया है विसा ही यहा पर जानना  
 चाहिये। 'मनो मति' इस व्युत्पत्तिके अनुसार मति शब्दका अर्थ  
 संवेदन-ज्ञान है। सामान्यको प्रदण करनेवाली जो मति वह ऋजुमति  
 है। 'घटोऽनेन चिन्तित' इसने घटका विचार किया है इस प्रकारके  
 अध्यवसायसे जन्य जो मनोद्रव्यकी परिच्छिन्ति ज्ञानहै यह ऋजुमति  
 मनःपर्यवज्ञान है। अथवा- 'ऋजुवी मति र्यस्यासौ ऋजुमतिः' जिसकी

हे गौतम ! वे संक्षिप्ततां चार प्रकारना छे 'तंजहा' के चार प्रकार छे 'दब्बओ,  
 खेसओ, कालओ, भावओ' स्वभाव क्षेत्रधी कालधी अने भावधी 'दब्बओ व  
 उज्जुमईअणत्ते अणत्तपएसिण जहा नंदीण जाय भावओ' मनः पर्यवज्ञान-  
 विषयभूत स्वभावने आश्रय करीने ऋजुमति मनःपर्यवज्ञानी अनन्तप्रदेशवाला अनन्त  
 परमाणुरूप स्फुटिने लक्ष्ये छे अने देखे छे आ विषयमें नदीसूत्रमें कहे छे तेनीए  
 हीते लक्ष्ये पद्य अमल वेदुं 'मननं मतिः' के व्युत्पत्ति अनुसार मति शब्दने  
 अथ संवेदन ज्ञान छे सामान्यने प्रकृत कस्वानी के मति ऋजुमति छे। 'घटोऽनेन  
 चिन्तितः' के वाक्यमें घटाने विचार करेले छे के प्रकारना निरंतर व्यवसायकी  
 अथवा अनेप्रवृत्ती परिच्छिन्ति छे ते ऋजुमति मनःपर्यवज्ञान छे अथवा 'ऋजुवी

अनन्तप्रदेशिकान् अनन्तपरमाणुरूपस्कन्धान् जानाति, पश्यति, यथा नन्धां नन्दीसूत्रे प्रतिपादितम् तथा अत्रापि प्रतिपत्तव्यम्. वक्तव्यनन्दीसूत्रावधिमाह- यावत्- भावतो भावाधिकारपर्यन्तमित्यर्थः, तन्नन्य भावसूत्रञ्चैवम्- 'भावओ णं उज्जुमई अणंते भावे जाणइ, पासइ, सव्वभावाणं अणतभाग जाणइ, पासइ, त चेव विउलमई विसुद्धतरागं जाणइ, पासइ' भावतः खलु ऋजुमतिः अनन्तं भावं जानाति, पश्यति, सर्वभावानाम् अनन्तभाग जानाति, पश्यति, तदेव त्रिपुलमतिः विशुद्धतरकं जानाति पश्यति, इति । गौतमः पृच्छति- 'केवलनाणस्स ण भंते ! केवइए विसए पणत्ते ?' हे भदन्त ! केवलज्ञानस्य खलु कियान् विषयः पज्ञमः ? भगवानाह- 'गोयमा ! से समासओ चउच्चिहे मति सरलपदार्थको ग्रहण करनेवाली होती है वह ऋजुमति है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार ऋजुमतिवाला जीव 'ऋजुमति' प्रकट किया गया है । नन्दीसूत्रमें यह विषय 'जाव भावओ णं उज्जुमई अणंते भावे जाणइ, पासइ, सव्वभावाणं अणंतं भावं जाणइ पासइ, त चेव विउल- मई विसुद्धतरागं जाणइ, पासइ' भावकी अपेक्षा ऋजुमति अनन्त भावोंको जानता है, देखता है, तथा सब भावोंके अनन्तवे भागको जानता और देखता है । विपुलमति उन्ही अनन्त भावों को तथा सब भावोंके अनन्तवे भागको अधिकतर विशुद्ध शुद्धरूपसे जानता है और देखता है । अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'केवल- नाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पणत्ते' हे भदन्त ! केवलज्ञान का

मतिर्यम्यासौ ऋजुमतिः' नेनी शुद्ध सरल पदार्थोनि ग्रहणकरवाणी होय ते ऋजुमति छे ते व्युत्पत्ति अनुसार ऋजुमतिवाणा छवने 'ऋजुमति' ऋजुमति छडेल छे नन्दीसूत्रमा आ विषय 'जाव भावओ' अही सुधी छडेल छे त्यानु भाव स भ धी सूत्र आ प्रभाण्णे छे. 'भावओ णं उज्जुमई अणंते भावे जाणइ, पासइ, सव्व भावेणं अणंतभागं जाणइ पासइ, त चेव विउलमई विसुद्धतरागं जाणइ पासइ' भावनी अपेक्षाअे ऋजुमति अनन्तभावोने न्णु छे अने हेजे छे तथा सधणा भावोना अनन्तभां भागने न्णु छे अने हेजे छे विपुलमति तेअ अनन्तभावोने तथा सधणा भावोना अनन्तभां भागने विशेष विशुद्ध शुद्धरूपथी न्णु छे अने हेजे छे. प्रश्न :- 'केवलनाणस्स णं भंते केवइए विसए पणत्ते' हे भगवान ! केवल- ज्ञानना विषय डेरला छडेवाय छे ? 'गोयमा' उ - 'से समासओ चउच्चिहे पणत्ते' हे गौतम ! केवलज्ञानने विषय सक्षेपतथी आर प्रधारने छडेल छे 'तं जहा'

पण्यचे' हे गीतम् ! स केवलज्ञानविषय , तत्रा केवलज्ञानां समासता सप्तपदः  
 चतुर्विध प्रकृतम्, 'तज्ज्ञा-दृष्यओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ' तद्यथा-द्रव्यतः,  
 क्षेत्रतः, कालतः, भावतः; दृष्यओऽथ केवलज्ञानाणी सव्यदृष्याइ जाणइ, पासइ,  
 एव जाव भावओ' द्रव्यतः केवलज्ञानविषय द्रव्यमाश्रित्य खलु केवलज्ञानी  
 सर्वद्रव्याणि जानाति, विशेषाकारेणावगच्छति, पश्यति सामान्याकारेणाव  
 पश्यते, एवम् उक्तरीत्या यावत्- भावतः भावाधिकारपर्यन्तकेवलविषयामि-  
 षायि नन्दीसूत्रमिह वक्तव्यम्, तच्चैवम्- 'खेत्तओऽथ केवलज्ञानाणी सव्य खेत्त  
 जाणइ, पासइ, कालओ ण केवलज्ञानाणी सव्य कालं जाणइ, पासइ, भावओऽथ  
 केवलज्ञानाणी सव्ये भावे जाणइ, पासइ इति, क्षेत्रतः खलु केवलज्ञानी सर्व

विषय कितना कहा गया है? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोपमा  
 से समासओ चतुर्विधे पण्यचे' केवलज्ञानका विषय अथवा  
 केवलज्ञान संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है - 'तं ज्ञा'  
 जो इस तरहसे हैं- 'दृष्यओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ' द्रव्यसे  
 क्षेत्रसे, कालसे और भावसे 'दृष्यओ ऽथ केवलज्ञानाणी सव्यदृष्याइ  
 जाणइ, पासइ, एवं जाव भावओ' केवलज्ञानी केवलज्ञान विषयक  
 द्रव्यको आश्रित करके समस्त द्रव्योंको- रूपी अरूपी पदार्थों को  
 विशेषरूपसे जानता है और सामान्यरूपसे उन्हें देखता है। केवल-  
 ज्ञान विषयक यह सब कथन भावाधिकार पर्यन्त जैसा नन्दीसूत्रमें  
 कहा गया है वैसा ही यहाँपर जानना चाहिये- वहाँका भावाधिकार  
 लफ का सूत्र इस प्रकारसे है- 'खेत्तओ ण केवलज्ञानाणी सव्य खेत्त  
 जाणइ पासइ, कालओ ण केवलज्ञानाणी सव्य कालं जाणइ पासइ,  
 भावओ ण केवलज्ञानाणी सव्ये भावे जाणइ पासइ' क्षेत्रकी अपेक्षा

ने जा रीते ॐ 'दृष्यओ, खेत्तओ, पासओ, भावओ' क्षेत्री क्षेत्री, भावो  
 अने भावो 'केवलज्ञानाणी सव्यदृष्याइ जाणइ पासइ एवं जाव भावओ'  
 केवलज्ञानी केवलज्ञानना विषयक क्षेत्री भावओ करीते समस्त क्षेत्रीने क्षेत्रीके रूपी  
 भावपि पदार्थनि विशेष रूपी जाणे ॐ अने सामान्यरूपी क्षेत्री ॐ केवलज्ञान विषयक  
 भाव अथवा कथन भावाधिकार पक्ष त क्षेत्री रीते नन्दीसूत्रमें कथु ॐ क्षेत्री रीते  
 क्षेत्रीया पण्य सप्तपदु त्वाणुभावाधिकार पर्यन्तु सूत्र भावप्रत्यये ॐ 'खेत्तओ, ण  
 केवलज्ञानाणी सव्य खेत्त जाणइ पासइ, कालओ ण केवलज्ञानाणी सव्य काल  
 जाणइ पासइ, भावओ ण केवलज्ञानाणी सव्ये भावे जाणइ पासइ'

क्षेत्रं जानाति, पश्यति, कालतः खलु केवलज्ञानी सर्वं कालं जानाति, पश्यति, भावतः खलु केवलज्ञानी सर्वान् भावान् जानाति, पश्यति । गौतमः पृच्छति— 'मइअन्नाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते ?' हे भदन्त ! मत्त्यज्ञानस्य खलु कियान् विषयः प्रज्ञप्तः ? भगवानाह— 'गोयमा ! म मत्त्यज्ञानस्य विषयः, तद् वा मत्त्यज्ञानं समामतः संक्षेपेण चतुर्विधं प्रज्ञप्तम्, 'तंजहा दब्बओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ, तद्यथा— द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः, 'दब्बओ णं मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाइं दब्बाइ जाणइ, पासइ' द्रव्यतो मत्त्यज्ञानविषयं द्रव्यमाश्रित्य खलु मत्त्यज्ञानी मत्त्यज्ञानपरिगतानि मत्त्यज्ञाने मिथ्यादर्शनसंवलितेन अवग्रहेद्वादिना औत्पत्तिक्यादिना च परिगतानि

केवलज्ञानी समस्त क्षेत्रको जानता है और देखता है, कालकी अपेक्षा केवलज्ञानी समस्त कालको जानता है और देखता है, भावकी अपेक्षा केवलज्ञानी समस्त भावोंको जानता है और देखता है । अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'मइअन्नाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते' हे भदन्त ! मत्त्यज्ञानका विषय कितना कहा गया है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं— 'गोयमा' हे गौतम ! 'से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते' मत्त्यज्ञान का विषय या मतिअज्ञान संक्षेपसे चार प्रकारका कहा गया है । 'तंजहा' जो इस तरहसे है— 'दब्बओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ' द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी अपेक्षा 'दब्बओ णं मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगयाइं दब्बाइं जाणइ, पासइ' मत्त्यज्ञानी द्रव्यकी अपेक्षा लेकर मत्त्यज्ञानके विषयभूत हुए द्रव्योंको जानता है और देखता है । तात्पर्य कहनेका यह है— मिथ्यादर्शनके युक्त अवग्रह, ईहा आदिके द्वारा और औत्पत्तिकी

क्षेत्रकी अपेक्षा केवलज्ञानी समस्त क्षेत्रने ज्ञेय छे अने हेजे छे, भावकी अपेक्षाके केवलज्ञानी सधणा भावने ज्ञेय छे अने हेजे छे प्रश्न — मइअन्नाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णत्ते' हे भगवान् मत्त्यज्ञानना विषय केटला क्ख्या छे ? उ:- 'गोयमा' हे गौतम ! 'से समासओ चउव्विहे पण्णत्ते' मतिअज्ञानने विषय स क्षिप्तथी चार प्रकारने कडेल छे 'तं जहा' जेभडे 'दब्बओ, खेत्तओ, कालओ, भावओ' द्रव्यकी अपेक्षाके, क्षेत्रकी अपेक्षाके, कालकी अपेक्षाके अने भावकी अपेक्षाके 'दब्बओ णं मइअन्नाणी मइ अन्नाणपरिगयाइं दब्बाइं जाणइ पासइ' मत्त्यज्ञानी द्रव्यकी अपेक्षाने आश्रय करीने मत्त्यज्ञानना विषय भूत थयेल द्रव्येने ज्ञेय छे अने हेजे छे कडेवाने हेतु जे छे हे मिथ्यादर्शनथी मुक्ता अवग्रह, धडा, आदि



विषयीकृतानि द्रव्याणि भवायादिना जानाति, अवग्रहादिना पश्यति, 'भाव  
 मावभा मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगए भाव जाणइ, पासइ' यावत्-  
 भावत मत्यज्ञानी मत्यज्ञानपरिगतान् भावान् जानाति, पश्यति, यावत्कालात्  
 'खेसभो ण मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगए खेस नाणइ, पासइ, कालभो  
 ण मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगए काल जाणइ, पासइ'  
 सप्ततः खलु मत्यज्ञानी मत्यज्ञानपरिगत क्षेत्रे जानाति पश्यति,  
 काम्ततः खलु मत्यज्ञानी मत्यज्ञानपरिगत काले जानाति, पश्यति ।  
 गौतम पृच्छति- 'सुयमन्नाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णचे !'

आदि बुद्धियोंक द्वारा मत्यज्ञानी अपने मत्यज्ञानमें विषयभूत किये  
 गये द्रव्योंको अथाय धारणा आदि रूपसे जानता है और  
 अवग्रह ईहा रूपसे देखता है । 'जाय भावभो मइअन्नाणी मइ  
 अन्नाणपरिगए भावे जाणइ, पासइ' यावत्- भावकी अपेक्षा लेकर  
 मतिअज्ञानी मतिअज्ञानद्वारा परिगत-विषयभूत हुए-पदार्थोंको जानता है  
 और देखता है । यहाँ यावत् पदसे 'खेसभो णं मइअन्नाणी मइ  
 अन्नाणपरिगए खेस जाणइ पासइ, कालभो ण मइअन्नाणी मइअन्नाण  
 परिगए काल जाणइ पासइ' इसी तरहसे क्षेत्रकी अपेक्षा लेकर  
 मत्यज्ञानी मत्यज्ञान द्वारा परिगत हुए क्षेत्रको जानता है और देखता  
 है कामकी अपेक्षा लेकर मत्यज्ञानी मत्यज्ञान द्वारा परिगत हुए  
 कालका जानता है और देखता है ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं- 'सुय अन्नाणस्स ण भंते !

द्वारा अपने औरपत्तिही आदि बुद्धियों द्वारा मत्यज्ञानी येताना मत्यज्ञानमें विषयभूत  
 देतवा द्रव्योंके अथाय धारणा आदिपथा आदि से अपने अवग्रह, ईहा रूपसे देखे से  
 'भाव भावभो मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगए भाव जाणइ पासइ' यावत्-  
 भावकी अपेक्षा लेना आशय करीने मत्यज्ञानी मत्यज्ञानद्वारा विषयभूत कियेवा पदार्थोंके आदि  
 से अपने देखे से बुद्धियोंका यावत् पदसे 'खेसभो णं मइअन्नाणी मइअन्नाण  
 परिगए खेस जाणइ, पासइ, कालभो णं मइअन्नाणी मइअन्नाणपरिगए  
 काल जाणइ पासइ' जैसे रीति क्षेत्रको जानने मत्यज्ञानी मत्यज्ञानद्वारा  
 विषयभूत कियेवा क्षेत्रके आदि से अपने देखे से, कामकी अपेक्षा लेकर  
 मत्यज्ञानी मत्यज्ञानद्वारा परिगत कियेवा कामके आदि से अपने देखे से अथ  
 'सुयमन्नाणस्स णं भंते ! केवइए विसए पण्णचे' के अर्थान् । सुत्त अन्नाणस्स

हे भदन्त श्रुताज्ञानस्य खलु कियान् विषयः प्रज्ञप्तः? भगवानाह- 'गोयमा !  
से समासओ चउच्चिहे पण्णत्ते' हे गौतम ! म श्रुताज्ञानस्य विषयः, तद्वा  
श्रुताज्ञानं समासेन संक्षेपेण चतुर्विधं प्रज्ञप्तम्, 'तंजहा- दब्बओ, खेत्तओ,  
कालओ, भावओ' द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतश्च, 'दब्बओणं सुय-  
अन्नाणी सुयअन्नाणपरिगयाइं दब्बाइ आववेइ, पन्नवेइ, परुवेइ' द्रव्यतः  
श्रुताज्ञानविषयं द्रव्यमाश्रित्य खलु श्रुताज्ञानी श्रुताज्ञानपरिगतानि श्रुताज्ञानेन  
मिथ्यादृष्टिपरिगृहीतेन विषयीकृतानि द्रव्याणि आख्यापयति, प्रख्यापयति  
इत्यर्थः, प्रजापयति भेदपूर्वकं कथयति, प्ररूपयति-उपपत्तितो निरूपयति, एवं  
खेत्तओ, कालओ' एवम् उक्तरीत्या क्षेत्रतः श्रुताज्ञानविषयं कालमाश्रित्य  
श्रुताज्ञानी श्रुताज्ञानपरिगत क्षेत्रम्, आख्यापयति यावत् प्ररूपयति, एवं

केवहए विसए पण्णत्ते' हे भदन्त ! श्रुताज्ञानका विषय कितना कहा  
गया है? उत्तरमें प्रभु कहते हैं-'गोयमा' हे गौतम ! 'से समासओ  
चउच्चिहे पण्णत्ते' श्रुताज्ञानका विषय अथवा श्रुताज्ञान संक्षेपसे चार  
प्रकारका कहा गया है 'तंजहा' जैसे- 'दब्बओ, खेत्तओ, कालओ,  
'भावओ' द्रव्यकी अपेक्षा, क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी  
अपेक्षा 'दब्बओणं सुयअन्नाणी, सुयअन्नाणपरिगयाइं दब्बाइ  
आववेइ, पन्नवेइ, परुवेइ, द्रव्यकी अपेक्षा लेकर श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि  
द्वारा परिगृहीत हुए मत्तजान से विषयीभूत द्रव्योंका कहता है  
जानता है, भेदपूर्वक उनका कथन करता है, युक्तिपूर्वक उनका निरूपण  
करता है । 'एवं खेत्तओ कालओ' इसी तरहसे क्षेत्रकी अपेक्षा लेकर  
श्रुताज्ञानो अपने विषयभूत क्षेत्रको कहना है यावत् युक्तिपूर्वक उसका  
निरूपण करता है । कालकी अपेक्षा लेकर श्रुताज्ञानी अपने विषयभूत

विषय डेरहा इहा छे ? उ :- ' गोयमा ' हे गौतम । 'से समासओ चउच्चिहे पण्णत्ते'  
श्रुताज्ञानका विषय सङ्क्षिप्तमां चार प्रकारे डेरहा छे 'तं जहा' केभडे 'दब्बओ,  
खेत्तओ, कालओ, भावओ' द्रव्यकी अपेक्षाओ, क्षेत्रकी अपेक्षाओ, कालकी अपेक्षाओ,  
अन भावकी अपेक्षाओ 'दब्बओ णं सुय अन्नाणी, सुयअन्नाणपरिगयाइं दब्बाइं  
आववेइ, पण्णवेइ, परुवेइ' द्रव्यकी अपेक्षाओ श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टिद्वारा विषयभूत  
अपेक्षा मत्तजानका विषयी डेरहा द्रव्योने डेरहे छे अन लए छे भेदपूर्वक तेनु कथन करे छे;  
युक्तिपूर्वक तेनु निरूपण करे छे. 'एवं खेत्तओ कालओ' ओअ रीते क्षेत्रकी  
अपेक्षाओ श्रुताज्ञानी पौताना विषयभूत क्षेत्रने डेरहे छे - यावत् - युक्तिपूर्वक तेनु निरूपण  
करे छे कालकी अपेक्षाओ आश्रय करीने श्रुताज्ञानी पौताना विषयभूत कालने डेरहे छे-

कालतः श्रुताज्ञानविषय कालमाश्रित्य भ्रुगोज्ञानी श्रुताज्ञानपरिगत काल  
 यावत्- प्ररूपयति, 'माद्यओ ण सुयअन्नाणी सुयअन्नाणपरिगए भावे  
 आयवेइ, तथेव' भावत स्वलु श्रुताज्ञानी श्रुताज्ञानपरिगतान् भावान्  
 आख्याययति, तदेव - प्रज्ञापयति प्ररूपयति, गौतम पृच्छति-  
 'विमगणाणस्स ण मते ! केवइए विसए पण्णसे ?' हे भवन्त ! विम  
 ज्ञानस्य खलु कियान् विषयः प्रश्नः ? भगवानाह- 'गोयमा ! ते समासओ  
 चउच्चिइ पण्णसे' हे गौतम ! स विमज्ज्ञानस्य विषयः, तत् वा विमज्ज्ञान  
 समासतः सक्षपत् चतुर्विध प्रश्नम् 'तज्जा- दब्बओ, खेचओ, कस्सओ,  
 माद्यओ' तद्यथा- द्रव्यतः क्षेत्रत, कालतः, भावत, 'दब्बओ ण विमगनाणी  
 विमगनाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ, पासइ' द्रव्यत विमज्ज्ञानविषयं

कालको कहता है यावत् युक्तिपूर्वक उसका निरूपण करता है ।  
 भावओ ण सुयअन्नाणी, सुय अन्नाण परिगत भाव आयवेइ, तथेव'  
 भावकी अपेक्षा लेकर श्रुताज्ञानी श्रुताज्ञान द्वारा परिगत भावोंको  
 कहता है यावत् युक्तिपूर्वक उनका निरूपण करता है । अथ गौतम  
 स्वामी प्रश्नसे गेमा पूछते हैं- 'विमगणाणस्स ण मते ! केवइए विसए  
 पण्णसे' हे भवन्त ! विमगज्ञानका विषय कितना कहा गया है ?  
 उत्तरमें प्रश्न कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'से ममान्मओ चउच्चिइ  
 पण्णसे' विमगज्ञानका विषय अथवा विमगज्ञान संक्षेपसे चार प्रकारका  
 कहा गया है 'तज्जा' जो इस तरहस है- 'दब्बओ, खेचओ, कस्सओ,  
 माद्यओ' द्रव्यकी अपेक्षासे, क्षेत्रकी अपेक्षासे कालकी अपेक्षासे  
 और भावकी अपेक्षासे 'दब्बओ ण विमगनाणी, विमगनाणपरिगयाइ  
 दब्बाइ जाणइ, पासइ' द्रव्यकी अपेक्षा लेकर विमगज्ञानी विमगज्ञान

भाव - बुद्धिपूर्वक वे निरूपण करे ७ 'भावओ ण सुयअन्नाणी सुयअन्नाण  
 परिगए भावे आयवेइ तथेव' भावकी अपेक्षासे भावान् करीने बुद्धिपूर्वक श्रुताज्ञान  
 परिगत भावोंके ७ भावत् बुद्धिपूर्वक वे निरूपण करे ७ 'विमगनाणस्स ण  
 मते ! केवइए विसए पण्णसे' हे भगवान् । विमज्ज्ञानपरिगत विषय क्या है ?  
 उ. :- 'गोयमा' हे गौतम ! 'से समासओ चउच्चिइ पण्णसे' वे विमज्ज्ञानकी  
 विषय केवल है विमज्ज्ञान संक्षेपतथी चार प्रकारके ७ 'तज्जा' के चार  
 भावोंके ७ 'दब्बओ, खेचओ, कस्सओ, माद्यओ' इनकी अपेक्षासे, क्षेत्रकी  
 अपेक्षासे, कालकी अपेक्षासे अने भावोंकी अपेक्षासे 'दब्बओ ण विमगनाणी विमग  
 नाणपरिगयाइ दब्बाइ जाणइ पासइ' इनकी अपेक्षा करीने विमज्ज्ञानी विमज्ज्ञान

प्रमेयचन्द्रिका टीका श. ८ उ. २ सू. १२ अष्टादशकालादिद्वारनिरूपणम् ५११

द्रव्यमाश्रित्य खलु विभङ्गज्ञानी विभङ्गज्ञानपरिगतानि द्रव्याणि विभङ्गज्ञानेन  
अवायादिना जानाति, अवग्रहादिना पश्यति, 'एव जाव भावओ णं विभंग-  
नाणी विभंगनाणपरिगए भावे जाणइ, पासइ' एवम् उक्तरीत्या यावत्-  
क्षेत्रतः, कालतः, भावतः खलु विभङ्गज्ञानी विभङ्गज्ञानपरिगतान् विभङ्गज्ञानेन  
विपयीकृतान् भावान् विभङ्गज्ञानेन जानाति, पश्यति ॥ सू० ११ ॥

अष्टादशकालादिद्वारवक्तव्यतामाह

मूलम्—नाणी णं भंते ! णाणि' त्ति कालओ केवच्चिरं होइ ?

गोयमा ! नाणी दुविहे पणत्ते, तंजहा—साइए वा, अपज्जवसिए  
साइए वा, सपज्जवसिए । तत्थ णं जे से साइए सपज्जवसिए, से  
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छायाट्ठिं सागरोवमाइं सातिरे-  
गाइं । आभिणिबोहियनाणी णं भंते ! 'आभिणिबोहियनाणी' त्ति  
कालओ केवच्चिरं होइ ? एवं नाणी, आभिणिबोहियनाणी, जाव

द्वारा परिगत द्रव्योंको अवायादिरूपसे जानता है और अवग्रहादि-  
रूपसे देखता है । 'एवं जाव भावओ णं विभंगनाणी विभंगनाण-  
परिगए भावे जाणइ पासइ' इसी तरहसे यावत् भावकी अपेक्षा  
लेकर विभंगज्ञानी विभंगज्ञान द्वारा परिगत भावोंको जानता है और  
देखता है । इस तरह क्षेत्रकी अपेक्षा, कालकी अपेक्षा और भावकी  
अपेक्षा लेकर विभंगज्ञानी विभंगज्ञान द्वारा क्षेत्रादिकों को अवायादि  
रूपसे एवं अवग्रहादिरूपसे जानता और देखता है ॥ सू० ११ ॥

ज्ञानद्वारा विषयभूत थयेला द्रव्येने अवायादि उपथी नल्ले छे अने अवग्रहादि उपथी हेणे छे.  
' एवं जाव भावओण विभंगनाणी विभंगनाणपरिगए भावे जाणइ, पासइ '  
अने रीते—यावत्—भावनी अपेक्षाअे विल गज्ञानी विल गज्ञानीद्वारा विषयभूत थयेला भावने  
नल्ले छे अने हेणे छे अने रीते क्षेत्रनी अपेक्षाअे, कालनी अपेक्षाअे, भावनी अपेक्षाअे  
विल गज्ञानी विल गज्ञानद्वारा क्षेत्रादिकेने अवायादि उपथी अने अवग्रहादि उपथी  
नल्ले छे अने हेणे छे ॥ सू. ११ ॥

केवलनाणी, अन्नाणी, महअन्नाणी, सुयअन्नाणी, विभग  
नाणी, एएसिं दसण्ह वि सच्चिट्ठणा जहा कायट्ठिईय, अतर  
सठ्व जहा जीवाभिगमे, अप्पाषट्ठगाणि तिन्नि जहा षट्ठवत्त  
इयाए । केवइया ण भते ! आभिणिघोहियणाणपज्जवा पन्नत्ता ?  
गोयमा ! अणत्ता आभिणिघोहियणाणपज्जवा पण्णत्ता । केवइ  
या ण भंते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ? एव चेव, एव जाव  
केवलनाणस्स, एव महअन्नाणस्स, सुय अन्नाणस्स य, केवइया  
ण भंते ! विभगनाणपज्जवा पण्णत्ता ? गोयमा ! अणत्ता विभंग  
नाणपज्जवा पण्णत्ता ? एसिं ण भते ! आभिणिघोहियणाण-  
पज्जवाण, सुयनाणपज्जवाण, ओहिनाणपज्जवाण, मणपज्जव  
नाणपज्जवाण, केवलनाणपज्जवाण य कयरे कयरेहिंते  
जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा मणपज्जवनाण  
पज्जवा, ओहिनाणपज्जवा अणत्तगुणां, सुयनाणपज्जवा अणत्तगुणां,  
आभिणिघोहियणाणपज्जवा अणत्तगुणा, केवलनाणपज्जवा  
अणत्तगुणा, एसिं णं भते ! महअण्णाणपज्जवाण, सुय  
अन्नाणपज्जवाण, विभंगनाणपज्जवाण य कयरे कयरेहिंते  
जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा विभंगनाण  
पज्जवा, सुयअण्णाणपज्जवा अणत्तगुणा, महअन्नाणपज्जवा  
अणत्तगुणा । एसिं णं भते ! आभिणिघोहियणाणपज्जवाणं,  
जाव केवलनाणपज्जवाण महअन्नाणपज्जवाण सुय  
अन्नाणपज्जवाणं, विभगनाणपज्जवाण, य कयरे कयरेहिंते

जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा! स०वत्थो वा मणपज्जवनाण-  
पज्जव्वा, विभंगनाणपज्जवा अणंतगुणा, ओहिनाणपज्जवा  
अणंतगुणा, सुयअज्जाणपज्जवा अणंतगुणा, सुयनाणपज्जवा  
विसेसाहिया, मइअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिवो  
हियनाणपज्जवा विसेसाहिया, केवलनाणपज्जवा अणंत-  
गुणा, सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥सू.१२॥

बोईओ उद्देसो समत्तो ॥

छाया- ज्ञानी खलु भदन्त ! 'ज्ञानी' इति कालतः क्रियाच्चरं भवति ?  
गौतम ! ज्ञानी द्विविधः प्रज्ञप्तः तद्यथा- सादिको वा अपर्यवसितः, मादिको  
वा सपर्यवसितः, तत्र खलु यः स सादिकः सपर्यवसितः, स जघन्येन अन्त-  
मुद्धर्तम्, उत्कृष्टेन पट्षष्टिं सागरोपमानि सातिरेकाणि, आभिनिवोधिञ्जानी

अष्टादशकालादि द्वार वक्तव्यना-

'णाणी णं भंते !' इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (णाणी णं भंते ! णाणी त्ति कालओ केवच्चिरं होइ)  
हे भदन्त ! ज्ञानी ज्ञानीरूपसे कालकी अपेक्षा कितने समयतक रहता  
है ? (गोयमा) हे गौतम ! (णाणी दुविहे पणत्ते) ज्ञानी दो प्रकार का  
कहा गया है । (तजहा) वह इस तरहसे है= (साइए वा अपज्जव-  
सिए, साइए वा सपज्जवसिए) सादि अपर्यवसित और सादि सपर्यव-  
सित (तत्थ णं जे से साइए अपज्जवसिए, से जहन्नेण अतो सुहुत्त,  
उक्कोसेण छावट्ठिं सागरोवमाइं साइरेगाइं) इनमें जो सादि सपर्यव-  
सित ज्ञानी है, वह जघन्यसे अन्तमुद्धर्तक और उत्कृष्ट से कुछ

अक्षर प्रकारना आणनुं निइपाणु

'णाणी णं भंते !' इत्यादि

सूत्रार्थ :- 'णाणी णं भंते ! 'णाणी त्ति कालओ केवच्चिरं होइ' उ अगवान् ।  
ज्ञानी ज्ञानीरूपेण आणनी अपेक्षाये केट्ठो समय रहे छे ? 'गोयमा' उ गौतम !  
'णाणी दुविहे पणत्ते' ज्ञानीना ये प्रकार छे 'तजहा' ने आ प्रकार छे 'साइए  
वा अपज्जवसिए साइए वा सपज्जवसिए' सादि अपर्यवसित अने सादि सपर्यवसित  
'तत्थ णं जे से साइए सपज्जवसिए, से जहन्नेण अतो सुहुत्त, उक्कोसेण  
छावट्ठिं सागरोवमाइं साइरेगाइं' ते पैआना ने सादि सपर्यवसित ज्ञानी छे, ते

स्वल्प मद्दन्त ! 'आमिनिबोधिकज्ञानी' इति कालत कियधिरं भवति ? एष ज्ञानी, आमिनिबोधिकज्ञानी, यावत्- केवलज्ञानी, अज्ञानी मत्प्रज्ञानी, भ्रुताज्ञानी चिभगज्ञानी एतेषां दशानामपि सस्थां यथा कायस्थितिके, अन्तरं सर्वं यथानीवामिगमं, अल्पवहुत्वानि श्रीणि यथा बहुत्ववक्तव्यतायाम्, कियन्तः स्वल्प मद्दन्त ! आमिनिबोधिकज्ञानपर्यायाः प्रज्ञाः ? गौतम ! अनन्ताः आमिनि

अधिक ६६ उपासठ सागरोपमतक ज्ञानीरूपसे रहता है (आमिणि-बोधियनाणो ण भवे ! आमिणियाहियनाणी' चि कालभो केवधिरं होइ) है मद्दन्त ! आमिनिबोधिकज्ञानी 'आमिनिबोधिकज्ञानी रूपसे' कालकी अपेक्षा किन्ते समयतक रहता है ? 'एष नाणी, आमिणि बोहियनाणो, जाव केवलनाणी, अज्ञानी, मह अज्ञानी, सुय अन्नाणी, चिभगनाणी, एएसिं वसणह वि सचिहणा जहा कायहिंए, अतरं सम्भ जहा जीवामिगमे, अप्पावहुगाणि तिन्नि जहा बहुवत्तवयाए' इसी तरहसे, ज्ञानी, आमिनिबोधिकज्ञानी, यावत् केवलज्ञानी, अज्ञानी, मत्प्रज्ञानी, भ्रुताज्ञानी, चिभगज्ञानी, इन दशका ज्ञानी रूपसे रहनेका स्थितिकाल प्रज्ञापना सूत्रके १८वें कायस्थिति पदमें कहे गये अनुसार जानना चाहिये । तथा जीवामिगम सूत्रमें कहे अनुसार इन दशका परस्पर अन्तर जानना चाहिए । इसी तरहसे प्रज्ञापनासूत्रके बहुवक्तव्यता पदमें कहे अनुसार ज्ञानी अज्ञानी और उभय इन तीनका अल्प-बहुत्व जानना चाहिये । (केवइयाणं भवे ! आमिणिबोधियनाणपस्रवा

अथवरी अतमुद्धु सुधी अने उद्धुषी मीः उ अधिक ६६ उपासठ सागरोपम प्रमथ सुधी सा विपय रहे छ 'आमिणिबोधियनाणी ण भवे ! आमिणिबोधियनाणी चि कामभो केवधिरं होइ' है मद्दन्त ! आमिनिबोधिक ज्ञानी आमिनिबोधिक ज्ञानी रूपसे ज्ञानी अपेक्षाके डेटला समय पर्यंत रहती रहे छ 'एष नाणी आमिणि बोहियनाणी जाव केवलनाणी अन्नाणी, मह अन्नाणी, सुय अन्नाणी चिभगनाणी, एएसिं तिभि महा बहुवत्तवयाए' ज्ञानी रीते ज्ञानी, आमिनिबोधिकज्ञानी यावत्- केवलज्ञानी अज्ञानी, मत्प्रज्ञानी भ्रुताज्ञानी अने निवजज्ञानी अने इतेना ज्ञानीरूपसे रहेवाने स्थिति काल प्रज्ञापना सूत्रना अक्षरमा १८ कायस्थिति पदमां कथा प्रमाणे अमल भवेत् । तथा उच्चनिवजसस्रमा कथा प्रमाणे आ इतेनुं परस्पर अतर समल भेवुं अथ रीते प्रज्ञापना सूत्रना मील बहुवक्तव्यता पदमा कथा प्रमाणे ज्ञानी अज्ञानी अने उभय आ एतु अल्पबहुत्व समल भेवुं 'केवइयाणं भवे ! आमिणि-बोधियनाणपस्रवा पम्पत्ता' है मद्दन्त ! आमिनिबोधिक ज्ञानी चर्चा केला छ ।

बोधिकज्ञानपर्यायाः प्रज्ञप्ताः, कियन्तः खलु भदन्त ! श्रुतज्ञानपर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? एमेव । एवं यावत् केवलज्ञानस्य एवं मत्त्यज्ञानस्य, श्रुताज्ञानस्य च । कियन्तः खलु भदन्त ! विभङ्गज्ञानपर्यायाः प्रज्ञप्ताः ? गौतम ! अनन्ता विभङ्गज्ञानपर्याया प्रज्ञप्ताः । एतेषां खलु भदन्त ! आभिनिबोधिकज्ञानपर्यायाणां श्रुतज्ञानपर्यायाणाम् अवधिज्ञानपर्यायाणां मनःपर्यवज्ञानपर्यायाणां केवलज्ञानपर्यायाणां च क्रतरे क्रतरेभ्यो यावत् विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोका मनःपर्यव-

पन्नत्ता) हे भदन्त ! आभिनिबोधिकज्ञानकी पर्याये कितनी कही गई हैं । (गोयमा) हे गौतम ! (अणता आभिनिबोधियनाणपज्जवापन्नत्ता) आभिनिबोधिकज्ञानकी पर्याये अनन्त कही गई हैं । (केवइयाणं भंते! सुयनाणपज्जवा पणत्ता) हे भदन्त ! श्रुतज्ञानकी पर्याये कितनी कहीं गई हैं ? (एव चेव) हे गौतम ! श्रुतज्ञानकी पर्याये अनन्त कहीं गई हैं । (एव जाव केवलनाणस्स, एव मइ अन्नाणस्स, सुय अन्नाणस्स य) इसी तरहसे यावत् केवलज्ञानकी पर्यायों को जानना चाहिये । मत्त्यज्ञान और श्रुताज्ञानकी भी पर्यायोंकोभी ऐसी ही जानना चाहिये । (केवइयाणं भंते ! विभगनाणपज्जवा पणत्ता) हे भदन्त ! विभगज्ञानकी पर्याये कितनी कही गई हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अणता विभगनाणपज्जवा पणत्ता) विभगज्ञानको पर्याये अनन्त कही गई हैं । (एस्मि णं भंते ! आभिनिबोधियनाणपज्जवाणं, सुयनाणपज्जवाणं, ओहिनाणपज्जवाणं. मणपज्जवनाणपज्जवाणं, केवलनाणपज्जवाणं कयरे कयरेहिंतो जाव त्रिसेसाडियावा) हे भदन्त ! इन आभिनिबोधिक

‘ गोयमा ’ हे गौतम ‘ अणता आभिनिबोधियनाणपज्जवा पन्नत्ता ’ आभिनिबोधिक ज्ञानकी पर्याये अनन्त कहेवाय गइ छे ‘ केवइयाणं भंते ! सुयनाणपज्जवा पणत्ता ’ हे भदन्त ! श्रुतज्ञानकी पर्याये कहेली छे ‘ एवं चेव ’ हे गौतम ! श्रुतज्ञानकी पर्याये पण् अनन्त कहेली छे ‘ एवं जाव केवलनाणस्स, एव मइ अन्नाणस्स, सुय अन्नाणस्स य ’ आभिनिबोधिक ज्ञानकी पर्याये अनन्त कहेली छे ‘ विभगनाणपज्जवा पणत्ता ’ हे भदन्त ! विभगज्ञानकी पर्याये कहेली कहेली छे ? ‘ गोयमा ’ हे गौतम ! ‘ अणता विभगनाणपज्जवा पणत्ता ’ विभगज्ञानकी पर्याये अनन्त कही छे ‘ एस्मि ण भंते आभिनिबोधियनाणपज्जवाणं, सुयनाणपज्जवाणं ओहिनाणपज्जवाणं, मणपज्जवनाणपज्जवाणं केवलनाणपज्जवाणं कयरे कयरे हिंतो जाव त्रिसेसाडिया वा ’ हे भदन्त ! आभिनिबोधिक



ज्ञानपर्याया, अवधिज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणा, ध्रुतज्ञानपर्याया अनन्तगुणाः ।  
 आभिनिबोधितज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणा, केषलज्ञानपर्याया अनन्तगुणाः,  
 एतेषां खलु मन्त्र ! मत्पज्ञानपर्यायाणां ध्रुताज्ञानपर्यायाणां, विमद्ज्ञान  
 पर्यायाणां च कसरे कसरेभ्यो यावत् विज्ञपानिका वा ? गौतम ! सर्वस्ताका  
 विमद्ज्ञानपर्याया, ध्रुताज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणा, मत्पज्ञानपर्याया

ज्ञानकी पर्यायोमें ध्रुतज्ञानकी पर्यायोमें, अवधिज्ञानकी पर्यायोमें मनः  
 पर्यवज्ञानकी पर्यायोमें और केषलज्ञानकी पर्यायोमें कौनसी पर्याय  
 किन पर्यायोकी अपक्षा यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोपमा) हे गौतम !  
 (सद्यस्योषा मणपञ्जघनाणपञ्जघा, ओहिनाणपञ्जघा अणतगुणा,  
 सुयणाणपञ्जघा अनन्तगुणा आभिनिबोधितनाणपञ्जघा अणतगुणा  
 केषलनाणपञ्जघा अणतगुणा) सबसे कम मनःपर्यवज्ञानकी पर्याये हैं ।  
 इनसे अनन्तगुणी अवधिज्ञानकी पर्याये हैं । इनसे अनन्तगुणी ध्रुत  
 ज्ञानकी पर्याये हैं । इनसे अनन्तगुणी आभिनिबोधितज्ञानकी पर्याये हैं ।  
 और इनसे भी अनन्तगुणी पर्याये केषलज्ञानकी पर्याये हैं (गर्हसिष  
 भते ! मद् भन्नाणपञ्जघाण सुय अन्नाणपञ्जघाण, विमगनाण  
 पञ्घाण य कसरे कसरे हितो जाय विमसाहिया) हे भदन्त ! इन  
 मत्पज्ञान, ध्रुताज्ञान और विमद्गज्ञानकी पर्यायोमें कौन पर्याये किनकी  
 अपक्षा यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोपमा) हे गौतम ! (सद्यस्योषा  
 विमगनाणपञ्जघा, सुय अन्नाणपञ्जघा अनन्तगुणा, मद् भन्नाणपञ्जघा

ज्ञानकी पर्यायोमें ध्रुतज्ञानकी पर्यायोमें अवधिज्ञानकी पर्यायोमें अनन्तगुणा  
 पर्यायोमें अने केषलज्ञानकी पर्यायोमें अणतगुणा अणतगुणा अणतगुणा अणतगुणा  
 विमद्गज्ञानकी पर्यायोमें 'गोपमा' हे गौतम ! 'सद्यस्योषा मणपञ्जघनाणपञ्जघा ओहिनाण  
 पञ्जघा अणतगुणा सुयनाणपञ्जघा अणतगुणा आभिनिबोधितनाणपञ्जघा  
 अणतगुणा केषलनाणपञ्जघा अणतगुणा' अथवा अथवा अनन्तगुणापर्याये के  
 तेनापी अनन्तगुणी अवधिज्ञानकी पर्याये अथवा तेनापी अनन्तगुणी ध्रुतज्ञानकी पर्याये अथवा  
 तेनापी अनन्तगुणी आभिनिबोधितज्ञानकी पर्याये अथवा अने तेनापी पर्याये अनन्तगुणी  
 पर्याये केषलज्ञानकी अथवा 'गर्हसिष भते ! मद् भन्नाणपञ्जघाण सुयभन्नाण  
 पञ्जघाण, विमगनाणपञ्जघाणय कसरे कसरे हितो जाय विमसाहिया'  
 हे भदन्त ! आ मत्पज्ञान, ध्रुताज्ञान अने विमद्गज्ञानकी पर्यायोमें अथवा पर्यायो में  
 अथवा - १११२ - विशेषाधिक अथवा 'गोपमा' हे गौतम ! सद्यस्योषा विमगनाण  
 पञ्जघा सुयभन्नाणपञ्जघा अणतगुणा, मद् भन्नाणपञ्जघा अणतगुणा'

अनन्तगुणाः । एतेषां खलु भदन्त ! आभिनिवोधिविज्ञानपर्यायाणां यावत्-  
केवलज्ञानपर्यायाणां । मत्त्यज्ञानपर्यायाणाम्, श्रुताज्ञानपर्यायाणाम्, विभङ्गज्ञान-  
पर्यायाणां च कतरे कतरेभ्यो यावत् विशेषाधिका वा ? गौतम ! सर्वस्तोकाः  
मनःपर्यवज्ञानपर्यायाः विभङ्गज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः, अवधिज्ञानपर्यायाः  
अनन्तगुणाः, श्रुताज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः, श्रुतज्ञानपर्यायाः विशेषाधिकाः,

अणंतगुणा) सबसे कम विभंगज्ञानकी पर्याये हैं । इनसे अनन्त-  
गुणी श्रुताज्ञानकी पर्याय हैं और इनसे अनन्त गुणो-  
मत्त्यज्ञानकी पर्याये हैं । (एएसिं णं भंते ! आभिणिवोहियणाण-  
पज्जवाणं जाव केवलणाणपज्जवाण, मइ अन्नाणपज्जवाणं, सुय  
अन्नाणपज्जवाणं विभंगणाणपज्जवाणं कयरे कयरेहिंतो जाव विसेसा-  
हिया वा ) हे भदन्त इन आभिनिवोधिकज्ञानकी पर्यायोंमें यावत्  
केवलज्ञानकी पर्यायोंमें, मत्त्यज्ञानकी पर्यायोंमें, श्रुताज्ञानकी पर्यायोंमें,  
तथा विभंगज्ञानकी पर्यायोंमें कौनसी पर्याये किन पर्यायोंकी अपेक्षा  
यावत् विशेषाधिक हैं ? (गोघमा) हे गौतम ! (सव्वत्थो वा  
मणपज्जवणाणपज्जवा, विभंगणाणपज्जवा अणंतगुणा, ओहिनाण-  
पज्जवा अणंतगुणा, सुयअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, सुयनाणपज्जवा  
विसेसाहिया, मइ अन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिवोहियणाण-  
पज्जवा विसेसाहिया, केवलणाणपज्जवा अणंतगुणा— सेव भंते ! सेव  
भंते ! त्ति) सबसे कम मनःपर्यवज्ञानकी पर्याये हैं । विभंगज्ञानकी

सर्वथी ओष्ठी विभंगज्ञानकी पर्याये छे तेनाथी अनंतगुणी श्रुताज्ञानकी पर्याये छे  
अने तेनाथी पथु अनंतगुणी मत्त्यज्ञानकी पर्याये छे ' एएसिं णं भंते आभिणि-  
वोहियणाणपज्जवाणं जाव केवलणाणपज्जवाणं मइअन्नाणपज्जवाणं,  
सुयअन्नाणपज्जवाणं विभंगणाणपज्जवाणं कयरे कयरे हिंतो जाव  
विसेसाहिया वा ' छे लगवन् । आ आभिनिवोधिः ज्ञानकी पर्यायिमा—यावत्—  
ध्वणज्ञानकी पर्यायिमा, मत्त्यज्ञानकी पर्यायिमा श्रुताज्ञानकी पर्यायिमा तथा विभंगज्ञानकी  
पर्यायिमा ध्र पर्याय कथ पर्यायनी अपेक्षामे विशेषाधिक छे ' गौतमा '  
हे गौतम ! सव्वत्थोवा मणपज्जवणाणपज्जवा, विभंगणाणपज्जवा अणंतगुणा  
ओहिनाणपज्जवा अणंतगुणा, सुयअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा सुयनाण-  
पज्जवा विसेसाहिया मइअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिवोहियणाणपज्जवा  
विसेसाहिया केवलणाणपज्जवा अणंतगुणा सेव भते सेव भते त्ति '  
अथाथी ओष्ठी मनःपर्यवज्ञानकी पर्याये छे विभंगज्ञानकी पर्याये तेनाथी अनंतगुणी छे.

मरयज्ञानपर्याया अनन्तगुणा, आभिनिबोधिकज्ञानपर्यायाः विशेषाधिकः, केवलज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणा, तदेवं मदन्त ! तदेव मदन्त ! ॥इति सू १२॥

द्वितीयोद्देशकः समाप्तः

टीका—अथाष्टादशकालद्वारमाधित्य उदपेक्षया ज्ञानादिक प्ररूपयितुमाह—  
 'गाणी वा मते ! 'जाणि' चि कालयो केवचिरं मवइ' गौतमः पृच्छति—  
 हे मदन्त ! ज्ञानी खलु 'ज्ञानी' इति ज्ञानितया कालस्य काम्यपेक्षया कि-  
 चिर भवति ? कियरीर्यकाल यावत् ज्ञानिरूपेण व्यपदिश्यते ? इति प्रश्न,  
 मगवानाह— 'गोयमा ! नाणी दुविहे पण्णसे तन्नहा— साइए वा अपज्जन्-  
 सिए, साइए वा सपज्जवसिए'

पर्याये इनसे अनन्तगुणी हैं । अधिज्ञानकी पर्याये इनसे भी अनन्त गुणी हैं । भूत अज्ञानकी पर्याये अधिज्ञानकी पर्यायोंकी अपेक्षासे भी अनन्तगुणी हैं । भ्रुतज्ञानकी पर्याये इनसे कुछ अधिक हैं । मत्स्य-ज्ञानकी पर्याये इनसे अनन्तगुणी हैं । आभिनिबोधिकज्ञानकी पर्याये इनसे विशेषाधिक हैं । केवलज्ञानकी पर्याये इनसे भी अनन्तगुणी हैं हे मदन्त ! जैसा आपने कहा है वह ऐसा ही है— हे मदन्त ! जैसा आपने कहा वह ऐसा ही है । ऐसा कह कर वे मगवान् गौतम ! यावत् अपने स्थानपर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ— अठारहवें कालद्वारको लेकर सूत्रकारने उसकी अपेक्षासे ज्ञानाधिककी प्ररूपणाकी है । इसमें गौतमने प्रश्नस ऐसा पूछा है 'गाणीं वा मते ! 'जाणी' चि कालयो केवचिरं मवइ' हे मदन्त ! ज्ञानी 'यह ज्ञानी है' इस रूपसे कब तक कहा जाता है ? उत्तरमें प्रश्न कहते हैं— गोयमा' हे गौतम ! 'नाणी दुविहे पण्णसे' ज्ञानी वो

अधिज्ञानकी पर्याये तेनाथी पद्य अनन्तगुणी छे भूत अज्ञानकी पर्याये अधिज्ञानकी पर्याये अपेक्षासे अनन्तगुणी छे भ्रुतज्ञानकी पर्याये तेनाथी कुछ अधिक छे मत्स्यज्ञानकी पर्याये तेनाथी अनन्तगुणी छे आभिनिबोधिक ज्ञानकी पर्याये तेनाथी विशेषाधिक छे केवलज्ञानकी पर्याये तेनाथी पद्य अनन्तगुणी छे हे मदन्त ! नेतुं आपे अहं छे ते तेभज्ज छे हे अजवन् ने॥ रीते आपे अहं छे ते तेभज्ज छे जे प्रभावे करीने अजवन् औतम—यावत्—पिताना स्थानपर विराजमान भवन्त्ये

टीकाथे—अठारवा कालद्वारने आत्मन करीने सूत्रकार ते १ अपेक्षासे ज्ञानाधिककी निरूपणता करी छे तेभ औतमे प्रश्नने जेवु पृच्छु छे हे 'जाणी वा मते ! गाणी' चि कालयो केवचिरं मवइ' हे अजवान् ! ज्ञानी वा ज्ञानी छे जे रूपधी अथ सुधी कही वचन छे ? उत्तर— 'गोयमा' हे औतम ! 'गाणी दुविहे पण्णसे'

हे गौतम ! ज्ञानी द्विविधः प्रज्ञप्तः, तद्यथा— सादिको वा अपर्यवसितः, अय भावः—कालद्वारे सादिकोऽपर्यवसितः—यस्यादिरस्ति अन्तो नास्ति स केवलज्ञानी साद्यपर्यवसित उच्यते, अथच सादिकः सपर्यवसितः—यस्यादिरन्तश्च वर्तेते स मत्यादिज्ञानवान् केवलज्ञानवर्जितो जीवः सादिसपर्यवसितः इति व्यवह्रियते, तत्र केवलज्ञानस्य साद्यपर्यवसितः कालोऽस्ति, मत्यादिज्ञानस्य सादिसपर्यवसितः कालोऽस्ति, इति । तत्र प्रथमस्य साद्यपर्यवसित इति कथनेनैव कालप्रतीतेरतस्तं विहाय द्वितीयस्यैव सादिसपर्यवसितस्य जघन्योत्कृष्टाभ्यां तमुपदर्शयितुमाह—‘तत्थ णं जे से साइए सपज्जवसिए, से जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं सातिरेगाइं’ तत्र तयोर्मध्ये खलु यत् तत्—

प्रकारका कहा गया है ‘तंजहा’ जैसे— ‘साइएवा अपज्जवसिए, साइए वा सपज्जवसिए’ एक सादिक अपर्यवसित और दूसरा सादिक सपर्यवसित. तात्पर्य कहनेका यह है— केवलज्ञानीकी आदि तो होती है, पर अन्त नहीं होता— वह केवलज्ञानी सादि अपर्यवसित है. जिस ज्ञानीकी आदि हो, और अन्त भी हो वह सादि सपर्यवसित ज्ञानी है, जैसे केवलज्ञानरहित मति आदि ज्ञानवाला जीव । केवलज्ञान का काल सादि— अपर्यवसित है और मत्यादि ज्ञानोंका काल सादि सपर्यवसित है। प्रथमज्ञानीकी ‘सादि अपर्यवसित’ इस प्रकारके कहनेसे कालस्थिति प्रतीत हो जाती है— इमलिये उसे छोडकर द्वितीय जो सादि सपर्यवसित ज्ञानी है उसकी जघन्य और उत्कृष्टस्थिति प्रदर्शित करनेके लिए सूत्रकार कहते हैं— ‘तत्थणं जे से साइए सपज्जवसिए— से जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छावट्ठि सागरोवमाइं सातिरेगाइं’

ज्ञानी के प्रकार-थी कहा छे ‘ त जहा ’ जेभडे ‘साइए वा अपज्जवसिए साइए वा सपज्जवसिए ’ जेके अपर्यवसितसादी अने सपर्यवसित सादी तात्पर्य कहेवानु जे छे के केवणज्ञानीनी आदि तो होय छे पणु अत होतो नथी ते केवणज्ञानी सादि अपर्यवसित छे जे ज्ञानीनी आदि होय अने अत पणु होय ते सादि अपर्यवसित ज्ञानी कहेवाय छे जेभडे केवणज्ञान रहित मतिज्ञान आदि ज्ञानवाणा जव केवणज्ञानने समय सादि अपर्यवसित छे अने मत्यादि ज्ञानेने समय सादि सपर्यवसित छे प्रथम ज्ञानीने ‘ सादि अपर्यवसित ’ जे रीते कहेवाथी कणस्थिति प्रतीत थप नय छे जेटवा माटे तेने छोडीने पीण जे सादि अपर्यवसित ज्ञानी छे तेनी जघन्य अने उत्कृष्ट स्थिति अताववा साइ सूत्रकार कडे छे के ‘ तत्थणं जे से साइए सपज्जवसिए से जहन्नेणं अंतो मुहुत्तं उक्कोसेणं छावट्ठिसागरोवमाइं सातिरेगाइं ’ जे सादी

अथ सादिक सपर्यवसितं ज्ञानम् तत् मतिभूतज्ञान जघन्येन अन्तर्मुहूर्तं कालं तिष्ठति तद्द्वयस्योश्च जघन्यतोऽन्तर्मुहूर्तमाश्रत्वात् अथधि-मनःपर्यव-ज्ञानन्दु जघन्येन एकसमयं तिष्ठति, उत्कृष्टेन तु मतिभूताधिज्ञानप्रय सातिरे काणि-किञ्चिद् विशेषाधिकानि पदपट्टिसागरोपमाणि तिष्ठति, तत्रयम्य हि उत्कर्षेण एतावत्पर्यव स्थिति, सा शैव मरति- 'दो वारे विजयाइसु गयस्स, तिन्नच्छुए अइव ताइ । अइरेगं नरमयिप, णाणाजीवाण सम्बद' ॥१॥ इति द्विवारं विजयादियु गतस्य त्रीणि अच्युते अथवा तानि । अतिरेक नर मधिक नानाजीवानां सर्वादां । गौतम पृच्छति - 'आमिणिबोहियणाणी षं भते! आमिणिबोहियणाणि' सि कालओ केरधिर हाइ?' हे मन्द !

जो सादिक सपर्यवसित ज्ञान- मतिभूतज्ञान है उनका काल जघन्यसे अन्तर्मुहूर्तमा है अर्थात् ये दोनों ज्ञान कमसे कम एक अन्तर्मुहूर्त कालतक ठहरते हैं क्योंकि ये दोनों ही ज्ञान जघन्य से अन्तर्मुहूर्त मात्र हैं । तथा अथधि और मनःपर्यव ये दो ज्ञान जघन्य से एक समयतक रहते हैं, और उत्कृष्टसे मतिज्ञान, धतज्ञान और अधधिज्ञान कुछ अधिक ६६ सागरोपम तक रहते हैं । क्योंकि इन तीनों की उत्कृष्टसे इतनी ही स्थिति है यह इस प्रकारसे होती है- 'दोवारे विजयाइसु गयस्स, तिन्नच्छुए, अइव ताइ अइरेगं नरमयिपं, णाणा जीवाण सम्बद' दो बार विजयादिका में जानेसे अथवा तीन बार अच्युतमें जानेसे, इसके साथ जो कुछ अधिकता कही गई है यह मनुष्यमवकी लेकर कही गई है । अब गौतम स्वामी पूछते हैं- 'आमिणिबोहियणाणी षं भते ! ' आमिणिबोहियणाणी कालओ

अथ वसितज्ञान ओहे मति भूतादि ज्ञान ओ तेना समथ जघन्यधी अत मुहूर्तना ओ. अर्थात् ओ ओ ज्ञान ओछमा ओ।ओ ओह अतमुहूर्त अण पर त रहे ओ ओमठे ते जन्ने ज्ञान जघन्यधी अतमुहूर्तं मात्र ओ तथा अथधि जने मनुष्यव ओ ओ ज्ञान जघन्यधी ओह समथ पर्यत रहे ओ जने उत्कृष्टधी भतिज्ञान, सुतज्ञान, जने अधधिसान कथ विशेष ६६ छासठ सजशेपम पर्यत रहे ओ ओमठे ओ त्रयेनी उत्कृष्टधी जेठधी स्थिति ओ ते आ रीसे कथ ओ 'दोवारे विजयाइसु गयस्स, तिन्नच्छुए अइव ताइ अइरेगं नरमयिपं' नाणा जीवाणसंबद' ओ वार विजयादिसा जघन्यधी अथधि अथधि अच्युत नमना वरभा देवतेज्जभा जघन्यधी तेनी आये ने कथ अधिज्ञान कही ओ ते मनुष्य बनने ओहेथीने कही ओ

अ. - 'आमिणिबोहियणाणी षं भते ! आमिणिबोहियणाणी सि कालओ केरधिर हाइ'

आभिनिवोधिकज्ञानी खलु 'आभिनिवोधिकज्ञानी' इति आभिनिवोधिकज्ञानि-  
रूपेण कालतः कालापेक्षया कियच्चिरं कियदीर्घकालपर्यन्तं तिष्ठति ? भगवानाह—  
'एवं नाणी, आभिनिवोद्वियणाणी, जाव केवलनाणी, अन्नाणी, मइअन्नाणी,  
सुयअन्नाणी, विभंगनाणी, एएसि दसण्ह वि संचिट्टणा जहा कायट्टिईए'  
एव ज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी यावत्-श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी,  
केवलज्ञानी, अज्ञानी, मृत्युज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विगङ्गज्ञानी, एतेषां दशानामपि  
सम्भानं स्थितिकालः यथा प्रज्ञापनाया अष्टादशे कायस्थितिपदे कथितस्तदनु-  
सारम् अत्रापि विज्ञेयः, तत्र यद्यपि ज्ञानिनः स्थितिकालः प्रदर्शित एव  
तथापि एकप्रकरणपतितत्वेन पुनः कथितः, आभिनिवोधिकज्ञानादिद्वयस्य तु  
जघन्येनान्तमुद्धर्तमुत्कृष्टतन्तु मातिरेकाणि षट्पष्टिः सागरोपमाणि, अवधि-

ओ केवच्चिरं होई । हे नदन्त ! आभिनिवोधिकज्ञानी 'आभिनि-  
वोधिकज्ञानी रूपसे' कालकी अपेक्षा लेकर कवतक कितने अधिक-  
कालतक रहता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं— 'एवं नाणी, आभिनिवोद्विय-  
नाणी, जाव केवलनाणी, अन्नाणी मइ अन्नाणी, सुय अन्नाणी, विभंग-  
नाणी, एएसि अट्टण्ह वि, संचिट्टणा जहा कायट्टिईए' हे गौतम ! ज्ञानी,  
आभिनिवोधिकज्ञानी यावत्- श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी,  
केवलज्ञानी, अज्ञानी, मृत्युज्ञानी, श्रुताज्ञानी और विभंगज्ञानी इन  
८ आठका स्थितिकाल जैसा प्रज्ञापनाके १०वे कायस्थिति पदमें कहा  
गया है उसीके अनुसार यहाँ पर भी जानना चाहिये । वहाँ पर  
यद्यपि ज्ञानीका स्थितिकाल प्रकट कर दिया गया है तो भी एक  
प्रकरण पतित होनेसे पुनः कहा गया है । आभिनिवोधिकज्ञानादि  
द्वयका स्थितिकाल जघन्यसे अन्तमुद्धर्त है और उत्कृष्टसे कुछ

हे भगवान् ! आभिनिवोधिकज्ञानी आभिनिवोधिकज्ञानीना इपथी कणना अपेक्षाये हेतुना अधिक  
ज्ञानपर्यंत रही शक्ये ? उत्तर — एवं नाणी आभिनिवोद्वियणाणी जाव केवलनाणी  
अन्नाणी मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी विभंगनाणी एएसि अट्टण्ह वि संचिट्टणा जहा  
कायट्टिईए' हे गौतम ! ज्ञानी, आभिनिवोधिक ज्ञानी—यावत् श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी,  
मनःपर्यवज्ञानी, केवलज्ञानी, अज्ञानी, मृत्युज्ञानी, श्रुताज्ञानी अने विल गज्ञानी ये देशने  
स्थितिकाल जेवी रीते प्रज्ञापनाना १८ अठारमा कायस्थिति पदमा कहेल छे ते रीते  
अर्डीआ पणु समल देवे तां जेके जाननी स्थिति कण प्रकट करेल छे तो पणु आ  
प्रकरणमा आववाथी डूरी छलु छे अलिनिवोधिक ज्ञानादि द्रव्यने स्थितिकाल जघन्यया  
अतमुद्धर्त छे अने उत्कृष्टयी कथक अधिक १६ छसठ सागरोपलु प्रमाण छे



वर्तमानस्य नम्रमगुणस्थानकवर्तिनः मनःपर्यवज्ञानमुत्पन्नं, तत् उत्पत्तिसमय-  
समनन्तरमेव विनष्टश्चेत्येवमेकं नमयम्, तथा चरणकाल उत्कृष्टो देशोना पूर्व-  
कोटी, १ पूर्वकोटीवर्षाद्युष्णस्य तच्चारित्रप्रतिपत्त्यनन्तरमेव यदा मनःपर्यव-  
ज्ञानमुत्पन्नं यावज्जीवम् अनुवृत्तं तदा भवति मनःपर्यवज्ञानस्योत्कृष्टतो देशोना  
पूर्वकोटी, केवलज्ञानस्य स्थितिकालः सादिरनन्तश्च; नदुक्तम्- 'केवलनापी णं  
पुच्छा, गोयमा ! साइए अपज्जवासिए' केवलज्ञानी खलु पृच्छा ? गौतम !  
सादिकोऽपर्यवसितः, अज्ञान-मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानानां स्थितिकालस्त्रिप्रकारकः-  
१ अभव्यापेक्षया अनाद्यनन्तः, २ भव्यापेक्षया अनादिः सान्त, ३ सम्यग्-  
दर्शनतः प्रपत्तितापेक्षया सादिः सान्तश्च, तत्र सादिः सान्तः कालो जघन्येन

कम एक समयमात्र रहनेसे यहाँ उसकी जघन्य स्थिति एक समयकी प्रकट की गई है। तथा उत्कृष्टसे जो देशोनपूर्वकोटिका काल कहा गया है उसका अभिप्राय ऐसा है कि कोई एक पूर्वकोटि वर्षकी आयुवाला व्यक्ति हो, और जब चारित्र स्वीकार करनेके बाद मनःपर्यवज्ञान उसे उत्पन्न हो जाता है- तब वह मन पर्यवज्ञान उमको यावज्जीव रहता है. इस तरह मनःपर्यवज्ञानीका उत्कृष्टवाल देशोनपूर्वकोटीका आजाता है। केवलज्ञानका स्थितिकाल सादि अनन्त है। कहा भी है- 'केवलनापी ण पुच्छा ? गोयमा ! साइए अपज्जव सिए'। अज्ञान- मत्यज्ञान और श्रुताज्ञान इनका स्थितिकाल तीन प्रकारका होता है- अभव्यकी अपेक्षा अनादि अनन्त, भव्यकी अपेक्षा अनादि सान्त तथा सम्यग्दर्शनसे प्रपतित की अपेक्षा सादि, सान्त, सादि सान्त जो काल होता है जघन्यसे अन्त-मुहूर्त रूप होता है। यह सम्यक्त्वसे प्रपतित जीवको अन्त-

तेनु ते मनःपर्यवज्ञान आछामा आधु ओक समय मात्र रहेवाथी त्यां तेनी जघन्य स्थिति ओक समयनी प्रकट करेथी छे, तथा उत्कृष्टथी ते देशोनपूर्वकोटीने समय-क्षण-कथी छे तेनी अलिप्राय अे छे के केओ ओक पूर्वकोटीवर्ष पर्यंतनी आयुवाणी व्यक्ति होथे अने ज्यारे तेने चारित्र्य स्वीकार्या बाद मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न थथे ज्ये छे. त्यारे ते मनःपर्यवज्ञान तेने एवत पर्यंत रहे छे अे रीते मनःपर्यवज्ञानीने उत्कृष्ट क्षण देशोनपूर्वकोटिने यथ ज्ये छे ज्येणज्ञानने स्थितिकाल सादि अनन्त छे कथु पथु छे 'केवलनापीण पुच्छा' 'गोयमा साइए अपज्जवासिए' अज्ञान-मत्यज्ञान अने श्रुतज्ञान तेनेने स्थितिकाल त्रण प्रकारने होथे छे अलव्यनी अपेक्षाअे अनादि अनन्त अने लव्यनी अपेक्षाअे अनादि सात तथा सम्यग्दर्शनमा प्रपतितनी



अन्तमुहूर्त्तम् यथा सम्पत्स्वपतितस्यान्तमुहूर्त्तोपरि पुनः सम्पत्स्वपतिपत्नी  
 अन्तमुहूर्त्तं मयति उत्कृष्टेन तु अनन्तकालः, यथा कस्यचिद् जीवस्य सम्प  
 त्त्वधतः प्रपाताक्षमन तत्राले पुनः सम्पत्त्वमाप्तिः, उक्तञ्च 'अन्नाणी, मह  
 अन्नाणी, सुयभन्नाणी ण पुच्छा ? गोयमा ! अन्नार्थी, महअन्नाणी, सुय  
 भन्नाणी य तिविहे पण्णसे, तज्जा-अणाइए वा, अपज्जवसिए (अमभ्यानाम्)  
 १, अणाइए वा अपज्जवसिए(अभ्यानाम्) २, साइए वा सपज्जवसिए (प्रतिपतित  
 सम्पद्दर्शनानाम्) ३ । 'तत्थ ण जे से साइए सपज्जवसिए, स मह-नेण अतो  
 मुहुत्त, उक्कोसेण अणत्त कालं, अणत्ता उस्मपिणीओसपिणीओ कालओ  
 अवइइ पोग्गलपरियह वेसुण' इत्यादि । सम्पत्त्वाद् भ्रष्टस्य फलस्यत्यादिष्वनन्ता

मुहूर्त्तके वाद् पुनः सम्पत्त्वकालाम होने पर होता है । सादि  
 सान्तका उत्कृष्ट समय अनन्तकालरूप जाता है यह किसी जीवको  
 सम्पत्त्व होने पर जब उसका प्रतिपात होजाता है और अनन्तकाल  
 तक भी जय तक सम्पत्त्व उस जीवको नहीं होता है बादमें सम्पत्त्व  
 होता है- तय होता है । कहा भी है 'अन्नाणी, मह अन्नाणी सुय  
 अन्नाणी ण पुच्छा ? गोयमा ! अन्नाणी, सुय अन्नाणी य तिविहे  
 पण्णसे- त ज्जा-अणाइए वा, अपज्जवसिए (अमभ्यानाम्) १ अणाइए  
 वा अपज्जवसिए (अभ्यानाम्) २, साइए वा सपज्जवसिए (प्रतिपतित  
 सम्पद्दर्शनानाम्) तत्थण जेसे साइए सपज्जवसिए से अहन्नेण अतो  
 मुहुत्त, उक्कोसेण अणत्त कालं, अणत्ता उस्मपिणी ओसपिणीओ कालओ  
 अवइइ पोग्गलपरियह वेसुण' इत्यादि । सादि सान्त समयजो अनन्त

अपिच्छाये सादि सात सादि सत ते अण ते ते अण-वधी अतमुहुत्तं डोए ते अ  
 सम्पत्त्वया प्रपत्ति अने अतमुहुत्त पत्ती इगी सम्पत्त्वतो ताव यथा पत्ती थाव  
 ते सादि सततो उक्कृष्ट सभ अन्त काल डोए ते ते डोई अने सम्पत्त्व अण पत्ती  
 तेनु पु ५११ अण अण ते अण अनेक ताव पत्त ते अने सम्पत्त्व अण नहीं.  
 ताव अ सम्पत्त्व थाव ते इह पत्त ते 'अन्नाणी महअन्नाणी, सुय  
 अन्नाणी ण पुच्छा, ' गायमा अन्नाणी, सुयअन्नाणी य तिविहे पण्णसे त  
 ज्जा अणाइए वा अपज्जवसिए (अमभ्यानाम्) १ अणाइए वा सपज्जवसिए  
 (अभ्यानाम्) २ साइए वा सपज्जवसिए (प्रतिपतित सम्पद्दर्शनानाम्) ३  
 तत्थण जे से साइए सपज्जवसिए स मह-नेण अतो मुहुत्तं उक्कोसेण अणत्त कालं  
 अणत्ता उस्मपिणी ओसपिणीओ कालओ अवइइ पोग्गलपरियह वेसुण'

त्सर्पिण्यवसर्पिणीरतित्राह पुनः प्राप्तसम्यग्दर्शनस्येति विभङ्गज्ञानस्य स्थिति-  
 लो जघन्येन एकः समयः, उत्पन्नानन्तर द्वितीयसमये एव तस्य पतनात्,  
 त्कृष्टेन तु देशोनपूर्वकोट्यभ्यधिकानि त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि, तदुक्तञ्च-  
 विभंगनाणी णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं  
 तेत्तीसं सागरोपमाइं देखणपुव्वकोडिअव्वहियाइं' यथा कश्चित् मनुष्येषु  
 पुचित् देशोनपूर्वकोटिं वर्षाणाम् विभङ्गज्ञानितया स्थित्वा सप्तमनारक-  
 थिव्यामुत्पद्यते इति भावः । सावधपर्यवसितः १ सादिसपर्यवसितः २  
 तिज्ञानादीनि पञ्च ज्ञानानि ५, मत्यज्ञानादीनि त्रीणि अज्ञानानि ३, इत्येवं रूपेण

कालरूप कहा गया है - वह सम्यक्दर्शनसे भ्रष्ट होकर वनस्पत्या-  
 देकोमें अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालको समाप्त करके पुनः  
 सम्यक्त्वको प्राप्त करनेवाले जीवकी अपेक्षासे कहा गया है । विभंग-  
 ज्ञानका स्थितिबाल जो जघन्यसे एक समयका कहा गया है वह  
 उत्पन्न होनेके बाद द्वितीय समयमें ही उसका पतन होनेसे कहा गया  
 है । विभंगज्ञानका समय उत्कृष्टरूपसे देशोनपूर्वकोटि अधिक ३३  
 सागरोपम प्रमाण है ! कहा भी है- 'विभंगनाणी णं भंते ! पुच्छा ?  
 गोयमा ! जहन्नेणं एकं समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोपमाइं देखण  
 पुव्वकोडी अव्वहियाइं' जैसे कोई मनुष्योंमें देशोनपूर्वकोटि वर्षों तक  
 विभंगज्ञानीरूपसे रहा और मर कर फिर वह सप्तम नारक पृथिवीमें  
 उत्पन्न हो गया- ऐसी स्थितिमें विभंगज्ञानका समय देशोनपूर्वकोटि  
 ३३ सागरोपम प्रमाण आजाना है । सादि अपर्यवसित १, सादि  
 सपर्यवसित १, मतिज्ञानादि ५ ज्ञान, मत्यज्ञानादि तीन अज्ञान इस

अर्थात् सादि अत समय के अनन्तकालरूप कहे छे ते सम्यक्दर्शनथी पतित थधने  
 वनस्पत्यादिदेकोमा अनन्त त्सर्पिणी, अवसर्पिणी काल समाप्त करीने करी साम्यक्त्वने  
 प्राप्त करवावाणा छवनी अपेक्षासे कहे छे विलगज्ञानने स्थितिकाल के जघन्यथी अेक  
 समयने कहे छे ते उत्पन्न यथा पथी थीना समयमा के तेनु पतन थवाथी कहेल छे.  
 विलगज्ञानने समय उत्कृष्ट इपथी देशोनपूर्वकोटि अधिक उउ तेत्तीस सागरोपम  
 प्रमाण छे कहु पवु छे 'विभंगनाणी णं भंते पुच्छा गोयमा जहन्नेण एकं समयं  
 उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोपमाइं देखणपुव्वकोडी अव्वहियाइं' जेमी रीते कहे  
 मनुष्यमा देशोनपूर्वकोटि वर्षों पय त विलगज्ञानीइपथी रहीने अने कालधर्म पाव्या  
 पथी ते सातमी उ नारक पृथिवमा उत्पन्न थध नय ते स्थितमा विलगज्ञानने समय  
 देशोनपूर्वकोटि अधिक सागरोपम उउ तेत्तीस प्रमाण थध नय छे. सादि अपर्यवसित १

दशानामपि मत्यादीनां स्थितिकालः प्रज्ञापनानुसारं प्ररूपित । अथैकोनविंशति  
 तमम् अन्तरद्वारमाह-मूले- 'अंतरं सव्यं जहा जीवामिगमे' पञ्चानां मत्या  
 दीनां ज्ञानानाम् अघाणां मत्पज्ञानादीनाञ्च अज्ञानानाम् अन्तरं सर्वं यथा  
 जीवामिगमे उक्ततया अप्रापि षष्ठ्यम्, तथाहि - आमिनिबोधिकज्ञानस्य  
 अन्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन देशोनार्धपुद्गलपरावर्तकालम्,  
 तथैव भ्रुतज्ञानिन अविज्ञानिन, मनःपर्यवज्ञानिनोऽपि विज्ञेयम्, केवलज्ञानिनः  
 परस्परमन्तरं नास्ति सर्वदा विद्यमानत्वात् । मत्पज्ञानि-भ्रुताज्ञानिनोरन्तरं  
 जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन तु साविरेकाणि पदपट्टिसागरोपमाणि, विमद्  
 प्रकारं से इह मत्यादिकं दश १० का भी स्थिति काल प्रज्ञापनाके  
 अनुसारं कहा है ।

अथ १० वे द्वार अन्तर द्वारको सूत्रकार कहते हैं- 'अंतरं सव्यं  
 जहा जीवामिगमे' ५ मत्यादि ज्ञानों का और ६ मत्पज्ञान आदि  
 अज्ञानोंका अन्तर जैसा जीवामिगम सूत्र में कहा गया है वैसा ही  
 यहाँ पर भी यह कहना चाहिये । तात्पर्य ऐसा है आमिनिबोधिक  
 ज्ञानका अन्तर जघन्य से अन्तर्मुहूर्त का है और उत्कृष्ट से देशोन  
 अर्धपुद्गल परावर्तन कालरूप है । इसी तरहसे अन्तरकालका प्रमाण  
 जघन्य और उत्कृष्ट रूप में भ्रुतज्ञानीका, अविज्ञानीका और मनः  
 पर्यवज्ञानी का भी जानना चाहिये । केवलज्ञानीका अन्तर नहीं होता  
 है । क्योंकि यह होकर सर्वदा विद्यमान रहता है । मत्पज्ञानी और  
 भ्रुताज्ञानी का अन्तर जघन्य से अन्तरमुहूर्तका है और उत्कृष्टसे कुछ

आदि अप्यवबलित २ भतिज्ञानादि पञ्च ज्ञान ३ मत्पज्ञानादि प्रत्यु अज्ञान से रीते  
 का अन्तराधिक इत्येना स्थितिकाल प्रज्ञापनानुसारं कहेव है

इस सूत्रकार १६ कोजलीसभा अन्तरद्वारेना आशय करिने कहे है 'अंतरं सव्यं  
 जहा जीवामिगमे' पञ्च भाषादि ज्ञानेभ्युं अने प्रत्यु अज्ञान आदि अज्ञानेभ्युं  
 अन्तरं जेरी रीते अन्तराधिक सत्रमां कस्यु है तेरी अ रीते अर्धो सभल सेवुं कहेवानुं  
 तद्वत्प्रत्युं है के आमिनिबोधिक ज्ञाने अन्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् अने  
 उत्कृष्टेन देशोन अर्धपुद्गल परावर्तन कालरूप है अन्तर रीते अन्तराधिक प्रमाण  
 जघन्य अने उत्कृष्ट इत्येना भ्रुतज्ञानीनुं अविज्ञानीनुं अने मत्पज्ञानीनुं पञ्च  
 सभलनुं केवजानीनुं अन्तरं कहेवुं अन्तरं जेभके तेने अथेक ज्ञान विद्यमान कहे है  
 मत्पज्ञानी अने भ्रुताज्ञानीनुं अन्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् अने उत्कृष्टेन कहेवुं  
 आधिक ६६ कासठ सामरोपर प्रमाणनुं है विज्ञानीनुं अन्तरं जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम्

ज्ञानिनो जघन्येन अन्तर्मुहूर्तम् अन्तरं, उत्कृष्टेन वनस्पतिकालवद् अनन्त-  
कालो वर्तते, तदुक्तम् जीवाभिगमसूत्रे—‘आभिनिवोहियणाणस्स णं भंते !  
अंतरं कालो केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं  
अणंतं कालं जाव अवइहं पोग्गलपरियट्टं देसुणं, सुयनाणि-ओहिनाणि-  
मणपज्जवनाणीणं एवं चेव, केवलनाणिस्स पुच्छा, गोयमा ! नत्थि अंतरं  
मइअन्नाणिस्स, सुयअन्नाणिस्स य पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहुत्तं,  
उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोपमाइं साडरेगाइं, विभंगनाणिस्स पुच्छा, गोयमा !  
जहन्नेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सइकालो’ त्ति, आभिनिवोधिकज्ञानस्य  
खलु भदन्त ! अन्तरं कालतः कियच्चिरं भवति ? गौतम ! जघन्येन अन्त-  
र्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन अनन्तं कालं यावत् अर्द्धपुद्गलपरावर्तं देशोनम्, श्रुत-

अधिकं ६६ सागरोपमं प्रमाणका है । विभंगज्ञानीका अन्तरं जघन्य  
से अन्तर्मुहूर्तका है और उत्कृष्टसे वनस्पति कालकी तरह अनन्त  
कालका है । जीवाभिगमसूत्रमें ऐसा ही कहा है—‘आभिनिवोहिय-  
णाणस्स णं भंते ! अंतरं कालो केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! जहन्ने णं  
अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव अवइहं पोग्गलपरियट्टं देसुणं,  
सुयनाणी ओहिनाणी, मणपज्जवनाणी, जं एवं चेव । केवलनाणिस्स  
पुच्छा ? गोयमा ! नत्थि अंतरं; मइ अन्नाणिस्स, सुय अन्नाणिस्स य.  
पुच्छा ? गोयमा ! जहन्नेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरो-  
पमाइं साडरेगाइं विभंगनाणिस्स पुच्छा ? गोयमा ! जहन्नेणं अतो  
मुहुत्तं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो’ त्ति— गौतमने प्रभु से ऐसा पूछा है  
कि हे भदन्त ! आभिनिवोधिक ज्ञानका अन्तरं, कालकी अपेक्षा कितना  
है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! जघन्य से अन्तरं एक अन्त  
र्मुहूर्तका है और उत्कृष्ट से अन्तरं अनन्तकालका है यावत् देशोन

छे अने उत्कृष्टथी वनस्पतिकालनी साइक अन्त कालनुं छे जीवाभिगम सूत्रमां अंनुं  
छे आभिनिवोहियणाणस्स णं भंते अंतरं कालो केवच्चिरं होइ ?  
गोयमा जहन्नेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतं कालं जाव अवइहं पोग्गलपरियट्टं  
देसुणं, सुयनाणी ओहिनाणी मणपज्जवनाणी जं एवं चेव केवलनाणिस्स पुच्छा ?  
गोयमा जहन्नेणं नत्थिअंतरं मइअन्नाणिस्स, सुयअन्नाणिस्स य पुच्छा ? गोयमा  
जहन्नेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं छावट्ठिं सागरोपमाइं साडरेगाइं विभंगनाणिस्स  
पुच्छा गोयमा जहन्नेणं अतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सइकालोत्ति’ गौतमं द्वाभीअं  
प्रभुने अंनुं पूछुं छे, हे भगवन् ! आभिनिवोधिक ज्ञाननुं अंतरं कालनी अपेक्षाअं  
देसुं छे ? उत्तरं .— हे गौतम ! जघन्यथी अंतरं अंनुं मुहूर्तनुं छे अने उत्कृष्टथी

ज्ञान्यवधिज्ञानि - मनःपर्यवधानिनायेष, केवलज्ञानिनः पृच्छा, गौतम !  
 नास्ति अन्तरम् मस्यज्ञानिन भ्रुताज्ञानिनश्च पृच्छा, गौतम ! अद्यन्वेन  
 अन्तर्मुहूर्तम् उत्कृष्टेन पट्टपट्टिं सागरुपमाणि सातिरेकाणि, विमद्ज्ञानिनः  
 पृच्छा, गौतम ! अद्यन्वेन अन्तर्मुहूर्तम्, उत्कृष्टेन घनस्पतिकामः ।

अथ विप्रतितममल्पबहुत्वद्वारमाह—‘अप्याबहुगाणि तिन्नि जहा बहुवचस्वयाप’  
 अल्पबहुत्वानि श्रीणि-ज्ञानिनाम्, परस्पर अज्ञानिनां च ज्ञान्यज्ञानिनाश्च  
 यथा बहुत्ववक्तव्यतायां प्रज्ञापनासम्बन्धिनाम् अल्पबहुत्ववक्तव्यताया  
 मुक्तानि तथा अप्रापि वक्तव्यानि, तथाहि-पञ्चज्ञानिनां त्रयाणामज्ञानिनाश्च  
 अल्पबहुत्वे वक्तव्य ज्ञानिविषये-सर्वस्तोका जीवाः मनःपर्यवधानिनः, तेभ्यो-  
 ऽवधिज्ञानिनः अंस्रयेयगुणा, तेभ्यः आमिनिबोधिकज्ञानिन भ्रुतज्ञानिनबो  
 भयेऽपि विशेषाधिका परस्पर तुस्याश्च, तेभ्यः केवलज्ञानिनोऽनन्तगुणाः,  
 अज्ञानिविषये सर्वस्तोका विमद्ज्ञानिनः, तेभ्यो मस्यज्ञानिनः, भ्रुताज्ञानिनश्च

अर्धं पुद्गलपरावतन कालका है । इत्यादि सय कथन पूर्वोक्तरूपसे  
 कह ही दिया गया है ।

अथ सूत्रकार २० वे अल्प बहुत्व द्वारको आश्रित  
 करके कथन करते हैं-अप्याबहुगाणि तिन्नि जहा बहुवचस्वयाप’  
 मज्ञापना सर्वधी अल्प बहुत्व वक्तव्यता में जैसी ज्ञानी; अज्ञानी, और  
 उभय की अल्पबहुत्व वक्तव्यता कही गई है उसी प्रकार से यहाँ पर  
 भी इनकी अल्प बहुत्वकी वक्तव्यता कहनी चाहिये । जैसे मनःपर्यव  
 ज्ञानी जीव सय से कम हैं । अवधिज्ञानी जीव इनसे असंख्यातगुणे  
 हैं । आमिनिबोधिक ज्ञानी और अज्ञानी ये दोनों आपस में तो  
 लुप्य हैं परन्तु अवधिज्ञानियों को अपेक्षा विशेषाधिक हैं । इनकी  
 अपेक्षा केवलज्ञानी अनन्तगुणों हैं । अज्ञानियों में सब से कम विभंग

अनन्तगुणो अन्तरं च वाच्यं तेषामल्पं पुद्गलपरावतनज्ञानेन च कल्प्यते सयत्तु  
 अल्पं पूर्वोक्तवचस्वयाप अज्ञानी जयु ७

इने सूत्रकार जीवों में अल्प बहुत्वज्ञानेन अल्प वहीने अज्ञे उ क ‘अप्या  
 बहुगाणि तिन्नि जहा बहुवचस्वयाप’ प्रज्ञापना समधी अल्पबहुत्वनी अज्ञान्यतामां  
 जेही ज्ञानी अज्ञानी अने अज्ञानी अल्पबहुत्व की वक्तव्यता अज्ञेनाश्च ज्ञानी उ तेच रीते  
 अज्ञेनाश्च पञ्च तेनी अल्पबहुत्वनी अज्ञान्यता समञ्च देवी. जे॥ रीते - मनःपर्यवधानी  
 अल्प सयधी अल्प उ अविज्ञानी अत्र तेनाको अल्पअत्रयु उ आमिनिबोधिक ज्ञानी  
 अने भ्रुतज्ञानी अने अने परस्पर लुप्य उ, परतु अविज्ञानीज्ज्ञेना अपेक्षाके  
 विशेषाधिक उ तेनी अपेक्षाके अज्ञानेना अनन्तगुणा उ अज्ञानीज्ज्ञेना अथापी ज्ञेना  
 विमद्ज्ञानीज्ज्ञे उ तेभनाकी अनन्तगुणा अज्ञानी अने भ्रुतज्ञानी उ तथा ते अने

अनन्तगुणाः, परस्परं तुल्याथ, तत्र ज्ञानिनोऽल्पवहुत्वे संयतस्यैव मनःपर्यव-  
ज्ञानितया सर्वस्तोकाः मनःपर्यवज्ञानिनः, अवधिज्ञानिनश्चतस्रु अवस्थासु सद्-  
भावात् तेभ्योऽसंख्येयगुणाः, तेभ्य आभिनिवोधिकज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनश्च  
विशेषाधिकत्वात् अवध्यादिज्ञानरहिता अपि कियन्तः पञ्चेन्द्रियाः, कियन्तो  
विकलेन्द्रियाश्चाऽपि सासादनगुणस्थानवर्तितया मतिश्रुतज्ञानिनो भवन्ति ।  
अज्ञानिनाम् अल्पवहुत्वे पञ्चेन्द्रियाणामेव विभङ्गज्ञानसंभवात् सर्वस्तोका  
विभङ्गज्ञानिनः, तेभ्योऽनन्तगुणाः मत्यज्ञानिनः श्रुताज्ञानिनश्च पञ्केन्द्रियाणामपि

ज्ञाना हैं । उन से अनन्तगुणें मत्यज्ञानो और श्रुताज्ञानी हैं । तथा ये  
दोनों परस्परमें समान हैं । ज्ञानियों में मनःपर्यवज्ञानी जो सब से  
कम कहे गये हैं, उसका कारण यह है कि यह मनः पर्यवज्ञानसयन  
जीवके ही होता है, असंयत के नहीं । तथा अवधिज्ञानी जो मनःपर्यव  
ज्ञानी की अपेक्षा असंख्यातगुणे कहे गये हैं, उसका कारण यह है  
कि अवधिज्ञान चारों गतियोंमें होता है । तथा मतिज्ञानी और श्रुत-  
ज्ञानी जो अवधिज्ञानी की अपेक्षा विशेषाधिक कहे गये हैं सो उनका  
कारण यह है कि कितनेक पंचेन्द्रिय जीव अवधिज्ञानी नहीं भी हैं ।  
तथा कितनेक विकलेन्द्रिय जीव भी सासादनगुणस्थानवर्ती होते हैं  
अतः वे मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते हैं । इस अपेक्षा मतिज्ञानी  
और श्रुतज्ञानी अवधिज्ञानी की अपेक्षा विशेषाधिक हो जाते हैं ।  
अज्ञानियों में जो विभंगज्ञानी जीव सब से कम कहे गये हैं उसका  
कारण यह है कि विभंगज्ञान पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है । तथा  
विभंगज्ञानियोंकी अपेक्षा जो मत्यज्ञानी और श्रुतअज्ञानी अनन्तगुणें कहे

परस्पन्मा सरभा छे ज्ञानीओमा मनःपर्यवज्ञानी नेने षधायो ओछा कहेल छे तेनु  
कारण्ये छे छे ते मन पर्यवज्ञान संयत भवने न थाय छे, अने असयतने यतु नथी  
तथा अवधिज्ञानी मन पर्यवज्ञानीनी अपेक्षाओ असंख्यगण्यु कहु छे तेनु कारण्ये छे छे  
अवधिज्ञान यारे गतिओमा थाय छे तथा मतिज्ञानी अने श्रुतज्ञानी ने अवधिज्ञानीनी  
अपेक्षाओ विशेषाधिक कहु छे तेनु कारण्ये छे छे छे टलाक पंचेन्द्रिय एव अवधिज्ञानी  
होता पणु नथी तथा छे टलाक विकलेन्द्रिय एव पणु सासादन गुणस्थानवर्ती होय छे  
ओटला भाटे ते मतिज्ञानी अने श्रुतज्ञानी होय छे अ अपेक्षाओ मतिज्ञानी अने  
श्रुतज्ञानीनी अपेक्षाओ विशेषाधिक होय छे अज्ञानीओमा ने विलगज्ञानी भवने षधायी  
ओछा कहेल छे, तेनु कारण्ये छे छे विलगज्ञान पंचेन्द्रिय भवने न होय छे तथा  
विलगज्ञानीओमा अपेक्षाओ ने मत्यज्ञानी अने श्रुताज्ञानी अनन्तगुणा कथा छे तेनु

मत्यज्ञान-श्रुताज्ञानमत्वात्, परस्पर तुल्याश्च हान्यज्ञानिमिभस्याल्पबहुत्वे सर्वस्तोकाः मन पर्यवज्ञानिन तेभ्याऽसरस्ययगुणाः अवधिज्ञानिन, तेभ्यो विन्नपाशिकाः आभिनिषाधिकज्ञानन भुतज्ञानिन च परस्पर तुल्याश्च तेभ्यो विमङ्गज्ञाननः असख्यातगुणा सम्पगृह्णित्वेनापेक्षया नैरपिकापेक्षया च मिथ्यादृष्टीनामसख्यातगुणत्वात् तस्य केवमज्ञानिन मनन्तगुणाः एकेन्द्रियान् र्जर्ग र्वा मर्षज्जीवेभ्य सिद्धानामनन्तगुणत्वात् तेभ्यो मत्यज्ञानिन भूताज्ञानिनानन्तगुणा परस्पर तुल्याश्च साधारण्यवनपतिजीवानां मत्यज्ञानि-भुताज्ञानिनया सिद्धापेक्षयाऽनन्तगुणत्वात् तयाचो मज्ञापनायाम्- एएसि ०ं

गय हैं सो उसका कारण यह है कि मत्यज्ञान और भुताज्ञान एक न्द्रिय जीवोंको भी होता है । और इसी अपेक्षा पे आपस में तुल्य कहे गय हैं । ज्ञानी अज्ञानोंकी मिश्रता में जो अल्प बहुत्वका कथन किया गया है और जो एसा कहा गया है कि सबसे कम मनः पर्यवज्ञानी हैं, उनसे असख्यातगुणों अवधिज्ञानी हैं । उनसे विशेषाधिक आभिनिषोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी हैं । परन्तु ये दोनों आपस में समान हैं । इनकी अपेक्षा विमंगज्ञानी असख्यात गुणे हैं । क्यों कि सम्पगृह्णित्वे देयोंकी अपेक्षा और नैरपिकों की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि असख्यात गुणे हैं । इनकी अपेक्षा केवमज्ञानी अनन्तगुणों हैं । क्यों कि एकेन्द्रियोंको छोड़कर और सर्व जीवोंकी अपेक्षा सिद्ध अनन्त गुणे कहे गये हैं । इनकी अपेक्षा मत्यज्ञानी और भूताज्ञानी अनन्तगुणे हैं पर ये दोनों आपस में समान हैं । क्यों कि साधारण यनपति जीव मत्यज्ञानी और भूताज्ञानी होते हैं इस कारण सिद्धोंकी अपेक्षा

कारण से छे छे मद्यज्ञान जने सुवाज्ञान अज्ञानिद्रिय ज्ञाने पक्ष छेप छे मन तत्र अपिज्ञाने परस्परभा सरभा ज्ञाने छे ज्ञानी अज्ञानीनी मिश्रताया से ज्ञान बहुत्वत्तुं कथन करवाया आनुं छे जने से जेवुं बहु छे ते अभावा ज्ञेया अनपयवधानी छे जने तेनाथी अस अज्ञाया अवधिज्ञानी छे जने तेनाथी विद्वेषाधिक अलिनिनेषिक ज्ञानी जने सुवाज्ञानी छे परतु जे जने परस्परभा तुल्य छे तेनी अपिज्ञाने विमंगज्ञानी अस अज्ञाया छे तेभके सम्पगृह्णित्वे तेनी अपिज्ञाने जने नैरपिकोंकी अपिज्ञाने मिथ्या दृष्टि अस अज्ञाया छे जने तेनी अपिज्ञाने केवजज्ञानी अनतजया छे तेथी एकेन्द्रियाने छोडीने जने सब ज्ञेयानी अपिज्ञाने सिद्ध अनतजया ज्ञाने छे जने तेनी अपिज्ञाने मत्यज्ञानी जने सुवाज्ञानी अनतजया छे पक्ष जे जने अ ज्ञान तुल्य छे तेभके साधारण यनपर्याय ज्ञान मत्यज्ञानी जने सुवाज्ञानी ज्ञेय छे जे ज्ञाने सिद्धोंकी अपिज्ञाने मत्यज्ञानी

भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियनाणीणं सुयनाणीणं ओहिनाणीणं, मणपज्जव-  
नाणीणं केवलनाणीणं कयरे कयरेहितो अप्पावा, बहुया वा तुल्ला वा,  
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी, ओहिनाणी  
असंखेज्जगुणा, आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी दोवि तुल्ला विसेसाहिया, केवल-  
नाणी अणंतगुणा' इत्येकम्, 'एएसि णं भंते ! जीवाणं  
मइअन्नाणीणं, सुयअन्नाणीणं, विभंगनाणीणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा,  
बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थो वा जीवा विभंग-  
णाणी, मइअण्णाणी, सुयअन्नाणी दोवि तुल्ला अणंतगुणा,' इति द्वितीयम् २,

मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी अनन्तगुणें कहें गये हैं । प्रज्ञापना में भी  
ऐसा ही कहा है—'एएसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिबोहियनाणीणं  
सुयनाणीणं ओहिनाणीणं, मणपज्जवनाणीणं केवलनाणीणं कयरे कयरे  
हितो अप्पा वा, बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहिया वा ? गोयमा !  
सव्वत्थो वा जीवा मणपज्जवनाणी, ओहिनाणी असंखेज्जगुणा, आभि-  
णिबोहियनाणी, सुयनाणी दोवि तुल्ला, विसेसाहिया केवलनाणी अनंत  
गुणा' इस प्रकार से यह तो पांच ज्ञानियोंको लेकर अल्प बहुत्वका  
विचार प्रज्ञापना में किया गया है । अब यहां पर अज्ञानियों के  
अल्प बहुत्वका विचार इस प्रकारसे हुआ है — 'एएसि णं भंते !  
जीवाणं मइअन्नाणीणं, सुयअन्नाणीणं, विभंगनाणीणं कयरे कयरेहितो  
अप्पा वा बहुया वा, तुल्ला वा, विसेसाहि वा ? गोयमा ! सव्वत्थो वा  
जीवा विभंगणाणी, मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी, दो वि तुल्ला, अणंतगुणा'

अने श्रुताज्ञानी अनन्तगुणा कहे छे, प्रज्ञापनामा पणु अणु अणु छे 'एएसिणं  
भंते जीवाणं आभिणिबोहियनाणीणं, सुयनाणीणं, ओहिनाणीणं, मणपज्जवनाणीणं,  
केवलनाणीणं कयरे कयरे हितो अप्पावा, बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा  
गोयमा सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी ओहिनाणी असंखेज्जगुणा आभिणि-  
बोहियनाणी, सुयनाणी दोवि तुल्ला विसेसाहिया केवलनाणी अनंतगुणा'  
आ रीते पाठ्य ज्ञाने अने उद्देशीने अल्प बहुत्वने विचार प्रज्ञापना सूत्रमा कहे छे  
हुवे अर्थात् अज्ञानीअना अल्प बहुत्वने विचार आ रीते कहे छे 'एएसि  
णं भंते ! जीवाणं मइअन्नाणीणं सुयअन्नाणीणं विभंगनाणीणं कयरे कयरे हितो  
अप्पा वा बहुया वा तुल्ला वा विसेसाहिया वा गोयमा सव्वत्थो वा जीवा  
विभंगणाणी मइअन्नाणी, सुयअन्नाणी दोवि तुल्ला अणंतगुणा' आ ज्ञानीअने



एषसि ण मते ! जीवाण आमिणिबोहियनाणीण, जाव मइ अभाणीण जाव कपरे कपरेहिंता जाव विससाहिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थो वा जीवा मणपज्जवणाणी, ओहिणाणी अमखेज्जगुणा आमिणिबोहियनाणी, सुयनाणीय दो वि तुल्ला विससाहिया विमगनाणी असखेज्जगुणा केवलनाणी भणतगुणा मअन्नाणी सुयअन्नाणी दोवि तुल्ला अणतगुणा' इति । अय एकविंशतितम पर्यायठारमाश्रित्य भाइ- 'केवइया ण मंते ! आमिणिबोहियणाणपज्जवा पणत्ता ?' हे भइत्त ! कियन्त त्वल्ल आमिनिबोधिक्खानपयसा प्रप्रप्ता ? भगवानाइ- गोयमा ! भणता आमिणिबोहियणाणपज्जवा पणत्ता'

इन ज्ञानी और अज्ञानियोंकी मिश्र अवस्था के अल्पबहुत्व में इस प्रकार से कहा गया है- 'एषसि ण मते' जीवाणं आमिणिबोहिय नाणोण जाव मइअन्नाणोणं जाव कपरे कपरे हिंतो जाव विससा हिया वा ? गोयमा ! सन्वत्थो वा जीवा मणपज्जवणाणी ओहिणाणी अमखेज्जगुणा, आमिणियोहियनाणी, सुयनाणी दो वि तुल्ला, अणतगुणा ति' । न सब पाठोंका अर्थ पूर्वमें लिखा ही जा चुका है ।

अब २१ वे पर्याय द्वार को आश्रित करके सूत्रकार कथन करते हैं-सो गौतम मनु से ऐसा पूछते हैं- 'केवइयाणं मंते ! आमिणिबोहियणाणपज्जवा पणत्ता' हे भइत्त ! अमिनिबोधिक ज्ञानकी पर्याये कितनी कही गईं ? उत्तर में मनु कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'भणता आमिणिबोहियणाणपज्जवा पणत्ता' आमिणि

अज्ञानीके नी मिश्र अज्ञाना अय जहुत्तामा अ शीते क्खेवामां आणु ७ एषसि ण मंते जीवा णं आमिणिबोहियनाणीण जाव मइअभाणीण जाव कपरे कपरे हिंतो जाव विससाहिया वा गोयमा ! सन्वत्थो वा जीवा मणपज्जवणाणी, ओहियनाणी, असखेज्जगुणा आमिणिबोहियनाणी, सुयनाणी दो वि तुल्ला विससाहिया विमगनाणी असखेज्जगुणा केवलनाणी भणतगुणा मअन्नाणी, सुयअन्नाणी दोवि तुल्ला अणतगुणा ति' आ तमाय पडेते अय पडेत्थ क्खेवामां आणी अये ७

७ वे सूत्रकार २१ मा पर्यायकरने आश्रय करीने कथन करता रहे छे जेमां जीवमत्वाभी मनुने जेवुं पूछे छे 'केवइया ण मंते ! आमिणिबोहियणाण पज्जवा पणत्ता ! के जअत्त ! आमिनिबोधिक ज्ञाननी [ भविज्जानवाणा ] पथवि डेटवी इत्थी ७ । उत्तर- 'गोयमा' के जीवम ! भणता आमिणिबोहियणाण पज्जवा पणत्ता' आमिनिबोधिक [ भविज्जानवाणा ] ज्ञाननी पथय अनत इत्थी ७

हे गौतम ! अनन्ताः आभिनिबोधिकज्ञानपर्यवाः प्रज्ञप्ताः, अय भावः आभिनिबोधिकज्ञानस्य पर्यवाः पर्यायाः विशेषधर्माः भिन्नभिन्नावस्थाभेदाः, ते च द्विविधाः—स्वपर्यायाः, परपर्यायाश्च, तत्र क्षयोपशमवैचित्र्यात् मतिज्ञानस्य अवग्रहाद्यनन्तभेदाः स्वपर्याया उच्यन्ते, अथवा मतिज्ञानस्य विषयभूतज्ञेयपदार्थानन्तत्वात् तद्भेदात् ज्ञानस्यापि अनन्तभेदाः, इति तद्रीत्याऽपि तस्यानन्तपर्यायाः भवन्ति, अथवा केवलज्ञानेन मतिज्ञानस्यांशापेक्षया अनन्ता अशास्तज्ज्ञानस्य अनन्तस्वपर्याया उच्यन्ते, स्वभिन्नपदार्थपर्यायाः परपर्यायाः ते च स्वपर्यायेभ्योऽनन्तगुणाः परेषामनन्तगुणत्वात्, गौतमः पृच्छति 'केवइयाणं भते ! सुयनाणपज्जवा पण्णात्ता ?' हे भदन्त ! कियन्तः खलु

बोधिक ज्ञानकी पर्याये अनन्त कही गई हैं । तात्पर्य इसका यह है कि—आभिनिबोधिक ज्ञान का जो विशेष धर्म हैं वे भिन्न २ अवस्था रूप भेद वाले होते हैं—स्वपर्याय और पर पर्याय के भेद से पर्यायों दो प्रकारकी होती हैं—इनमें क्षयोपशमकी विचित्रता से मतिज्ञान के अवग्रहादिक अनन्त भेद हो जाते हैं । ये जो अनन्त भेद हैं—सो यही मतिज्ञानकी स्वपर्यायें हैं । अथवा—मतिज्ञानके विषयभूत जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे अनन्त हैं—सो इन सबके भेद से उस मतिज्ञान के भी अनन्त भेद हो जाता है । ये अनन्त भेद ही उस ज्ञानकी अनन्त पर्यायें हैं । अथवा—केवलज्ञान से मतिज्ञान के अंशकी अपेक्षा अनन्त होते हैं—ये अनन्त अंश ही उस मतिज्ञानकी अनन्त स्वपर्यायें हैं । अपनेसे भिन्न पदार्थों की जो पर्यायें हैं । वे परपर्याय हैं । ये पर पर्यायोंकी अपेक्षा से अनन्तगुणी होती हैं । क्यों कि परपदार्थ अनन्त

हेवानु तात्पर्यं ये छे के—आभिनिबोधिक ज्ञानने जे विशेष धर्म—विशेषता छे ते लुदी लुदी अवस्थाउप भेदवाणी होय छे स्वपर्याय अने परपर्यायिना लेदथी पर्याय जे प्रकारनी छे तेनामा क्षयोपशमनी विचित्रताथी मतिज्ञानना अवग्रहादिक अनन्त भेद थाय छे आने अनन्त लेद छे तेज मतिज्ञाननी पोटानी जे पर्यायि जे, अथवा मतिज्ञानथी विषयभूत थयेला जे ज्ञेय पदार्थ छे ते अनन्त छे तेथी ते सधणा लेदथी ते मतिज्ञानना पक्ष अनन्त भेद थाय छे आ अनन्तलेद जे ते ज्ञाननी अनन्त पर्यायि छे, अगर केवणज्ञानथी मतिज्ञाननी अशनी अपेक्षा अनन्त होय छे, आ अनन्त अंश जे आ मतिज्ञाननी अनन्त पर्यायि जे छे पोटानाथी लुदी पदार्थनी जे पर्यायि छे ते पर पर्याय छे आ पर पर्यायि स्वपर्यायिनी अपेक्षाथी अनन्तगुणी होय छे, कारणुके परपदार्थ अनन्तगुणी छे, प्रश्न :- केवइयाणं भते ! सुयनाणपज्जवा पण्णात्ता ' हे भदन्त ।

श्रुतज्ञानपर्यायाः प्रसृता ? भगवानाह— एवंशेष, एवं जाय केवलनाणस्स' हे गौतम ! एवमेव—मतिज्ञानवदेव श्रुतज्ञानस्यापि अनन्ताः पर्यायाः भवन्ति, ते च स्वपर्यायाः परपर्यायाः, एवं तथा यावत् - अथधिज्ञानस्य, मनःपर्यव ज्ञानस्य, कषमज्ञानस्य च अनन्ता पर्याया भवन्ति तथापि स्वपर्यायाः परपर्यायाश्च सत्र य स्वपर्याया श्रुतज्ञानस्य स्वगतासरश्रुतादयो भेदा ते चानन्ताः सयोपशमवैविध्यविषयानन्त्याभ्यां श्रुतानुसारिणां बोधानत्त्वात्, परपर्यायास्तु अनन्ता सर्वभाषानां प्रसिद्धा एव एवमन्यपामपि अवध्यादीनां भेदाः बोध्याः, यावत्परणात्—'केवइया ण भते ! ओहिनाणपज्जवा पण्णत्ता?

गुणे हैं। मय गौतम स्वामी प्रश्न से ऐसा पूछत हैं— 'केवइयाणं भते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता' हे भवन्त ! श्रुतज्ञानकी भी पर्याये कितनी कही गई हैं ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं— 'एवशेष एव जाय केवलनाणस्स' हे गौतम ! मतिज्ञानकी तरह ही श्रुतज्ञानकी भी पर्याये अनन्त होती हैं। ये पर्याये भी स्वपर्याय और परपर्याय के भेद से दो प्रकारकी कही गई हैं। इसी तरह से अथधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान की भी पर्याये अनन्त होती हैं। श्रुतज्ञानकी स्वपर्याये स्वगत असरश्रुतादि भेदरूप हैं। और ये अनन्त हैं। क्योंकि सयोपशमको विविधता से और विषयभूत पदार्थोंकी अनन्तता से श्रुतानुसारी बोध अनन्त होते हैं। समस्त भाषोंकी परपर्याये अनन्त होती हैं वह बात तो प्रसिद्ध ही है। इसी तरह से अथधिज्ञान आदि के भेदोंको भी जानना चाहिये। यहाँ यावत्पद से इस प्रकारका पाठ लगाया गया है 'केवइया ण भते ! ओहिनाणपज्जवा पण्णत्ता

श्रुतज्ञानकी पर्याये कितनी कही हैं ? उत्तर — 'एवं शेष एव जाय केवलनाणस्स' हे गौतम ! मतिज्ञानकी जेम श्रुतज्ञानकी पद्य पर्याये अनन्त हैं आ पर्याये पद्य स्वपर्याय होने परपर्यायना भेदों के प्रदानकी श्रेष्ठ है। आभी रीते अथधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान जने वेवज्जानकी पर्याये अनन्त हैं श्रुतज्ञानकी स्वपर्याये स्वगत असर श्रुतानुसारी बोध अनन्त हैं। असरके सयोपशमकी (विविधताकी) होने विषयभूत पदार्थोंकी अनन्तताकी श्रुतानुसारी बोध अनन्त हैं। सभगाभावोंकी परपर्याये अनन्त हैं। आ वततो प्रसिद्ध है कि आभी रीते अथधिज्ञान आदिना वेदिते पद्य अथधिज्ञान जेवमेव। अहीना - यावत् - पद्यी आ प्रदानो पद्य श्रुतानुसारी आभी है केवइयाण भते ! ओहिनाणपज्जवा पण्णत्ता ? गौतम ! अर्गता ओहिनाण

गोयमा ! अणंता ओहिनाणपज्जवा पणत्ता । केवइयाणं भंते ! मणपज्जवनाण-  
पज्जवा पणत्ता, गोयमा ! अणता मणपज्जवनाणपज्जवा पणत्ता । केवइयाणं  
भंते ! केवलनाणपज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता केवलनाणपज्जवा  
पणत्ता' इति, तत्र अवधिज्ञानस्य स्वपर्याया येऽवधिज्ञानभेदाः भवप्रत्यय-  
क्षायोपशमिकभेदान्, नैरयिकतिर्यग्मनुष्यदेवरूपतत्त्वामिभेदात्, ' एवं  
मइअन्नाणस्स, सुयअन्नाणस्स' एवं मतिज्ञानादिपर्यायवदेव मत्यज्ञानस्य  
श्रुताज्ञानस्य च अनन्ताः पर्यायाः बोध्याः । गौतमः पृच्छति—'केवइयाणं भंते !  
विभगनाणपज्जवा पणत्ता ?' हे भदन्त ! कियन्तुः खलु विभङ्गज्ञानपर्यवाः  
प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह — ' गोयमा ! अणंता विभंगनाणपज्जवा पणत्ता ?'

गोयमा । अणता ओहिनाणपज्जवा पणत्ता केवइयाणं भंते मण-  
पज्जवनाणपज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणता मणपज्जवनाणपज्जवा  
पणत्ता ? केवइयाणं भंते केवलनाणपज्जवा पणत्ता ? गोयमा ! अणंता  
केवलनाणपज्जवा पणत्ता ' अवधिज्ञानकी स्वपर्याये उसके जो क्षाया-  
पशमिक एवं भवप्रत्यय भेद हैं वे हैं । नैरयिक, तिर्यग्, मनुष्य, देव  
ये सब अवधिज्ञान के स्वामी हो सकते हैं अतः इनमें जो भेद है  
वह भेद अवधिज्ञानकी स्वपर्याये हैं । देव और नारकोंको भवप्रत्यय  
अवधिज्ञान होता है तथा मनुष्य और तिर्यञ्चोंको क्षायोपशमिक  
अवधिज्ञान होता है । 'एव मइ अन्नाणस्स, सुय अन्नाणस्स' मति-  
ज्ञान आदिकी पर्यायोंकी तरह मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान इनकी भी अनन्त  
पर्याये होती हैं । अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं केवइयाणं  
भंते ! विभगनाणपज्जवा-पणत्ता' हे भदन्त ! विभगज्ञानकी पर्याये  
कितनी कही गई हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम !

पज्जवा पणत्ता केवइयाणं भंते ! मणपज्जवनाणपज्जवा पणत्ता ? गोयमा !  
अणंता मणपज्जवनाण पज्जवा पणत्ता ! केवइयाणं भंते ! केवलनाणपज्जवा  
पणत्ता ? गोयमा ! अणंता केवलनाणपज्जवा पणत्ता ' अवधिज्ञानकी स्वपर्याये  
तेनी जे क्षायोपशमिक भवप्रत्यय भेद छे ते छे नैरयिक, तिर्यग्, मनुष्य, देव आ  
सधणा अवधिज्ञानना स्वामी भनी शक छे अतः आमा जे भेद छे ते भेद अवधिज्ञानकी  
स्वपर्याये जे छे देव अने नारकेना भव प्रत्यय अवधिज्ञान होय छे, तथा मनुष्य  
अने तिर्यञ्चोने क्षायोपशमिक अवधिज्ञान होय छे 'एव मइअन्नाणस्स, सुय-  
अन्नाणस्स' मतिज्ञान आदिनी पर्यायिनी जे मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान, तेमनी अनन्त  
पर्याये होय छे प्रश्न — केवइयाणं भंते ! विभंगनाण पज्जवा पणत्ता ' हे भदन्त !  
विभगज्ञानकी पर्याये कितनी छे ? उत्तर .- 'गोयमा' हे गौतम ! 'अणंता

हे गौतम ! अनन्ता विभङ्गज्ञानपर्यायाः प्रवृत्ता । अथ पर्यव्याणामेवास्त्व-  
 बहुत्वमस्वपणाय पाह - 'एप्सि ण भंते । आभिणिषोहियनाणपञ्जवाण,  
 सुयनाणपञ्जवाण, ओहिनाणपञ्जवाण, मणपञ्जवनाणपञ्जवाण केवलनाण  
 पञ्जवाण य कयरे कयरेहितो जाय विसेसाहिया वा' एतेषां खल्ल भदन्त !  
 आमिनिषोषिकज्ञानपर्यव्याणाम्, भ्रुतज्ञानपर्यव्याणाम्, अ विज्ञानपर्यव्याणाम्  
 मनःपर्यवज्ञानपर्यव्याणाम् केवलज्ञानपर्यव्याणां च कजरे कतरम्यो पाषत्  
 अस्याया, बहुका वा सुत्याया, विज्ञेयाभिका वा मयन्ति ? मगधानाह-  
 गोयमा ! सम्भवत्योवा मणपञ्जवनाणपञ्जवा ओहिनाणपञ्जवा अणतगुणा,

'अर्णता विभंगनाणपञ्जवा पण्णा' विभंगज्ञानकी पर्याये अनन्त कही  
 गई हैं । अन् पर्यायोंकी अल्प बहुता का प्रतिपादन करनेके निमित्त गौतम  
 प्रश्न से पूछते हैं- एप्सि णं भंते ! आभिणिषोहियनाणपञ्जवा णं सुय-  
 नाणपञ्जवाण ओहिनाणपञ्जवाण-मणपञ्जवनाणपञ्जवाणं केवलनाण  
 पञ्जवाण य कयरे कयरेहितो जाय विसेसाहिया' हे भदन्त ! इन  
 आमिनिषोषिकज्ञानपर्यायों में, भ्रुतज्ञानपर्यायों में अविज्ञानपर्यायों में  
 मनःपर्यवज्ञानपर्यायों में और केवलज्ञानपर्यायोंमें कौन पर्याये किनकी  
 अपेक्षा अल्प हैं कौन पर्याये किनकी अपेक्षा बहुत हैं कौन पर्याये  
 किनकी अपेक्षा विज्ञेयाधिक हैं ? इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं-  
 'गोयमा' हे गौतम ! 'सम्भवत्योवा मणपञ्जवनाणपञ्जवा ओहिनाण  
 पञ्जवा अणतगुणा, सुयनाणपञ्जवा अर्णतगुणा, आमिणिषोहियनाण  
 पञ्जवा अणतगुणा केवलनाणपञ्जवा अणतगुणा' सब से कम मनः

विभंगनाणपञ्जवा पण्णा' विभंगज्ञानकी पर्याये अनन्त ७ ७ने पर्यायोंकी  
 अल्प बहुत्वतन्तु प्रतिपादन करवा सध गौतम स्वामी प्रश्नने पूछे थे ३ 'एप्सि णं  
 भंते ! आभिणिषोहियनाणपञ्जवाण सुयनाणपञ्जवाण, ओहिनाण  
 पञ्जवाण, मणपञ्जवनाणपञ्जवाणं केवलनाणपञ्जवाणं य कयरे  
 कयरे हितो जाय विसेसाहिया' ७ अन्तर्गत ! अन् आमिनिषोषिक ज्ञानपर्यायोंमें  
 भ्रुतज्ञानकी पर्यायोंमें अविज्ञान पर्यायोंमें, मनःपर्यवज्ञानपर्यायोंमें अने केवलज्ञान  
 पर्यायोंमें अन् पर्यायोंमें कौन पर्यायोंकी अपेक्षा अल्प ७ अन् पर्यायोंकी अपेक्षा अल्प ७  
 विशेष ७ अन् पर्यायोंकी अपेक्षा अल्प ७ अने अन् पर्यायोंकी अपेक्षा अल्प  
 विशेष ७ ७ उत्तर :- 'गोयमा' ७ गौतम ! 'सम्भवत्योवा मणपञ्जवनाण  
 पञ्जवा, ओहिनाणपञ्जवा अणतगुणा, सुयनाणपञ्जवा अणतगुणा,  
 आमिनिषोहियनाणपञ्जवा अणतगुणा, केवलनाणपञ्जवा अणतगुणा'

सुयणनाण पज्जवा अणंतगुणाः आभिणिबोद्धियनाणपज्जवा अणतगुणा केवलनाण-  
 पज्जवा अणतगुणा' हे गौतम ! सर्वस्तोका मनःपर्यवज्ञानपर्यवाः, तस्य  
 मनोमात्रविषयत्वात्, तेभ्योऽवधिज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः मन पर्याय-  
 ज्ञानापेक्षयाऽवधिज्ञानस्य द्रव्यपर्यायतोऽनन्तगुणविषयत्वात्, तेभ्य श्रुतज्ञान-  
 पर्याया अनन्तगुणाः, यतस्तस्य रूप्यरूपिद्रव्यविषयत्वेनानन्तगुणविषयत्वात्,  
 तेभ्योऽपि आभिनिबोधिकज्ञानपर्याया अनन्तगुणाः, यतस्तस्याभिलाष्य  
 द्रव्यादिविषयत्वेन अनन्तगुणविषयत्वात्, तेभ्योऽपि केवलज्ञानपर्यायाः  
 अनन्तगुणाः सर्वद्रव्यपर्यायविषयत्वात्तस्य गौतम अज्ञानविषयेऽल्पबहुत्व

पर्यायज्ञानका पर्याये हैं । क्यों कि मन पर्यायज्ञान मनोमात्रको विषय  
 करता है । इनकी अपेक्षा अवधिज्ञानकी पर्याये अनन्तगुणी होती हैं ।  
 क्यों कि अवधिज्ञान मनःपर्यायज्ञानकी अपेक्षा अनन्तगुणों द्रव्योंको और  
 पर्यायोंको विषय करता है । अवधिज्ञानकी पर्यायोंकी अपेक्षा श्रुत-  
 ज्ञानकी पर्याये अनन्तगुणी हैं क्योंकि श्रुतज्ञान रूपी और अरूपी दोनों  
 प्रकारके द्रव्योंको विषय करता है । इसलिये वह अनन्तगुण विषयवाला  
 कहा गया है । श्रुतज्ञानपर्यायोंकी अपेक्षा आभिनिबोधिकज्ञान पर्याये  
 अनन्तगुणी हैं । क्यों कि आभिनिबोधिकज्ञान अभिलाष्य द्रव्यादिकोंको  
 विषय करता है. इसलिये वह अनन्तगुणा विषयवाला हो जाता है ।  
 इसकी पर्यायोंकी अपेक्षा केवलज्ञानकी पर्याये अनन्तगुणी हैं । क्यों  
 कि केवलज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्योंको और उनकी अनन्तपर्यायों  
 को जानता है । अब गौतमस्वामी अज्ञानके अल्प बहुत्वके विषय में

सद्यणाथी अपेक्षा मनःपर्यवज्ञाननी पर्याये छे कारण्युके मनःपर्यवज्ञान मनोमात्रने-  
 मननेअ विषय करे छे तेना अपेक्षाअवे अवधिज्ञाननी पर्याये अनन्तगुणी छे कारण्युके  
 अवधिज्ञान मनःपर्यवज्ञाननी अपेक्षाथी अनन्तगुणी द्रव्येनी अने तेनी पर्यायेने  
 विषय करे छे अवधिज्ञाननी पर्यायेनी अपेक्षाअवे श्रुतज्ञाननी पर्याये अनन्तगुणी छे  
 कारण्युके श्रुतज्ञान रूप अने अरूपि अे प्रकारना द्रव्येने विषय करे छे तेदवा माटे ते  
 अनन्तगुणी विषयवाणुं छे छे छे छे श्रुतज्ञाननी पर्यायेनी अपेक्षाअवे आभिनिबोधिकज्ञाननी  
 पर्याये अनन्तगुणी छे कारण्युके आभिनिबोधिकज्ञान अभिलाष्य द्रव्यादिने विषय करे छे  
 तेदवा माटे ते अनन्तगुणी विषयवाणुं यथ ज्ञय छे. तेनी पर्यायेनी अपेक्षाथी केवलज्ञाननी  
 पर्याये अनन्तगुणी छे कारण्युके केवलज्ञान त्रिकालवर्ती-त्रये काणना सद्यणा द्रव्येने अने  
 तेनी अनन्त पर्यायेने ज्ञये छे प्रश्न :- हुवे गौतम स्वामी अज्ञानना अल्पबहुत्वना

विषय' पृच्छति - 'एषसि ण मत्ते ! मइअन्नाणपज्जवाण, सुयअन्नाण पज्जवाणं, विमग्गनाणपज्जवाण य कयरे कयरेहिंता जाय विसेसाहिया वा ?' हे मइन्त ! एतेपां मल्ल मत्थज्ञानपर्यवाणाम् भुताज्ञानपर्यवाणाम् विमग्ग-ज्ञानपर्यवाणाम् च मध्ये कतरे कतरेभ्यो यावत्-अत्या वा बहुका वा तुग्ग वा विशेषाधिका वा वतते ? मगघानाह- 'गोयमा ! सवत्थावा विमग्गनाण पज्जवा, सुयअन्नाणपज्जवा भयतगुणा मइअन्नाणपज्जवा भणतगुणा' हे गौतम ! सर्वस्तोका विमग्गज्ञानपर्यवा मत्थज्ञानापेक्षया तस्यान्वविषयत्वात्, तेभ्यो-ऽनन्तगुणा भुताज्ञानपर्यवाः, तेभ्योऽपि मत्थज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः,

अथ ज्ञान्यज्ञानि मिथविषयोरुपबहुत्वं प्रकथ्यतां प्ररूपयित्वाह 'एषसि ण मत्ते !

प्रश्न करते हैं-एषसि णं मत्ते ! मइ अन्नाणपज्जवाणं-सुय अन्नाण पज्जनाण, विमग्गनाणपज्जवाण य कयरे कयरेहिंतो जाय विससाहिया वा' हे मइन्त ! इन मत्थज्ञान पर्यायोंमें, भुताज्ञानपर्यायोंमें, विमग्गज्ञान पर्यायोंमें कौन पर्याय किन पर्यायों से अत्य हैं, कौन पर्याय किन पर्यायोंसे बहुत हैं, कौन पर्याय कौन पर्यायों के समान हैं और कौन पर्याय किन पर्यायोंसे बहुत हैं, कौन पर्याय कौन पर्यायोंके समान हैं और कौन पर्याय किन पर्यायोंसे विशेषाधिक हैं। इसके उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा हे गौतम ! 'सुवत्थोवा विमग्गनाणपज्जवा' सयसे कम विमग्गज्ञानी पर्याय हैं। क्यों कि यह मत्थज्ञानादिको अपेक्षा अन्य विषयवाला होता है। इनकी अपेक्षा भुताज्ञानकी पर्याय अनन्तगुणी होती हैं। इनकी अपेक्षा भी मत्थज्ञानकी पर्याय अनन्तगुणी होती हैं।

अथ सूत्रकार ज्ञानो और अज्ञानीकी मिथ अवस्थामें अन्यबहुत्वका प्रतिपादन करते हैं- इसमें गौतम स्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं-

विषयमा प्रश्न इति उ 'एषसि णं मत्ते ! मइअन्नाणपज्जवाणं सुयअन्नाणपज्जवाणं, विमग्गनाणपज्जवा णं य कयरे कयरे हिंता जाय विमसाहिया वा' हे मइन्त ! आ मत्थज्ञाननी पर्यायमा, भुताज्ञाननी पर्यायमा विमग्गज्ञाननी पर्यायमा इध पर्याय इध पर्यायमा अत्य उ इध पर्याय इध पर्यायमा विक्षय उ इध पर्याय इध पर्यायमा समान उ अने इध पर्याय इध पर्यायमा विशेषाधिक उ ? उत्तर :- 'गोयमा' हे गौतम ! 'सुवत्थोवा विमग्गनाणपज्जवा' अवस्था भी जोही विमग्गज्ञाननी पर्याय उ इत्येते ते मत्थज्ञानादिनी अपेक्षावी अव्यविषयवाणी देव्य उ तेनी अपेक्षावी भुताज्ञाननी पर्याय अनन्तगुणी उ तेनी अपेक्षावे पथ मत्थज्ञाननी पर्याय अनन्तगुणी उ इवे सूत्रकार ज्ञानी अने अज्ञानी १ मिथ अवस्थामा अव्यबहुत्वं प्रतिपादन इति उ

आभिनिवोहियणाणपज्जवाणं जाव केवलनाणपज्जवाण, मइ अन्नाणपज्जवाणं, सुयअन्नाणपज्जवाणं, विभंगनाणपज्जवाणं कयरे कयरे हिंतो जाव विसेसाहिया वा ?' हे भदन्त ! एतेषां खलु आभिनिवोधिकज्ञानपर्यवाणां यावत् केवलज्ञानपर्यवानाम्, मत्त्यज्ञानपर्यवाणाम्, श्रुताज्ञानपर्यवानाम्, विभङ्गज्ञान-पर्यवाणाम् मध्ये कतरे पर्यवाः कतरेभ्यः पर्यवेभ्यो यावत् अल्पावा, बहुकावा, तुल्यावा. विशेषाधिका वा भवन्ति, भगवानाह-गोयमा ! सन्वत्थोवा मण-पज्जवनाणपज्जवा. विभंगनाणपज्जवा, अणंतगुणा ओहिनाणपज्जवा. अणंतगुणा. सुयअन्नाणपज्जवा अणंतगुणाः. सुयनाणपज्जवा विसेसाहिया' हे गौतम ! सर्वस्तोकाः मन पर्यवज्ञानापर्यायाः, तस्य मनोमात्रविषयत्वात्, तेभ्योऽपि विभङ्गज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः, मनःपर्यवज्ञानपर्यायापेक्षया विभङ्गज्ञानस्य

'एएसिणं भंते ! आभिनिवोहियणाणपज्जवाणं जाव केवलनाणपज्जवाणं मइ अन्नाणपज्जवाणं, सुयअन्नाणपज्जवाणं, विभंगनाणपज्जवाणं कयरे कयरे हिंतो जाव विसेसाहिया वा' हे भदन्त ! इन आभिनिवोधिज्ञान पर्यायोमें यावत् केवलज्ञान पर्यायोमें, मत्त्यज्ञान पर्यायोमें, श्रुताज्ञान पर्यायोमें विभंगज्ञानपर्यायोमें कौन पर्याये किन पर्यायोसे अल्पहैं ? बहुत हैं ? तुल्य हैं ? और कौन पर्याये किन पर्यायोसे विशेषाधिक हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'सन्वत्थोवा मण-पज्जवनाणपज्जवा, विभंगनाणपज्जवा अणंतगुणा, ओहिनाणपज्जवा अणंतगुणा, सुय अन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, सुयनाणपज्जवा विसेसाहिया' सबसे कम मनःपर्यवज्ञानकी पर्याये हैं । क्यों कि यह मनोमात्रको विषय करनेवाला होता है । इनकी अपेक्षा विभंगज्ञानकी पर्याये

प्रश्न - 'एएसि णं भंते ! आभिनिवोहियणाणपज्जवाणं जाव केवलनाण-पज्जवाणं, मइअन्नाणपज्जवाणं, सुयअन्नाणपज्जवाणं, विभंगनाणपज्जवाणं कयरे कयरे हिंतो जाव विसेसाहिया वा' हे भगवन् ! आ अभिनिवोधिज्ञानकी पर्यायोभा-यावत्-केवलज्ञानकी पर्यायोभा, मत्त्यज्ञानकी पर्यायोभा, श्रुताज्ञानकी पर्यायोभा, विभंगज्ञानकी पर्यायोभा कछ पर्याये कछ पर्यायोभा अल्प छे ! विशेष छे ? तुल्य समान छे ? अने कछ पर्याये कछ पर्यायोभा विशेषाधिक छे ? उत्तर - 'गोयमा' हे गौतम ! सन्वत्थोवा मणपज्जवनाणपज्जवा, विभंगनाणपज्जवा अणंतगुणा, ओहिनाण-पज्जवा अणंतगुणा, सुयअन्नाणपज्जवा अनंतगुणा, सुयनाणपज्जवा विसेसाहिया' अर्थात् ओही मन पर्यवज्ञानकी पर्याये छे कारण्छे ते मनोमात्रने विषय करवावाण छे तेनी अपेक्षाथी विभंगज्ञानकी पर्याये अनन्त छे. कारण्छे आ ज्ञान



बहुतम विषयत्वात्, तथाहि-विभङ्गज्ञानम् ऊर्ध्वाऽधःउपरिमग्नैवेकप्रकृत्यति  
 सप्तमनाःकृपयिष्यते क्षेत्रे तिर्यक् चागस्त्यातद्वीपसमुद्ररूपे क्षेत्रे यानि रूपि  
 द्रव्याणि तानि यानि विज्ञानानि, वैश्विक्त्यपर्यायाश्च तानि च मन पर्यवज्ञान  
 विषयापेक्षयाऽनन्तगुणानि, तेभ्योपि अवधिज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः अथपि  
 ज्ञानस्य सकलरूपिद्रव्यप्रतिद्रव्यामस्त्यातपर्यायविषयकत्वेन विभङ्गापेक्षया  
 अनन्तगुणविषयत्वात् तेभ्यः ध्रुताज्ञानपर्याया अनन्तगुणा ध्रुताज्ञानस्य ध्रुत

अनन्तगुणी ह्यस्ती हैं । क्योंकि कि यह ज्ञान मनःपर्यवज्ञानकी पर्यायोकी  
 अपेक्षा बहुतम विषयवाला होता है, विभंगज्ञान ऊपर नीचे तथा  
 उपरिमग्नैवेकसे लेकर सप्तमनरक्तकवे क्षेत्रमें एवं तिर्यग्लोकमें  
 असंख्यात द्वीप समुद्ररूप क्षेत्रमें वर्तमान जो रूपी द्रव्य हैं उनमेंसे  
 कितनेक रूपी द्रव्योंको जानता है और उनकी कितनेक पर्यायोंको  
 जानता है । ये सब रूपी द्रव्य और पर्याये जो कि विभंगज्ञानको  
 विषयभूत हैं मनःपर्यवज्ञानकी पर्यायोकी अपेक्षा अनन्तगुणी हैं ।  
 इनसेभी अवधिज्ञानकी पर्याय अनन्तगुणी हैं, क्योंकि अवधिज्ञान  
 समस्तरूपी द्रव्योंमेंसे हर एक रूपी द्रव्यकी असंख्यात पर्यायोंको  
 जानता है । इसलिये यह विभंगज्ञान की अपेक्षा अनन्तगुणा विषय  
 वाला होता है । अवधिज्ञान की पर्यायों की अपेक्षा ध्रुतज्ञानकी पर्याये  
 अनन्तगुणी हैं क्योंकि ध्रुतज्ञानकी तरह ध्रुताज्ञान सामान्यरूपसं समस्त  
 मूर्त और अमूर्त द्रव्यता और उनकी सर्वपर्यायोंको जानता है इसलिये  
 यह अवधिज्ञानको पर्यायोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी पर्यायोंवाला कहा

ज्ञान पर्यवज्ञाना पर्यायानि अपेक्षाके अद्भुतम विषयवाणु होय छे । तत्र ज्ञान उपर  
 नीचे तथा उचित । क्षेत्रे तिर्यक् च ने सागस्त्या तद्वीपसमुद्ररूपे क्षेत्रे यानि रूपि  
 द्रव्याणि तानि यानि विज्ञानानि, वैश्विक्त्यपर्यायाश्च तानि च मन पर्यवज्ञान  
 विषयापेक्षयाऽनन्तगुणानि, तेभ्योपि अवधिज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः अथपि  
 ज्ञानस्य सकलरूपिद्रव्यप्रतिद्रव्यामस्त्यातपर्यायविषयकत्वेन विभङ्गापेक्षया  
 अनन्तगुणविषयत्वात् तेभ्यः ध्रुताज्ञानपर्याया अनन्तगुणा ध्रुताज्ञानस्य ध्रुत  
 अनन्तगुणी ह्यस्ती हैं । क्योंकि कि यह ज्ञान मनःपर्यवज्ञानकी पर्यायोकी  
 अपेक्षा बहुतम विषयवाला होता है, विभंगज्ञान ऊपर नीचे तथा  
 उपरिमग्नैवेकसे लेकर सप्तमनरक्तकवे क्षेत्रमें एवं तिर्यग्लोकमें  
 असंख्यात द्वीप समुद्ररूप क्षेत्रमें वर्तमान जो रूपी द्रव्य हैं उनमेंसे  
 कितनेक रूपी द्रव्योंको जानता है और उनकी कितनेक पर्यायोंको  
 जानता है । ये सब रूपी द्रव्य और पर्याये जो कि विभंगज्ञानको  
 विषयभूत हैं मनःपर्यवज्ञानकी पर्यायोकी अपेक्षा अनन्तगुणी हैं ।  
 इनसेभी अवधिज्ञानकी पर्याय अनन्तगुणी हैं, क्योंकि अवधिज्ञान  
 समस्तरूपी द्रव्योंमेंसे हर एक रूपी द्रव्यकी असंख्यात पर्यायोंको  
 जानता है । इसलिये यह विभंगज्ञान की अपेक्षा अनन्तगुणा विषय  
 वाला होता है । अवधिज्ञान की पर्यायों की अपेक्षा ध्रुतज्ञानकी पर्याये  
 अनन्तगुणी हैं क्योंकि ध्रुतज्ञानकी तरह ध्रुताज्ञान सामान्यरूपसं समस्त  
 मूर्त और अमूर्त द्रव्यता और उनकी सर्वपर्यायोंको जानता है इसलिये  
 यह अवधिज्ञानको पर्यायोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी पर्यायोंवाला कहा

ज्ञानवदोषादेशेन समस्त मूर्तामूर्तद्रव्यसर्वपर्यायविषयत्वेन अवधिज्ञाना-  
पेक्षयाऽनन्तगुणविषयत्वात्, तेभ्यः श्रुतज्ञानपर्यायाः विशेषाधिकाः केषाञ्चित्  
श्रुताज्ञानविषयीभूतपर्यायाणां विषयीकरणात्, ज्ञानत्वेन तस्य स्पष्टाव-  
भासत्वात्, 'मइअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिबोहियनाणपज्जवा  
विसेसाहिया केवलनाणपज्जवा अणंतगुणा' तेभ्योऽपि श्रुतज्ञानपर्यायेभ्यः  
मत्यज्ञानपर्यायाः अनन्तगुणाः, श्रुतज्ञानस्य अभिलाष्य वस्तुमात्रविषयत्वेन  
अल्पविषयत्वात्, मत्यज्ञानस्य तदनन्तगुणानभिलाष्यवस्तुमात्रविषयकत्वेन  
वहुविषयकत्वात्, तेभ्योऽपि अभिनिबोधिकज्ञानपर्याया विशेषाधिका भवन्ति,  
केषाञ्चित् मत्यज्ञानविषयीकृतानामपि भावानां विषयीकरणात्, तस्य हि

गया है । इनकी अपेक्षा श्रुतज्ञानकी पर्याये विशेषाधिक हैं । क्यों  
कि श्रुताज्ञान द्वारा जो पर्याये विषयभूत नहीं होती हैं उन पर्यायोंको  
यह श्रुतज्ञान विषयभूत करता है अतः श्रुताज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञान की  
पर्याये विशेषाधिक कही गई हैं । श्रुतज्ञान सम्यक्ज्ञानरूप होनेसे उसके  
द्वारा विषयभूत हुए पदार्थोंका उससे स्पष्ट अवभास होता है,  
श्रुताज्ञानद्वारा अपने विषयभूत पदार्थोंका स्पष्ट प्रतिभास नहीं होता  
है । 'मइ अन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणिबोहियनाणपज्जवा  
विसेसाहिया, केवलनाणपज्जवा अणंतगुणा' मत्यज्ञानकी पर्याये श्रुता-  
ज्ञानकी पर्यायोंकी अपेक्षा अनन्तगुणी होती हैं । क्योंकि श्रुतज्ञान  
अभिलाष्य वस्तुमात्रको विषय करता है इसलिये वह अल्प विषय-  
वाला होता है । और मत्यज्ञान श्रुतज्ञान के विषयभूत  
अभिलाष्य वस्तुमात्रसेभी अनन्त गुणों अभिलाष्य वस्तुमात्रको  
विषय करता है इसलिये वह बहु विषय वाला होता है  
मत्यज्ञानकी पर्यायोंकी अपेक्षा आभिनिबोधिकज्ञान पर्याये  
विशेषाधिक हैं । क्योंकि मतिज्ञान मत्यज्ञान द्वारा अविषयीभूत

नथा ते पर्यायेने आ श्रुतज्ञान विषयभूत करे छे. इवे श्रुतज्ञाननी अपेक्षा श्रुतज्ञाननी  
पर्याये विशेषाधिक कहेनी छे. श्रुतज्ञान सम्यक्ज्ञान रूप होवाथी तेना द्वारा विषयभूत  
थयेवा पदार्थोनु तेनाथी स्पष्ट आभास थाप छे, श्रुताज्ञान द्वारा पेताना विषयभूत  
पदार्थोनु स्पष्ट प्रतिभास थतुं नथी 'मइअन्नाणपज्जवा अणंतगुणा, आभिणि-  
बोहियनाणपज्जवा विसेसाहिया, केवलनाणपज्जवा अणंतगुणा' मत्यज्ञाननी  
पर्याये श्रुताज्ञाननी पर्यायेनी अपेक्षाये अनन्तगुणी छे. कारखुटे श्रुतज्ञान अभिलाष्य  
वस्तु मात्रने विषय करे छे तेथी ते अल्प विषयवाणु होथ छे अने मत्यज्ञान श्रुताज्ञानना  
विषयभूत अभिलाष्य मात्रथी पणु अनन्तगुणवाणा अभिलाष्य वस्तुमात्रने विषय करे छे.  
तेथी ते बहु विषयवाणु छे मत्यज्ञाननी पर्यायेनी अपेक्षाये आभिनिबोधिकज्ञाननी

आमिनिबोधिकज्ञानस्य मत्स्यज्ञानापेक्षया स्फुटरत्वात्, तेभ्योऽपि केचलज्ञान पर्यया अनन्तगुणाः सर्वाद्यामाविर्ना समस्तद्रव्यपर्यायाणाम् अनन्य साधारणावभासनात्, इति । अन्ते गौतमो भगवदुक्तं सर्वं सत्यमेव 'सेव मते ! सेवं मते !' चि । हे मदन्त ! तदेव भगवदुक्तं सर्वं सत्यमेव हे मदन्त ! भगवदुक्तं सर्वं सत्यमेव वर्तते इति भाषः ॥६०-१२॥

॥ इति अष्टमशतकस्य द्वितीयोद्देशक समाप्त ॥८-२॥

हुई कितनीक पर्यायोको विषय करता है । कारण इसका यह है कि मतिज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप्य होता है अतः वह मत्स्यज्ञानकी अपेक्षा अपने विषयका स्फुटररूपसे अवभासक होता है । क्योंकि वह स्वयं भी उसकी अपेक्षा स्फुटर होता है । मतिज्ञानकी पर्यायोकी अपेक्षा केचलज्ञानकी पर्याये अनन्तगुणी होती हैं क्योंकि सर्वाद्याभावी त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और उनकी पर्यायोका यह अनन्य साधारण रूपसे अवभासक होता है- अथ अन्तमें गौतम भगवान्के कथन को स्वीकार करते हुए कहते हैं- सेव मते ! सेवं मते ! चि हे मदन्त ! आप देवानुप्रिय ! ने जो कहा है वह सर्वथा सत्य ही है- हे मदन्त ! वह सर्वथा सत्य ही है । ऐसा कह कर वे गौतम यावत् अपने स्थानपर विराजमान हो गये ॥ १२ ॥

जोनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'मगवतीसूत्र' की प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवें शतकके दूसरा उद्देशक समाप्त ॥ ८ २ ॥

पर्यायो विशेषार्थक है । आरम्भके अन्तर्गत मत्स्यज्ञानकी विषयज्ञान न करने केवलिक पर्यायोको विषय मानन करे है । तेनु आरम्भ के है मतिज्ञान सम्भवज्ञानरूप्य केय है । हेवे ते मत्स्यज्ञानकी अपेक्षाके पीत पीतना विषयना सुदृतर इयदी अपेक्षासवच्छे-आकासवच्छे केय है । आरम्भके ते पीते न तेनी अपेक्षाके सुदृतर है । मतिज्ञानकी पर्यायोकी अपेक्षाके केवज्ञानकी पर्यायो अनन्तगुणी है । आरम्भके सव जावी त्रिकालवर्ती ( त्रये कालनी ) सवज्ञा द्रव्य अने तेनी पर्यायोकी ते अनन्य साधारणरूपमी आकास इत्यनन्तर केय है । हेवे अतर्भा गौतम स्वामी भगवानना कहनेना स्वीकार करता है है है- 'सेव मते ! सेवं मते ! चि' के भगवान् । आप देवानुप्रिये ने मनु है ते सर्वथा सत्य है । के भगवान् । ते सवथा सत्य न है । कोम कहीने गौतम स्वामी-नापव-पीतना स्थानपर विराजमान बषा ॥ सु १२ ॥

जोनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'मगवती' सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवें शतककी नीचे उद्देशक समाप्त ॥ ८-२ ॥

## अथ तृतीयोद्देशकः प्रारभ्यते-

अष्टमशतकस्य तृतीयोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम् ॥

वृक्षप्रकाराः, संख्यातजीववन्तो वृक्षाः, एक बीजवन्तो वृक्षाः, अनेक बीजवन्तो वृक्षाः, अनन्तजीववन्तो वृक्षाः, कस्यचिदपि जीवस्य द्विधा, त्रिधा, संख्यातधावाच्छिन्नोऽपि तन्मध्यभागो जीवप्रदेशैः स्पृष्ट. एव, किन्तु जीवप्रदेशः शस्त्रादिभिर्नच्छेद्यो भवति, ततो रत्नप्रभादि पृथिवी निरूपणम्, ताश्चाष्टौ-रत्न प्रभा, शर्कराप्रभा, बालुका प्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, तमस्तमः प्रभा, ईषत् प्राग्भारा (सिद्धशिला) च तासां चरमाचरमान्तनिरूपणम् ।

### आठवें शतकका तीमरा उद्देशक प्रारंभ-

इस अष्टम शतकके तृतीय उद्देशकका विषयविवरण संक्षेपसे इस प्रकारसे है- वृक्षोंके भेद संख्यात जीववाले वृक्ष असंख्यात जीववाले वृक्ष एक बीजवाले वृक्ष, अनेक बीजवाले वृक्ष, अनन्त जीववाले वृक्ष किन्ती भी जीवके दो टुकड़े हो जाने पर, तीन टुकड़े हो जाने पर, संख्यात टुकड़े होजाने पर उस जीवका मध्यभाग जीव प्रदेशोंसे स्पृष्ट ही बना रहता है-कारण-जीवप्रदेश शस्त्रादिकों द्वारा छिदता नहीं है । इसका भी कारण यह है कि शस्त्रादिकोंका असर उस पर नहीं होता है । इसके बाद रत्नप्रभा आदि पृथिवियोंका निरूपण ये पृथिवियां आठ हैं- रत्नप्रभापृथिवी, शर्कराप्रभापृथिवी, बालुकाप्रभा पृथिवी, पङ्कप्रभापृथिवी, धूमप्रभापृथिवी, तमःप्रभापृथिवी, तमस्तमप्रभा पृथिवी और ईषत्प्राग्भारापृथिवी (सिद्धशिला) इनके चरमाचरमान्तका निरूपण.

### आठमा शतकना त्रीण उद्देशकने प्रारंभ.

आ आठमा शतकना त्रीण उद्देशकनु विषय विवरण संक्षिप्तमां आ प्रकारे छे. वृक्षोना भेद, संख्यात जववाणा वृक्ष, असंख्यात जववाणा वृक्ष, एक जववाणा वृक्ष, अनेक जववाणा वृक्ष, अनन्त जववाणा वृक्ष, कर्षण जवना मे टुकडा यवाथी, त्रय टुकडा यवाथी, संख्यात टुकडा यवाथी ते जवना मध्यभाग जव प्रदेशथी स्पृष्ट न गनी रहे छे कारण जव प्रदेश शस्त्रादिको छेदातो नथी तेनु पण आ कारण छे के शस्त्रादिकोनी असर तेना पर यती नथी ते पछी रत्नप्रभा आदि पृथ्वीओनु निरूपण आ पृथ्वीओ आठ छे- रत्नप्रभा पृथ्वी, शर्कराप्रभा पृथ्वी, बालुकाप्रभा पृथ्वी, पङ्कप्रभा पृथ्वी, धूमप्रभा पृथ्वी, तम.प्रभा पृथ्वी, तमस्तमप्रभा पृथ्वी अने ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी [सिद्धशिला] तेमना अर अने अर अतनुं निरूपण.

## इक्षविशेषवक्तव्यता

मूष्म—“कइविहाण भते ! रुक्खा पण्णत्ता ? गोयमा !  
 तिविहा रुक्खा पण्णत्ता, त जहा - सखेज्जजीविया, असखेज्ज-  
 जीविया, अणतजीविया, से किं त सखेज्जजीविया ? सखेज्ज-  
 जीविया अपोगविहा पण्णत्ता, त जहा—ताले—तमाले, तक्कलि ते  
 तलि, जहा पन्नपणाए जाव नालिपरी, जे यावन्ने तहप्पगारा,  
 सेत्त सखेज्जजीविया, से किं त असखेज्जजीविया ? अ  
 सखेज्जजीविया दुविहा पण्णत्ता, त जहा—एगट्टियाय, षट्ठट्टियाय,  
 से किं त एगट्टिया ? एगट्टिया अपोगविहा पण्णत्ता, त जहा  
 निषव जवु० एव जहा पन्नपणाए जाव फला षट्ठवीयगा,  
 से त षट्ठवीयगा, सेत असखेज्ज जीविया, से किं त अणत  
 जीविया ? अणतजीविया अपोगविहा पण्णत्ता, तंजहा—आलुए,  
 मूलए, सिंगवेरे, एव जहा सत्तमसए जाव सीउण्हे सिउठी,  
 मुसठी, जे यावन्ने तहप्पगारा, सेत्त अणतजीविया ॥सू०१॥

छाया—इविषिषाः खलु मदन्त ! इत्था मइत्ताः ? गौतम ! त्रिविषा  
 इत्था मइत्ताः, तद्यथा—संख्येयभीषिकाः, असंख्येयभीषिकाः, अनन्तभीषिकाः,

## इक्षविशेषवक्तव्यता—

‘कइविहाण भते ! रुक्खा पण्णत्ता’ इत्यादि ।

धूम्रार्थ—कइविहा ण भते ! रुक्खा पण्णत्ता) हे मदन्त ! वृक्ष कितने  
 प्रकारके कहे गये हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (त्रिविहा रुक्खा पण्णत्ता)  
 वृक्ष तीन प्रकारके कहे गये हैं । (तंजहा) जो इस तरहसे हैं (संखेज्ज

-: इक्षविशेषवक्तव्यता -

‘कइविहाण भते ! रुक्खा पण्णत्ता’ इत्यादि

सूत्रार्थ — ‘कइविहाण भते ! रुक्खा पण्णत्ता’ उक्तं । इक्ष [वा] ॥  
 इत्था मइत्ता ॥ ‘गायमा’ २ गौतम । ‘त्रिविहा रुक्खा पण्णत्ता’ इत्था मइत्ता

तत् किं ते संख्येयजीविकाः ? संख्येयजीविकाः अनेकविधाः प्रज्ञप्ताः तद्यथा - तालः, तमालः, तक्कलिः, तेतलिः. यथा प्रज्ञापनाया यावत् नारिकेरिः, ये चाप्यन्ये तथाप्रकाराः, तदेतत् संख्येयजीविकाः, तत् किंते असंख्येय-जीविकाः. असंख्येयजीविकाः द्विविधाः प्रज्ञप्ताः, तद्यथा एकास्थिकाश्च, बहु-स्थिकाश्च, तत् किं ते एकास्थिकाः ? एकास्थिकाः अनेकविधाः प्रज्ञप्ताः,

जीविया, असंखेज्जजीविया, अणंतजीविया) संख्यात जीववाले असंख्यात जीववाले और अनन्त जीववाले (से किं तं संखेज्जजीविया) हे भदन्त! संख्यात जीववाले वृक्ष कितने प्रकार के कहे गये हैं ? (संखेज्जजीविया-अणेगविहा पणत्ता) हे गौतम ! संख्यात जीववाले वृक्ष अनेक प्रकारके कहे गये हैं । (तंजहा) जो इस तरहसे हैं (ताले, तमाले, तक्कलि, तेतलि, जहा पन्नवणाए जाव नालिएरी जे यावन्ने तहप्पगारा - सेत्तं संखेज्जजीविया) ताड, तमाल, तक्कलि, तेतलि आदि वृक्ष जैसे कि नालियेरी तक प्रज्ञापना सूत्रमें कहे गये हैं । इनके सिवाय इसी प्रकारके और भी वृक्ष संख्यात जीववाले जानना चाहिये । इस तरह ये संख्यात जीववाले वृक्ष हैं । (से किं तं असंखेज्जजीविया) हे भदन्त! असंख्यात जीववाले वृक्ष कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (असंखेज्जजीविया-दुविहा पणत्ता) हे गौतम ! असंख्यात जीववाले वृक्ष दो प्रकारके कहे गये हैं । (तंजहा) जैसे (एगट्टियाय बहुवीयाय) एक बीजवाले और बहुबीजवाले । (से किं तं एगट्टियाय) हे भदन्त ! एक बीजवाले

प्रकार छे ' तं जहा ' ने आ प्रभाणे छे ' संखेज्जजीविया, असंखेज्जजीविया, अणंतजीविया ' स ज्थात् उववाणा अस ज्थात् उववाणा अने अनन्त उववाणा ' से किं तं संखेज्जजीविया छे लसवन् स ज्थात् उववाणा वृक्ष डेट्वा प्रकारना डहेवा छे ? संखेज्जजीविया अणेगविहा पणत्ता ' हे गौतम ! स ज्थात् उववाणा वृक्ष अनेक प्रकारना डहेवां छे ' तं जहा ' नेभडे ' ताले, तमाले, तक्कलि, तेतलि जहा पन्नवणाए जाव नालिएरी जे यावन्ने तहप्पगारा - सेत्तं संखेज्जजीविया ' ताड, तमाल, तक्कलि, तेतली, आदि आड नेवाडे नालियेरी सुधीना प्रज्ञापना सूत्रमा डहेवां छे ते सिवाय आ प्रकारना भीज पणु आड स ज्थात् उववाणा न्नाभुवा नेधये आवी रीते आ स ज्थात् उववाणा आड [ वृक्ष ] छे ' से किं तं असंखेज्जजीविया ' हे भदन्त ! अस ज्थात् उववाणा वृक्ष डेट्वा प्रकारना डहेवाय छे ? ' असंखेज्जजीविया-दुविहा पणत्ता ' हे गौतम ! अस ज्थात् उववाणा वृक्ष मे प्रकारना डहेवा छे ' तं जहा ' नेवाडे ' एगट्टियाय बहुवीयाय ' ओक भीजवाणा अने बहुभीजवाणा ' से किं तं एगट्टियाय ' हे भदन्त ! ओक भीजवाणा आड डेट्वा प्रकारना होय छे ?

तद्यथा-निम्ब-आम्र-जम्बू-एष यथा पक्षपनायां यावत्-फलानि बहुवीजकानि,  
 तदेवानि बहुवीजकानि तदेते असख्ययजीविका, तत् किंते अनन्तजीविका ?  
 अनन्तजीविकाः भनेऽविधा प्रकृता, तद्यथा-आलुफम्, मूलफम्, मृद्वरम्,  
 एवं यथासप्तमशतके यावत् सिङ्घर्षी मिडुषी मुमुषी, य चाप्यन्य-तथा  
 प्रकाराः, तदेते अनन्तजीविका ॥ सू १ ॥

वृक्ष कितने प्रकारके होते हैं ? (एगद्विया अणेगविहा पण्णत्ता) हे गौतम!  
 एक बीजवाले वृक्ष अनेक प्रकारके होते हैं (तंजहा) जैसे- (निर्बं व  
 जम्बु एष जहा पञ्चवणापए माघ फला बहुवीयगा से च बहुवीयगा)  
 नीम, आम्र, जामुन इत्यादि प्रज्ञापना सूत्रके प्रज्ञापना पदमें कहे गये  
 अनुमार बहुवीजवाले फल तक जानना चाहिये । इस तरह य बहु  
 बीजवाले वृक्ष हैं (से च असखेज्जजीविया) यहाँ तक अनन्त  
 जीववाले वृक्षोंका वर्णन किया (से किं त अणतजीविया) हे भदन्त !  
 अनन्त जीववाले वृक्ष कितने प्रकारके कहे गये हैं ? (अणतजीविया  
 अणेगविहा पण्णत्ता) हे भदन्त ! अनन्त जीववाले वृक्ष अनेक प्रकारके  
 कहे गये हैं । (तंजहा) जैसे- (आलुफ, मूलफ, सिंगघेर, एष जहा  
 सप्तमसए, जाव सीउण्हे, मिडुषी, मुसुषी, जे यावन्ने महप्पगारा-  
 से च अणतजीविया) आलु मूली, अदरक, इत्यादि गौता कि सप्तम  
 शतकमें यावत् मिडुषी मुमुषी तक कहा गया है- वैसा ही यहाँ  
 पर जानना चाहिये । हमी तरहके जो और वृक्ष हैं वे भी अनन्त

'एगद्विया अणेगविहा पण्णत्ता' हे गौतम ! अनेक बीजवाला इस अनेक प्रकारका  
 होता है 'तंजहा' जैसे 'निर्बं वजम्बु एवं जहा पञ्चवणापए माघफला  
 बहुवीयगा से च बहुवीयगा' विभिन्न वर्णों के अनेक प्रकारके प्रज्ञापना सूत्रका  
 प्रज्ञापना पदमें कहेवाले गाना प्रमाणों के अनुसार अनेक प्रकारके प्रज्ञापना सूत्रका  
 अन्तर्भाव है 'से च असखेज्जजीविया' अर्थात् अनेक प्रकारके अणतजीवियों  
 का वर्णन है 'से किं त अणतजीविया' हे भदन्त ! अनन्त जीववाला वृक्ष  
 कितने प्रकारके है ? 'अणतजीविया अणेगविहा पण्णत्ता' हे गौतम !  
 अनन्त जीववाला वृक्ष अनेक प्रकारका है 'तंजहा' जैसे 'आलुफ,  
 मूलफ सिंगघेरे, एवं जहा सप्तमसए, जाव सीउण्हे, सिडुषी  
 मुसुषी जे यावन्ने महप्पगारा से च अणतजीविया' आलु मूला, आलु  
 मूलादि केवाले सातम शतकमें-यात् सिङ्घर्षी, मुमुषी मुमुषी कहेवाले अणतजीवियों के

टीका—पूर्वं द्वितीयोद्देशके आभिनिबोधिकादिक ज्ञानं पर्यायतः प्ररूपितम्, तेन च वृक्षादयोऽर्था ज्ञायन्ते अतस्तृतीयोद्देशके ज्ञानविषयान् वृक्षविशेषान् प्ररूपयितुमाह—‘ कइविहाण भंते ! रुक्खा पणत्ता ? ’ गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कतिविधाः कियत्प्रकाराः खलु वृक्षाः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह—‘गोयमा ! तिविहा रुक्खा पणत्ता ’ हे गौतम ! त्रिविधाः वृक्षाः प्रज्ञप्ता, ‘तं जहा— संखेज्जजीविया, असंखेज्जजीविया, अणंतजीविया ’ तद्यथा—संख्येयजीविकाः, असंख्येयजीविकाः, अनन्तजीविकाः, तत्र सख्येयाः संख्याता जीवा सन्ति एषु ते सख्येयजीविनः त एव सख्येयजीविकाः

जीववाले वृक्ष जानना चाहिये । इस तरह अनन्तजीववाले वृक्ष कहे गये हैं ।

टीकार्थ - पहले द्वितीय उद्देशक में आभिनिबोधिक ज्ञान आदिका निरूपण पर्यायकी अपेक्षासे किया गया है—ज्ञानसे वृक्षादिक अर्थ-पदार्थ जाने जाते हैं—इसलिये इस तृतीय उद्देशक में ज्ञान के विषयभूत वृक्षविशेषोंकी प्ररूपणा करने के लिये सूत्रकार कहते हैं—इसमें गौतम स्वामीने प्रभु से ऐसा पूछा है—‘कइ विहाणं भंते ! रुक्खा पणत्ता ’ हे भदन्त ! वृक्ष कितने प्रकार के कहे गये हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘ गोयमा ’ हे गौतम ! ‘ तिविहा रुक्खा पणत्ता ’ वृक्ष तिन प्रकार के कहे गये हैं ! ‘ तं जहा ’ वे इस तरहसे हैं—‘ संखेज्जजीविया, असंखेज्जजीविया, अणंतजीविया ’ संख्यात जीववाले, असंख्यात जीववाले, और अनन्तजीववाले । संख्यात जीव जिनमें होते हैं वे संख्यात जीवी हैं— संख्यात जीवीही

प्रमाणे अर्हत्ता पणु न्णत्तु आ प्रमाणे ने पीत्ता वृक्षा छे ते पणु अनन्तश्रवणा वृक्ष गणुवा-न्णत्तुवा आभ अनन्तश्रवणा वृक्ष छडेवा छे

टीकार्थ - पड़ेला पीत्ता उद्देशकमा आभिनिबोधिक ज्ञानादितु निरूपण पर्यायोनी अपेक्षाथी करवामा आण्यु छे ज्ञानथी वृक्षादिक अर्थ-पदार्थ न्णत्तु शक्य छे तेदला भाटे आ पीत्ता उद्देशकमा ज्ञानना विषयभूत थयेला वृक्षविशेषोनी प्ररूपणा करवा साउ सूत्रकार छडे छे के-आमा गौतम स्वामीये प्रभुने एषु पूछ्यु छे के ‘ कइविहाणं भंते ! रुक्खा पणत्ता ’ छे भदन्त ! वृक्ष कइला प्रकारना छडेला छे ? तेना उत्तरमा प्रभुये छलु के ‘ गोयमा ’ छे गौतम ! ‘ तिविहा रुक्खा पणत्ता ’ अडना त्रणु प्रकार छे ‘ तं जहा ’ ते आ प्रमाणे छे ‘ संखेज्जजीविया, असंखेज्जजीविया, अणंत जीविया ’ संख्यात श्रवणा, असंख्यात श्रवणा अने अनन्तश्रवणा येम त्रणु



सख्यातजीवन्त इत्यप, एरम् असख्येया जीवा सन्ति एषु ते असख्येय-  
जीविकाः असख्यातजीवन्तः, अनन्तजीवाः सन्ति एषु ते अनन्तजीविकाः अनन्त-  
जीवन्त इति भाष गौतमः पृच्छति- से किं तं सखेज्जजीविया? हे मद्दन्त! तत्  
अथ किंते सख्यातजीविकाः? कतिविधाः सख्यातजीवन्तो वृक्षाः? इति प्रश्न ।  
भगवानाह-सखेज्जजीविया भणेगविहा पण्णाचा' हे गौतम! सख्यातजीव-  
न्तो वृक्षाः अनेकविधा प्रकृष्टाः, तं जहा - ताळे तमाळे तकलि, तेतमि  
जहा पण्णावणाए जाव नालिपरी' तद्यथा-ताळः, तमाळः-पर्वतीयतरुविशेषः  
तकलिः-वम्याकारसघनपल्लवशालिवृक्षविशेषबावक, तकलिरिति देशीयः  
वृक्षः, तेतमिः वृक्षविशेषः, यथा प्रज्ञापनायां प्रतिपादित तथा भ्राजपि

सख्यात जीविक हैं। असख्यात जीवजिनमें हाते हैं, वे असख्यात  
जीवी हैं- असख्यात जीवी ही असख्यात जीविक हैं। इसी तरह  
से अनन्तजीव जिनमें होते हैं वे अनन्तजीवी हैं- अनन्तजीवी ही  
अनन्तजीविक हैं।

अथ गौतम स्वामी प्रश्न से पूछते हैं- से किं तं सखेज्ज-  
जीविया ' हे मद्दन्त! सख्यात जीविक-सख्यात जीववाले-वृक्ष फलने  
प्रकारके होते हैं? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं- 'सखेज्जजीविया  
भणेगविहा पण्णाचा' हे गौतम! सख्यात जीववाले वृक्ष अनेक  
प्रकार के होने हैं 'त जहा' जो इस तरह से हैं 'ताळे, तमाळे,  
तकलि तेतमि जहा पण्णावणाए नालिपरी' ताळ, तमाल पर्वतीयतरु-  
विशेष, तकलि बलयाकारवाले सघन पल्लवों-पर्वतोंसे सुशोभित वृक्ष  
विशेष तेतलि वृक्ष विशेष! तकलि' यह देशीय शब्द है। जैसा

प्रधाना बोध ० सख्यात एव जेनाभां बोध ० ते न सख्यात एषु ० सख्यात एषु  
ए सख्यात एषु ० अम स्यात एषु न स्यातां बोध ० ते असख्यातएषु ० अम स्यात  
एषु असख्यात एषु ० आ प्रमाणे अनन्तएषु जेनाभां ० ते अनन्तएषु ० - अर्थात्  
अनन्तएषु अनन्तएषु ० प्रश्न :- 'से किं तं सखेज्जजीविया' हे मगधन्त ।  
सख्यात एषु सख्यात एषुवणा वृक्ष इदंता प्रधाना बोध ० । उत्तर :- सखेज्ज-  
जीविया भणेगविहा पण्णाचा' हे गौतम । सख्यात एषुवणा वृक्ष अनेक प्रधाना  
दाव ० त जहा' जे 'ताळे, तमाळे, तकलि तेतमि जहा पण्णावणाए  
नालिपरी' ताळ तमाल पर्वतीय, तर्कविशेष, तकलि-वणीआना आकारवणा सघन  
पल्लव-पानेधी सुशोभित वृक्ष विशेष, तेतमि-वृक्ष विशेष 'तकलि' आ देशी वृक्ष  
० जेसुं प्रज्ञापनायां प्रतिपादित वृक्ष ० तेसुं वृक्षविशेष एषु सखेज्जुं आ विषय

बोध्यम्, तद्वधिमाह-यावत्-नारिकेरिः, नारिकेरिवृक्षपर्यन्तं वक्तव्यमित्यर्थः  
तथाहि-प्रज्ञापनायाम्-‘ताले; तमाले, तकलि, साले य सालकल्लाणे । सरले  
जायइ, केयइ, कंदलि तह चम्मरुक्खेय ॥१॥ भुयरुक्खे हिंगुरुक्खे लवंगरुक्खे  
य होइ वोद्धव्वे । पूयफली खज्जूरी वोद्धव्वा नारिएरी य ॥२॥

तालः, तमालः, तकलिः, तैतलिः, सालश्च, सालकल्याणम् ।

सरलः, जायइ, केतकिः, कदलीतथा चर्मवृक्षश्च ॥१॥

भूर्जवृक्षः, हिंङ्गुवृक्षः, लवङ्गवृक्षः; भवति वोद्धव्यः ।

पूयफली, खर्जूरी, वोद्धव्या, नारिकेरिश्च ॥२॥ इति ।

‘जायइ’ इति वृक्ष विशेषवाचको देशीयः शब्दः जे यावन्ने तहप्पगारा;  
सेत्त संखेज्जजीविया ’ ये चाप्यन्ये तथाप्रकाराः तत्सदृशाः वृक्षविशेषास्ते

प्रज्ञापना में प्रतिपादित किया गया है- वैसाही यहाँ पर भी जानना  
चाहिये। यह विषय कहाँ तक वहाँ पर जानना चाहिये-तो इसके  
लिये कहा गया है कि नारिकेलि वृक्ष पर्यन्त यह विषय वहाँ पर कहा  
गया है-सो यहाँ पर भी सख्यात जीववाले वृक्षों के प्रकरण में उसे  
नारिकेरि वृक्ष पर्यन्त ग्रहण कर लेना चाहिये ! अर्थात् प्रज्ञापना में  
ताल वृक्ष से लेकर नारिकेरि वृक्ष तक जो वृक्ष गिनाये गये हैं, वे  
सब संख्यात जीव वाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये ! प्रज्ञापना में  
इन वृक्षके नाम इस प्रकारसे आये हैं- ‘ताले, तमाले, तकलि, सालेय  
सालकल्लाणे । सरले, जायइ, केयइ, कंदलि तह चम्मरुक्खेय ॥ १ ॥  
भुयरुक्खे, हिंङ्गुरुक्खे, लवंगरुक्खे य होइ वोद्धव्वे । पूयफली खज्जूरी  
वोद्धव्वा नारिएरी य ॥२॥ ‘यहाँ जो ‘जायइ’ पद आया है वह देशीय  
शब्द है और वृक्षविशेषका वाचक है । ‘जे यावन्ने तहप्पगारा,

अथा सुधी त्थाथी ळ्ठुवेा ळ्ठेअये - तो आ भाटे ळ्ठु छे ळ्ठे नाणियेरीना वृक्ष सुधी  
अड्ठु अरतु अर्थात् प्रज्ञापनामां ताडवृक्षथी वड्ठ नाणियेरी वृक्ष सुधी ने वृक्ष गण्था छे  
ते अघणां सअ्यात अणवाणा होय छे अेठुं ळ्ठुवेा ळ्ठेअये प्रज्ञापनामां आ वृक्षेना  
नाम आ प्रकारे छे- ‘ताले, तमाले, तकलि साले य सालकल्लाणे ! सरले,  
जायइ, केयइ, कंदलि तह चम्मरुक्खे य ॥ १ ॥ भुयरुक्खे, हिंङ्गुरुक्खे,  
लवंगरुक्खे य होइ वोद्धव्वे ! पूयफली, वोद्धव्वा, नारिएरीय ॥ २ ॥ अर्द्धांआ ने  
‘जायइ’ पद आअ्यु छे ते दशी शब्द छे अने वृक्ष विशेषणु वाचक छे ‘जे यावन्ने  
तहप्पगारा, से त्त संखेज्जजीविया ’ आथी रीते ने थिण्ठ पणु वृक्ष आ वृक्षेनी

सख्यातजीवन्तो घोद्धव्याः; इतिमावः सख्यातजीवततपस हरभाह-सच' इत्यादि, तद्वैसे उपर्युक्ता वृक्षविशेषाः सख्येयजीविकाः सख्यातजीवन्तो विज्ञेयाः गौतमः पृच्छति-स किं त असखेज्जजीविया' हे भदन्त ! तद-  
 भय किंते असख्येयजीविका ? कति विधा असख्यातजीवन्तः ? इति प्रश्नः मगवानाह-असखेज्जजीविया दुविहा पण्णात्ता' हे गौतम ! असख्येयजीविकाः, असख्यातजीवन्तः द्विविधा प्रकृताः 'त जहा-एगट्टिया य, बहुट्टियाय,' तद्यथा-एकास्थिकाश्च, बहुस्थिकाश्च, तत्र एकम् अस्थिक वीज येषां फल मध्ये ते एकास्थिकाः एक बीजकाः बह्वनि अस्थिनि धीमानि फलमध्य येषां ते बहुबीजकाः-अनेकास्थिकाः, अनेकवीनन्त इत्यर्थ, गौतमः पृच्छति-'स किं त एगट्टिया?' इ भदन्त ! तत्-मय किंते एकास्थिका ? कियत्प्रकाराः एकवीनन्तः ? इति प्रश्नः, मगवानाह-'एगट्टिया भणेगट्टिया पण्णात्ता' इ

से स असखेज्जजीविया' इसी तरहसे जो और भी वृक्ष इन वृक्षोंके समान हैं वे मय सख्यात जीववाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये । इस तरह यहाँ तक सख्यात जीववाले वृक्षोंका वर्णन किया ।

अथ गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'से किं त असखेज्जजीविया' हे भदन्त ! असख्यातजीववाले वृक्ष कितने प्रकारके होते हैं- इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं- 'असख्यज्जजीविया दुविहा पण्णात्ता' असख्यात जीववाले वृक्ष दो प्रकारके होते हैं- 'तंजहा' जैसे 'एगट्टियाय बहुट्टियाय' मिनमें एक ही बीज हो अर्थात् मिन वृक्षोंके फलमें एक ही बीज हो वे एकास्थिक वृक्ष हैं और जिनके फलमें अनेक बीज हों- वे बहु अस्थिक वृक्ष हैं । अथ गौतम स्वामी प्रभुसे एसा पूछते हैं- 'से किंते एगट्टिया' हे भदन्त ! जा वृक्ष एक बीज फलवाले होते हैं- वे कितने

नेम ७ ते सख्या सख्यात् एववाण्णं होय ७ अथ वास्तुं अवीज्ज रीते अवीज्जा सुधी सख्यात् एववाण्णं वृक्षन्तु पणुनं भुं ७ अथ गौतम स्वामी प्रभुने पूछे ७ १ 'से किं त असखेज्जजीविया' हे भदन्त ! अथ सख्यात् एववाण्णं वृक्षं हेरहा प्रहारना ७ तना उत्तरमा भुं ७ ७ ३ 'असखेज्जजीविया दुविहा पण्णात्ता' अथ सख्यात् एववाण्णं वृक्षना ७ प्रहार होय ७ 'तं जहा' नेम ७ 'एगट्टियाय बहुट्टियाय' नेनामां अवीज्ज वीज्जं होय अर्थात् ने वृक्षोना इणमा अवीज्ज वीज्जं होय ते अवीज्जस्थिकं एसां ७ अने वना इणमा अनेक वीज्जं होय ते बहुअस्थिकं एसां ७ अथ गौतम स्वामी प्रभुने अवेतुं पूछे ७ १ 'स किं त एगट्टिया' हे भदन्त ! ने एसां अवीज्ज वीज्जवात्ता इणवाण्णं होय ७ तेषां वृक्षं हेरहा प्रहारना होय ७ तना उत्तरमा भुं ७ ३ 'एगट्टिया

गौतम ! एकास्थिकाः एक बीजवन्तो वृक्षाः अनेकविधाः प्रज्ञाः, 'तं जहा-  
निव्वजजु० एवं जहा पन्नवणापए जाव फला बहुवीयगा' तद्यथा-निम्ब-आम्र  
जम्बू प्रभृतयः, एवं यथा प्रज्ञापनायाः प्रथमपदे प्रतिपादितं तथा अत्रापि प्रति  
पत्तव्यं, तदवधिमाह - यावत् - फलानि बहुबीजकानि इत्येतत्पर्यन्तमित्यर्थः,  
तथाचोक्त प्रज्ञापनायाम्-

'निव्वजजुकोसंबसालअंकोल्ल पीलु सल्लूया ।

सल्लइ मोयडमालुय वउल पलासे करंजेय ' ॥१॥

छाया— निम्बाम्रजम्बू कोशाम्र साल अंकोल्ल पीलु सल्लूयाः ।  
अल्पकि मोचको मालुकवकुलपलाशो करञ्जश्च ॥१॥

तथा " से किं तं बहुवीयगार अणेगविहा पणत्ता, तं जहा-

प्रकारके होते हैं ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'एगट्टिया अणेगविहा  
पणत्ता' एक बीजवाले वृक्ष अनेक प्रकारके होते हैं- 'तंजहा' जैसे-  
'निव्वजजु. एवं जहा पन्नवणापए जाव फला बहु वीयगा' नीम,  
आम्र, जागुन, आदि वृक्ष प्रज्ञापनाके प्रथम पदमें जिस प्रकारके इनके  
सिवाय और भी वृक्षोंका प्रतिपादन किया गया है उन सबका यहां  
पर भी ग्रहण कर लेना चाहिये । यह प्रकरण वहां का यहां पर 'जाव  
फला बहु वीयगा' यहां तक का ग्रहण किया गया है। प्रज्ञापनामें भी कहा है-

'निव्वजजुकोसंब साल अंकोल्लपीलु सल्लूया ।

सल्लइ, मोयइ, मालुय वउल पलासे करंजेय ॥१॥

तथा- 'से किं तं बहुवीयगार अणेगविहा पणत्ता' हे भदन्त !  
बहु बीजवाले वृक्ष कितने प्रकारके होते हैं ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं- ये

अणेगविहा पणत्ता ' एक बीजवाला वृक्ष अनेक प्रकारना होय छे 'तं जहा' जेवाडे  
'निव्वजजु, एवं जहा पन्नवणापए जावफला बहुवीयगा' लीमडो, आम्रो,  
नल्लु आदि वृक्ष प्रज्ञापनाना प्रथम पदमा जे प्रकारे आना सिवायना भीनपणु वृक्षोनुं  
प्रतिपादन क्युं छे ते सधणानु अही पणु ग्रहणु करणु आ प्रकरणु त्यांनु अही आ  
'जाव फला बहुवीयगा' त्यां सुधीनु ग्रहणु करायु छे प्रज्ञापनामा पणु कल्लुं छे के-

'निव्वजजुकोसंब साल अंकोल्लपीलु सल्लूया

सल्लइ, मोयइ, मालुय वउल पलासे करंजेय ' ॥ १ ॥

लीमडो, आम्रो, नल्लुडो, डोसण-वृक्ष विशेष, साल वृक्ष विशेष, अंकोल्ल वृक्ष विशेष,  
पीलुडो, सल्लु, सल्लुडी, मोयड, मालु, अकुल, करणु जे सधणा तथा 'से किं तं  
बहुवीयगार अणेगविहा पणत्ता' जे भदन्त ! बीजवाला वृक्ष केटला प्रकारना होय छे.

अस्थिय तेषु कश्चिद्दे अवाह्यग माउल्लुगचिल्लेय,  
आमल्लगपणस दाहिम आसोत्ये उवरवडे य" ॥२॥

अयं किं तत् बहुबीजकारः अनेकविधा मशसाः, तद्यथा-  
अस्थिकतिन्दुककचित्य अत्रावकमातुस्त्रिभित्त्वथ ।  
आमल्लकफनपदाहिमपम्भत्यः उदुम्बरस्टे य ॥१॥

अन्तेषाह-एएसिं मूला धि, असखेज्जनीयिया कदाधि, खपाधि, तथा धि,  
सालाधि, पवामाधि, पत्ता, पचेयजीविया, पुष्पा अणेगनीयिया फला बहु  
धीयग धि,' इत्यन्त यानत्यदेन संग्राहम् । उदुपम इरभाह- 'सेत्तं बहुधीयगा,  
सेत्त अस्खेज्जनीयिया' हे गौतम ! तदेते उपर्युक्ताः बहुबीजकाः अनेक  
बीजघन्तः तद्यत् उपरिचर्णिताः एकबीजघन्त अनेकबीजघन्तश्च वृक्षविशेषाः  
असख्ययजीविका असख्यातजीवघन्तो भवन्ति गौतम पृच्छन्ति- 'स किं तं  
अणतजीविया ? हे भवन्त ! तत्-अथ किं ते अनन्तजीविका कतिविधा  
खल्ल अनन्तजीघन्त इति प्रश्न, मगधानाह- 'अणतजीविया अणेगविहा  
पण्णत्ता' हे गौतम ! अनन्तजीविकाः अनन्तजीवघत् अनेकविधा मशसाः

अनेक प्रकारके होते हैं । 'त जहा' जैसे- 'अस्थिय तेषु कश्चिद्दे अवाह्यग  
माउल्लुगचिल्लेय धि आमल्लग फणस दाहिम आसोत्ये उवरवडे य २  
अन्तमें कहा गया है- 'एएसिं मूला धि असखेज्जनीयिया कदाधि,  
खपाधि, तथाधि, साला धि, पलाला धि पत्ता, पचेय जीविया, पुष्पा  
अणेगनीयिया फला बहुधीयग धि' यह पूर्वोक्त पाठ यहाँ 'यावत्'  
पदसे ग्रहण हुआ है । ये उपर्युक्त एक बीजवाले वृक्ष और अनेक  
बीजवाले वृक्ष सब असंख्यात जीववाले होते हैं ।

अथ गौतम स्वामी प्रश्नसे पूछते हैं- 'से किं तं अणतजीविया' हे  
भवन्त ! अनन्तजीववाले वृक्ष कतने प्रकारके होते हैं ? उत्तरमें प्रश्न कहते  
हैं- 'अणतजीविया अणेगविहा पण्णत्ता' हे गौतम ! अनन्त जीववाले

उत्तरमें प्रश्न कहे थे हे ते अनेक प्रकारना होय ० 'त जहा' नेभा 'अस्थियते  
दुकश्चिद्दे' अस्यादि आ पदेलां कडेवायेला पाठ अहीना-मावत् पदधी मल्लुग धियो ०  
आ उपर्युक्त अनेक जीववाला वृक्ष अने अनेक जीववाला वृक्ष सबर्ण जस अवात् उपवाया  
होय ० प्रश्न - 'से किं तं अणतजीविया' हे भवन्त ! अनन्तजीववाला वृक्ष  
केवा प्रकारना होय ० उत्तर - 'अणतजीविया अणेगविहा पण्णत्ता' हे गौतम !  
अनन्तजीववाला वृक्ष (धजा) अनेक प्रकारना होय ० 'त जहा' नेभा 'आलुप

'तंजहा आलुए, मूलए, सिंगवेरे' तयथा-आलुकम् (बटाटा) मूलकम् (मूली) शृङ्गवेरम् आर्द्रकम् इत्यादि. 'एवं जहा सत्तमसए जाव सीउण्हे सिउढी' मुसुढी एव यथा सप्तमशतकस्य तृतीयोद्देशके यावत् - हिरिकिः, सिरिलि; भिम्मिरिलिः; किट्टिकाः क्षीरिका, क्षीरविरारिका, वज्रकन्दः, सूरणकन्दः, खेलूट, कन्दविक्षेप आर्द्रभद्रमुस्तिका, पिण्डहरिद्रा; रोहिणी; हृथीहूः, थिरुका; मुद्गपर्णी, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी. सीउढी, मुसुढी; 'जे यावन्ने तहप्पगारा' ये चाप्यन्ये तथाप्रकाराः तत्सदृशा वर्तन्ते मर्वेते अनन्तजीवन्त इत्याशय, तदुपसहरन्नाह-'सेत्त अणतजीविया' तदेते उपरि वर्णिता आलुक प्रभृति मुसुढी पर्यन्ताः अनन्तजीविका अनन्तजीवन्तः, इति भावः ॥सू० १॥

जीवाच्छेद्यतावक्तव्यता ।

मूलम्—'अह भंते ! कुम्मे, कुम्मावलिया, गोहे, गोहा-  
वलिया, गोणे. गोणावलिया, मणुस्से, मणुस्सावलिया, महिसे

वृक्ष अनेक प्रकारके होते हैं । 'तजहा' जैसे- 'आलुए, मूलए, सिंगवेरे' आलु-बटाटा, मूलक-मूली, शृङ्गवेर-अदरख, इत्यादि 'एव जहा सत्तमसए जाव सीउण्हे, सिउढी, मुसुढी' जिस प्रकार सप्तमशतकके तृतीय उद्देशकमें ऐसा कहा गया है कि 'हिरिल, सिरिल, सिम्मिरिलि, किट्टिका, क्षीरिका, क्षीरविरारिका, वज्रकन्द, सूरणकन्द, खेलूट, आर्द्रभद्रमुस्तिका, पिण्डहरिद्रा, रोहिणी हृथीहू, थिरुका, मुद्गपर्णी, अश्वकर्णी सिंहकर्णी, सीउढी, मुसुढी' ये सब अनन्त जीववाले वृक्ष हैं । तथा 'जे यावन्ने तहप्पगारा' इसी प्रकारके जो और भी वृक्ष हैं- वे सब भी अनन्त जीववाले वृक्ष हैं 'सेत्त, अणतजीविया' इस तरह यह अनन्त जीववाले वृक्षोंका वर्णन है सू० ॥१॥

'मूलए, सिंगवेरे' आलु-बटाटा, मूलक-मूला. शृङ्गवेर-आहु इत्यादि 'एव जहा सत्तमसए जाव सीउण्हे, सिउढी, मुसुढी' के प्रकारे सातसा शतकना त्रीण उद्देशकमा येपु उद्धु छे के 'हिरिलि, सिरिलि, सिम्मिरिलि, किट्टिका, क्षीरीका, क्षीरविरारिका, वज्रकंद, सूरणकन्द, खेलूट, आर्द्र भद्रमुस्तिका, पिण्डहरिद्रा, रोहिणीहृथीहू, थिरुका, मुद्गपर्णी, अश्वकर्णी, सिंहकर्णी, सीउढी, मुसुढी' आ सधणा अनन्तजिववाणा वृक्ष छे तथा 'जे यावन्ने तहप्पगारा' आ प्रकारना के त्रीण पणु वृक्ष छे ते सधणा पणु अनन्तजिववाणा वृक्ष छे 'सेत्त अणतजीविया' आ उभाण्णे आ अनन्तजिववाणा वृक्षोनु पणुर्न छे ॥ १ ॥

महिसावल्या, एप्सिण दुहा वा, तिहा वा सखेज्जहा विच्छि  
ण जे अतरा तेवि ण तेहिं जीवपप्सेहिं फुडा ! हता फुडा  
पुरिसे णं भत्ते ! (ज अतर) ते अतरे हत्येण वा, पायेण वा  
अशुलियाए वा, सलागाए वा, फट्टेण वा, किलिंत्थेण वा, आ  
मुसमाणे वा, समुसमाणे वा, आलिहमाणे वा, विलिहमाणे वा  
अन्नयरेण वा, तिक्खेण सत्थजाएण आच्छिदमाणे वा, विच्छि  
दमाणे वा, अगणिकाएण वा, समोढहमाणे तेसिं जीवपप्साण  
किंचि आवाह वा, विवाह वा उप्पायइ, छविच्छेय वा करेइ ।  
णो इण्ठे समट्टे, नो खल्ल तत्थ सत्थ सकमइ ॥ सू० २॥

उाया—अय मदन्त ! कूर्मः कूर्मावलिङ्का; गोघ, गोघावलिङ्का, गौ,  
गवावलिङ्का मनुष्याः, मनुष्यावलिङ्का महिषः, मरिषावलिङ्का, एतेषां सख  
विधा वा; त्रिधा वा, सख्यातथा विच्छिन्नानां यत् अन्तरं तदपि खल्ल तैः जीव

### जीवाच्छेद्यता वक्तव्यता-

‘अहं भत्ते ! कुम्मे, कुम्मावमिया’ इत्यादि ।

सुत्रार्थ—(अहं भत्ते ! कुम्मे कुम्मावमिया, गोहा, गोहावमिया, गाणा,  
गोणावमिया, मणुस्से मणुस्सावमिया, महिसे महिसावमिया- एप्सिणं  
भत्ते ! दुहा वा तिहा वा सखेज्जहा वा छिन्नाण जे अंतरा ते विज तेहिं  
जीवपप्सेहिं फुडा) हे मदन्त ! कल्लुआ कल्लुएकी पत्ति, गोघा, गोपाकी  
पत्ति, गाय, गायकी पत्ति, मनुष्य, मनुष्यकी पत्ति, महिष-मैसा,  
मैसाकी पत्ति इन सबके दो दुक्के या तीन दुक्के या सख्यात

### एवन्ती जल्लेधत्तानुं निश्चयन्तु-

‘अहं भत्ते ! कुम्मे कुम्मावमिया’ इत्यादि

सुत्रार्थ - ‘अहं भत्ते ! कुम्मे कुम्मावमिया गोहा, गोहावमिया, गोघा,  
गोणावमिया मणुस्से, मणुस्सावमिया, महिसे, महिसावमिया एप्सिणं भत्ते !  
दुहा वा तिहा वा सखेज्जहा वा छिन्नाण जे अतरा तेविणं तेहिं जीवपप्सेहिं फुडा’  
हे भद्रे ! कल्लुआ, कल्लुएकी पत्ति, गोघा, गोघाकी पत्ति, गाय, गायकी पत्ति,  
मनुष्यकी पत्ति, महिष-मैसाकी पत्ति, आ लभन्ती ते दुक्के जयथा तेषु दुक्के जयथा

प्रदेशैः स्पृष्टम् ? हन्त, स्पृष्टम्; पुरुष खलु भदन्त ! (यदन्तरं) तदन्तरं हस्तेन वा, पादेन वा, अङ्गुलिकया वा, शलाकया वा, काष्ठेन वा, किलिञ्चेन वा, आमृशन् वा, समृशन् वा, आलिखन् वा, विलिखन् वा, अन्यतरेण वा तीक्ष्णेन शस्त्रजातेन आच्छिन्दन् वा, विच्छिन्दन् वा, अग्निकायेन वा समुपद्रहन् तेषां जीवप्रदेशानां किञ्चिद् आवाधा वा, विवाधां वा उत्पादयति, छविच्छेदं वा करोति; नायमर्थः समर्थः, न खलु तत्र शस्त्र सक्रामति ॥ सू० २॥

टुकडे किये हों, तो इनके बीचका भाग क्या जीवप्रदेशोंसे स्पृष्ट होता है? (हता फुडा) हां गौतम ! वह स्पृष्ट होता है । (पुरिसे णं भंते ! अंतरे हत्येण वा, पादेण वा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, कट्टेण वा, किलिञ्चेण वा, आमृसमाणे वा, समृसमाणे वा, आलिहमाणे वा, विलिहमाणे वा, अन्नयरेण वा तिकखेणं सत्थजाएण आच्छिन्दमाणे वा विच्छिन्दमाणे वा अंगणिकाएणं वा, समोडहमाणे तेषिं जीवपएसाणं किञ्चि आवाह वा विवाह वा उप्पायइ, छविच्छेयं वा करेइ) हे भदन्त ! यदि कोई पुरुष उन कच्छप आदिके हांडोंके अन्तराल-बीचके भागको हाथसे, पैरसे, अंगुलीसे, शलाईसे, लकड़ीसे, या बांस आदिकी पंचसे स्पर्श करता है, विशेषरूपसे स्पर्श करता है या थोडा बहुत संघट्टन करता है, अथवा किसी तीक्ष्ण शस्त्रके समूहसे छेदता है, या उससे अधिक छेदता है, या अग्निसे उसे जलाता है तो ऐसी स्थिति में क्या वह उन जीव प्रदेशों को पीडा उत्पन्न करता

सञ्जात (से डडा) टुकडा क्या होय तो तेनी वञ्चेना भाग शुं अत्र प्रदेशेथी स्पृष्ट थाय छे ? 'हता फुडा' हा गौतम ! ते स्पृष्ट थाय छे 'पुरिसे णं भंते ! अंतरे हत्येण वा, पाएणवा, अंगुलियाए वा, सलागाए वा, कट्टेण वा, किलिञ्चेण वा, आमृसमाणे वा, समृसमाणे वा, आलिहमाणे वा, विलिहमाणे वा, अन्नयरेणवा तिकखेणं सत्थजाएणं आच्छिन्दमाणेवा विच्छिन्दमाणेवा अंगणिकाएणं वा समोडहमाणे तेषिं जीवपएसाणं किञ्चि आवाहवा विवाहंवा उप्पायइ छविच्छेयं वा करेइ' हे भदन्त ! जे डोअ पुरुष आ कच्छपापादि (कायमे) टुकडानी वञ्चे-वञ्चेना लागने हाथथी, पगथी, आगणीथी, सणीथी, लाकडीथी अथवा वास आदिनी शलाका-सणीथी स्पर्श करे छे विशेषथी इपथी स्पर्श करे छे अथवा थोडु धाथुं स वन-आडु बनावे छे, अथवा डोअ अष्ठिदार हयिआरना समूहथी कापे छे, अथवा तेनाथी विशेष कापे छे, अथवा अग्निथी तेने भाणे छे तो जेवी स्थितिमा शुं ते ते अत्रप्रदेशेने



गीका—जीवाधिकारात् सम्याच्छेद्यतां प्रत्ययितुमाह अहं मते ।’ इत्यादि ।  
 ‘अहं मते ! कुम्भे कुम्भावलिषा गोहा गोहावलिषा गोणा, गोणावलिषा  
 मणुस्से, मणुस्सावलिषा, महिसे, महिसावलिषा’ गौतम पृच्छति— हे मन्त !  
 अथ कूर्मः कच्छपः, कर्मावलिषा कच्छपधोण, गोघा-सर्पविशेषः गाध-  
 वलिषा गोघापवृत्ति, गोः, गवावलिषा-गोपवृत्ति मनुष्य, मनुष्यावलिषा-  
 मनुष्यवृत्ति, महिषः, महिषावलिषा महिषवृत्ति, ‘एषसि षं दुहा वा,  
 तिहा वा, सखेज्जहावा छिन्नाण जे अंतरा त वि ण तेहि जीवपसहिं कुहा?’

है ? या उनके किमी अवयव का छेद करता है ? (गो इन्हें मन्ते)  
 हे गौतम ! यह अथ समय नहीं है । क्यों छि- ( ८ ना खलु तत्प  
 सत्य मफमह ) जीवप्रदर्शों पर शस्त्रका असर नहीं होता है ।

टीकाकार्य - यहाँ जोष का अधिकार बस रहा है- इसलिये  
 मूत्रकारने उसकी अच्छेद्यता का निरूपण किया है हममें गौतमने  
 प्रभु से प्रश्न पूछा है- ‘अहं मते ! कुम्भे, कुम्भावलिषा, गोहा,  
 गोहावलिषा, गोणा, गोणावलिषा मणुस्से, मणुस्सावलिषा, महिसे,  
 महिसावलिषा’ हे मन्त ! चाहे कच्छप हो, या कच्छपोंका समूह  
 हो गोघा-सरीसृपविशेष हो, या गोघाओंका समूह हो, गाय हो या  
 गायोंका समूह हो, मनुष्य हो या मनुष्यों का समूह हो, महिष भै मा  
 हो या महिषोंका समूह हो कोई भी क्यों न हो यदि कोई प्राणी  
 उन कूर्म से लेकर महिषावलिषा तक के जीवों के दो टुकड़े कर  
 देता है या तीन टुकड़े कर देता है या सस्यात टुकड़े कर देता है  
 तो प्रेमी धिनि ने क्या ‘छिन्नाण जे अंतरा ते वि ण तेहि जीवप

वीक्ष्य छिन्नप ४० ७ - यथा ताना केषु जात्रने षपे ७ । ‘गा इण्ठे समहे’ ७  
 अहन्त । आ वस्तु मरात्रर नरी अरुणे ‘नो खलु तत्प सत्य समह’ एवमिथे  
 पर अन्तनी असर देती नहीं

टीकाकार्य :- अर्थात् एवने अधिकार चासे ७ तेरवा मरे अन्तरे तेर  
 अन्तरेवान निरूपण ४५ ७ आभा जीवभवाभीजे प्रभुने नेतु पूछतु ७ ३  
 ‘अहंमते कुम्भे, कुम्भावलिषा, गोहा, गोहावलिषा, गोणा, गोणावलिषा, मणुस्से,  
 मणुस्सावलिषा, महिसे, महिसावलिषा’ ७ अहन्त ! अन्ति अन्तरे दोष के अन्तरेने  
 अन्तरे दोष, वेला अन्तरे-सप अन्ति निरुप दोष के अन्तरेने अन्तरे दोष, मय  
 दोष के अन्तरेने अन्तरे दोष, मनुष्य दोष के अन्तरेने अन्तरे दोष, वेस दोष के  
 अन्तरेने अन्तरे दोष तेजने ने ३४ प्रती तेभना ने या प्रज दुःखा करे अन्तरे से ४०

एतेषां खलु कूर्मादिमहिषावल्किपर्यन्तानाम् द्विधा वा, त्रिधा वा, संख्यात्-  
धापि वा च्छिन्नानां खण्डितानां यत् अन्तरालानि, तान्यपि अन्तरालानि  
खलु तैः जीवप्रदेशे स्पृष्टानि किम् ? भगवानाह- ' हंता, फुडा '  
हे गौतम ! हन्त, सत्यम्, कूर्मादीनां शतधाच्छिन्नानाम् तदन्तरं जीवप्रदेशैः  
स्पृष्टं वर्तते इत्यर्थः, गौतमः पृच्छति- 'पुरिसे णं भन्ते ! ते अंतरे हत्येण वा,  
पायेण वा, अगुलियाए वा, सलागाए वा,' हे भदन्त ! पुरुषः खलु अन्यतमः  
कश्चित् तदन्तरं हस्तेन वा, पादेन वा, अङ्गुलिक्रया वा, शलाकया वा=लोहादि-  
रचितया, 'कट्टेण वा, किलिंचेण वा, आमूसमाणे वा, संमुसमाणे वा, आलिहमाणे  
वा, विलिहमाणे वा.' काष्ठेन वा=खदिरादिदास्खण्डेन वा, किलिंचेन वा=

पसेहिं फुडा ' छिन्न हुए उन जीवोंका जो अंतराल क्षेत्र है वह  
क्या उन जीवों के जीव प्रदेशों से स्पृष्ट हुआ माना जाता है ?  
पूछने का तात्पर्य यह है कि जीव के शरीर के जब कोई प्राणी  
टुकड़े कर डालता है - तब क्या उन टुकड़ों के बीच का आकाश  
क्षेत्र उस जीव के प्रदेशों से स्पृष्ट हुआ माना जावेगा क्या ? इसके  
उत्तर में प्रभु कहते हैं ' हंता फुडा ' हां, गौतम ! छिन्न हुए उन  
२ जीवों का अन्तरालवर्ती क्षेत्र उन २ जीवों के प्रदेशों से स्पृष्ट  
हुआ अवश्य मना जाता है । अब गौतम स्वामी प्रभु से ऐसा पूछते  
हैं कि यदि वे आदि रूप में छिन्न हुए जीवों के प्रदेशों से तदन्तराल-  
वर्ती क्षेत्र यदि स्पृष्ट हुआ माना जाता है-तो ऐसी स्थिति में  
' पुरिसे णं भन्ते ! ते अंतरे हत्येण वा, पायेण वा अगुलियाए वा,  
सलागाएण वा, कट्टेण वा, किलिंचेण वा, आमूसमाणे वा, संमुसमाणे वा,  
आलिहमाणे वा विलिहमाणे वा ' यदि कोई पुरुष उस जीव प्रदेश

टुकड़ा करे तो ते स्थितिमा ' छिन्नाणं जे अतरा ते वि णं तेहिं जीवपरसेहिं फुडा '  
क्यायेला ते श्येना अतराण क्षेत्र छे ते श्येना एवप्रदेशेने स्पर्श करे छे तेम मानी  
शक्य छे ? पूछवाने हेतु ओ छे के-एवना शरीरना न्यारे कोष प्राणी टुकड़ा करी नाणे  
त्यारे थु तेमना टुकडानी वयमा-वय्येना आकाशक्षेत्रने ते एवप्रदेशथी स्पर्श थप्पने-थयेलु  
मनाथे के ? उ :- ' हंता फुडा ' हा गौतम ! क्यायेला ते ते श्येना आकाशवर्ती  
क्षेत्र ते ते श्येना प्रदेशथी स्पर्श थयेलु अवश्य मानी शक्य छे हवे गौतम स्वामी  
प्रभुने पूछे छे के ने ओ आदि उपमां छिन्न थयेला एवप्रदेशथी तेना अंतरालमा रहेलु  
क्षेत्र स्पर्शथिलु मानी शक्य तो तेव स्थितिमा ' पुरिसेणं भन्ते ते अंतरे हत्येणवा,  
पायेण वा, अगुलियाए वा, सलागाए वा, कट्टेण वा, किलिंचेण वा, आमूसमाणे वा,

वशादिकश्चिक्या वा, आसृञ्चन् आ ईपत् स्पृञ्चन् वा, समृञ्चन् सम्पक् चिशेषेच  
 स्पृञ्चन् वा, आलिखन् वा-सकृत् अल्पवा मर्षयन्, विस्त्रिखन् वा=बहुशोऽ-  
 विरतां विश्लेषतो वा सघर्षयन् 'अभयरेण वा तिकस्त्रेण सत्यजापणं आच्छि  
 द्माणेवा, विच्छिद्दमाणे वा' अन्तरेण एकेन वा तीक्ष्णेन तीक्ष्णधारण श्रद्ध  
 जायेन श्रद्धसमूहेन आ ईपत् सकृद् वा छिदन, विच्छिन्दन्-विश्लेषेण निवृत्ताम्  
 असकृद् वा छिन्दन् 'अगणिकापण वा समोद्धमाणे तसि जीवपपसाण किंचि  
 आवाहं वा, विवाहं वा, उप्याय, छविच्छेद् वा करेद्?' अग्निकायन वा,  
 समुपदहन वग्धीकुर्वन् तेषां जीवप्रदेशानां किञ्चिद् आ ईपत् वाचाम्,  
 विवाचाम् अत्यन्तपीडाम् वा उत्पादयति ? छविच्छेद् वा=कान्तिनाशम् अवपक्-

स्पृष्ट अन्तराल को हाथसे, वा पैर से, या अंगुलियोंसे, या लोहनिर्मित  
 चालाईसे, या किसी काष्ठकी लकड़ीसे लाठीसे या घांस आदि की  
 पंचसे थोड़े रूप में स्पर्श करता है, या व्यादारूप में स्पर्श करता है,  
 या थोड़े बहुतरूपमें चार २ स्पर्श करता है या खूब चार २ से  
 रगड़ता है या 'या अन्नयरेण तिकस्त्रेण सत्यजापणं अच्छिद्दमाणे'  
 किसी एक तीक्ष्ण धारवाले शस्त्र समूहसे उस अन्तरालका थोड़ेसे  
 रूप में या चार २ रूप में खोदता है या छेदता है या अग्निकापण  
 वा समोद्धमाणे' अग्नि जलाकर 'उस अन्तरालवर्ती श्लेषको दग्ध  
 (जलाया) करता है तो क्या उन जीवप्रदेशोंको इन सब निमित्तों से  
 उसके द्वारा 'किंचि आवाह वा, विवाह वा उप्याय, छविच्छेद्वा  
 करेद्' थोड़ी या बहुत पीडा होती है या जोषोंकी कान्ति का नाश  
 या अवपवोंका विष्वस होता है? पूछनेका अभिप्राय ऐसा है कि

समुसमाणे वा, आलिहमाणे वा, विलिहमाणे वा' ने ठाठ पुरुष एवप्रदेशकी  
 स्थानिकेवा अतशयने हाथकी अजर पत्रकी के अजरणीकी, अथवा सेडानी सजीवी  
 अजर काष्ठकी हाथकी अजर सिनी अजीवी, बीडा इपरी अजर आवाइपकी रूप  
 करे ७ अजर बीडा डेसवा इपकी बारबार रूप करे ७ अजर मूल नेर नेरकी  
 थसे ७ अथवा 'अभयरणं तिकस्त्रेण सत्यजापणं अच्छिद्दमाणे' ठाठ तीक्ष्ण  
 धारवाला शस्त्र समूहकी ते अतशयने बीडा इपकी अजर बारबार जोड़े के छेदन करे के  
 'अग्निकापेण वा समोद्धमाणे' अग्नि जगवावीने ते अतशयवती क्षेत्रने  
 अग्नि वा शु ते एवप्रदेशने अतशय निमित्तकी तेना दारा 'किंचि आवाह वा  
 विवाह वा उप्याय, छविच्छेद् वा करेद्' बीडी अजर आच्छिपीडा भाव ७ ? अजर  
 एवानी कान्तिने नाश अजर अवपवनेने नाश भाव ७ पूछवाने भाव मे ७ के ने ते

विध्वंसं वा करोति किम् भगवानाह— 'णो ऽण्टे समट्टे, णो खलु तथ सत्थ संकमइ' हे गौतम ! नायमर्थः समर्थः, जीवप्रदेशस्य केनापि शस्त्रेण छेदनासम्भवात्, अग्न्यादिना दाहासंभवाच्च, नो खलु न वा तत्र जीवप्रदेशेषु शस्त्र संक्रामति, न तत्र शस्त्रस्य गतिः संभवति, जीवप्रदेशानाम् अच्छेद्यत्वात् अदाहत्वाच्च ॥ सू० २ ॥

रत्नप्रभादिपृथिवीवक्तव्यता—

मूलम्—कइ णं भंते ! पुढवीओ पणत्ताओ ? गोयमा ! अट्टु पुढवीओ पणत्ताओ, तं जहा रयणप्पभा, जाव अहेसत्तमा, ईसीपढभारा इमा णं भंते ! रयणप्पभा पुढवी, किं चरिमा, अचरिमा ? चरिमपयं निरवसेसं भाणियव्वं, जाव वेमाणिया णं भंते ! फासचरिमेणं किं चरिमा, अचरिमा ? गोयमा ! चरिमा वि । अचरिमा वि । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति" ॥सू०३॥  
अट्टमसयस्स तीओ उद्देस्सो समत्तो

यदि वह अन्तराल क्षेत्र यदि जीव प्रदेशों से स्पष्ट हुआ माना जाता है तो फिर इस अवस्था में उन अन्तराल वर्ती जीव प्रदेशोंको पूर्वोक्त कारण कलापोंसे क्या थोड़ी या बहुत पीडा होती है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं— 'णो ऽण्टे समट्टे' हे गौतम ! वह अर्थ समर्थ नहीं है—क्यों कि 'णो खलु तत्थ सत्थ संकमइ' उन जीव-प्रदेशों पर शस्त्र का कुछ भी असर नहीं होता है। अर्थात् पूर्वोक्त कारणकलापों से जीवप्रदेशों का छेदन आदि नहीं होता है। मूर्त्तिका अमूर्त्त जीवप्रदेशों पर थोडा सा भी प्रभाव नहीं पडता है यही बात 'न तत्र शस्त्रगतिः संभवति जीवप्रदेशानां अदाहत्वात् अच्छेद्यत्वात्' इन पंक्तियोद्वारा समझाई गई है ॥सू० २॥

अ तत्राल क्षेत्र जे एव प्रदेशी स्पर्श थयेला मानवामा आवे ते पछी ते अवस्थाभां ते अ तरालवर्ती एवप्रदेशाने पूर्वोक्त कारणेथी शु थोडी डे नलथ पीडा थाय छे

उत्तर — 'णो ऽण्टे समट्टे' ते प्रमाणे कडेवु ते षरापर नथी डेमडे 'णो खलु तत्थ सत्थ संकमइ' ते एव प्रदेशो पर शस्त्रनी कर्धपण्य असर थती नथी अर्थात् पहिलाना कारणेथी एव प्रदेशानुं छेदनादि थर्ध शकतु नथी पूर्वतु अपूर्त एवप्रदेशो पर थोडा पण्य प्रभाव पडतो नथी ओण वात 'न तत्र शस्त्र गतिः संभवति जीवप्रदेशानाम् अदाहत्वात्, अच्छेद्यत्वात्' ओ पंक्तिओ द्वारा समजववामां आवी छे सू ॥ २ ॥

छाया- कति स्वल्भ भदन्त ! पृथिव्यः प्रज्ञा ? गौतम ? अष्ट पृथिव्यः प्रज्ञा, तद्यथा रत्नप्रभा, यावत् अथ रासमी इत्यत्रागमारा । इयं स्वल्भ भदन्त ! रत्नप्रभापृथिवी किं चरमा अचरमा ? चरमपद निरवशेषं भवितव्यम् यावत् वैमानिकाः स्वल्भ भदन्त ? स्पष्टाचरमेण किं चरमा, अचरमा ? गौतम ! चरमा अपि, अचरमा अपि, तद्यच्च मन्त ! तदेव भदन्त ? इति ॥ सू० ३॥

अष्टमगातकस्य तृतीयादेशक समाप्त

रत्नप्रभादि पृथिवीवक्तव्यता-

कइ ण भते ! पुड्डीओ ' इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (कइ ण भते ! पुड्डीओ पण्णात्ताओ) हे भदन्त ! पृथिवियां कितनी कही गई हैं ? (गोयमा) हे गौतम ! (अष्ट पुड्डीओ पण्णात्ताओ) पृथिवियां आठ कही गई हैं । (त जहा) जो इस प्रकार से हैं । (रयणप्पमा जाव अहे सत्तमा ईसा पम्भारा) रत्नप्रभा पृथिवी यावत् तमस्तमा पृथिवी ओर आठवीं इत्यत्रागमारापृथिवी (इमाण भते ! रयणप्पमा पुड्डी कि चरिमा अचरिमा) हे भदन्त ! यह रत्नप्रभा पृथिवी क्या चरम है, या अचरम है ? (चरिमपप निरवसेस माणियम्भं) हे गौतम ! यहाँ पर प्रज्ञापना सूत्रका सय चरमपद कह देना चाहिये । (जाव वेमाणियाण भते ! फासचरिमेणं कि चरिमा अचरिमा) हे भदन्त यावत् वैमानिक देव चरणस्पर्श द्वारा क्या चरम है या अचरम है ? (गोयमा) हे गौतम ! (चरमा वि अचरिमा वि) यावत् वैमानिक देव

रत्नप्रभादि पृथिवीनुं निरूपणम्-

कइ ण भते पुड्डीओ ' इत्यादि

सूत्रार्थ :- कइ ण भते पुड्डीओ पण्णात्ताओ ' हे भदन्त ! पृथिवीओ केटी कही है ? 'गोयमा' हे गौतम ! अष्ट पुड्डीओ पण्णात्ताओ ' पृथिवीओ आठ कही है त जहा त आ प्रभादे ए 'रयणप्पमा जाव अहे सत्तमा ईसा पम्भारा' रत्नप्रभा पृथिवी-यावत्-तमस्तमा पृथिवी ओर आठवीं इत्यत्रागमारा पृथिवी इमाण भते ! रयणप्पमा पुड्डी कि चरिमा अचरिमा ' हे भदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवी तु चरम है अचरम है ? 'चरिमपप निरवसेस माणियम्भं' हे गौतम ! अष्टमगातकस्य तृतीयादेशकस्य समाप्तम् । यावत् - वैमानिक देव चरणस्पर्श द्वारा तु चरम है अचरम है ? 'गोयमा' हे गौतम ! 'अचरिमा वि चरिमा वि'

टीका—कूर्मादिजीवाधिकारात् तदुत्पत्तिक्षेत्रस्य रत्नप्रभादेश्वरसाचरमविभाग  
वक्तव्यतामाह—‘कइ णं भंते’ इत्यादि । ‘कइ णं भंते ! पुढवीओ. पण्णत्ताओ’  
गौतमः पृच्छति—हे भदन्त ! कति कियत्त्यः खलु पृथिव्यः प्रज्ञप्ताः ? भगवानाह  
—‘गोयसा ! अट्ट पुढवीओ पण्णत्ताओ’ हे गौतम ! अट्ट पृथिव्यः प्रज्ञप्ताः ‘तंजहा  
—रयणप्पभा जाव अहेसत्तमा, ईसीपव्वभारा’ तद्यथा १ रत्नप्रभा, यावत्—२ शकंश  
प्रभा, ३ वालुकाप्रभा ४ पङ्कप्रभा ५ धूमप्रभा, ६ तमःप्रभा ७ तमस्तमःप्रभा  
अधःसप्तमी. ८ ईषत्प्राग्भारा—सिद्धशिला । गौतम पृच्छति—‘इमाणं भंते !

चरम भी है और अचरिमा भी है । (सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति )  
हे भगवन् ! जैसा आपने कहा है वह सब सर्वथा सत्य ही है—हे  
भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया सब सर्वथा सत्य ही है । इस  
प्रकार कह कर, गौतम यावत् अपने स्थानपर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ—कूर्मादि जीवोंके अधिकार से इनकी उत्पत्ति के क्षेत्र  
रूप रत्नप्रभा आदि के चरम अचरम आदि विभाग की वक्तव्यता को  
यहां सूत्रकार कहते हैं—इसमें गौतम ने प्रभु से ऐसा पूछा है—‘कइणं  
भंते ! पुढवीओ पण्णत्ताओ’ हे भदन्त ! पृथिवियां कितनी कही गई  
हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘गोयसा’ हे गौतम ! ‘अट्ट पुढवीओ  
पण्णत्ताओ’ पृथिवियां आठ कही गई हैं । ‘तं जहा’ जो इस प्रकार  
से हैं—‘रयणप्पभा जाव अहे सत्तमा, १ रत्नप्रभा, २ शकराप्रभा,  
३ वालुकाप्रभा, ४ पङ्कप्रभा, ५ धूमप्रभा, ६ तमःप्रभा, और सातवीं  
तमस्तमाप्रभा तथा आठवीं ‘ईषत्प्राग्भारा’ ईषत्प्राग्भारा—सिद्धशिला ।

यावत्—वैमानिकदेव अथवा पशु छे अने अथवा पशु छे ‘सेवं भंते ! सेवं भंते त्ति’  
डे लगवान् ! आपे ने कइ छे ते सर्वथा सत्य छे डे लगवान् तभारा द्वारा कराअवेअ  
अधणु कथन सत्य न छे अे प्रभाणे कहीने गौतम स्वामी यावत्—पैताना स्थानपर  
गिराजमान थप गया

टीकार्थ :- कुर्मान् श्वाना आधिकारिणी तेभनी उत्पत्तिना क्षेत्ररूप रत्नप्रभा

आदिना अथवा अथवा आदि विलागनु निरूपण करता सगकार कडे छे डे ‘कइणं भंते  
पुढवीओ पण्णत्ताओ’ डे लगवान् पृथिवीओ डेटली कही छे १ उत्तर—‘गोयसा’  
डे गौतम ! ‘अट्ट पुढवीओ पण्णत्ताओ’ पृथिवीओ आठ कडेली छे ‘तं जहा’  
ने आ प्रभाणे छे ‘रयणप्पभा जाव अहे सत्तमा’ १ रत्नप्रभा, २ शकंश-  
प्रभा, ३ वालुका प्रभा, ४ पङ्कप्रभा, ५ धूमप्रभा, ६ तमप्रभा, ७ तमस्तमा प्रभा,

रयण्यमा पुढवी किं १ चरिमा २ अचरिमा चरमपयं निरवसेस भाणि यच्चं' हे मदन्त ! इयं खलु रत्नप्रभा पृथिवी किं चरमा=प्रान्तवर्तिनी, किं अचरमा मध्यवर्तिनी ? महाशानाह-चरमपद निरवसेस भणितव्यम्, अत्र प्रज्ञापनायाः दशम चरमपद सप्त षष्ठ्यम् तस्यायमाश्रय चरम नाम प्रान्त पर्यन्तवर्ति तच्छेद चरमत्वम् सापेक्षम्-उक्तञ्च 'अन्यद्रव्यापेक्षया इदं चरम द्रव्यम्' इति व्यपदिश्यते, यथा पूर्वशरीरापेक्षया इदं चरम अशरीरमिति व्यपदेशो भवति, एषम् चरम् नाम अमात्र मध्यवर्ति, तदप्येतत् अचरमत्व सापेक्षम्, उक्तञ्च-अन्यद्रव्यापेक्षया इदम् अचरमं द्रव्यम् इति व्यपदिश्यते, 'यथा-अन्य

अत्र गीतमम्बामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'रयण्यमा पुढवी किं चरिमा अचरिमा, निरवसेसं भाणियच्चं' हे मदन्त ! यह रत्नप्रभा पृथिवी क्या चरम प्रान्तवर्तिनी है कि अचरम मध्यवर्तिनी है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं- हे मदन्त ! यहाँ पर प्रज्ञापनाका दशवाँ चरमपद सम्पूर्ण कहना चाहिये । वसक्ता यह भाशय है- प्रान्तवर्तीका नाम चरम है-यह चरमता सापेक्ष होती है, कहा भी है- 'अन्य द्रव्यापेक्षया इदं चरमं द्रव्य' अन्य द्रव्यकी अपेक्षा से ही यह चरम-द्रव्य है-ऐसा कहा जाता है- जैसे पूर्व शरीरकी अपेक्षा यह चरम शरीर है ऐसा कहा जाता है इसी तरह अचरम यह नाम अप्रान्त मध्यवर्तीका है । यह अचरमपन भी सापेक्ष होता है । कहाभी है- 'अन्य द्रव्यापेक्षया इदं अचरम द्रव्यम्' अन्य द्रव्यकी अपेक्षासे ही यह द्रव्य अचरम द्रव्य है ऐसा कहा जाता है । जैसे अन्य शरीर की अपेक्षा से यह मध्य शरीर है ऐसा कहा जाता है । तथा-च

प्रभा ( ४५२ ) अत्र गीतमम्बामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'रयण्यमा पुढवी किं चरिमा अचरिमा निरवसेसं भाणियच्चं' हे मदन्त ! यह रत्नप्रभा पृथिवी का चरम-अंतवर्तीनी की है अचरम-मध्यवर्तिनी की ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं- हे मदन्त ! यहाँ पर प्रज्ञापनाका दशवाँ चरमपद सम्पूर्ण कहना चाहिये । वसक्ता यह भाशय है- प्रान्तवर्तीका नाम चरम है-यह चरमता सापेक्ष होती है, कहा भी है- 'अन्य द्रव्यापेक्षया इदं चरम द्रव्यम्' अन्य द्रव्यकी अपेक्षासे ही यह चरम द्रव्य अचरम द्रव्य है ऐसा कहा जाता है । जैसे अन्य शरीर की अपेक्षा से यह मध्य शरीर है ऐसा कहा जाता है । तथा-च

शरीरपेक्षया मध्यशरीरम्' इति व्यवहारो भवति, तथा च रत्नप्रभापृथिवीसम्बन्धे एकवचनान्तबहुवचनान्तचरमाचरमविषयकाश्चत्वारः प्रश्नाः, चरमान्तप्रदेश-चरमान्तप्रदेशयोश्च द्वौ प्रश्नौ, इति सर्वे षट् प्रश्नाः तत्र एकवचनान्तचरमाचरमपदद्वयप्रश्नद्वयं मूले प्रदर्शितमेव, आ बहुवचनान्त चोणपदचतुष्टयप्रश्नचतुष्टयमेवं बोध्यम्- 'चरिमाइं ३, अचरिमाइ ४, चरिमंतपएसा ५, अचरिमंतपएसा ६ गोयमा ! इमाण रयणप्पभापुढवी नो चरिमा, १, नो अचरिमा २, नो चरिमाइ ३, नो अचरिमाइं ४, नो चरिमंतपएसा ५ नो अचरिमंतपएसा, ६ नियमा अचरिमं, चरमाणि य, चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य' इत्यादि । किं चरमाः, अचरमाः, चरमान्तप्रदेशाः, अचरमान्तप्रदेशाः ?

रत्नप्रभा पृथिवी के सम्बन्धमें एकवचनान्त बहुवचनान्त चरम अचरम विषयक चार प्रश्न और चरमान्त प्रदेश एवं अचरमान्त प्रदेश संबंधी दो प्रश्न इस प्रकार सब ६ प्रश्न होते हैं । इनमें एक वचनान्त चरम और अचरम इन दो पद संबंधी दो प्रश्न तो मूल में दिखाही दिये गये हैं । बाकी बहुवचनान्त चार पदों के चार प्रश्न इस प्रकार ले हैं-चरिमाइ अचरिमाइ चरिमंतपएसा अचरिमंतपएसा ? गोयमा ! इमाण रयणप्पभा पुढवी नोचरिमा नोअचरिमा, नो चरिमाइं, नो अचरिमाइ नो चरिमंतपएसा, नोअचरिमंतपएसा, नियमा अचरिमं चरिमाणिय चरिमंतपएसा, य अचरिमंत पएसा य' इत्यादि-इसका तात्पर्य यह है कि- गौतम ने प्रश्नु से ऐसा पूछा है कि अदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवी क्या प्रान्तवर्तिनी है ? या अप्रान्तवर्तिनी - मध्यवर्तिनी है ? या यह रत्नप्रभा पृथिवी

रीते रत्नप्रभा पृथ्वीना स भधमा ओक वचनान्त षडु वचनान्त, चरम, अचरम, विषयना चार प्रश्न अने चरमान्त प्रदेश अने अचरमान्त प्रदेश संधी के प्रश्न अरीते छ प्रश्नो थाय छ तेमा ओक वचनान्त चरम अने अचरम ओ ओ पद संधी के प्रश्न तो भूणधीण छडेवामा आया छ णाडी णडुवचनान्त चार पदेना चार प्रश्न आ प्रभाणे छे ' चरिमाइं अचरिमाइं चरिमंतपएसा अचरिमंतपएसा ? गोयमा इमाण रयणप्पभा पुढवी नोचरिमा नोअचरिमा नोचरिमाइं नोअचरिमाइं नोचरिमंतपएसानोअचरिमंतपएसा नियमा अचरिमं चरिमाणिय चरिमंतपएसा य अचरिमंतपएसा य इत्यादि' तेनु तात्पर्य ओ छे के गौतम स्वाभीअे प्रश्नुने ओषु पूछुं छे छे लगवान् । रत्नप्रभा पृथ्वी शु प्रातवतीनी छे के अप्रातवतीनी-मध्य वर्तीनी छे ? अगर आ रत्नप्रभा पृथ्वी चरमान्त प्रदेशवाणी छे के अचरमान्त



गौतम ! इयं स्वच्छ रत्नप्रमापृथिवी नो चरमा, नो अक्षरमा,  
 नो घरनान्तप्रदेशाः, नो अक्षरमान्तप्रदेशाः, किन्तु नियमात् अक्षरमम्,  
 चरमाणि च चरमान्तप्रदेशाश्च, अक्षरमान्तप्रदेशाश्च, तत्र चरमा  
 पृथिवीन्तर्भवित्वात् अन्ताक्षरमान्तास्तेषां प्रदेशान्तया चरमान्तप्रदेशाः, एवम्  
 अक्षरमम् एषान्तो विभागोऽक्षरमान्तस्तस्य प्रदेशा अक्षरमान्तप्रदेशाः, महावतो  
 'ना चरमा'—इत्याद्युत्तरस्यायमाशयः - यदि रत्नप्रमाया मध्येऽन्या पृथिवीस्याद्यदा  
 गस्याक्षरनत्वां वक्तुं पार्यतापि, किन्तु नान्या पृथिवी समध्यवर्तिनी वर्तते  
 अतो न चरमा रत्नप्रमा, चरमत्वस्य सापेक्षतया अप्रापेक्षणीयान्तराभावात्,  
 एव यदि रत्नप्रमाया वायताऽया पृथिवी स्यात् तदा तदपेक्षया रत्नप्रमाया  
 अक्षरमत्वं वक्तुं पार्यतापि किन्तु नाया वदिरस्ति अतोऽक्षरमापि रत्नप्रमा  
 न मन्वितुमर्हति, तथा च रत्नप्रमा न पश्चिमा, नापि मध्यमा इति भावः,

अक्षरमान्त प्रदेशोऽवाली है ? या अक्षरमान्त प्रदेशोऽवाली है ? इस  
 प्रकार चार यहचषनान्त चरमाक्षरमपद विषयक प्रश्न हैं ।  
 मो इन प्रश्नोंका उत्तर प्रश्नु ने ऐसा दिया है कि गौतम !  
 यह रत्नप्रमा पृथिवी न प्रान्तवर्तिनी है और न अप्रान्त मध्यवर्तिनी  
 है । क्यों कि रत्नप्रमा पृथिवी के मध्य में यदि अन्य पृथिवी होती  
 तो उसमें चरमता कही सी जा सकती थी, परन्तु पृथिवी पात तो  
 है नहीं—क्यों कि उसके मध्य में आर कोई दूसरी पृथिवी नहीं है ।  
 इसलिए रत्नप्रमा पृथिवी में चरमता नहीं आती है । क्यों कि चरमता  
 यह धर्म सापेक्ष होता है । अपेक्षणीय के अभाव में चरमता उसमें  
 नहीं मानी जाती है । इसी तरह से यदि रत्नप्रमा पृथिवी के बाहर  
 की ओर अन्य कोई पृथिवी होती तो उसकी अपेक्षा यह रत्नप्रमा  
 पृथिवी मध्यवर्तिनी कहलाती—किन्तु उसके पछिले और उसके पूर्वमें

प्रदेशवाली है आर रत्न चार यहचषनान्त चरमा अक्षरम पद विषयक प्रश्न कहां है ते  
 प्रश्नका उत्तरमा प्रश्नु ने दे के दे गौतम ! आ रत्नप्रमा पृथिवी महावतीनी नहीं  
 है न महावतीनी—मध्यम वतीनी पक्ष नहीं है मध्य अक्षरप्रमा पृथिवीनी मध्यमा के  
 अथ पृथिवी होय तो तमा अक्षरमता ही काय है परंतु जेरी वत नहीं है मध्य  
 नी मध्यमा वीछ है मध्य वतीनी नहीं है मध्यमा यदि रत्नप्रमा पृथिवीमा अक्षरमता अक्षरवती  
 नी अक्षरके अक्षरमता के धर्म सापेक्ष होय है अपेक्षणीयता अभावमा अक्षरमता तेमा  
 ही काय नहीं है रत्न प्रमा पृथिवीनी अक्षरवती तथा वीछ होय पृथिवी  
 होय तो त अपेक्षणीय ते रत्नप्रमा पृथिवी ते मध्यवर्तीनी अक्षरवती किंतु तेनी अक्षरवती है

एव यदा तस्याश्चरमव्यपदेशो न संभवति, तदा 'चरमाणि' इति बहु-  
वचनान्तव्यपदेशस्य का कथा, तथैव 'अचरमाणि' इति व्यपदेशस्यापि कथा  
दूरे आस्ताम्, तथा चरमत्वस्य अचरमत्वस्य चाभावेन तत्प्रदेशकल्पनाया  
अप्यत्र एवेत्यभिप्रायेणाह-नो चरमान्तप्रदेशा नो वा अचरमान्तप्रदेशा,  
रत्नप्रभा पृथिवी इत्याशयः, किन्तु नियमात् नियमतः अचरमञ्च, चरमाणि च  
भक्षितुमर्हन्ति, तथाहि यद्यपि वस्तुगत्या उक्तयुक्तैः रत्नप्रभायाः चरमा-  
चरमत्वं न समरति तथापि शिष्यजनानुग्रहाय यदि रत्नप्रभायाः पृथिव्या  
असंख्यातप्रदेशाद्गणनाया अनेकावयवविवक्षा क्रियते तदा रत्नप्रभायाः  
प्रान्तभागावस्थितखण्डानामनेकत्वेन विवक्षया 'चरमाणि' तानि  
प्रान्तभागखण्डानि इति बहुवचनान्ततया व्यपदेशुः शक्यते, तत्प्रान्तभाग-

-पीछे-कोई दूसरी पृथिवी है नहीं- अतः यह अचरमा- मध्यवर्तिनी  
भी नहीं कही जा सकती । इस तरह यह न प्रान्तवर्तिनी है और  
न मध्यवर्तिनी है । अतः जब इसमें एकवचनरूप चरमताका व्यपदेश  
नहीं बन सकता है तो फिर 'चरमाणि'ऐसे बहुवचनान्त चरमपदका  
प्रयोग भी वहाँ कैसे बन सकता है । अर्थात् नहीं बन सकता है ।  
चरमता अचरमताके अभावसे तत्प्रदेश कल्पना का भी अर्थात् चरमा-  
चरमजन्य विभागका भी अभाव वहाँ आजाता है. इसी अभिप्रायको  
लेकर 'नो चरमान्तप्रदेशाः नो वा अचरमान्तप्रदेशाः' ऐसा कहा है-  
बहुवचनकी अपेक्षासे रत्नप्रभापृथिवी न चरमान्त प्रदेशरूप है और  
न अचरमान्त प्रदेशरूप है । किन्तु जब उसमें असंख्यात प्रदेशाव-  
गाहना मानी जाती है- तब असंख्यात प्रदेशोंमें उनकी स्थिति  
होनेसे वहाँ अनेक अवयवोंकी विवक्षा हो जाती है- इसलिये 'नियमात्

तेनी पछीथी पीछ डेछ पृथ्वी नथी तेठला भाटे तेने अचरमा-मध्यवर्तीनी पणु कड्डी  
शकाय नही ऐ रीते ते प्रांतवर्तीनी नथी अने मध्यवर्तीनी नथी ऐथी तेमा अेक  
वचनरूप अचरमताने। व्यपदेश अनते नथी तो पछी 'चरमाणि' ऐवा अड्डु  
वचनान्त अचरम पढने। प्रयोग पणु डेवी रीते अनि शके अर्थात् अनि शकते नथी  
अचरमता अचरमताना अलावमा तत् प्रदेश कल्पनाने। पणु अर्थात् अचरमा अचरम जन्य  
विभागने। पणु अलाव आवी नय छे ऐ अलिप्रायने लभने 'नो चरमान्त प्रदेशा  
नो अचरमान्त प्रदेशा' ऐम कड्डु छे अड्डुवचननी अपेक्षाअे रत्नप्रभा पृथ्वी अचरमान्त  
प्रदेशरूप नथी अने अचरमान्त प्रदेशरूप पणु नथी किंतु न्याये तेमा असंख्यात्  
प्रदेशवगाहता मानवामा आवे छे त्पारे असंख्यात् प्रदेशवगाह होवाथी अर्थात् आकाशना  
असंख्यात् प्रदेशां तेनी प्रदेशां तेनी स्थिति होवाथी त्या अनेक अवयवानी विवक्षा

अवस्थित - तदध्यासितस्रोत्रखण्डानां तयाविभक्तिश्चिद्वैकपहिषामयुक्तत्वात्, अथ च तन्मध्यवर्तिना महतः क्षेमस्तुष्टस्य एकरूपेण विभक्तवचरमम्' तत् रत्नप्रभाक्रांत मध्यवर्तिं स्रोत्रखण्डम् इति एकरूपवचनान्तत्वात् व्यपदेशो भवितुमर्हति, रत्नप्रभायाश्च पृथिव्यान्तदुभय समुदायरूपत्वात्, अन्यथा तदभावप्रसङ्गात्, प्रदेशविक्रान्तापरिक्लपनया तु चरमान् प्रदेशाः, अचरमान्त प्रदेशोश्च भवितुं मर्हन्ति, तथाहि-रत्नप्रभायाये चास्त्रखण्डप्रदेशास्ते चरमान्तप्रदेशाः, ये च रत्नप्रभायाः मध्यमन्व्यप्रदेशास्तेऽचरमान्तप्रदेशा इति व्यपदेशेषु पार्यते, इत्यनेन एकान्तवादनिरसनप्रधानेन यथोक्तं

अचरम, चरमाणि च भवितुमर्हति' यह रत्नप्रभापृथिवी अचरमरूपं बहुवचनान्त चरमरूप, चरमान्त प्रदेशरूप और अचरमात् प्रदेशरूप कही जा सकती है। तात्पर्य ऐसा है- कि रत्न प्रभाके प्रात भागमें अवस्थित खडोंमें जव अनेकत्वकी विभक्ता की जाती है, तब यह पर 'चरमाणि' ऐसे बहुवचनका प्रयोग हो सकता है तथा मध्यमावर्ती खंड जव एकरूपसे विभक्षित होता है, तब वहां एकरूपका 'अचरम' ऐसे पदका प्रयोग हो सकता है। तथा प्रदेशदृष्टिकी विभक्ता से चरमान्त प्रदेश और अचरमान्त प्रदेशरूपसे भी यह कही जा सकती है। तात्पर्य कहनेका यही है कि रत्नप्रभा पृथिवीके परिच्छेद और बादमें कोई दूसरी पृथिवी वगैरह बीज नहीं है। इसलिये न यह उसकी अपेक्षा चरम कही जा सकती है और न अचरम कही जा सकती है। जव उसमें चरम और अचरमका व्यवहार नहीं होता है तो यह फिर चरमान्त प्रदेशरूप और अचरमान्त प्रदेशरूप भी

यस्य अथ ये क्षेत्रा भादे निपमात् अचरम - चरमाणि च भवितुमर्हति ते रत्नप्रभा पृथ्वी अत्यरमरूप बहुवचनानां चरमरूप चरमान्त प्रदेशरूप अने अचरमान्त प्रदेशरूप कही शक्य है कहेवाने हेतु ये क्षेत्र रत्नप्रभाका प्रातभागमें स्थिता अराम अनेकत्वकी विभिक्षा शक्य है त्पारे तथा 'चरमाणि' अनेक बहुवचनवाला प्रयोग का अर्थ है मध्यमावर्ति पद अथारे क्षेत्ररूपकी विभक्षित हेतु त्पारे त्मां अनेक वचन 'अचरम' अनेक पहना प्रयोग कही शक्य है तथा प्रदेशदृष्टिकी विभक्षायी चरमान्त प्रदेश अने अचरमान्त प्रदेशरूपकी पक्षु तेने कही शक्य है तेनु तात्पर्य अने रत्नप्रभा पृथ्वीकी परिच्छेदा अने पृथ्वीकी दृष्टि वीछ पृथ्वी निजेर बीज नहीं अने ते तेनी अपेक्षाके चरम कही शक्य नहीं अने अचरम पक्षु कही शक्य नहीं अथारे तेमां चरम अने अचरमने बहेवार नहीं बते ते पक्षु अचरमान्त प्रदेशरूप अने

निर्वचनरूपानेकान्तवादेन अवयवावयविरूपं, तयोश्च भेदाभेदः, इति विजयते  
 अनेकान्तवादः, अथ प्रज्ञापनायास्तदवधिमाह - 'जाव-वेमाणिया णं भते !  
 फासचरिमेण किं चरिमा, अचरिमा ? गोयमा ! चरिमा वि, अचरिमा वि'  
 नहीं कही जा सकती है परन्तु ऐसी मान्यता एकान्ततः नहीं है-  
 क्योंकि वह रत्नप्रभापृथिवी लोकाकाशके असंख्यात प्रदेशोंमें अवगाढ  
 है. अतः इस अपेक्षा उसमें चरमभागावस्थित खंडोंकी अनेकतासे  
 'चरमाणि' इस बहुवचनान्त चरम शब्दका व्यपदेश हो सकता है.  
 तथा जो आकाशप्रदेश उन प्रान्तभागोंमें अवस्थित हैं वे तथाविध  
 एक परिणामरूपसे युक्त हैं-इस लिये तन्मध्यवर्ती क्षेत्रखण्डमें एकता  
 होनेसे वह 'अचरम' ऐसे एक वचनान्त शब्दसे भी कही जा सकती  
 है। चरमान्त प्रदेशरूप और अचरमान्त प्रदेशरूप वह प्रदेशों की  
 विवक्षाकी परिकल्पनासे हो जाती है। रत्नप्रभापृथिवीके जो बाह्य-  
 खण्डके प्रदेश हैं वे चरमान्त प्रदेश हैं और जो मध्यखण्डके  
 प्रदेश हैं वे अचरमान्त प्रदेश हैं। इस एकान्तवादकी निगसनता  
 बतानेवाले और यथार्थ अर्थकी प्ररूपणा करनेवाले अनेकान्त-  
 वादसे यह बात पुष्ट की गई है कि रत्नप्रभापृथिवीमें और उसके  
 अवयवोंमें कथञ्चित् अवयवावयवी रूपता है और कथञ्चित् भेदाभेद  
 रूपता है। इस तरहके कथनसे यहाँ अनेकान्तवादको विजयशील  
 प्रकट किया गया है। अब गौतम स्वामी प्रथुसे ऐसा पूछते हैं-

अचरमान्त प्रदेशरूप कही शक्य नहीं पशु अथवा मान्यता एकान्ततः नहीं केमके ते  
 रत्नप्रभा पृथ्वी लोकाकाशना असंख्यात प्रदेशोमा अवगाहन करे छे अटला भाटे ते  
 अपेक्षाअपे तेमां अरमभागावस्थित भंडानी अकताथी 'चरमाणि' अथवा बहुवचनना  
 शब्दने व्यपदेश करी शक्य छे तथा जे आकाश प्रदेश ते प्रात भागोमा रडेला छे ते  
 प्रकारना अक पण्डितमरुथी युक्त छे अटले तन्मध्यवर्ती क्षेत्र भंडमा अकता होवाथी ते  
 'अचरम' अथवा अक वचनान्त शब्दथी पशु कही शक्य छे अचरमान्त प्रदेशरूप अने  
 अचरमान्त प्रदेशरूप ते प्रदेशोनी विविक्षानी परिकल्पनाथी कल्पी शक्य छे रत्नप्रभा  
 पृथ्वीना जे बाह्य भंडना प्रदेशो छे ते अचरमान्त प्रदेश छे अने जे मध्यभंडना प्रदेश छे  
 ते अचरमान्त प्रदेश छे. आ अकान्तवादीनी निरस्तता अताववावाणा अने यथार्थ अर्थनी  
 प्ररूपणा-करवावाणा अनेकान्त वादीथी आवात पुष्ट करवामा आवी छे के रत्नप्रभा  
 पृथ्वीमां अने तेना अवयवोमा कष रीते अवयवावयवी रूपता छे अने कष रीते भेदाभेद  
 रूपता छे अरीतना कथनथी अर्द्धीआ अनेकान्त वादीने विजयशील प्रगट करवामा आव्यो छे.

हे मरन्त ! यावत्- पृथिवीकायिकाद्येकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोणिक-मनुष्य-भवनपति-धानव्यन्तर ज्योतिषिक वैमानिकाः खलु स्पर्शचरमेण किं चरमाः प्रान्तवर्तिनः ? किं अचरमाः मध्यवर्तिनो वर्तन्ते ? भगवानाह- हे गौतम ! पृथिवीकायिकादियावद् वैमानिकाः चरमाः प्रान्तवर्तिनोऽपि, अचरमाः मध्यवर्तिनाऽपि व्यदृश्यन्ते, तथाहि- ये तावत् वैमानिकवयमवचनं स्पर्शं न लप्स्यन्ते पुनस्तत्रानुत्पादेन मुक्तिगमनार्थं वैमानिकाः स्पर्शचरमेण 'चरमाः' इति व्यदृश्यन्ते यत् वैमानिकमवसम

'आद्य वैमाणियाणं भते ! फासचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ? गोयमा चरिमा वि अचरिमा वि' हे भटन्त ! यावत् पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीव द्वीन्द्रिय भीव, त्रीन्द्रिय त्रीव, चतुरिन्द्रिय जीव, पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्गोणिक जीव, मनुष्य, भवनपतिदेव, धानव्यन्तरदेव, ज्योतिषिकदेव, और वैमानिकदेव ये स्पर्शचरमसे प्रान्तवर्ती हैं ? या मध्यवर्ती हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं- हे गौतम ! पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवसे लेकर वैमानिकदेव तक सब जोव चरम-प्रान्तवर्ती भी हैं और अचरम-मध्यवर्ती भी हैं । जो वैमानिकदेव वैमानिक अव संवधी स्पर्शको पायगे और फिर वहाँ पर अनुत्पादित मुक्ति गमन करेगे वे वैमानिकदेव स्पर्शचरमसे 'चरम' इस रूपसे व्यवहृत किये जाते हैं । जो वैमानिकदेव वैमानिक अव संवधी स्पर्शको प्राप्त करेगे वे वैमानिकदेव 'अचरम' इस रूपसे व्यवहृत किये जाते हैं ।

५६ - 'आद्य वैमाणियाणं भते फासचरिमेणं किं चरिमा अचरिमा ? गोयमा चरिमा वि अचरिमा वि' हे भटन्त ! पृथिवीकायिक आदि एकेन्द्रिय जीव, द्वीन्द्रिय जीव, त्रीन्द्रिय जीव, चतुरिन्द्रिय जीव, पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्गोणी जीव, मनुष्य, भवनपति देव, धानव्यन्तर देव, ज्योतिषिक देव, और वैमानिक देव, जो स्पर्शचरमसे प्रान्तवर्ती हैं वे मध्यवर्ती हैं ? उत्तरमा प्रभु कहते हैं- हे गौतम ! पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय जीवसे लेकर वैमानिक देव पर्यन्त सबका एवो अचरम-प्रान्तवर्ती प्रभु है और अचरम-मध्यवर्ती है जो वैमानिक देव वैमानिक अव संवधी स्पर्शने फमरी और वही तब अनुत्पादित मुक्ति गमन करेगे ते वैमानिक देव स्पर्शचरमसे 'चरम' को रूपसे व्यवहृत करणा करवाया जाना है और जो वैमानिक देव वैमानिक अव संवधी स्पर्शने प्राप्त करेगे ते वैमानिक देव 'अचरम' को रूपसे व्यवहृत करणा है अतमा अजगत्तना

स्पर्श पुनर्लप्स्यन्ते ते वैमानिकाः 'अचरमाः' इति व्यवह्रियन्ते, अन्ते गौतमो भगवद्वाक्यं स्वीकुर्वन्नाह- 'सेवं भंते! सव भंते' ति हे भदन्त! तदेवं-भगव दुक्त सर्वं सत्यमेव, हे भदन्त ! तदेवं भगवदुक्त सर्वं सत्यमेवेति भावः ॥सू० ३॥

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्वल्लभ-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललित-कलापालापक-प्रविशुद्ध-गद्यपद्यनैकग्रंथनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्री-शाहूच्छत्रपति-कोल्हापुरराज-प्रदत्त "जैनशास्त्राचार्य" पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-वालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैन-धर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां "श्रीभगवतीसूत्रस्य" "प्रमेयचन्द्रिका"ऽऽख्यायां व्याख्यायां अष्टमशतकस्य तृतीयोद्देशकः

समाप्तः ८-३



अब अन्तमें भगवानके वाक्यको स्वीकार करते हुए कहते हैं 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! ति' हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सब सर्वथा सत्य है । हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सब सर्वथा सत्य है । इस प्रकार कह कर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ॥सू० ३॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'भगवती' सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवें शतकका तृतीय उद्देशक समाप्त ८-३



वाङ्मयानो स्वीकार करतां गौतमस्वामी कहे छे हे 'सेवं भंते सेवं भंते ति' हे भदन्त ! आपे ने कहु छे ते सर्वथा सत्य छे, आपे ने कहुं छे ते सर्वथा सत्य छे. अबु कही गौतम स्वामी पाताना स्थानपर विराजमान थप गया ॥ सू. ३ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'भगवती' सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याका आठवां शतकका तृतीये उद्देशके समाप्त. ॥ ८-३ ॥

## चतुर्थोद्देशक प्रारभ्यते ।

अष्टमशतकस्य चतुर्थोद्देशकस्य सक्षिप्तविषयविवरणम्

क्रियामकारा, ताम क्रिया पञ्चविधाः- कायिकी, आधिकारिणी, प्राद्वेषिकी, पारिस्तापनिकी, प्राणानिपातिकी क्रियाश्च, तामां भवान्तरमेदाम-आरम्भिकी, पाग्निद्विकी, अपत्याख्यानिकी, मायाप्रत्ययिकी, मिथ्यादर्शन-प्रत्ययिकी च, कायिकी द्विविधा अनुपरतकायिकी, दुष्प्रयुक्तकायिकी च, आपि करणिनी क्रियापि द्विविधा-संयोजनाधिकारिणी, निर्धर्तनाधिकारिणी च । सर्वासाञ्च अल्पसङ्ख्येण वक्तव्यतानिरूपणम् ।

### अष्टम शतक का चतुर्थ उद्देशक-

इस अष्टम शतकके चतुर्थ उद्देशकमें जो विषय कहा गया है उसका विवरण संक्षेपसे इस प्रकार है- क्रिया प्रकार कथन । ये क्रियाएँ कायिकी, आधिकारिणी, प्राद्वेषिकी पारिस्तापनिकी और प्राणानिपातिकी इस तरहसे पांच प्रकारकी होती हैं और भवान्तर मेद कितने होते हैं- इन सबका कथन; आरम्भिकी, परिग्रहीता, अपत्याख्यानिकी मायाप्रत्ययिकी और मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी क्रियाओंका कथन कायिकी अनुपरतकायिकी, दुष्प्रयुक्तकायिकी क्रियाके मेदसे दो प्रकारकी है- ऐसा कथन आधिकारिणी क्रिया संयोजनाधिकारण और निर्धर्तनाधिकारणके मेदसे दो प्रकारकी है ऐसा कथन तथा सब क्रियाओंके अल्प बहुत्वका निरूपण ।

### आठवां शतकना चौथा उद्देशक-

आठम शतकना चौथा उद्देशकमां ७ विषयानुं निरूपणं इत्यादिं व्याख्यां छे तेना दृक सार नीचे प्रमाणे छे- क्रिया-प्रकारानुं कथनं कायिकी, आधिकारिणी प्राद्वेषिकी, पारिस्तापनिकी, कने प्राणानिपातिकी आ प्रमाणे क्रियानां पांच मुख्य प्रकारानुं तद्य तेषाम् उपलक्षणानुं कथनं आरम्भिकी, परिग्रहीता, अपत्याख्यानिकी, मायाप्रत्ययिकी कने मिथ्यादर्शन प्रत्ययिकी क्रियाओंनुं कथनं कायिकी क्रियानां नीचे प्रमाणे छे के छे दोष छे (१) अनुपरतकायिकी कने (२) दुष्प्रयुक्तकायिकी आधिकारिणी क्रिया पञ्च के प्रकारनी छे। छे- (१) संयोजनाधिकारण, कने (२) निर्धर्तनाधिकारण। यथी क्रियाओंना कथनं वक्तव्यनुं निरूपणं आ उद्देशकमां कथुं छे

कायिक्यादि वक्तव्यता-

मूलम्-रायगिहे जाव एवं वयासी-कइ णं भंते ! किरियाओ पणत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पणत्ताओ-तंजहा-काइया, अहिगरणिया, एवं किरियापयं निरवसेसं भाणियव्वं जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ । सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ॥ सू० १ ॥

छाया-राजगृहे यावत्-एवम् अवादीत्-कति खलु भदन्त ! क्रियाः प्रज्ञप्ताः? गौतम ! पञ्चक्रिया प्रज्ञप्ताः, तद्यथा-कायिकी, आधिकरणिकी, एव क्रियापदं निरवज्ञेयं मणितव्यम् यावत्-मायाप्रत्ययिक्यः, क्रियाः विशेषाधिकाः, तदेव भदन्त ! तदेव भदन्त ! उति ॥ सू० १ ॥

कायिकी आदि वक्तव्यता

‘रायगिहे जाव एवं वयासी’ इत्यादि

सूत्रार्थ-(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृहनगरमें यावत् गौतमने ऐसा पूछा-(कइ णं भंते ! किरियाओ पणत्ताओ) हे भदन्त ! क्रियाएँ कितने प्रकारकी कही गई है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंच किरियाओ पणत्ताओ) क्रियाएँ पांच कही गई हैं (तंजहा) जो इस प्रकारसे हैं । (काइया, अहिगरणिया, एवं किरियापदं निरवसेसं भाणियव्वं० जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ) कायिकी, आधिकरणिकी-इस प्रकार यहाँ पर प्रज्ञापना सूत्रका क्रियापद यावत् मायाप्रत्ययिकी क्रिया विशेषाधिक है यहाँ तक कहना चाहिये । (सेवं भंते ! सेव

ऋषिकी आदि क्रियानुं विवेचन-

‘रायगिहे जाव एवं वयासी’ इत्यादि-

सूत्रार्थ-(रायगिहे जाव एवं वयासी) ‘राजगृहं नगरमां प्रभु पयार्थं’, आ उच्यते शः करीने ‘गौतमे प्रभुने आ प्रभाणे पृच्छथु , त्या सुधीनु समदत्त उच्यते अर्हो अहं उच्यते ( कइणं भंते ! किरियाओ पणत्ताओ ? ) हे भदन्त ! क्रियाओ इत्यादि प्रकारनी कही छे ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंच किरियाओ पणत्ताओ) क्रियाओ पांच प्रकारनी कही छे (तंजहा) ते पांच प्रकारे नीचे प्रभाणे छे-(काइया, अहिगरणिया, एवं किरियापदं निरवसेसं भाणियव्वं जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ) ‘ऋषिकी, आधिकरणिकी’, आ उच्यते शः करीने ‘मायाप्रत्ययिकी क्रिया विशेषाधिक है यहाँ तक कहना चाहिये । (सेवं भंते ! सेव



टीका- तृतीयादेशके वैमानिका प्रातपादिताः, ते च क्रियायन्तो मरन्ति अतश्चतुर्षोऽप्येके क्रियायुक्तव्यतामाह - 'रापगिहे' इत्यादि । 'रापगिहे जाव एष बयासी-कृष्ण मते ! किरियाभो पण्णत्ताभो ?' राजगृह यावत् नगरे स्थामी समबद्धत', भ्रमण मगधन्त चन्दिदु पपत् निर्गच्छति, प्रतिगता पर्यत् सत् शुभ्रपमाणा नमस्यन् दिनयन प्राञ्जलिपुत्रो गौतम मगधन्तस् एवं बह्यपमाप्रक्रमेण अवादीत् - हे मदन्त ! कति कियत्प्रकाराः स्वच्छ क्रियाः प्रहृष्टाः ? मगधानाह- 'गोयमा ! पंच किरियाभो पण्णत्ताभो' हे गौतम !

भते ! चि) हे मदन्त । आपका कथन सर्षया सत्य ही है- हे मदन्त ! आपका कथन सर्षया सत्य ही है- इस प्रकार कह कर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ।

टीकार्थ- तृतीय उद्देशकमें वैमानिकदेशोंका प्रतिपादन किया गया है । ये क्रियावाले होते हैं । इस क्रिये इस चतुर्थ उद्देशकमें क्रिया संबंधी वक्तव्यताका कथन सूत्रकारने किया है 'रापगिहे जाव एष बयासी' राजगृहनगरमें यावत् स्थामी भाये- भ्रमण भगवान् को बदना करनेके लिये परिपक्व गई और धर्मोपदेश सुनकर अपने २ स्थान पर चली गई इतनेमें धर्मतत्त्वको सुननेके भूमिलापी गौतमने प्रसूकी सेवा करते हुए दोनों हाथ जोडकर यद्ये दिनयके साथ-उनसे ऐसा पूछा- 'कइ ण भंते ! किरियाभो पण्णत्ताभो' हे मदन्त ! क्रियाएँ कितनी प्रकारकी कही गई हैं । उत्तरमें प्रसुने उनसे ऐसा कहा गोयमा ! हे गौतम 'पंच किरियाभो पण्णत्ताभो क्रियाएँ पांच कही गई हैं 'तजहा' जो इस तरहसे हैं- 'कइया,

अमस्त इत्येन षष्ठी अहंत्वे कर्तुं (सेव मते ! सेवे मते ! चि) हे मदन्त ! आपनुं कथन सवथा सत्य हे मदन्त ! आ विषयानु आपी न प्रतिपादन कर्तुं हे त सवथा हे आ प्रमाद्ये कहीने प्रसुने वल्लु नभरकार करीने जीतम स्वामी पीताने स्थान देखी गया

टीका- तृतीया उद्देशकमा वैमानिक देशानु प्रतिपादन करवायां आप्तु हे तेषो द्विवाप्यो हेतु हे तेषी आ बोधा उद्देशकमा सूत्रकारे क्रिया विषेनी वक्तव्यतानुं कथन कर्तुं हे 'रापगिहे जाव एष बयासी' राजगृह नगरमां महावीर प्रसु पदायाः भ्रमण भगवान् महावीरने वल्लु नभरकार करवा भाये परिपक्व नीकणी धर्मोपदेश सुनियाने सोऽपि पीत पीताना स्थाने आस्था गया त्वाए जाइ धर्मतत्त्वने बह्यपानी कलिबालावत्या जीतमस्वामीने प्रसुनी सेवा करता करता, जन्ने दाव जोडीने दिनयपूर्वकं आ प्रमाद्ये पूछु- 'कइ ण मते ! किरियाभो पण्णत्ताभो ?' हे मदन्त ! क्रियायानां तेषां प्रश्न कवा हे ? महावीर प्रसुने क्त्तु- 'गोयमा !' हे जीतम !

पञ्चविधाः खलु क्रियाः प्रज्ञप्ताः 'तंजहा- काड्या, अहिगरणिया, एवं किरियापयं निरवसेसं भाणियव्वं जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ' तद्यथा कायिकी, आधिकरणिकी, एवम्-एतेन क्रमेण, क्रियापद प्रज्ञापनाया द्वाविशतितमपद निरवशेष सर्वं भणितव्यम्, तथाचोक्तं प्रज्ञापनायाम्- 'काड्या, अहिगरणिया, पाओसिया, पारियावणिया, पाणाडवाय किरिया' इत्यादि, कायिकी, आधिकरणिकी, प्राट्टेपिकी, पारितापनिकी, प्राणातिपातक्रिया च, इत्यादि. — तदवधिमाह- यावत्- मायाप्रत्ययिक्यः क्रियाः विशेषाधिकाः, तथा च प्रज्ञापनाया अन्तिमसूत्रम्- 'एयासि णं भंते ! आरंभियाणं, परिगाहियाणं, अपच्चक्खाणियाणं, मायावत्तियाणं,

अहिगरणिया. एवं किरियापयं निरवसेसं भाणियव्वं जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ' कायिकीक्रिया, आधिकरणिकी क्रिया इसी क्रमसे यहां पर प्रज्ञापना का क्रियापद जो कि २२वां पद है सम्पूर्ण कहना चाहिये । तथाचोक्त प्रज्ञापनायाम्- काड्या, अहिगरणिया पाओसिया पारियावणिया पाणाडवायकिरिया' इत्यादि कायिकी, आधिकरणिकी, प्राट्टेपिकी, पारितापनिकी और प्राणातिपात क्रिया यहां जो ऐसा कहा गया है कि 'जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ' सो उसका तात्पर्य ऐसा है कि प्रज्ञापना का अन्तिम सूत्र- 'एयासिणं भंते ! आरंभियाणं, परिगाहियाणं- अपच्चक्खाणियाणं, मायावत्तियाणं, मिच्छादंसणवत्तियाणं य कयरे

पंच किरियाओ षण्णत्ताओ' क्रियाओ पात्र प्रकारनी कही छे 'तंजहा' ते प्रकारे नीचे प्रमाणे छे- 'काड्या, अहिगरणिया, एवं किरियापयं निरवसेसं भाणियव्वं जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ' 'आधिकर क्रिया, अधिकरणिक्क्री क्रिया', इत्यादि ने कथन प्रज्ञापना सूत्रना किया नामना २२ मा पदमा करवामा आव्यु छे, ते समस्त कथन अर्ही अहणु करवुं त्या ते पदमा आ प्रमाणे कहु छे- 'काड्या, अहिगरणिया, पाओसिया, पारियावणिया, पाणाडवायकिरिया' क्रियाना पात्र प्रकार छे- [१] कायिकी, [२] अधिकरणिक्क्री, [३] प्राट्टेपिकी, [४] पारितापनिकी अने [५] प्राणातिपात क्रिया अर्ही ने ओषु कडेवामा आव्युं छे छे 'जाव मायावत्तियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ' आ कथननु तात्पर्य नीचे प्रमाणे छे- प्रज्ञापनानु अतिमसूत्र आ प्रमाणे छे- 'एयासिणं भंते ! आरंभियाणं, परिगाहियाणं, अपच्चक्खाणियाणं,



क्रियाः विशेषाधिकाः, मिथ्यादृष्टीनाम् अविरतसम्यग्दृष्टीनाञ्च जीवानां तासां सद्भावात्, 'परिग्रहियाओ विसेसाहियाओ' पारिग्रहिक्यः क्रियाः विशेषाधिकाः, उपर्युक्तानां मिथ्यादृशामविरतसम्यग्दृशाम् देशविरतानाञ्च जीवानां तासां सद्भावात्, 'आरंभियाओ किरियाओ विसेसाहियाओ' आरम्भिक्यः क्रियाः विशेषाधिकाः, उपर्युक्तानां प्रमत्तसंयतानाञ्च जीवानां तासां सद्भावात्, 'मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ' मायाप्रत्ययिक्य क्रिया विशेषाधिका भवन्ति पूर्वोक्तानां सर्वेषाम् अप्रमत्तसंयतानाञ्च जीवानां तासां सद्भावात्, अत्रार्थे गाथाद्वयम्- 'मिच्छा पञ्चखाणे, परिग्रहारंभमाय किरियाओ, कमसो मिच्छा-अविरय-देस पमत्त-प्पमत्ताणं ॥१॥

क्यों कि इन क्रियाओंका सद्भाव मिथ्यादृष्टि जीवों में और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवों में पाया जाता है। 'परिग्रहियाओ विसेसाहियाओ' पारिग्रहिकी क्रियाएँ इनसे भी विशेषाधिक हैं- क्यों कि ये क्रियाएँ मिथ्यादृष्टियों में, अविरत सम्यग्दृष्टियोंमें, और देशविरतिवाले जीवों में पायी जाती हैं। 'आरंभियाओ किरियाओविसेसाहियाओ' इनकी भी अपेक्षा आरंभिकी क्रियाएँ विशेषाधिक हैं-क्यों कि ये क्रियाएँ पूर्वोक्त मिथ्यादृष्टि आदि जीवों में और प्रमत्त जीवों में पायी जाती हैं। 'मायावत्तियाओ विसेसाहियाओ' मायाप्रत्ययिकी क्रियाएँ इनसे भी विशेषाधिक हैं- क्यों कि ये क्रियाएँ पूर्वोक्त मिथ्यादृष्टि आदि जीवों में और अप्रमत्त संयत सकषायी जीवों में पायी जाती हैं। प्रज्ञापना सूत्रके २२ वे पद में जो कायिकी आदि क्रियाएँ कही गई हैं-उनका तात्पर्य ऐसा है-जो ये कायिकी, आधिकरणिकी, प्राज्ञेषिकी, पारितापकी,

श्रवणा અને અવિરત સમ્યગ્ દષ્ટિ શ્રવણા હોય છે 'પરિગ્રહયાઓ વિસેસાહયાઓ' પારિગ્રહિકી ક્રિયાઓ તેમના કરતા પણ વિશેષાધિક હોય છે, કારણકે તે ક્રિયાઓનો સદ્ભાવ મિથ્યા દષ્ટિ શ્રવણા, અવિરત સમ્યગ્ દષ્ટિ શ્રવણા અને દેશવિરતિવાળા શ્રવણા જોવામાં આવે છે 'આરંભયાઓ કિરિયાઓ વિસેસાહયાઓ' આરંભિકી ક્રિયાઓ તેમના કરતા પણ વિશેષાધિક હોય છે, કારણકે પૂર્વોક્ત મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શ્રવણા અને પ્રમત્તસંયત શ્રવણા તેમનો સદ્ભાવ હોય છે 'માયાવત્તિયાઓ વિસેસાહયાઓ' માયાપ્રત્યયિકી ક્રિયાઓ તેમના કરતા પણ વિશેષાધિક હોય છે, કારણકે પૂર્વોક્ત મિથ્યાદષ્ટિ આદિ શ્રવણા તથા અપ્રમત્તસંયત સકષાયી શ્રવણા તે ક્રિયાઓનો સદ્ભાવ જોવા મળે છે પ્રજ્ઞાપના સૂત્રના ૨૨ માં પદમાં કાયિકી આદિ જે ક્રિયાઓ કહી છે તેનું તાત્પર્ય નીચે પ્રમાણે છે-

मिच्छन्नचित्प्राप्तो, मिच्छद्विष्टीण चैव तौ योवा,  
सेसाण एक्केको वड्ढइ रासी तओ अट्ठिया ॥२॥

उाया- मिथ्याप्रत्याख्यानं, परिग्रहारम्भमायाक्रियाः,  
क्रमशो मिथ्या भविरत देव प्रमत्ता-5 प्रमत्तानाम् ॥१॥  
मिथ्यात्वमस्यपिषयः, मिथ्यादृष्टीनां चैव ताः स्तोत्रा,  
शेषाणाम् एकैका पर्दते राशिस्ततोऽभिका ॥२॥

तथाच प्रज्ञापनापदानामयमाश्रय - १ कार्यकी, २ आधिकरणिक  
३ माद्वेषिकी, ४ पारितापनिकी, ५ प्राणातिपातिकी च, एताः पञ्च क्रिय  
सन्ति, तत्र कायिकी क्रिया द्विविधा-अनुपरतकायिकी, दुष्प्रयुक्तकायिकी च  
तत्र प्राणातिपातादिसाधययोगात् देशेन सर्वदा वा अनिच्छानां मोक्षानां  
अनुपरतकायिकी क्रिया स्याति, इयञ्च क्रिया भविरतमाश्रयैव भवति  
कायादीनां दुष्प्रयोगेष्वोत्पद्यमाना क्रिया दुष्प्रयुक्तकायिकी, इयञ्च क्रिया प्रमत्त  
साधुनामपि भवति, आधिकरणिकी क्रिया द्विविधा-मयोत्तमाधिकरणिकी  
निर्वर्तनाधिकरणिकी च, तत्र पूर्वं निष्पादितास्त्रयस्त्रयसाधनानां

प्राणातिपातिकी पांच क्रियाएँ कही गई हैं जो इन में से कायिकी  
क्रियासे दो प्रकारकी हैं- एक अनुपरत कायिकी क्रिया और दूसरी  
दुष्प्रयुक्तकायिकी क्रिया । इन में प्राणातिपात आदि साधययोग से दशाक्षर  
से या सवधारास्य से विरक्त नहीं होने वाले जीवोंके अनुपरत कायिकी  
क्रिया स्याती है । यह क्रिया भविरतमाश्रय कीवके होती है । कायादिकों  
के दुष्प्रयोगसे उत्पन्न होने वाली क्रियाका नाम दुष्प्रयुक्तकायिकी क्रिया  
है । यह क्रिया प्रमत्तसाधु जनों को होती है । अधिकरणिकी क्रिया  
दो प्रकारकी होती है- एक संयोगमाधिकरणिकी और दूसरी निर्वर्तनाधि-  
करणिकी निष्पादित अस्त्रयस्त्रयसाधनोका मयोजनसे तैयार

कायिकी, आधिकरणिकी प्रद्वेषिका, पारितापनिकी जने प्राणातिपातिकी, ये  
पांच प्रकारकी क्रियाएँ कही छे तेमांकी कायिकी क्रियाना नीचे प्रभावे से लेव ठका छे  
(१) अनुपरतकायिकी क्रिया जने (२) दुष्प्रयुक्तकायिकी क्रिया, प्राणातिपात आदि साधय-  
योगाधी कथनाः से सवधारा [दुष्प्रयुक्त] विरक्त नहीं बनार छेजने अनुपरतकायिकी  
क्रिया लावे छे ते क्रिया मात्र भविरत छेवा न करे छे आर्थात्ताना दुष्प्रयोगधी उत्पन्न  
बनारी क्रियानु नाम दुष्प्रयुक्तकायिकी क्रिया छे ते क्रिया प्रमत्त साधु जने न करे छे  
आधिकरणिकी क्रियाना जे प्रकार छे (१) संयोगमाधिकरणिकी जने (२) निर्वर्तनाधि-  
निष्पादित अस्त्रयस्त्रयसाधनोका मयोजनसे तैयार करवा तेनु नाम संयोगमाधि-

संयोजनेन सआकरणम् संयोजनाधिकरणिकी, नवनवास्त्रशस्त्राणां निर्माणम् निर्वर्तनाधिकरणिकी, स्वस्य परस्य उभयस्य वा अशुभचिन्तनम् प्राद्वेषिकी क्रियोच्यते, एवं स्वस्य परस्य उभयस्य वा पीडनं दुःखोत्पादनं परिताप-  
निकी क्रिया, स्वस्य परस्य उभयस्य वा जीवव्यपरोपणं प्राणानिपातिकी क्रिया व्यपदिश्यते इति भावः । अन्ते गौतमः भगवद्वाक्यमङ्गीकुर्वन्नाह—  
'सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' हे भदन्त ! तदेव भवदुक्तं सर्वं सत्यमेव,  
हे भदन्त ! भवदुक्तं सर्वं सत्यमेव वर्तते इति ॥ सू० १ ॥

अष्टमशतकस्य चतुर्थोद्देशकः समाप्तः ॥८-४॥

करना यह संयोजनाधिकरणिकी क्रिया है । तथा नवीन २ अस्त्रशस्त्रोंका निर्माण करना वह निर्वर्तनाधिकरणिकी क्रिया है । अपना और दूसरेका तथा दोनोंका अशुभ चिन्तन करना यह प्राद्वेषिकी क्रिया है । अपने में, दूसरे में और दोनों में दुःखका उत्पादन करना यह पारितापनिकी क्रिया है । अपने जीवका, दूसरेके जीवका तथा दोनोंके जीवका व्यपरोपण - (मारना) करना यह प्राणानिपातिकी क्रिया है । अब अन्त में गौतम कहते हैं— 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सब विलकुल सत्य है । हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है वह सब विलकुल सत्य है । इस प्रकार कह कर वे गौतम-यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ॥ सू० १ ॥

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

हरषिद्धी क्रिया छे तथा नवीन नवीन अस्त्रशस्त्रनु निर्माण करवुं तेनु नाम निर्वर्तनाधि-  
हरषिद्धी क्रिया छे पोतानु, अन्यनु तथा उभयनु अशुभ चिन्तन करवुं तेनु नाम  
प्राद्वेषिद्धी क्रिया छे निजभा, अन्यभा के उभयभा दुःखनु उत्पादन करवुं तेनु नाम  
परितापनिद्धी क्रिया छे पोताना ज्वनी, अन्यता ज्वनी के उभयना ज्वनी छत्या करवी  
तेनु नाम प्राणानिपातिद्धी क्रिया छे

सूत्रने उपसंहार करतां गौतम स्वामी कहे छे— 'सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति'  
हे भदन्त ! आ विषयनु आपे ने प्रतिपादन कर्युं ते सर्वथा सत्य छे हे भदन्त !  
आपनु कथन यथार्थ छे आ प्रमाद्ये कहीने महावीर प्रभुने वदयुा नमस्कार करीने  
गौतम स्वामी पोताने स्थाने विशजमान थछ गया ॥ सू० १ ॥

॥ चौथो उद्देशक समाप्त ॥

## अथ पञ्चमोद्देशक प्रारभ्यते

अष्टमशतकस्य पञ्चमोद्देशकस्य तक्षित्वत्रिययविवरणम्

आजीविकस्य धरनः, कृतसामायिकस्य धावकस्य भाण्डपात्रबन्धादि-  
षस्तुनि यदि षष्ठिरपहरेत् तदा स स्वभाण्डादिकं वा अन्नगवेपयेत् ? यदि  
अपहृत भाण्डादिकम् अभाण्डादिकं मयसि तर्हि कथं स्वभाण्डादिकम् अन्न  
गवेपयति ? इति षक्तुं पर्येति ? इति प्रश्नः, ममस्वभावस्याप्रत्याख्यानानात् तादृशव्य-  
वहारो मयसि, तथाकृतसामायिकस्य धावकस्य स्त्रीम् षष्ठिदुपपत्तिः यदि व्यभिचरे  
तदा किं तस्य स्त्रीं व्यभिचरति ? किं वा तेभ्य अजायां स्त्रीभिर्भा व्यभिचरति ?

अष्टम शतकका पंचम उद्देशक प्रारंभ-

अष्टम शतक के इस पंचम उद्देशक में जो विषय कहा गया  
है- उसका विवरण सत्रेप से इस प्रकार है- आजीविक का मस-  
जिसने सामायिक धारण करली है ऐसे आषक के कि जो ममणके  
उपाश्रय में बैठा हुआ है भाण्ड, मात्र आदिको यदि कोई चुरा लेता  
है तो सामायिक कर चुकने के बाद वह भाण्डादिकों की गवेपणा  
करता है ? या दूसरेके भाण्ड आदि की गवेपणा करता है ? यदि  
अपहृत- चुराया हुआ भाण्ड आदिक अभाण्ड सादिकरूप हो जाते हैं,  
तो वह अपने भाण्ड आदिही गवेपणा करता है, ऐसा कैसे कहा जा  
सकता है ? ममस्वभावका उसने त्याग नहीं किया है इसलिये ऐसा  
व्यवहार होता है । जिमने सामायिक धारण करली है ऐसे आषककी  
स्त्री क साथ यदि दोई अशिष्ट व्यवहार करता है ता वह उसकी

आठमा शतकना पाचमा उद्देशक प्रारंभ-

आठमा शतकना पाचमा उद्देशकना ले विषयतुं निरूप्युं कस्यामां आनुते  
तेनुं तक्षित्व (ववरयु आ प्रभावे छे- आष्टमिकेना प्रथ- लेखे सामायिक धारण करेही  
छे जेवा ममणना-उपाश्रयना छेःतः क्वचनना पत्र, आभूषण, पात्र आदिना उप धरती  
आप जने सामायिक पूरी बना जाए ले ते आषक तेनी शोध करे तो छु ते तेना  
पिताम वस्त्रादिना शोध करे छे जेम कही कथाय । के अनन्य वस्त्रादिना शोध करे  
छे जेम कही कथाय । ले केशवेता वस्त्रादिना अपआदि रूप मधु कथां छेप, ता ते  
पिताम वस्त्रादिना शोध करे छे जेम कही रीते कही शक्य छे' तेरो  
ममत्वभावना त्याग कथी होत नथी. तेथो जेवुं कही कथ्य छे' जेवा उत्तर.  
प्रथ - लेखे सामायिक धारण करेही छे जेवा आषकनी पत्नी साथे ले दोई  
अशिष्ट व्यवहार करे, ता ते तेनी (ते आषकनी) पत्नी साथे अशिष्ट व्यवहार करे छे, जेम

इति व्यवहारः स्यात् ? प्रत्याख्यानात् सा स्त्री तस्य अस्त्री भवेत् ? यदि सा तस्य अस्त्री भवेत् तदा तस्य स्त्रीं व्यभिचरतीति कथं व्यवहारः स्यात्, इति प्रश्नः, प्रेमबन्धनस्य अविच्छेदात् तथाव्यवहार इति समाधानम्, श्रावकः स्थूलप्राणातिपातप्रत्याख्यानं कथं कुर्यात् ? इति प्रश्नः, अतीतकालसम्बन्धि-प्राणातिपातस्य पतिक्रमणप्रकाराणाम्, वर्तमानकालसम्बन्धिप्राणातिपातस्ते संवरप्रकाराणाम् अनागतकालसम्बन्धिप्राणातिपातस्य प्रत्याख्यानप्रकाराणां प्ररूपणात्मकमुत्तरञ्च, ततः स्थूलमृषावादस्य प्रत्याख्यानप्रकारनिरूपणम्, स्थूलमैथुनस्य प्रत्याख्यानप्रकार-

स्त्री के साथ अशिष्ट व्यवहार करता है ? या उसकी अस्त्री के साथ अशिष्ट व्यवहार करता है ? प्रत्याख्यान से क्या उसकी वह स्त्री, उसकी स्त्री नहीं होती है ? यदि वह उसकी स्त्री नहीं है तो वह उसकी स्त्रीके साथ अशिष्ट व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है ? उसके साथ उसका प्रेम विच्छिन्न नहीं हुआ है- इसलिये वह उसकी स्त्री मानो गई है- ऐसा समाधान । श्रावक स्थूल प्राणातिपातका प्रत्याख्यात कैसे करता है ? अतीतकाल संबंधी प्राणातिपातकी वह निन्दा करता है, वर्तमान संबंधी प्राणातिपातका वह संवर करता है और भविष्यत् काल संबंधी प्राणातिपातका वह प्रत्याख्यान- (नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा) करता है । इसी तरह से वह स्थूल मृषावादका, प्रत्याख्यान करता है, स्थूल चोरीका प्रत्याख्यान करता है, स्थूल मैथुनका प्रत्याख्यान करता है । स्थूल परिग्रहका

कही शक्य ? हे तेनी अस्त्री (पत्नी न होय जेवी स्त्री) साथे अशिष्ट व्यवहार करे छे जेभ कही शक्य ? प्रत्याख्यानथी तेनी ते पत्नी शु तेनी पत्नी मठी जती नथी ? जे ते तेनी पत्नी मठी जय छे जेभ मानवामां आवे, तो ते माणुस ते श्रावकनो पत्नी साथे अशिष्ट व्यवहार करे छे, जेभ केवी रीते कही शक्य ? 'तेनी साथेना तेना प्रेम विच्छिन्न थयो नथी [तूथो नथी], ते कण्ठुके तेने तेनी पत्नी मानवामा आवी छे जेवु समाधान प्रश्न :- श्रावक स्थूल प्राणातिपातना प्रत्याख्यान केवी रीते करे छे ? उत्तर :- भूतकालना प्राणातिपातनी ते निन्दा करे छे, वर्तमानकालना प्राणातिपातना ते संवर करे छे, अने भविष्यकालना प्राणातिपात नहीं करे छे जेवा प्रत्याख्यान [प्रतिज्ञा] करे छे जेव प्रमाणो ते स्थूल मृषावादाना प्रत्याख्यान करे छे, स्थूल चोरीना प्रत्याख्यान करे छे, स्थूल मैथुनना प्रत्याख्यान करे छे अने स्थूल परिग्रहना प्रत्याख्यान करे छे आणविकना



प्रस्तुपणम्, स्थूलपरिग्रहस्य प्रत्याख्यानप्रकार प्रस्तुपणम्, आजीविकसिद्धान्तः, आजीविकस्य द्वादश भ्रमणोपासकाः, भावकारणा षड्यानि पञ्चदश कर्मादानानि, देवलोकावक्तव्यता च ।

परिग्रहादिक्रियावक्तव्यता

मूलम्—रायगिह्वे जाव एव वयासी— आजीविया णं भंते ।  
 धेरे भगवते एव वयासी— समणोवासगस्स णं भते । सामा  
 इयकडस्स समणोवस्सए अल्लमाणस्स केह भंते अवहरेज्जा,  
 सेणं भंते । त भड अणुगवेसमाणे किं सय भड अणुगवे  
 सइ ? परायगं भड अणुगवेसइ ? गोयमा । सय भडं अणु  
 गवेसइ, नो परायग भडं अणुगवेसइ । तस्स णं भंते । तेहिं  
 सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं से भडे अभंटे  
 भवइ ? इता अभडे भवइ, से केणं खाइम अट्टेणं भते ।  
 एवं बुच्चइ सय भड अणुगवेसइ, नो परायगं भड अणु  
 गवेसइ ? गोयमा । तस्स ण एव भवइ— णो मे हिरण्णे, नो मे  
 सुवण्णे, णो मे कसे णो मे दूसे, णो मे यिउलधणकणगरयण  
 मणिमोचियसखसिउप्पवालरत्तरयणमाइए सतसारसावएज्जे,  
 ममत्तभावे पुण से अपरिण्णाए भवइ, से तेणट्टेण गोयमा ।  
 एव बुच्चइ सय भड अणुगवेसइ, नो परायगं भड अणुग  
 वेसइ, समणोवासगस्सण भंते । सामाइयकडस्स समणो

प्रत्याख्यान करता है । आजीविका सिद्धान्त आजीविक के १२  
 भ्रमणोपासक, भावकोंके छोड़ने योग्य १५ कर्मादानका कथन और  
 देवलोक वक्तव्यता ।

सिद्धान्तनु, आजीविका १२ भ्रमणोपासकनु भने आजीविके छोड़ने योग्य १५ कर्मादानेनु  
 कथन, भने देवलोकनी वक्तव्यता.

वस्सए अच्छमाणस्स केइ जायं चरेज्जा, से णं भते ! किं जायं चरइ, अजायं चरइ ? गोयमा ! जायं चरइ, नो अजायं चरइ, तस्स णं भते ! तेहि सीलव्वयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोस-होववासेहिं सा जाया अजाया भवइ ? हंता अजाया भवइ, से केणं खाइणं अट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ-जायं चरइ, नो अजायं चरइ ? गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ-णो मे माया, णो मे पिया, णो मे भाया, णो मे भगिणी, णो मे भज्जा, णो मे पुत्ता, णो मे धूया, नो मे सुण्हा, पेज्जबंधणे पुण से अवोच्छिन्ने भवइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव नो अजायं चरइ ॥ सू. १ ॥

छाया- राजगृहे यावत् एवम् अवादीत् - आजीविका खलु भदन्त ! स्थविरान् भगवतः एवम् अवादिषुः-श्रमणोपासकस्य खलु भदन्त ! सामायिक-कृतस्य श्रमणोपाश्रये आमीनस्य कश्चित् भाण्डम् अपहरेत्, स खलु भदन्त ! तद् भाण्डम् अनुगवेषयन् किं स्वकीयम् भाण्डम् अनुगवेषयति, परकीयं

परिग्रहादि क्रिया वक्तव्यता-

रायगिहे जाव एवं वयासी ' इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(रायगिहे जाव एवं वयासी) राजगृह नगर में यावत् ऐसा कहा-पूछा (आजीविया णं भते ! येरे भगवन्ते एवं वयासी) हे भदन्त ! आजीविकोंने स्थविर भगवन्त से ऐसा कहा-(समणोवासगम्स णं भते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ भंढे अवहरेज्जा-सेणं भंते ! त भंढ अणुगवेषमाणे किं सयं भंढं अणुग-

परिग्रहादि क्रियानी वक्तव्यता-

' रायगिहे जाव एवं वयासी ' इत्यादि-

सूत्रार्थ-(रायगिहे जाव एवं वयासी) ' राजगृह नगरमें भडावीर प्रलु पधार्या ' अर्थात् शङ्करीने ' गौतम स्वामीये पूछथु ', त्या सुधीनुं कथन अर्थात् भडथु करवुं. (आजीवियाणं भंते ! येरे भगवन्ते एवं वयासी) हे भदन्त ! आजीविकोंने स्थविर भगवन्तेने अर्थात् भडुं इ- (समणोवासगम्स णं भंते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ भंढे अवहरेज्जा - सेण भंते ! तं भंढं अणुगवे-

माण्डम् अनुगवेपयति, तस्य स्वस्य भदन्त ! तैः शीलव्रतगुणविरमणप्रत्याख्यान-  
पोषधोपवासैस्तद् माण्डम् अमाण्डं भवति ? इन्त अमाण्डं भवति, तद् केन पुनः  
स्वस्य अर्थेन भदन्त ! एषमुच्यते - स्वकीय माण्डं अनुगवेपयति, नो परकीय

वेसइ, परायणं भंडं अणुगवेसइ, गोयमा ! सयं भंडं अणुगवेसइ णो  
परायणं भंडं अणुगवेसइ ) हे भदन्त ! कोई आर्यक हो और उसने  
सामायिकधारण करली हो-और वहीं उपाश्रय में वह बैठा हो- अब  
यदि कोई उसके माण्डोका अपहरण करता है (चुरा लेता है) तो  
हे भदन्त ! वह सामायिक के बाद उन भांडोंकी गवेपणा करता  
है-तो क्या वह उन अपने भांडोंकी गवेपणा करता है ? या  
दूसरों के माण्डोंकी गवेपणा करता है ? (गोयमा) हे गौतम !  
(सयं भंडं अणुगवेसइ, नो परायणं भंडं अणुगवेसइ) वह आर्यक  
अपने भांडों की गवेपणा करता है-दूसरों के माण्डोंकी वह गवे-  
पणा नहीं करता है । (तस्स णं भते ! तेहिं शीलव्रतगुणवेरमण  
पञ्चमखणपोमहोवघासेहिं से भंडे अमंडे भवइ ? ) हे भदन्त !  
उन शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान और पोषधोपवास से  
उस आर्यकका वह अपहरण (चुराया हुआ) भांडं अमाण्डं हो जाता  
है क्या ? (इंता भवइ) हा, गौतम ! वह अमाण्डं होजाता है ।  
(से वेण खाइणं अट्टेणं भते ! एवं पुचइ, सयं भंडं अणुगवेसइ, णो  
परायणं भंडं अणुगवेसइ) हे भदन्त ! यदि वह उसका अमाण्डं हो  
जाता है तो फिर आप ऐसा किस कारण से कहते हैं कि वह

समाणे किं सयं भंडं अणुगवेसइ, परायणं भंडं अणुगवेसइ गोयमा ?  
सयं भंडं अणुगवेसइ ना परायणं भंडं अणुगवेसइ ? ) के भदन्त ! मैंने जो  
आर्यक सामायिक धारण करीने उपाश्रय में बैठा है तब तो तब तब [वम अणुगवेसइ]  
श्रीरि अर्थ है तब तब सामायिक धारण क्या पण्डितों के अर्थोंकी तथासुद्धे ?  
तो तुम के आर्यक पीतानां के अर्थोंकी तथासुद्धे ? के अर्थोंकी तथासुद्धे ?  
(गोयमा ! ) हे गौतम ! (सयं भंडं अणुगवेसइ, नो परायणं भंडं अणुगवेसइ)  
हे गौतम के आर्यक पीतानां अर्थोंकी तथासुद्धे - परंतु अर्थोंकी तथासुद्धे नहीं  
(सम्मणं भते ! तेहिं शीलव्रतगुणवेरमणपञ्चमखणपोमहोवघासेहिं से भंडे  
अमंडे भवइ ) हे भदन्त ! ते शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, प्रत्याख्यान अने  
पोषधोपवासधी तुम के आर्यकनां के अर्थोंकी तथासुद्धे अर्थोंकी तथासुद्धे ?  
(इंता भवइ) हा, गौतम ! ते अर्थोंकी तथासुद्धे अर्थोंकी तथासुद्धे । (से वेण खाइणं अट्टेणं  
भते ! एवं पुचइ, सयं भंडं अणुगवेसइ, ना परायणं भंडं अणुगवेसइ)  
हे भदन्त ! ते ते तेषां पीतानां अर्थोंकी तथासुद्धे अर्थोंकी तथासुद्धे । ते अर्थोंकी तथासुद्धे अर्थोंकी तथासुद्धे ।

भाण्डम् अनुगवेषयति ? गौतम ! तस्य खलु एवं भवति - नो मे हिरण्यम्, नो मे सुवर्णम्, नो मे कांस्यम्, नो मे दूष्यम्, नो मे विपुलधनकनकरत्नमणिमौक्तिकशङ्खशिलाप्रवालरत्नरत्नादिसत्सारस्वापतेयम्, ममत्वभावः पुनः तस्य अपरिज्ञातो भवति, तत्तेनार्थेन गौतम ! एवमुच्यते - स्वकीयं भाण्डम् अनुगवेषयति, नो परकीयं भाण्डम् अनुगवेषयति । श्रमणोपासकस्य खलु

अपने भाण्डकी गवेषणा करता है दूसरेके भाण्डकी गवेषणा नहीं करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (तस्स ण एवं भवइ, णो मे हिरण्णे, नो मे सुवर्णे नो मे कंसे, णो मे दूसे, णो मे विउलधणकणगरयणमणिमोत्तिय संखसिलप्पवालरत्तरयणमाइए, संतसारसावएज्जे, ममत्तभावे पुणसे अपरिण्णाए भवइ-से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, सयं भंडं अणुगवेसइ, नो परायगं भंडं अणुगवेसइ) हे गौतम ! सामायिक करने वाले श्रावक के मन में ऐसा परिणाम होता है कि हिरण्य (चांदी) मेरा नहीं है, सुवर्ण, मेरा नहीं हैं, कांसा मेरा नहीं है, वज्र मेरा नहीं है, विपुल, धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख, प्रवाल, लालरत्न, इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य मेरा नहीं है परंतु इन वस्तुओं से उसका ममत्वभाव प्रत्याख्यान नहीं हुआ है अर्थात् इस पदार्थों से उसने ममत्वभावका प्रत्याख्यान नहीं किया है। इस कारण हे गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि वह अपने भांडोंकी गवेषणा करता है। दूसरे के भाण्डोंकी वह गवेषणा नहीं करता है। (समणो-

छा ३ ते तेना पेताना लांडनी शोध करे छे - पारका लांडनी शोध करते नथी ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! ( तस्स ण एवं भवइ, णो मे हिरण्णे, नो मे सुवर्णे णो मे कंसे, णो मे दूसे, णो मे विउलधणकणगरयणमणिमोत्तिय संखसिलप्पवालरत्तरयणमाइए, संतसारसावएज्जे, ममत्तभावे पुण से अपरिण्णाए भवइ - से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ, सयं भंडं अणुगवेसइ, नो परायगं भंडं अणुगवेसइ) सामायिक करने वाले श्रावकना मनमा जेवा परिणाम (भाव) होय छे ३ आ यादी भारी नथी, सोतु भारुं नथी, कांसु भारुं नथी, वज्र भारी नथी, विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शंख प्रवाल, लाल रत्न वगैरे विद्यमान सारभूत द्रव्य भारी नथी; परन्तु जे वस्तुओ प्रत्येना ममत्व भावना प्रत्याख्यान तेषो कर्यां होता नथी. हे गौतम ! ते कारणे मे जेहुं कहुं छे ३ श्रावक पेताना लांडनी तपास करे छे - अन्यनां भांडानी तपास करते नथी

मदन्त ! सामायिककृतस्य भ्रमणोपाधये आसीनस्य कश्चित् जायां चरेत्,  
 स खलु मदन्त ! किं जायां चरति, भ्राजायां चरति ? गौतम ! जायां चरति,  
 नो भ्राजायां चरति, तस्य खलु मदन्त ! तैः शीलघ्नतगुण-धिरमण-प्रत्याख्यान-  
 पौषघोषासैः सा जाया भ्राजाया मचति ? इन्त, भ्राजाया मचति, तत् केन पुनरर्थेन  
 मदन्त ! एवमुच्यते-जायां चरति, नो भ्राजायां चरति ? गौतम ! तस्य खलु

घासगस्त ण मंते ! सामायिककृतस्म समणोषस्तए अच्छमाणस्त केइ जायं  
 चरेज्जा, से णं मंते ! किं जाय चरइ, भ्राजायं चरइ ? हे मदन्त ! मिसने  
 सामायिक धारण की है ऐसे भ्रमणोपासक-आवककी जोकि उपाभय में  
 बैठा हुआ है उसके स्त्री से कोई अशिष्ट व्यवहार करता है, तो  
 क्या वह उसकी स्त्री से अशिष्ट व्यवहार करता है या अन्य की  
 स्त्री से अशिष्ट व्यवहार करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! (जायं चरइ,  
 नो भ्राजाय चरइ) वह उसकी स्त्री से अशिष्ट व्यवहार करता है, अन्य  
 की स्त्री से अशिष्ट व्यवहार नहीं करता है। (तस्स णं मंते ! तेहिं  
 शीलघ्नतगुणधरमणपषवखाणपोमहोवधासेहिं सा जाया भ्राजाया  
 मचइ) हे मदन्त ! उन शीलघ्नत, गुणघ्नत, धिरमणघ्नत, प्रत्याख्यान  
 और पौषघोषान्तरसे उस आवककी वह स्त्री भ्राजाया-अन्य स्त्री  
 हो जाती है क्या ? (इंता, मचइ) हां गौतम ! वह उसकी स्त्री  
 भ्राजा हो जाती है। (सेकेण खाणं भट्टेण मंते ! एव पुचइ जाय चरइ,

(समणोपासगस्त ण मंते ! सामायिककृतस्म समणोपासए अच्छमाणस्स  
 केइ जाय चरउज्जा, से ण मंते ! किं जाय चरइ, भ्राजाय चरइ ? )  
 हे मदन्त ! जेथो सामायिक धारण करेथी डोय जने ते उपाभयभां भेट्थे डोय जेव  
 भ्रमणोपासकनी (आवकनी) पत्नी साथे डोय भायुस अशिष्ट व्यवहार करे, ते ए ते  
 भायुस तेनी [ते आवकनी] पत्नी साथे अशिष्ट व्यवहार करे ते हे आवकनी पत्नी  
 साथे अशिष्ट व्यवहार करे ? (गोयमा) हे गौतम ! (जाय चरइ, नो भ्राजाय  
 चरइ) ते भायुस तेनी [ते आवकनी] पत्नी साथे अशिष्ट व्यवहार करे थे, आवकनी  
 पत्नी साथे अशिष्ट व्यवहार करेथी नथी (तस्स णं मंते ! तेहिं शीलघ्नत  
 गुणधरमणपषवखाणपोमहोवधासेहिं सा जाया भ्राजाया मचइ) हे मदन्त !  
 ते शीलघ्नत गुणघ्नत, धिरमणघ्नत प्रत्याख्यान जने पौषघोषवासकी ए ते आवकनी  
 ते पत्नी जन्मधा धर जाय थे भ्राजा - पत्नी तरीनेने सन्धे मठी जाय थे भ्राजा ?  
 (इंता मचइ) हा, गौतम ! तेनी ते पत्नी जन्मधा [भ्राजापत्नी] धर जाय थे  
 (से केण खाणं भट्टेण मंते ! एव पुचइ जाय चरइ, नो भ्राजाय चरइ ? )

एवं भवति-नो मे माता, नो मे पिता, नो मे भ्राता, नो मे भगिनी, नो मे भार्या,  
नो मे पुत्रः, नो मे दुहिता, नो मे स्नुषा, प्रेमबन्धनं तस्य अव्युच्छिन्नं भवति,  
तत् तेनार्थेन गौतम ! यावत् नो अजायां चरति ॥सू० १॥

टीका- चतुर्थोद्देशके क्रिया प्ररूपिता, तदधिकारात् परिग्रहादिक्रिया  
ना अजायं चरइ) हे भदन्त ! यदि वह स्त्री उसकी नहीं रहती है-  
अन्य स्त्री होजाती है- तो फिर एसा आप किस कारणसे कहते हैं  
कि वह पुरुषकी स्त्रीके साथ अशिष्ट व्यवहार करता है । (गोयमा) हे  
गौतम ! (तस्सणं एवं भवइ-णो मे माया. णो मे पिया णो मे माया णो मे  
भगिणी, णो मे भज्जा, णो मे पुत्ता, णो मे धूया, णो मे सुण्हा, पेज्जबंधणे  
पुणसे अवोच्छिन्ने भवइ, से तेणट्टेणं गोयमा ? जाव नो अजायं चरइ)  
सामायिक करने वाले श्रावकके मनमें उस समय ऐसा परिणाम  
होता है कि माता मेरी नहीं हैं, पिता मेरे नहीं हैं ! भाई मेरे नहीं  
हैं, बहिन मेरी नहीं है । भार्या स्त्री मेरी नहीं हैं । पुत्र मेरे नहीं  
हैं । लडकी मेरी नहीं है । पुत्रवधू मेरी नहीं है । परन्तु इन सब  
से उसका प्रेमबन्धन छूटता नहीं है । इस कारण हे गौतम ! मैंने  
ऐसा कहा है कि वह पुरुष उनकी स्त्री से अशिष्ट व्यवहार करता  
है । अन्य स्त्री से अशिष्ट व्यवहार नही करता है ।

टीकार्थ :- चतुर्थ उद्देशकमें क्रियाका प्ररूपण किया गया है-  
इसी संबंधको लेकर सूत्रकारने परिग्रहादि विषयक विचार यहां

ले भदन्त ! ते ते तेनी पत्नी रहेती नथी - अपत्नी णनी जय छे - तो आप श  
कारणो जेवु छे छे छे ते ते पुरुष तेनी पत्नी साथे अशिष्ट व्यवहार करे छे ?  
(गोयमा ! ) हे गौतम ! (तस्सणं एवं भवइ - णो मेमाया, णो मे पिया णो मे भाया,  
णो मे भगिणी, णो मे भज्जा, णो मे पुत्ता, णो मे धूया, णो मे सुण्हा,  
पेज्जबंधणे पुणसे अवोच्छिन्ने भवइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! जाव नो अजायं  
चरइ ) सामायिक करने श्रावकना मनना परिणाम जे वभते जेवा होथ छे हे माता  
भारी नथी, पिता भारा नथी, लडकी भारा नथी, भइने भारी नथी, पुत्री भारा  
नथी, पुत्रीको भारी नथी अने पुत्रवधू पणु भारी नथी. परतु जे अधा साथेतु तेतु  
प्रेमबन्धन छूटतु नथी हे गौतम ! ते कारणो जेवु कहुं छे हे ते पुरुष तेनी स्त्री साथे  
अशिष्ट व्यवहार करे छे, अन्यनी स्त्री साथे अशिष्ट व्यवहार करते नथी

टीकार्थ :- यथा उद्देशकमां क्रियानु प्रतिपादनं करवामा आभ्यु छे. जे  
सम्बन्धने अनुलक्षनीने सूत्रकारे आ उद्देशकमा परिग्रह आदि विषेने विचार प्रकट करी छे

विषयकचिचारमाह- 'रायगिह् माव एव धयासी' रामगृहे यानत् नगरे  
 स्वामी समवसृत, समवसृत भगवन्त वन्दितु पपत् निर्गच्छति, धर्मदेशना  
 भ्रमणानन्तरं प्रतिगता पर्वत, तत शुभ्रप्रमाणो नमस्यन् विनयेन माञ्जालिपुट  
 गौतम एव वक्ष्यमाणक्रमेण भवादीत्- आजीविष्या ण भते घेरे भगवते  
 एव धयासी' आजीविष्या गाशालकदिप्या रूढ मदन्त! स्थिरान  
 निग्रन्यान भगवत, एवम् वक्ष्यमाणप्रकारेण भवातिपु - राजगृहे नगर  
 भिक्षार्थं भ्रमतः भ्रमणनिग्रन्यान प्रति गाशालकदिप्याः पस्पृष्टवन्तस्तत्  
 गौतम' स्वयमेधानुव्रत्माह- 'समणोवासगारस ण भते! सामाहयकइस्स समणो  
 वस्सए अरुत्तमाणस्स केइ भवे अवहरेत्ता' हे मदन्त! भ्रमणापासकम्य भावकम्य  
 खल्ल सामायिककवम्य कृतसामायिकम्य प्रतिपभाद्यशिक्षाव्रतस्य भ्रमणोपायये

प्रस्तुत किया है- 'रायगिहे जाव एव धयासी' राजगृह नगरमें पाघत्  
 -स्वामी पधारे-स्वामीको आया हुआ जानकर उनको बदना करनेके  
 लिये परिपद् अपने २ स्थानसे निकली-प्रभु महावीर के पास पहुँच  
 कर उससे धर्मापदेश सुना-धर्मोपदेश सुनकर वह घापिस अपने २  
 स्थान पर चली आई। उसके बाद धर्म सुननेकी अभिलाषा वाले गौतम  
 स्वामीने प्रभुको नमस्कार करके उनसे दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनय  
 क साथऐसा पूछा- 'आजीविष्या णं भते। घेरे भगवते एव धयासी'  
 हे मदन्त! राजगृह नगरमें भिक्षाप्रप्तिके निमित्त भ्रमण करने वाले  
 भ्रमण निर्घन्थों से गाशालक के दिप्योंने इस प्रकार से पूछा-  
 समणोवासगारस्सण भते! सामाहयकइस्स समणोवासए अरुत्तमाणस्स  
 केइ भवे अवहरेत्ता' हे मदन्त! भ्रमणोपासक-भावक कि जिसने  
 सामायिक शिक्षाव्रत धारण किया है ओर जो उपास्य में बैठा हुआ

'रायगिहे जाव एव धयासी' राजगृह नगरमें महावीर प्रभु परमार्थ, तेमने वक्ष्य  
 नभरकार करवा भये पवित्र नहणी वक्ष्य। नभरकार करीने धर्मोपदेश स्वभावना पछी  
 धस्त्रिध विभवाध जह. त्पार जात धमत्तं उत्तम समवस्यानी अभिलाषावाला गौतम  
 स्वामीजे महावीर प्रभुने वक्ष्य करी नभरकार उर्था अपने अपने हाथ जोडीने विनयपूर्वक  
 म्य प्रमत्यो पूछ्यु - 'आजीविषयाणं भते! घेरे भगवते एव धयासी' हे मदन्त!  
 राजगृह नगरमें भिक्षाप्रप्तिके निमित्त भ्रमण करने वाले भ्रमण निर्घन्थोंने गौतम स्वामीजे  
 म्य प्रभावे पूछ्यु - समणोवासगारस्स ण भते! सामाहयकइस्स समणोवस्सए  
 अरुत्तमाणस्स केइ भवे अवहरेत्ता' हे मदन्त! हे भिक्षु भावक [भ्रमणोपासक]  
 सामायिक शिक्षाव्रत धारण करीने उपास्यभावे भेदेत्ता हे भवे तेषु पुरुष तेषु सामायिक

प्रायः श्रावकस्य सामायिकं प्रतिपद्यते इति श्रावकाचारः, अत एव श्रमणोपाश्रये आसीनस्य स्थितस्य श्रावकस्य कश्चित्पुरुषो भाण्डम् उपाश्रये सामायिककरणसमये समवतारितवस्त्रभूषणादिकं तथा तद्गृहेस्थितं वस्त्रादिकम् अपहरेत् चोरयेत् 'से णं भते !' स खलु भदन्न ! 'तं भंडं अणुगवेसमाणे किं सयं भंडं अणुगवेसडं, परायणं भंडं अणुगवेसडं ?' तत् चौरैणापहृतं भाण्डं वस्त्रादिकम् अनुगवे-  
पयनं अन्वेषयन् किं स्वकीयं निजं तद् भाण्डम् वस्त्रादिकम् अनुगवेपयति ? परकीयं वा तद् भाण्डं वस्त्रादिकम् अनुगवेपयति ? अपहृतं तद् वस्तु स्वमम्वन्धि-  
त्वात् स्वकीयं वा, सामायिकप्रतिपत्तिममये परिग्रहस्य प्रत्याख्यातत्वात्

है यदि कोई पुरुष उसके सामायिक समय में उतारे गये वस्त्र भूषणादिकों को तथा उसके घरमें रहे हुए वस्त्रादिकोंको चुरा लेता है तो वह श्रावक सामायिक समाप्तिके बाद चौरापहृत उन भाण्डादिकों की गवेषणा जो करता है—सो क्या वह अपने भाण्डोंकी गवेषणा करता है. या दूसरे के भाण्डोंकी गवेषणा करता है ? हैं तो वे भाण्डादिक उसी के क्यों कि वे उसके संबंधी हैं । परन्तु जब उसने सामायिक धारण की है. तब उसने उनका प्रत्याख्यान कर दिया है अतः वे उसके संबंधी नहीं रहे । तात्पर्य पूछनेका ऐसा है कि जब तक उसने सामायिक धारण नहीं की हैं तब तक तो वे उसके संबंधी हैं अतः ऐसी स्थिति में यदि कोई उन्हें चुरा लेता है तो वह उन अपने भाण्डोंकी गवेषणा करता ही है—क्यों कि वे उसके हैं । परन्तु जब उसने सामायिक धारण कर ली है—तब उस स्थिति में जब तक वह सामायिक में स्थित है तब तक परिग्रहका उसने प्रत्या

करती वपते उतारेला छपडा तथा आभूषण्यादिने तथा तेना धरमा रहेला वस्त्रादिकोने चोरी ज्ञाय छे ते पछी सामायिक पूरी यथा आः जे ते श्रावक ते चोरायेला वस्त्रादिकोनी शोध करवा भाडे, तो शु ते तेनां पोतानां वस्त्रादिकोनी शोध करे छे, छे अन्यनां वस्त्रादिकोनी शोध करे छे ? [ति वस्त्रादि तेनी माविडोना होवाथी तेना ज छे परन्तु सामायिक धारणु करती वपते तेरो तेना प्रत्याख्यान करी लीयेला होवाथी ते तेना रखा नथी ] आ प्रश्नु तात्पर्य नीचे प्रमाणो छे— ज्या सुधी तेरो सामायिक धारणु करी न हती त्या सुधी तो ते वस्त्रादि तेना ज हता त्यारे ज कोछये ते वस्त्रोनी चोरी करी होय अपने ते श्रावक तेनी शोध करते होय, तो जेनी परिस्थितिमा तो तेना पोताना वस्त्रादिकोनी शोध करे छे, जे ज करे छी शक्य. पणु ज्यारे तेरो सामायिक धारणु करेती होय त्यारे तो,





कवाणपोसहोववासेहिं से भंटे अभंटे भवइ ?' हे भदन्त ! तस्य खलु श्रमणो-  
पासकस्य तैः क्षयोपशमानुसारं गृहीतैः शीलव्रतगुणविरमण प्रत्याख्यान-पौषधोपवासैः  
तत्र शीलानि = सामायिक देशावकाशिक पौषधा-ऽतिथिसंविभागाख्यानि व्रतानि  
=पञ्चाणुव्रतानि, गुणाः=त्रीणि गुणव्रतानि, विरमणं=मिथ्यात्वनिवर्तनम्,  
प्रत्याख्यानं=पर्वदिनेषु त्याज्यानां परित्यागः, पोषधोपासः-पोषं=पुष्टिं धर्मस्य  
वृद्धिमिति यावत् धत्ते इति पोषधः=चतुर्दश्याष्टम्यमावास्यापूर्णिमादिपर्वदिना-  
नुष्ठेयो व्रतविशेषः, तैः, तत्र शीलव्रतादीनां ग्रहणेऽपि विरमणशब्दोपात्तासावध-  
योगविरतेरेव प्रतिपादने मुख्यतात्पर्यमत्रसेयम्, तादृग्विरतेरेव परिग्रहस्या-

तस्मिन् ण भंते ! तेहिं शीलव्रतगुणविरमणपञ्चकवाणपोसहोववासेहिं  
से भंटे अभंटे भवइ' हे भदन्त ! अपने क्षयोपशमके अनुसार ग्रहण  
किये गये शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास इनसे  
क्या उसका वह भाण्ड अभाण्ड-अपने अधिकार से बहिर्भूत हो  
जाता है ? सामायिक, देशावकाशिक, पौषध और अतिथि संविभाग  
ये चार शील कहे गये हैं। पांच अणुव्रत यहाँ व्रत शब्दसे ग्रहण किये  
गये हैं। दिग्व्रत आदि तीन गुणव्रत गुणसे गृहीत हुए हैं। मिथ्यात्व  
से परे होना इसका नाम विरमण है। पर्वके दिनों में छोड़ने योग्य  
पदार्थोंका त्याग करना इसका नाम प्रत्याख्यान है। जो धर्मकी पुष्टि  
करता है उसका नाम पौषध है। यह पौषध चतुर्दशी, अष्टमी, अमा-  
वस्या और पूर्णिमा इन पर्वके दिनोंमें आचरित किया जाता है।  
शीलव्रत आदिका जो वहाँ ग्रहण किया गया है सो इन सब का  
मुख्य तात्पर्य विरमण शब्द प्रतिपाद्य सावधयोगकी विरति के प्रति-

से भंटे अभंटे भवइ' हे भदन्त ! पोताना क्षयोपशमनी अनुसार अहंशु करेवा  
शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान अने पौषधोपवासने करखे शु तेना ते भाड  
अभाड अनी नय छे ? अटवे क शु तेना उपरने तेना अधिकार आह्ये नय छे ?  
सामायिक, देशावकाशिक, पौषध अने अतिथि संविभाग, अये चार शील कहां छे.  
अहीं 'व्रत' पहथी पाय अणुव्रतो अहंशु कराया छे 'गुण' पहथी दिग्व्रत आदि  
त्रय अणुव्रतो अहंशु कराया छे मिथ्यात्वथी रहित थनु तेनु नाम विरमण छे. पर्वना  
दिवसोर्मा त्याग करवा योअ वस्तुओतो त्याग करवा तेनु नाम प्रत्याख्यान छे. धर्मनी  
नेपुष्टि करे तेनु नाम पौषध छे आठम, अष्टम, पूर्णिमा अने अमावास्याअये पौषध  
करवाअं आवे छे शीलव्रत आदि द्वारा सूत्रकरे अर्द्ध सावधयोगथी विरति (निवृत्ति) तुं

परिग्रहताहेतुस्वन माण्डस्यामाण्डतामपननिमित्तत्वात् तद् माण्ड शी-  
 पइत वस्त्रादिकम् अमाण्डं भवति किम् ? असन्वयवहायत्वात् स्वस्वत्वरहित भवति!  
 इति प्रश्नः, मगधानाह 'हता, अमांडंभवइ' हे गौतम ! शीलव्रतादिसावधयोगविरति  
 पौषपोषवामादिमि - परिग्रहपरित्यागेन माण्डस्यामाण्डताप्राप्तिः मभवति,

पादन करनेका हो है । यों कि सावध योगविरति (निवृत्ति) ही परि-  
 ग्रहमें अपरिग्रहता की हेतुमूल बनती है । और जब ही भाण्ड में  
 अमाण्डता का कथन सुसगत ज्ञात होता है । पूछनेवाले का तात्पर्य  
 ऐसा है कि भाण्डादिकोंमें जयतक माणीको ममत्व-अपनेपनकी भावना  
 रहती है-तब तक वे अपने भाण्डादिक है ऐसी माघता होती है  
 सावधयोगका प्रत्याख्यान भाण्डादिकों के विषयमें अपनेपन-ममत्वकी  
 भावनाको बिलकुल ही नहीं रहने देता है इसीका नाम अपरिग्रहता  
 है । जब शीलव्रत, गुण, धरमण आदि द्वारा उन्हें अपनेपन का  
 भाव नहीं रहता है-तो इस अपेक्षा वे अपने लिये-शीलव्रतादि सफल  
 व्यक्तिके लिये अमाण्डरूप ही बन जाते हैं । यही बात पूछनेवालेने  
 प्रश्नके रूपमें पूछी है । उत्तरमें प्रश्न कहते हैं 'हता भवइ' हां, गौतम  
 शीलव्रतानि, सावधयोगविरति, पौषपोषवास आदि इनसे युक्त बना  
 हुआ जीव जब परिग्रहका परित्याग कर देता है तब परिग्रहरूप उन  
 वस्त्रादिकोंमें अमाण्डताही प्राप्ति हो जाती है । अर्थात् वह उन्हें अपना  
 नहीं मानता है । उन्हें अपना नहीं समझना यही उनमें अमाण्डता-

परिग्रहताहेतुस्वन माण्डस्यामाण्डतामपननिमित्तत्वात् तद् माण्ड शी-  
 पइत वस्त्रादिकम् अमाण्डं भवति किम् ? असन्वयवहायत्वात् स्वस्वत्वरहित भवति!  
 इति प्रश्नः, मगधानाह 'हता, अमांडंभवइ' हे गौतम ! शीलव्रतादिसावधयोगविरति  
 पौषपोषवामादिमि - परिग्रहपरित्यागेन माण्डस्यामाण्डताप्राप्तिः मभवति,

तेना उत्तर आपका अर्थात् प्रश्न कहे है- 'हता भवइ' हां, गौतम !  
 शीलव्रतानि सावधयोगविरति पौषपोषवास आदिही युक्त बनेल व्यक्ति द्वारा परिग्रहता  
 परित्याग ही है कि तब परिग्रहरूप वे वस्त्रादिकोंमें अमाण्डताही प्राप्ति यह बात है  
 अर्थात् है कि वस्तुओंमें वे पितानी मानते नहीं तेमने पितानी न जयतीं जे / तेम

गौतमः पृच्छति—‘से केणं खाइणं अट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ—सयं भंडं अणुगवेसइ णो परायगं भंडं अणुगवेसइ’ हे भदन्त ! तत् अथ केन कारणेन उच्यते—यत् स्वकीयं भाण्डम् अनुगवेपयति, नो परकीयं भाण्डम् अनुगवेपयतीति ? ‘खइ’ इति ‘णं’ इति उभौ वाक्यालंकारे भगवानाह—‘गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ—णो मे हिरण्णे, णो मे सुवण्णे, णो मे कंसे, णो मे दूसे’ हे गौतम ! तस्य खलु श्रमणोपामकस्य कृतसामायिकस्य एव वक्ष्यमाणप्रकारको

अपरिग्रहता है। परिग्रह का लक्षण मूर्च्छा परिग्रहः’ ऐसा माना गया है। मूर्च्छाभाव से रहित धनधान्यादि पदार्थ मूर्च्छाअभाववान् व्यक्ति के लिये अपरिग्रह रूप ही माने गये हैं। अब गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि यदि ऐसी ही बात है तो ‘से केणं खाइणं अट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ सयं भंडं अणुगवेसइ, णो परायगं भंडं अणुगवेसइ’ हे भदन्त ! आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह अपने भाण्डकी गवेषणा करना है परके भाण्डकी गवेषणा नहीं करता है ? जब उस व्यक्तिके भाण्डोंके विषयमें ममता की भावना नहीं रही. तब वे भाण्ड उसके तो कहलावेंगे नहीं—फिर वह अपने भाण्डोंकी इस प्रकार स्वत्वकी भावनासे युक्त होकर क्यों गवेषणा करना है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘तस्स णं एव भवइ, णो मे हिरण्णे, णो मे सुवण्णे, णो मे कंसे, णो मे दूसे’ यह बात बिलकुल ठीक है कि—सामायिक धारण

अलाडना—अपस्त्रिडता गणुय छे ‘मूर्च्छाः परिग्रहः’ आ सूत्राश द्वारा परिग्रहनु लक्षणु दर्शान्यु छे मूर्च्छाभावथी रहितने धन धान्यादि पदार्थ अपस्त्रिडरूपेण न मनवाभा आव्या छे

हुवे गौतमस्वामी ओवे प्रश्न पूछे छे ‘से केणं खाइणं अट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ, सयं भंडं अणुगवेसइ, णो परायगं भंडं अणुगवेसइ’ हे भदन्त ! तो आप शां काखे ओवु कडे छे ते श्रावक पोताना न लाडोनी शोध करे छे, अन्यना लाडोनी शोध करती नथी ? जे ते व्यक्तिने ते लाडो प्रत्ये ममत्व न रह्युं न होय, तो ते लाडो तेना कडी शक्य न नही— तो यही ओवु कवी रीते कडी शक्य के ते पोताना लाडोनी शोध करे छे ? ते लाडोने पोताना कडेवा ओटके तेभां ममत्वभाव राखवे ओम न भानी शक्य ?

उत्तर— ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘तस्स णं एवं भवइ, णो मे हिरण्णे, णो मे सुवण्णे, णो मे कंसे, णो मे दूसे’ ओ वात तदन साथी छे के सामायिक

मनापरिणामो भवति-नो मे हिरण्यम्, नो मे सुवर्णम्, नो मे कांस्यम्, पात्रविशेषः, नो मे दृष्य वस्त्रम् 'णो मे विटल-पण-कणग-रण्य मणिमोचियसस सिलप्यवालरत्तरणमादीप सतसारसावपञ्जे' नो मे विपुलपनकनकरत्न मणिमौक्तिकशङ्ख-शिला<sup>म</sup>बालरत्नरत्नादिससारस्वापत्तेयम्, उत्र विपुल प्रचुरं पन शुद्धशर्करादिकम्, कनक सुवर्णम्, रत्नानि कर्केतनादीनि, मणयः चन्द्र कान्तादयः, मौक्तिक ममिदम्, शङ्खाम मतीता', शिला शुभमृचकशिलाखण्डविशेषः मयात्मानि विदुमानि 'मृगा' इति मापाप्रसिद्धानि, रत्नानि पद्मरागादीनि पत्तेपां इन्द्रस्ततो विपुलानि, वनादिनीआदिः यस्य तद्यथा, सत्त्रियमार्गं सारं प्रधानं स्वापत्तेय परोपार्जित विभवः, नो मे वर्तते इति नो मे हिरण्यादिकम् इत्यादि हिरण्यादिपरिग्रहस्य द्विविधं त्रिविधेन प्रत्याख्यातत्वात्, अथ यदि तद्भाण्डम् अभाण्डं भवति तदा कथं स्वकीयं तद् वस्त्रादिकं गवेषयति ? इत्याशङ्कामाहा 'ममत्तमावे पुण से अपरिण्णाए भवइ' ममत्वमाधः पुनः हिरण्यादिविषये

करने वाले व्यक्तिकी जब तक वह सामायिक में स्थित है-ऐसी ही भावना रहती है कि 'हिरण्य (चांदीरूप धातु) मेरा नहीं है, सुवर्ण मेरा नहीं है, कांस्य-पात्र विशेष मेरा नहीं है, वस्त्र मेरे नहीं 'णो मे विटल पण कणग रण्य मणि-मोचिय सस सिल प्यवाल रत्तरणमादीप सतसारसावपञ्जे' इस तरह विपुल धन-शुद्ध शर्करादिक, कनक सुवर्ण, कर्केतन आदि रत्न, चन्द्रकान्त आदि मणिगण मौक्तिक, शङ्ख, शुभमृचक शिलाखण्डविशेष, मृगा पद्मरागादिकरत्न ये मय परपरा से उपार्जित किया हुआ मौजूदा सारभूत द्रव्य मेरा नहीं है, इस प्रकार वह हिरण्यादि परिग्रह का 'द्विविधं त्रिविधेन' के अनुसार प्रत्याख्यान करता है। इसी लिये वह अपने भाण्डकी सामायिक से उठनेके बाद

इस प्रकार व्यक्ति के मया सुधी सामायिकमें नैवेद्य कर्म से तं सुधी तेनी भावना ज्येदी होय से ह हिरण्य [ चांदी ] भातु नधी, सुवर्ण भातु नधी, शंसु भातु नधी वस्त्रो भातु नधी 'णोमे विटल-पण-कणग-रण्य-मणि-मोचिय सस-सिलप्यवाल, रत्तरणमादीप सतसारसावपञ्जे' विपुल पन [मिल. सा. २ अ. १], कर्के, कर्केतन आदि रत्न, चन्द्रकान्त आदि मणि, मोती वस्त्र-शुभमृचक [शिलाखण्ड विशेष, मृगा, पद्मरागादि रत्न वनेरे वस्त्रपरिपत्तयत्त वस्त्र उपार्जित वस्त्रे मने पीत्ताना पत्तेये वस्त्रे आरभूत रूप पद्य भातु नधी आ रीते ते हिरण्यादि पर्यायधने 'द्विविधं त्रिविधेन' आत्र हरे से ज्येदी के भन, वजन जने आध्यायी कर्तो नधी कर्तापी नधी तेको सामायिक पूरी मया जात ते तेनी भावना

समता परिणामः सः अपरिज्ञातो भवति, अपत्याख्यातो भवति, अनुमतेर-  
प्रत्याख्यातत्वात् ममत्वभावस्य चानुमतिरूपत्वात् 'से तेणट्टेण गायमा !  
एवं बुच्चइ-सयं भंडं, अणुगवेसइ, णो परायणं भंडं अणुगवेसइ' तत् तेनार्थेन  
हे गौतम ! एवमुक्तक्रमेणोच्यते-एत् स्वकीयं भाण्डम् अनुगवेपयति, नो  
परकीयं भाण्डम् अनुगवेपयति । गौतमः पृच्छति-'समणोवासगस्स णं भंते !  
सामाइकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ जायं चरेज्जा ?' हे भदन्त !

गवेषणा करता है एसा कहा है । यही बात 'समत्तभावे पुण से अ-  
परिण्णाए भवइ' इस सूत्र द्वारा समझाई गई है । अर्थात् सामायिक  
कारनेके निमित्त उनारे गये चन्द्रादिकों की अथवा घरमें रखे हुए  
पदार्थोंकी की जिन्हे चोरने चुरा लिया है उसने सामायिक करते  
समय उनमें अनुमति रूप ममताभाव या प्रत्याख्यान नहीं किया था  
इस कारण वह सामायिक के वाद अपने भाण्डकी गवेषणा करता है ।  
दूसरे के भाण्डकी गवेषणा नहीं करना । अर्थात् जिन भाण्डोंकी वह  
गवेषणा कर रहा है-वे भाण्ड उसीके हैं, अनुमति का त्याग नहीं  
करने से वे उसके स्वामित्व से बहिर्भूत नहीं हुए हैं । 'से तेणट्टेणं  
गायमा ! एवं बुच्चइ, सयं भंडं अणुगवेसइ, णो परायणं भंडं अणु-  
गवेसइ' इसी तरह से इस सूत्र पाठ द्वारा उक्त विषय का ही सूत्रकार  
ने उपसंहार किया है । अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पृच्छते हैं ।  
'समणोवासगस्स णं भंते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाण  
स्स केइ जायंचरेज्जा' हे भदन्त ! जिसने सामायिक धारण की है-

शोध करे छे, ओम कहुं छे ओम वात 'समत्तभावे पुण से अपरिण्णाए भवइ'  
आ सूत्र द्वारा समजवी छे कडेवानु तात्पर्य ओ छे के सामायिक करती वधत उतारेवा  
वस्त्रादि अथवा घरमां राखेवा पदार्थो के जेभने केई भाण्डस चोरी गये होय छे, तेभा  
अनुमति उप ममताभावना प्रत्याख्यान ते श्रावके सामायिक धारण करती वधते कर्षा न  
हता तेथी ते श्रावक सामायिक पूरी यथा पछी पोताना लाडोनी शोध करे छे-अन्यनां  
शोध करतो नथी कारणके अनुमतिउप मम-वने। त्याग नहीं करवाथी ते लाड उपरने। तेना  
अधिकार आहये गये नथी तेथी जे लाडोनी ते गवेषणा करे छे, ते तेना जे छे ओम  
कडेवांमां केई भाष रहतेो नथी 'से तेणट्टेण गायमा ! एवं बुच्चइ, सयं भंडं  
अणुगवेसइ, णो परायणं भंडं अणुगवेसइ' आ रीते आ सूत्रपाठ द्वारा सूत्रकारे  
उपयुक्त विषयने जे उपसंहार कर्षो छे

हे गौतम स्वामी महावीर प्रश्नने ओवे। प्रश्न करे छे के- 'समणोवासगस्स णं  
भंते ! सामाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केइ जायं चरेज्जा ?'

भ्रमणापामकस्य खलु सामायिककृतस्य कृतमामायिकस्य भ्रमणोपाभये  
 आसीनस्य म्यितस्य मायां स्वधर्मपत्नीं कश्चित् जाणपुरुषः चरेत् म्यमिचरेत्,  
 'से ष मते ! किं मायं चरइ, अजाय चरइ ?' हे मदन्त ! स खलु जाणपुरुषः  
 किं जायां भ्रमणोपासकस्य जायां स्त्रीं चरति सचते ? अजायां तस्य स्त्रीमिष्ठां वा  
 चरति सेचते षमिचरति ? भगवानाह- 'गोयमा ! जाय चरइ, नो अजाय  
 चरइ' हे गौतम ! स जाणपुरुषः भ्रमणोपासकस्य जायां मायां चरति सेचते,  
 नो अजायां भ्रमणोपासकस्य स्त्रीमिष्ठां चरति षमिचरति । गौतमः पृच्छति-  
 'तस्स ण मते ! तेहिं तीलब्बग्गुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोवपासेहिं सा  
 जाया अमाग भवइ' हे मदन्त ! तस्य खलु भ्रमणोपासकस्य तैः शील्वत-

ऐसे आवक की, की जो इस समय उपाश्रय में बैठा हुआ है उसकी  
 पत्नी के साथ यदि कोई जाण पुरुष व्यभिचार सेवन करता है 'से ष  
 मते ! किं जाय चरइ अजाय चरइ' तो वह जाण पुरुष उस भ्रमणोपासक  
 की स्त्री के साथ व्यभिचार सेवन करता है या उसकी स्त्रीसे मिश्र स्त्री  
 के साथ व्यभिचार सेवन करता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं-  
 'गोयमा ! जायं चरइ, नो अजाय चरइ' हे गौतम ! वह जाण पुरुष उस  
 कृत मामायिकवाले पुरुषकी स्त्रीके साथ व्यभिचार सेवन करता है ।  
 उमकी स्त्री से मिश्र स्त्रीके साथ व्यभिचार सेवन नहीं करता है ।

अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं 'तस्स ण मते ! तेहिं-शील्व  
 ग्गुण वेरमणपच्चक्खाणपोसहोवपासेहिं सा जाया अजाया भवइ' हे  
 मदन्त ! उस भ्रमणापासककी शील मत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान,  
 पौषा एवं उपवासों से वह स्त्री क्या उसकी अमाया रूप हो सकती है ?

हे गौतम ! सामायिक धारण करीने उपाश्रयभां बैठेला आवकनी पत्नी साथे होई वर  
 पुरुष व्यभिचार करे, सज्ज मते ! किं जाय चरइ, अजाय चरइ ?' तो ते  
 जाण पुरुष ते आवकनी पत्नी साथे व्यभिचार करे ते ते तेनी पत्नी न होय जेवी स्त्री  
 साथे व्यभिचार सेवे छे । उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! जाय चरइ, नो अजाय  
 चरइ' ते जाण पुरुष सामायिक धारण करीने बैठेला ते पुरुषनी पत्नी साथे व्यभिचार  
 सेवे छे -तेनी पत्नी न होय जेवी स्त्री साथे व्यभिचार सेवती नथी ।

हे गौतम स्वामी भगवतीर प्रभुने पूछे छे- 'तस्स ण मते ! तेहिं

शील्वतयगुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोवपासेहिं सा जाया अजाया भवइ ?'  
 हे गौतम ! शील, धर्म, मत विरमण प्रत्याख्यान जेने पौषकियवासीनी अमाया होय  
 ते आवकनी पत्नी छे तेनी अमाया रूप जनी जती नथी ।

गुण-विरमण-प्रत्याख्यान-पौषधोपवासैः सा जाया भार्या स्वस्त्री अजाया भवति अभार्या भवति? भगवानाह 'हंता अजायाभवद्' हे गौतम ! इन्त, मत्यम् श्रमणोपासकस्य शीलव्रतादिविरमणपौषधोपवासान्तैः जाया ते अजाया भवतीति भावः, गौतमः पृच्छति- 'से केणं खाइणं अट्टेण भंते! एवं बुच्चइ-जायं चरइ नो अजायं चरइ?' हे भदन्त ! तत् अथ केन कारणेन एवमुक्तप्रकारेणोच्यते जाया चरति श्रमणोपासकस्य स्त्रीं सेवते. नो अजायां चरति, तस्य स्त्री भिन्नां न सेवते इति प्रश्नः ? भगवानाह- 'गोयमा । तस्स ण एवं भवइ णो मे माया, णो मे पिया, णो मे साया, णो मे भगिणी' हे गौतम ! तस्य खलु श्रमणो-पासकस्य कृतवामाधिकस्य श्रावकस्य एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण भवति नो मे-काचित् माता, ना मे कश्चित् पिता, नो मे कश्चिद् भ्राता, नो मे काचित्

उत्तर में प्रश्नु कहते हैं 'हता भवद्' हां, गौतम ! उस श्रमणोपासक की शील, व्रत, विरमण, पौषध और उपवास आदि से जाया अजाया रूप हो सकती है । अब गौतमस्वामी प्रश्नु से ऐसा पूछते हैं- 'से केणं खाइणं अट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ, जायं चरइ, नो अजायं चरइ' हे भदन्त ! जब उसकी जाया उसीकी अपेक्षा शीलव्रतादिकों द्वारा अजाया हो सकती है तो फिर ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि वह पुरुष उस कृत सामाधिकवाले श्रमणोपासककी स्त्रीके साथ व्यभिचार सेवन करता है ? उसकी के से भिन्न स्त्रीके साथ व्यभिचार सेवन नहीं करता है ? इसके उत्तर में प्रश्नु कहते हैं- 'तस्स णं एवं भवइ, णो मे माया, णो मे पिया, णो मे भाया, णो मे भगिणी' हे गौतम ! कृत सामाधिकवाले उस श्रमणोपासक के मनमें ऐसा विचार आता है कि मेरी माता नहीं है, मेरा पिता नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहिन नहीं है 'णो मे

उत्तर - ' हता, भवइ ' हां, गौतम ! शील, व्रत, गुण, विरमण, प्रत्याख्यान अने पौषधोपवास आदिही तेनी लार्था अलार्थाइप णनी णय छे

हुवे गौतम स्वामी तेनु कारण्ण णाणुवा भाटे जेवा प्रश्न करे छे इ- 'से केणं खाइणं अट्टेणं भंते ! एव बुच्चइ, जायं चरइ, नो अजायं चरइ ? ' हे भदन्त ! जे तेना शीलव्रतान्नि द्वारा तेनी ते लार्था अलार्थाइप णनी शकती होय तो आप शा कारण्ण जेनुं छेडा छे इ ते नर पुरुष सामाधिक कारण्ण करीने भेडेवा ते श्रावकनी लार्था साथे व्यभिचार सेवे छे ?- तेनी अलार्था साथे व्यभिचार सेवतो नथी ?

उत्तर- ' तस्सणं एवं भवइ, णो मे माया, णो मे पिया, णो मे भाया, णो मे भगिणी ' हे गौतम ! सामाधिकभा भेडेवा ते श्रावकना मनमा जेवा विचार



मगिनी, स्वमा वरते, 'गो म मञ्ज, गो मे पुत्रा, गो म धूया, गो मे सुष्टा'  
ना मे भार्या, गो मे पुत्र, ना मे कुहिता-पुत्री, गो मे स्तुषा पुत्रवधुषां काचित्  
वर्तत क्य तर्हि कश्चित् आरपुरुषः तस्य नाया वरति, गो मभार्या वरति, तस्य  
सत्त्वमावेन जायात्वादिसम्प्र षपरित्यागादित्यावद्वक्याह - 'प्रेमजवधप  
पुण से अत्रोच्छिन्न भवइ' हे गौतम! प्रेमवधनम्-प्रेमैष-प्रीतिरय वधनम्  
प्रेमवधनम् पुनः तस्य भावकस्य अद्युच्छिन्नं भवति, अनुमतेरपत्या  
ख्यातत्वात्, प्रेमानुबन्धस्यानुमतिरूपत्वात्, अत्र तदुपसहरभाह-'स तेणद्वेष'

भज्जा गो मे पुत्रा, गो मे धृग, गो मे सुष्टा' मेरी भार्या नहीं है,  
मेरा पुत्र नहीं है, मेरी लक्ष्मी नहीं है, मेरी पुत्र वधू नहीं है। इस  
प्रकारसे प्रसूका उचर सुनकर अथ गौतमस्वामी प्रसू से ऐसा पूछते हैं  
तो फिर हे भदन्त ! यह बात कैसे मानी जा सकती है कि यह  
जार पुरुष उसकी जाया के साथ व्यवहार सेवन करता है उसकी  
स्त्री से मित्र स्त्रीके साथ व्यवहार सेवन नहीं करता है ? क्यों कि  
उसमें उस धमणोपासक की जय आत्मिकिही नहीं है-तो फिर यह  
उसकी कैसे कटला सकती है ? तो इस आरांका के समाधान निमित्त  
'प्रेमजवधपुण से अत्रोच्छिन्ने भवइ' प्रसू कहते हैं कि गौतम !  
उम भावकका प्रेमवधन धमणामाद्य जोकि अनुमतिरूप है-इसके साथ  
व्युच्छिन्न नहीं हुआ है। तात्पर्य कटनेका यह है कि उसने जो  
स्वावधयोग का परित्याग किया है वह मन, बचन, कौय इनकी दो

आवे उ हे माता नारी नहीं पिता भारी नहीं लार्थ भारी नहीं अहेन भारी नहीं,  
'गो म मञ्जा, गो मे पुत्रा गो मे धूया गो मे सुष्टा' भार्या भारी नहीं,  
पुत्र भारी नहीं पुत्रा भारी नहीं अने पुत्रवधु पक्ष भारी नहीं.

प्रसूनो आ प्रकारनो उत्तर सल्लणीने गौतम एवाप्री प्रसूनो पूछे उ हे तो पक्षी  
जे बात देवी शीते मानी शक्य हे ते अर पुत्र्य ते भावकनी भार्या साथे व्यवहार  
सेवे हे- तेनी भार्या न होय जेवी श्री साथे व्यवहार सेवतो नहीं ? जे ते श्रीमं  
ते भावकनी व्यसक्ति न होय तो ते श्रीने ते भावकनी भार्या न देवी शीते कही शक्य ?

आ वधानु समाधान इत्या भदि प्रसू कहे हे- 'प्रेमजवधपुण पुण से  
अयोच्छिन्ने भवइ' हे गौतम ! ते भावकनु प्रेमवधन-धमता एव न अनुमतिरूप  
हे- ते व्युच्छिन्न वधु नहीं- प्रसू नहीं. तेनी अनुमति विना ते श्री लक्ष्मीनु तेनु  
प्रेमवधन एही कहेत नहीं. इहेवानु तादर्थ्य जे उ हे तेजे न आवक्येजने परित्याग  
करी हे त मन, बचन अने कौयनी जे कटिधी [हृत् अने शरितधी] क्यों उ तेजे मन,

गोयमा ! जात्र नो अजायं चरह' हे गौतम ! तत् अथ तेन कारणेन यावत्-  
कश्चित् पुरुषः तस्य प्रेमासक्तिसम्बन्धात् जायां चरति. नो अजायां  
चरतीति भावः ॥ सू० १ ॥

स्थूलमाणातिपातादिप्रत्याख्याननिगोपवृत्तव्यता

मूलम्—'समणोवासगस्स णं भंते ! पुव्वामेव थूलए पाणाइ-  
वाए अपच्चक्खाए भवइ, से णं भंते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे  
किं करेइ ? गोयसा ! तोय पडिक्कमइ, पडुपन्नं सवरेइ, अणा-  
गयं पच्चक्खाइ, तीयं पडिक्कममाणे किं १-तिविहं तिविहेणं  
पडिक्कमइ, २-तिविहं दुविहेणं पडिक्कमइ, ३-तिविहं एगविहेणं  
पडिक्कमइ, ४-दुविहं तिविहेणं पडिक्कमइ, ५-दुविहं दुविहेणं  
पडिक्कमइ. ६-दुविहं एगविहेणं पडिक्कमइ, ७-एगविहं तिवि-  
हेणं, पडिक्कमइ, ८-एक्कविहं दुविहेणं पडिक्कमइ, ९-एक्कविहं

कोटिसे-कृत कारित से किया है नकि इनकी अनुमतिसे इसीलिये  
'मणेणं वायाए, काएण न करेमि, न कारवेमि' ऐसा कहा गया है ।  
'से तेणट्ठेणं जायसा ! जात्र नो अजायं चरह' इस कारण हे गौतम !  
मैने ऐसा कहा है किवह जार पुरुष उस श्रमणोपासक कृत सामायिक  
की पत्नीके साथ ही व्यभिचार का सेवन करता है । उसकी पत्नीसे  
भिन्न स्त्रीके साथ व्यभिचार का सेवन नहीं करता है । वह उसकी  
पत्नी इसलिये कही गई है कि उसका प्रेमासक्ति संबंध उसके साथ  
बना हुआ है ॥ सू० १ ॥

वचन अने कयती अनुमतिथी तेना परित्याग करीं नथी तथीन 'मणे णं वायाए,  
काएण न करेमि, न कारवेमि' मन, वचन अने कायाधी करीश नही अने  
करीवीश नही' अेवुं कडेवाभा आव्यु छे 'से तेणट्ठेणं गोयसा ! जात्र नो अजायं  
चरह' हे गौतम ! ते कारणे मे अेवुं कहुं छे हे ते वर पुरुष सामायिक धारणु  
करीने भेटेला ते श्रावकनी साथी साथे व्यभिचार सेवे छे ते तेनी पत्नी न डोय अेवी  
स्त्री साथे व्यभिचार सेवती नथी ते स्त्रीने ते श्रावकनी पत्नी कडेवानुं कारणु अे छे हे  
तेनी साथे तेना प्रेमासक्ति सम्बन्ध अतूट रहेवा छे ॥ सू० १ ॥

एकविहेणं पढिक्कमइ ? गोयमा ! तिविह तिविहेणं पढिक्कमइ  
 तिविह दुविहेण वा पढिक्कमइ, त चेष जाव, एकविह वा  
 एकविहेण पढिक्कमइ, १-तिविह तिविहेणं पढिक्कममाणे  
 न करेइ, न कारवेइ, करेत णाणुजाणइ, मणसा, वयसा  
 कायसा, २-तिविह दुविहेण पढिक्कममाणे न करेइ, न  
 कारवेइ, करेत णाणुजाणइ मणसा, वयसा, ३ अहवा न  
 करेइ, न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा, कायसा, ३-  
 अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा,  
 कायसा, ४-तिविह पगविहेण पढिक्कममाणे न करेइ, न  
 कारवेइ, करेत णाणुजाणइ मणसा, ५-अहवा न करेइ,  
 न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा ६-अहवा न करेइ,  
 न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ कायसा ७, अहवा न करेइ  
 न कारवेइ करेत नाणुजाणइ कायसा दुविह तिविहेणं  
 पढिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा वयसा कायसा ८,  
 अहवा न करेइ, करेत णाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ९,  
 अहवा न कारवेइ, करेत णाणुजाणइ मणसा वयसा  
 कायसा १०, दुविह दुविहेण पढिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ  
 मणसा वयसा ११, अहवा न करेइ न कारवेइ मणसा  
 कायसा १२, अहवा न करेइ, न कारवेइ वयसा कायसा १३,  
 अहवा न करेइ, करेतं णाणुजाणइ मणसा वयसा १४, अहवा  
 न करेइ, करेतं नाणुजाणइ, मणसा कायसा १५, अहवा  
 न करेइ, करेतं णाणुजाणइ वयसा कायसा १६, अहवा

न कारवेइ, करेतं णाणुजाणइ मणसा वयसा, १७, अहवा न  
 कारवेइ, करेतं णाणुजाणइ मणसा कायसा १८, अहवा न  
 कारवेइ, करेतं णाणुजाणइ, वयसा कायसा १९. दुविहं एक्क-  
 विहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा २०, अहवा न  
 करेइ, न कारवेइ वयसा २१, अहवा न करेइ, न कारवेइ  
 कायसा २२, अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ, मणसा २३,  
 अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ वयसा २४, अहवा न  
 करेइ, करेतं णाणु जाणइ कायसा २५, अहवा न कारवेइ,  
 करेतं णाणु जाणइ मणसा २६, अहवा न कारवेइ, करेतं णाणु  
 जाणइ वयसा २७, अहवा न कारवेइ, करेतं णाणुजाणइ  
 कायसा २८, एगविहं तिविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा  
 वयसा कायसा २९, अहवा न कारवेइ, मणसा वयसा कायसा  
 ३०, अहवा करेतं नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ३१,  
 एगविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा वयसा ३२,  
 अहवा न करेइ मणसा कायसा ३३, अहवा न करेइ वयसा  
 कायसा ३४ अहवा न कारवेइ मणसा वयसा ३५, अहवा न  
 कारवेइ मणसा कायसा ३६, अहवा न कारवेइ वयसा कायसा  
 ३७, अहवा करेतं नाणुजाणइ मणसा वयसा ३८, अहवा  
 करेतं णाणुजाणइ मणसा कायसा ३९, अहवा करेतं नाणु-  
 जाणइ वयसा कायसा ४०, एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे  
 न करेइ मणसा ४१, अहवा न करेइ वयसा ४२, अहवा न

करेइ कायसा ४३, अहवा न कारवेइ मणसा ४४, अहवा न कारवेइ वयसा ४५, अहवा न कारवेइ कायसा ४६, अहवा करेतं नाणुजाणइ मणसा ४७, अहवा करेतं नाणुजाणइ वयसा ४८, अहवा करेतं नाणुजाणइ कायसा ४९ । पट्टप्पन्न सवरेमाणे किं तिविह तिविहेण सवरेइ ? एव जहा पडिक्कम माणे ण एगूणपत्त भंगा भणिया एव सवरमाणेणवि एगूणपत्ता भगा भाणियव्वा अणागय पच्चक्खमाणे किं तिविह तिविहेणं पच्चक्खाइ ? एव तेचेव भगा एगूणपत्त भाणियव्वा जाव अहवा करेत नाणुजाणइ कायसा । समणोवासगस्स णं भते ! पुब्बामेव थूलमुसावाए अपच्चक्खाए भवइ, से ण भते । पच्छा पच्चाइक्ख माणे किं करेइ ? एव जहा पाणाइवायस्स सीयाल भगसय भणियं, तहा मुसावायस्स वि भाणियव्व, एव अदिञ्चादोणस्स वि एव थूलगस्स मेट्टुणस्स वि थूलगस्स परिग्गहस्स वि जाव अहवा करेतं नाणुजाणइ कायसा एए खल्ल परिसगा समणो वासगा भवति, नो खल्ल परिसगा आजीवियोवासगा भवति । सु २।

छाया- भ्रमणोपासकस्य खल्ल भवन्त ! पूर्वमेव स्थूल प्राणातिपातः भ्रमणोपासकस्य भवति, स खल्ल भवन्त ! पश्चात् प्रत्यापन्नानां किं करोति ?

स्थूल प्राणातिपातादि प्रत्यापन्नानां विशेषवक्तव्यता-

‘समणोवासगस्स णं भते !’ इत्यादि-

सूत्रार्थ-(समणोवासगस्स णं भते ! पुब्बामेव स्थूल पाणाइवाए अपच्चक्खाए भवइ) हे भवन्त ! भ्रमणोपासक के पहिले से तो स्थूल प्राणाति

स्थूल प्राणातिपातादि प्रत्यापन्नानां (विशेष वक्तव्यता-

‘समणोवासगस्स णं भते !’ इत्यादि-

सूत्रार्थ-(समणोवासगस्स णं भते ! पुब्बामेव स्थूल पाणाइवाए अपच्चक्खाए भवइ) हे भवन्त ! भ्रमणोपासक के पहिले से तो स्थूल प्राणातिपातना प्रत्यापन्नानां

गौतम ! अतीतं प्रतिक्रामति, प्रत्युत्पन्नं संवृणोति, अनागतं प्रत्याख्याति,  
अतोत प्रतिक्रामन् किं १-त्रिविधं त्रिविधेन प्रतिक्रामति, २-त्रिविध  
द्विविधेन प्रतिक्रामति, ३-त्रिविधम् एकविधेन प्रतिक्रामति, ४-द्विविध  
त्रिविधेन प्रतिक्रामति, ५-द्विविधं द्विविधेन प्रतिक्रामति, ६-द्विविधम् एक-  
विधेन प्रतिक्रामति, ७-एकविधं त्रिविधेन प्रतिक्रामति, ८-एकविध द्विविधेन

पात का प्रत्याख्यान होता नहीं है, ( से णं भंते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे  
किं करेइ ) बाद में होता है. अतःजब यह उसका प्रत्याख्यान करता  
है तो क्या करके उस समय उसका प्रत्याख्यान करता है ? (गोयमा)  
हे गौतम ! ( तीयं पडिक्कमइ, पडुप्पन्न संवरेइ, अणागयं पच्चक्खाइ )  
उस समय यह अमणोपासक अतीतकाल में हुए प्राणातिपात का  
प्रतिक्रमण करता है वर्तमान में होते हुए प्राणातिपात का संवर करता  
है । तथा भविष्यकाल में होनेवाले प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता  
है । ( तीयं पडिक्कममाणे किं तिविहं तिविहेणं पडिक्कमइ १, तिविहं  
दुविहेणं पडिक्कमइ २, तिविह एगविहेणं पडिक्कमइ ३ ) हे भदन्त !  
अतीतकाल में हुए प्राणातिपातका वह जो प्रतिक्रमण करता है, सो  
वह प्रतिक्रमण क्या त्रिविध का त्रिविध से करता है ? या त्रिविध  
का द्विविध से करना है ? या त्रिविध का एकविध से करना है ? या  
( दुविहं तिविहेणं पडिक्कमइ ४, दुविहं दुविहेणं पडिक्कमइ ५, दुविहं  
एगविहेणं पडिक्कमइ ६ ) द्विविधका त्रिविध से प्रतिक्रमण करता है ?  
या द्विविध का द्विविध से प्रतिक्रमण करता है ? या द्विविध का एकविध

यता नथी ( सेणं भंते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे किं करेइ ) पणु पाष्णथी याय  
छे, तो न्यारे ते तेना प्रत्याप्थ्यान करे छे त्यारे ते शु क्खीने तेना प्रत्याप्थ्यान करे छे ?  
(गोयमा ! ) हे गौतम ! ( तीयं पडिक्कमइ, पडुप्पन्न संवरेइ, आणागयं पच्चक्खाइ )  
ते सभये ते अमणोपासक भूतडाणमां थयेत्ता प्राणातिपातनु प्रतिकंभणु करे छे, वर्तमानमा  
यतां प्राणातिपातनेा संवर करे छे अने भविष्य डाणमां थनारा प्राणातिपातनेा प्रत्याप्थ्यान  
करे छे ( तीयं पडिक्कममाणे किं तिविहं तिविहेण पडिक्कमइ १, तिविहं दुविहेणं  
पडिक्कमइ २, तिविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ३ ) हे भदन्त ! अतीतडाणमा थयेत्ता  
प्राणातिपातनु ते ने प्रतिकंभणु करे छे ते प्रतिकंभणु शु त्रिविधनु त्रिविधे करे छे ? इ  
त्रिविधनु द्विविधे करे छे ? इ त्रिविधनु अक विधे करे छे ? ( दुविहं तिविहेणं पडिक्कमइ  
४, दुविहं दुविहेण पडिक्कमइ ५, दुविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ६ ) इ द्विविधनु  
त्रिविधे प्रतिकंभणु करे छे ? इ द्विविधनु द्विविधे प्रतिकंभणु करे छे ? इ द्विविधनु अकविधे

प्रतिक्रामति, १-एकविधम् एकविधेन प्रतिक्रामति ? -गौतम । त्रिविधं त्रिविधेन प्रतिक्रामति, त्रिविधं द्विविधेन वा प्रतिक्रामति, तदेव यावत्-एकविधवा एकविधेन प्रतिक्रामति, १-त्रिविधं त्रिविधेन प्रतिक्रामन् न करोति, न कारयति, कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा वचसा कायेन, २ त्रिविधं

से प्रतिक्रमण करता है ? या (एगविह त्रिविहेण पडिकमइ ७, एकविहं द्विविहेण पडिकमइ ८, एगविह एगविहेण पडिकमइ ९) एकविधका त्रिविध से प्रतिक्रमण करता है ? या एकविधका द्विविधस प्रतिक्रमण करता है ? या एकविधका एकविध से प्रतिक्रमण करता है ? (गोयमा) हे गौतम ! अतीतकाल में कृप प्राणालिपातका यह जा प्रतिक्रमण करता है यह (त्रिविहं त्रिविहेण पडिकमइ) त्रिविध का त्रिविध स प्रतिक्रम करता है (त्रिविह द्विविहेण पडिकमइ) त्रिविध का द्विविध स करता है (तथेव जाय एगविह वा एगविहेण वा पडिकमइ) इत्यादि सय कयन पूर्वकी तरह यावत्-‘एकविध का एकविध से प्रतिक्रमण करता है’ यहाँ तक जानना चाहिये । (त्रिविह त्रिविहेण पडिकममाणे न करोइ, न कारवइ, अरेत गाणुजाणइ मणसा, मयसा, कायसा) यह जय त्रिविध का त्रिविध स प्रतिक्रमण करता है तय यह प्राणालिपातको न मनसे करता है, न मनसे कराता है, और न मनसे उसकी अनुमोदना

प्रतिक्रमण करता है ? (एगविह त्रिविहेण पडिकमइ ७, एगविहं द्विविहेण पडिकमइ ८, एगविह एगविहेण पडिकमइ ९) ३ ओकविधनु त्रिविधे प्रतिक्रमण करे छै ? ३ ओकविधनु द्विविधे प्रतिक्रमण करे छै ? ३ ओकविधनु ओकविधे प्रतिक्रमण करे छै ? (गोयमा ।) हे गौतम ! अतीतकालमें कयता प्राणुतिपातनु ते न प्रतिक्रमण करेछे ते (त्रिविह त्रिविहेण पडिकमइ) त्रिविधनु त्रिविधे प्रतिक्रम करेछे (त्रिविहं द्विविहेण पडिकमइ) त्रिविधनु द्विविधे करे छे, (तं वेव जाय एगविहं वा एगविहेण वा पडिकमइ) इत्यादि सभस्त कथन पूर्वोक्त अथ प्रभाषे समञ्जसं ‘ओक विधनु ओकविधे प्रतिक्रमण करे छे त्वां सुभीनु पूर्वोक्त अथ अर्था मञ्जसु करतुं (त्रिविहं त्रिविहेण पडिकममाणे न करोइ, न कारवइ, करतं गाणुजाणइ मणसा, मयसा, कायसा) अथारे ते त्रिविधनु त्रिविधे प्रतिक्रमण करे छे, ते मनसी प्राणुतिपात करतो नथी करवतो नथी अने मनसी अने अनुमोदना करतो नथी, ओक प्रभाषे ते नयनथी प्राणुतिपात करतो नथी वचनथी प्राणुतिपात करवतो नथी अने वचनथी तेनी अनुमोदना करतो नथी ओक प्रभाषे ते कायाथी प्राणुतिपात करतो नथी करवतो नथी अने करनारनी अनुमोदना करतो नथी (त्रिविहं द्विविहेण पडिकममाणे न

द्विविधेन प्रतिक्रामन न करोति, न कारयति, कुर्वन्तां नानुजानाति मनसा वचसा, ३ अथवा न करोति, न कारयति, कुर्वन्तां नानुजानाति मनसा कायेन, ४ अथवा न करोति न कारयति, कुर्वन्तां नानुजानाति वयसा कायेन, ५ त्रिविधम् एकविधेन प्रतिक्रामन न करोति न कारयति, कुर्वन्तां

करता है, इसी तरह से वह वचन से न प्राणानिपात करता है, न वचन से उसे कराता है न उसकी वचन से अनुमोदना करता है। इसी तरह वह कायसे न प्राणातिपात करता है न कराता है और न करनेवाले को अनुमोदना करता है। ( त्रिविहं द्विविहेणं पडिकममाणे न करेइ, न कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ मणसा वयसा) त्रिविधका ज - वह द्विविधसे प्रतिक्रमण करता है तब उम भित्ति में मनसे प्राणातिपातको नहीं करता है, दूसरोसे उसे मनसे वह नहीं कराता है, और प्राणातिपातको करनेवालेकी अनुमोदना वह मनसे नहीं करता है इसी तरह वह वचनसे प्राणातिपातको नहीं करता है, न कराता है और न करनेवालेकी वह वचनसे अनुमोदना ही करता है। (अहवा न करेइ, न कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ, मणसा कायसा) अथवा मनसे एवं कायसे वह न प्राणातिपातको करता है, न उन दोनोंके द्वारा वह किसी दूसरेसे उसे कराता है और न उन दोनोंके द्वारा वह उसे करनेवालेकी अनुमोदना करता है। (अहवा न करेइ न कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ वयसा कायसा) अथवा वचन और कायसे वह प्राणातिपातको नहीं करता है, न कराता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है।

(त्रिविहं एगविहेणं पडिकममाणे न करेइ, न कारवेइ,

करेइ, न कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ मणसा वयसा) न्यारे ते त्रिविधे द्विविधे प्रतिक्रमणु करे छे, तयारे ते मनथी प्राणातिपात करतो नथी, भीण्ण द्वारा मनथी प्राणातिपात करावता नथी, अने प्राणातिपात करनारने मनथी अनुमोदना आपतो नथी अने प्रमाणु ते वचनथी प्राणातिपात करतो नथी, करावतो नथी अने करनारने वचनथी अनुमोदना आपतो नथी (अहवा - न करेइ कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ, मणसा कायसा) अथवा मन अने कायाथी ते प्राणातिपात करतो नथी, हे अने द्वारा ते भीण्ण यासे प्राणातिपात करावतो नथी, अने ते अने द्वारा ते प्राणातिपात करनारनी अनुमोदना करतो नथी (अहवा न करेइ न कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ वयसा कायसा) अथवा वचन अने कायाथी ते प्राणातिपात करतो नथी, अने करनारनी अनुमोदना करतो नथी (त्रिविहं एगविहेणं पडिकममाणे न करेइ, न कारवेइ, करंतं णाणुजाणइ



नानु जानामि मनसा, ६-अथवा न करोति न कारयति कुर्वन्त नानुजानाति  
 नवसा, ७-अथवा न करोति न कारयति, कुर्वन्त नानुजानाति कायेन,  
 ८ त्रिविध त्रिविधेन प्रतिक्रामन् न करोति, न कारयति, मनसा षषसा  
 कायेन ९अथवा न करोति, कुर्वन्त नानुजानानि मनसा ववसा कायेन,  
 १०-अथवा न कारयति, कुर्वन्त नानुजानाति मनसा षषसा कायेन,

करंत णाणुजाणइ मणसा, अहवा न करेइ न कारवेइ, करंत  
 णाणुजाणइ षषसा अहवा-न करेइ, न कारवेइ करंत णाणुजाणइ  
 कायसा) जय यह त्रिविधसे एकविधका प्रतिक्रमण करता है-  
 तय यह मनसे प्राणातिपातको नहीं करता है न कराता  
 है और न करनेवालेकी मनसे अनुमोदना ही करता है । अथवा  
 षषन के द्वारा यह प्राणातिपात नहीं करता है न कराता है और  
 न करनेवालेको यह अनुमोदना करता है अथवा कायसे यह प्राणा  
 तिपात नहीं करता है न कराता है और न करनेवालेही यह अनु  
 मोदना करता है । (दुषिइ त्रिविधेण पडिक्कममाणे न करेइ न कार  
 वेइ मणसा षषसा, कायसा८) जय यह दो प्रकारके प्राणातिपातका  
 त्रिविधसे प्रतिक्रमण करता है, तय यह मनसे षषनसे और कायसे  
 ही कृत और कारितका त्याग करता है । (अहवा न करेइ करंत  
 णाणुजाणइ मणसा षषसा कायसा९) अथवा मन, षषन और काय  
 मयघो कृत और अनुमोदना करनेका त्याग करता है । (अहवा  
 न कारवेइ, करंत णाणुजाणइ, मणसा, षषसा कायसा) अथवा मनसे  
 यह प्राणातिपातको नहीं करता है और प्राणातिपात करनेवालेकी

मगसा भइवा न करे न कारवेइ, परत ण णुजाणइ षषसा, अहवा न करेइ न कारवेइ,  
 करंत णाणुजाणइ कायसा ) न्यारे ते त्रिविधे जेहविधे प्रतिक्रमण करे से, त्थारे  
 त मनसी आणुतिपात करेता नथी करवते नथी अने करनारने मनसी अनुमोदन इते नथी  
 षषनसे मनसी ते आणुतिपात करेते नथी करवते नथी अने करनारने अनुमोदना इते  
 नथी अथवा अथवा ते आणुतिपात करेते नथी, करवते नथी अने करनारने अनुमोदना  
 करेते नथी (दुषिइ त्रिविधेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा, षषसा,  
 कायसा ) न्यारे ते जे प्रकारन्त आणुतिपातन्त त्रिविधे प्रतिक्रमण करे ७ त्थारे ते मन,  
 षषन अने अथवा आणुतिपात करेते नथी अने करवते नथी (अहवा न करेइ,  
 करेइ णाणुजाणइ, मणसा, षषसा, कायसा ९) अथवा मन षषन अने अथवा  
 आणुतिपात करेते नथी अने करनारने अनुमोदन करेते नथी (अहवा-न कारवेइ,  
 करंत णाणुजाणइ मणसा षषसा कायसा ) अथवा मन षषन अने अथवा ते

११-द्विविधं द्विविधेन प्रतिक्रामन् न करोति, न कारयति मनसा वचसा,  
 १२-अथवा न करोति, न कारयति मनसा कायेन, १३-अथवा न करोति,  
 न कारयति, वचसा कायेन, १४-अथवा न करोति, कुर्वन्तं नानुजानाति  
 मनसा वचसा, १५-अथवा न करोति, कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा कायेन,

वह अनुमोदना नहीं करता है । इसी तरहसे वचन संबंधी, कारिन  
 और अनुमोदनाको जानना चाहिये । और इसी तरहसे कायसंबंधी  
 कारित और अनुमोदनाको जानना चाहिये ।

(दुविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ न कारवेइ मणसा  
 वयसा) जब वह दो प्रकारके प्राणातिपातका दो प्रकारसे  
 प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे और वचनसे प्राणातिपात  
 स्वयं नहीं करता है और न दूसरोंसे ही कराता है । (अहवा  
 न करेइ न कारवेइ मणसा कायसा) अथवा जब वह  
 दो प्रकारके प्राणातिपात का दो प्रकारसे करनेका प्रतिक्रमण करता है  
 तब वह मनसे और कायसे न करता है न उसे कराता है (अहवा  
 न करेइ न कारवेइ वयसा कायसा) अथवा जब वह दो प्रकारके  
 प्राणातिपात करनेका प्रतिक्रमण करता है उस समय वह वचनसे  
 और कायसे उस प्राणातिपातको न स्वयं करता है और न करवाता  
 है । (अहवा न करेइ, करेत नानुजाणइ मणसा वयसा १५) अथवा  
 जब वह दो प्रकारसे दो प्रकारके प्राणातिपात करनेका प्रतिक्रमण  
 करता है तब वह मनसे और कायसे उस प्राणातिपातको न स्वयं  
 करता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है । (अहवा न करेइ

पीण्ण पासे प्राणुतिपातं क्खावते नथी अने प्राणुतिपातं क्खनारनी भन्, वयन अने  
 धायथी अनुमोदनां क्खते नथा (दुविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न  
 कारवेइ, मणसा वयसा) न्यारे ते जे प्रकारना प्राणुतिपातनु जे प्रकारे प्रतिक्रमण  
 करे छे त्यारे ते भन्थी अने वयनथी पेटे प्राणुतिपातं क्खते नथी अने पीण्ण पासे  
 प्राणुतिपातं क्खते नथी (अहवा न करेइ न कारवेइ मणसा, कायसा) अथवा  
 ते भन्थी अने धायथी प्राणुतिपातं क्खते नथी क्खावते नथी, (अहवा - न करेइ, न  
 कारवेइ, वयसा कायसा) अथवा न्यारे ते जे प्रकारना प्राणुतिपातनु जे प्रकारे  
 प्रतिक्रमण करे छे त्यारे ते वयन अने धायथी प्राणुतिपातं क्खते नथी अने पीण्ण  
 पासे प्राणुतिपातं क्खावते नथी (अहवा-न करेइ, करेत नानुजाणइ मणसा वयसा)  
 अथवा न्यारे ते जे प्रकारे जे प्रकारना प्राणुतिपातनु प्रतिक्रमण करे छे त्यारे भन्थी अने  
 वयनथी ते पेटे प्राणुतिपातं क्खते नथी अने क्खावते अनुमोदना पणु क्खते नथी

१६-अथवा न करोति, कुर्षन्तं नानुजानाति यच्चसा कायेन, १७ अथवा न कारयति, कुर्षन्तं नानुजानाति, मनसा यच्चसा, १८ अथवा न कारयति, कुर्षन्तं नानुजानाति मनसा कायेन १९ अथवा न कारयति, कुर्षन्तं नानुमानाति यच्चसा कायेन, २० द्विविधम् एकविधेन प्रतिक्रामन् न करोति न कारयति मनसा, २१ अथवा न करोति, न कारयति यच्चसा, २२ अथवा

करंतं नाणुजाणइ ययसा कायसा १६) अथवा यच्चनसे और कायसे यह प्राणातिपात स्वयं नहीं करता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है । (अहवा न कारवेइ करंतं नाणुजाणइ मणसा ययसा १७) अथवा यह मनसे और यच्चनसे न करवाता है और न कर्मेवालेकी अनुमोदना करता है । (अहवा न कारवेइ करंतं नाणुजाणइ मणसा कायसा १८ अथवा मनसे और कायस यह नहीं करवाता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है । (अहवा न कारवेइ करंतं नाणुजाणइ ययसा कायसा १९) अथवा यच्चनसे और कायसे यह प्राणातिपातको न करवाता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है । (दुविह एकविधेण प्रतिक्राममाणे न करेइ न कारवेइ मणसा २०) जय यह एक प्रकारसे दो प्रकारके प्राणातिपात करनेकी प्रतिक्रमण करता है तब यह मनसे उसे न स्वयं करता है और न करवाता है इस तरह यहां मनकी दो कोटि भेद कही है । (अहवा

(अहवा-न करेइ करेत्त नाणुजाणइ मणसा कायसा) अथवा अहारे ते जे प्रहरना प्राणुतिपातुं प्रतिबन्धु करे ॐ त्पारे मन जने अथाधी ते पीते प्राणुतिपात इरते नथी जने प्राणुतिपात इरान्तरनी अनुमोदना पक्ष इरते नथी (अहवा न कारवेइ करेत्त नाणुजाणइ ययसा कायसा) अथवा यच्चनधी जने अथाधी ते पीते प्राणुतिपात इरते नथी जने इरान्तरनी अनुमोदना इरते नथी (अहवा न कारवेइ करेत्त नाणुजाणइ, मणसा ययसा १७) अथवा ते मन जने यच्चनधी प्राणुतिपात इरावते नथी जने इरान्तरनी अनुमोदत इरते नथी (अहवा न कारवेइ करेत्त नाणुजाणइ मणसा कायसा) अथवा मनधी जने अथाधी ते इरावते नथी जने इरान्तरनी अनुमोदना इरते नथी (अहवा-कारवेइ करेत्त नाणुजाणइ मणसा कायसा) अथवा मनधी जने अथाधी ते प्राणुतिपात इरावते नथी जने इरान्तरनी अनुमोदना इरना नथी (अहवा-न कारवेइ करेत्त नाणुजाणइ ययसा कायसा) अथवा ते यच्चनधी जने अथाधी प्राणुतिपात इरावते नथी जने इरान्तरनी अनुमोदना इरते नथी (दुविह एकविधेण प्रतिक्राममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा २०) अथवा ते जे प्रहरने जे प्रहरना प्राणुतिपातुं प्रतिबन्धु करे ॐ त्पारे मनधी ते पीते प्राणुतिपात इरते नथी जने पीते प्राणुतिपात इरावते नथी जे पीते मननी जे इति इडेवाभा जानी जे

न करोति, न कारयति कायेन, २३ अथवा न करोति, कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा, २४ अथवा न करोति कुर्वन्तं नानुजानाति, वचसा, २५ अथवा न करोति, कुर्वन्तं नानुजानाति कायेन, २६ अथवा न कारयति, कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा, २७ अथवा न कारयति, कुर्वन्तं नानुजानाति वचसा, २८ अथवा न कारयति, कुर्वन्तं नानुजानाति, कायेन, २९. एरुविधं

न करेइ न कारवेइ वयसा २१ ) अथवा वचनसे वह न प्राणातिपात करता है और न कराता है । अहवा न करेइ न कारवेइ कायसा २२) अथवा वह कायासे न करना है और न करवाना है । (अहवा न करेइ करेत्तं णाणुजाणइ मणसा २३) अथवा मनसे वह न करता है और न करते हुए की अनुमोदना करता है । (अहवा न करेइ करंत्तं णाणुजाणइ वयसा २४) अथवा वह वचनसे न करता है और न करते हुएकी अनुमोदना करता है । (अहवा न करेइ करंत्तं नाणुजाणइ कायसा २५) अथवा कायसे वह न करता है और न करते हुएकी अनुमोदना करता है । (अहवा न कारवेइ करेत्तं नाणुजाणइ मणसा २६) अथवा मनसे वह न करवाता है और न करते हुएकी अनुमोदना करता है । (अहवा न कारवेइ करंत्तं नाणुजाणइ वयसा २७) अथवा वह वचनसे न करता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है । (अहवा न कारवेइ करंत्तं णाणुजाणइ कायसा २८) अथवा कायसे न करवाता है और न कर

(अहवा-न करेइ, न कारवेइ, वयसा २१) अथवा वचनथी ते प्राणातिपात करते नथी अने करावतो नथी (अहवा-न करेइ, न कारवेइ कायसा २२) अथवा कायाथी ते प्राणातिपात करते नथी अने करावतो नथी (अहवा न करेइ, करंत्तं णाणुजाणइ मणसा) अथवा मनथी ते प्राणातिपात करते नथी अने करनारनी अनुमोदना करते नथी (अहवा न करेइ करंत्तं णाणुजाणइ वयसा) अथवा ते वचनथी प्राणातिपात करते नथी अने करनारनी अनुमोदना करते नथी (अहवा न करेइ, करंत्तं णाणुजाणइ कायसा २५) अथवा कायाथी ते प्राणातिपात करते नथी अने करनारनी अनुमोदना करते नथी (अहवा-न कारवेइ, करंत्तं णाणुजाणइ मनसा २६) अथवा मनथी ते प्राणातिपात करावतो नथी अने करनारनी अनुमोदना करते नथी (अहवा - न कारवेइ, करंत्तं णाणुजाणइ वयसा २७) अथवा ते वचनथी प्राणातिपात करावतो अने करनारनी अनुमोदना करते नथी (अहवा न कारवेइ, करंत्तं णाणुजाणइ कायसा

त्रिषिधेन प्रतिक्रामन् न करोति मनसा वचसा कायेन ३० अथवा न  
 कारयति मनसा वचसा कायेन, ३१ अथवा कुर्वन्तां नानुमानाति, मनसा  
 वचसा कायेन, ३२ एकविधं द्विषिधेन प्रतिक्रामन् न करोति मनसा  
 वचसा, ३३ अथवा न करोति मनसा कायेन, ३४ अथवा न करोति वचसा  
 कायेन ३५ अथवा न कारयति मनसा वचसा, ३६ अथवा न कारयति

नेवालेकी अनुमोदना करता है । (एगविहं त्रिषिधेणं पडिक्कममाणे  
 न करेइ मणसा कायसा २९) जब वह तीन प्रकारसे एक प्रकारके  
 प्राणातिपात करनेका प्रतिक्रमण करता है तब वह मन वचन कायसे  
 उसे स्वयं नहीं करता है । (अइथा न कारवेइ मणसा वयसा कायसा  
 ३०) अथवा वह मनसे वचनसे और कायसे उसे करवाता नहीं है ।  
 (कर्तं नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ३१) अथवा मन वचन  
 कायसे वह करते हुवेकी अनुमोदना नहीं करता । (एगविहं दुषिहेण  
 पडिक्कममाणे न करेइ मणसा वयसा ३२) जब वह दो प्रकारसे एक  
 प्रकारके प्राणातिपात करनेका प्रतिक्रमण करता है तब यह मनसे  
 वचनसे उसे नहीं करता है । (अइथा न करेइ मणसा कायसा ३३)  
 अथवा वह मनसे और कायसे नहीं करता है (अइथा न करेइ  
 वयसा कायसा ३४) अथवा वह वचनसे और कायसे नहीं करता है  
 (अइथा न कारवेइ मणसा वयसा ३५) अथवा मनसे वचनसे वह  
 नहीं करवाता है । (अइथा न कारवेइ मणसा कायसा ३६) अथवा

२८) अथवा ते आयाधी प्राणतिपात इरावते नथी जने इत्थान्दी अनुमोदना इरते नथी  
 (एगविहं त्रिषिधेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा, वयसा कायसा २९) अथवा  
 ते अणु प्रकारे ज्येष्ठ प्रकारना प्राणतिपात इरवन्तु प्रतिक्रमण इरे छे त्थारे ते मन-  
 वचन जने आयाधी प्राणतिपात इरते नथी (अइथा न कारवेइ मणसा वयसा  
 कायसा ३०) अथवा मन वचन जने आयाधी ते प्राणतिपात इरावते नथी (अइथा  
 करेत्त नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ३१) अथवा मन, वचन जने आयाधी  
 ते प्राणतिपात इरान्दी अनुमोदना इरते नथी (एगविहं दुषिहेणं पडिक्कममाणे  
 न करेइ मणसा वयसा ३२) अथवा ते जे प्रकारे ज्येष्ठ प्रकारना प्राणतिपात  
 प्रतिक्रमण इरे छे त्थारे ते मन जने वचनथी प्राणतिपात इरते नथी [ अइथा न  
 करेइ मणसा कायसा ३३ ] अथवा ते मन जने आयाधी प्राणतिपात इरते नथी  
 (अइथा न करेइ वयसा कायसा ३४) अथवा ते वचन जने आयाधी प्राणतिपात  
 इरते नथी (अइथा न कारवेइ मणसा वयसा ३५) अथवा मनथी जने वचनथी  
 ते प्राणतिपात इरावते नथी (अइथा न कारवेइ मणसा कायसा ३६) अथवा मनथी

मनसा कायेन, ३७ अथवा न कारयति वचसा कायेन, ३८ अथवा कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा वचसा, ३९ अथवा कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा कायेन, ४० अथवा कुर्वन्तं नानुजानाति. वचसा कायेन, ४१ एकविधम् एकविधेन प्रतिक्रामन् न करोति मनसा, ४२ अथवा न करोति वचसा, ४३ अथवा न करोति कायेन, ४४ अथवा न कारयति मनसा, ४५ अथवा न कारयति वचसा, ४६ अथवा न कारयति कायेन, ४७ अथवा कुर्वन्तं

वह मनसे और कायसे नहीं करवाता है । (अहवा न कारवेइ वयसा कायसा ३७) अथवा वह वचनसे और कायसे नहीं करवाता है । (अहवा करतं णाणुजाणइ मणसा वयसा ३८) अथवा वह करते हुवे की मनसे और वचनसे अनुमोदना नहीं करता है । (अहवा करतं णाणुजाणइ मणसा कायसा ३९) अथवा करते हुवे की वह मनसे और कायसे अनुमोदना नहीं करता है । (अहवा करतं न णाणुजाणइ वयसा कायसा ४०) अथवा करते हुवे की वह वचनसे और कायसे अनुमोदना नहीं करता है (एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४१) जब वह एक प्रकारसे एक प्रकारके प्राणातिपातका प्रतिक्रमण करता है तत्र वह मनसे उसे नहीं करता है । (अहवा न करेइ वयसा ४२) अथवा वह वचनसे उसे नहीं करता है । (अहवा न करेइ कायसा ४३) अथवा वह कायसे नहीं करता है (अहवा न कारवेइ मणसा ४४) अथवा वह मनसे नहीं करवाता है । (अहवा न कारवेइ वयसा

अने क्षयाथी ते प्राणुतिपात करवतो नथी (अहवा न कारवेइ वयसा कायसा ३७) अथवा ते वचनथी अने क्षयाथी प्राणुतिपात करवतो नथी (अहवा करतं णाणुजाणइ मणसा वयसा ३८) अथवा मनथी अने वचनथी ते प्राणुतिपात करनारनी अनुमोदना करतो नथी (अहवा करतं णाणुजाणइ मणसा कायसा ३९) अथवा मनथी अने क्षयाथी प्राणुतिपात करनारनी ते अनुमोदना करतो नथी. (अहवा करतं णाणुजाणइ वयसा कायसा ४०) अथवा ते वचन अने क्षयाथी प्राणुतिपात करनारनी अनुमोदना करतो नथी (एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४१) न्यारे ते अेक प्रकारे अेक प्रकारना प्राणुतिपातनु प्रतिक्रमण करे छे, तयारे मनथी ते प्राणुतिपात करतो नथी (अहवा न करेइ वयसा ४२) अथवा ते वचनथी प्राणुतिपात करतो नथी (अहवा न करेइ कायसा ४३) अथवा क्षयाथी ते प्राणुतिपात करतो नथी. (अहवा न कारवेइ मणसा ४४) अथवा मनथी ते प्राणुतिपात करवतो नथी. (अहवा न कारवेइ वयसा ४५) अथवा वचनथी ते प्राणुतिपात करवतो नथी.

नानुमानाति मनसा, ४८ अथवा कुर्वन्त नानुमानाति वक्षसा, ४९  
 अथवा कुर्वन्त नानुमानाति कायेन, प्रत्युत्पन्न सृष्ट्वन् किं त्रिवि  
 त्रिविधेन सृष्ट्वोति ? एव यथा प्रतिक्रामता एकोनपञ्चाशद् भङ्गा मणित  
 एव सृष्ट्वन्तापि एकोनपञ्चाशद् भङ्गा मणितख्या । अनागत प्रत्याक्ष्वाण  
 किं त्रिविध त्रिविधेन प्रत्याख्याति ? एव ते वैद्य भङ्गाः एकोनपञ्चाश

४५) अथवा वह घबनसे नहीं करावाता है । (अथवा न कारयेत् कायसा  
 ४६) अथवा कयासे नहीं कराता है । (अथवा करेत नानुजाणा  
 मणसा ४७) अथवा वह मनसे करते हुवे की मनसे अनुमोदना नहीं  
 करता है । (अथवा करत नानुजाणाइ घयसा ४८) अथवा वह घबनसे  
 करते हुवे की अनुमोदना नहीं करता है । (अथवा वर्ततं णाणु जाणा  
 कायसा ४९) अथवा वह करते हुवे की कायसे अनुमोदना नहीं  
 करता है । (पटुप्पन्नं सपरमाणे किं त्रिविह त्रिविहेणं सवरेइ ? )  
 हे भदन्त ! वर्तमानकालीन प्राणातिपातका सवर करता  
 हुआ अमणोपासक क्या तीन करण तीन रागसे  
 संवर करता है ? (एव जहा पडिक्कममाणेणं एगुणपन्नं मंगा  
 भणिया एव संवरमाणेण वि एगुणपन्नं मंगा भाणियव्वा) हे गौतम !  
 जिस तरह प्रतिक्रमण करनेके विषयमें उनचास भग कहे हैं उसी  
 प्रकार सवरके विषयमें भी ४९ भग जानना चाहिये । (अणागय  
 पक्षवस्समाणे किं त्रिविह त्रिविहेण पक्षवस्साइ) अनागत प्राणातिपात का  
 प्रत्याख्यान करता हुआ आवक क्या त्रिविधसे त्रिविधका प्रत्याख्यान

(अइ । न कारयेत् कायसा ४६) अथवा कायाधी ते प्राणुतिपातं कश्चिदेव नभी  
 (अथवा करेतं णाणुजाणाइ मणसा ४७) अथवा मनधी ते प्राणुतिपातनी अनुमोदना  
 क्करोते नभी । (अथवा करेतं नानुजाणाइ घयसा ४८) अथवा ते प्राणुतिपातनी  
 अनुमोदना वचनभी क्करोते नभी । (अथवा करेत नानुजाणाइ कायसा ४९) अथवा  
 कायाधी ते प्राणुतिपातनी अनुमोदना क्करोते नभी । (पटुप्पन्नं सपरमाणे किं त्रिविह  
 त्रिविहेणं सवरेइ ? ) हे भदन्त ! वर्तमान कालीन प्राणुतिपातने सवर क्करोते अमणे।  
 पासकं तु तस्य प्रसारणे सवर करे ३ । (एवं जहा पडिक्कममाणेण एगुणपन्नं मंगा  
 भणिया एव सपरमाणेण वि एगुणपन्नं मंगा भाणियव्वा) हे गौतम ! प्रतिक्रमण  
 क्करोता निरेता वेवा ४६ अत्र [ निरेता ] इहेवाभा आत्ता ३ जेव प्रसारता ४६ भग  
 सवरता विषयस्य पक्षवस्समाणे । (अणागयं पक्षवस्समाणे किं त्रिविहं त्रिविहेणं  
 पक्षवस्साइ) अनागत (अविध्यं क्करोता) प्राणुतिपातनी प्रकश्चमणं क्करोते आत्ते ३

प्रमेयचन्द्रिका टीका श.८ उ.५ सू.२ स्थूलप्राणातिपातादिप्रत्याख्याननि० ६११

भणितव्याः, यावत्- अथवा कुर्वन्तं नानुजानाति कायेन, श्रमणोपासकस्य खलु भदन्त ! पूर्वमेव स्थूलमृषावादः अप्रत्याख्यातो भवति, न खलु भदन्त ! पश्चात् प्रत्याचक्षाणः किं करोति ? एवं यथा प्राणातिपातस्य सप्तचत्वारिंशद्, भद्रशतं भणितं तथा मृषावादस्यापि भणितव्यम् । एवम् अदत्तादानस्यापि । एवम् स्थूलकस्य मैथुनस्यापि, स्थूलकस्य परिग्रहस्यापि, यावत्- अथवा

करता है ? ( एवं त चेव भंगा एगूणपण्ण भाणियव्वा जाव अहवा करेतं णाणुजाणइ कायसा ) हे गौतम ! इम विषयमें समस्त कथन पूर्वमें कहे हुए ४९ भंगोंके अनुसार यावत्- 'अथवा काय से करते हुवे को वह अनुमति नहीं देता है' यहाँ तक जानना चाहिये । (समणोवासगस्स णं भंते ! पुंन्वामेव थूलमुसावाए अपच्चक्खाए भवइ, से णं भंते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे किं करेइ ) हे भदन्त ! जिस श्रावकने पहिले स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान नहीं किया है, पश्चात् वह जय स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करता है तो वह उस समय क्या करता है ? ' एवं जहा पाणाइवायस्स सीयालं भंगसयं भणियं, तहा मुसावायस्स वि भाणियव्वं ' हे गौतम ! जिस प्रकारसे प्राणातिपात के १४७ भंग कहे गये हैं उसी तरह से मृषावादके भी १४७ भंग जानना चाहिये । ' एवं अदिन्नादाणस्स वि, एवं थूलगस्स मेहुणस्स वि, थूलगस्स परिग्गहस्स वि, जाव अहवा करेतं नाणुजाणइ, कायसा-एए खलु एरिसगा समणोवासगा भवंति, नो खलु

त्रिविधना प्रत्याख्यान करे छे ? ( एव तचेव भंगा एगूणपण्ण भाणियव्वा जाव अहवा करेतं णाणुजाणइ कायसा ) हे गौतम ! आ विषयमा पणु पूर्वोक्त ४९ लग समज्जवा अट्ठे के ' इयाथी प्राणातिपात करनारनी ते अनुमोदना करतो नथी', त्यां सुधीना ४९ लगे आ विषयमा पणु समज्जवा (समणोवासगस्स णं भंते ! पुंन्वामेव थूलमुसावाए अपच्चक्खाए भवइ, से णं भंते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे किं करेइ ? ) हे भदन्त ! वे श्रावके पहिला स्थूल मृषावादाना प्रत्याख्यान करेला नथी, पाछणथी न्यारे स्थूलमृषावादाना प्रत्याख्यान करे छे, त्यारे ते थु करे छे ? ( एवं जहा पाणाइवायस्स सीयालं भंगसयं भणियं, तहा मुसावायस्स वि भाणियव्वं ) हे गौतम ! वे प्रकारे प्राणातिपातना १४७ लग (४९×३) कडेवाभा आन्या छे, जेण प्रभाणु मृषावादाना पणु १४७ लग समज्जवा ( एवं अदिन्नादाणस्स वि, एवं थूलगस्स मेहुणस्स वि थूलगस्स परिग्गहस्स वि, जाव अहवा करेतं नाणुजाणइ



कुर्वन्त नानुमानाति कायेन । एते खलु ईदृशकाः भ्रमणोपासकाः भवन्ति,  
नो खलु ईदृशका आनीधिकोपासका भवन्ति ॥ सू० २ ॥

टीका- 'प्रत्याख्यानप्रस्तावात् तद्विज्ञेयवक्तव्यतामाह- 'समणोवास-  
गस्त ण भते!' इत्यादि । 'समणोवासगस्म ण भते! पुष्पामेष प्लप  
पाणाइवाए अपचक्खाए मवइ' गौतम पृच्छति- हे मदन्त! भ्रमणोपासकस्य  
भावकस्य खलु पूर्वमेव सम्यक्त्वप्रतिपत्तितः प्राक्कालमेवेत्यर्थः स्वल्पः प्राणा-  
तिपातः भ्रमण्याख्यातो भवति, प्रत्याख्याता न भवति तस्मिन् काले देश-  
विरतिपरिणामस्यानुत्पन्नत्वात्, किन्तु 'से ण भते! पच्छा पञ्चाइक्खमाणे  
किं करेइ?' हे भवन्त! स खलु भ्रमणोपासकः पश्चात् प्राणातिपातविरति

परिसगा आजीवियोवासगा भवति, इसी तरह से स्थूल अदस्तादान  
के स्थूलमैद्युन के, और स्थूल परिग्रह के भी भग यावत् "भयवा  
काय से करते हुए को वह अनुमोदना नहीं करता है" यहाँ तक  
जानना चाहिये । इसतरह के ये भ्रमणोपासक होते हैं । आजीविको  
पासक इस प्रकार के नहीं होते हैं ।

टीकार्थ - प्रत्याख्यान के प्रस्ताव से सूत्रकार ने यहाँ पर प्रत्या-  
ख्यान के विषय में विशेष वस्तुस्थिता कही है-इसमें गौतमने मनु  
से ऐसा पूछा है-'समणावासगस्स ण भते! पुष्पामेष प्लप पाणाइ  
वाए अपचक्खाए मवइ' हे भवन्त! जो भ्रमणोपासक-भावक  
होता है उसके सम्यक्त्व की प्रतिपत्ति (प्राप्ति) के पहिले प्राणातिपात का  
प्रत्याख्यान तो होता नहीं है - क्योंकि सम्यक्त्वप्रतिपत्ति के पहिले  
देशविरति के परिणाम उसके नहीं होते हैं । अतः जब उसके

कायसा-एए खलु परिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु परिसगा आजी-  
वियोवासगा भवति) जेण प्रभावे स्थूल अदस्तादान्ता, स्थूल मैद्युनना जने स्थूल  
परिग्रहना जणे पक्ख समक्खा जेट्ठे के अथवा कायको करानाणी ते अनुमोदना  
करते नथी त्यां सुधीना जथा जणे तेभना विषे पक्ख प्रकप्पु अभयोपासके आ  
भावेण टाय छे जालविडोपासके ज्जावां जेण नथी

टीकार्थ :- प्रत्याख्यानने अधिकार वाद होवाची सूत्रकरे ज्ज्ही प्रत्याख्यान विषे  
पक्ख विवेचन कर्तुं छे आ विषयने अनुकक्षीने जौतम स्वामी भ्वापीर प्रभुने जेणे  
अभ करे छे :- 'समणोवासगस्स ण भते! पुष्पामेष प्लप पाणाइवाए अपच-  
क्खाए मवइ' हे जान्त! सम्बन्धवती प्राप्ति यथा पठेतां ते अभयोपासकां  
प्राणातिपातना प्रत्याख्यान करी शक्ता नथी, कारणके सम्बन्धवती प्राप्ति यथा पठेतां

काले प्राणातिपात प्रत्याचक्षणः प्राणातिपातस्य प्रत्याख्यानं कुर्वाणः किं करोति ? भगवानाह- 'गोयमा ! तीयं पडिकमइ, पडुप्पन्न संवरेइ, अणागयं पच्चक्खाइ' हे गौतम ! अतीत भूतकालकृतं प्राणातिपात प्रतिक्रामति प्रतिक्रमेण निन्दाद्वारा ततो निवर्तते, अथच प्रत्युत्पन्न वर्तमानकालिकं जायमानं प्राणातिपात संवृणोति, अवरुणद्धि न करोतीत्यर्थः, एवम् अनागतं भविष्य-स्कालिकं जनिष्यमाणं प्राणातिपातं प्रत्याख्याति 'न करिष्यामि' इत्यादि निश्चयं करोति, गौतमः पृच्छति- 'तीयं पडिकममाणे किं तिविह तिविहेणं पडिकमइ' ? हे भदन्त ! स श्रावकः अतीत प्राणातिपात प्रतिक्रामन् निन्दा-

सम्भक्तवप्रतिपत्ति के बाद प्राणातिपात का प्रत्याख्यान होता है-तब वह उस समय क्या करता है ? इसके उत्तर में प्रभु उनसे कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'तीयं पडिकमइ, पडुप्पन्न संवरेइ, अणागयं पच्चक्खाइ' जब वह प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता है-तब वह अपने द्वारा भूतकाल में हो गये प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता है-अर्थात् भूतकाल में उसके द्वारा जो भी प्राणातिपात हो गया होता है उसकी वह निन्दा करता है-इस निन्दा द्वारा वह उससे दूर होता है। तथा वर्तमान में जो उससे प्राणातिपात हो रहा है उसे वह करता नहीं है-रोक देता है। तथा भविष्यकाल में जो प्राणातिपात इसके द्वारा होने वाला होता है उसका वह त्याग कर देता है-अर्थात् मैं "प्राणातिपात नहीं करूंगा" ऐसा यह निश्चय कर लेता है।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं- 'तीयं पडिकममाणे किं तिविहं तिविहेणं पडिकमइ' ? हे भदन्त ! श्रमणोपासक-श्रावक जो

तेनामा देशविरतिना परिस्थाम् ढोता नथी तेथी सम्भक्तवथी प्राप्ति थया पणी न्यारे ते प्राण्यतिपातना प्रत्याख्यान करे छे, त्यारे ते थुं करे छे ?

महावीर प्रभुने उत्तर - 'गोयमा !' हे गौतम ! 'तीयं पडिकमइ, पडुप्पन्न संवरेइ, अणागयं पच्चक्खाइ' न्यारे ते प्राण्यतिपातना प्रत्याख्यान करे छे, त्यारे भूतकालमां पोताना द्वारा थयेला प्राण्यतिपातनु प्रतिक्रमणु करे छे-अटवे हे पोताना द्वारा भूतकालमां करयेला प्राण्यतिपातना ते निन्दा करे छे-आ निन्दा द्वारा ते तेनाथी भुक्त थाय छे तथा वर्तमान कालमां तेना वडे ने प्राण्यतिपात थय रखा डोय छे तेने ते अटकावी हे छे तथा भविष्यकालमां तेना द्वारा ने प्राण्यतिपात थवाना डोय छे तेने ते त्याग करे छे. अटवे हे 'हु प्राण्यतिपात नहीं करे' अवे ते निश्चय करे छे

गौतम स्वामीने प्रश्न - 'तीयं पडिकममाणे किं तिविहं तिविहेणं पडिकमइ ?' हे भदन्त ! भूतकालमां पोताना द्वारा करयेला प्राण्यतिपातनु प्रतिक्रमणु

द्वारेण ततो निवर्तमान किं त्रिविधं त्रिकारकं कारणकारणानुमोदनसप्तमं  
 प्राणातिपातयोगम् त्रिविधेन मनोवचःशब्दयलक्षणेन त्रिकारकेण करणभूतेन  
 प्रतिक्रामति निन्दमेन ततो विरमति ? किंवा 'त्रिविधं दुविहेण पडिक्कमइ ?' २  
 त्रिविधं कृतकारितानुमोदितलक्षणम् पूर्वोक्त प्राणातिपात त्रिविधेन कारणभूतेन  
 मनःप्रवृत्तिप्रयाप्यामेकरपरमिश्रिततद्ब्रह्मेण प्रतिक्रामति, ततो निवर्तते ?  
 अथवा 'त्रिविह एगविहेण पडिक्कमइ' ३ त्रिविधम् उपर्युक्त त्रिकारकं प्राणाति  
 पातम् एकत्रिविधेन मनःप्रवृत्तीनामेकतमेन करणलक्षणेन प्रतिक्रामति गर्हणाद्वारा  
 ततो विरमति 'दुविह त्रिविहेणं पडिक्कमइ ?' ४ द्विविधं कृत-कारितादिलक्षणं  
 प्राणातिपात त्रिविधेन उपर्युक्तेन मनःप्रवृत्तिकरणलक्षणेन प्रतिक्रामति ?  
 'दुविह दुविहेण पडिक्कमइ ?' ५ द्विविधं पूर्वोक्त कृतादिप्राणातिपात त्रिविधेन

अतीतकाल में हुए प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता है सो क्या यह  
 कृत, कारित और अनुमोदना से हुए प्राणातिपात का मन, वचन  
 और काय द्वारा प्रतिक्रमण करता है क्या ? या 'त्रिविधं दुविहेण पडि  
 क्कमइ' २ कृत, कारित एवं अनुमोदना से जन्य प्राणातिपात का मन,  
 वचन और काय इन तीनों में से किसी एक को छोड़कर दो के द्वारा  
 प्रतिक्रमण करता है क्या ? या 'त्रिविह एगविहेण' ३ कृत, कारित, एवं  
 अनुमोदना से हुए प्राणातिपात का मन, वचन और काय इन तीनों  
 में से किसी एक से प्रतिक्रमण करता है क्या ? अर्थात् निन्दा द्वारा  
 उस प्राणातिपात से दूर होता है ? 'दुविह त्रिविहेण पडिक्कमइ' ४ या  
 कृत, कारित एवं अनुमोदना इन तीन में से किसी दो के द्वारा हुए  
 प्राणातिपात का यह मन, वचन और काय इन तीनों द्वारा प्रतिक्रमण  
 करता है ? 'दुविह दुविहेण पडिक्कमइ ५, या द्विविध का पूर्वोक्त कृत,

करोते अथवा ५ ११ कश्चित् अन्ये अनुमोदना इयं त्रये कश्चिद् वदे कश्चिद् प्राण्यतिपातनु  
 मन, वचन अन्ये शब्द ये त्रये द्वारा प्रतिक्रमण करे ७ १ ३ 'त्रिविधं दुविहेणं पडि  
 क्कमइ २ ?' कृत, कश्चित् अन्ये अनुमोदना द्वारा कश्चिद् प्राण्यतिपातनु मन, वचन  
 अन्ये शब्द ये त्रयेभाषी अथि ते ये द्वारा प्रतिक्रमण करे ७ १ ४ 'त्रिविह एगविहेण'  
 ३ ?' कृत कश्चित् अन्ये अनुमोदना द्वारा कश्चिद् प्राण्यतिपातनु मन, वचन अन्ये  
 शब्द ये त्रयेभाषी अथि ते ये द्वारा प्रतिक्रमण करे ७ १ ५ कश्चिद् ३ निरा द्वारा ते  
 प्राण्यतिपातधी मुक्त्वा शय ७ १ ६ 'दुविह त्रिविहेण पडिक्कमइ ४ ?' कृत कश्चित्  
 अन्ये अनुमोदना ये त्रयेभाषी ७ १ ७ ये कश्चिद् द्वारा कश्चित् प्राण्यतिपातनु मन वचन

मनःप्रभृतिवर्णभूतेन प्रतिक्रामति ? 'दुविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ?' ६ द्विविधम् कृतकारितादिलक्षणं प्राणातिपातम् एकविधेन मनःप्रभृतीनामन्यतमेन करणेन प्रतिक्रामति ? 'एगविहं तिविहेणं पडिक्कमइ' ७ एकविधं कृतादिषु एकतमं प्राणातिपातं त्रिविधेन मनःप्रभृतिलक्षणेन प्रतिक्रामति ? 'एगविहं दुविहेणं पडिक्कमइ ?' ८ एकविधं कृताद्येकतमं प्राणातिपातं द्विविधेन प्रतिक्रामति ? किंवा 'एगविह एगविहेणं पडिक्कमाइ ?' ९ हे भदन्त ! एकविधं पूर्वोक्तकृतकारितानुमोदितेषु अन्यतमम् एकविधेन मनःप्रभृतिषु एकतमेन प्रतिक्रामति ? एवञ्चात्र नव भङ्गाः संजाताः ।

तत्र चेयं गाथा—'तिन्नितिया, तिन्निदुया, तिन्नि य एका हवंति जोगेसु,  
तिदुएक्कं तिदुएक्कं तिदुएक्कं चैव करणाइं' ॥१॥

कारित एव अनुमोदना से मन आदि करण द्वारा प्रतिक्रमण करता है क्या ? या 'दुविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ६, या द्विविध प्राणातिपात का एकविध से प्रतिक्रमण करता है ? 'एगविहं तिविहेणं पडिक्कमइ ७, या कृत, कारित एवं अनुमोदना से किये गये । प्राणातिपातों के बीच में से किसी एक से हुए प्राणातिपात का मन, वचन एवं काय से वह प्रतिक्रमण करता है क्या ? या 'एगविहं दुविहेणं पडिक्कमइ ८, एकविध प्राणातिपात का वह मन, वचन, काय में से किसी दो के द्वारा प्रतिक्रमण करता है क्या ? या 'एगविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ९, या कृत, कारित आदि में से किसी एक से हुए प्राणातिपात का वह मन, वचन और काय इन में से किसी एक से वह प्रतिक्रमण करता है क्या ? इस प्रकार

अने काष्ठा वडे प्रतिक्रमणु करे छे ? डे 'दुविहं दुविहेणं पडिक्कमइ ५ ?' कृत, कारित अने अनुमोदना, अने त्रणुमाथी डोष अने कारणो द्वारा करायेला प्राणुतिपातनु ते मन, वचन अने काया, अने त्रणुमाथी गमे ते अने द्वार प्रतिक्रमणु करे छे ? डे 'दुविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ६ ?' अने कारणो द्वारा करायेला प्राणुतिपातनु ते मन, वचन अने काया, अने त्रणुमाथी डोष अने द्वार प्रतिक्रमणु करे छे ? डे 'एगविहं तिविहेणं पडिक्कमइ ७ ?' कृत, कारित अने अनुमोदना, अने त्रणुमाथी डोष अने प्रभरे करायेला प्राणुतिपातनु ते त्रिविधे (मन, वचन अने कायाथी) प्रतिक्रमणु करे छे ? डे 'एगविहं दुविहेणं पडिक्कमइ ८' डोष अने प्रभरना करणु द्वारा करायेला प्राणुतिपातनु ते द्विविधे (मन, वचन अने काय, अने त्रणुमाथी डोष अने द्वारा) प्रतिक्रमणु करे छे ? डे 'एगविहं एगविहेणं पडिक्कमइ ९' कृत, कारित अने अनुमोदना, अने त्रणुमाथी डोष अने वडे करायेला प्राणुतिपातनु ते मन, वचन अने काया, अने त्रणुमाथी डोष अने द्वारा प्रतिक्रमणु करे छे ? आ प्रभाणु

छाया- श्रीणि त्रिकाः श्रीणि टिकाः श्रीणि च एक भवन्ति यामेव  
त्रिद्वयकं त्रिद्वयकं त्रिद्वयकं चैव करणानि ॥१॥

एतेषु च नवविकल्पेषु एकादयो विकल्पा एकोनपञ्चाशद् मेदा लभ्यन्ते,  
तथाचोक्तम्- 'एगो त्रिभि य त्रियगा, दो नवगा तह य त्रिभि नव नवय,  
मगनवगस्स एव मंगा एगूणपञ्चास' इति

छाया- एकस्त्रीणि च त्रयश्च द्वौ नवकास्तथा च त्रयो नव नव च ।  
मङ्गनवकेभ्य एवम् मङ्गा एकोनपञ्चाशद् इति ॥

तदनुसारमेव मगधान् प्रथम नवविकल्पैः, तत एकोनपञ्चाशद्विकल्पै  
वृत्तरं ददाति- 'गोयमा ! त्रिविह त्रिविहेण पडिक्कमइ, त्रिविह दुविहेण  
वा पडिक्कमइ, तथेव जाय एक्कविह वा एक्कविहेण पडिक्कमइ, हे गौतम !  
त्रिविधं त्रिविधेन प्रतिक्कामति १, त्रिविधं त्रिविधेन वा प्रतिक्कामति २,

से यहाँ-प्रतिक्रमण के विषय में-ये ९, विकल्प रूप नौ भग हुए हैं । इस  
विषय में गाया इस प्रकार से है —तिन्नि तिया, इत्यादि

इन नौ विकल्पों में एकादिक विकल्प ४९ मेव्वाले होते हैं-सा ही कहा है  
“एगो त्रिभि य त्रियगा, दो नवगा तह य त्रिभि नव नव य ।

मंग नवगस्स एव मंगा एगूण पन्नास ” ॥

इसके अनुसार ही मगधान पड़िले नवविकल्पोंसे और बादमें ४९  
विकल्पोंसे इन सबका उत्तर देनेके निमित्त गौतम से कहते हैं 'गोयमा'  
हे गौतम ! 'त्रिविह त्रिविहेण पडिक्कमइ त्रिविह दुविहेण वा  
पडिक्कमइ, तथेव जाय एक्कविह वा एक्कविहेण पडिक्कमइ' त्रि  
विध प्राणातिपात का वह त्रिविध से प्रतिक्कमण करता है त्रिविध

अहाँ प्रतिक्रम्य विधेना नव भग विकल्पे मत्ताववामां आन्ना ७ ना विरे नीये  
प्रभावे जाथा ७ — 'त्रिभि तिया, इत्यादि

आ नव विकल्पेभ्य मेवविह विकल्प ४९ मेव्वाला ७-७-७ नीयेनी जाथामां  
भ्यु ७—

'एगो त्रिभिय त्रियगा, दो नवगा, तह य त्रिभि नव नव य ।

मंग नवगस्स एव मंगा एगूण पञ्चास' ॥

ते अनुसार ७ भगवान पड़ेला नव विकल्पे द्वारा जने पडी ४९ विकल्पे द्वारा  
आ जथा प्रभावे उत्तर आपत्ता ७डे ७- 'गोयमा ! हे गौतम ! त्रिविह त्रिविहेण  
पडिक्कमइ, त्रिविह दुविहेण वा पडिक्कमइ, तं थेव जाय एक्कविह वा  
एक्कविहेण पडिक्कमइ' भ्यु प्रभावे प्राणातिपातुं ते भ्यु प्रभावे प्रतिक्रमण करे ७

तदेव यावत्- त्रिविधम् एकविधेन वा प्रतिक्रामति ३, द्विविधं त्रिविधेन वा प्रतिक्रामति ४, द्विविधं द्विविधेन वा प्रतिक्रामति ५, द्विविधम् एकविधेन वा प्रतिक्रामति ६, एकविधं त्रिविधेन वा प्रतिक्रामति ७, एकविधं द्विविधेन वा प्रतिक्रामति ८. एकविधम् एकविधेन वा प्रतिक्रामति ९, अथ एकोनपञ्चाशद् विकल्पान् उपर्युक्तनवभङ्गकेषु एकैकमात्राय प्रतिपादयति- 'तिविहं त्रिविहेणं पडिक्कममाणे न करेड, न कारवेड, करेत णाणुजाणड मणसा वयसा कायसा?' हे गौतम ! त्रिविध प्रवृत्त प्राणानिपात त्रिविधेन उपर्युक्तेन करणेन प्रतिक्रामन् निन्दया विरमन् 'न करोति' अतीतकाले प्राणातिपातं स्वयं न विदधाति मनसा- 'येनाह हतो मयाऽसौ तदा न हतः' इत्येवमनुध्यानेन स्वयं न करोति प्राणानिपातम्, तथा नैव कारयति मनसा-

प्राणातिपातका वह द्विविधसे प्रतिक्रमण करता है, त्रिविध प्राणातिपातका वह एकविधसे प्रतिक्रमण करता है' इत्यादि सब उत्तररूप कथन प्रश्नोक्ते अनुरूप ही जानना चाहिये यावत् वह एकविध प्राणातिपातका एकविधसे प्रत्याख्यान करता है यहाँ तक । अब सूत्रकार इन नौ भगोंमेंसे एक २ भंगको लेकर ४९ विकल्पोका प्रतिपादन करते हैं- 'तिविहं त्रिविहेणं पडिक्कममाणे न करेड, न कारवेड, करंतं णाणुजाणड मणसा वयसा कायसा' जब वह जीव त्रिविध प्राणातिपातका त्रिविधसे प्रतिक्रमण करता है- निन्दा द्वारा उससे हटाता है- तब वह अतीतकालमें मनसे स्वयं प्राणातिपातको नहीं करता है- अर्थात्- 'हाय ! जिसके द्वारा मैं पहिले हत हुआ था- मैंने उस समय उसे हत नहीं किया' इस प्रकारके चिन्तनसे वह स्वयं

ननु प्रभारना प्राणातिपाततु ते जे प्रकारे प्रतिक्रमणु करे छे अने त्रिविध प्राणातिपाततु ते जेक प्रकारे प्रतिक्रमणु करे छे' इत्यादि उत्तररूप समस्त कथन प्रश्नोक्ते अनुरूप न समज्जु' जेक प्रकारे करेला प्राणातिपाततु ते जेक प्रकारे प्रतिक्रमणु करे छे,' त्या सुधीना नवे विक्षेप अही अडणु कन्वा नेधजे छे वे सूत्रकार नवल जो वारा करती लधने ४८

'तिविह त्रिविहेणं पडिक्कममाणे न करेड, न कारवेड, करंतं णाणुजाणड मणसा वयसा कायसा' ज्यारे ज्व प्राणातिपाततु त्रिविधे प्रतिक्रमणु करे छे [निन्दा द्वारा तेने हत करे छे], त्यारे ते पोते मनथी अतीत (भूत) काल सखधी प्राणातिपात करेला नथी जेभङ्गे- 'हाय ! तेजे भूते मायेयां पथु मे तेने त्यारे इतकार्यो नही !', आ प्रकारने विचारे करीने ते पोते मनथी प्राणातिपात करेला नथी वणा ते

'हा मया मेद समुचितं कृत यदसौ परेषु न घातितः' इति चिन्तनेनेत्पर्यन्तं; एवं कुर्वन्तम् उपलक्षणत्वात् कारयन्तं वा समनुमानन्तं वा परमात्मानं प्राणातिपातं नानुमानाति, नानुमोदयति, मनसैव, प्राणातिपातानुस्मरणेन तदनुमोदनद्वारा इत्यर्थः, एष न करोति न कारयति, कुर्वन्तं नानुमानाति वचसा, तथाचिधवचनप्रवर्तमानात्, एवं न करोति न कारयति कुर्वन्तं नानु-

प्राणातिपातको मनसे नहीं करता है। तथा मनसे वह ऐसा विचार नहीं करता कि- हा, यह मैंने अच्छा नहीं किया जो दूसरे से उसे उस सभय आहत नहीं करवाया-मरवाया नहीं। तथा वह मनसे एसी अनुमोदना भी नहीं करता है कि उस समय-अतीतकालमें-जो अमुकने प्राणातिपात क्रिया की थी या अमुकने जो उससे प्राणातिपात क्रिया करवाई थी वह उससे उस समय ठीक किया-या ठीक करवाई थी। इस तरह यहाँ मन सबधी, कृत मन सबधी कारित और मन सबधी अनुमोदना करनेका त्याग कहा गया है। अर्थात् अतीतकालमें वह स्वयं मनसे प्राणातिपात करनेका प्रतिक्रमण करता है। और मनसे प्राणातिपात करने कराने वालेकी अनुमोदना करनेका प्रतिक्रमण करता है। इसी तरहसे वह वचनसे अतीतकाल सबधी प्राणातिपातको स्वयं नहीं करता है, वचनसे अतीतकालमें प्राणातिपातको दूसरेसे नहीं कराता है और अतीतकालमें दूसरोंके द्वारा किय गये अथवा प्राणातिपात करवाये गये की वह वचनसे अनुमोदना नहीं करता है- अर्थात् वचनसे ऐसा नहीं कहता है कि

मनसा ज्येष्ठा विचार पक्ष इत्येता नधी हे अने ते वचने जीव्य पासे तेने भार उपवशसे नही ते हीक न क्यु वधी ते पिताना मनधी ज्येष्ठी अनुमोदना पक्ष इत्येता नधी हे तारे भूतकालमा अमुक व्यक्तित्व ने प्राणुतिपातनी क्रिया ही क्वी कथना अमुके तेना द्वारा ने प्राणुतिपात क्रिया इत्येता क्वी, ते तेजे ते सभरे योग्य न क्यु' इत्येता नधी हीते क्वी मनधी कृत, कश्चित् अने अनुमोदनाने त्याग करवाया क्वी अने अतरे हे अतीतकालमा (भूतकालमा) ते अने मनधी प्राणुतिपात करववानु प्रतिहेमलु करे हे मनधी प्राणुतिपात करववानु प्रतिहेमलु करे हे अने मनधी प्राणुतिपात करवाने - करववानेनी अनुमोदना करववानु प्रतिहेमलु करे हे अने अने प्रभाजे ते वचनधी भूतकाल सभधी प्राणुतिपात इत्येता नधी वचनधी भूतकाल सभधी प्राणुतिपात जीव्य पासे करवते। नधी अने भूतकालमा मन्ये द्वारा करवते। कथना करववाने अनेही प्राणुतिपातनी ते वचनधी अनुमोदना इत्येता नधी

जानाति कायेन तथाविधनेत्राद्यङ्गविकारचेष्टयेत्यर्थः, अत्र मनसा न करोति, वचसा न कारयति, कायेन नानुजानाति' इत्येवंलक्षणो यथामंख्यन्यायो मने उस समय यह अच्छा नहीं किया जो अपने मारनेवालेको नहीं मारा, तथा उसे दूसरोसे नहीं मरवाया, तथा अमुकने जो उसे मारा, या मरवाया- वह बहुत अच्छा किया । इस तरह यह वचन संबधी कृत, कारित और अनुमोदना करनेका अतीतकालमें हुए प्राणातिपातके विषयमें त्याग कर देता है । इस प्रकारसे त्याग कर देनेका कारण यह है कि वह श्रमणोपासक श्रावक अपने वचन से किये गये, कराये गये और अनुमोदित हुए प्राणातिपातकी निन्दा करता हुआ उससे दूर हो जाता है । इसी तरहसे वह अतीतकालमें अपने शरीरसे किये गये या अपने शरीरके संकेत आदिसे कराये गये, या ताली वगैरह बजाकर अनुमोदित किये गये प्राणातिपातकी निन्दा करता हुआ उससे दूर हो जाता है । इसीलिये यह देशविरति धारण करने पर कायसे स्वयं अतीतकालके प्राणातिपातको नहीं करता है, न कराता है और न उसकी अनुमोदना करता है । यहां पर 'मनसे नहीं करता है, वचनसे नहीं कराता है, कायसे अनुमोदना नहीं करता है' इस तरहका क्रमानुसार त्रियोगोंके साथ कृत, कारित और अनुमोदना

अथे के ते वचनथी अमुं कहेतो नथी के 'मे ते वपते मने मारनारने मार्यो नही, ते हीके न कथु' तेने पीण पासे मार भवराव्यो नही ते मोट्टु कथु' अमुक भाषुसे तेने मार्यो अथवा पीण पासे मार भवराव्यो ते साइं थथु' आ रीते ते वचन द्वारा प्राणातिपात संबधी कृत, कारित अने अनुमोदना करवाने। अतीतकालमें त्याग करे छे आ प्रभाषे प्राणातिपातने त्याग करवानु कारण अथे छे के ते श्रमणोपासक (श्रावक) पीताना वचनथी करवाभा आवेला, कराववाभा आवेला अने अनुमोदित करायेला प्राणातिपातनी निन्दा करते करते तेनाथा हर यथ न्यथ छे

अथे प्रभाषे लूतकालमा पीताना शरीरथी करायेला, अथवा पीताना शरीरना संकेत वगेरे द्वारा कराववाभा आवेला, अथवा ताणी वगेरे वगाडीने अनुमोदित करायेला प्राणातिपातनी निन्दा करीने तेनाथी मुक्त थथ न्यथ छे तेथी आ देशविरति धारणु कर्या आइ ते पीते अतीतकाल संबधी प्राणातिपात करते नथी, करावते नथी अने करनारनी अनुमोदना करते नथी, अही 'मनथी करते नथी, वचनथी करावते नथी कायाथी अनुमोदना करते नथी,' आ प्रकारना क्रमानुसार त्रियोगो (मन, वचन अने कायना त्रयु योजो) नी साथे कृत, कारित अने अनुमोदनाने संबध लेउवाभा आव्ये।



नानुसरणीयः, सर्वेषामपि यायानां षट्चरित्रसाधनीत्वात्, वक्ष्यमाण-  
 विकल्पसमयाच्च इति प्रथमे विकल्पे 'त्रिविधं त्रिविधेन' इत्यत्र एक एव  
 भङ्गः, अद्ये वक्ष्यमाणेषु द्वितीय-तृतीय-चतुर्थेषु अग्रसूत्रयो मङ्गाः, पञ्चम-  
 षष्ठयोः नव नव मङ्गा भवन्ति, सप्तमे अत्रयो मङ्गाः, अष्टमनवमयोस्तु नव नव  
 मङ्गा भवन्ति, इति सर्वे मङ्गा एकोनपञ्चाशद्, पञ्चमियमतीतकालमाधित्य  
 करणकारणानुमोदनयाजना कृता । अथवा-एष करणादियामना द्रष्टव्या-  
 अतीतकाले मनःप्रभृतीनां कृत कारितमनुमोदितं वा प्राप्तातिपात क्रमेण  
 न करोति, न कारयति, न घानुजानाति तस्मिन्नेन तदनुमोदनानिषेधतन्ततो  
 निवर्तते, तस्मिन्दनस्याभावे हि तदनुमोदनाऽनिवृत्तेः कृतादिरसौ षष प्राप्ताति

संघं नहीं लगाया गया है । क्यों कि कथन जितना भी होता है  
 वह घटाकी विषक्षाके अधीन हुआ करता है । तथा इस तरहका  
 क्रम घड़ा लगानेसे वक्ष्यमाण विकल्पोंका कथन भी नहीं बन सकता  
 है । 'त्रिविधं त्रिविधेन' इस प्रथम विकल्पमें एक ही भग है । तथा  
 वक्ष्यमाण द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इन विकल्पोंमें तीन २ भग हैं ।  
 पाचवे और छठे विकल्पोंमें नौ नौ भग होते हैं । नातवे विकल्पमें  
 तीन भग और आठवे तथा नौवे विकल्पमें नौ नौ भग होते हैं  
 इस तरह कुल भग य ४९ हो जाते हैं । अतीतकालको लेकर यह  
 कण, कारण और अनुमोदनाकी योजना कि गई है- अर्थात् अतीत  
 कालमें मन, वचन और काय संपत्ती कृत, कारित और अनुमोदना  
 काग हुए प्राणातिपातका अमणोपासक यावत् इन ४९ विकल्पों का  
 लेकर प्रतिक्रमण करता है । अथवा यह करणादि योजना इस प्रकारसे

नवी कश्चि ३ नेटसु कथन कश्चामां आवे ३ ते वक्ष्यामी विवक्षाने आधीन वया करे  
 ३ तथा ज्ञे प्रभाज्जेने कभ ज्ञप्ती अनुसरवाची नीजे इशानवाच आवेला विकल्पानु  
 कथन पक्षु स लयी कडव नधी 'त्रिविधं त्रिविधेन' व्या पडेबा विकल्पमा ज्ञेक व  
 लज ३ नीजे नेनु विवेजन कश्चामां ज्ञाम्यु ३ ते धीला नीला ज्ञने बोधा विक्षपीतां  
 ज्ञय ज्ञय लज ३ पञ्चमा ज्ञने कडा विक्षपीतां नव-नव लज ३ सातमा विक्षपमां  
 पक्षु लज, आठमां ज्ञने नवमां विक्षपीमा नव नवसजे ३ व्या रीते कुस ४६  
 लज भाय ३ अतीतकालनी अपेक्षाजे व्या कश्चु, कश्चु ज्ञने अनुमोदनानी योजना  
 कश्चामां ज्ञायी ३ ज्ञेदेहे के अतीतकालमां मन, वचन ज्ञने कश्चा द्वारा ने प्राणुतिपाते  
 कश्चु' ज्ञेय, कश्चाजु होय ३ ने प्राणुतिपातनी अनुमोदना कश्चामां ज्ञायी ज्ञेय, तेनु  
 अमज्जेपासक भायके ४६ विक्षपी द्वारा प्रतिक्रमण करे ३ ज्ञयना व्या कश्चादि योजना

पातः क्रियमाणादिरिव भवेत्, वर्तमानकालं त्वाश्रित्य सुगमैव तद्योजना भविष्यत्कालापेक्षया तु एवमसौ योजना - 'न करोति मनसा' 'तं हनिष्यामि'

भी कि जा सकती है- अतीतकालमें मन आदिके द्वारा कृत हुए कारित हुए और अनुमोदित हुए प्राणातिपातको अब वह श्रमणोपासक श्रावक क्रमसे नहीं करता है, न कराता है, और न उसकी अनुमोदना करता है। क्यों कि मिथ्यात्वयुक्त अविरति दशामें वह उस प्राणातिपातके निन्दा करके उसकी अनुमोदना करनेका त्यागी नहीं होता है- परन्तु सम्यक्त्वयुक्त देशविरतिसे युक्त बन जाने पर वह उसकी निन्दा करके उसकी अनुमोदना करनेका त्यागी हो जाता है- इसलिये वह उससे पीछे हट जाता है। यदि वह उसकी निन्दा नहीं करता है तो इस स्थितिमें वह उसकी अनुमोदना करता है यह बात मानी जा सकती है अतः पूर्वकालमें किया गया कराया गया तथा अनुमोदित हुआ प्राणातिपात किये जा रहे आदिकी तरह हो जाता है।

वर्तमानकालको आश्रित करके करणादिकी योजना सुगमही है। भविष्यकालकी अपेक्षा यह योजना इस प्रकारसे जाननी चाहिये- 'न करोति मनसा' यह प्राणातिपातको मनसे नहीं करता है-अर्थात् यह ऐसा विचार मनसे नहीं करता है कि मैं इसे आगे चल कर

आ प्रमाणे पशु करी शक्य छे अतीतकालमा मन आदि द्वारा करवामा आवेल, करववामा आवेल अने अनुमोदित करेल प्राणातिपात हुवे ते श्रमणोपासक श्रावक अनुक्रमे करतो नथी, करवतो नथी अने तेनी अनुमोदना करतो नथी। कारण के मिथ्यात्वयुक्त अविरति दशामां ते आ प्राणातिपातनी निन्दा करीने तेनी अनुमोदनी करवाने त्यागी थनै नथी; परन्तु सम्यक्त्व युक्त देशविरतिथो युक्त अन्या आद ते तेनी निन्दा करीने तेनी अनुमोदना करवाने त्याग करे छे ते काले ते प्राणातिपात करतो, करवतो अने अनुमोदतो अटकी जय छे, जे ते तेनी निन्दा न करतो होय ते अथी परिश्रितमा ते तेनी अनुमोदना करतो होय जेवुं पशु मानी शक्य छे तथी पूर्व (भूतकालमा) करवामा आवेल, करववामा आवेल अने अनुमोदवामा आवेल प्राणातिपात जाले के वर्तमानमा करवतुं, करवतुं अने अनुमोदतुं होय जेवुं अनि जय छे वर्तमानकालने अनुलक्षीने कल्याणि योजना सरण छे भविष्यकालनी अपेक्षा जे ते योजना आ प्रमाणे समजवी- 'न करोति मनसा' ते मनथी प्राणातिपात करतो नथी अटके के ते जेवा विचार करतो नथी के हु तेने भविष्यमा मारीश 'न कारयति'

इत्यस्य चिन्तनेन, न कारयति मनसेव 'तमह पातयिष्यामि' इत्यस्य चिन्तनेन, नानुमानाति मनसा भाषिनं वचमनुभुस्य इर्पकरणेन एवं वचसा कायेन च उपोस्तथाधिषयोः कृणात्, अथवा एवमेव भविष्यत्काले मनःप्रवृत्तिना करिष्यमाण कारयिष्यमाणम् अनुमंस्यमानं वा प्राणातिपातं क्रमेण न करोति, न मारुंगा । 'न कारयति' और न मनसे वह ऐसा विश्वास करता है कि मैं इसे आगे चलकर किसी और दूसरेसे मरवाऊंगा । 'नानुमोदयति' तथा मारते हुए की अनुमोदना नहीं करता है । इसी तरह वह घबनसे ऐसा उच्चारित नहीं करता है । कि मैं इसे मारुंगा, और न वह घबनसे दूसरेसे ऐसा कहता है कि तु इसे मारना तथा भावी वचको लेकर वह घबनसे ऐसा प्रयोग नहीं करता है कि यदि वह मर जावेगा तो बहुत ही अच्छा होगा । कायसंभंधी कृत, कर्तित और अनुमोदनाके विषयमें भी भविष्यत् कालकी अपेक्षासे ऐसा ही कथन जानना चाहिये । अर्थात् भविष्यत्काल सर्गंधी वच-हननका चिन्तन करते समय वह कथको ऐसी क्रिया करता है कि मैं उसे इस प्रकारसे हाथसे मारुंगा, या इस प्रकारके लकड़ी आदिसे मारुंगा, तथा वह दूसरा कोई व्यक्ति उसे इस प्रकारसे हाथसे मारे, ऐसे लकड़ी आदिसे मारे, ऐसा मैं उसका वच कराऊंगा, तथा भावी वचको लेकर हाथसे ताल आदि बजाकर उस वचकी अनुमोदना करना । अथवा- इसी प्रकारसे भविष्यत्कालमें मन आदिके द्वारा किये जानेवाले कराये जानेवाले, एवं अनुमोदना-

अने ते मनस्य ज्ञेया विचार पशु कर्ते नही है तु तेने अविषयमां हेतु नीव पासे भार अवशयीत 'नानुमोदयति' तथा भावी वचने अर्था विचार इनि ते मनमां पुष्टी पशु कते नही जे न प्रभावे ते ज्ञेयां वचन पशु कालते नही है तु तेने भावीत ते वचनही जीवने जेवुं कतेतो नही है तु आने भावने तथा भावी वचने विचार इनि ते ज्ञेया वचने पशु कालते नही है ते मरी वच ते पशु साधेवाच हाथ संभंधी कृत, कर्तित अने अनुमोदनाना विषयमा पशु अविषयकाली अपिज्ञाजे जेवुं न अक्षय समजवुं जेदसे है अविषयकाल सर्गंधी हेतुना वचने विचार इनि ते अमानि ज्ञेयी क्रिया कर्ते नही है तु तेने ज्ञा रीते काकरी मरीक है आ रीते काकरी आदिवी भरीय अक्षय नील अक्षय पासे आ रीते दावणी है काकरी आदिवी तेने भार अवशयीत अक्षय भावी वचने विचार इनि तानी आनि वचनीने ते अक्षय तेनी अनुमोदना कते नही अक्षय आ रीते अविषयकालमां मन अक्षय द्वारा पालनी आते कथनां आवनार, जीव दास कथनामां आवनार, अनु अनुमोदना दास कथ-

प्रमेयचन्द्रिका टी. श.८ उ.५ सू.२ स्थूलप्राणातिपातप्रत्याख्याननिरूपणम् ६२३

कारयति, नचानुजानाति, ततो निवृत्तमभ्युपगच्छतीत्यर्थः, सर्वेषाञ्चैषां  
मेलनेन सप्तचत्वारिंशदधिकं शतं भङ्गा भवन्ति । तानेव भङ्गान् विशिष्य प्रति-  
पादयितुमाह—‘तिविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करे’तं  
णाणुजाणइ मणसा वयसा२,’ त्रिविधं प्राणातिपातं द्विविधेन करणभूतेन प्रति-  
क्रामन् देशविरत्या निन्दाद्वारा ततो विरमन् न करोति, न कारयति, कुर्वन्तं  
नानुजानाति मनसा वयसा २, ‘अह्वा न करेइ, न कारवेइ, करे’तं नाणु-

वाले प्राणातिपातको क्रमसे वह स्वयं ‘न करोति’ नहीं करता है,  
‘न कारयति’ न दूसरोंसे करवाता है, ‘नचानुजानाति’ और न  
उसकी अनुमोदना करता है, अर्थात् उससे निवृत्तिको प्राप्त करता है.  
इन तीनों योगोंके ४९-४९-४९ भंगोंको आपसमें जोड़ देने पर  
१४७ भंग कुल हो जाते हैं । अब इन्हीं भंगों को विशेषरूप से  
प्रतिपादन करने के अभिप्राय से सूत्रकार कहते हैं— ‘तिविहं दुविहेणं  
पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करे’तं नाणुजाणइ मणसा वयसा  
२’ त्रिविध प्राणातिपातका करणभूत दो प्रकारसे प्रतिक्रमण करता  
हुआ वह—देशविरतिवाला हो जानेके कारण निन्दा द्वारा उससे  
दूर होता हुआ श्रमणोपासक श्रावक—उसे मन से और वचन से  
नहीं करता है, नहीं कराता है, और न उसकी अनुमोदना करता  
है । तात्पर्य यह है कि जब वह श्रावक त्रिविध—करण, कारण,  
अनुमोदन प्रकार वाले—प्राणातिपातका दो प्रकार से प्रतिक्रमण करता

कराववाभा आवनार प्राणुतिपातने ते पोते ‘न करोति’ त्याग करे छे, ‘न कारयति’  
भीन पासे प्राणुतिपात कराववाने त्याग करे छे अने ‘न चानुजानाति’  
प्राणुतिपातनी अनुमोदना करवाने पणु त्याग करे छे अट्ठे के तेनाथी निवृत्त थप नथ  
छे आ त्रिणे योगेना ४९।४९।४९ भगोने सरवाणे करवाथी कुल १४७ भंग अने छे.  
इते सूत्रकार आ लगेतु वधु स्पष्टीकरण करवा माटे कडे छे के—

‘तिविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करे’तं नाणुजाणइ मणसा वयसा२’  
त्रिविध प्राणुतिपात (त्रिणु प्रकारना करणे द्वारा करायेला प्राणुतिपात) तु छे प्रकारे  
प्रतिक्रमण करतो ते श्रमणोपासक श्रावक (देशविरतियुक्त थवाथी निन्दा द्वारा तेने। त्याग  
करतो श्रावक) मनथी अने वचनथी प्राणुतिपात करतो नथी, करावतो नथी अने  
प्राणुतिपातना अनुमोदना पणु करतो नथी आ अथनु तात्पर्य अे छे के न्यारे ते  
श्रावक त्रिविध (करण, कारण अने अनुमोदन प्रकारवाणा) प्राणुतिपातनुं छे प्रकारे

प्राणाइ मगसा, कायसा ३', अथवा न करोति स्वयं त्रिविध प्राणातिपात  
द्विविधेन करणभूतेन स्वयं न विदधाति, न वा कारयति, कुर्वन्तं वा नानु  
मानाति नानुमोदयति मनसा कायसा ३, 'अइवा न करेइ, न कारवेइ, करेत्तं  
णाणुजाणइ वयसा; कायसा ४, 'अथवा न करोति त्रिविध द्विविधेन स्वयं

है, तब वह मन और वचन से उस प्राणातिपातको न स्वयं करता है,  
और न उसे दूसरेसे कराता है और न उसकी वह अनुमोदना  
करता है। 'अइवा न करेइ, न कारवेइ, करेत्तं नाणुजाणइ मगसा  
कायसा ३' दो प्रकार से प्रतिक्रमण करनेका यह द्वितीय प्रकार है-  
जब वह आवक त्रिविध प्राणातिपातका दो तरह से प्रतिक्रमण करता  
है तो इस प्रकारमें वह मनसे और कायसे उसका प्रतिक्रमण करता  
है। अइवा न करेइ, न कारवेइ, करेत्तं नाणुजाणइ वयसा कायसा  
४', अथवा-जब वह आवक त्रिविध प्राणातिपातका दो प्रकारसे  
प्रतिक्रमण करता है तो, वह वचनसे और कायसे उसका प्रतिक्रमण  
करता है-अर्थात् वचनसे और कायसे वह प्राणातिपात नहीं करता  
है, उसे दूसरेस नहीं कराता है और करनेवाले दूसरेकी  
वह अनुमोदना नहीं कराता है। भूतकाल में हो गये प्राणातिपात के  
प्रति वह वर्तमान काल में मन से ऐसा नहीं ब्याप्त करता है कि  
भूतकाल में जो उसने मुझे मारा था, मैं भी उसे मारता तो अच्छा  
होता पर मैंने उस समय नहीं मारा यह बहुत घुरा हुआ खैर,

प्रतिक्रमण करे छे त्वारे ते मन जने वचनभी पीते प्राणुतिपात करते नथी, जीवा  
पासे भावतो नथी जने प्राणुतिपात करने-करावना-रणी अनुमोदना प्रणु करते नथी  
'अइवा न करेइ, न कारवेइ, करेत्तं नाणुजाणइ वयसा कायसा ३'  
वे प्रकारे प्रतिक्रमण करवाने। जीने प्रथम वा प्रमाये छे-व्यरे ते आवक प्रणु प्रथम  
प्राणातिपातनु वे प्रकारे प्रतिक्रमण करे छे, त्वारे ते मन जने कथाभी तेनु प्रतिक्रमण  
करे छे 'अइवा न करेइ, न कारवेइ, करेत्तं नाणुजाणइ वयसा कायसा ४'  
अथवा-व्यरे ते आवक प्रणु प्रथम प्राणातिपातनु वे प्रकारे प्रतिक्रमण करे छे त्वारे  
ते वचन जने कथाभी तेनु प्रतिक्रमण करे छे अटठे छे वचनभी अथवा कथाभी ते  
पीते प्राणुतिपात करते नथी, जीवा पास भावतो नथी जने करने-करावना-रणी  
अनुमोदना करते नथी। भूतकालमा वर्तमानेका प्राणातिपात विषे ते वत मनकाजभं  
मनकी ओरो विचार प्रणु करते नथी छे भूतकालमा तेजे भने भाषीं छेते, में प्रणु  
उने भाषीं छेते के साउ अत, में तेने भाषीं नहीं ते की न प्रणु जेव, में अते

न विदधाति, न वा कारयति कुर्वन्तं वा नानुजानाति, नानुमोदयति वचसा कायेन ४, 'तिविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ न कारवेइ, करेतं णाणुजाणइ मणसा ५, त्रिविध प्राणातिपातम् एकविधेन मनः-प्रभृतीनामन्यतमेन करणेन प्रतिक्रामन निन्दया ततो विरमन् न करोति, न

कोई बात नहीं मैंने यदि उसे स्वयं नहीं मारा तो मैं दूसरेसे उसे मरवा देता. बड़ा आनंद आता उस मारनेवालेकी मैं प्रशंसा करता ' इसी तरहसे वह भूतकाल के प्राणातिपात में कायसे न कुछ करता है, और न दूसरेसे उसे करवानेके लिये संकेत आदि करता है और न उसे करनेवाले अपने आपकी या दूसरेकी वह प्रशंसा काता है। 'अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेतं णाणुजाणइ वयसा कायसा' अथवा जब वह श्रावक त्रिविध प्राणातिपात आ दो तरहसे प्रतिक्रमण करता है-तो वह वचनसे और कायसे भूतकालिक प्राणातिपात को न स्वयं करता है, न दूसरेसे कराता है और न करनेवालेकी अनुमोदना करता है. इस तरह द्वितीय विकल्प में यह तृतीय भग है। 'तिविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा ५' इसी तरह जब वह श्रावक त्रिविध प्राणातिपातका एकविधसे प्रतिक्रमण करता है-तब इस स्थिति में वह मनसे प्राणातिपात को न स्वयं करता है, न मनसे कराता है और न करने

तेने भाये नही पणु षीण पासे तेने मराये. छोट तो धणु आनंद थात अने तेने मारनारनी हु प्रशंसा करत' आ रीते ते भूतकाणना प्राणातिपात संभ धमा कायाथी कथ करतो नथी, षीण पासे प्राणातिपात कराववा कायाथी संकेत वगेरे करतो नथी अथवा तो प्राणातिपात करनार पोतानी हे अन्यनी ते प्रशसा पणु करतो नथी अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ वयसा कायसा' अथवा न्यारे ते श्रावक त्रय प्रकारना प्राणातिपातनुं जे प्रकारे प्रतिक्रमणु करे छे, त्यारे ते भूतकाण संभ धी प्राणातिपात वचनथी अने कायाथी करतो नथी, षीण पासे करावतो नथी अने करनारनी अनुमोदन करतो नथी आ रीते षीण विकल्पने आ त्रीजे भग सम्भववे। 'तिविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा ५' न्यारे ते श्रावक त्रय प्रकारना प्राणातिपातनुं जेक प्रकारे प्रतिक्रमणु करे छे त्यारे ते पोते मनथी प्राणातिपात करतो नथी, मनथी प्राणातिपात करावतो नथी, अने प्राणातिपात करनारनी मनथी अनुमोदन करतो नथी आ पडेवे भग

कारयति, कुर्बन्त नानुजानाति, नानुमन्यते मनसा ५, 'अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेइ पाणुजाणइ वयसा ६, अथवा त्रिविध प्राणातिपातम् एकत्रिभेन पूर्वत्रिभेन करणेन स्वयं न करोति, अन्यद्वारा न कारयति कुर्बन्तं वा नानुजानाति नानुमन्यते वयसा ६ अहवा न करेइ न कारवेइ करेइ पाणुजाणइ कायसा ७, अथवा त्रिविधम् एकत्रिभेन करणेन स्वयं न कराति, अन्यद्वारा न कारयति, कुर्बन्तं वा नानुजानाति कायेन ७, दुविह त्रिविधेण पडिक्कममाणे न करेइ न कारवेइ मणसा वयसा कायसा ८, त्रिविध पूर्वोक्त कृतकारितादिभक्षण प्राणातिपात त्रिविधेन मनधम्मवि-करणेन प्रतिक्रामन् निन्द्या ततो निपतीमान स्वयं न करोति, अन्यद्वारा वा न कारयति, मनसा वयसा कायेन ८, अहवा न करेइ, करेइ पाणु

आलेकी अनुमोदना करता है। यह प्रथम भग है 'अहवा न करेइ न कारवेइ करेइ पाणुजाणइ वयसा ६' अथवा यह वचनसे प्राणातिपात का नहीं करता है, नहीं कराता है और न उसकी यह वचनसे अनुमोदना करता है। यह द्वितीय भग है। 'अहवा-न करेइ, न कारवेइ, करेइ पाणुजाणइ कायसा ७' अथवा यह कायसे प्राणातिपात को नहीं करता है, नहीं कराता है और करनेवालेको अनुमोदना नहीं करता है यह तृतीय विकल्पका तीसरा भग है। 'दुविह त्रिविधेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, मणसा वयसा कायसा ८' यह चतुर्थ विकल्प है जय यह भ्रमणोपासक-भाषक-कृत, कारित आदि प्राणातिपात में से दो प्रकारके प्राणातिपातका त्रिविधसे-मन, वचन और कायसे प्रतिक्रमण करता है-निन्दा द्वारा उससे दूर हो जाता है-तय यह मनसे वचनसे और कायसे स्वयं उसे नहीं करता

बोधे आलेके भज आ प्रभावे ७- 'अहवा न करेइ, न कारवेइ, करेइ पाणुजाणइ वयसा ६' अथवा वचनशी ते प्राणातिपात करेते नही, अहवते नही अने वचनशी तेनी अनुमोदना करेते नही त्रीने भज आ प्रभावे ७- 'अहवा न करेइ, न कारवेइ करेइ पाणुजाणइ कायसा ७' अथवा कायाशी ते प्राणातिपात करेते नही, अहवते नही अने अहवाशी अनुमोदना करेते नही आ शीते त्रीने विकल्पना अहे केने समझवनामा आन्धा ७ 'दुविह त्रिविधेण पडिक्कममाणे न करेइ न कारवेइ, मणसा, वयसा कायसा ८' आ बोधे विकल्प ७ अथवा भाषक इव, कारित अने अनुमोदित, जे जय प्रकारमांशी जे प्रकारना प्राणातिपातनु त्रिविधे (मन वचन अने कायाशी) प्रतिक्कमण करे ७-निन्दा द्वारा तेने त्याज करे ७, तयारे ते मन, वचन अने कायाशी पाते

जाणइ मणसा वयसा कायसा ९' अथवा द्विविध त्रिविधेन उपर्युक्तेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, कुर्वन्त वा नानुजानाति, नानुमन्यते मनसा वचसा कायेन ९, 'अहवा न कारवेइ, करेत नानुजाणइ मणसा वयसा कायसा १०, अथवा द्विविध त्रिविधेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति, कुर्वन्तं वा नानुजानाति, मनसा, वचसा कायेन १०, 'दुविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, मणसा वयसा ११' द्विविधं पूर्वोक्तं प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, अन्यद्वारा वा न कारयति

है, न कराता है. यह चतुर्थ विकल्पका प्रथम भंग है। 'अहवा न करेइ, करेतं णाणुजाणइ, मणसा वयसा कायसा ९' अथवा-द्विविध प्राणातिपात का त्रिविधमे प्रतिक्रमण करता हुआ, वह मनसे वचनसे और कायसे स्वयं प्राणातिपातको नहीं करता है, न करते हुए दूसरेकी वह अनुमोदना करता है यह चतुर्थ विकल्प का द्वितीय भंग है। 'अहवा न कारवेइ, करेतं नानुजाणइ मणसा, कायसा १०' अथवा जब वह द्विविध प्राणातिपातका त्रिविधसे प्रतिक्रमण करता है-तब वह उसे अन्य द्वारा मनसे वचनसे और कायसे नहीं करता है और न करते हुए को उन तीनोंसे अनुमोदना करता है। यह तृतीय विकल्प है। 'दुविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ, मणसा वयसा ११' द्विविध प्राणातिपातका द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह श्रमणोपासक श्रावक मनसे और वचनसे प्राणातिपातको

प्राणातिपात करते नहीं बने भीन्हा पासे करावतो नहीं आ योथा विक्कपणे पडेवे लगे छे योथा विक्कपणे भीन्हे लगे आ प्रभाणु छे- 'अहवा न करेइ, करेत नानुजाणइ, मणसा वयसा कायसा ९' अथवा के प्रकारना प्राणातिपातनु त्रिविधे प्रतिक्रमणु करते श्रावक मन, वचन बने कायाथी प्राणातिपात करते नहीं बने प्राणातिपात करनारनी अनुमोदन पणु करते नहीं हुवे योथा विक्कपणे तीन्हे लगे आ प्रभाणु छे- 'अहवा न कारवेइ, करेतं नानुजाणइ, मणसा वयसा कायसा १०' अथवा ल्यारे ते के प्रकारना प्राणातिपातनु त्रिविधे प्रतिक्रमणु करे छे ल्यारे ते मन, वचन बने कायाथी अन्यनी पासे प्राणातिपात करावतो नहीं बने करनारनी ते तणु द्वारा अनुमोदना पणु करते नहीं योथा विक्कपणा तणु लगे अतापीने हुवे सत्कार पायभा विक्कपणा नव लगेनु प्रतिपादन करे छे- 'दुविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा वयसा ११' (१) के प्रकारना प्राणातिपातनु के प्रकारे प्रतिक्रमणु करते श्रावक मन बने वचनथी प्राणातिपात करते नहीं बने करावतो नहीं



मनसा वचसा १', 'अह्वा न करेइ, न कारवेइ, मणसा कायसा १२, अथवा द्विविध प्राणातिपात द्विविधेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, अन्यद्वारा वा न कारयति मनसा कायसा १३, 'अह्ना न करेइ, करेत्त णाणुजाणइ, मणसा वयसा १४, अथवा द्विविध प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, कुर्बन्त वा नानुजानाति मनसा वचसा १४, 'अह्वा न करेइ, करेत्त णाणुजाणइ मणसा कायसा १५, अथवा द्विविध प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, कुर्बन्त वा नानु-

न करता है और न करवाता है। यह पांचवां विकल्प है-इसमें नौ भग वहे गये हैं सो उन्हींको सूत्रकार कर रहे हैं- 'अह्वा न करेइ, न कारवेइ मणसा कायसा १२' अथवा द्विविध प्राणातिपात का वह द्विविध प्रतिक्रमण करता हुआ उसे मनसे और कायसे स्वयं करता नहीं है और अन्य से उसे कराता नहीं है। 'अह्वा न करेइ न कारवेइ वयसा कायसा १३' अथवा द्विविध प्राणातिपात का द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह उसे वचनसे और कायसे नहीं करता है और न कराता है। 'अह्वा न करेइ, करेत्त णाणुजाणइ मणसा कायसा १४' अथवा द्विविध प्राणातिपातका द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह मनसे और वचनसे इसे स्वयं न करता है, और न करते हुए की वह उनके द्वारा अनुमोदना करता है।

अह्वा न करेइ, करेत्त णाणुजाणइ, मणसा कायसा १५' अथवा द्विविध प्राणातिपात का द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह उसे मनसे कायसे न स्वयं करता है और न उनके द्वारा करने वालेकी

अह्ना न करेइ, न कारवेइ मणसा कायसा १२' (२) अथवा द्विविध प्राणातिपातनु द्विविधे प्रतिक्रमण करोते ते भावः मनसि अने वचनसि प्राणातिपात करोते नथी अने अन्य भासे प्राणातिपात शकते नथी 'अह्वा न करेइ न कारवेइ मणसा कायसा १३' (३) अथवा द्विविध प्राणातिपातनु द्विविधे प्रतिक्रमण करोते भावः वचनसि अने वाचासि पाते प्राणातिपात करोते नथी अने अन्य भासे प्राणातिपात शकते नथी 'अह्वा न करेइ, करेत्त णाणुजाणइ मणसा वयसा १४' (४) अथवा द्विविध प्राणातिपातनु द्विविधे प्रतिक्रमण करोते ते भावः मनसि अने वचनसि अनुमोदन करोते नथी 'अह्वा न करेइ, करेत्त णाणुजाणइ, मणसा कायसा १५' (५) द्विविध प्राणातिपातनु द्विविधे प्रतिक्रमण करोते ते भावः मनसि अने वाचासि प्राणातिपात करोते नथी अने मन अने वचनसि प्राणातिपात करानसि अनुमोदना

जानाति वचसा कायेन १५, 'अहवा न करेइ, करेत गाणुजाणइ वयसा कायसा १६, अथवा द्विविधं प्राणातिपातं द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, कुर्वन्त वा नानुजानाति वचसा कायेन १६, 'अहवा न कारवेइ, करेत गाणुजाणइ, मणसा वयसा १७, अथवा द्विविध प्राणातिपातं द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति, कुर्वन्त वा नानुजानाति मनसा वचसा १७, अहवा न कारवेइ करेत गाणुजाणइ मणसा कायसा १८, अथवा द्विविधं प्राणातिपातं द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति, कुर्वन्तं वा नानुजानाति मनसा कायेन १८, 'अहवा न कारवेइ करेत गाणुजाणइ वयसा कायसा १९, अथवा द्विविधं प्राणातिपातं द्विविधेन करणेन

अनुमोदना करता है। 'अथवा न करेइ, करेतं गाणुजाणइ वयसा कायसा १६' अथवा द्विविध प्राणातिपात का द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह उसे वचन और कायसे न करता है और न करते हुए की वह उन दोनों द्वारा अनुमोदना करता है। 'अहवा-न कारवेइ, करेतं गाणुजाणइ मणसा वयसा १७' अथवा द्विविध प्राणातिपात का द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह मनसे और वचनसे उसे न करता है और न करते हुए की उन दोनों द्वारा अनुमोदना करता है। 'अहवा न कारवेइ, करेतं गाणुजाणइ मणसा कायसा १८' अथवा द्विविध प्राणातिपातका द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह उसे मनसे अन्यके द्वारा न कराता है, और न करने वालेकी वह अनुमोदना करता है, इसी तरहसे वह उसे कायसे न कराता है, और न करने वालेकी वह उससे अनुमोदना करता है। 'अहवा न कारवेइ, करेतं गाणुजाणइ, वयसा कायसा १९' अथवा द्विविध

करतो नथी 'अहवा न करेइ करेतं गाणुजाणइ वयसा कायसा' (६) अथवा द्विविध प्राणातिपाततु द्विविधे प्रतिक्रमण करतो ते श्रावक वचनथी अने कायाथी पोते प्राणातिपात करतो नथी, अने करनारनी वचन अने कायाथी अनुमोदना करतो नथी. 'अहवा न कारवेइ, करेतं गाणुजाणइ, मणसा वयसा १७' (७) अथवा द्विविध प्राणातिपाततु द्विविधे प्रतिक्रमण करतो श्रावक मनथी अने वचनथी प्राणातिपात करावतो नथी अने प्राणातिपात करनारनी ते अने द्वारा तेनी अनुमोदना करतो नथी 'अहवा न कारवेइ, करेतं गाणुजाणइ मणसा कायसा १८' (८) अथवा द्विविध प्राणातिपाततु द्विविधे प्रतिक्रमण करतो ते श्रावक मनथी अने कायाथी अन्य द्वारा प्राणातिपात करावतो नथी अने प्राणातिपात करनारनी ते अने द्वारा अनुमोदना करतो नथी 'अहवा न कारवेइ,

प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति, कुर्यन्त वा नानुजानाति वचसा कायेन १९, 'दुषिह् एगचिहेणं पडिष्कममाणे न करेइ न कारवेइ मणसा २०, द्विविध प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, अन्य द्वारा वा न कारयति मनसा इत्यर्थः २०, 'अहवा न करेइ, न कारवेइ, वयसा २१, अथवा द्विविध पूर्वोक्त प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, अन्यद्वारा वा न कारयति वचसा २१' 'अहना न करेइ, न कारवेइ कायसा २२, अथवा द्विविध प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति अन्यद्वारा वा न कारयति कायेन २२.

प्राणातिपात का द्विविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह अन्य द्वारा उसे बचन और कायसे नहीं करता है और न करते हुए ही वह उन दोनोंस अनुमोदना करता है। इस प्रकारसे ये पाण्यवे विकल्पके ९ अंग हैं। 'दुषिह् एगचिहेणं पडिष्कममाणे न करेइ, न कारवेइ मणसा २०' द्विविध प्राणातिपात का एकविधसे जय वह प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे उसे स्वयं नहीं करता है और न दूसरेसे उसे कराता है। 'अहवा न करेइ, न कारवेइ वयसा २१' अथवा जय वह द्विविध प्राणातिपातका एकविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह बचनसे उस न करता है और बचनसे उसे किसीक द्वारा कराता है। 'अहवा न करेइ, न कारवेइ कायसा २२' अथवा जय वह द्विविध प्राणातिपातका एकविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह कायसे उसे नहीं करता है और न कायसे उसे किसी दूसरेके द्वारा

करेत पाणुजाभइ वयसा कायसा १०' (६) अथवा द्विविध प्रजातिपातनु द्विविधे प्रतिक्रमण करोते। आवाधी वचनधी अने वाचधी प्रजातिपात करानते नधी अने प्रजातिपात करानते नी ते अने द्वारा अनुमोदना करोते नधी आ प्रभावे प्रभावा विकल्पना नव अंग छे।  
दूरे अकार छे। विकल्पना नव अंगनु नीअे प्रभावे प्रतिपादन करे छे— 'दुषिह् एगचिहेणं पडिष्कममाणे न करेइ न कारवेइ मणसा २०' (१) द्विविध प्रजातिपातनु न्यारे ते अके प्रभावे प्रतिक्रमण करे छे, त्यारे (१) ते पाते मनधी प्रजातिपात करोते नधी अने अन्य पासे प्रजातिपात करानते नधी अहवा न करेइ, न कारवेइ वयसा २१' (२) अथवा न्यारे ते द्विविध प्रजातिपातनु अेअविधे प्रतिक्रमण करे छे त्यारे ते वचनधी प्रजातिपात करोते नधी अने वीअ पासे प्रजातिपात करानते नधी। 'अहवा न करेइ, न कारवेइ कायसा २२' (३) अथवा न्यारे ते द्विविध प्रजातिपातनु अेअविधे प्रतिक्रमण करे छे त्यारे ते वाचधी प्रजातिपात करोते नधी अने वीअ पासे वाचधी प्रजातिपात करानते नधी। 'अहवा न करेइ, करेव'

‘अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा २३, अथवा द्विविध प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति कुर्वन्तं वा नानुजानाति मनसा २३, अहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा २४’ अथवा द्विविधं प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, कुर्वन्त वा नानुजानाति वयसा २४, ‘अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ कायसा’ २५, अथवा द्विविधं प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति, कुर्वन्त वा नानुजानाति कायेन २५, ‘अहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा २६’ अथवा द्विविधं प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति, कुर्वन्तं वा नानुजानाति मनसा २६ ‘अहवा न कार-

करवाता है। ‘अहवा न करेइ करेत नाणुजाणइ मणसा २३’ अथवा जब वह द्विविध प्राणातिपात का एकविधसे प्रतिक्रमण करता है, तब वह मनसे स्वयं उसे नहीं करता है और मनसे करते हुए की वह अनुमोदना नहीं करता है। ‘अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ वयसा २४’ अथवा द्विविध प्राणातिपातका जब वह एकविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह वचनसे उसे स्वयं नहीं करता है और न करते हुए की वह वचनसे अनुमोदना करता है। ‘अहवा न करेइ करेतं नाणुजाणइ कायसा २५’ अथवा जब वह द्विविध प्राणातिपात का एकविधसे प्रतिक्रमण करता है-तब वह कायसे स्वयं उस प्राणातिपातको नहीं करता है और न कायसे करते हुए की वह अनुमोदना करता है। ‘अहवा न कारवेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा २६’ अथवा जब वह द्विविध प्राणातिपातका एकविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे उसे दूसरोंसे नहीं कराता है और न मनसे करते हुए

नाणुजाणइ मणसा २३’ (४) अथवा न्यारे ते द्विविधनु अेकविधे प्रतिक्रमणु करे छे, त्यारे ते पोते मनथी प्राणुतिपात करतो नथी अने प्राणुतिपातकरनारनी मनथी अनुमोदना करतो नथी ‘अहवा न करेइ, करेत नाणुजाणइ वयसा २४’ (५) अथवा द्विविधनु अेकविधे प्रतिक्रमणु करतो ते श्रावक वयनथी प्राणुतिपात करतो नथी अने करनारनी वयनथी अनुमोदना करतो नथी ‘अहवा न करेइ करेत नाणुजाणइ कायसा २५’ (६) अथवा द्विविधनु अेकविधे प्रतिक्रमणु करतो ते श्रावक कायाथी प्राणुतिपात करतो नथी अने करनारनी कायाथी अनुमोदना करतो नथी ‘अहवा न कारवेइ, करेत नाणुजाणइ मणसा २६’ (७) अथवा न्यारे ते द्विविध प्राणुतिपातनु अेकविधे प्रतिक्रमणु करे छे, त्यारे ते पोते मनथी प्राणुतिपात करवतो नथी अने प्राणुतिपात करनारनी मनथी अनुमोदना करतो नथी.

वेह; करेत प्राणुजाणइ वयसा २७' अथवा द्विविध प्राणातिपातम् एकविधेन पूर्वोक्तेन करणेन प्रतिक्कामन् अन्यद्वारा न कारयेति, कुर्वन्त वा नानुजानाति वचसा, 'अह्वा न कारवेइ करेत प्राणुजाणइ कायसा २८' अथवा द्विविध प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्कामन् अन्यद्वारा न कारयेति, कुर्वन्त वा नानुजानाति कायेन २८' 'एगविह तिचिहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, मणसा वयसा कायसा २९' एकविध प्राणातिपात विविधेन पूर्वोक्तेन करणेन प्रतिक्कामन् निन्द्या ततो विरमन् स्वयं न करोति मनसा वचसा कायेन २९, 'अह्वा न कारवेइ मणसा वयसा कायसा ३०' अथवा एकविध पूर्वो

की वह अनुमोदना करता है। अथवा 'न कारवेइ करेत प्राणुजाणइ, वयसा २७' अथवा जब वह द्विविध प्राणातिपात का एकविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह वचनसे उसे स्वयं नहीं करता है और न करते हुए की वह वचनसे अनुमोदना करता है। 'अह्वा न कारवेइ, करेत प्राणुजाणइ कायसा २८' अथवा जब वह द्विविध प्राणातिपात का एकविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह कायसे स्वयं उस प्राणातिपातको नहीं कराता है और न करते हुए की वह कायसे अनुमोदना करता है। इस प्रकारसे ये छठे विकल्पके ९ नौ अंग हैं। 'एगविह तिचिहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, मणसा, वयसा कायसा २९' जब वह एक प्रकारके प्राणातिपात का द्विविधसे प्रतिक्रमण करता है। तब वह मनसे, वचनसे, और कायसे उसे स्वयं नहीं करता है। अह्वा न कारवेइ, मणसा वयसा कायसा ३०' अथवा

'अह्वा न कारवेइ, करेत प्राणुजाणइ वयसा २७' (८) अथवा द्विविध प्राणातिपातम् एक विधे प्रतिक्कामन् करेत आवक वचनधी प्राणातिपात क्कामतो नथी अने प्राणातिपात करान्ती वचनधी अनुमोदना करेत नथी 'अह्वा न कारवेइ, करेत प्राणुजाणइ कायसा २८' (९) अथवा द्विविध प्राणातिपातम् एक विधे प्रतिक्कामन् करेत आवक अथधी प्राणातिपात क्कामतो नथी अने प्राणातिपात करान्ती अथधी अनुमोदना करेत नथी।

आ प्रमाणे छद्म विकल्पना नथ लजनु प्रतिपादन करीने छेने सूत्रकार सातम्बं विकल्पना नथ लजनु प्रतिपादन करे छे-

'एगविह तिचिहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा, वयसा कायसा २९' अथवा एक प्रकारके प्राणातिपातम् आवक नथ प्रकारे प्रतिक्कामन् करे छे, अथरे ते पते मन, वचन अने अथधी प्राणातिपातकरेत नथी. 'अह्वा न कारवेइ, मणसा

क्त प्राणातिपातं त्रिविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्य द्वारा न कारयति, मनसा वचसा कायेन ३०, 'अहवा करेतं नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा ३१' अथवा एकविधं प्राणातिपातं त्रिविधेन करणेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्तं नानु-  
जानाति मनसा वचसा कायेन ३१, 'एगविहेणं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा वयसा ३२' एकविधं पूर्वोक्त प्राणातिपातं द्विविधेन करणेन प्रतिक्रा-  
मन् निन्दया परित्यजन् स्वयं न करोति मनसा वचसा ३२, 'अहवा न करेइ मणसा कायसा ३३' अथवा एकविध प्राणातिपातं द्विविधेन करणेन प्रति-  
क्रामन् स्वयं न करोति मनसा कायेन ३३, 'अहवा न करेइ वचसा कायसा ३४' अथवा एकविध प्राणातिपातं द्विविधेन पूर्वोक्तेन करणेन प्रतिक्रामन्

जब वह एक प्रकार के प्राणातिपात का त्रिविधसे प्रतिक्रमण करता है, तब वह उस प्राणातिपात को मनसे, वचनसे और कायसे अन्य द्वारा नहीं करवाता है। 'अहवा करेतं नाणुजाणइ मणसा, वयसा, कायसा ३१' अथवा एकविध प्राणातिपातका जब वह त्रिविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे वचनसे और कायसे उस प्राणातिपात की अनुमोदना नहीं करता है। 'एगविहेणं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, मणसा, वयसा ३२' एकविध प्राणातिपात का जब वह द्विविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे और वचनसे उस प्राणातिपातको नहीं करता है। 'अहवा न करेइ, मणसा कायसा ३३' अथवा एकविध प्राणातिपातका जब वह द्विविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे और कायसे उस प्राणातिपातको वह स्वयं नहीं करता है। 'अहवा न करेइ वचसा कायसा ३४' अथवा एकविध प्राणातिपात का

वयसा कायसा ३०' (२) अथवा एक प्रकारना प्राणातिपातनु तथु प्रकारे प्रतिक्रमणु-  
करतो ते श्रावक मन, वचन अने कायाथी पीण्ड पासे प्राणातिपात करवतो नथी  
अहवा करेतं नाणुजाणइ, मणसा वयसा कायसा ३१' (३) अथवा एक प्रकारना  
प्राणातिपातनु तथु प्रकारे प्रतिक्रमणु करतो ते श्रावक मन, वचन अने कायाथी प्राणातिपात  
करनारनी अनुमोदना करतो नथी. इवे सूत्रकार आठमां विवक्षयना नव लोणुनु प्रतिपादन  
करे छे. 'एगविहेणं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ, मणसा वयसा ३२',  
एक प्रकारना प्राणातिपातनु छे प्रकारे प्रतिक्रमणु करतो ते श्रावक मनथी अने वचनथी  
ते प्राणातिपात करतो नथी. 'अहवा न करेइ, मणसा कायसा ३३' (२) अथवा  
एक प्रकारना प्राणातिपातनु छे प्रकारे प्रतिक्रमणु करतो ते श्रावक मनथी अने कायाथी  
प्राणातिपात करतो नथी. 'अहवा न करेइ वचसा कायसा ३४' (३) अथवा एक

स्वयन् करोति अथवा कायेन ३४, 'अहवा न कारवेह मणसा वयसा ३५, अथवा एकविधं प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति मनसा अथवा ३५ 'अहवा न कारवेह मणसा कायसा ३६' अथवा एकविधं प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न करयति मनसा कायन ३६, 'अहवा न कारवेह वयसा कायसा ३७' अथवा एकविध प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अथद्वारा न करयति वयसा कायन ३७, 'अहवा करेत पाणुमाण्ड मणसा वयसा ३८' अथवा एकविध प्राणातिपात द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्त नानुमानाति मनसा वयसा ३५ 'अहवा करेत पाणुमाण्ड मणसा कायसा ३९' अथवा एकविध प्राणा-

जयः वह द्विविधसे प्रतिक्रमण करता है तब वह ध्वनसे और वायसे प्राणातिपातका अनुमोदना नहीं करता है। 'अहवा न कारवेह मणसा वयसा ३७' अथवा-एकविध प्राणातिपात का द्विविध से प्रतिक्रमण करता है तब वह मन से और ध्वन से उस प्राणातिपातको नहीं कराता है। 'अहवा न कारवेह मणसा कायसा ३६' अथवा-एकविध प्राणातिपात का द्विविध से जब वह प्रतिक्रमण करता है तब वह मनसे और ध्वनस उसे कराता नहीं है। 'अहवा न कारवेह वयसा कायसा ३७' अथवा-एकविध प्राणातिपात का द्विविध से प्रतिक्रमण जब वह करता है-तब वह उस प्राणातिपातको ध्वन से और वाय से अन्य द्वारा कराता नहीं है। 'अहवा करेत पाणुमाण्ड मणसा वयसा ३८' अथवा एकविध प्राणातिपात का जब वह द्विविध से प्रतिक्रमण करता है तब वह प्राणातिपात करते हुए व्यक्तिकी मन से और ध्वन से अनुमोदित नहीं करता है। 'अहवा करेत पाणु

प्रधाना प्राणातिपात के प्रकार प्रतिक्रमण करते वे आन्त वयसा ३५' प्राणातिपात करते नहीं। 'अहवा, न, कारवेह-- मणसा-- वयसा-- ३५' (४) अथवा अथविध प्राणातिपात द्विविध प्रतिक्रमण करते वे आन्त मनसा ३६' अथवा प्राणातिपात करते नहीं। 'अहवा- न कारवेह, मणसा ३६' (५) अथवा अथविध प्राणातिपात द्विविध प्रतिक्रमण करते वे आन्त मनसा ३७' अथवा प्राणातिपात करते नहीं। 'अहवा न कारवेह, वयसा कायसा ३७' (६) अथवा अथविध प्राणातिपात द्विविध प्रतिक्रमण करते वे आन्त वयसा ३८' अथवा प्राणातिपात करते नहीं। 'अहवा करेत पाणुमाण्ड मणसा वयसा ३८' (७) अथवा अथविध प्राणातिपात द्विविध प्रतिक्रमण करते वे आन्त प्राणातिपात

तिपातं द्विविधेन करणेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्त नानुजानाति मनसा कायेन ३९, 'अहवा करेतं णाणुजाणइ वयसा कायसा ४०' अथवा एकविधं प्राणातिपातं द्विविधेन पूर्वोक्तेन करणेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्तं नानुजानाति वचसा कायेन ४०, 'एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४०' एकविधं प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् निन्दया परित्यजन् स्वयं न करोति मनसा ४१, 'अहवा न करेइ वयसा ४२' अथवा एकविध प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति वचसा ४२, 'अहवा न करेइ कायसा ४३' अथवा एकविध प्राणातिपातम् एकवि-

जाणइ मणसा कायसा ३९' अथवा एकविध प्राणातिपातका जब वह द्विविध से प्रतिक्रमण करता है, तब वह मनसे और काय से प्राणातिपात करनेवालेको अनुमोदन नहीं करता है। 'अहवा करेतं णाणुजाणइ वयसा कायसा ४०' अथवा वह जब एकविध प्राणातिपात का द्विविध से प्रतिक्रमण करता है अर्थात् निंदा द्वारा उससे दूर हट जाता है तब वह वचन से और काय से करनेवाले की अनुमोदना नहीं करता है। 'एगविह एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४१' जब वह एकविध प्राणातिपातका एकविध से प्रतिक्रमण करता है तब वह मन से स्वयं उसे नहीं करता है। 'अहवा न करेइ वयसा ४२' अथवा जब वह एकविध प्राणातिपात का एकविध से प्रतिक्रमण करता है तब वह स्वयं उसे वचन से नहीं करता है। 'अहवा न करेइ

करनारनी अनुमोदना मनथी अने वचनथी करतो नथी 'अहवा करेतं नानुजाणइ मणसा कायसा ३९' (८) अथवा अेक प्रकारना प्राणुतिपाततु जे प्रकारे अतिक्रमणु करतो श्रावक प्राणुतिपात करनारनी मनथी अने कायाथी अनुमोदन करतो नथी 'अहवा करेतं नानुजाणइ, वयसा कायसा ४०' (९) अथवा अेक प्रकारना प्राणुतिपाततु जे प्रकारे अतिक्रमणु करतो ते श्रावक प्राणुतिपात करनारनी अनुमोदना वचनथी अने कायाथी करतो नथी. हुवे सत्रकार नवमा विक्कयपना नव भगनु प्रतिपादन करे छे. एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४१' (१) न्यारे ते श्रावक अेक प्रकारना प्राणुतिपाततु अेक प्रकारे अतिक्रमणु करे छे, तयारे ते पोते मनथी प्राणुतिपात करतो नथी. 'अहवा न करेइ वयसा ४२' (३) अथवा अेक प्रकारना प्राणुतिपाततु अेक प्रकारे अतिक्रमणु करतो ते श्रावक वचनथी प्राणुतिपात करतो नथी. 'अहवा न करेइ कायसा' अथवा अेक प्रकारना प्राणुतिपाततु अेक प्रकारे अतिक्रमणु करतो ते श्रावक कायाथी प्राणुतिपात करतो



येन करणेन प्रतिक्रामन् स्वयं न करोति कायेन ४३, 'अह्वा न कारवेइ मणसा ४४, अथवा एकविष प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति मनसा ४४, 'अह्वा न कारवेइ पयसा ४५' अथवा एकविष प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति पयसा ४५, अह्वा न कारवेइ कायसा ४६' अथवा एकविष प्राणातिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् अन्यद्वारा न कारयति कायसा ४६, 'अह्वा करेत गाणुमाणइ मणसा ४७' अथवा एकविष प्राणातिपातम् एकविधेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्त नानुमानाति नानुमन्यते मनसा ४७ 'अह्वा करेत् नानुजाणइ पयसा ४८', अथवा एकविष प्राणा

कायसा ४६' अथवा जब वह एकविष प्राणातिपात का एकविष से प्रतिक्रमण करता है तब वह स्वयं उसे काय से नहीं करता है ४६' 'अह्वा न कारवेइ मणसा ४४' अथवा जब वह एकविष प्राणातिपात का एकविष से प्रतिक्रमण करता है तब वह मन से अयके द्वारा उसे नहीं करता है । 'अह्वा न कारवेइ पयसा ४५' अथवा जब वह एकविष प्राणातिपातका एकविष से प्रतिक्रमण करता है तब वह उस अपने अयन द्वारा दूसरे से नहीं करता है । 'अह्वा न कारवेइ कायसा ४६' अथवा जब एकविष प्राणातिपातका एकविष से प्रतिक्रमण करता है तब वह उसे अयके द्वारा अपने शरीर से नहीं करता है । 'अह्वा करेत गाणुजाणइ मणसा ४७' अथवा जब वह एकविष प्राणातिपात का एकविषसे प्रतिक्रमण करता है तब वह प्राणातिपात करनेवाले व्यक्तिकी अथवा अपनी मनसे अनुमोदना नहीं करता है । अह्वा करेत गाणुजाणइ पयसा ४८, अथवा जब

नहीं. 'अह्वा न कारवेइ मणसा ४४' (४) अथवा अह्वा ते ज्येष्ठे प्रहारने प्राणातिपातनु ज्येष्ठे प्रहारे प्रतिक्रमण करेते, त्वारे मनसि जीव प्रासे प्रत्युतिपात इत्यन्तो नथी. 'अह्वा न कारवेइ पयसा ४५' (५) अथवा ज्येष्ठे प्रहारने प्राणातिपातनु ज्येष्ठे प्रहारे प्रतिक्रमण करेते नथी ते अयके अयनसि अन्यन्ती प्रासे प्रत्युतिपात इत्यन्तो नथी. 'अह्वा न कारवेइ कायसा ४६' (६) अथवा ज्येष्ठे प्रहारने प्राणातिपातनु ज्येष्ठे प्रहारे प्रतिक्रमण इत्यन्ते ते अयके अयनसि जीव प्रासे प्रत्युतिपात इत्यन्तो नथी. 'अह्वा करेत गाणुजाणइ मणसा ४७' अथवा अह्वा ते ज्येष्ठे प्रहारने प्राणातिपातनु ज्येष्ठे प्रहारे प्रतिक्रमण करेते, त्वारे ते प्रत्युतिपात इत्यन्ते अयनसि जीव प्रासे प्रत्युतिपात इत्यन्तो नथी.

तिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्तं नानुजानाति नानुमोदयति वचसा ४८, अहवा करंतं णाणुजाणइ कायसा ४९' अथवा एकविधं प्राणा तिपातम् एकविधेन करणेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्तं नानुजानाति नानुमन्यते कायेन ४९, अथ वर्तमानकालिकस्थूलप्राणातिपातप्रत्याख्यानमुद्दिश्य गौतमः पृच्छति 'पडुप्पन्न संवरेमाणे किं त्रिविहं त्रिविहेणं संवरेइ?' हे भदन्त ! श्रमणोपासकः देशविरतिसम्पन्नः प्रत्युत्पन्नं—वर्तमानकालिकं स्थूलं प्राणातिपात संवृण्वन् देशविरत्या निरुन्धन् कुर्वन् इत्यर्थः, किं त्रिविधं करणकरणानुमोदन-लक्षणं त्रिप्रकारकं प्राणातिपातं त्रिविधेन मनःवचःकायलक्षणेन संवृणोति ?

वह एकविध प्राणातिपात का एकविध से प्रतिक्रमण करता है तब वह प्राणातिपात करनेवाले की अपने वचनसे प्रशंसा नहीं करता है। 'अहवा करंतं णाणुजाणइ कायसा ४९' अथवा वह जब एकविध प्राणातिपात का एकविध से प्रतिक्रमण करता है तब वह अपने शरीर से प्राणातिपात करनेवाले की प्रशंसा नहीं करता है इस प्रकार ये अतीतकाल संबंधी प्राणातिपातके प्रतिक्रमण को लेकर ४९ भंग यहाँ तक कहे गये हैं।

अब गौतमस्वामी वर्तमानकालिक स्थूल प्राणातिपातके प्रत्याख्यान को लेकर प्रश्न से पूछते हैं—'पडुप्पन्न संवरेमाणे किं त्रिविहं त्रिविहेणं संवरेइ?' हे भदन्त ! श्रमणोपासक देशविरति संपन्न श्रावक वर्तमान कालिक स्थूल प्राणातिपातको देशविरति के प्रभाव से नहीं करता हुआ क्या त्रिविध प्राणातिपातका कृत, कारित, अनुमोदना रूप तीन प्रकारके प्राणातिपात का मन, वचन, काय रूप त्रिविध से संवर करता है ?

अनुमोदना मनथी करतो नथी 'अहवा करंतं णाणुजाणइ वयसा ४८' (८) अथवा ऐक प्रकारेणा प्राणातिपातनु ऐक प्रकारे प्रतिक्रमण करतो श्रावक, पौनाना वचन द्वारा प्राणातिपात करनारनी प्रशंसा अथवा अनुमोदना करतो नथी 'अहवा करंतं णाणुजाणइ कायसा ४९' (९) अथवा ऐक प्रकारेणा प्राणातिपातनु ऐक प्रकारे प्रतिक्रमण करतो श्रावक पौनाना शरीरथी प्राणातिपात करनारनी अनुमोदना करतो नथी. त्या रीते भूतकाण संबंधी प्राणातिपातने अनुलक्षीने अर्ही सुधीमा ४९ लग पताववामां आव्या छे हुवे गौतम स्वामी वर्तमानकालिक स्थूल प्राणातिपातने प्रत्याख्यानने अनुलक्षीने प्रलुने या प्रमाणे प्रश्न पूछे छे—'पडुप्पन्नं संवरेमाणे किं त्रिविहं त्रिविहेणं संवरेइ?' हे भदन्त ! देशविरतिवाणे श्रमणोपासक (श्रावक) छे ते देशविरतिना प्रभावथी-वर्तमानकालिक स्थूल प्राणातिपात करतो नथी, ते शु त्रिविध प्राणातिपातने (कृत, कारित, मन, अनुमोदना इय प्रश्न प्रकारेणा प्राणातिपातने) त्रिविधे (मनथी, वचनथी अने कायथी) संवर करे छे ? भडावीर प्रलु तेने उत्तर आपतो छे छे—'हे गौतम ! नेवी

संहरं करोति ? एतद्धि ? मगवानाह एव नहं पठिक्कममाणेणं पग्गणपक्काम्भ्या  
 मणिय्या' हे भदन्त ! एष पूर्वोक्तप्रकारेण यथा स्पूल प्राणातिपात प्रति  
 क्रामता स्पूलप्राणातिपातप्रतिक्रमण प्रतिपादयता एकोनपञ्चाशत् मग्गा  
 विक्कया मणिता. 'एष संहरमाणेण विं पग्गणपक्क मग्गा माणिय्या' एष  
 तथैव सदृशता पि स्पूमवर्तमानकालिकप्राणातिपातसंहरं प्रतिपादयता विं  
 एकोनपञ्चाशद् मग्गाः विक्कयाः मणित्तय्या, अयं भविष्यत्कालिकप्राणातिपात  
 प्रत्याख्यानमुद्दिश्य गौतमः पृच्छति 'अणागयं पक्कस्समाणे किं तिविह त्ति-  
 विहेण पक्कस्साह?' हे भदन्त ! अनागत भविष्यत्कालिक स्पूल प्राणातिपात  
 प्रत्याख्यानः अमणोपासकः किं त्रिविधं कृत-कारितावमोदितसंज्ञण प्राणाति  
 पातं त्रिविधेन मनोवचकापलक्षणेन करणभूतेन प्रत्याख्याति ? मगवानाह-  
 'एवं ते चेव मग्गा पग्गणपक्का माणिय्या' हे गौतम ! एषम् उपर्युक्तरीत्या  
 ते चैव अतीववर्तमानकालिकाः मग्गाः विक्कया-एकोनपञ्चाशद्रूपा, मणि

। इसके उत्तरमें मनु कहते हैं- हे गौतम ! जिस प्रकार से भूत  
 कालिक स्पूल प्राणातिपात के प्रतिक्रमण करने के विषयमें पूर्वोक्त  
 रूप से ४९ मंग कहे गये हैं उसी प्रकार से वर्तमानकालिक स्पूल  
 प्राणातिपात के संहर करनेके विषयमें ४९ मंग कर देने चाहिये ।  
 अथ गौतम ! भविष्यत्कालिक प्राणातिपात के प्रत्याख्यानको छेदर मनु  
 से पूछते हैं 'अणागयं पक्कस्समाणे किं तिविह त्तिविहेणं पक्कस्साह'  
 हे भदन्त ! भविष्यत् कालिक स्पूल प्राणातिपातका प्रत्याख्यान करने  
 वाला अमणोपासक कृत, कारित, अनुमोदना रूप तीन प्रकारके प्राणा  
 तिपातका मन, वचन, काय रूप तीन प्रकारसे त्याग करता है क्या ? इसके  
 उत्तरमें मनु कहते हैं-एवं ते चेव मग्गा पग्गणपक्का मग्गा माणिय्या'

रीते भूतकालिक स्पूल प्राणातिपातना प्रतिक्रमण इत्थं विरेया ४६ अथ ४६वा भा  
 ण्य वा ७ जेण प्रमाहे नव आनकालिक स्पूल प्राणातिपातने स वरं ४६वा विरेया पक्क  
 ४६ अथ ४६वा जेणजे.

गौतम स्वामीने प्रश्न- 'अणागयं पक्कस्समाणे किं तिविह त्तिविहेण  
 पक्कस्साह?' हे भदन्त ! भविष्यत्कालिक स्पूल प्राणातिपातना प्रत्याख्यान इत्थं अग्गो  
 पत्तसं कृत, अहित जने अनुमोदना इष मक्क प्रकारेण प्राणातिपातने मन् पक्कस्समाणे  
 अथा मग्ग प्रकारे त्याग करे छे ?

भदन्तमि मनु तेना उत्तर ज्ञापय्या इत्थे छे- 'एवं ते चेव मग्गा पग्गणपक्का मग्गा  
 माणिय्या' हे गौतम ! भूतकालिक जने नव आनकालिक अतीव वच ४६-४६ अमनु

तव्याः, 'जाव अहवा करेतं गाणुजाणइ कायसा' यावत् त्रिविधं 'त्रिविधेन प्रतिक्रामन् न करोति, न कारयति, कुर्वन्तं नानुजानाति मनसा वचसा कायेन' इति-१ प्रथमं विकल्पमारभ्य 'अथवा एकविधम् एकविधेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्तं नानुजानाति कायेन' इत्यन्तम् एकोनपञ्चशत्तमविकल्पपर्यन्तं वक्ताव्या इत्याशयः, अथ स्थूलमृषावादप्रत्याख्यानमुद्दिश्य पृच्छति - 'समणोवासगस्स ण भंते ! पुब्बामेव थूलमुसावाए अपच्चक्खाए भवइ' हे भदन्त ! श्रमणोपासकस्य श्रावकस्य खलु पूर्वमेव सम्यक्त्वप्रतिपत्तितः प्राक्कालमेवेत्यर्थः स्थूलमृषावादः स्थूलासत्यवादः अप्रत्याख्यातो भवति, 'सेणं भंते ! पच्छा-

हे गौतम ! इस विषयमें भूतकाल और वर्तमानकालके ४९ भंग जिस प्रकार से प्रतिपादित किये गये हैं उसी प्रकारसे यहां पर भी जानना चाहिये । 'त्रिविध प्राणातिपातका त्रिविध मन, वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हुआ श्रमणोपासक श्रावक प्राणातिपातको मन से वचन से और काय से न करता है, न कराता है और न करते हुए की वह अनुमोदन करता है' यह प्रथम विकल्प है-सो इस प्रथम विकल्प से लेकर 'अहवा एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे करेतं गाणुजाणइ कायसा' यहां तक के ४९ वे इस विकल्प तकका सब कथन यहां पर करना चाहिये ।

अब गौतमस्वामी स्थूल मृषावादके प्रत्याख्यान को लेकर पूछते हैं- 'समणोवासगस्स ण भंते ! पुब्बामेव थूल मुसावाए अपच्चक्खाए भवइ' हे भदन्त ! श्रमणोपासक श्रावक के जब तक सम्यक्त्व नहीं होता है इसके पहिले स्थूल मृषावाद अप्रत्याख्यात

आगण प्रतिपादन करवाया आव्युं छे, अेज प्रकारता ४६ ल ग लविष्यकणता प्राण्यतिपातना प्रत्याख्यान विषे पणु समज्जावा 'त्रिविध प्राण्यतिपातनु मन, वचन अने कायाथी प्रतिक्रमणु करते श्रमणोपासक श्रावक मनथी, वचनथी' अने कायाथी प्राण्यतिपात करतो नथी, अन्यनी पासं करावतो नथी अने प्राण्यतिपात करनारनी अनुमोदना करतो नथी, आ पडेवेा विकल्प छे आ पडेवेा विकल्पथी अइ करीने 'अहवा एगविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे करेतं गाणुजाणइ कायसा' आ ४६ मां विकल्प सुधीना अधा विकल्पो अर्ही कडेवा लेधअे

हुवे गौतमस्वामी स्थूल मृषावादाना प्रत्याख्यानने अनुलक्षीने भडावीर प्रभुने पूछे छे- 'समणोवासगस्स णं भंते ! पुब्बामेव थूलमुसावाए अपच्चक्खाए भवइ' हे भदन्त ! न्यां सुधी श्रमणोपासक श्रावकने सम्यक्त्वनी प्राप्ति थती नथी

पश्चाद्वस्त्रमाणे किं करेह ?' हे मदन ! स, त्वल्ल भ्रमणोपासकः भ्रमत्याख्यात-  
 पृथ्व्यापावादः पश्चात्-पृथापादविरतिकाळे मृथापादं प्रत्याघसाप्यः किं करोति ?  
 मगधानाह— ' एवं जहा पाणाइवायस्स सीयालं मंगसयं मणियं तथा मुसावायस्स वि  
 माणियम्ब ' हे गौतम ! एवम् उपर्युक्तीत्या यथा माणातिपातस्य सप्तत्वारि  
 श्रदधिकं मङ्गलं मङ्गानां विकल्पानां श्रुतां मणितम् उक्तम् तथैव मृथापादस्यापि  
 सप्तत्वारिश्रदधिकश्रतसख्यकाः—मङ्गाः मणितम्ब्याः षक्तम्ब्याः, एवं 'अदिभा

होता है, अर्थात् जो आधिक होता है उसके जय तक सम्यक्दर्शन  
 नहीं हो जाता, तब तक का प्रत्याख्यान सत्ता नहीं माना जाता  
 मिथ्याचारिण रूप माना जाता है, और जय उसके सम्यक्दर्शन  
 हो जाता है, तब उसका क्रिया हुआ प्रत्याख्यान सम्यक्त्व मूलक  
 होने से सत्ता माना जाता है। 'सर्णं मते ! पच्छा पश्चाद्वस्त्रमाणे  
 किं करेह ?' सो इसीका लेकर, गौतमने मनुसे ऐसा पूछा है कि  
 यह भ्रमणोपासक भावक मृथापादकी विरति के समय में मृथापादका  
 प्रत्याख्यान करता हुआ क्या करता है। इसके उत्तर में मनु  
 कहते हैं 'एवं जहा पाणाइवायस्स सीयालं मंगसयं मणियं तथा  
 मुसावायस्स वि माणियम्ब' जैसे माणातिपात के तीन कालको  
 लेकर एक सौ सैंतालीस भग कहने गये हैं उसी तरहसे मृथापादके  
 भी एक सौ सैंतालीस भग कहना चाहिये। अर्थात् जब भ्रमणोपासक  
 भावक सम्यक्त्व होने के बाद देशविरतिके सन्मुख होता है और

त्वा सुधी तेना दासा सुलभुवावाणा प्रत्याख्यानं वध शकता नथा—जेटले हे भावने न्या  
 सुधी सम्यक्दर्शन प्राप्त नहीं त्वा सुधीना तेना प्रत्याख्यानं शकतां भवतां नथी पद्य  
 मिथ्याचारिणरूप भगवत्तु छे पद्य न्यारे तेने सम्भक्तवनी प्राप्ति प्राप्त छे, त्वारे तेवे-  
 करेदां प्रत्याख्यानं सम्भक्तवनी मूलक होवाची शकतां भवतां छे.

'से ष मते ! पच्छा पश्चाद्वस्त्रमाणे किं करेह ?' आ निबभने अनुत्तरणीने  
 जीवम स्वामी अनुने जेवा प्रक करे छे हे, भ्रमणोपासक भावक मृथापादकी विरतिना  
 सुभबर्मा मृथापादना प्रत्याख्यान करे त्वारे सु करे छे !

उत्तर— ' एवं जहा पाणाइवायस्स सीयालं मंगसयं मणियं तथा मुसावायस्स  
 वि माणियम्ब ' हे जीवम ! जेवी दीवे जल्ल कालनी अपेक्षाम्बे प्राणवतिपातना १४७  
 लज कडा छे (सुत्तकालनी अपेक्षाम्बे ४६ लज ते जने वद भवतनी अपेक्षाम्बे ४६ लज  
 ते अपेक्षाम्बे अपेक्षाम्बे ४६ लज) जेव ममावे, मृथापादना—पद्य १४७; लज अडेव  
 जेवने, जेटले हे सम्भक्तवनी प्राप्ति प्राप्त जव भ्रमणोपासक, भावक, देशविरतिपादो लनीने

दाणस्सवि' एवं मृषावादस्येव अदत्तादानस्यापि सप्तचत्वारिंशदधिकशतसंख्यका अपि भङ्गाः वक्तव्याः, एवं थूलगस्स मेहुणस्सवि' एवं मृषावादस्येव स्थूलकस्य स्थूलस्य मैथुनस्यापि सप्तचत्वारिंशदधिकशतसंख्यकाः विकल्पाः वक्तव्याः,

वह स्थूल प्राणातिपातका प्रतिक्रमण, संवर और प्रत्याख्यान करता है तो इस विषय में जैसे अभी एकसौ सैंतालीस भंग प्रकट किये गये हैं उसी प्रकारसे जब यह स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान करता है तब यह भूतकालिक मृषावाद का प्रतिक्रमण करता है वर्तमान कालिक स्थूल मृषावाद का यह संवर करता है। और भविष्यत् कालिक स्थूल मृषावाद का यह प्रत्याख्यान करता है। अतीतकालके मृषावाद का जब वह प्रतिक्रमण करता है तब यह त्रिविध मृषावाद का प्रतिक्रमण त्रिविधसे करता है द्विविधसे करता है एकविधसे भी करता है। द्विविध मृषावाद का एकविधसे करता है त्रिविधसे करता है द्विविधसे भी करता है इत्यादि सब कथन प्राणातिपातके प्रतिक्रमणके प्रकरणकी तरह यहाँ पर भी करलेना चाहिये। इस तरह स्थूल मृषावादके प्रतिक्रमणके विषय में ४९ भंग हो जाते हैं। वर्तमान कालिक स्थूल मृषावाद के संवर करनेके विषयमें ४९ होजाते हैं। तथा अनागत स्थूल मृषावादके प्रत्याख्यान करनेके विषय में ४९ भंग होजाते हैं इस तरत स्थूल मृषावादके एक सौ सेतालीस भंग होते हैं। 'एवं आदिष्वादाणस्स वि, एवं थूलगस्स मेहुणस्स वि, थूलगस्स परिग्गहस्स

स्थूल प्राणातिपातनु प्रतिक्रमण, संवर अने प्रत्याख्यान करे छ आ विषयने अनुवक्षीने पड़ेला जेवा १४७ लग अताववामा आव्या छे, जेवां ज १४७ लग अहीं पणु समज्वा- भूतकालिक मृषावादाना प्रतिक्रमण विषयक ४९ लग, वर्तमानकालिक स्थूल मृषावादाना संवरना ४९ लग अने भविष्यकालिक स्थूल मृषावादाना प्रत्याख्यानना ४९ लग भणीने तेना कुल १४७ लग समज्वा भूतकालिक मृषावादानु प्रतिक्रमणु करतो ते श्रावक त्रिविध मृषावादानु प्रतिक्रमणु त्रिविधे पणु करे छे द्विविधे पणु करे छे. अने जेकविधे पणु करे छे द्विविध मृषावादानु प्रतिक्रमणु त्रिविधे पणु करे छे, द्विविधे पणु करे छे अने जेकविधे पणु करे छे इत्यादि समस्त कथन प्राणातिपातना प्रतिक्रमणुना प्रकरणुनीन्नेम अहीं समज्वा लेवु आ रीते स्थूलमृषावादानु प्रतिक्रमणु करवा विषेना ४९ लग भनी जशे, वर्तमानकालिक स्थूलमृषावादाना संवर विषेना ४९ भंग भनशे अने भविष्यकालिक स्थूलमृषावादाना कुल १४७ लग अने छे ' एवं अदिन्नादाणस्स वि, एवं थूलगस्स मेहुणस्स वि, थूलगस्स परिग्गहस्स वि, जाव अहवा करे तं णाणुजाणइ कायसा '

तयैष 'स्युष्मास्स परिग्रहस्स चि जाष अहवा करेतं गाणुजाणइ कायसा' स्थूलकस्य स्थूलस्य परिग्रहस्यापि प्राणातिपातादिवदेव सप्तचत्वारिंशदधिक श्रतसस्यका मङ्गा अवसेया., यावत्- 'त्रिविधं त्रिविधेन प्रतिक्रामन् न करोति, न कारयति, कुर्वन्तं नानुमानाति मनसा, वचसा, कायेन' इति प्रथम विकल्प-मारभ्य 'अथवा एकविधम् एकविधेन प्रतिक्रामन् कुर्वन्तं नानुमानाति कायेन' इत्यन्तम् एकोनपञ्चाशत्तमविकल्पपर्यन्तमिति भावः, तेषु सर्वेषु अतीववर्तमानमविष्यद्मेवैः सप्तचत्वारिंशदधिक श्रतसस्यका मवन्ति इतिसमवसेयम् ननु कथं तावत् मनसा वर्णं कारणम् अनुमोदनञ्चमक्ति मईति ?

चि, जाष अहवा करेतं गाणुजाणइ कायसा' इसी प्रकारसे स्थूल अदधादानके भी एकसौ सेतालीस भंग होते हैं, स्थूल मैद्युनके भी इसी तरहसे एकसौ सेतालीस भंग होते हैं, और स्थूल परिग्रहके भी एकसौ सेतालीस भंग होते हैं ये सब भंग त्रिविधका त्रिविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह मनसे, वचनसे एवं कायसे न करता है न कराता है और न करते हुयेकी अनुमोदना करता है। इस प्रथम भंगसे लेकर 'अथवा एकविध प्राणातिपातका एकविधसे प्रतिक्रमण करता हुआ वह कायसे करने वालेकी अनुमोदना नहीं करता है इस अन्तिम ४९ वे भंग तक हैं। ये सब ४९ भंग अतीव वर्तमान और अविष्यत् के भेदसे एकसौ सेतालीस हो जाते हैं। ऐसा जानना चाहिये।

इंका- मनसे करना और अनुमोदना करना ये सब कैसे हो सकता है ? उत्तर- जिस प्रकार वचनसे और कायसे प्राणातिपात

ज्येष्ठ प्रश्नके स्थूल अदधादानका पक्ष १४७ काज भाव ७ मैद्युनका पक्ष १४७ काज भाव ७ अने स्थूल परिग्रहका पक्ष १४७ काज भाव ७ त्रिविधनु त्रिविध प्रतिक्रमण करते ते आवक मन, वचन अने वाचकी प्राणातिपात करते नथी, करावतो नथी अने करानरनी अनुमोदना करते नथी आ परेला काजकी वत् करीने अथवा ज्येष्ठविध प्राणातिपातनु ज्येष्ठविध प्रतिक्रमण करते ते आवक वाचकी प्राणातिपात करानरनी अनुमोदना करते नथी, आ उरुवा (४६) काज सुभीतुं कथन्, स्थूल अदधादान अर्द्ध विधे पक्ष समञ्जसुं अतः काज भाव मानकाण अने कविभ्यः काणव ४६+४६+४६ काज = १४७ काज भाव ७ ज्येष्ठ समञ्जसुं

व ४१- मनथी करतुं, करावतुं अने अनुमोदना करनी, जे देवी रीते सभवी सुदे ७१ उत्तर- जेवी रीते वचनया अने वाचकी प्राणातिपात करवानुं कराववानुं अने

इतिचेदन्नोच्यते - यथा वचसा कायेन च प्राणातिपातादिकरणादिकं भवति तथैव मनसापि तेषां संभवात्,

उक्तञ्च- 'आह कह पुण मणसा करणं कारावणं अणुमईय ?  
जहवइतणुजोगेहि करणां तह भवे मणसा' ॥ १ ॥

तयहीणता वडतणु करणाईणं च अहव मणकरणं,  
सावज्जजोगमणणं पन्नत्तं वीयरगेहि' ॥ २ ॥

कारावणपुण मणसा चित्तेइ करेउएस सावज्जं,  
चित्तेईय कए उण सुट्ठ कयं अणुमई होइ' ॥ ३ ॥

छापा- 'आहुः कथं पुनर्मनसा करणं कारणमनुमतिश्च ।  
यथावचो तनुयोगाभ्यां करणादिकं तथा भवेत् मनसा ॥ १ ॥

तदहीनता वचस्तनुकरणादीनाञ्चाथवा मनः करणम् ।  
सावधयोगमननं प्रज्ञप्तं वीतरागैः ॥ २ ॥

कारणं पुनर्मनसा चिन्तति करोत् एतत् सावधम् ।  
चिन्ततिच कृत पुनः सुष्ठुकृतमनुमति भवति ॥ ३ ॥

अत्रच पञ्चसु अणुव्रतेषु प्रत्येक सप्तचत्वारिंशदधिकानां शतभङ्गानां सद्भावेन पञ्चत्रिंशदधिकसप्तशतभङ्गाः भवन्ति, अत्र आजीविका यत् श्रमणोपासकवृत्ति

आदिका करना कराना अनुमोदना करना ये सब होता है उसी तरहसे मनसे भी ये सब होता है । कहा भी है-अहकह पुण इत्यादि तात्पर्य इसका यही है कि मनसे जो करना है वह सावध यागके विचार करने रूप होता है तथा जो मनसे कराना होता है वह 'यह सावध योगको करे' इस विचार रूप होता है । एवं मनसे जो अनुमोदना करना होता है वह 'इसने इस सावधयोगको बहुत ठीक किया है' ऐसा विचार रूप होता है ।

यहाँ पाँच अणुव्रतों में प्रत्येक व्रत के एक सौ सैंतालिस

अनुमोदना करवानु अपनी शक्ते छे, जेण प्रमाणे मनथी पथु जे णधु अपनी शक्ते छे.

कथुं पथु छे- अह कहं पुण-धत्यादि

आ कथननु तात्पर्य जे छे के मनथी जे करवाभा आवे छे ते सावधयोगने विचार करवा रूप होय छे तथा मनथी जे करवावानु होय छे ते 'ओन्ने केअ माथस सावधयोग करे' आ प्रकारना विचाररूप होय छे मनथी तेनी अनुमोदना करवी जे वात आ प्रकारना विचाररूप होय छे 'तेणे आ सावधयोग करी ते धलुं सारुं कथुं'.

अही प्रत्येक अणुव्रताना १४७-१४७ लग गताव्या छे जे रीते पांचे अणुव्रताना

७३५-लग गाय छे 'ए खलु एरिसगा समणोवासगा भवन्ति, नो खलु



यस्तुनात् स्थविमान पृष्टवता, तथा गौतमस्य मगधन्तं पृष्टवान् तथावत्प्रति-  
 पादितम् अध्यानन्तरोक्तगुणशीलाः अमणोपासका एव भवितुमर्हन्ति ननु आजी-  
 विकानां गुणित्वेनामिमसा आजीविकोपासका इति प्रदर्शयितुमाह- 'एष-  
 खलु परिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु परिसगा आजीवियोवासगा  
 भवति' हे गौतम ! एते खलु उपरिचरिता ईदृशका प्राणातिपातादि-  
 अतीतप्रतिक्रमणवन्त प्रत्युत्पन्नसवरघन्तोऽनागतप्रत्याख्यानवन्तश्च धमभोपासकाः  
 भावका एव भवन्ति, भवितुमर्हन्ति नो खलु नैष किल ईदृशका उपर्युक्त-  
 रूपा आजीविकोपासकाः गोशालकश्चिप्यभाषका भवन्ति भवितु मर्हन्ति  
 तेषामुक्तार्थानामपरिज्ञानात् ॥ सू० २ ॥

भग होते हैं ! इस तरह पांचों अणुवर्तों का कुल सातसौ पेंतीस  
 (७३५) भंग हो जाते हैं ।

' एष खलु परिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु परिसगा  
 आजीविओवासगा भवति ' यहां पर आजीविकेने जो स्थविरोसे  
 अमणोपासकों के विषय में पूछा है वसी विषयको गौतमने प्रश्नसे  
 पूछा है- सो उसका यहां तक प्रतिपादन किया । अब सूत्रकार यह  
 कह रहे हैं कि अनन्तरोक्त गुणशीलवाले अमणोपासक ही हो  
 सकते हैं आजीविकों द्वारा गुणीरूपसे मान्य किये गये आजीविको-  
 पासक नहीं । प्रश्न गौतमसे कह रहे हैं- हे गौतम । ऊपर में जिनका  
 घणन कियाजा चुका है ऐसे अमणोपासक-भावक ही अतीत  
 प्राणातिपात आदिके विषय में प्रतिक्रमणवाले, वर्तमान प्राणातिपात  
 आदि के विषय में प्रत्याख्यानवाले होते हैं- हो सकते हैं, आजी  
 विकोपासक गोशालक शिष्य भाषक-न ऐसे होते हैं और न ऐसे हो  
 सकते हैं । क्यों कि वे इस अर्थसे अपरिचित-अनभिज्ञ होते हैं ॥सू० २॥

परिसगा आजीविओवासगा भवति ' आशुविज्ञाने स्थविरोसे अमणोपासकेना विषयार्थं  
 पूछेका प्रश्नोने अनुबन्धीने गौतम स्वर्णजे पूछेका प्रश्नोनु आ प्रश्नसुभं प्रतिपादन करवाभं  
 आशुनु छे. कवे सूत्रकार जे बात प्रकट करे छे ते आ प्रश्नरना सुखु जने शीलवण्ण  
 अमणोपासक न होय शके छे आशुविज्ञा दास सुखीरूपे मान्य करयेका आशुविओपासक  
 जेवा होता नथी. तेधीन सुत्तने उपसहार करवा महत्तीर प्रश्न कहे छे हे हे गौतम ।  
 ऊपर जेनु वक्तुन करवाभं आशुनु छे जेवा अमणोपासक भावो न भूतजबिन प्रश्नप्रतिपात  
 आदिना विषयार्थं प्रतिअणुवर्तना, वद मानकालिक प्रश्नप्रतिपात आदिना विषयभा संवत्तण्ण  
 जने लविअजबिन प्रश्नप्रतिपात आदिना विषयार्थं प्रत्याख्यानवण्ण देय छे- छेयं को छे

आजीविकसिद्धान्तवक्तव्यता ।

मूलम्—आजीवियसमयस्स णं अयमट्टे पणत्ते अक्खीण-  
 पडिभोइणो सव्वे सत्ता से हंता छेत्ता भेत्ता लुंपित्ता विलुंपित्ता  
 उद्वइत्ता आहारमाहारैति, तत्थ खल्ल इमे दुवालसआजीवियो-  
 वासगा भवंति, तं जहा—ताले १, तालपलंबे २, उव्विहे ३,  
 संविहे ४, अवविहे ५, उदए ६, नामुदए ७, णमुदए ८, अणु  
 वालए ९, संखवालए १०, अयंबुले ११, कायरए १२, इच्चेते  
 दुवालसआजीवियोवासगा अरिहंतदेवतागा अम्मापिउसुस्सूसगा  
 पंचफलपडिक्कंता, तं जहा—उंबरेहिं, वडेहिं, बोरेहिं, सत्तरे हिं,  
 पिलंखूहिं. पलंडुल्हसणकंदमूलविवज्जगा अणिल्लंछिएहिं अणक्क-  
 भिन्नेहिं गोणेहिं तसपाणविवज्जिएहिंविच्चेहिं वित्तिं कप्पेमाणा विह-  
 रंति, एए वि ताव एवं इच्छंति; किमंगपुण जे इमे समणोवासगा  
 भवंति, जेसिं नो कप्पंति इमाइं पन्नरसकम्मादाणाइं सयंकरे  
 तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा अन्नं न समणुजाणेत्तए, तं  
 जहा—इंगालकम्मे १, वणकम्मे २, साडीकम्मे ३, भाडीकम्मे ४,  
 फोडीकम्मे ५, दंतवाणिज्जे ६; लक्खवाणिज्जे ७; केसवाणिज्जे  
 ८, रसवाणिज्जे ९, विसवाणिज्जे १०, जंतपीलणकम्मे ११;  
 निह्लंछणकम्मे १२, दवग्गिदावणया १३; सरहदतलायपरिसो-  
 सणया १४, असतीपोसणया १५, इच्चेते समणोवासगा सुक्का

आलुपिकापासके (जोशालक शिष्य श्रवठ) जेवां होता नथी अने होथ शकता पणु  
 नथी. कारण के तेजो आ अथंधी अपरिचित (अनसिद्ध होय) छे ॥ सू. २ ॥

सुखाभिजातीया भविया, भवित्ता, कालमासे काल किञ्चा अन्न  
यरेसु देवलोपसु देवत्ताय उववत्तारो भवति ॥ सू० ३ ॥

छाया-आमीषिकसमयस्य खलु अपमर्षः प्रहस्तः- अक्षीणपरिमोगिनः  
सर्वे सत्त्वाः, ततः इत्वा, छित्वा, भित्वा, लुप्त्वा, विलुप्य, अपद्राम्य, माहार  
माहारयन्ति तत्र खलु इमे द्वादश आजीषिकोपासका भवन्ति, तद्यथा-१ तालः,  
२-तालमलम्बः, ३-उद्विषः ४-मषिषः, ५-भवविषः, ६ उदपः, ७ नामो-

### आजीषिक सिद्धान्त एकम्यता

आजीषिय समयस्स ण अपमट्ठे पण्णत्ते इत्यादि ।

सुप्रार्थ- (आजीषियसमयस्स ण अपमट्ठे पण्णत्ते) आजीषिक गोशा  
लकके सिद्धान्तका यह अर्थ कहा जाता है (अकस्त्रीणपडिमोइणो सन्धे  
सचा-से इत्ता छेत्ता भेत्ता लुपित्ता, विलुपित्ता उववत्ता आहारमाहारेति)  
सर्वे सन्धे अक्षीण परिमोगीसधित्ताहारी हैं । इस कारण वे लकड़ी  
बगैरहसे इनन करके, तलघार आदिसे छेद करके, शूब आदिसे मेव  
करके, पन्व आदिको उम्वाड करके, म्वाल आदिका काट करके स्वाने  
योग्य भन्तुको इस प्रकार विनष्ट करके खाते हैं । (तत्प खलु इमे  
दुखालसआजीषियावामगा भवति) आजीषिक सिद्धान्त में, य १२  
आमिषिकोपासक (आवक) कहे गये हैं । (त जहा) जो इस प्रकारसे  
हैं- (ताले १, तालपल्लवे २, उम्बिहे ३, सविहे ४, भवविहे ५, उदप  
६, नामुदप ७, णमुदप ८, अणुवालप ९, मम्बवालप १०, अपपुले ११,

आजीषिक सिद्धान्त एकम्यता-

'आमीषियसमयस्स ण अपमट्ठे पण्णत्ते' धत्तार्थ-

सुप्रार्थ- (आमीषियसमयस्स ण अपमट्ठे पण्णत्ते) आजीषिक (जोशासक) संप्रधान  
सिद्धान्तको आ प्रभावे अर्थ प्रकृत्यमां आम्हे छ- (अकस्त्रीणपडिमोइणो सन्धे  
सचा-से इत्ता, छेत्ता भेत्ता लुपित्ता, विलुपित्ता, उववत्ता आहारमाहारेति)  
पन्व आदिको उम्बिहे ३, सविहे ४, भवविहे ५, उदप ६, नामुदप ७, णमुदप ८, अणुवालप ९, मम्बवालप १०, अपपुले ११,  
तद्वार आदिसे छेदने, उवा आदिसे छेदने पन्व आदि उम्वाडने, पन्व आदि  
उत्तारिने तेने आहारना उपयोग्य वे छ (तत्प खलु इमे दुखालसआजीषियो  
वामगा भवति) आजीषिक सिद्धान्तमा आव आजीषिकोपासक (आवक) कहे छ  
(तं जहा) तेभना पन्व आ प्रभावे छ- (ताले १, तालपल्लव २, उम्बिहे ३, सविहे  
४, भवविहे ५, उदप ६, नामुदप ७, णमुदप ८, अणुवालप ९, मम्बवालप १०, अपपुले ११,

दयः, ८-नर्मोदय, ९-अनुपालकः, १०-शंखपालकः, ११-अयंबुलः, १२-कातरः, इत्येते द्वादश आजीविकोपासकाः अर्द्धदेवताकाः मातापित्रोः श्रुथ-पकाः पञ्चफलप्रतिक्रान्ताः. तद्यथा उदुम्बरेभ्यः, वटेभ्यः बदरेभ्यः. सतरेभ्यः, पिप्पलेभ्यः, पलाण्डु-लशुन-कन्द-मूलविवर्जकाः, अनिलाच्छितैः, अनासिका-भिन्नैः, गोभिः, त्रसप्राणविवर्जितैः वित्तैः वृत्ति कल्पयन्तो विहरन्ति, एतेऽपि तावत् एवमिच्छन्ति, किम् अङ्ग पुनः ये इमे श्रमणोपासका भवन्ति, येषां नो

कायरए १२) ताल १, तालप्रलंब २, उद्विध ३, संचिध ४, अत्रिविध ५, उदय ६, नामोदय ७, नर्मोदय ८, अनुपालक ९, शंखपालक १०, अयंबुल ११, कातर १२, (इच्चे ते दुवालसआजीवियोवासगा अरिहंत देवतागा अम्मा पियुसुस्सगा पंच फलपडिकंता) ये १२ आजीविको-पासक गोशालकरूप अर्द्धत के भक्त होते हैं। ये मातापिताकी सेवा करते हैं। पांच प्रकार के फलोंको नहीं खाते है। (तंजहा) वे पांच प्रकारके फल इम प्रकारसे हैं- (उवरेहिं वडेहिं, वोरेहिं, सत्तरेहिं, पिलंखूहिं, पलंडू-लहसुण कदमूल विवज्जगा) ऊमर-गूलर, वड, वैर (चोर) सतरफल, पीपर। ये प्याज, लहसन, कंद, मूल इनके त्यागी होते हैं। (अणिलंछिएहिं, अणकभिन्नेहिं, गोणेहिं तसपाण-विवज्जिएहिं, वित्तिं कप्पेमाणा विहरंति) ये बधिया नहीं कराये गये, नहीं नाथे गये ऐसे वैलों द्वारा, तथा त्रसपाणीकी हिंसासे रहित ऐसे व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। (एएवि ताव एवं इच्छति, किमग पुण जे इमे समणोवासगा भवन्ति, जेसि नो कप्पंति

१०, अयंबुले ११, कायरए १२) (१)ताल, (२)तालप्रलं, (३) उद्विध, (४) संचिध, (५) अवविध, (६) उदय, (७) नामोदय, (८) नर्मोदय (९) अनुपालक, (१०) शंखपालक, (११) अयंबुल अने (१२) कातर ( इच्चे ते दुवालस आजीवियोवासगा अरिहंत-देवतागा अम्मापियुसुस्सगा पंच फलपडिकंता ) आ आर आशुविकोपासके गोशालकरूप अर्द्धतना लक्त छे तेओ माता पितानी सेवा करे छे तेओ पाच प्रकारना क्षो आता नथी (तंजहा) ने पांच प्रकारना क्षो नीचे प्रमाणे छे- (उवरेहिं, वडेहिं, वोरेहिं, सत्तरेहिं, पिलंखूहिं, पलंडू-लहसुण-कंदमूलविवज्जगा) उमर-गूलर, वड, वैर, सतरफल, पीपर तेओ इमणी, लसण, कम्बूण वगेरेना पणु त्यागी छे. अणिलंछिएहिं, अणकभिन्नेहिं, गोणेहिं, तसपाणविवज्जिएहिं, वित्तिं कप्पे माणा विहरंति ) तेओ भसी कराय्या विनाना अने नाथ्या विनाना अणके द्वारा तथा त्रसपाणीकी हिंसा न थती होय ओवा व्यापार द्वारा पोतानुं शुभ्रान यथावे छे ( एएवि

सुक्कामिजातीया भविया, भवित्ता, कालमासे काल किञ्चा अन्न  
यरेसु देवलोपसु देवत्ताष उवधचारो भवति ॥ सू० ३ ॥

छाया-आनीविकसमयस्य खलु अयमर्थं प्रकृतः- अक्षीणपरिमाणिनः  
सर्वे सत्वाः, ततः इत्वा, छिन्ना, मित्वा, छुप्या, बिलुप्य, अपद्राभ्य, आहार  
माहारयन्ति तत्र खलु इमे द्वादश आजीविकोपासका भवन्ति, तद्यथा-१ ताला,  
२-तालमलम्बा, ३-उद्विधः ४-मविध, ५-अत्रविधा, ६ उदया, ७ नामो

### आजीविक सिद्धान्त वक्तव्यता

आजीविय समयस्स ण अयमद्वे पण्णत्ते इत्थादि ।

सुत्रार्थ- (आजीवियसमयस्स ण अयमद्वे पण्णत्ते) आजीविक-गोष्ठा  
लकके सिद्धान्तका यह अर्थ कहा जाता है (अकस्त्रीणपडिमोइणो सन्वे  
सत्ता-से इत्ता छेत्ता मेत्ता छुपित्ता, बिलुपित्ता उद्वयत्ता आहारमाहारेति)  
सर्वे सत्त्व अक्षीण परिमोगीसचित्ताहारी हैं। इस कारण वे लकड़ी  
घरैरइसे इनन करके, तलघार आदिसे छेद करके, रूल आदिसे मेव  
करके, पल आदिको उखाड करके, खाल आदिका काठ करके खाने  
योग्य वस्तुको इस प्रकार भिनष्ट करके खाते हैं। (तत्त्व खलु इमे  
दुष्कालसआजीवियोवासगा भवति) आजीविक सिद्धान्त में प १२  
आमिबिकोपासक (आवक) कहे गये हैं। (त जहा) जो इस प्रकारसे  
हैं- (ताले १, तालपलंबे २, उम्बिहे ३, सविहे ४, अत्रविहे ५, उदप  
६, नामुदप ७, जमुदप ८, अणुबालप ९, मसबालप १०, मयपुले ११,

### आजीविक सिद्धान्त वक्तव्यता-

‘आजीवियसमयस्स ण अयमद्वे पण्णत्ते’ इत्थादि-

सुत्रार्थ- (आजीवियसमयस्स ण अयमद्वे पण्णत्ते) आजीविक (जोशादेक) सुप्रदायना  
सिद्धान्तने आ प्रमाद्ये अर्थं प्रकृतानां आये छे- (अकस्त्रीणपडिमोइणो सन्वे  
सत्ता-से इत्ता, छेत्ता मेत्ता छुपित्ता, बिलुपित्ता, उद्वयत्ता आहारमाहारेति)  
अथां माक्षीणा अक्षीणपरिमाणि-सचित्ताहारी छे तेथी तेभने दाक्षी आदिथी भरीने,  
तत्त्वार आदिथी उरीने छण आदिथी वेरीने, पंच आदिने उभादीने, अत्र आदिने  
उत्तरीने तेजे आहारना उपयोअथ वे छे (तत्त्व खलु इमे दुष्कालसआजीवियो-  
वासगा भवति) आजीविक सिद्धान्तमां नार आजीविकोपासक (आवक) कथा छे  
(तं जहा) तेभनां नाम आ प्रमाद्ये छे- (ताले १, तालपलंबे २, उम्बिहे ३, सविहे  
४, अत्रविहे ५, उदप ६, नामुदप ७, जमुदप ८, अणुपासप ९, संखपालप

दयः, ८-नर्मोदयः, ९-अनुपालकः, १०-शंखपालकः, ११-अयंबुलः, १२-कातरः, इत्येते द्वादश आजीविकोपासकाः अर्हद्देवताकाः मातापित्रोः शुश्रूषकाः पञ्चफलप्रतिक्रान्ताः, तद्यथा उदुम्बरेभ्यः, वटेभ्यः वदरेभ्यः, सतरेभ्यः, पिप्पलेभ्यः, पलाण्डु-लक्षुन-कन्द-मूलत्रिवर्जकाः, अनिलाच्छितैः, अनासिकाभिन्नैः, गोभिः, त्रसपाणविवर्जितैः वित्तैः वृत्तिं कल्पयन्तो विहरन्ति, एतेऽपि तावत् एवमिच्छन्ति, किम् अङ्ग पुनः ये इमे श्रमणोपासका भवन्ति, येषां नो

कायरण १२ ) ताल १, तालप्रलंब २, उद्विध ३, संविध ४, अविध ५, उदय ६, नामोदय ७, नर्मोदय ८, अनुपालक ९, शंखपालक १०, अयंबुल ११, कातर १२, (इच्छे ते दुवालसआजीवियोवासगा अरिहंत देवतागा अम्मा पियुसुस्सुसगा पंच फलपडिकता) ये १२ आजीविकोपासक गोशालकरूप अर्हत के भक्त होते हैं। ये मातापिताकी सेवा करते हैं। पांच प्रकार के फलोंको नहीं खाते हैं। (तंजहा) वे पांच प्रकारके फल इस प्रकारसे हैं- (उवरेहिं वडेहिं, वारेहिं, सत्तरेहिं, पिल्लवुहिं, पलंडू-लहसुण कदमूल विवज्जगा) ऊमर-गूलर, वड, वैर (वोर) सतरफल, पीपर। ये प्याज, लहसन, कंद, मूल इनके त्यागी होते हैं। (अणिंल्लच्छिएहिं, अणकभिन्नेहिं, गोणेहिं तसपाणविवज्जिएहिं, वित्तिं कप्पेमाणा विहरन्ति) ये वधिया नहीं कराये गये, नहीं नाथे गये ऐसे वैलों द्वारा, तथा त्रसपाणीकी हिंसासे रहित ऐसे व्यापार द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं। (एएवि ताव एवं इच्छति, किमंग पुण जे इमे समणोवासगा भवन्ति, जेसिं नो कप्पन्ति

१०, अयंबुले ११, कायरण १२) (१)ताल, (२)तालप्रलंब, (३) उद्विध, (४) संविध, (५) अविध, (६) उदय, (७) नामोदय, (८) नर्मोदय (९) अनुपालक, (१०) शंखपालक, (११) अयंबुल अने (१२) कातर ( इच्छे ते दुवालस आजीवियोवासगा अरिहंत-देवतागा अम्मापियुसुस्सुसगा पंच फलपडिकता ) आ भार आच्छितोपासको गोशालकरूप अर्हंतना भक्त छे तेओ माता पितानी सेवा करे छे तेओ पाच प्रकारना क्षो भाता नथी (तंजहा) ते पांच प्रकारना क्षो नीचे प्रमाणे छे- (उवरेहिं, वडेहिं, वारेहिं, सत्तरेहिं, पिल्लवुहिं, पलंडू-लहसुण-कंदमूलविवज्जगा) ऊमर-गूलर, वड, वैर, सतरक्षण, पीपर तेओ ऊमणा, लसण, कम्बूण वारेना पणु त्यागी छे. अणिंल्लच्छिएहिं, अणकभिन्नेहिं, गोणेहिं, तसपाणविवज्जिएहिं, वित्तिं कप्पे माणा विहरन्ति ) तेओ असी करान्था विनाना अने नाथ्या विनाना अण्ठे द्वारा तथा त्रसपाणीकी हिंसा न थती होय ओवा व्यापार द्वारा पोतानुं शुभ्रान, यथावे छे ( एएवि



असतीपोषणता, इत्येते श्रुताः, श्रुताभिजात्याः भविकाः भूत्वा, कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु देवलोकेषु देवतया उपपत्तारो भवन्ति ॥ सू०-३ ॥

टीका—अथ तद्विपरीताजीविकोपासकरूपमाह—‘आजीवियसमयस्य णं अयमद्वे पण्णत्ते’ इति, आजीविकसमयस्य गोशालकमिद्धान्तस्य खलु अयं वक्ष्यमाणः अर्थः प्रज्ञप्तः—‘अक्खीणपडिभोइणो सव्वे सत्ता’ सर्वे सत्त्वाः सर्वे प्राणिनः अक्षीणपरिभोगिनः अक्षीणम् अक्षीणायुष्कम् अप्रासुकं परिभुञ्जते इति अक्षीणपरिभोगिनः सच्चित्ताहारिणः सन्ति, अतएव ‘से हंता, छेत्ता,

असतीपोषण १५, ( इच्छेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भविया, भवित्ता, कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ) ये श्रमणोपासक शुद्ध-पवित्र और पवित्रता प्रधान होकरके मरण समय में मरण कर किसी एक देवलोक में देवरूपसे उत्पन्न होते हैं ।

टीकार्थ - ऊपर में जो ऐसा कहा गया है कि आजीविकके उपासक ऐसे नहीं होते हैं-सो इन्हीं आजीविकोपासकोंके स्वरूपको सूत्रकारने इस सूत्र द्वारा प्रगट किया है- इसमें उन्होंने यह कहा है कि आजीविक- गोशालकके सिद्धान्तका वह- वक्ष्यमाण-अर्थ प्रज्ञप्त हुआ है- आजीविक सिद्धान्तका ऐसा कथन है कि ‘अक्खीणपडिभोइणो सव्वे सत्ता’ जितने भी प्राणी हैं वे सब अक्षीण परिभोगी हैं- अर्थात्-अक्षीण-अक्षीणायुष्क-अप्रासुकको खानेवाले हैं- सच्चित्ताहारी हैं । अतएव वे खाने योग्य प्राणियोंको ‘हंता’ लकड़ी आदिसे

हावाग्निदापन, (१४) सरोवर, ६६ अने तणावनुं शोषण, (१५) असतीपोषण, (युत्तम, पशु आदिने छेरीने वेचवा ते) ( इच्छेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भविया, भवित्ता, कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति ) ते श्रमणोपासका शुद्ध (पवित्र) अने पवित्रता प्रधान होय छे. तेथी तेजो काणने। अवसर आवे काणधर्म पाभीने कांठ अेक देवलोकां देवरे उत्पन्न थाय छे

टीकार्थ :- पढेवाना सूत्रभा अेरुं कडेवाभा आंयुं छे हे आंलविकोपासक अेवां होता नथी. ते संधने अनुलक्षिने सूत्रकार आ सूत्र द्वारा आंलविकोपासकनु स्वरूप प्रकट करे छे- आंलविक संधनेना सिद्धांत नीचे प्रभावे छे- ‘अक्खीणपडिभोइणो सव्वे सत्ता’ नेटलां प्राणीअे छे, ते अंधा-अक्षीणपरिलोगी छे अेटके हे अप्रासुक आहार आनारा छे- सच्चित्तहारी छे, तेथी तेजो आवा लायक प्राणीअेते ‘हंता’



मेघा छुपिचा, विह्वपिचा, उद्वहृचा आहारमाहारेति' तत्र तस्मात् कारणात्  
 इत्या अणुहादिना भ्यापाय, अम्पवर्तु योग्य प्राणिजातं छित्वा-छुरिकादिना,  
 भित्वा-शुभादिना; छुप्सा पंसाद्रिकमुत्पाटय, विह्वप्य-त्पचामुत्पाटय, अ-  
 द्रव्य-विनाश्य आहारम् आहन्ति, 'तत्र खलु इमे दुषामस्य आभीषिषोवासगा  
 भवति' तत्र खलु एषं स्थिते असंयतसत्त्वेषु इननादि दोषपरायणेषु आभीषिक  
 समयेआजीविक शास्त्रे इमे वक्ष्यमाणाः द्वादश आभीषिकोपासका भवन्ति, ताने  
 पाह-तमहा-१ ताले, २ तालपल्लवे; ३ उर्विह, ४ सविह; ५ अविह, ६ उदप;  
 ७ नामुदप, ८ गमुदप, ९ अणुपालप, १० संसपालप, ११ अयंपुच्छे, १२  
 कापरप' तद्यथा-१ तालः, २ तालप्रलम्बः, ३ उर्विषः, ४ संविषः, ५-

मार कर, 'छेचा' छुरिका आदिसे छेदकर- 'मेघा' शूल आदिसे  
 मेदकर 'छुपिचा' पंख आदिको उखाडकर, 'विह्वपिचा' लाल आदिको  
 काटकर, 'उद्वहृचा' पिनष्ट कर 'आहारमाहारेति' अपने आहारके  
 काम में लाते हैं। इस तरह जब कि समस्त जीव दूसर जीवोंको  
 हनन करके खाने में तत्पर बने हुए हैं तब 'तत्र खलु इमे दुषालस  
 आजीविषोवासगा भवति' आजीविक शास्त्र में ये १२ बारह  
 आभीषिकोपासक कहे गये हैं- ये सच्चिदाहारी नहीं होते हैं-अर्थात्  
 किमनेक अज्ञा में ये मच्चि के त्यागी होते हैं- 'तमहा' के बारह  
 आजीविकापासक इस प्रकारसे हैं- 'ताले १, ताल पल्लवे २, उर्विह  
 ३, सविह ४ अविह ५, उदप ६, नामुदप ७, गमुदप ८,  
 अणुपालप ९ संसपालप १०, अयंपुच्छे ११, कापरप १२, 'ताल १,

लाहरी वनेरे वडे भारीने 'छेचा' तब्यार छरी आहरी छेदीने, 'मेघा' छ  
 आहरी छेदीने, 'छुपिचा' पंख आदिने उखाडीने, 'विह्वपिचा' लाली आहरी  
 वनेरे उदारिने 'उद्वहृचा' निनध छरीने आहारमाहारेति' पत्ताना आहारना  
 उपयोग्या वे छे आ रीते आरे समस्त छेने जीव छेनेने सद्धार छरीने अपवने  
 तत्पर बनेछा छे आरे 'तत्र खलु इमे दुषामस्य आभीषिषोवासगा भवति'  
 यत्र खेच्य आर आहृषोवासोनाय नाम आहृषिषोवासोभ्यं अपवधायं आहृष्ये छे छे  
 नेने। सच्चिदाहारी न छेना- छेदवे छे अणुः अहरे तेने। सच्चिदान् त्यागी छेना  
 'तमहा' ते आर आहृषिषोपासकायं नाम नीवे प्रभाक्षे छे- 'ताले, तालपल्लवे,  
 उर्विह, सविह, अविह उदप नामुदप, गमुदप, अणुपालप, संसपालप,  
 अयंपुच्छे, कापरप' (१) ताल, (२) तालप्रलम्ब, (३) उर्विह, (४) सविह, (५)

अवविधः, ६ उदयः, ७ नामोदयः, ८ नर्मोदयः, ९ अनुपालकः, १० शङ्खपालकः, ११ अयंबुलः, १२ कातरश्च, 'इच्छेते दुवालसआजीवियोवासगा, अरिहंतदेवतागा, अम्मापिउसुस्सगा, पंचफलपडिक्कंता' इत्येते उपरि-  
 उक्ताः द्वादश आजीविकोपासकाः, अर्हद्देवताकाः गोशालकस्यैव तत्कल्पिताहं  
 त्वात् गोशालकरूपाहं भक्ताः, मातापित्रोः शृश्रूपकाः परिचारकाः, पञ्चफल  
 प्रतिक्रान्ताः वक्ष्यमाणस्वरूपफलपञ्चकाद् निवृत्ताः, वर्ज्यफलान्याह 'तं जहा  
 तद्यथा-उंवरेहिं, वडेहिं, वोरेहिं, सत्तरेहिं, पिलंखूहिं.' उदुम्बरेभ्यः 'गूलर'  
 पदवाच्यफलेभ्यः, वटेभ्यः वटवृक्षफलेभ्यः, बदरेभ्यः-बदरफलेभ्यः, सतरेभ्यः,  
 सतरपदवाच्यफलविशेषेभ्यः, पिप्पलेभ्यः पिप्पलवृक्षफलेभ्यः पञ्चभ्यः प्रति  
 क्रान्ता इति पूर्वेणान्वयः, अत्र प्रतिक्रान्तापेक्षया उदुम्बरादिभ्यः पञ्चमी विभक्ति  
 र्वसेया । पुनस्तानेव आजीविकोपासकानाह-'पलंडुल्लहसणकंदमूलविवज्जगा'

तालप्रलम्ब २, उदविध ३, संविध, ४, अवविध ५, उदय ६, नामोदय  
 ७, नर्मोदय ८, अनुपालक ९, शङ्खपालक १०, अयंबुल ११ और  
 कातर १२ 'इच्छेते दुवालसआजीवियोपासगा अरिहंतदेवतागा अम्मा-  
 पिउसुस्सगा, पंचफलपडिक्कंता' ये १२ वारह आजीविकोपासक  
 अर्हंत देवके उपासक होते हैं-अर्थात् गोशालककोही अपना उपास्य  
 अर्हंतदेव मानते हैं । मातापिताकी सेवा में ये लगे रहते हैं । ये जिन  
 पांच फलोंको वर्जनीय मानते हैं उनके नाम इस प्रकारसे हैं-  
 'उवरेहिं, वडेहिं, वोरेहिं सत्तरेहिं, पिलंखूहिं' उदुम्बर-गूलरका फल,  
 वट-वटवृक्षका फल, बदर-बदर फल-वेर (बोर) सतर- इस नामका  
 फल विशेष, पिलखू-पीपलका फल इन पांच फलोंसे दूर रहते हैं-  
 अर्थात्-इनका ये सेवन नहीं करते. 'पलंडुल्लहसणकंदमूलविवज्जगा'

अवविध, (६) उदय, (७) नामोदय, (८) नर्मोदय, (९) अनुपालक, (१०) शङ्खपालक  
 (११) अयंबुल अने-१२ कातर 'इच्छेते दुवालस आजीवियोवासगा अरिहंत देवतागा  
 अम्मापिउसुस्सगा, पंचफलपडिक्कंता' आ पांच आजीविकोपासके अर्हंत देवता  
 उपासक होय छे- अर्हंत देवतेको गोशालकने जे पोताना उपास्य अर्हंत देव माने छे.  
 तेको मातापितानी सेवामा धीन रहे छे तेको नीचेना पांच इशाने वर्जनीय (त्याग  
 करवा लायक माने छे- 'उवरेहिं वडेहिं, वोरेहिं, सत्तरेहिं पिलंखूहिं (१) उदुम्बर-  
 गुलरनु इण, (२) वडनां इण, (३) वेर, (४) सतर-नामनां इण अने (५) पिलंखू-पिपलानुं  
 इण तेको आ पांच प्रकारना इशानु सेवन करता नथी. 'पलंडुल्लहसणकंदमूलविवज्जगा'

पलाण्डु-प्याज, लहसुन, सूरण आदि कन्द और मूली इन सबको ये कभी भी अपने अहारके उपयोगमें नहीं लेते हैं। 'अणिच्छिपिर्हि अणकमिनेहि गोणेहि तसपाणविषजिपिर्हि विचेहि विचि कप्पेमाणा विहरति' ये जिन यैलोसे अपना व्यापार करते हैं-ये बधिया किये हुए नहीं होते हैं नपुंसक पनाये हुए नहीं होते हैं- और न उनकी नाक छेदकर इनमें नाथ डाली हुई होती है जिस घन से ये अपना व्यापार चलाते हैं यह घन इनका धर्म जीवोंकी हिंसासे उपार्जित किया हुआ नहीं होता है। 'एष वि ताव एष इच्छति, किमप्युण जे इमे समणोवासगा भवति' विशिष्ट योग्यतासे विकल घने हुए ये गोशालक आवक भय इस प्रकारसे धर्मको चाहते हैं, तब हे अह-गौतम ! जो ये धमणोपासक हैं कि जिन्होंने जीव और अजीव तत्वोंको अच्छी तरहसे जान

कुशला, लहसुन, सूरण आदि कन्द घने मूलीने तेजो जेऽह तरीके उपयोग करता नथी। 'अणिच्छिपिर्हि अणकमिनेहि गोणेहि तसपाणविषजिपिर्हि विचेहि विचि कप्पेमाणा विहरति' तेजो जे अण्डो वटे वेपार भवेरे अरे छ ते अण्डोने भरथी अभावता नथी अने तेभना नासभा छिद पादिने तेभने नासभाभा अभावता नथी। तेजो त्रसलधैनी दिग्ध इत्ता उपहित अरेका घनथी तेभने वेपार वेपार अभावता नथी। 'एष वि ताव एष इच्छति, किमप्युण जे इमे समणोवासगा भवति' विशिष्ट योग्यता उपसन्पुष्पपापा ते भावडे जे भवने अा प्रकारे अरे छ, ते छे अह ! (गौतम) एष अने अछेने तत्तेने सारी रीते अणुनाथ, पुंस्य अने अणु अणुने समनता,

श्रमणोपासकाः भवन्ति; ते धर्मं नेच्छन्ति इति, अत्यन्तविशिष्ट देवगुरु प्रवचनं शरणीकुर्वाणास्ते अवश्यमेव धर्ममिच्छन्ति इति भावः, 'जेसि नो कप्पंति इमां पन्नरसकम्मादाणां सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा अन्नं न समणुजाणेत्तए' येषां श्रमणोपासकानां नो कल्प्यन्ते न युज्यन्ते इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्चदश कर्मादानानि, कर्माणि-ज्ञानावरणादीनि आदीयन्ते गृह्यन्ते यैस्तानि कर्मादानानि, अथवा-कर्माणि च तानि आदानानि चेति कर्मादानानि कर्महेतवः स्वयं कर्तुं वा, अन्यद्वारा कारयितुं वा, कुर्वन्तं वा अन्यं न समनुज्ञातुम् अनुमन्तुम् अनुमोदयितुमित्यर्थः कल्प्यन्ते इति पूर्वोक्तान्वयः, तान्येव पञ्च-

लिया होता है, पुण्य पापके स्वरूपसे जो परिवर्तित होते हैं' आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष इन तत्त्वोंकी आराधना में जो लगे रहते हैं- अर्थात्-आस्रव और बंध ये संसारके कारण हैं अतःहेय हैं संवर निर्जरा मोक्षके कारण हैं अतः ये उपादेय हैं जो इस विषयको बहुत अच्छी तरहसे श्रद्धापूर्वक समझते हैं और अनुष्ठान भी ऐसा ही करते हैं जिससे संसार वर्धक क्रियाएँ धीरे-धीरे कम होती जावें और आत्मशुद्धिवर्धक क्रियाएँ बढ़ती जावें- धर्मको कैसे नहीं चाहता हैं- अर्थात् अत्यन्त विशिष्ट देव गुरु और प्रवचनकी शरण में रहनेवाले ये अवश्य ही धर्मको चाहते हैं। यहां 'अङ्ग' कोमल आमत्रण में प्रयुक्त हुआ है। 'जेसि नो कप्पंति, इमां पन्नरसकम्मादाणां सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा अन्नं न समणुजाणेत्तए' इन श्रमणोपासकोंके ये १५ कर्मादान न स्वयं करने योग्य होते हैं,

आस्रव अने अंधेने छेय रूपे समञ्जनारा अने संवर तथा निर्जराने मोक्षना कारणरूप भावनेने उपादेयरूप गणनारा, आ अथा तत्त्वेने सारी रीते श्रद्धापूर्वक समञ्जनारा, संसारवर्धक क्रियाओं धीमे धीमे घटती जाय अने आत्मशुद्धिवर्धक क्रियाओं बढ़ती जाय ओंवा अनुष्ठानो करनारा, श्रमणोपासक श्रावकोंनी तो वा न न शी करवी! तेओ धर्मने चाहता न होय ओंनु ठेवी रीते संभवी शक? ओंठले के अत्यन्त विशिष्ट देव गुरु अने प्रवचननी आराधना करनारा तेओ धर्मने अवश्य चाहता होय छे अही 'अङ्ग' यह कामले संशोधन रूपे वपरायु छे 'जेसि नो कप्पंति, इमां पन्नरसकम्मादाणां सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा अन्नं न समणुजाणेत्तए' ते श्रावकपासकनीये दर्शावेदीं १५ कर्मादानोने करवा योग्य मानता नथी, अन्वनी नासे करवावा योग्य मानता नथी अने ते कर्मादानो करनारनी अनुशोधना करवीं तेने पणु योग्य मानता नथी.

दश कर्मादानानि आह—‘तज्जा’—१ इगालकम्ममे २ षणकम्ममे, ३ साडीकम्ममे, ४ माडीकम्ममे, ५ फोडीकम्ममे, ६ दंतवाणिज्जे, ७ लखसवाणिज्जे, ८ केसवाणिज्जे, ९ रसवाणिज्जे, १० विषवाणिज्जे, ११ भतपीलणकम्ममे, १२-निष्ठछणकम्ममे, १३ दधग्गिदावणया,, १४ सरदहत्तलापपरिसोसणया, १५-असदीपोसणया’ तद्यथा’ १ अङ्गारकर्म, २ धनकर्म, ३ शकटीकर्म, ४ माटीकर्म, ५ स्फोटिकर्म, ६ दन्तवाणिज्यम्, ७ साक्षीवाणिज्यम् ८ केसवाणिज्यम् ९ रसवाणिज्यम् १० विषवाणिज्यम् ११ पन्त्रपीडनकर्म, १२ निर्वाच्छनकर्म, १३

न ये किसी दूसरोंसे लुन्हे कराने योग्य समझते हैं न ये इन कर्मादानोंको करने वालोंको अनुमोदना करने योग्य ही मानते हैं। ज्ञानावरण आदि कर्म, जिनके-द्वारा जीव ग्रहण करते हैं उनका नाम कर्मादान हैं, अथवा कर्मोंके ग्रहण करने में जीवको जो हेतुमूल होते हैं वे कर्मादान हैं। ‘तज्जा’ ये पन्द्रह कर्मादान इस प्रकारसे हैं— ‘इगालकम्ममे १, षणकम्ममे २, साडीकम्ममे ३, माडीकम्ममे ४, फोडीकम्ममे ५, दंतवाणिज्जे ६, लखसवाणिज्जे ७, केसवाणिज्जे ८, रसवाणिज्जे ९, विषवाणिज्जे १०, जलपीलणकम्ममे ११, निष्ठछणकम्ममे १२, दधग्गिदावणया—१३ सरदहत्तलापपरिसोसणया १४, असदीपोसणया १५,’ अंगारकर्म १, धनकर्म २, शकटीकर्म ३, माटीकर्म ४, स्फोटिकर्म ५, दन्तवाणिज्य ६, साक्षीवाणिज्य ७, केसवाणिज्य ८, रसवाणिज्य ९, विषवाणिज्य १०, पन्त्रपीडन ११, निर्वाच्छनकर्म १२,

दानावत्तु आदि इमेनि जेना इमा एवे अठव्व करे छे ते कर्मानि कर्मादान इहे छे अथवा एव दासा इमेनि अठव्व करवाभा वे आत्तएव अने छे तेभने कर्मादान इहे छे ‘तज्जा’ ते १५ कर्मादान-नीचे प्रथममे छे— ‘इगालकम्ममे’ (१) अंगारकर्म (सुआरादिभन्तु भयं ‘षणकम्ममे’ (२) धनकर्म (धनना अठ्ठा अथाने वेने वेपार) ‘साडीकम्ममे’ (३) शकटीकर्म (शरु आदि जलपाने वेपार) ‘माडीकम्ममे’ (४) माटीकर्म (वाधु घर बजरे अनाथी तेभना आदि भाषी) ‘फोडीकम्ममे’ (५) स्फोटिकर्म (हवा वायु बजरे जेहाथी धरतीना परे इडाववातु काम) ‘दन्तवाणिज्जे’ (६) दन्त वाणिज्य (दाधी घत अग्नि वेपार) ‘लखसवाणिज्जे’ (७) साक्षीवेपार, ‘केसवाणिज्जे’ (८) केसवेपार ‘रसवाणिज्जे’ (९) रसवाणिज्य (अइरा आदि वञ्चने वेपार) ‘विषवाणिज्जे’ (१०) विषवेपार, ‘जलपीलणकम्ममे’ (११) पन्त्रपीडन (बाष्पी धटी बजरे अथवापाने धरि) ‘निष्ठछणकम्ममे’ (१२) निर्वाच्छनकर्म (असी करवातु, नदवातु बजरे धरि) ‘दधग्गिदावणया’ (१३) दधग्गिदावणया काम, ‘सरदह

द्वाग्निदापनता, १४ सरोहृदतडागपरिशोषणता, १५ असतीपोषणता एतेषामर्थः  
 उपासकदशांगसूत्रस्य अगारधर्मसंजीविन्यां टीकायां त्रिलोकनीयः, 'इच्छेते  
 समणोवासगा सुक्का सुक्काभिजातीया भविया भवित्ता, कालमासे कालं किञ्चा  
 अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति' इत्येते एवंप्रकाराः उपर्युक्त-  
 रूपाः निर्ग्रन्थसत्काः श्रमणोपासका शुक्लाः—अभिन्नवृत्ताः अमत्सरिणः कृतज्ञाः  
 सदारम्भणो हितानुबन्धकाश्च, शुक्लाभिजात्याः शुक्लप्रधानाः सात्त्विकस्वभावाः  
 भविका भव्याः भूत्वा कालमासे कालं कृत्वा अन्यतरेषु एकतमेषु देवलोकेषु  
 देवतया देवत्वेन उपपत्तारो भवन्ति; देवत्वेनोत्पद्यन्ते इति भावः ॥सू० ३॥  
 देवलोकवक्तव्यता

मूलम्—कइविहाणं भंते ! देवलोगा पणत्ता ? गोयमा !

चउद्विहा देवलोगा पणत्ता; तंजहा—भवणवासि—वाणमंतर—  
 जोइस—वेमाणिया; सेवं भंते सेवं भंते ॥ सू० ४ ॥

दावाग्नि दापनता १३, सरोहृदतडागपरिशोषणता १४, असतिपोषणता  
 १५ । इन सबका अर्थ उपासकदशांगसूत्रकी मेरी की हुई  
 अगारधर्मसंजीवनी टीका में लिखा गया है सो वहां से जानलेना  
 चाहिये । इच्छेते समणोवासगा सुक्का सुक्काभिजातीया भविया भवित्ता  
 कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो  
 भवंति ' इस प्रकारसे ये निर्ग्रन्थ संबंधी श्रमणोपासक अभिन्नवृत्त-  
 अमत्सरी, कृतज्ञ, सदाचारवाले और हितानुबंधक होते हैं, शुक्लप्रधान  
 सात्त्विक स्वभाववाले होते हैं—अतः ये भव्य होकर काल करके किसी  
 एक देवलोक में देवरूपसे उत्पन्न होते हैं ॥ सू० ३ ॥

तहाय परिपोसणया ' (१४) सरोवर, हृद-कुंड अने तणावना पाणी उलेखाववानु काम',  
 'असई पोसणया' (१५) असती पोषणता (दार, शुधाम आदिने उछेरी उछेरीने  
 वेचवानो धंधो) आ अधां पढेनेो अर्थ उपासक दशांगसूत्रनी भारा दरा लभवामां  
 आवेदी अगारधर्मसंजीवनी टीकामा सविस्तर आपेको छे— तो निज्ञासुओअये त्यांथी  
 ते अर्थ वांथी वेवे ' इच्छे ते समणोवासगा सुक्का सुक्काभिजातीया भविया  
 भवित्ता कालमासे कालं किञ्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो  
 भवंति ' आ प्रमाणे ते श्रमणु निर्ग्रन्थना उपासके अलिन्नवृत्त अमत्सरी (निराभिमानी),  
 कृतज्ञ, सदाचारी अने हितानुबधक होय छे तेओ शुक्लप्रधान (पवित्रता युक्त) सात्त्विक  
 स्वभाववाणा होय छे तथी ते लभ्य होवे कारणेो अवसर आवे कारण करीने होय ओके  
 देवलोकेमां देवत्थे उत्पन्न थाय छे ॥ सू० ३ ॥

छाया—कृतिविधाः खलु भवन्त । देवल्लोकाः मङ्गलाः ? गौतम ! पद  
विधा देवल्लोकाः मङ्गलाः, तद्यथा—मवतवासि—धानव्यन्तर—अयोत्रिपिकवैमानिकाः  
तदेष भवन्त । तदेष भवन्त इति ॥ सू० ४ ॥

टीका—इत पूष, 'देवतया उपपचारो भवन्ति' इत्युक्ततया तदधिकारात्  
देवानेष भेदतः प्रतिपादयति—'कश्चिद्वाण मते ! देवल्लोगा पण्णसा ? गौतमः  
पृच्छति—हे भवन्त । कृतिविधा कियत्पकाराः खलु देवल्लोकाः मङ्गलाः ?

देवल्लोकवक्तव्यता—

'कश्चिद्वाणं मते ! देवल्लोगा पण्णसा ?' इत्यादि ।

सूत्रार्थ — ( कश्चिद्वा ण मते ! देवल्लोगा पण्णसा ) हे भवन्त !  
देवल्लोकं कियत्पकारं के कहे गये हैं ? ( गोयमा ! अउन्विहा देवल्लोगा  
पण्णसा ) हे गौतम !—देवल्लोक चार प्रकारके कहे गये हैं (तजहा) जो  
इस प्रकारसे हैं—(मवणवासिवाणमंतर—जोइस—वैमाणिया सेव मते)  
सेव मते ! चि ) मवणवासी धानव्यन्तर, अयोत्रिपिक, और वैमानिक  
हे भवन्त ! जैसा आपने कहा है यह बिलकुल सत्य ही है— हे  
भवन्त ! जैसा आपने कहा है यह बिलकुल सत्य ही है ।

टीकार्थ :- इससे पहले जो ऐसा गया है कि ये किसी एक  
देवल्लोक में देवरूपसे उत्पन्न हो जाते हैं— सो इसी संबंधको लेकर  
यहां सूत्रकारने देवोंके भेदोंका कथन किया है—इसमें गौतमस्यामीने  
प्रश्नसे ऐसा पूछा है कि 'कश्चिद्वाणं मते ! देवल्लोगा पण्णसा'

देवल्लोकादी वक्तव्यता—

'कश्चिद्वाणं मते ! देवल्लोगा पण्णसा ?' इत्यादि—

सूत्रार्थ — ( कश्चिद्वाणं मते ! देवल्लोगा पण्णसा ? ) हे भवन्त ! देवल्लोका  
इत्यादि प्रश्न कथा है । ( गोयमा ! अउन्विहा देवल्लोगा पण्णसा ) हे गौतम !  
देवल्लोका आर प्रश्न कथा है ( तजहा ) न भा प्रमाणे — ( मवणवासी, वाण  
मंतर, जोइस, वैमाणिया ) ( 1 ) मवणवासी ( 2 ) धानव्यन्तर ( 3 ) अयोत्रिपिक  
अने ( 4 ) वैमानिक ( सेव मते ! सेव मते ! चि ) हे भवन्त ! आपने जो  
विषयनं न प्रतिपादन कथुं ते सत्यं है हे भवन्त ! आपनी बात सत्य सत्य है

टीकार्थ :- आगता सूत्रने मते क्वेनु देवमा आपुं उं 'तेजो प्रथं क्वे  
देवल्लोका देवरूपे उत्पन्नं सत्यं उं भा अजने अनुवसिने अर्हा देवता वेदितुं  
प्रतिपादनं सत्यं भा उं उं भा विषयने अनुवसिने गौतम स्वामी भद्रावीर प्रमुने,  
पूछे उं हे 'कश्चिद्वाणं मते ! देवल्लोगा पण्णसा ?' हे भवन्त ! देवल्लोक इत्यादि

भगवानाह—‘गोयमा ! चउव्विहा देवलोगा पणत्ता’ हे गौतम ! चतुर्विधाः खलु देवलोकः प्रज्ञाः उक्ताः, तानेवाह—‘तंजहा—भवणवासि—वाणमंतर—जोइसियेमाणिया’ तद्यथा—भवणवासि—वानव्यन्तर—ज्योतिषिक—वैमानिकाः, तत्र असुरकुमारादयो दश भवनवासिनो देवाः यक्षराक्षसादयो दानव्यन्तरा देवाः, चन्द्रसूर्यादयः पञ्चज्योतिषिका देवाः, सौधर्मेशानादयो द्वादश वैमानिकाः देवास्तत्तल्लोकवासित्वात् तत्तत्पदेन व्यवहियन्ते । अन्ते गौतमो भगवद्वाक्यं स्वीकुर्वन्नाह—‘सेवं भते ! सेवं भंते ! त्ति’ हे भदन्त ! तदेवं भवदुक्तं सत्यमेव, हे भदन्त ! तदेवं भवदुक्तं सर्वं सत्यमेवेत्याशयः ॥ सू० ४ ॥

इति श्री—विश्वविख्यात—जगद्गुरु—प्रसिद्धवाचक—पञ्चदशभाषाकलित—ललित—कलापालापक—प्रविशुद्ध—गद्यपद्यनैकग्रंथनिर्मापक—वादिमानमर्दक—श्री—शाहूच्छत्रपति—कोल्हापुरराज—प्रदत्त “जैनशास्त्राचार्य” पदभूषित—कोल्हापुरराजगुरु—वालब्रह्मचारि—जैनाचार्य—जैन—धर्मदिवाकर—पूज्यश्री—घासीलालव्रतिविरचितायां “श्रीभगवतीसूत्रस्य” “प्रमेयचन्द्रिका”ऽऽख्यायां व्याख्यायां अष्टमशतकस्य पञ्चमोद्देशकः समाप्तः ॥८-५॥

हे भदन्त ! देवलोक कितने प्रकारके कहे गये हैं ? उत्तर में प्रभु कहते हैं । ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘चउव्विहा देवलोगा पणत्ता’ देवलोक चार प्रकारके कहे गये हैं । ‘तंजहा’ जो इस प्रकारसे हैं—‘भवणवासि—वाणमंतर—जोइसिया वेमाणिया’ भवनवासी, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक और वैमानिक इनमें असुरकुमार आदि १० दस प्रकारके भवनवासी देव होते हैं । यक्ष राक्षस आदि आठ ८ प्रकारके व्यन्तर देव होते हैं । चन्द्र सूर्य आदि पांच प्रकारके ज्योतिषिक देव होते हैं और सौधर्म ईशान आदि बारह प्रकारके वैमानिक देव होते हैं ।

प्रकारना कक्षां छे ? उत्तर—‘चउव्विहा देवलोगा पणत्ता—तंजहा ? हे गौतम ! देवलोकना चार प्रकारे छे ते प्रंशे नीचे प्रमाणे छे—‘भवणवासि—वाणमंतर—जोइसिया—वमाणिया’ (१) भवनवासी, (२) वानव्यन्तर, (३) ज्योतिषिक अने (४) वैमानिक असुरकुमार आदि दस प्रकारना भवनवासी देव होय छे यक्ष, राक्षस आदि आठ प्रकारना वानव्यन्तर देवे होय छे चन्द्र, सूर्य, आदि पांच प्रकारना ज्योतिषिक देवे होय छे अने सौधर्म, ईशान आदि बार प्रकारना वैमानिक देवे होय छे. अर्थात्



यहाँ जो सौघर्म ईशान आदिको वैमानिक देव कहा है वह उन २ देवलोकों में निवास करनेके कारण कहा गया है। अर्थात् सौघर्म देवलोक में निवास करनेवाले देवको सौघर्म और ईशान देवलोक में निवास करनेवाले देवको ईशान ऐसा कहा है। अथ अन्त में गौतम भगवान् के शिष्योंको स्वीकार करते हुए कहते हैं कि 'सेव भते ! सव भते सि'—हे भदन्त ! आपके द्वारा जो कहा गया है वह सत्य सत्य ही है यह सत्य ही है। इस प्रकार कह कर वे गौतम यावत् अपने स्थान पर विराजमान हो गये ॥ सू० ४ ॥

जनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'भगवती' सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवें शतकका पंचम उद्देशक समाप्त ८-६



ने सौघर्म देवलोक निवास करनेके कारण कहा गया है, ते कथन ते देवलोकार्थं वक्षन्त्या देवानी अपिमात्रे इत्यादि आशु उ अथ ते ईशान देवलोकार्थं वक्षन्त्या देवा भू 'ईशान अने सौघर्म देवलोक निवासी देवा भू' सौघर्म पदको प्रयोग यथा ॥ अथ स्वामी भगवान् वक्षन्त्या भद्रा वक्षन्त्या इत्यादि ॥ 'सव भते ! सेव भते ! सि' इति अन्त । अपि आ विषयानु ते प्रतिपाल भु उ ते वक्षन्त्या ॥ आ प्रभाते इहीन वक्षन्त्या नम इति इतिने तेभ्यो तेभ्यो स्थाने वक्षन्त्या ॥

देवताचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'भगवती' सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका व्याख्याके आठवें शतकका पंचम उद्देशक समाप्त ॥ ८-५ ॥



## अथ षष्ठोद्देशकः प्रारभ्यते ।

अष्टम शतकस्य षष्ठोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम् ।

संयतश्रमणानां निर्दोषाहारादिकं प्रतिलाभयतः श्रावकस्य किं फल भवति ! एकान्तेन निर्जरा भवति, उद्भिन्नमालोहरादि दोषयुक्तमाहारादिकं प्रतिलाभयतः किं फल भवति ? अत्यधिका निर्जरा किञ्चित् पापकर्मबन्धश्च भवति, असंयतानाम् आहारादिकं प्रतिलाभयतः किं फलं भवति ? एकान्तेन पापकर्म भवति, निर्ग्रन्थस्य पिण्डद्वयग्रहणार्थमुपनिमन्त्रणम्, एवं त्रि चतुः पञ्च षट् सप्ताष्ट नव दश पिण्डानां ग्रहणार्थमुपनिमन्त्रणम्, पात्रद्वयग्रहणार्थं मुपनिमन्त्रणम् यावत् दश पात्र-ग्रहणार्थमुपनिमन्त्रणम् आराधकविराधकवक्तव्यता प्रश्नः,—येषां सविधे आलोचना-

### आठवे शतक का छठा उद्देशक

अष्टम शतकके इस छठे उद्देशका विषय विवरण संक्षेपसे इस प्रकार है— संयत श्रमणोंके लिये निर्दोष आहार आदि देनेवाले श्रावकको क्या फल प्राप्त होता है ? यह प्रश्न, एकान्तसे निर्जरा होनेरूप फल प्राप्त होता है, यह उत्तर ! उद्भिन्नमालोपहत आदि दोषयुक्त आहार आदि देनेवाले श्रावकको क्या फल प्राप्त होता है ? यह प्रश्न निर्जरा तो अत्यधिक होती है, तथा पापकर्मका बंध थोडा सा होता है यह उत्तर । असंयत आदिके लिये है । आहार आदि देनेवाले श्रावकको क्या फल प्राप्त होता है यह प्रश्न, एकान्तसे पापकर्मका बंध होता है— उत्तर । निर्ग्रन्थ के लिये दो पिण्ड ग्रहण करने निमित्त आमंत्रण करना. :इसी प्रकारसे तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दश इन पिण्डोंको ग्रहण करने निमित्त उपनिमंत्रण करना. दो पात्रोंको ग्रहण करने निमित्त उपनिमंत्रण

### आठवां शतकने छठा उद्देशक—

आठवां शतकने छठा उद्देशकने के विषयतुं निम्नलिखित करवाया आठवुं छे, तेने संक्षिप्त साराश नीचे प्रमाणे छे— प्रश्न— ‘संयत श्रमणोंने निर्दोष आहारादि वडोरावनारा श्रावकने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ?’ उत्तर— ‘संयुतः निर्जरा तथा इप इण भणे छे’ प्रश्न.— ‘तेभने अप्राप्तुक, अनेपणीय-दोषयुक्त आहार आदि देनार श्रावकने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ?’ उत्तर— ‘तेभने वधारे प्रमाणे निर्जरा अने अल्प प्रमाणे कर्मने अथ थाय छे.’ प्रश्न— ‘असंयत आदिने आहारादि देनारने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ?’ उत्तर :- ‘संयुतः पापकर्मने अथ थाय छे’ निम्नलिखिते मे पिंड ग्रहण करवा भाटे आमंत्रण, अने प्रमाणे त्रय, चार, पाय, छ, सात, आठ, नव अने दस पिंड ग्रहण करवा भाटेना आमंत्रण कथन मे पात्र ग्रहण करवा भाटेनुं उपनिमंत्रण तथा १० पर्यन्तना पात्रे ग्रहण करवा भाटेना उपनिमंत्रण कथन आराधक विराधकनी

कर्त्तव्या मभेत् ते स्थविराभेत् सूकाः स्युः, आलोचना कर्त्ता निर्ग्रन्थो वा सूक्त  
 स्यात्, ततः पश्चात् स्थविरा वा कालं कुर्युः, निर्ग्रन्थो वा कालं कुर्यात्,  
 समाप्तनिर्ग्रन्थस्य चत्वार आलापकाः, निहारभूमिं विहारभूमिं वा प्रवभतो  
 निर्ग्रन्थस्य, ग्रामानुग्राम विहारतो निर्ग्रन्थस्य वक्तव्यता प्ररूपणम् आराधिका  
 निर्ग्रन्थी, तस्या आराधकत्वकारणप्रदर्शनश्च, अस्ततो दीपकस्य दीपयष्ट्यादि  
 समुदायस्य मध्ये किं ज्वलति, ज्योतिर्ज्वलति अस्ततो गृहस्य तृणकाष्ठ्यादि समुदाय-  
 स्य मध्ये किं ज्वलति? ज्योतिर्ज्वलति, परकीयौदारिकशरीरमाभिस्य जीवस्य  
 कायव्यापारक्रिया, नैरयिकस्य कायक्रिया, असुरकुमाराणां कायक्रिया, एक

करना यायत् १० पाश्चोक्तो ग्रहण करने निमित्त उपनिमंत्रण करना  
 ये सब कथन आराधक विराधककी वक्तव्यता विषयक प्रश्न जिनके  
 पास में आलोचना करनी है वे स्थविर यदि मूक हो जाते हैं अथवा  
 आलोचन कर्त्ता निर्ग्रन्थ मूक हो जाता है— और इसके पश्चात् यदि  
 स्थविर कालगत हो जाते हैं, या निर्ग्रन्थ कालगत हो जाता है तो  
 उस स्थविरके पास समाप्त (पहुंचे हुए) निर्ग्रन्थके चार आलापक  
 होते हैं। निहार भूमि या विहार भूमिको जाते हुए निर्ग्रन्थकी और  
 ग्रामानुग्राम विहारते हुए निर्ग्रन्थकी वक्तव्यताका निरूपण निर्ग्रन्थी  
 में आराधकता का फलन, आराधकता होने में कारणताका प्रदर्शन  
 जलते हुए दीपकता दीपयष्टि आदि समुदायके बीच में क्या जलता  
 है? प्रश्न ज्योति जलति है उत्तर। जलते हुए गृहका तृण काष्ठ आदि  
 समुदायके बीच में क्या जलता है? प्रश्न ज्योति जलती है उत्तर।  
 परकीय औदारिक शरीरको आश्रित करके जीवके कायव्यापार क्रिया  
 होती है। नैरयिक जीवके कायक्रिया होती है। असुर कुमारेके

वक्तव्यता विषयक प्रश्न— जेभनी पास आलोचना करवानी होव ते स्थविर जे मूक  
 (मूका) वध अथ, अथवा आलोचना करनार निग्रन्थ मूक वध अथ, जेनी पास  
 आलोचना करवानी होव ते स्थविर कालगत पाणी अथ, अथवा आलोचना करनार  
 निर्ग्रन्थ कालगत पाणी अथ तो तेने आराधक अथवा डे विराधक अथवा आराधक  
 नीहारभूमि डे विहारभूमि तबत अता निर्ग्रन्थी अने ग्रामानुग्राम विहारता निर्ग्रन्थी  
 वक्तव्यताके निरूपण निर्ग्रन्थीमा आराधकताके अर्थ अने तेना अर्थके प्रमाण जलता  
 दीपकता दीपक तात् तब आदि समुदायमाणी सु अर्थ? उत्तर— ज्योति अर्थ  
 परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने उपनी कायव्यापार क्रिया अर्थ उत्तर अर्थ  
 कायक्रिया अर्थ असुरकुमारेमा कायक्रिया अर्थ अर्थ अर्थ परकीय औदारिक

जीवस्य परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य कायक्रिया, नैरयिकजीवानाम् एकपरकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य कायक्रिया, नैरयिकादीनां कायक्रिया, जीवनाम् औदारिकशरीराण्याश्रित्य कायक्रिया नैरयिकाणां कायक्रिया, जीवस्य वैक्रियशरीरमाश्रित्य कायक्रिया, नैरयिकस्य वैक्रियशरीरमाश्रित्य कायक्रिया, मनुष्यस्य समुच्चयजीववृत्तक्रिया, वैमानिकानां कार्मणशरीरमाश्रित्य क्रिया वक्तव्यताच'.

श्रमणोपासक वक्तव्यता ।

मूलम्— 'समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं सणणंवा माहणंवा फासुएसणिज्जेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ, समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं समणं वा माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असणपाणजाव पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ ? गोयमा !

कायक्रिया होती है । एक जीवके परकीय औदारिक शरीरको आश्रित करके कायक्रिया होती है । नैरयिक जीवोंके एक परकीय औदारिक शरीरको आश्रित करके कायक्रिया होती है । नैरयिक आदि जीवोंके कायक्रिया होती है । जीवोंके औदारिक शरीरों को आश्रित करके कायक्रिया होती है । नारकों के कायक्रिया होती है । एक जीवके वैक्रिय शरीरको आश्रित करके कायक्रिया होती है । मनुष्यके सामान्य जीवकी तरह क्रिया होती है । वैमानिकोंके कार्मण शरीरको आश्रित करके क्रिया होती है— इस प्रकारसे क्रियाके विषय में वक्तव्यताका प्रतिपादन ।

शरीरने आश्रित करीने कायक्रिया थाय छे नारक जेवामां जेक परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने कायक्रिया थाय छे नैरयिक आदि जेवामां कायक्रिया थाय छे जेवामां औदारिक शरीरने आश्रित करीने कायक्रिया थाय छे नारकमा कायक्रिया थाय छे, जेक जेवामां वैक्रिय शरीरने आश्रित कायक्रिया थाय छे मनुष्यमा सामान्य जेवनी जेभ शरीरक्रिया थाय छे वैमानिकमा कार्मणशरीरने आश्रित करीने क्रिया थाय छे आ प्रमाणे क्रिया विषेना वक्तव्यता प्रतिपादन

घट्टतरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतराय से पावे कम्मे कज्जइ, समणोवासगस्स ण भते ! त्हारूव असजयअविरयपडिहय पच्चक्खायपावकम्म फासुएणवा अफासुएणवा एसणि ज्जेणवा, अणेसणिज्जेणवा, असणपाण जाव किं कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ ॥ सू १ ॥

छाया :- भमणोपासकस्य खलु भदन्त ! तथारूपं भमणं वा घ्राक्षणं वा मासुरूपणीयेन अन्नपानस्वादिसंस्वादिभ्यः प्रविष्टामपठः किं क्रियते ? गौतम ! एकान्ततो निर्जरा क्रियते, नास्ति च तस्य पार्यं कर्म क्रियते, भमणोपासकस्य खलु भदन्त ! तथारूपं भमणं वा घ्राक्षणं वा, अमासुकेन

भमणोपासक वक्तव्यता-

‘भमणोवासगस्स णं भते ! त्हारूवं समणं वा’ इत्यादि !

सूत्रार्थ :- (समणोवासगस्स णं भते ! त्हारूवं समणं वा माहणं वा फासुएणमणिज्जेणं असणपाणस्वाइमसाइमेण पडिलामेमाणस्स किं कज्जइ) हे भदन्त ! तथारूपवाले भमण या माहणके लिये मासुरूप एणणीय अन्न, पान, स्वादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले भमणोपासकको क्या फल प्राप्त होता है ? (गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ) हे गौतम ! उस भमणोपासक आषरको एकान्त निर्जरा होनेरूप फल प्राप्त होता है। (नत्थि से पावे कम्मे कज्जइ) पापकर्म उसे नहीं लगता है। (समणोवासगस्स णं भते ! त्हारूवं समणं वा

भमणोपासक वक्तव्यता-

‘समणोवासगस्स णं भते ! त्हारूवं समणं वा’ इत्यादि-

सूत्रार्थ :- (समणोवासगस्स णं भते ! त्हारूवं समणं वा माहणं वा फासुएणमणिज्जेणं असणपाणस्वाइमसाइमेण पडिलामेमाणस्स किं कज्जइ ?) हे भदन्त ! तथारूपं भमणं वा माहणं वा मासुरूपेण अन्न, पान, स्वादिम देनेवाले भमणोपासकको क्या फल प्राप्त होता है ? (गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ) हे गौतम ! उस भमणोपासक आषरको एकान्त निर्जरा होनेरूप फल प्राप्त होता है। (नत्थि से पावे

अनेषणीयेन अशनपान यावत् प्रतिलाभयतः किं क्रियते ? गौतम ! बहुतरिका-  
तस्य निर्जरा क्रियते, अल्पतरकं तत् पापं कर्म क्रियते, श्रमणोपासकस्य खलु  
भदन्त ! तथारूपम् असंयताविरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा प्रासुक्येन वा अप्रासु-  
क्येन वा, एषणीयेन वा, अनेषणीयेन वा, अशनपान यावत् किं क्रियते ? गौतम !  
एकान्ततः तत्पापं कर्म क्रियते, नास्ति ततः काऽपि निर्जरा क्रियते ॥ सू. ९ ॥

माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असणपाणजाव पडिलाभेमाणस्स  
किं कज्जइ ) हे भदन्त ! तथारूपवाले श्रमण वा माहमके लिये  
अप्रासुक अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार  
देनेवाले श्रमणोपासकको क्या फल प्राप्त होता है ? ( गोयमा !  
बहु तरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतरासे पावेकम्मि कज्जइ ) हे गौतम !  
ऐसे श्रमणोपासक श्रावकके कर्मोंकी निर्जरा अधिक होती है—तथा  
बहुत कम पापकर्मका बंध होता है । ( समणोवासगस्स णं भंते !  
तहारुवं असंजय अविरयपडिहयपच्चखायपावे कम्मि फासुएण वा  
अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा असणपाण जाव  
किं कज्जइ ) हे भदन्त ! तथा प्रकारके विरतिरहित अप्रतिहत और  
अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले असगतके लिये प्रासुक अथवा अप्रासुक,  
एषणीय तथा अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार  
देनेवाले श्रावकको क्या फल प्राप्त होता है ? ( गोयमा ! एगंतसो से

कम्मि कज्जइ ) तने पापकर्म लागतुं नथी ( समणोवासगस्स णं भंते ! तहारुवं  
समणं वा माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असणपाण जाव पडिलाभेमाणस्स  
किं कज्जइ ? ) हे भदन्त ! तथाइय श्रमणुं के भाडनने अप्रासुक अने अनेषणीय अशन,  
पान आदि आर प्रकारना आहार वडोरावनार श्रमणोपासकने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ?  
( गोयमा ! बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतरा से पावेकम्मि कज्जइ )  
हे गौतम ! ओवे श्रमणोपासक श्रावक अधिक प्रमाणमां कर्मोंकी निर्जरा करे छे अने  
अल्प प्रमाणमा पापनोपब करे ॥ ( समणोवासगस्स णं भंते ! तहारुवं असंजय  
अविरयपडिहयपच्चखायपावकम्मि फासुएणवा अफासुएणवा एसणिज्जेण वा  
अणेसणिज्जेण वा असण पाण जाव किं कज्जइ ? ) हे भदन्त ! तथाइय विरति-  
रहित, अप्रतिहत अने अप्रत्याख्यात पापकर्मवाणा असंयतने प्रासुक के अप्रासुक,  
एषणीय के अनेषणीय अशन, पान, खादि अने स्वादि इय आर प्रकारना आहार देनार  
श्रावकने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ( गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मि कज्जइ,

घट्टतरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतराय से पावे कम्मे कज्जइ, समणोवासगस्स ण भते ! त्हाकव असजयअविरयपडिहय पच्चक्खवायपावकम्म फासुएणवा अफासुएणवा एसणि ज्जेणवा, अणेसणिज्जेणवा, असणपाण जाव किं कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ ॥ सू १ ॥

छाया :- भ्रमणोपासकस्य सुखं भवन्त ! तथारूपं भ्रमणं वा घ्राणं वा प्रासुएणणीयनं अन्नपानस्वादिमस्थादिमेन प्रतिब्रामयतः किं क्रियते ? गौतम ! एकान्ततो निर्जरा क्रियते, नास्ति च तस्य पापं कर्म क्रियत, भ्रमणोपासकस्य सुखं भवन्त ! तथारूपं भ्रमणं वा घ्राणं वा, भ्रामणकेन

भ्रमणोपासक वक्तव्यता-

‘ भ्रमणोवासगस्स णं भते ! त्हाकवं समणं वा ’ इत्यादि !

सुत्रार्थ :- (समणोवासगस्स णं भते ! त्हाकवं समणं वा माहणं वा फासुएणणीज्जेणं असणपाणस्वाइमसाइमेणं पडिब्रामेमाणस्स किं कज्जइ) हे भवन्त ! तथारूपवाले भ्रमण या माहणके लिये प्रासुएणणीय अन्न, पान, स्वादिम तथा स्वादिम आहार देनेवाले भ्रमणोपासकको क्या फल प्राप्त होता है ? (गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ) हे गौतम ! उस भ्रमणोपासक आसकको एकान्त निर्जरा होनेरूप फल प्राप्त होता है । ( नत्थि से पावे कम्मे कज्जइ ) पापकर्म उसे नहीं लगता है । ( भ्रमणोवासगस्स णं भते ! त्हाकवं समणं वा

भ्रमणोपासक वक्तव्यता-

‘ समणोवासगस्स णं भते ! त्हाकवं समणं वा ’ इत्यादि-

सुत्रार्थ :- (समणोवासगस्स णं भते ! त्हाकवं समणं वा माहणं वा फासुएणणीज्जेणं असणपाणस्वाइमसाइमेणं पडिब्रामेमाणस्स किं कज्जइ ?) हे भवन्त ! तथारूपं भ्रमणं वा माहणं वा प्रासुएणणीयनं अन्न, पान, आद्य आने स्थापय्य पार प्रशान्ता आहार कहेनापनार भ्रमणोपासके क्या इगनी प्राप्ति बाध है ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( एगंतसो निज्जरा कज्जइ ) हे भ्रमणोपासक आसकने अन्नपान ( अन्नं वा ) निज्जरा कया रूप इगनी प्राप्ति बाध है । ( नत्थि य से पावे

अनेषणीयेन अशनपान यावत् प्रतिलाभयतः किं क्रियते ? गौतम ! बहुतरिका-  
तस्य निर्जरा क्रियते, अल्पतरकं तत् पापं कर्म क्रियते, श्रमणोपासकस्य खलु  
भदन्त ! तथारूपम् असंयताविरतप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मा प्रासुक्येन वा अप्रासु-  
क्येन वा, एषणीयेन वा, अनेषणीयेन वा, अशनपान यावत् किं क्रियते ? गौतम !  
एकान्ततः तत्पापं कर्म क्रियते, नास्ति ततः काऽपि निर्जरा क्रियते ॥सू. ९॥

साहण वा अफासुएणं अणेसणिज्जेण असणपाणजाव पडिलाभेमाणस्स  
किं कज्जइ ) हे भदन्त ! तथारूपवाले श्रमण वा साहणके लिये  
अप्रासुक अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार  
देनेवाले श्रमणोपासकको क्या फल प्राप्त होना है ? ( गोयमा !  
बहु तरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतरासे पावेकम्मे कज्जइ ) हे गौतम !  
ऐसे श्रमणोपासक श्रावकके कर्मोंकी निर्जरा अधिक होती है—तथा  
बहुत कम पापकर्मका बंध होता है । ( समणोवासगस्स णं भंते !  
तहारूवं असंजय अविरयपडिहयपच्चखायपावे कम्मे फासुएण वा  
अफासुएण वा एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा असणपाण जाव  
किं कज्जइ ) हे भदन्त ! तथा प्रकारके विरतिरहित अप्रतिहत और  
अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले असयतके लिये प्रासुक अथवा अप्रासुक,  
एषणीय तथा अनेषणीय अशन, पान, खादिम तथा स्वादिम आहार  
देनेवाले श्रावकको क्या फल प्राप्त होता है ? (गोयमा ! एगंतसो से

कम्मे कज्जइ ) तने पापकर्म लागतु नथी (समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं  
समणं वा साहणं वा अफासुएण अणेसणिज्जेणं अमणपाण जाव पडिलाभेमाणस्स  
किं कज्जइ ? ) हे भदन्त ! तथाइय श्रमणु के भाडनने अप्रासुक अने अनेषणीय अशन,  
पान आदि चार प्रकारना आहार वडोरावनार श्रमणोपासकने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ?  
( गोयमा ! बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ, अप्पतरा से पावेकम्मे कज्जइ )  
हे गौतम ! अवे श्रमणोपासक श्रावक अधिक प्रमाणमां कर्मोंकी निर्जरा करे छे अने  
अल्प प्रमाणमा पापनेअप्य करे छे ( समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं असंजय  
अविरयपडिहयपच्चखायपावकम्म फासुएणवा अफासुएणवा एसणिज्जेण वा  
अणेसणिज्जेण वा असण पाण जाव किं कज्जइ ? ) हे भदन्त ! तथाइय विरति-  
रहित, अप्रतिहत अने अप्रत्याख्यात पापकर्मवाणा असंयतने प्रासुक के अप्रासुक,  
अनेषणीय के अनेषणीय अशन, पान, खादिम अने स्वादिम इय चार प्रकारना आहार देनार  
श्रावकने क्या इणनी प्राप्ति थाय छे ( गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ,



खलु धमणोपासकस्य पापकर्मपेक्षया बहुतरिका 'से' तस्य निर्जरा क्रियते, भवति? 'अप्यतरायसे पावे कस्मै कज्जइ' हे गौतम! तस्य अमासुकेन अनेपणीयेन अश्रुनादिना प्रतिष्ठाभयस्य धमणोपासकस्य निर्मरापेक्षयाऽल्पम् अल्पतरकं पापं कर्म क्रियते, भवति,

अयमाशयः—स्नानाद्यवस्थायां गुणशालिने प्रायः अमासुकादि द्रव्यदाने चारित्र्यकायोपप्लव्णो जीवघातो व्यवहारस्तथाचरित्रवाचाय भवन्ति, तत्र च चारित्र्यकायोपप्लव्णमात् निर्जरा जीवघातादेव पापकर्म भवति, सप्रच स्वहेतुमामर्ष्यात् पापापेक्षया बहुतरा निर्जरा, निर्जरापेक्षया चाल्पतरं पापं भवति। अत्रेय विचारणा सूत्रस्य प्रथमांशे तयारूपधमणाय प्रासुकाहारं ददत्त आशयस्य पापं न भवति किन्तु महतीकर्मनिर्मरा भवतीति मगरता।

आहारसे धमण अपघा माह्वनको देनेवाले धमणोपासकके पापकर्म की अपेक्षा बहुत अधिक निर्जरा होती है। तथा 'अप्यतराय से पावे कस्मै कज्जइ' पापकर्म निर्जराकी अपेक्षा उसे अल्प लगता है। तात्पर्य कहनेका यह है—स्नान आदि अवस्थामें गुणशाली पात्रके सिधे अमासुक-माछोहड छड्डियलिसादि दोषयुक्त द्रव्यके दान करने पर पात्रके चारित्र्यकायकी वृद्धि होती है या उसका स्थिरीकरण होता है इससे निर्भंग होती है। परंतु अमासुक द्रव्यके दानसे व्यवहारमें जीवघात होता है इसलिये चारित्र्यमें घावा आती है अतः पापकर्म का घप जाता है। इस कारण अपने हेतुओं के सामर्थ्यसे पापकी अपेक्षा बहुत निर्जरा होती है और निर्जराकी अपेक्षा अल्पतर पाप होता है। इस सूत्रके प्रथम अंशमें तयारूपके धमणको प्रासुक आहार देनेवाले आयकको पाप नहीं होता है किन्तु एकान्त कर्म

हे गौतम! उत्तम कर्मों के दानसे ते प्रभारने। अन्तः परदेरापनार अथः नेरता पापकर्मना अथः अने उ तेनाथी अधिः निर्जरा हेरे उ। तथा 'अप्यतराय से पावे कस्मै कज्जइ' तेने निररा इरता पाप अल्प बाये उ आ अवननुं तारयन अने उ हे व्रतान आदि अवस्थामें गुणशाली पात्रने अमासुक [मासुका छड्डियलिसादि दोषयुक्त] द्रव्यनुं दान करवायी पात्रना आचिरकालकी वृद्धि बाय उ अथवा स्थिरीकरण बाय उ तेषी निररा बाय उ अथ अमासुक द्रव्यना दानयी अथघात कर उ तेषी चारित्र्यमें आघा आवे उ अने दानना प पात्रने अथः हेरे उ आ इरवे तेना हेतुअनेना सामर्थ्ययी पाप इरता निर्जरा अधिः बाय उ अने निररा इरता पाप अल्प बाय उ आ अन्तः परदेरा चारित्र्यमें तीव्र अथवाने अने प्रतिपादन अथः उ हे तयार अथकने प्रासुक अन्तः

तीर्थकरणे प्रतिपादितम्, सूत्रस्य द्वितीयांशे तथारूपश्रमणाय अप्रासुकमाहारं ददतः स्वरूपं पापं बहुकर्मनिर्जरा भवतीत्यपि कथितम्- तत्र प्रासुकत्वं दोषरहितसचित्तभिन्नत्वम् अप्रासुकत्वम् दोषरहितअचित्तभिन्नत्वम् अतएव मालाव्यवतारित तत्काललिप्तभूमिस्थितसंघटादिदोषयुक्तभक्षणादिकं न तु आशार्कर्मिकौदेशिकमुद्गमादिदोषरहितं ददतः पुरुषस्य स्वरूपं पापं महानिर्जरा भवतीति प्रतिपादितम् । अचित्तमात्रस्य प्राशुकत्वकथने तत्काल लिप्तभूम्यादि स्थितसंघटादिदोषयुक्तपुरुषादिदत्तान्नपानादेः प्रतिषेधो न स्यात् तस्य स्वरूपतः अचित्तत्वात् । तृतीयांशे-तथारूपासंयताय अविरताय अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मकाय हिंसकाय प्राणातिपातमृपात्रादाद्युपदेशकाय अक्षनादिकं ददतः पुरुषस्य चैकान्तं पापं भवति । नतु कर्मनिर्जरेति । गौतमः पृच्छति- समणोवासगस्स णं भते ! तहारूवं असंजयअविरयपडिहयपच्चक्खाय

निर्जरा होती है ऐसा भगवान तीर्थकरणे कहा है तथा कारणवश अप्रासुक आहार देनेवाले श्रावकको अल्पपाप और अधिक कर्मनिर्जरा होती है ऐसा इसी सूत्रके द्वितीय अंशसे कहा है । उसमें प्रासुक शब्दका अर्थ है दोषरहित सचित्तभिन्न और अप्रासुक शब्दका अर्थ है दोषरहित अचित्तभिन्न अतएव मालासे उतारा हुआ तत्काललिप्त भूमिस्थित संघटादिदोषयुक्त पुरुषसे दिया हुआ अचित्तभक्तपान देनेमें साधुको पाप होता है ऐसा शास्त्रमें कहा गया है अचित्तमात्रको प्रासुक यदि कहें तब लिप्तभूमिस्थित संघटादि दोषयुक्त पुरुषसे दिया हुआ अन्नपानका निराकरण नहीं होगा, क्योंकि मालाव्यवतारित भक्तपान यों तो अचित्त है ही । अब गौतमस्वामी प्रभुसे पूछते

पाष्णीं वडोरावनार श्रावकने पाप लागतुं नथी पण्य तेना कर्मनी अकान्ततः निर्जरा न याय छे अने आ सूत्रना थील्ल भागमां ओतु प्रतिपादन करवामा आण्यु छे के श्रमणोने कारणवश अप्रासुक आहार देनार श्रावकने अथ्य प्रमाण्यमा-पाप लागे छे अने तेना कर्मोनी अधिक प्रमाण्यमा निर्जरा याय छे । तेमां प्रासुक अटले दोषरहित, सचित्तभिन्न अने अप्रासुक अटले दोषयुक्त अचित्तभिन्न, ओवा अर्थ समंजवां, तेथीं काण उपरथी उतारेवा तत्काललिप्त भूमिस्थित संघटादिदोषयुक्त पुरुष द्वारा अपायेला अचित्त आहार पाष्णी देवाथी साधुने पाप लागे छे ओतुं शास्त्रमां कहुं छे अचित्तने न ओ प्रासुक कहेवामा आवे तो लिप्तभूमिस्थित तथा संघटादिदोष युक्त पुरुष वडे अपायेला आहार पाष्णीनु निराकरण थये नहीं, कारणके मालाव्यवतारित भक्तपान आहार पाष्णी आभ तो अचित्त न होय छे ।

पञ्चमोद्देशके भ्रमणोपासकस्य प्ररूपणं कृतम्, अथ षष्ठोद्देशकेऽपि भ्रमणो-  
पासकमेव विशेषरूपेण प्ररूपयितुमाह- 'समणोवासगस्स णं भंते !' इत्यादि ।

टीका- 'समणोवासगस्स णं भंते ! तद्धारुव समण वा, माहण वा, फासुप-  
सणिज्जे ण असणपाणखाइमसाइमेण पडिलामेमाणस्स किं कज्जइ ?  
गौतमः पृच्छति- हे मदन्त ? भ्रमणोपासकस्य खल्वे तथा रूपं- तथा तत्प्रकारं  
एव स्वभावो नेपथ्यं = घृतपाण्डपट्टकरजोहरणयतनार्थपदसदोरकमुखवस्त्रिक-  
मुखरूपं यस्य स तथाभूतः, तं तथा भ्रमण वा, माहन इति उपदेशकं  
माहन वा, प्रासुकैपणीयेन तत्र- प्रासुकम् अथितम्, एपणीयम् आधाकर्मोदि  
दोपरहित तेन, अन्नपानन्वादिमस्वादिमेन प्रतिलामयतः सत्कृतः किं क्रियते ?

पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ ) हे गौतम ! ऐसे  
आवकके एकान्ततः पापकर्मका बंध होता है- निर्जरा गेडीमी भी  
नहीं होती है ।

टीकार्थ :- पाँचवें उद्देशक में भ्रमणोपासककी प्ररूपणाकी  
गई है । अब सूत्रकार इस छठे उद्देशक में भी उसी भ्रमणोपासक  
आवक की विशेषरूपसे प्ररूपणा कर रहे हैं- इस में गौतम ने प्रसुसे  
ऐसा पूछा है 'समणोवासगस्स णं भंते ! तद्धारुव समण वा माहण  
वा फासुपसणिज्जेण असणपाणखाइमसाइमेण पडिलामेमाणस्स किं  
कज्जइ' तत्प्रकार रूप स्वभाववाले - बोलपट्टकवाले रजोहरणवाले  
यतनार्थ पदसदोरकमुखवस्त्रिकावाले-भ्रमण के लिये तथा  
'मत मारो-इस प्रकारका उपदेश देनेवाले माहनके लिये प्रासुक-  
अथित, एपणीय-आधाकर्म आदि दोपसे रहित अन्न, पान, स्वादिम  
और स्वादिम इन चार प्रकारक आहार देनेवाले अर्थात्-इस चार

नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ ) हे गौतम ! केवे आवक केअन्तत्त [सिधवा]  
पापभने अंधे हरे ७- निरुद्ध निरुद्धा करते नहीं.

टीकार्थ - पाचवां उद्देशकां भ्रमणोपासकनी प्ररूपणं करवावां जावी छे हरे  
सुनार वा छे। उद्देशकां पव भ्रमणोपासक आचरणी विशेष प्ररूपणु हरे ७- गौतम  
स्वामी भक्तपीर प्रभुने केवे प्रभ पूछ ७ ३- 'समणोवासगस्स णं भंते ! तद्धारुव  
समण वा माहण वा फासुपसणिज्जेण असणपाणखाइमसाइमेण पडिलामेमाणस्स  
किं कज्जइ ?' तथा इय [आवपट्टक मुखवस्त्रिका, अने अदोरकमुदपतिवावा] अचरुने  
तथा भावने [मा कवे, मा कवे] केवे उपदेश देनाथ ] प्रसुक [अथित], केपणीय  
[आधाकर्म आदि दोपसे रहित] अन्न, पान, अथ अने, स्वादिम चार प्रकारका  
आहार पडिलामेमाणस्स करवने कसु देण भजे ७ ।

किं फलं भवति, ? भगवानाह 'गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ' हे गौतम ? उपर्युक्तस्य तस्य श्रमणोपासकस्य एकान्ततः सर्वथा निर्जरा क्रियते भवति, 'नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ' नास्ति चैतत् तस्य पापं कर्म क्रियते भवति. अप्रासुकदान इवेत्याशयः, गौतमः पृच्छति— 'समणोवासगस्स णं भंते ! तहारुवं समणं वा, माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असणपाणजाव पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ ? हे भदन्त ! श्रमणोपासकस्य खलु तथारूपम् उत्तमं श्रमणं वा, माहनं वा, अप्रासुकेन मालोहड छंडियलिप्तादि दोषयुक्तेन न तु सच्चित्तेन, अनेवणीयेन—सदोषेण, अशन—पानं यावत् खादिमस्वादिमेन प्रतिलाभयतः प्रतिलाभं विदधतः किं क्रियते ? किं फलं भवति, लगति ? भगवानाह 'गोयमा ! बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ' हे गौतम ! प्रतिलाभयतः

प्रकारके आहार देनेवाले—श्रावकके क्या फल प्राप्त होता है ? इसके उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगंतसो निज्जरा कज्जइ' उस ऐसे श्रमणोपासकके एकान्ततः सर्वथा निर्जरा होती है । 'नत्थि य से पावे कम्मे कज्जइ' पापकर्म उसे नहीं लगता है । क्योंकि ऐसा दान निर्दोष है । अब गौतम प्रभुसे पूछते हैं—'समणोवासगस्स णं भंते ! तहारुवं समणं वा, माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असणपाणजाव पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ' हे भदन्त ! श्रमणोपासक श्रावक तथारूप—उत्तम श्रमणके लिये या माहनके लिये छड्डिय लिप्तादि दोषयुक्त आशनपान खादिम स्वादिम आहारसे सत्कृत करता है तो उसे क्या फल होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा ! बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ' चारों प्रकारके

उत्तर.— 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगंतसो निज्जरा कज्जइ' जेवो श्रमणो-  
पासक श्रावक एकान्ततः— [संपूर्णतः] निर्जरा करे छे 'नत्थि य से पावे कम्मे  
कज्जइ' तेने पापकर्म लागतु नथी, कारणके जेवुं दान निर्दोष होय छे

हेवे गौतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे ? 'समणोवासगस्स णं  
भंते ! तहारुवं समणं वा, माहणं वा अफासुएणं अणेसणिज्जेणं असणपाण  
जाव पडिलाभेमाणस्स किं कज्जइ ?' हे भदन्त ! तथार्थ—उत्तम श्रमण अथवा  
माहनने भावीछे छड्डिय लिप्तादि दोष युक्त अप्रासुक, अनेपक्षीय अशन, पान, भाव  
अने स्वाध, जे शिर प्रकारना आहार वडोरावनार श्रावणोपासक श्रावकने क्या इणनी  
प्राप्त होय छे ?

महावीर प्रभु कहे छे— 'गोयमा' बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ'



तीर्थ करेण प्रतिपादितम्, सूत्रस्य द्वितीयांशे तथारूपश्रमणाय अप्रासुकमाहारं ददतः स्वल्पं पापं बहुकर्मनिर्जरा भवतीत्यपि कथितम्- तत्र प्रासुकत्वं दोषरहितसचित्तभिन्नत्वम् अप्रासुकत्वम् दोषसहितअचित्तभिन्नत्वम् अतएव मालाघवतारित तत्काललिप्तभूमिस्थितसंघटादिदोषयुक्तमशनादिकं न तु आधाकर्मिकौदेशिकमुद्गमादिदोषसहितं ददतः पुरुषस्य स्वल्पं पापं महानिर्जरा भवतीति प्रतिपादितम् । अचित्तमात्रस्य प्राशुकत्वकथने तत्काल लिप्तभूम्यादि स्थितसंघटादिदोषयुक्तपुरुषादिदत्तान्नपानादेः प्रतिषेधो न स्यात् तस्य स्वरूपतः अचित्तत्वात् । तृतीयांशे-तथारूपासंयताय अविस्ताय अप्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्मकाय हिंसकाय प्राणातिपातमृषावादाद्युपदेशकाय अशनादिकं ददतः पुरुषस्य चैकान्तं पापं भवति । नतु कर्मनिर्जरेति । गौतमः पृच्छति- समणोवासगस्म णं भते ! तद्वारुवं असंजयभद्रियपडिह्यपच्चकखाय

निर्जरा होती है ऐसा भगवान तीर्थकरने कहा है तथा कारणवश अप्रासुक आहार देनेवाले श्रावकको अल्पपाप और अधिक कर्मनिर्जरा होती है ऐसा इसी सूत्रके द्वितीय अंशसे कहा है । उसमें प्रासुक शब्दका अर्थ है दोषरहित सचित्तभिन्न और अप्रासुक शब्दका अर्थ है दोषसहित अचित्तभिन्न अतएव मालासे उतारा हुआ तत्काललिप्त भूमिस्थित संघटादिदोषयुक्त पुरुषसे दिया हुआ अचित्तभक्तपान देनेमें साधुको पाप होता है ऐसा शास्त्रमें कहा गया है अचित्तमात्रको प्रासुक यदि कहें तब लिप्तभूमिस्थित संघटादि दोषयुक्त पुरुषसे दिया हुआ अन्नपानका निराकरण नहीं होगा, क्योंकि मालाघवतारित भक्तपान यों तो अचित्त है ही । अब गौतमस्वामी प्रभुसे पूछते

पाणी वडोरावनार श्रावकने पाप लागतुं नथी पणु तेना कर्मनी अेकान्ततः निर्जरा अ थाय छे अने आ सूत्रना भील लागमा अेषु प्रतिपादन करवामा आन्थुं छे दे श्रमणाने कारणवश अप्रासुक आहार देनार श्रावकने अथ्य प्रमाणुमा पाप लागे छे अने तेना कर्मनी अधिक प्रमाणुमा निर्जरा थाय छे । तेमां प्रासुक अेटवे दोषरहित, सचित्तभिन्न अने अप्रासुक अेटवे दोषयुक्त अचित्तभिन्न, अेवा अर्थ समजवो, तेथी काण उपरथी उतारेवा तत्काललिप्त भूमिस्थित संघटादिदोषयुक्त पुरुषे द्वारा अपायेवा अचित्त आहार पाणी देवाथी साधुने पाप लागे छे अेषु शास्त्रमां कहुं छे, अचित्तने अे जे प्रासुक कहेवामा आवे तो लिप्तभूमिस्थित तथा संघटादिदोष युक्त पुरुष वडे अपायेवा आहार पाणीतु निराकरण यथे नही, कारणके मालाघवतारित भक्त पान [आहार पाणी] आम तो अचित्त अे होय छे ।

पापकर्म फासुएणवा, अफासुएणवा, एसणिज्जेणवा, अणेसणिज्जेणवा असणपाण-  
जाव किं कज्जइ ?' हे भदन्त ! भमणोपासकस्ये गृह्य तयारूपं सर्वभेदम्  
अमयताधिरतप्रसिद्धप्रत्याख्यातपापकर्मणाम् हिमाशुपदेशकच अगुणन्त पापविशेषम्  
प्रासुक्येन अचित्तेन वा, अमासुक्येन सचित्तेन एषणीयन निर्दोषेणवा अनेषणीयेन  
वा सदोषेण वा, अशनानयावत् खादिमस्वादिमन प्रतिहामपतः किं  
क्रियते ? भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! एगतसो से पाव कम्मे कज्जइ, नत्थि  
से काइ निज्जरा कज्जइ' हे गौतम ! अगुणन्त पापविशेष प्रासुकाप्रासुक्येन  
एषणीयानेषणीयेन च अन्ननादिना प्रतिहामपतः अमयापासकस्य एकान्ततः  
एकान्तेन तत् पापं कर्म क्रियते भवति, नास्ति सा कापि काचिदपि निर्जरा  
क्रियते, भवति, एवञ्च प्रासुकाप्रासुकादेवानस्य पापकर्मफलत्व निर्णयाया

है-समणोवासगस्सण मते ! तद्वास्त्वं अमजय अधिरयपडिइय  
पञ्चकस्वायपावकम्म फासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण वा  
अणेसणिज्जेण वा असणपाण जाव किं कज्जइ' हे भदन्त ! अम  
णोपासक-भाषकको जो हि तथाप्रकारके धिरति रहित अप्रतिहत  
और अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले असयतके लिये-साधु गुण वर्जित  
के लिये प्रासुक अथवा अमासुक, एषणीय तथा अनेषणीय अशन,  
पान, खादिम और स्वादिम वस्तुओंको आहारमें लेता है तोक्या फल  
प्राप्त होता है ? उसरमें प्रश्न कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगतसो  
से पावे कम्मे कज्जइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ' अगुणन्त पाप  
विशेषके लिये प्रासुक अमासुक, एषणीय, अनेषणीय अशन, पान  
आदि वनेवाले अमणोपासक-भाषकको एकान्ततः-सर्वथा पापकर्म  
लगाता है-इस स्थितिमें उसके बोधी की मी निर्भरा नहीं होती है ।

गौतम स्वामीना अह- 'समणोपासगस्स ण मते ! तद्वास्त्वं अमजय  
अधिरयपडिइयपञ्चकस्वायपावकम्म फासुएण वा अफासुएण वा एसणिज्जेण  
वा अणेसणिज्जेण वा असणपाण जाव किं कज्जइ ?' हे भदन्त ! तद्वास्त्वं  
विरतिरहित, अप्रतिहत अने अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले असयतने [साधु गुण वर्जितने]  
प्रासुक अमासुक अनेषणीय अनेषणीय अशन, पान, खादिम अने स्वादिम वस्तुओंको  
आहारमें लेता है अथवा ?

भगवाणर प्रश्नो उत्तर- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'एगतसो से पावेकम्मे  
कज्जइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्जइ' अथवा अथाने प्रासुक अमासुक, अनेषणीय  
अनेषणीय अशन पान आदि आहारगुण अन्तर भाषने अनेषणीय [सपका]  
पापकर्म के लिये अथवा परिस्थितिमें अथवा अधोनि निज्जरे निर्भरा गती तथा अथवा

अभावश्च प्रतिपादितो भवति, असंयमोपष्टम्भस्य उभयत्रापि तुल्यत्वात्, एतावां नत्रविशेषः करुणाबुद्ध्या यत्र कुत्रापि ददतः पापकर्म न भवतीति । न च प्रासुकदौ जीव प्राणातिपातभावेन अप्रासुकदौ च जीवप्राणातिपातसद्भावेन विशेषस्य स्फुटत्वात् कथमुभयोस्तुल्यत्वमत्रोक्तमिति वाच्यम् पापकर्मणः निर्जराया

इस तरह प्रासुक अप्रासुक द्रव्यके दानका फल पापकर्म है तथा निर्जराका अभाव है । क्योंकि दोनोंसे ही असंयम अवस्थाके पुष्टि मिलती है । इसलिये दोनोंमें समानता है । यहां पर यदि ऐसी आशंका की जाय कि प्रासुक आदि आहारमें जीवके प्राणातिपातका अभाव है और अप्रासुक आदि आहारमें जीवके प्राणातिपातका सद्भाव है इस अपेक्षा दोनोंमें भेद तो है ही-फिर आप दोनोंमें समानता कैसे कहते हैं-इसका उत्तर ऐसा है कि पापकर्मकी निर्जरा का अभाव अगुणवन्तमें दोनोंसे नहीं होता है - ऐसी ही विवक्षा प्रकृतमें हुई है सो इसी विवक्षाको लेकर दोनोंमें समानता कही गई है । तात्पर्य कहनेका यह है कि जो अगुणवन्त ( असंयत ) जाव है उसके लिये चाहे प्रासुक आदि विशेषणवाला आहार दिया जावे चाहे अप्रासुक आदि विशेषणवाला आहार दिया जावे उससे उसके असंयमजन्य पापकर्मकी निर्जरामें कोई विशेषता नहीं आती है । असंयमी जीवोंको जो आहार दिया जाता है वह गुरुबुद्धि या धर्मबुद्धि से समझकर नहीं दिया जाता है । किन्तु अनुकंपासे दिया जाता है ।

रीते असंयतने प्रासुक, अप्रासुक द्रव्योनु दान करवायी पापकर्म आधवा इय इण भजे छ तथा पापकर्मनी निर्जरा तो यतीव नथी. कारणुके ते अन्ने द्वारा असंयम अवस्थाने व पुष्टि भजे छे तेथी ते अन्नेने समान व गण्या छे अर्द्धो डोष येवी शका करे छे प्रासुक आदि आधारमां ज्वना प्राणातिपातने अलाव होय छे, पणु अप्रासुक आदि आधारमां ज्वना प्राणातिपातने सद्भाव होय छे, छर्ता ये अन्नेने समान क्वां रीते भोनी शंकाय ? तेनु समाधान आ प्रमाणे करी शंकाय- पापकर्मनी निर्जराना अलाव अशुभवन्तमां [ असंयतमां ] ते अन्ने वडे थतो नथी, अणुं व प्रतिपादन अर्द्धो करवामो अविद्युं छे अने तेने अनुलक्षीने अर्द्धो अन्नेमां समानता जतावी छे अणुं कथनने लोवायं ये छे के असंयत ज्वने प्रासुकआधार भजे छे अप्रासुक आधार भजे- लवे गमे ते प्रकारना आधारनु दान करवामां आवे पणु तेना द्वारा तेना असंयमजन्य पापकर्मनी निर्जरा यती नथी असंयमी ज्वनेने व आधार देवामां आवे- छे ते पोताना शुरु भांनीने अथवा धर्मबुद्धिथी समज्जपूर्वक, अपातो नथी, पणु अनुकंपाने लीधे



पापकर्म फासुएणवा, अफासुएणवा, एसणिञ्जेणवा, अणेसणिञ्जेणवा असणपाण जाव किं कज्झइ ?' हे भवन्त ! भ्रमणोपासकस्य खलु तथास्य सर्वभेषुम् असयताचिरतमसिंहतमत्यास्स्यात्पापकर्मणाम् हिमाद्युपदेशकंच अगुणवन्त पापविशेषम् प्राप्तुकेन अचिन्तेन वा, अमासुकेन सचिन्तेन एषणीयन निर्दोषेणवा अनेपणीयेन वा सदोषेण वा, अन्नन नपायत् खादिमस्वादिमन प्रतिहामयतः किं क्रियते ? भवति ? भगवानाह- 'गोयमा ! एगंतसो से पावे, कम्मे कज्झइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्झइ' हे गौतम ! अगुणवन्त पापविशेष प्राप्तुकाप्राप्तुकेन एषणीयानेपणीयेन च अन्ननादिना प्रतिहामयतः भ्रमणोपासकस्य एकान्ततः एकान्तेन वत् पापं कर्म क्रियते भवति, नास्ति सा कापि काचिदपि निर्नरा क्रियते, भवति, एवम् प्राप्तुकाप्राप्तुकादेदानस्य पापकर्मफलं निर्भरापा

हैं-समणोवासगस्सव मते ! तद्द्वारा असंजय अविरयपडिहय पक्खप्खायपावकम्म फासुएण वा अफासुएण वा एसणिञ्जेण वा अणेसणिञ्जेण वा असणपाण जाव किं कज्झइ ?' हे भवन्त ! भ्रमणोपासक-भावकको जो कि तथाप्रकारके चिरति रहित भ्रमतिहत और अप्रत्यास्यात् पापकर्मवाले असंयतके लिये-साधु गुण बजित के लिये प्राप्तुक अथवा अमासुक, एषणीय तथा अनेषणीय अशन, पान, स्वादिम और स्वादिम वस्तुओंको आहारमें देता है तोक्या फल प्राप्त होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'एगंतसो से पावे कम्मे कज्झइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्झइ' भ्रमणवन्त पापविशेषके लिये प्राप्तुक अमासुक, एषणीय, अनेपणीय अशन, पान आदि देनेवाले भ्रमणोपासक-भावकको एकान्ततः-सर्वथा पापकर्म लगता है-इस स्थितिमें उसके थोड़ी सी भी निर्भरा नहीं होती है।

श्लोक २७- 'समणोवासगस्स व भन्ते ! तद्द्वारा असंजय अविरयपडिहयपक्खप्खायपावकम्म फासुएण वा अफासुएण वा एसणिञ्जेण वा अणेसणिञ्जेण वा असणपाण जाव किं कज्झइ ?' हे भवन्त ! तद्द्वारा चिरतिरहित, भ्रमतिरहित अने अप्रत्यास्यात् पापकर्मवाला जिस यत्ने [साधु गुण बजितके] प्राप्तुके अमासुके, अनेपणीयके अनेपणीय, अशन पान] जाव अने स्वादि वस्तुओंके आहारमें देताहने हेतु हेतु भवे ?

भगवान् प्रभुने उत्तर- 'गोयमा !' हे भोक्तव्य ! 'एगंतसो से पावेकम्मे कज्झइ, नत्थि से काइ निज्जरा कज्झइ' जेवा अथाने प्राप्तुक, अमासुके अनेपणीय अनेपणीय अशन पान आदि आहारमुदाशन करनार आचने जेक-वत्तु [सवथा] पापकर्म व आवे ? आ परिस्थितिमा देव थापेनी निज्जुबं निज्जइ जती नथी आ

निग्रन्थदानधर्मवक्तव्यता-

मूलम् - ' निग्गंथं च णं गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए  
अणुप्पविट्ठ केइं दोहिं पिंडेहिं उवनिमंतेज्जा-एगं आउसो !  
अप्पणा भुंजाहि, एगं थेराणं दलयाहि, से य तं पिण्डं  
पडिग्गहेज्जा थेराय से अणुगवेसियवा सिया, जत्थेव अणु-  
गवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेवाणुप्पदायव्वे सिया, नो  
चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुंजेज्जा,  
नो अन्नेसिं दावए, एगंते अणावाए अच्चित्ते बहुफासुए थंडिल्ले  
पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिट्ठावेयव्वे सिया, निग्गंथं च णं गाहावइकुलं  
पिंडवायपडियाए अणुप्पविट्ठं केइ तिहिं पिंडेहिं उवनिमंतेज्जा-  
एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, दो थेराणं दलयाहि,  
से य ते पडिग्गहेज्जा थेरायसे अणुगवेसेयवा सेसं तं चेव जाव  
परिट्ठावेयव्वे सिया, एवं जाव दसहिं पिंडेहिं उवनिमंतेज्जा,  
नवरं एगं आउसो ? अप्पणा भुंजाहि, नव थेराणं दलयाहि,  
सेसं तं चेव जाव परिट्ठावेयव्वे सिया, निग्गंथं च णं गाहावइ जाव  
केइं दोहिं पडिग्गहेहिं उवनिमंतेज्जा एगं आउसो ! अप्पणा

( अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिये जो दान है उस दान के लिये यह विधि कहा गया है । अनुकम्पासे दान के लिये नहीं किन्तु जिनेश्वर भगवानने अनुकम्पा से दान देनेका निषेध कभी नहीं किया है । अनुकम्पा से दान देना चाहिए ॥ सू० १ ॥

मोक्ष प्राप्तिने भाटे ले दान छे ते दाननु अही स्वइय पताण्यु छे अही अनुक पाथी करयेवा दाननी वात करवामां आथी नथी परं तु जिनेश्वर भगवाने अनुक पाथी दान देवाने निषेध कही कर्यो नथी तथी अनुक पाथी दान देवुं लेषमे ॥ सू १ ॥

अमापस्यैव प्रकृते विषसितस्त्वेन तादृशविशेषम्यागाविषसितत्वात् । अप्र प  
मोक्षार्थं यद्दानं तस्यैव प्रकृपणं कृतम्, उक्तम्—

‘मोक्षस्तस्य जं दानं तं पश्यसो विही समकलाभो ।

अणुकपा दानं पुण जिणेहिं न कपाइ पडिसिदम् ॥ १० ॥ १ ॥

ऐसे आहारकी यहाँ विषयता नहीं की गई है । यहाँ तो ऐसे ही आहार  
की विषयता हुई है जो कर्मनिर्जराका हेतु होता है । और कर्मनिर्जरा  
का हेतु यही आहार होगा जो सुपात्रोंको दिया जायगा । सुपात्र  
ही है जो मोक्षमार्ग में चल रहे हैं मासमार्गमें स्थित सुपात्रोंके लिये  
दिया गया आहार दाता के कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है ।  
कर्मों की निर्जरा होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है । इसीलिये ‘मोक्षा-  
र्थं यद्दानं तस्यैव प्रकृपणं कृतम् अनुकपादानादेस्तु प्रकृपणं न कृतम्’  
यहाँ पर टीकाकार ने ऐसा कहा है कि मोक्ष के लिये—मोक्षप्राप्ति  
के लिये जो दान है उसीकी प्रकृपणा की है । अनुकपादान भावि  
की प्रकृपणा नहीं की है । मोक्षप्राप्ति के लिये वह इसलिये नहीं  
होता है कि उसमें सत्परपूर्यक कर्मों की निर्जरा नहीं होती । अनु-  
कपादान आदिमें तो अनुकपा और औचित्य की ही अपेक्षा रहती  
है । कहा भी है—

‘मोक्षस्तस्य जं दानं तं पश्यसो विही समकलाभो ।

अणुकपा दानं पुण जिणेहिं न कपाइ पडिसिदम् ॥१॥’

अपात्र के लिये जो आहारानु निर्जण्य कृपणा आन्धु नहीं लही तो कर्मनिर्जरा  
हेतुके आहारकी प्रकृपणा कृपणा आनी, उ जने कर्मनिर्जरा हेतुके तो जे  
आहार लही शक्य छे ते सुपात्रने अपवामां जाने छे सुपात्र जेने क हरे छे ते  
मोक्षने भावे अपवामां वचता छे जेवा सुपात्रने अपवामां जावेत आहार कृपणा  
कर्मोनी निर्जरा कालके जने छे कर्मोनी निर्जरा काली क मोक्षनी अप्ति वाप छे  
तेही क सुपात्र लही ‘मोक्षार्थं यद् दानं तस्यैव प्रकृपणं कृतम् अनुकपादानादेस्तु  
प्रकृपणं न कृतम्’ मोक्षप्राप्ति लहे उपवेशी जेवा दाननी प्रकृपणा करी छे—  
अनुकपादान आदिनी प्रकृपणा करी लही तेने मोक्षप्राप्ति करवन्तु न छेवानु कालके  
जे छे तेमां सत्परपूर्यक कर्मोनी निर्जरा बती नथी, अनुकपादान भावि तो अनुकपा  
दान आदिना औचित्यनी क दृष्टि रहे छे क हरे पद्य छे—

‘मोक्षस्तस्य जं दानं पश्यसो विही समकलाभो ।

अणुकपा दानं पुण जिणेहिं न कपाइ पडिसिदम् ॥ १ ॥’

तन्व्यः म्यात्-नो चैत्र खलु अनुगवेपयन् स्थविरान् पश्येत्तं नो आत्मना भुञ्जीत,  
नो अन्यस्मै दापयेत्, एकान्ते अनापाते अचित्त बहुप्रासुकै स्थण्डिले प्रतिलेख्य  
प्रमार्ज्य परिष्ठापयितव्यः स्यात्, निर्ग्रन्थं च खलु गाथापतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया  
अनुप्रविष्टं कश्चित् त्रिभिः पिण्डैः उपनिमन्त्रयेत्-एकम् आयुष्मन् ! आत्मना  
भुङ्क्ष्व, द्वौ स्थविराणां देहि, स च तांश्च प्रतिगृह्णीयात्, स्थविराश्च तस्य

( जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेवाणुप्पदायव्वेसिया, नो  
चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुञ्जेज्जा )  
गवेशणा करता हुआ वह जहाँ पर उन स्थविरों को देखे-वहीं पर  
उन्हें वह पिण्ड दे देवे-यदि कदाचित् स्थविरों को तलाश करता  
हुआ वह उन्हें न पावे तो उस पिण्ड को स्वयं न खावे ( नो  
अन्नेसि दावए ) न किसी दूसरे को देवे ( एगंते अणावाए अचित्ते  
बहुफामुए थंडिले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिट्ठावेयव्वे सिया ) किन्तु  
एकान्त, अनायात जहाँ पर कोई आवे नहीं ऐसे अचित्त और  
बहुप्रासुक स्थण्डिल ( भूमि )में प्रतिलेखना करके-प्रमार्जना करके परि-  
ष्ठापित कर देवे । ( निर्ग्रन्थं च णं गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए  
अणुपविट्ठं केइ तिहिं पिण्डेहिं उवनिमंतेज्जा-एगं आउसो ! अप्पणा  
भुञ्जाहि दो थेराणं दलयाहि ) गृहस्थ के घर पर आहार लेनेकी  
इच्छा से गये हुए निर्ग्रन्थ को कोई गृहस्थ तीन पिण्ड ग्रहण करने  
के लिये उपनिमन्त्रण करता है कि हे आयुष्मन् ! एक पिण्ड आप

( जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेवाणुप्पदायव्वेसिया, नो चैत्र णं  
अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुञ्जेज्जा ) आभी रीते शोधतां  
शोधता न्या तेने ते स्थविरे भणे छे, त्या ते तेभने ते पिंड आपी दे छे पणु आ रीते  
शोधता शोधतां ने तेने ते स्थविरेने भेटो थाय नही, तो ते पिंड भाई शकते नथी,  
( नो अन्नेसि दावए ) भीनां डोषने आपी शकते नथी, ( एगंते अणावाए  
अचित्ते बहुफामुए थंडिले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिट्ठावेयव्वे सिया )  
पणु अेकान्त, निर्गंन ( नयां डोषनी अवर नवर न डोय अेवा ), अचित्त अने बहुप्रासुक  
भूमिमा - ते भूमिनी प्रमार्जना करीने-तेने परिष्ठापित करे छे-तेने पधरावी दे छे.  
( निर्ग्रन्थं च णं गाहावडकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्ठं केइ तिहिं पिण्डेहिं  
उवनिमंतेज्जा - एगं आउसो ! अप्पणा भुञ्जाहि दो थेराणं दलयाहि )  
गृहस्थने घर आहार प्राप्त करवानी धम्माथी प्रवेशेवा डोष निर्ग्रन्थने डोष गृहस्थ आ  
प्रमाणे कहीने तथु पिंडोतु दान करे छे- ' हे आयुष्मन् ! अेक पिंड आप भान्ने, अने

पडिभुजाहि, एगधेराण दलयाहि, सेय त पडिग्गहेजा, तहेव जाव  
 त नो अप्पणा पडिभुजेजा, नो अन्नेसिं दावप, सेस त घेव जाव  
 परिट्टवेयवे सिया, एव जाव दसहिं पडिग्गहेहिं, एव जहा  
 पडिग्गहवत्तवयाभणिया, एव गोच्छगरयहरणचोलपट्टग-कयल  
 लट्टो सथारगवत्तवयाय भाणियव्वा जाव दसहिं सथारपहिं  
 उवनिमतेज्जा जाव परिट्टवेयवे सिया ॥ सू० २ ॥

छाया-निर्ग्रन्थ च सद्य गाथापतिकुलं पिण्डपातप्रतिष्ठाया अनुप्रविष्ट  
 कश्चित् द्राम्यां पिण्डाभ्याम् उपनिमन्त्रयेत्-एकम् आयुष्मान् आत्मना ग्रहस्थ,  
 एकं स्थविराणां देहि, स च सौ पिण्डौ प्रतिगृहीयात्, स्थविराण तस्य  
 अनुगवेषयित्वाः स्युः, यत्रैव अनुगवेषयन् स्थविरान पश्येत् तत्रैव अनुमदा-

निर्ग्रन्थदानधर्मं वक्तव्यता—

‘निर्गन्थ च ष गाहावहकुलं पिण्डवायपडियाए’ इत्यादि ।

सुधार्थ—(निर्गन्थ च ष गाहावहकुलं पिण्डवायपडियाए अनुप्रविष्टं  
 केई दोहिं पिण्डेहिं उपनिमतेज्जा) ग्रहस्थ के घर आहार प्राप्त करने  
 की इच्छा से प्रविष्ट हुए निर्ग्रन्थ को कोई ग्रहस्थ दो पिण्डों को  
 ग्रहण करने के लिये उपनिमन्त्रण करे-कि (एग आठसो ! अप्पणा  
 सुजाहि एगं घेराण दलयाहि) हे आयुष्मान् ! एक पिण्ड तुम जाना  
 और दूसरा पिण्ड स्थविरों को देना (से य त पिण्डं पडिग्गहेजा  
 घेरा य से अनुगवेषयित्वा सिया) इसके बाद वह निर्ग्रन्थ उन  
 दोनों पिण्डों को छे छेवें और उन स्थविरों की तलाश करे ।

निर्ग्रन्थ दान धर्म वक्तव्यता—

‘निर्गन्थ च ष गाहावहकुलं पिण्डवायपडियाए’ इत्यादि ।

सुधार्थ—(निर्गन्थ च ष गाहावहकुलं पिण्डवायपडियाए अनुप्रविष्टं  
 केई दोहिं पिण्डेहिं उपनिमतेज्जा)

ग्रहस्थने के आहार प्राप्त करने की इच्छा से प्रविष्ट हुए निर्ग्रन्थ को  
 दो पिण्डों को ग्रहण करने के लिये उपनिमन्त्रण करे-कि (एग आठसो ! अप्पणा  
 सुजाहि एगं घेराण दलयाहि) हे आयुष्मान् ! एक पिण्ड तुम जाना  
 और दूसरा पिण्ड स्थविरों को देना (से य त पिण्डं पडिग्गहेजा  
 घेरा य से अनुगवेषयित्वा सिया) इसके बाद वह निर्ग्रन्थ उन  
 दोनों पिण्डों को छे छेवें और उन स्थविरों की तलाश करे ।

तन्व्यः स्यात्—नो चैव खलु अनुगवेपयन् स्थविरान् पश्येत्तं नो आत्मना भुञ्जीत,  
नो अन्यस्मै दापयेत्, एकान्ते अनापाते अचित्त बहुप्रासुकै स्थण्डिले प्रतिलेख्य  
प्रमार्ज्य परिष्ठापयितव्यः स्यात्, निर्ग्रन्थं च खलु गाथापतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया  
अनुप्रविष्टं ऋश्वित् त्रिभिः पिण्डैः उपनिमन्त्रयेत्—एकम् आयुष्मन् ! आत्मना  
भुङ्क्ष्व, द्वौ स्थविराणां देहि, स च तांश्च प्रतिगृह्णीयात्, स्थविराश्च तस्य

( जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेवाणुप्पदायव्वेसिया, नो  
चेव णं अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुञ्जेज्जा )  
गवेशणा करता हुआ वह जहां पर उन स्थविरो को देखे—वहीं पर  
उन्हें वह पिण्ड दे देवे—यदि कदाचित् स्थविरो को तलाश करता  
हुआ वह उन्हें न पावे तो उस पिण्ड को स्वयं न खावे ( नो  
अन्नेसि दावए ) न किसी दूसरे को देवे ( एगंते अणावाए अचित्ते  
वहुफासुए थंडिले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिट्ठावेयव्वे सिया ) किन्तु  
एकान्त, अनायात जहां पर कोई आवे नहीं ऐसे अचित्त और  
बहुप्रासुक स्थण्डिल ( भूमि )में प्रतिलेखना करके—प्रमार्जना करके परि-  
ष्ठापित कर देवे। ( निर्ग्रन्थं च णं गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए  
अणुपविष्टं केइ तिहिं पिण्डेहिं उवनिमंतेज्जा—एगं आउसो ! अप्पणा  
भुञ्जाहि दो थेराणं दलयाहि ) गृहस्थ के घर पर आहार लेनेकी  
इच्छा से गये हुए निर्ग्रन्थ को कोई गृहस्थ तीन पिण्ड ग्रहण करने  
के लिये उपनिमंत्रण करता है कि हे आयुष्मन् ! एक पिण्ड आप

( जत्थेव अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेवाणुप्पदायव्वेसिया, नो चैव णं  
अणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तं नो अप्पणा भुञ्जेज्जा ) आभी रीते शोधतां  
शोधता न्या तेने ते स्थविरो भणे छे, त्या ते तेभने ते पिंड आपी दे छे यथु आ रीते  
शोधता शोधता ने तेने ते स्थविरोने भेया याथ नडीं, तो ते पिंड भाध शकतो नथी,  
( नो अन्नेसि दावए ) भीलं डोधने आपी शकतो नथी, ( एगंते अणावाए  
अचित्ते बहुफासुए थंडिले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिट्ठावेयव्वे सिया )  
यथु अेकान्त, निर्जन ( न्या डोधनी अवर नवर न डोय अेवा ), अचित्त अने बहुप्रासुक  
भूमिमा—ते भूमिनी प्रभाज्जना करीने—तेने परिष्ठापित करे छे—तेने पधरावी दे छे.  
( निर्ग्रन्थं च णं गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविष्टं केइ तिहिं पिण्डेहिं  
उवनिमंतेज्जा—एगं आउसो ! अप्पणा भुञ्जाहि दो थेराणं दलयाहि )  
गृहस्थने घेर आहार प्राप्त करवानी इच्छाथी प्रवेशेवा डेध निर्ग्रन्थने डोध गृहस्थ आ  
प्रभाषे कहीने यथु पिंडोतु दान करे छे— ' हे आयुष्मन् ! एक पिंड आप भाणे, अने

अनुगवेषयितव्याः स्युः, श्लेष तवेन यानत् परिष्ठापयितव्यां स्याताम्, एवं यावत् दशमि पिण्डैः उपनिमन्त्रयेत्, न षरम्-एकम् आयुष्मन् ! आत्मना सुहृत्स्व, नव स्वविराणां देहि श्लेष तवेन यावत् परिष्ठापयितव्याः स्युः निर्गन्ध च स्वच्छ गायापतिभूत्सं यावत् कश्चित् द्वाभ्यां प्रतिघ्राहाभ्याम् उपनिमन्त्रयेत्-एकम् आयुष्मन् ! आत्मना परिशुद्धस्व, एक स्वविराणां देहि, स च तौ मतिवृद्धीयात् तयैव यानत् त नो आत्मना परिशुद्धीत,

खाना बाकी के दो दो पिण्ड स्वधिरों को देना इसके बाद (से य ते पङ्क्तिगाहेजा घेरा य से अनुगवेषेयव्या) यह उन पिण्डों को लेकर उन स्वधिरों की गवेषणा करने लगता है (सेस त चेव जाव परिष्ठावेयव्यासिया) इसके बाद का अवशिष्ट कथन पूर्व की तरह कह लेना चाहिये यावत् यह उन दो पिण्डों को परिष्ठापित कर देता है। (एव जाव दसहि पिण्डेहि उपनिमन्तेजा) इसी तरह से 'यावत् दश पिण्डों को घ्राण करने के लिये सुहृत्स्व उपनिमन्त्रण करता है' इन विषय में भी समझना चाहिये। (नवरं एगं आउसो ! अप्पणा सुजाहि, नव घेराण दक्षयाहि-सेस त चेव जाव परिष्ठावेयव्यासिया) परंतु जब यह सुहृत्स्व इस प्रकार से कहे कि हे आयुष्मन् ! एकपिण्ड तुम खाना बाकी के नौ पिण्ड स्वधिरों को देना-इसके आगे का अवशिष्ट कथन यावत् स्पष्टिल में परिष्ठापित कर देवे या तक जानना चाहिये (निग्गय च ण गाहावडं जाव दोहि पङ्क्तिगाहेहि-उपनिमन्तेजा एग आउसो अप्पणा पङ्क्तिनाहि एग घेराणं दक्षयाहि)

आत्मना ये पिंड स्वधिराने आपी देने-त्वारणाइ (सेय ते पङ्क्तिगाहेजा घेराय स अनुगवेषेयव्या) ते निर्वादे ते पिंडा सुहृत्स्व भवन्ते ते स्वधिरानि तेषु करणी भवन्ते- (सस त चेव जाव परिष्ठावेयव्या सिया) त्वार नावतुं ते ये पिंडाने भूमिभं परिष्ठापित करी नात्ते ॐ, त्व सुधीनु सभरत कथन आदीं प्रकृत्य कर्तुं (एवं जाव दसहि पिण्डेहि उपनिमन्तेजा) जेव प्रभावे इस पद्य-तन्ना पिंडा सुहृत्स्व करणा उपनिमन्त्रण विरे पद्य सभरतुं (नवरं एगं आउसो ! अप्पणा सुजाहि, नव घेराण दक्षयाहि सेस त चेव जाव परिष्ठावेयव्यासिया) आदीं विस्तरा जेवही न सभरतानी ॐ हे आयुष्मन् आइ पिंड आप जान्ने, आधीना नव पिंडा स्वधिराने उपपयो। त्वार नावतुं भूमिभा नव पिंडाने पाठवी देवा पद्य-तनुं कथन आत्मना सुहृत्स्व न सभरतुं (निग्गय च ण गाहावडं जाव दोहि पङ्क्तिगाहेहि उपनिमन्तेजा एग आउसो ! अप्पणा पङ्क्तिनाहि एगं घेराण दक्षयाहि) देव जेव निर्वादे

नो अन्येषां दापयेत्, शेषं तदेव यावत् परिष्ठापयितव्यः स्यात्, एवं यावत् दशभिः प्रतिग्रहैः एवं यथा प्रतिग्रहवक्तव्यता भणित्वा एवं गुच्छक रजोहरण-चोलपट्टक -कम्बल यष्टि संस्तारकवक्तव्यता च भणितव्या, यावत् दशभिः संस्तारकैः उपनिमन्त्रयेत्, यावत् परिष्ठापयितव्याः स्युः ॥सू० २॥

कोई निर्ग्रन्थ यावत् गृहपति के कुल में प्रवेश करता है और वह उसे दो पात्रों के लिये उपनिमन्त्रण करता है—हे आयुष्मन् ! एक पात्र का तुम उपयोग करना और दूसरा पात्र स्थविरो को देना ( से य त पडिगहेज्जा ) अब वह उन दोनों पात्रों को ले लेना है । ( तहेव जाव तं नो अप्पणा पडिभुंजेज्जा नो अन्नेसिं दावए सेसं तं चैव जाव परिट्ठवेयव्वेसिया ) इसके आगे का सब कथन पूर्व की तरह जानना चाहिये यावत् वह उस पात्र का स्पयं उपयोग न करे और न उसे दूसरे साधु को भी वह देवे आगे कथन पूर्व की तरह यहाँ लगा लेना चाहिये यावत् वह उसे परिष्ठापित कर देवे । ( एवं जाव दसहिं पडिगहेहिं एवं जहा पडिगगहवक्तव्या भणिया - एवं गोच्छगरयहरणचोलपट्टककंबललट्टीसंधारगवक्तव्या य भाणियव्वा जाव दसहिं संधारएहि उवनिमंतेज्जा जाव परिट्ठवेयव्वेसिया ) इसी तरह से दश पात्र तक कहना चाहिये । जिस तरह से पात्र के विषय में वक्तव्यना कही है उसी तरह से गुच्छा, रजोहरण, चोलपट्टक, कंबल, दण्ड और संस्तारक की वक्तव्यता

दश गृहस्थने त्यां पधारे छे ते गृहस्थ आ प्रभाण्णु क्खीने तेने जे पात्र अर्पणु करे छे— ' हे आयुष्मन् ! ओइ पात्र तमे वापरणे अने धीणु पाग स्थविशेने आपशा. ' ( से य तं पडिगहेज्जा ) ते निर्ग्रन्थ ते अन्ने पात्राने अडणु करे छे ( तहेव जाव तं नो अप्पणा पडिभुंजेज्जा, नो अन्नेसिं दावए सेसं तं जाव परिट्ठवेयव्वेसिया ) त्थार धादनुं समस्त कथन आगण सुणम समञ्जु' ते पात्राने उपयोग तेनाथी पणु करण नही, धीणने ते पात्र अपाय नही पणु तेणु तेने भूमिमा परव्वी देवु लेधये, त्या सुधीनुं समस्त कथन अही आगण सुणम समञ्जु ( एवं जाव दसहिं पडिगहेहिं एवं जहा पडिगगहवक्तव्या भणिया - एवं गोच्छगरयहरणचोलपट्टक कंबल लट्टी संधारगवक्तव्या य भाणियव्वा जाव दसहिं संधारएहि उवनिमंतेज्जा जाव परिट्ठवेयव्वेसिया ). ओइ प्रभाण्णु ' इस सुधीना पात्रानी वक्तव्यता समञ्जवी पात्राने लेवी वक्तव्यता गुच्छे, रजोहरण चोलपट्टक, कंबल, दण्ड अने संस्तारक



टीका- दानाधिकारात् निग्न्यदानधर्मवक्तव्यतामाह- 'निमाय च षं गाहायइकुल । पिंडघायपडियाए अणुप्पचिट्ठं केई दोहिं पिडेहि उचनिम तेज्जा निग्न्य भमणं च पुनः खल्ल गाथापतिकुल गृहस्यगृह पिण्डपातप्रति ज्ञया पिण्डस्य आहारस्य पाठ पात्रे निपतन पिण्डपातः तस्मिन् प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान बुद्धिः तथा पिण्डपातप्रतिज्ञया आहारग्रहणेच्छया 'पिण्डस्य पातो मम पात्रे भवतु' इति बुद्धयेत्यर्थः, पुनर्यकवकारमयोगेन-सयतादि विस्ते-

कहनी चाहिये, घायत् वह दश सस्मारकों के लिये उपनिमन्त्रण करे घायत् वह उसे परिष्ठापित करे-यहां तक ।

टीकार्थ-दान का अधिकार चल रहा है-इसलिये सूत्रकार यहाँ निग्न्य दान धर्म की वक्तव्यता कह रहे हैं-'निमाय च षं गाहायइकुलं पिंडघायपडियाए अणुप्पचिट्ठं केई दोहिं पिडेहि उचनिमतेज्जा' कोई निग्न्य किसी गृहस्य के घर पिण्डपातप्रतिज्ञा से आहार ग्रहण करने की इच्छा से प्रवेश करता है, वह गृहस्य उसे दो पिण्डों के निमित्त उपनिमन्त्रित करता है-कहता है, हे भिक्षो ! इस पिण्डग्रय को तुम ग्रहण करो । पिण्ड का अर्थ आहार है । आहार का दाता के द्वारा जो पात्र में दान की इच्छा से डालना होता है वह पिण्ड पात है । इस पिण्डपात में जो प्रतिज्ञा-प्रतिज्ञान-पिण्डका पात में पात्र में हो ऐसी बुद्धि इत्तका नाम पिण्डपातप्रतिज्ञा है । इस पिण्ड पात की प्रतिज्ञा से अणनादि आहार को ग्रहण करने की इच्छा से निग्न्य गृहस्य के घर जाता है । दाता गृहस्य सयतादि विशेषण

विशेष पक्ष समझनी इस अस्ताशकने भागे उपनिमन्त्रण करीने तेमने परधववा' धर्म-तनुं समस्त कथन अच्छी प्रकल्प करतुं

टीकार्थ :- दानने अधिकार वाली शक्ये ॐ तेथी सूत्रकार आ धर्मार्थ निग्न्य दानधर्मनी वक्तव्यतातनुं कथन करे ॐ- 'निमाय च षं गाहायइकुलं पिंडघाय पडियाए अणुप्पचिट्ठं केई दोहिं पिडेहि उचनिमतेज्जा' इति अथपु निग्न्य दान गृहस्येन धर्मार्थ पिंडपात प्रतिज्ञापी - आहार प्रकल्प करवानी इच्छापी - प्रवेश करे अपने ते गृहस्य तेने से पिंडा करवाने उपनिमन्त्रित करे ॐ कहे ॐ- हे निम च अणुप्पचिट्ठं आ वि पिडेने आय प्रकल्प करे' पिंड जेठये ज्येदार आहारनेो दाता दाननी इच्छापी ने आहार साधुना पात्रार्थ नाथे ॐ, ते ज्येदारने पिंडपात कहे ॐ भाग पात्रार्थ पिंडपात वाच ज्येपी ने इच्छा तेनु नाम पिंडपात प्रतिज्ञा ॐ अथ पिंडपात प्रतिज्ञापी-आहार प्रकल्प करवानी इच्छापी-निग्न्य गृहस्येने

पणविशिष्टाय निर्ग्रन्थाय प्रासुकादिदाने गृहपतेरेकान्तेन निर्जरा मन्वतीति सूचितम् आहारार्थम् अनुप्रविष्टनिग्रन्थं प्रति कश्चित् धावको द्वाभ्यां पिण्डाभ्यां करपटिकादि भोजनाभ्याम् उपनिमन्त्रयेत् भिक्षो ! गृहाणेदं पिण्डद्वयमितिरीत्या नियोजयेत्, 'एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, एगं येराणं दलयाहि' हे आयुष्मन् निर्ग्रन्थ ? तत्र एकं पिण्डं भोजनम् आत्मना स्वयमेव गृह्णत्व, एकम् अन्यच्च भोजनपिण्डं स्थविराणां स्थविरेभ्यो देहि इति 'से य तं पिण्डं पडिगाहेज्जा' स च निर्ग्रन्थस्तं पिण्डं स्थविराय दीयमानमाहारं प्रतिगृह्णायात्, गृहीत्वा निर्ग्रन्थः स्वस्थानं गतः पश्चात् 'येराय से अणुगवे-

विशिष्ट उस्स निर्ग्रन्थ क लिये प्रासुकादि आहार का दान देता है- क्योंकि इस प्रकार के निर्ग्रन्थ के लिये आहार आदि का दिया गया दान दाता के लिये अपने कर्मों की निर्जरा का एकान्तरूप से कारण होता है। यही घात 'निग्गयं च णं' इस पद में च शब्द से सूत्रकारने सूचित की है। आहार आदि का दान देते समय दाता गृहस्थ उस निर्ग्रन्थ से क्या कहता है- इस बात को प्रकट करने के लिये सूत्रकार कहते हैं- 'एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि एग येराणं दलयाहि' वह दाता गृहस्थ उससे कहता है कि आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थ ! इस प्रदत्त दान में से एक पिण्ड तुम अपने आहार के उपयोग में लेना और दूसरा पिण्ड अन्य स्थविरों को देना 'से य तं पिण्डं पडिगाहेज्जा' इस प्रकार सुनकर वह उस पिण्ड को अपने पात्र में ले लेता है। और लेकर यहां से अपने स्थान पर आ जाता है।

धेर नय छे दाता गृहस्थ स यतादि विशेषणवाणाने श्रमणु निर्ग्रन्थने प्रासुकादि आहारु दान करे छे आ रीते स यतादि विशेषणवाणा निर्ग्रन्थने आहारान्तु दान देवाथी दातानां धर्मानां अकान्तत (सर्वथा) निर्जरा थाय छे. अेव वात 'निग्गयं च णं' पदमा 'च' पदथी सूत्रकारे सूत्रित करे छे आहारान्तु दान देती वधते दाता गृहस्थ ते निर्ग्रन्थने शुं कहे छे ते सूत्रकारे नीचेना वाक्यमां प्रकट कथुं छे- 'एगं आउसो ! अप्पणा भुंजाहि, एगं येराणं दलयाहि' ते दाता गृहस्थ तेने कहे छे 'हे आयुष्मन् ! निर्ग्रन्थ ! मे' आपने आपेला दानमांथी अेक पिंड तमे तमारा आहारना उपयोगमां देले, अने थिले पिंड अन्य स्थविरेने आपले, 'से य तं पिण्डं पडिगाहेज्जा' आ प्रभाणे दातानी वात-सालणीने ते निर्ग्रन्थ पिंडने पोताना पात्रमां लभ ले छे अने त्थार आह पोताने स्थाने नय छे 'येराय से अणुगवेसियव्वासिया जत्थेव अणुगवेसमाणे येरे पासिज्जा' अने पछी ते स्थविरेनी तपास करवा भेडि

सिप्यवा मिया' स्थविराश्च तस्य निर्ग्रन्थस्य अनुगवेपयितव्याः अचेष्टव्याः स्युः, तदनुसारं निर्ग्रन्थं स्थविरान् गवेपयेदित्यर्थः, 'जत्येष अणुगवेसमाणे घेरे पासिञ्जा तत्पेवाणुप्पटायन्वेसिया' यत्रैव च स्थाने अनुगवेपयन् भन्वे पयन् स्थविरान् भमपवृद्धान् परयेत् तत्रैव स पिण्डः अनुप्रदातव्यः स्यात् 'णो षेय ण अणुगवेसमाणे घेरे पासेञ्जा त नो अप्पणा सुजेञ्जा, नो भन्नेसि दावए' नो चैव नैव स्वच्छ चैत् अनुगवेपयन् स्थविरान् नो पश्येत् तर्हि तं स्थविरपिण्डम् नो आत्मना स्वयमेव सुञ्चीत्, नो वा अन्येषाम् अन्येभ्याः साधुभ्यो वृथात् दापयेद्वा अदत्तादानप्रसङ्गात् गृहपतिना विषक्षितस्थविरैभ्य एव स पिण्डो दत्तो नान्यस्मै कनाय तस्मात् नो स्वयमेव तं पिण्डं सुञ्चीत् नो वा अन्येभ्या वृथादिति भावः । तर्हि हि कुर्यादित्याह-एगंते अणावाए अविचे

पाद् में 'घेराय से अणुगवेसियम्वासिया' वह उन स्थविरों की गवेपणा करने लगता है-मो 'जत्येष अणुगवेसमाणे घेरे पामिञ्जा' जहाँ पर वह उन स्थविरों को देखता है 'तत्येवाणुप्पटायन्वेसिया' वहीं पर उसे वह पिण्ड उन्हें दे देना चाहिये । 'णो षेय ण अणुगवेसमाणे घेरे पासिञ्जा तं नो अप्पणा सुजेञ्जा नो भन्नेसि दावए' खोजने पर मो यदि वे उसे नहीं मिलते हैं तो उस निर्ग्रन्थ को वह पिण्ड न अपने काम में लाना चाहिये और न किसी दूसरे के लिए उसे देना चाहिये । क्योंकि इस प्रकारसे करनेमें उसे अदत्तादान का दोष लगता है । क्योंकि गृहस्थने वह पिण्ड विषक्षित साधुओंके लिये ही देनेको उसे दिया है । दूसरोंको देने के लिये नहीं दिया है । इसलिये वह पिण्ड न उसे स्वयं को अपने उपयोग में लेना चाहिये और न दूसरों को ही उसे देना चाहिये । विषक्षित साधुओं क नहीं मिलने पर उसे उस पिण्ड का तब क्या करना चाहिये-इसके लिये सूत्रकार कहते

ॐ तथास इत्यां अनां तेभने ते जुवे 'तत्येवाणुप्पटायन्वे मिया' तथा तेजे ते पिंड तेभने आपी देवे भेधजे. णो षेय णं अणुगवसमाणे घेरे पासिञ्जा त नो अप्पणा सुजेञ्जा नां अजेसि दावए' पञ्च श्लोक इत्यां अनां पञ्च लो तेने स्थविरानो वेधे जय नही, तो तेजे ते पिंड पाताना उपरोक्त देवे भेधजे नही, जने जन्नेने पञ्च आपवे भेधजे नही इत्ये के प्रभाजे इत्येतेने अदत्तादानेने इत्ये लोके छे ते दात्ता गुरुस्यै ते पिंड अणुके साधुज्योने आपवाने भिजे जे तेने दधि दतेने जन्नेने आपवा भाटे तेने आपवे न दतेने तेथी तेजे पाते पञ्च तेने उपरोक्त इत्ये भेधजे नही अन पील इत्येने आपवे भेधजे पञ्च नही जे स्थविरने ते पिंड आपवाने ॐ ते स्थविर तेने भजे नही तो तेजे ते पिण्डु ए इत्युं जेक वाद

बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिहावेयन्वे सिया' एकान्ते जनसम्पर्करहिते, अनापाते जनगमनागमनरहिते अचित्ते जीवरहिते, न केवलं जीवरहिते अपित्तु बहुप्रासुके बहवःप्रासुका यत्र तस्मिन् तथाच अचिरकालकृते विक्रते विस्तीर्णदूरावगाढे त्रणप्राणवीजवर्जिते चेति, स्थण्डिले चतुरङ्गु लोच्छितपरिष्कृतभूमौ प्रतिलेख्य परिलेखनां, कृत्वा प्रमार्ज्य रजोहरणादिना परिष्ठापयितव्यः स्यात् परिष्ठापयेत्, गौतमः पृच्छति-‘निग्गंथं च णं गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्विट्ठं केइ तिहिं पिंढेहिं उवनिमंतेज्जा’- निर्ग्रन्थं श्रमणं च खलु गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया ‘पिण्डस्थ पातो मम पात्रे भवतु’ इतीच्छया अनुप्रविष्ट गतवन्तं कश्चित् गृहपतिः त्रिभिः

हैं-‘एगंते अणावाए अचित्ते बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिहावेयन्वेसिया’ कि वह उस पिण्डको चतुरङ्गुल उच्छ्रित परिष्कृत भूमि में कि जहां पर मनुष्यों का संपर्क न हो, मनुष्यों का आना-जाना न हो, जो अचित्त हो जीव रहित हो, केवल जीव रहित ही न हो किन्तु जहां बहुत प्रासुक हों, गाढा हुआ वह पिण्ड जहां बहुत जल्दी विकृत अवस्थावाला हो जावे जो विस्तीर्ण हो, दूरावगाढ हो, त्रमप्राण एव बीज से वर्जित हो-परठ देवे-परठने से पहिले वह उस स्थान की प्रतिलेखना करें और रजोहरण आदि से उसकी प्रमार्जना करे। अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते हैं-‘निग्गंथं च णं गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्विट्ठं केइ तिहिं पिंढेहिं उवनिमंतेज्जा’ गृहपति के घर पर ‘पिण्डपातप्रतिज्ञासे पिण्ड का पात मेरे पात्र में हो इस इच्छा से गये हुए निर्ग्रन्थ को यदि कोई

सुत्रकार हवे प्रगट करे छे- ‘एगंते अणावाए अचित्ते बहुफासुए थंडिल्ले पडिलेहेत्ता पमज्जित्ता परिहावेयन्वेसिया’ तेणे ते पिंडने भूमिमा पाठवी (परठी) देवे जेधये ते भूमि कवी होवी जेधये? चतुरगुणउच्छ्रित परिष्कृत भूमि के जथा मनुष्यानी अवर अवर न होय, जे अचित्त (जीव रहित) होय, जे धलीज प्रासुक होय, जथा घाटेले पिंड जल्दी विकृत न थई जय, जे विस्तीर्ण होय, दूरावगाढ होय, त्रमप्राण अने जीवही रहित होय, जेवी भूमिनी प्रतिक्षेपना करीने तथा रजोहरण आदिथी प्रमार्जना करीने तेणे ते पिंड तेमां परठी देवे जेधये हवे तणु पिंडोना धननी अपेक्षाये नीये प्रमाणे प्रपणुा करवामा आवी छे-‘निग्गंथं च णं गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्विट्ठं केइ तिहिं पिंढेहिं उवनिमंतेज्जा’ पिंडपात प्रतिज्ञायी-आहार प्राप्तिनी धन्याथी केध गृहस्थना धरमां प्रवेशदा केध निर्ग्रंथने ते गृहस्थ तणु पिंड

पिण्डै उपनिमन्त्रयेत् 'भो मिसो ! गृह्णाणैर्दं पिण्डत्रयमितिरीत्या कथयेत्-  
 'एगं आउसो अप्पणा सुजाहि, दो येराण वलयाहि' हे आयुष्मन् ! एकं  
 पिण्डम् आत्मना स्वयमेव गृह्णस्व, अथ च द्वौ पिण्डौ स्पधिराणां स्पधिरैभ्यो  
 देहि इति, ततः 'से य ते पडिग्गहेउजा' स च निर्घ्नन्थ भ्रमणः तौ द्वौ  
 स्पधिरपिण्डौ प्रतिग्रहीयात्, 'येरा य से मणुगवेसेयन्ना, सेसं त  
 वेव जाव परिद्धावेयम्भेसिया' स्पधिराण तस्य निर्घ्नये भ्रमणस्य अनुगवेपयि-  
 तव्याः स्युः स्पधिरान् अन्वेपयेत् इत्यर्थः, शेष तत्रैव पूर्वोक्तानुसारमेव  
 यावत् यदि नोत्थेष स्वस्य अनुगवेपयन् स्पधिरान् पश्येत् तर्हि तौ द्वौ स्पधिर  
 पिण्डौ नो आत्मना स्वयं गृह्णीत, नो वा अन्वेप्यात्-अन्वेभ्यो वृथात् वाप-  
 येद्वा, किन्तु एकान्ते अनापाते अचिन्ते बहुमासुकं स्पण्डिले प्रतिष्ठेत्स्य,

गृह्णस्य तीन पिण्डों द्वारा उपनिमन्त्रित करता है-भो मिसो ! इन  
 तीन पिण्डों को तुम लो-इस तरह से कहता है-'एगं आउसो !  
 अप्पणा सुजाहि, दो येराण वलयाहि' इनमें से एक तुम अपने  
 आहार के उपयोग में लेना और दो पिण्ड विवक्षित स्पधिरों के लिये  
 देना तब 'से य ते पडिग्गहेउजा' यह उस पिण्डत्रय को स्पधिरों के  
 दो पिण्डों को ले लेता है । 'येराय से मणुगवेसेयन्ना' अथ यह वहाँ  
 से अपने स्थान पर आकर उन विवक्षित स्पधिरों की गवेपणा करता है  
 'सेस त वेव जाव परिद्धावेयम्भामिया' गवेपणा करता हुआ यदि यह  
 उन्हें नहीं पाता है तो उन दो स्पधिर पिण्डोंको यह निर्घ्नन्थ स्वयं अपने  
 आहारमें उपयुक्त न करे और न उन्हें विवक्षित साधुओं से अन्य और  
 किसी को देवे न दिलायावे किन्तु एकान्त अनापात, अचिन्त बहुमासुक  
 स्पण्डिलमें प्रतिष्ठेत्स्यना और प्रमाजना करके उन साधुओं के दो पिण्डोंको

अथैव इति च प्रमाज्ये उपनिमन्त्रयेत् (अथ प्रमाज्ये इति च)-एगं आउसो ! अप्पणा  
 सुजाहि, दो येराण वलयाहि' हे आयुष्मन् ! आत्मना एकं पिण्डं तमे तमाह  
 आत्मना उपयेज्यां हेने अने आत्मना ने पिण्डं अनुगवे स्पधिराने आपणे, 'से य ते  
 पडिग्गहेउजा' ते निर्घ्नन्थ ते अने पिण्डं (स्पधिराने आपण मयेना ने पिण्डं) पीताना  
 यावत् तेष ते 'येराय से मणुगवेसेयन्ना' त्थार अह पीताने स्थाने आनीने  
 ते निवक्षित स्पधिरानी शोध इति 'सेसं तं वेव जाव परिद्धावेयन्ना सिया'  
 पयु अने ते साधुज्जेति तेने पत्तो न जाये ता वेज्जे ते ने पिण्डं पीताना आहारा  
 उपयेज्यां वेवा ज्जेअने नही अने डोअ पीताने पयु आपणा ज्जेअने नही' पयु  
 वेवा ज्जेअने, अनापात अचिन्त, बहु मासुक स्थाननी प्रतिष्ठेत्स्यना तथा प्रमाजना

प्रमाज्यं परिष्ठापयितव्यौ स्याताम् ' एवं जाव दसहिं पिंढेहिं उवनिमंतेज्जा ' एवं रीत्या यावत् त्रिभिश्चतुर्भिः, पञ्चभिः, षड्भिः, सप्तभिः अष्टभिः, नवभिः, दशभिः पिण्डरूपनिमन्त्रयेत् किन्तु - 'नवरं एगं आउसो ? अप्पणा भुजाहि, नव थेराणं दळ्याहि ' नवरम्-द्वित्रिपिण्डापेक्षया विशेषस्तु दशपिण्डेषु एकं पिण्डं हे आयुष्मन् ! आत्मना स्वयमेव भुङ्क्ष्व, नव पिण्डांश्च स्थविराणां स्थविरेभ्यो देहि, एवं चतुःपञ्चादि नव पर्यन्त पिण्डेष्वपि एकैकं पिण्डं स्वयं भुङ्क्ष्व, अवशिष्टांश्च त्रिचतुर पञ्चषट्सप्तान् पीण्डान् स्थविरेभ्यो यथाक्रमं देहि इति

परठ देवे 'एवं जाव दस्ताहें पिंढोह उवनिमतेज्जा' इसी रीति से यावत् चार पिण्डो द्वारा, पांच, छह, सात, आठ, नौ और दश पिण्डों द्वारा जब कोई गृहस्थ निर्ग्रन्थ साधु को जो कि आहार ग्रहण करने की इच्छा से किसी गृहस्थ के घर पर गया हुआ होता है उपनिमन्त्रण करता है-भो भिक्षो ! इन चार पांच आदि पिण्डों को तुम ले-इस तरह से कहता है इनमें एक पिण्ड तुम्हारे लिये है और ३-४-५ आदि पिण्ड विवक्षित अन्य साधुओं के लिये हैं तब वह अन्य साधुओं के उन ३-४-५ आदि पिण्डोंको ले लेता है और अपने स्थान पर आकर फिर उन साधुओंकी गवेषणा करता है और जहां वे होते हैं उनके लिये उन पिण्डों को दे देता है । यदि वे तपास करने पर भी उसे नहीं मिलते हैं तो वह उन पिण्डों को न अपने काम में लेता है और न विवक्षित साधुओं से अतिरिक्त अन्य साधुओं को देता है, न

करीने ते मे पिंडानि तेभां परळी देवा लेषमे ' एवं जाव दसहि पिंढेहि उवनिमंतेज्जा ' येन प्रमाणे आहार प्राप्तिनी भ्रूयाथी केच गृहस्थने घेर आवेला निर्ग्रन्थने चार, पाच, छ, सात, आठ, नव, दस पिंडानु दान करीने ते श्रावक येतुं कहे छे के 'हे भिक्षो ! आ चार, पांच आदि पिंडो आप अक्षुण्ण करे। तेनाथी येक आपना उपयोगमा वेजे अने भाडीना तणु, चार, पाच आदि पिंडो अमुक साधुने आपजे ' ते निर्ग्रंथ ते विवक्षित [अमुक] साधुओने माटे तणु, चार, पाच आदि पिंडो लह ले छे, अने पोताने स्थाने आवीने ते साधुओनी शोध करे छे, जे तेओनो तेने भेटे। थाय, तो ते तणु चार, पाच आदि पिंडो तेमने दह देवा लेषमे पणु जे तेने ते साधुओनो भेटे न थाय तो ते पोते पिंडोने। पोताना आहारमां उपयोग करी शकते नथी अने ते साधुओ सिवायना अन्य साधुओने ते पिंडो आपी शकते पणु नथी कारणके येम करवाथी तेने अहंतादाननो दोष लागे छे ते साधुओ निमित्त भवेवा

मासः, 'सेस त चेव जाव परिहावेयव्वा सिया' शेषं सप्त्वेव पूर्वोक्तवदेव यावत्-स च निर्घ्न्यः तान् स्वविरपिण्डान् प्रतिपृच्छीयात् स्वविराभ सस्य अनुगवेपयितव्याः स्युः, यत्रैव अनुगवेपयन् स्वविरान् परयेत् तत्रैवानुमदा तज्याः स्युः, यदि नो चैव खलु अनुगवेपयन् स्पावरान् परयेत् तदा तान् स्वविरपिण्डान् नो आत्माना मुञ्जीत, नो वा अन्येभ्यो दद्यात् दापेयेद्व्या, किन्तु एकत्र ते अनापाते अचिचे बहुपामुके स्पण्डिष्ठे प्रतिष्ठेस्य, प्रमाज्यं परिष्ठापयितव्याः स्युः, 'निग्गय च ण गाहावइ जाव केउ दोहिं पडिग्गहेहिं उवनिमतेउमा' निर्घ्न्य च खलु गायापतिकुल यावत्-मतिग्रहपात मतिग्रया अनुप्रविष्ट मुनिमति कम्बित् गृहपतिः द्राम्यां प्रतिग्रहाम्यां पाप-भ्यामुपनिमन्त्रयेत् एगं आठसा ! अप्पणा परिसुजाहि' हे आयुष्मन् ! निर्घ्न्य ! एक मतिग्रहम् पापम् आत्मना स्वयमेव परिसुद्धस्व, उपमोगविपर्यं

दिलघाता है; क्योंकि इस प्रकार से करने पर अदृष्टादान का दोष आता है। अन्य साधुजन संबंधी उन ३-४ आदि नौ पर्यन्त के पिण्डों को यह किसी एकान्त, अनापात, अचिचादि पूर्वोक्त विशेषणों वाली भूमि में परठ देना चाहिये। यही पूर्वोक्त रूप से उसे करने की बात 'नवरं-एगं आठसो ! अप्पणा सुजाहि, नव येराणं दलयाहि, सेस त चेव, जाव परिहावेयव्वेसिया' इस सूत्र पाठ द्वारा समझाई गई है। 'निग्गय च ण गाहावइ जाव केउ दोहिं उवनिमतेउमा' इसी तरह से पात्र को छेने को इच्छा से किसी गृहस्थ के घर पर गये हुए निर्घ्न्य को कोई दूसरा गृहस्थ दो पात्रों से उपनिमन्त्रण करता है- 'एगं आठसो अप्पणा परिसुजाहि, एगं येराणं दलयाहि' ऐसा कहता है कि हे आयुष्मन् ! इन दो पात्रों में एक पात्र तुम

त्रय, चार आदि नव पर्यन्त के पिण्ड तबो लेकन्त, निबन्, कम्बित आदि पूर्वोक्त विशेषणोंवाली भूमि में पूर्वोक्त रीते [भूमिनी प्रतिभेपना तथा प्रभावेना करीने] परठी देवा लेकन्ते, आदी पूर्वोक्त रीते तेना विधि करवानी बात 'नवरं-एगं आठसो ! अप्पणा सुजाहि, नव येराणं दलयाहि, सेस त चेव जाव परिहावेयव्वेसिया' का सूत्रपाठ द्वारा समझावनामां आनी है 'निग्गय च ण गाहावइ जाव केउ दोहिं पडिग्गहेहिं उवनिमतेउमा' जेव प्रभावे पाप केवानी उच्छाया केउ मुठस्वने केर केवला निरुधने ते मुठस्वने पात्रे आपीने आ प्रभावे उपनिमन्त्रण करे के-केके है- 'एगं आठसो ! अप्पणा परिसुजाहि, एगं येराणं दलयाहि' हे आयुष्मन् ! का के पात्रमांथी लेकने जाव उपधीन करने अने जीजुं पाप नित्र बने

कुरु 'एगं थेराणं दलयाहि' एकम् अपरं प्रतिग्रहं स्थविराणां स्थविरेभ्यो देहि,  
 'से य तं पडिग्गहेज्जा' स निर्यन्थश्च तं स्थविरप्रतिग्रहं पात्रं प्रतिगृह्णीयात्  
 'तहेव जाव तं नो अप्पणा परिभुजेज्जा, नो अन्नेसिं दावए' तथैव पूर्वोक्त-  
 वदेव यावत्-स्थविराश्च तस्य अनुगवेषयितव्याः स्युः, इत्यादि स संग्राहम्,  
 तांश्च स्थविरान् अनुगवेषयन् नो पश्येत् तदा तं स्थविरप्रतिग्रहं नो  
 आत्मना स्वयमेव उपभुञ्जीत, नो वा अन्येषाम् अन्येभ्यो दद्यात् दापयेद्वा,  
 'सेसं तं चेव जाव परिद्वावेयव्वेसिया' जेषं तदेव पूर्वोक्तवदेवयावत्-एकान्ते  
 अनापाते अचित्ते बहुप्रासुके स्थण्डिले प्रतिलेख्य प्रमार्ज्यं परिष्ठापयितव्यः

अपने काम में लेना और यह दूसरा पात्र अमुक निर्यन्थ के लिये  
 दे देना 'से य तं पडिग्गहेज्जा' इस तरह से वह दूसरे श्रमण को  
 दिये जाने वाले उस दूसरे पात्र को ले लेता है । तहेव जाव तं  
 नो अप्पणा परिभुजेज्जा गो अन्नेसिं दावए' लेकर वह  
 अपने स्थान पर आ जाता है और आकर वह उस स्थविर की  
 गवेषणा करता है कि जिसके लिये वह पात्र देने को कहा गया है ।  
 इस तरह उस स्थविर की गवेषणा करता हुआ वह यदि उस स्थविर  
 को पा लेता है तो उसे वह पात्र दे देना चाहिये-वहीं मिलने पर  
 उसे अपने उपयोग में नहीं लेना चाहिये और न किसी दूसरे साधु  
 को देना चाहिये, या दिलवाना चाहिये । 'सेसं तं चेव जाव परिद्वा-  
 वेयव्वेसिया' किन्तु पिण्डपात प्रकरण में कहे अनुसार उसे उस  
 पात्र को एकान्त, अनापात, अचित्त, बहुप्रासुक स्थण्डिल में प्रतिलेखना  
 और प्रमार्जना करके प्रतिष्ठापित कर देना चाहिये । 'एवं जाव

आपी हने' 'सेय तं पडिग्गहेज्जा' आ रीते णील अमूक मित्रं थने आपवा  
 भाटेनु पात्र पथु ते लध वे छ 'तहेव जाव तं नो अप्पणा परिभुजेज्जा गो  
 अन्नेसिं दावए' ते पात्रने लधने ते पोताने स्थान पाछे इरे छ अने पछी ते  
 निभ्रंथनी शोध करे छ, ने तेने ते निभ्रंथने नेटो यध न्दथ, तो ते तेभने ते पात्र  
 आपी हे छ पथु ने ते साधु तेने भजेव्व नही तो ते पोते ते पात्रने उपयोग  
 करी शकतो नथी अने ते साधु सिवायना णील कोष पथु साधुने ते पात्र ते  
 आपी शकतो नथी. कारणुके तेम करवाभां तेने अइत्तादानने कोष लागे छ 'सेसं तं  
 चेव जाव परिद्वावेयव्वे सिया' पथु पिण्डपात प्रकरणभां क्वा अनुसार तेणे ते  
 पात्रने अकान्त, भासुभ्यना अपरव्वर विनानी, अचित्त अने बहुप्रासुक भूमिभा-ते





हे आयुष्मन् ! एक संस्तारकं स्वयमुपभुङ्क्ष्व, न च च संस्तारकान् स्थविरेभ्यो देहि, स खलु निर्ग्रन्थः तान् स्थविरसंस्तारकान् प्रतिगृह्णीयात्, स्थविराश्च तस्य निर्ग्रन्थस्य अनुगवेषयितव्याः स्युः, यत्रैव अनुगवेषयन् स्थविरान् पश्येत् तत्रैव अनुप्रदातव्याः स्युः, नो चैव खलु अनुगवेषयन् स्थविरान् पश्येत् तदा तान् न च स्थविरसंस्तारकान् नो आत्मना स्वयमुपभुञ्जीत, नो वा अन्येभ्यो दद्यात्, दापयेद्वा, अपितु एकान्ते अनापाते अचित्त बहुप्रासुके, स्थण्डिले प्रतिलेख्य प्रमार्ज्य परिष्ठापयितव्याः स्युः, एवं गुच्छके रजोहरणे चोलपट्टके, कम्बले, यष्टौ चालापकाः स्वयमूहनीयाः, यथा-गुच्छकालापकाः-

संस्तारकों द्वारा उपनिमन्त्रित करता है, यावत् हे आयुष्मन् ! एक संस्तारक का आप अपने लिये उपयोग करना और नौ संस्तारकों को स्थविरों के लिये देना । अब यह निर्ग्रन्थ उन स्थविर संस्तारकों को ले लेता है । और वहां से अपने स्थान पर आकर उन स्थविरों का अन्वेषण करता है, जहां उसे वे मिल जाते हैं वहां पर वह उन्हें दे देता है । अन्वेषण करने पर भी यदि स्थविर उसे नहीं मिलते हैं तो वह उनके निमित्त दिये गये नौ संस्तारकों को न अपने काममें लेता है और न उन्हें अन्य साधुओं को ही देता है न दिलवाता है, किन्तु एकान्त, अनापात, अचित्त, बहुप्रासुक स्थण्डिल में प्रतिलेखना और प्रमार्जना करके परिष्ठापित कर देता है । इसी तरह से आलापक गुच्छक, रजोहरण, चोलपट्टक, कम्बल और यष्टि इनके विषय में भी समझ लेना चाहिये । जैसे-गुच्छकालाप इस प्रकारसे है-गुच्छक प्राप्ति की इच्छा

संस्तारक आपे छे अने ओतु छडे छे डे हे आयुष्मन् ! ओक संस्तारकना आप उपयोग करले अने भाडीना ओक, ओ ओम नव पथे-तना संस्तारक असुक साधुने आपी देशा. त्पार भाड ते स्थविरा [साधुओ] माटेना संस्तारक। लधने ते पेताने स्थाने नथ छे अने ते साधुओनी शोध करे छे जे तेओ तेने मणी नथ, तो पैला गृहस्थे तेमने आपवा निमित्त आपेला संस्तारके तेमने आपी दे छे पथु जे ते साधुओना लेटा न न थाय तो तेले पोते तेना उपयोग करवा लेधओ नही, अने ते साधुओ सिवायना अन्य डाध साधुने ते संस्तारक आपवा लेधओ नही तेले तो तेमने ओकान्त, अनापात [अवर नवर [वनानी] अचित्त, बहुप्रासुक भूमिमा, प्रतिलेखना अने प्रमार्जना करीने ते पात्रेने परठवा लेधओ गोमछा, रजोहरण, चोलपट्टक, कम्बल अने हंड विषे पथु आ प्रकारना आलापके समझ लेवा जेभडे गुच्छकालापना आलापक आ प्रभाणे अनशे-

निर्ग्रन्थं च खलु गृहपतिकुलं गुच्छकपातमतिज्ञया अनुपविष्टं पश्चिद् गृह-  
पतिः यावत्-दशमिः गुच्छकैः उपनिमन्त्रयत् हे आयुष्मन् ! एकं गुच्छकं  
स्वयमुपसृजन्स्व, नव च गुच्छकान् स्वयिरेभ्यो दद्वि, स तान् मन्त्रिगुच्छकान्  
प्रविष्टुं शीयात् स्वयिरौ भवानुगतपपत्, नोचेत् तान् पश्येत् तदा तद् गुच्छकान्  
एकान्तप्रदेशे परिष्ठापयेत्, इत्यादिरीत्या रजोहरणादेरपि विज्ञेयम् ॥ मृ० २ ॥

निर्ग्रन्थैरावकृता वक्तव्यता

मूलम्-निर्ग्रन्थेण य गाहावइकुल पिंडवायपडियाय पविष्टेणं  
-अश्वयरे अकिचट्टाणे पडिसेविष्, तस्स ण एव भवइ-इहेव  
ताव अह एयस्स ठाणस्स आलोपमि, पडिकम्मामि, निंदामि,  
गरिहामि, विउट्टामि, विसोहेमि, अकरणयाय अचमुट्टेमि आ

से कोई निर्ग्रन्थ किसी गृहस्थ के घर पर गया हो तो उसे देखकर  
कोई दूसरा गृहस्थ उसे यावत् दश गुच्छकों द्वारा उपनिमन्त्रित करे  
कहे हे आयुष्मन् ! एक गुच्छक तुम अपने उपयोग में लेना और  
पाकी के ये नौ गुच्छक तुम अन्य स्वयिरो को दे देना । अब यह  
उन स्वयिरो के नौ गुच्छकों को ले लेता है और लेकर अपने स्थान  
पर आकर उन स्वयिरो की वह गवेषण करता है-तन्नाश करने  
पर यदि वे मिस्र जाते हैं तो यह उनके लिये उन्हें दे देता है और  
याव नहीं मिलत हैं तो यह उन नौ गुच्छकों को यावत् किसी  
एकान्त प्रदेशमें परिष्ठापित कर देता है । इस रीति से रजोहरणादि  
के विषय में भी ऐसा ही कथन जानना चाहिए ॥ सू २ ॥

इति अथो निर्ग्रन्थं ज्ञानान्तरात् प्राप्तिने भवेत् इति ज्ञेयं ब्रह्मरूपेण त्वां ज्ञायते इवे  
तेने अथ गृहस्थे ज्ञेयं ज्ञानं आपीने ज्ञेयं इति इति ज्ञेयं ज्ञानं  
ज्ञानं आप शक्ति, वीजे अथुं साधुने आपी देते। पछी ते साधुने आपवाने  
ज्ञानं लभने ते पिताने स्थाने पाछे करे छे पछी शोध इत्या ते साधुने मणी ज्ञेय  
ता तेजे ते ज्ञानं तेने आपी देवे। ज्ञानं पद्य ज्ञे ते साधु तेने मने नही के  
तेजे ते ज्ञानं पिताना उपनिमन्त्रां न देवे। ज्ञानं ज्ञे ज्ञानं आपने ज्ञानं पद्य  
नही पद्य तेजे तेने ज्ञानं ज्ञानं विष्टेपद्ये। पद्यी कृमिमां पूर्वज्ज्व रीते पद्यी देवे  
ज्ञानं, पद्यी लभने इति ज्ञानं आपवा विष्टेता ज्ञानं पद्यी पद्य उरर सुवज्ज  
समवत्ता इति इति पद्ये विष्टेता ज्ञानं पद्य ज्ञानं प्रमाद्ये। समवत्ता ॥ सू २ ॥

हारिहं पायच्छित्तं तवोकम्भं पडिवज्जामि, तओपच्छा थेराणं  
 अंतियं आलोएस्सामि, जाव तवोकम्भं पडिवज्जिस्सामि, सेय  
 संपट्टिओ असंपत्ते थेराय पुव्वामेव अमुहा सिया, से णं भंते !  
 किं आराहए विराहए ? गोयमा ! आराहए, नो विराहए ?,  
 सेय संपट्टिए असंपत्ते अप्पणावपुव्वामेव, अमुहासिया, सेणं  
 भंते ! किं आराहए, विराहए ? गोयमा ! आराहए, नो विरा-  
 हए २, सेय संपट्टिए असंपत्ते अप्पणा य पुव्वामेव थेराय कालं  
 करेज्जा, से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ? गोयमा !  
 आराहए, नो विराहए ३, से य संपट्टिए असंपत्ते अप्पणा य  
 पुव्वामेव कालं करेज्जा, से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ?  
 गोयमा ! आराहए, नो विराहए ४, से य संपट्टिए संपत्ते  
 थेराय अमुहासिया, से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ?  
 गोयमा ! आराहए, नो विराहए, से य संपट्टिए संपत्ते  
 अप्पणाय, एवं संपत्तेण वि चत्तारि आलावगा भाणियव्वा  
 जहेव असंपत्ते णं, निग्गंथे ण य वहिया वियारभूमिं  
 वा, विहारभूमिं वा निक्खंते णं अन्नयरे अकिच्चट्टाणे  
 पडिसेविए, तस्स णं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एवं एत्थ वि  
 एते चेव अट्ट आलावगा भाणियव्वा जाव नो विराहए, निग्गं  
 थं ण य गोमाणुगामं दूइज्जमाणेणं अन्नयरे अकिच्चट्टाणे  
 पडिसेविए तस्स णं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एत्थ वि ते चेव  
 अट्ट आलावगा भाणियव्वा, जाव नो विराहए, निग्गंथीए य

गाहावइ कुल पिडवायपडियाए अणुपविट्ठाए अन्नयरे अकि  
 घट्टाणे पडिसेविए तीसे ण एव भवइ, इहेव ताव अह  
 पयस्स ठाणस्स आलोएमि जाव तवोकम्म पडिवज्जांम, त  
 ओ पच्छा पवत्तिणीए अतिय आलोएस्सामि जाव पडिवज्जि  
 स्सामि, साय सपट्टियां अमपत्ता पवत्तिणीय अमुहा सिया,  
 सा ण भते ! किं आराहिया विराहिया ? गोयमा ! आराहिया,  
 नो विराहिया, सा य सपट्टिया जहा निग्गथस्स तिस्सिगमा भणिया,  
 एवं निग्गथीएवि तिस्सि आलावगो भाणियद्वा, जाव आराहिया,  
 नो विराहिया, से केणट्टेण भते ! एव बुच्चइ—आराहए, नो  
 विराहए ? गोयमा ! से जहानामए—केइपुरिसे एग मह उआ  
 लोम वा, गयलोम वा, सणलोमं वा, कप्पासलोम वा, तण  
 सुय वा, दुहा वा, तिहा वा, सखेज्जहा वा छिंदित्ता अगणिकायसि  
 पक्खिवेज्जा, से णूण गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे  
 पक्खिस्से, दज्जमाणे द्द्वेत्तिवत्तव सिया ? हता, भगव ! छिज्ज  
 माणे छिन्ने जाव द्द्वेत्ते सि वत्तव सिया, से जहा वा केइ पुरिसे  
 वत्य अहत वा, धोत वा, संतुग्गय वा मज्जिटा दोणीए पक्खि  
 वेज्जा, से णूण गोयमा ! उक्खिप्पमाणे उक्खिस्से, पक्खिप्पमाणे  
 पक्खिस्से द्द्वज्जमाणे द्द्वेत्ति वत्तव सिया ! हता, भगव ! उक्खि  
 प्पमाणे उक्खिस्से जाव द्द्वेत्ति वत्तव सिया, से तेणट्टेण गोयमा !  
 एव बुच्चइ—आराहए, नो विराहए ॥ सू० ३ ॥

छाया-निर्ग्रन्थेन च गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टेन अन्यतरद्  
अकृत्यस्थानं प्रतिसेवितम्, तस्य खलु एवं भवति-इहैव तावत् अहम् एतस्य  
स्थानस्य आलोचयामि, प्रतिक्रमामि, निन्दामि, गर्हे, वित्रोटयामि, विशोधयामि,  
अकरणतया अभ्युत्तिष्ठामि, यथाहं प्रायश्चित्त तपःकर्म प्रतिपद्ये, ततः पश्चात्  
स्थविराणाम् अन्तिकम् आलोचयिष्यामि यावत् तपःकर्म प्रतिपत्स्ये, स च

निर्ग्रन्थाराधकतावक्तव्यता-

‘ निगमंथेण य ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ :- ( निगमंथेण य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए पविष्टेणं  
अन्नयरे अकिञ्चद्वाणे पडिसेविए, तस्स णं एवं भवइ ) किसी गृहस्थके  
घर पर आहार ग्रहण करनेकी इच्छासे प्रविष्ट हुए निर्ग्रन्थके द्वारा  
कोई एक अकृत्यस्थानका प्रतिसेवन हो गया हो-पीछे उक्त निर्ग्रन्थ  
के मनमें ऐसा विचार आवे-(इहैव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि,  
पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, विउट्टामि, विसोहेमि, अकरणयाए,  
अव्युट्ठेमि, आहारियं पायच्छित्त तवोकम्मं पडिवज्जामि ) मैं यहीं पर  
पहिले इस अकृत्यस्थानके प्रतिसेवनकी आलोचना करलू, प्रतिक्रमण  
करलू निंदा और गर्हा करलू इसके अनुबंधनको छेदू, विशुद्ध  
प्रायश्चित्त तपकर्मको स्वीकार करू ( तओ पच्छा थेराण अंतिए  
आलोएस्सामि ) इसके बाद मैं स्थविरोंके पास आलोचना कर लूंगा

निश्चयाराधकता वक्तव्यता-

‘ निगमंथेण य ’ इत्यादि -

सूत्रार्थ :- ( निगमंथेण य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए पविष्टेणं अन्नयरे  
अकिञ्चद्वाणे पडिसेविए, तस्स णं एवं भवइ ) कौंठ गृहस्थने घर आहार प्राप्तिनी  
पछाथी गयेला निश्चय द्वारा कौंठ ओठ अकृत्य स्थाननु प्रतिसेवन थई जय अने  
त्यार आठ ते निश्चयना भनूमा जेवे विचार आवे डे ( इहैव ताव अहं एयस्स  
ठाणस्स आलोएमि, पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, विउट्टामि, विसोहेमि,  
अकरणयाए, अव्युट्ठेमि, आहारियं पायच्छित्त तवोकम्मं पडिवज्जामि ) हुं अहाँ  
पडिसेवा ते अकृत्यस्थानना प्रतिसेवननी आलोचना करी लई, प्रतिक्रमण करी लई, निंदा  
अने गर्हा करी लई, तेना अनुबंधने छेदी नाथु, विशुद्धि करी लई, आगण जेवु न  
( तओ पच्छा थेराणं अंतिए आलोएस्सामि ) त्यार आठ हुं स्थविरोंनी पासे तेनी

संप्रस्थितः असमाप्तः, स्पष्टिराम पूर्वमेव अमुखाः स्युः स खलु मदन्त ! किम् आराधकः, विराधकः ? गौतम ! आराधकः नो विराधकः स च संप्रस्थितः असमाप्तः आत्मना वा पूर्वमेव अमुखाः स्यात्, स खलु मदन्त ! किम् आराधकः विराधकः ? गौतम ! आराधकः ना विराधकः २, स च संप्रस्थितः असमाप्तः

( जाय तथो कम्म पडिबज्जिस्सामि ) यावत्, तपकर्म स्वीकार कर्त्तव्या । ( सेय संपट्टिमो असंपत्ते येराय पुब्बामेव अमुहा सिया से ण भते । कि आराहए विराहए ) ऐसी भावनासे युक्त बना हुआ वह निर्ग्रन्थ स्पष्टिरेकि पास आनेके लिये वहाँसे चले-और उसके आनेके पहिले वे स्पष्टि यासादि विकारको लेकर बोलने में असमर्थ बन जावे- प्रायश्चित्त नहीं देखके तो हे मदन्त ! वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक है ? ( गौयमा ) हे गौतम ! ( आराहए नो विराहए ) वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विराधक नहीं है । ( सेय संपट्टिए असंपत्ते अप्पणावपुन्वामेव अमुहा सिया-सेण भते ! कि आराहए विराहए ) हे मदन्त ! वह निर्ग्रन्थ स्पष्टिरेकि पास आनेके लिये वहाँसे चले और स्पष्टिरेकि पास पहुँचनेके पहिले वह मूक-हो जावे तो ऐसी स्थिति में वह आराधक है या विराधक है ? ( गौयमा ) हे गौतम ! ( आराहए नो विराहए ) वह निर्ग्रन्थ आराधक है विराधक नहीं है । ( सेय संपट्टिए असंपत्ते अप्पणा य पुब्बामेव येराय कालं

आवेवन्त इति लक्ष्य ( जाय तथो कम्म पडिबज्जिस्सामि ) अने तपकर्मना स्वीकार कर्त्तव्या पश्चात्तानी पूर्वोक्त संपत्ती निधि इति लक्ष्य ( से य संपट्टिमो असंपत्ते येरा य पुब्बामेव अमुहा सिया, से ण भते किं आराहए विराहए ? ) आ प्रकाशनी भावनायाः ते निर्ग्रन्थ स्पष्टिरेकि पास आने अटे उपदे छे, पशु ते तेमनी पत्ते पडेयि ते पडेवा तो ते स्वभावसे वात्साहिकारने कालो भूत्त [ ३० ] धं आह छे तथी तेजो तेने प्रकल्पित इत्ये कथय नथी तो छे कथयते ते निर्ग्रन्थे आराधकः अमुहा, के विराधकः ? ( गौयमा ! ) हे गौतम ! ( आराहए नो विराहए ) ते निर्ग्रन्थे आराधकः न इति कथय, विराधकः इति कथय नथी ( से य संपट्टिए असंपत्ते अप्पणावपुन्वामेव अमुहा सिया-से ण भते ! किं आराहए, विराहए ? ) छे कथयते । स्वप्तिरेकि पास आने अटे उपदेयते ते निर्ग्रन्थे पत्ते स्वप्तिरेकि पास आने अटे पडेवा न भूत्त धं नथ, तो ज्येनी स्थितभा तेने आराधकः अवेवाय के विराधकः ! ( गौयमा ! ) हे गौतम ! ( आराहए नो विराहए ) ते निर्ग्रन्थे आराधकः न

आत्मना च पूर्वमेव स्थविराश्च कालं कुर्युः, स खलु भदन्त ! किम् आराधकः  
विराधकः ? गौतम ! आराधकः, नो विराधकः ३, स च संप्रस्थितः असं-  
प्राप्तः आत्मना च पूर्वमेव कालं कुर्यात्, स खलु भदन्त ! किम् आराधकः,  
विराधकः ? गौतम ! आराधकः, नो विराधकः ४, स च संप्रस्थितः संप्राप्तः  
स्थविराश्च अमुखाः म्युः, स खलु भदन्त ! किम् आराधकः, विराधकः ?

करेज्जा, से णं भंते ! किं आराहए विराहए) हे भदन्त ! स्थविरोंके  
पास जानेके लिये वहाँ से वह निर्ग्रन्थ चले और उसके पहुँचनेके  
पहिले यदि वे स्थविरकाल कर जाते हैं तो क्या वह निर्ग्रन्थ आरा-  
धक है या विराधक है ? (गोयमा) हे गौतम ! (आराहए नो  
विराहए) वह निर्ग्रन्थ आराधक है विराधक नहीं । ( से य संपट्टिए  
असंपत्ते अप्पणाय पुञ्चामेव कालं करेज्जा-से णं भंते । किं आराहए  
विराहए ? हे भदन्त ! स्थविरों के पास प्रायश्चित्तादि लेने के निमित्त  
वहाँ से चला हुआ वह निर्ग्रन्थ यदि स्थविरों के पास पहुँचने से  
पहिले ही काल कर जाता है-तो क्या वह आराधक है या विराधक  
है ? (गोयमा ! आराहए नो विराहए) हे गौतम ! वह आराधक है  
विराधक नहीं । (से य संपट्टिए संपत्ते येरा य अमुहासिया से णं  
भंते ! किं आराहए विराहए) हे भदन्त ! वह निर्ग्रन्थ स्थविरों के  
पास वहाँ से चले और उसके पहुँचते ही वे स्थविर यदि भूक हो  
जाते हैं तो वह निर्ग्रन्थ आराधक है या विराधक है ? (गोयमा)

इहेवाय, विराधक इहेवाय नही. (सेय सपट्टिए असंपत्ते अप्पणा य पुञ्चामेव येरा य  
कालं करेज्जा, से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ) हे भदन्त ! स्थविरानी  
पासे जवाने ते निर्ग्रन्थ उपडे छे पणु तेमनी पासे पडोय्या पडेला ते स्थविर कण करी  
जय छे, तो ते निर्ग्रन्थने आराधक इहेवाय के विराधक ? ( गोयमा ! ) हे गौतम !  
( आराहए नो विराहए ) तेने आराधक ज इहेवाय, विराधक न इहेवाय ( से य  
संपट्टिए असंपत्ते अप्पणाय पुञ्चामेव कालं करेज्जा - से णं भंते ! किं  
आराहए, विराहए ? ) हे भदन्त ! स्थविरानी पासे प्रायश्चित्तादि लेवाने भाटे  
नीकवेला ते निर्ग्रन्थ जे स्थविरने पासे पडोय्यता पडेला कण करी जय, तो तेने आराधक  
इहेवाय के विराधक ? (गोयमा ! आराहए नो विराहए ) हे गौतम ! तेने  
आराधक ज इहेवाय, विराधक इहेवाय नहीं ( से य संपट्टिए संपत्ते येराय अमुहा  
सिया-सेणं भंते किं आराहए विराहए ? ) हे भदन्त ! ते निर्ग्रन्थ स्थविरानी  
पासे पडोय्यी जय, पणु ते त्या पडोय्यतां ज स्थविर भूक थरि जय, तो तेने आराधक



गौतम ! आराधक, नो विराधक, स च सप्तस्थितः समाप्तः आत्मना च,  
 एवं समाप्तेनापि चत्वार आलापकाः भगितव्याः, पर्यैव असंप्रप्त्येन, निर्ग्र  
 न्वेन च गृहिः विचारभूमि वा निष्कारात्तेन अन्यतरद् अकृत्यस्थान प्रतिसेवितम्,  
 तस्य खलु एव भवति-इहैव तावद् अहम् एवम् अप्रापि एते चैव अष्ट आलापकाः  
 हे गौतम ! (आराधए नो विराधए) वह निर्ग्रन्थ आराधक है, विरा  
 धक नहीं। (से य सपट्टिप सपत्ते अप्पणा य, एवं सपत्तेण वि चत्वारि  
 आलापका भाणियव्वा अहेय असपत्तेण) वह निर्ग्रन्थ स्थिरी के पास  
 जावे और पहुँचते ही वह मूक हो जावे तो ऐसी स्थिति में वह निर्ग्रन्थ  
 आराधक है या विराधक ? इत्यादि समाप्तके चार आलापक असंमाप्तक  
 चार आलापकों की तरह कह लेना चाहिये ? (जिग्गयेण य वहिया वि  
 चारभूमि वा विहारभूमि वा निक्सत्तेण अन्नपरे अक्किच्चद्वाणे पडिसेविए  
 तस्सण एव भवद्-इहेय ताव अह एव एत्थ वि एए चैव अष्ट आला  
 पका भाणियव्वा जाव नो विराधए) किसी निर्ग्रन्थ ने बाहर नीहार  
 भूमि की ओर अथवा विहार भूमि की ओर जाते हुए किसी एक  
 अकृत्य स्थान का प्रतिसेवन कर लिया हो याद में उसके मन में  
 ऐसा विचार आवे कि मैं पहिले यहीं पर इस अकृत्यस्थान की  
 आलापना आदि कर इत्यादि पहिले की तरह यहाँ पर भी वे ही  
 आठ आलापक कहना चाहिये, यावत् वह निर्ग्रन्थ विराधक नहीं है।

हेवाय ३ विराधक ! (गोपमा ! आराधए नो विराधए) हे गौतम ! तेने  
 आराधक व जलाम विराधक जलाम नहीं। (सेय सपट्टिप सपत्त अप्पणा य, एवं  
 सपत्तेण वि चत्वारि आलापका भाणियव्वा अहेय असपत्तेण) ते निर्ग्र  
 स्थाविशानी पास पहुँचता व मूक वध बन, तो तेने आराधक हेवाय ३ विराधक !  
 अथ सीते त्वा असंप्रप्त (न पहुँचिता) निर्ग्र य विवेगु जेवा अर आलापके अवाप  
 आन्था छ जेवा व अर आलापके संप्रप्त (त्वा पहुँचिता) निर्ग्र य विवेक पव हेवा  
 न्हि। (जिग्गयेण य वहिया विचारभूमि वा विहारभूमि वा निक्सत्तेण  
 अन्नपरे अक्किच्चद्वाणे पडिसेविए तस्सण एवं भवद्-इहेय ताव अह एव एत्थ  
 वि एए चैव अष्ट आलापका भाणियव्वा जाव नो विराधए) हे निर्ग्रन्थ ने बाहर  
 नीहारभूमि तक अथवा विहार भूमि तक जाता हो अकृत्यस्थाननु प्रतिसेवन  
 करी नापु त्वा वर आर तेना मनमा जेना विचार आवे छ हे छ पहुँचता नहीं व ते  
 अकृत्यस्थाननी आलापना आदि करी नहीं सही पव आजण सुत्तु अठ आलापक  
 हेवा जेवा ते निर्ग्रन्थ विराधक न जलाम, त्वा सुधीनु समस्त ध्यान लब्धी अकव

भणितव्याः, यावत् नो विधांस्कः, निर्ग्रन्थेन च ग्रामानुग्रामम् द्रवता अन्यतरद् अकृत्यस्थानं प्रतिसेवितम्, तस्य खलु एवं भवति-इहैव तावत् अहम्-अत्रापि ते चैव अष्ट आलापकाः भणितव्याः, यावद् नो विराधकः, निर्ग्रन्थी च गृहपतिकुलं पिण्डपातप्रतिज्ञया अनुप्रविष्ट अन्यतरद् अकृत्यस्थानं प्रतिसेवितम्, तस्याः खलु एवं भवति-इहैव तावद् अहम्-एतस्य स्थानस्य आलोचयामि, यावत् तपःकर्म प्रतिपद्ये, ततःपश्चात् प्रवर्तिन्याः अन्तिकम् आलोचयिष्यामि यावत् प्रतिपत्स्ये, सा च संप्रस्थिता असंप्राप्ता, प्रवर्तिनी च अमुखा स्यात्,

(निर्ग्रन्थेण य गामाणुगामं दूइज्जमाणेणं अन्नयरे अक्किच्चट्टाणे पडिसेवि ए तस्सणं एवं भवइ, इहेव ताव अहं एत्थ वि एएचेव अट्ट आलावगा भाणियव्वा जाव नो विराहए) ग्रामानुग्राम विहार करते समय किसी निर्ग्रन्थ ने किसी एक अकृत्यस्थान का प्रतिसेवन कर लिया है वे बाद में उसके मनमें ऐसा विचार आजावे कि मैं यहीं पर पहिले उसी आलोचना आदि कर लू-इत्यादि पहिले की तरह यहाँ पर भी ये ही आठ आलापक कहना चाहिये यावत् वह निर्ग्रन्थ विराधक नहीं है। (निर्ग्रन्थीए य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुपविट्टाए अन्नयरे अक्किच्चट्टाणे पडिसेवि ए-तीसेणं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि. जाव तवोकम्मं पडिवज्जामि, तओ पच्छा पवत्तिणीए अतियं आलोएस्सामि, जाव पडिवज्जिस्सामि) किसी साध्वी के द्वारा आहार ग्रहण करने की इच्छा से गृहपति के घर में प्रवेश करते हुए किसी अकृत्यस्थान प्रतिसेवन हो गया होवे

करवुं (निर्ग्रन्थेण य गामाणुगामं दूइज्जमाणेणं अन्नयरे अक्किच्चट्टाणे पडिसेवि ए -तस्स णं एवं भवइ, इहेव ताव अहं एत्थ वि एए चेव अट्ट आलावगा भाणियव्वा जाव नो विराहए) ग्रामानु ग्राम विहार करता कोई एक निर्ग्रन्थ द्वारा कोई एक अकृत्य स्थाननु प्रतिसेवन थप गयुं होय अने तार भाद तेने ओवे। विचार थाय डे हु अहींज पहिला तेनी आलोचयना आदि करी लठिं अही पणु आगण सुवण्ण आठ आलापकेतुं कथन करवुं नेपथ्ये. ते निर्ग्रन्थे विधांस्कं कडेवाय नही, त्यां सुधीनुं समस्त कथन ग्रहण करवुं (निर्ग्रन्थीए य गाहावइकुलं पिण्डवाय-पडियाए अणुपविट्टाए अन्नयरे अक्किच्चट्टाणे पडिसेवि ए-तीसेणं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि जाव तवोकम्मं पडिवज्जामि, तओ पच्छा पवत्तिणीए अतियं आलोएस्सामि, जाव पडिवज्जिस्सामि) आहार प्राप्तिनी धन्धाथी को गृहस्थने घेर गयेला को साध्वी द्वारा को अकृत्यस्थाननु प्रतिसेवन थप

सां खलु मदन्त ! किम् आराधिका विराधिका ? गौतम ! आराधिका नो विराधिका, साच समस्थिता यया निर्ग्रन्थस्य प्रयो गमा मणिता एवं निर्ग्रन्थ्या अपि प्रय आछापका मणितम्या यावत् आराधिका, नो विराधिका, तव

और बाद में उसके मनमें ऐसा विचार आजावे कि मैं पहिले यहीं इस अकृत्यस्थानकी आलोचना करूँ यावत् तपकर्म को स्वीकार करूँ— इसके बाद प्रवर्तिनी के पास बृद्ध साध्वी के समीप—आलोचना करूँगी यावत् तपकर्म को स्वीकार करूँगी ऐसा विचार कर (सा य सप द्विया असंपत्ता पश्चिणी य अमुहा सिया) वह साध्वी प्रवर्तिनी के लिये वहाँ से चल दे, इसके वहाँ पहुँचने के पहिले यदि वह प्रवर्तिनी मूक हो जाती है तो (सा ण भंते । कि आराधिया विराधिया) हे मदन्त ! वह साध्वी आराधक होगी या विराधक होगी ? (गोयमा) हे गौतम ! (आराधिया नो विराधिया) वह साध्वी आराधक है विराधक नहीं । (जहा निर्गन्थस्स तिभिगमा मणिता, एव निर्गन्थीए वि तिभि आछापगा भाणियम्या जाव आराधिया नो विराधिया) जिस प्रकार से निर्ग्रन्थ के तीन आछापक कहे हैं उसी तरह स साध्वीके भी तीन आछापक कहना चाहिये ! यावत् वह आराधक है

गणु वेव जने त्वाए जाइ तेना मनभां वेवे विचार जाव हे हे पदेवा ज्ही ए जा अकृत्यस्थानकी आलोचना करि करी वरुँ (ज्ही तपकर्मने स्वीकार करी वरुँ त्वा सुधीभां सधवां परो मदणु करवा) त्वाए जाइ प्रवर्तिनी पासे (पुं साध्वीएकी पासे) आलोचना करि करी वरुँ। (ज्ही पणु तपकर्मने स्वीकार करीए त्वां सुधीएव पूनाइए पदेने मदणु करवा नेण्णे) एव पभावे विचार करीने(सा य संपद्विया असंपत्ता पश्चिणि य अमुहा सिया) ते साध्वीए ते प्रवर्तिनी पासे जवाने नीके से पणु ते तेभनी पासे पदेके ते पदेवां ए ते प्रवर्तिनी मूक (मूक) वरुँ जाव से, तो (साणं मते ! कि आराधिया विराधिया?) हे मदन्त ! ते साध्वीए आराधक ज्हाव हे विराधक ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (आराधिया नो विराधिया) ते साध्वीएने आराधक ए कही यथाय, विराधक कही यथाय नही। (जहा निर्गन्थस्स तिभि गमा मणिता, एव निर्गन्थीए वि तिभि आछापगा भाणियम्या जाव आराधिया नो विराधिया) त्वाए जाव निर्ग्रन्थना जणु आछापक नेवा ए साध्वीएव पणु मणु आछापक इवेना नेण्णे। 'तेने आराधक ए इदेषव विराधक नही त्वां सुधीनुं पूनाइए अमरत इवन ज्ही पणु मदणु करवुं नेण्णे। (से वेण्णहेणं मते !

केनाथन भदन्त ! एवमुच्यते-आराधकः, नो विराधकः ? गौतम ! तत् यथा नाम-कश्चित् पुरुषः एकं महत् ऊर्णालोमवा, गजलोमवा, शणलोमवा, कार्पासलोमवा, वृणसूत्रंवा द्विधा वा, त्रिधावा, संख्यातधावा छिन्त्वा अग्निकाये प्रक्षिपेत्, तत्तून गौतम ! छिद्यमानं छिन्नं, प्रक्षिप्यमाणं प्रक्षिप्तं, दह्यमानं दग्धमिति वक्तव्यं स्यात् ? हन्त, भगवन् ! छिद्यमानं छिन्नं यावत् दग्धमिति

विराधक नहीं । (से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चह आराहए नो विराहए) हे भदन्त । ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि ये सब आराधक हैं विराधक नहीं । (गोयमा) हे गौतम ! (से जहा नामए केइ पुरिसे एगं महं उन्नालोमं वा, गयलोमं वा, सणलोमं वा, कप्पासलोमं वा, तणसूयं वा, दुहा वा, तिहा वा, संखेज्जहा वा छिदित्ता अगणिकायंसि पक्खिवेज्जा-से पूणं गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दज्जमाणे दइडेत्ति वत्तव्वंसिया) जैसे कोई पुरुष एक बड़े भारी ऊनके, हाथी के रोमके, शण के रेसा के, कपासके रेसाके वृण के अग्र भागके दो-तीन या असंख्यात टुकड़ा करके उन्हे अग्निमें डाल दे तो हे गौतम ! वे टुकड़े जिस समय छिद रहे होते हैं उस समय ये छिद चुके हैं, अग्नि में डाले जा रहे होते हैं तब ये डाले जा चुके हैं और जब जल रहे होते तब जल चुके ऐसा कहा जाता है न ? (हता, भगवं ! छिज्जमाणे छिन्ने, जाव दइडेत्तिवत्तव्वं

एवं बुच्चइ, आराहए नो विराहए ? हे भदन्त ! आप था करणे ऐवुं क्कहा छे के त्थे। अथा विराधक नथी पणु आराधक न्छे ? (गोयमा ! ) हे गौतम ! (से जहा नामए केइ पुरिसे एगं महं उन्नालोमं वा गयलोमं वा, सणलोमं वा, कप्पासलोम वा, तणसूयं वा, दुहा वा, तिहा वा, संखेज्जहावा छिदित्ता अगणिकायंसि पक्खिवेज्जा-से पूणं गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दज्जमाणे दइडेत्ति वत्तव्वं सिया) न्भट्टे द्वाए अक पुरुष अक धणु भोटा भिनना रेसाना, हाथीना रेसना. कपासना रेसाना अथवा वृणना अथवागता छे, त्रणु अथवा अस अथ टुकडा करीने तेभने अग्निमा नाथी हे, तो हे गौतम ! न्यारे ते टुकडाओ छेदाता होय त्थारे छेनाए युक्था छे अेभ इहेवाय छे के नही ? न्यारे तेभने अग्निमा नाथवाभा आवता होय त्थारे तेभने अग्निमा नाथी हेवाभा आव्ता छे अेभ इहेवाय छे के नही ? न्यारे तेओ भणता होय, त्थारे भणी गया छे अेभ इहेवाय छे के नही ? ( हंता, भगवं ! छिज्जमाणे छिन्ने जाव दइडेत्ति वत्तव्वं सिया ) हा भगवान् ।

वक्तव्य स्यात्, उद्यथा वा कश्चित् पुरुषो वक्तुम् अर्हत्वा, धीत वा, तन्तुगत वा, मञ्जिष्ठाद्रोग्यां मसिपेत, तत्तूनं गौतम ! उत्सिष्यमाणम्, उत्सिष्यम्, मसिष्यमाय मसिष्यम्, रज्यमान रक्तमिति वक्तव्य स्यात् ! इन्त, मगधान् ! उत्सिष्यमाणम् क्त्सिष्यम्, यावत् रक्तमिति वक्तव्य स्यात्, एत् तेनार्येन गौतम ! एवमुच्यते-  
आराधको नो विराधक ॥ ६ ३ ॥

सिया) हां, मदन्त ! छिदते हुए को छिद गया, यावत् जलते हुए को जल गया कहा जाता है । (से जहा वा केइ पुरिसे वत्थं अर्हतं वा, धीतं वा, तन्तुगत वा मञ्जिष्ठा द्रोणीण पक्खिषेज्जा, से णूण गायमा ! उक्खिष्यमाणे उक्खिष्से, पक्खिष्यमाणे पक्खिष्से, रज्यमाणे रत्तेसि वक्तव्यं सिया ? इन्ता मगधं ! उक्खिष्यमाणे उक्खिष्से जाव रत्तेसि वक्तव्यं सिया-से तेणट्ठेणं गायमा ! एव बुधइ आराइए, नो विराइए) अथवा कोई पुरुष नहीं घोये हुए या साल के उपर से तुरत घतारे हुए वक्त्र को मंजीठा के रंग की कुडी में डाल दे-तो है गौतम ! ऊंचे से डाला जा रहा वह वक्त्र उसमें डाला जा चुका है, उसमें घुला जा रहा वह वक्त्र घुला जा चुका है और उसमें रंगता हुआ वह वक्त्र रंगा वा चुका है ऐसा कहा जाता है न ? हां, मदन्त ! डाले जाते हुए को डाला गया, यावत् रंगते हुए को रंगा गया ऐसा कहा जाता है । तो इसी कारण से है गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि वह आराधक है विराधक नहीं ।

उद्यताने उद्यथा जयेत्तु जगताने ज्यी जयेत्तु धत्यादि इपि कही अर्थ है. (से अर्हत्वा कइ पुरिसे वत्थं अर्हतं वा, धीतं वा, तन्तुगत वा, मञ्जिष्ठा द्रोणीण पक्खिषेज्जा, से णूण गायमा ! उक्खिष्यमाणे उक्खिष्से, पक्खिष्यमाणे पक्खिष्से रज्यमाणे रत्तेसि वक्तव्यं सिया ? इन्ता, मगध ! उक्खिष्यमाणे उक्खिष्से जाव रत्तेसि वक्तव्यं सिया- से तेणट्ठेणं गायमा ! एव बुधइ आराइए, नो विराइए) अथवा कोई पुरुष नहीं घोयेगा अथवा साल के उपर से तुरत घतारे हुए वक्त्र को मंजीठा के रंग की कुडी में डाल दे-तो है गौतम ! ऊंचे से डाला जा रहा वह वक्त्र उसमें डाला जा चुका है, उसमें घुला जा रहा वह वक्त्र घुला जा चुका है और उसमें रंगता हुआ वह वक्त्र रंगा वा चुका है ऐसा कहा जाता है न ? हां, मदन्त ! डाले जाते हुए को रंगा गया ऐसा कहा जाता है । तो इसी कारण से है गौतम ! मैंने ऐसा कहा है कि वह आराधक है-विराधक नहीं

टीका :- निग्रन्थप्रस्तावात् तस्याराधकतां प्ररूपयितुमाह— 'निगन्थेण य' इत्यादि । 'निगन्थेण य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए पविट्टेणं अन्नयरे अकिच्च ाणे ' गौतमः पृच्छति - निग्रन्थेन श्रमणेन च शब्दस्य पुनरर्थकतया 'निग्रन्थं कश्चित् पिण्डपातप्रतिज्ञया गृहपतिकुलं प्रविष्टं पिण्डादिना उपनिमन्त्रयेत्' इति पूर्वोक्तार्थस्य योजना कर्तव्या, तेन च निग्रन्थेन उपनिमन्त्रितेन गृहपतिकुलं पिण्डपातनिमित्तया आहारग्रहणेच्छया प्रविष्टेन अन्यतरद् एकतमम् अकृत्यस्थानम् अकृत्यस्य कर्तुमयोग्यस्य स्थानम् आश्रयः मूलगुणादि प्रतिसेवा रूपा कार्यस्थानमित्यर्थः प्रतिसेवितम् 'तस्स णं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि, पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, विउट्टामि,' तस्य ग्वल्लु गृहपतिकुलं प्रविष्टस्य सज्जातानुतापस्य निग्रन्थन्य एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण भावना मनसि भवति- इहेव अत्रैव तावत् अहम् एतस्य स्थानस्य एतत्स्थानमित्यर्थं आचार्यनिवेदनेन आलोचयामि,

टीकार्थ—निग्रन्थ के प्रकरण से यहां पर सूत्रकारने उसकी आराधकता की प्ररूपणा की है—इसमें गौतमने प्रभु से ऐसा पूछा है 'निगन्थेण य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए पविट्टेणं अन्नयरे अकिच्च-ट्टाणे पडिसेविए' हे भदन्त ! कोई निग्रन्थ आहार लेने की भावना से किसी गृहपति के घर पर गया । वहां प्रविष्ट हुए उसके द्वारा किसी एक अकृत्य करने के अयोग्य स्थान का मूल गुणादि प्रति सेवारूप अकार्यस्थान का प्रतिसेवन हो गया, अतः 'तस्स णं एवं भवइ, इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि, पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, विउट्टामि' तब उसने ऐसा विचार किया कि मैं पहिले इस अकृत्यस्थान की यहीं पर अरिहन्त सिद्ध साक्षी से

टीकार्थ :- निग्रन्थेन अधिष्ठार आगतो ङोवाथी सूत्रकारे आ सूत्रभा तेनी आराधकतानी प्ररूपयित्वा करी छे आ विषयने अनुलक्षिते गौतम स्वामी भडावीर प्रभुने अवे। प्रश्न पूछे छे :- 'निगन्थेण य गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए पविट्टेणं अन्नयरे अकिच्चट्टाणे पडिसेविए' हे भदन्त ! कोछ अके निग्रन्थ (श्रमण) आहार प्राप्तिना सम्भाथी कोछ गृहस्थने घेर गया. त्या गथेवा ते निग्रन्थ द्वारा कोछ अके अकृत्य स्थाननुं ( न करवा योग्य कार्यतु) - मूलगुणादि प्रतिसेवाइय अकार्य स्थानतु- प्रतिसेवन थर्ष गथु 'तस्सणं एवं भवइ, इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि, पडिक्कमामि, निंदामि, गरिहामि, विउट्टामि' त्यारे तेना मनभां अवे। विचार आये। के हु पहेवां तो आ अकृत्यस्थाननी अंधी अ अरिहंत लगवाननी

मिथ्यादुष्कृतदानेन प्रतिक्रमामि, अकृत्यस्थानस्य कुत्सनेन निन्दामि, गर्हामि  
 गर्हे गर्हणां करोमि शुरु समझे, विप्रोटयामि, तदनुषचं छिन्दमि, ' विसोहेमि,  
 अकरणयाप अन्मुद्देमि, आहारिहं पायच्छित्तं तत्रोक्तम् पडिबज्जामि' विशोभयामि,  
 प्रायश्चित्ताभ्युपगमन पापपद्म प्रसालयामि, भ्रतरभतया पुनरकरणेन अभ्युत्तिष्ठामि,  
 अभ्युत्थितो ममामि, यथाई यथायोग्य यथोचितमित्यर्थः प्रायश्चित्तं तपःकर्म  
 प्रतिपद्ये स्वीकरोमि ' तत्रो पच्छा येराण्य अतिप अत्रोपस्ताणि जाव तत्रोक्तम्  
 पडिबज्जिस्सामि ' ततःपश्चात् तपःकर्म प्रायश्चित्तप्रतिपत्त्यनन्तरम् स्पष्टविराणाम्  
 अन्तिक समीप गत्वा आलोचयिष्यामि आलोचनां करिष्यामि, यावत्-  
 प्रतिक्रमिष्यामि निन्दिष्यामि, गर्हिष्ये, विप्रोटयिष्यामि, विशोभयिष्यामि,

आलोचना कर छ-मिष्यादुष्कृत दकर प्रतिक्रमण कर छ, निंदा कर  
 छ गर्हा कर छ, उसके अनुषच फो छेद द, ' विसोहेमि, अकरणयाप  
 अन्मुद्देमि, आहारिहं पायच्छित्तं तत्रोक्तम् पडिबज्जामि' प्रायश्चित्त  
 लेकर पापपद्म (पीपल) को दूर कर दूँ । 'अप आगे ऐसा नहीं  
 करूँगा' इस प्रकार से मैं अपने आपको तैयार कर छूँ और यथा-  
 योग्य प्रायश्चित्तरूप तपकर्म को स्वीकार कर छूँ । 'तत्रो पच्छा' ऐसा  
 विचार करने के बाद-अर्थात् तपःकर्म प्रायश्चित्त प्रतिपत्ति क अनन्तर  
 वह निर्ग्रन्थ नहीं पर ऐसा विचार करता है कि 'येराण्य अतिप  
 आलोपस्तामि जाव तत्रोक्तम् पडिबज्जिस्सामि' कि मैं फिर अब  
 यहाँ से बरकर स्थिरी के पास जाकर उनसे आलोचना करूँगा,  
 यावत् तपःकर्म स्वीकार करूँगा । यहाँ यावत् शब्द से 'निन्दिष्यामि,  
 गर्हिष्ये, विप्रोटयिष्यामि, विशोभयिष्यामि, अकृत्यस्थानस्य अन्मुत्थितामि',

आलोचने आलोचना करी करे, मिथ्यादुष्कृत दानने तेषु प्रतिबन्ध करी करे निंदा करी  
 करे गर्हा करी करे तेषा अनुपपन्ने छेद नक्षु ' विसोहेमि, अकरणयाप अन्मुद्देमि  
 आहारिहं पायच्छित्तं तत्रोक्तम् पडिबज्जामि ' प्रायश्चित्त करे पापपद्म (पीपल)  
 लेकर ने दूर करी नक्षु अविषयभां जेतुं नक्षी करवाने निश्चय करे जने बधा तेषु  
 प्रायश्चित्त रूप तपकर्मने स्वीकार करे ' तत्रो पच्छा' जेवा विचार करीने-जेहो ते  
 प्रायश्चित्त रूप तपकर्मने स्वीकार करवाने विचार करी पछी- ' येराण्य अतिप आलो-  
 पस्तामि जाव तत्रोक्तम् पडिबज्जिस्सामि ' तेष जेवा विचार करे ते के करे  
 छु स्पष्टविराणी पास करे तेषी समझ जा अकृत्यस्थान प्रतिसेवनने परे आलोचने  
 करी करीश जने प्रायश्चित्त रूप तपकर्मने स्वीकार करीश करी करी पर दाय

अकरणतया अभ्युत्थास्यामि यथाहं प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपत्स्ये 'सेयसंपद्विओ असंपत्त थेराय पुन्वामेव अमुहा सिया' सच अकृत्यसेवी निर्ग्रन्थः संपस्थितः स्थविराणामन्तिके सजीषे आलोचनां कर्तुं निस्पृतः किन्तु असंप्राप्तः गन्तव्य-स्थानपर्यन्तं न गतः अपितु मार्गं एवावतिष्ठते, अथ स्थविराश्च पूर्वमेव अमुखा मुखरहिता वातादिदोषात् निर्वाचः; मूकाः स्युः मूका भवेयुः, 'सेणं भंते ! किं आराहए, विराहए ?' हे भदन्त ! स खलु निर्ग्रन्थः श्रमणः किम् आराधकः स यमाराधको भवति विराधको वा ? तस्य आलोचनादिपरिणामे सत्यपि आलोचनादि करणाभावत् इति प्रश्नः ? भगवानाह— 'गोयमा ! आराहए, नो विराहए' हे गौतम ! स निर्ग्रन्थः आराधको भवति, नो

यथाह प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपत्स्ये' इस पाठ का संग्रह हुआ है । 'से य संपद्विओ असंपत्ते थेराय पुन्वामेव अमुहा सिया' इस प्रकार के विचार वाला वह अकृत्यसेवी निर्ग्रन्थ वहाँ से स्थविरों के पास आलोचना करने के लिये चल देता है—किन्तु जहाँ उसे पहुँचना चाहिये था, वहाँ तक वह नहीं पहुँच पाया—किन्तु मार्गमें ही वह था कि इतने में वे स्थविर वातादि दोष से मूक बन जाते हैं 'सेणं भंते ! किं आराहए विराहए' अतः उसे प्रायश्चित्त आदि दे नहीं सकते हैं—तो ऐसी स्थिति में वह निर्ग्रन्थ हे भदन्त ! आराधक-संग्रम का आराधक होता है या विराधक होता है—अलोचना करने का भाव था परन्तु आलोचना नहीं की ऐसा प्रश्न है उत्तर में प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! 'आराहए नो विराहए' वह निर्ग्रन्थ

निन्दिष्यामि, गर्हिष्ये, वित्रोटयिष्यामि, विशोषयिष्यामि, अकरणतया अभ्युत्था-स्यास्यामि, यथाहं प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपत्स्ये' आ पूर्वोक्त सूत्रपाठ अदृश्य करवासां आव्यो छे. 'से य संपद्विओ असंपत्ते थेराय पुन्वामेव अमुहासिया' आ प्रकारने विचार करीते ते अकृत्य सेवी निर्ग्रथ त्याथी स्थविरानी पासे आलोचना करवा भाटे याही नीकणे छे यणु ते निर्ग्रथ ते स्थविरानी पासे पडोयता पडेता (जेटले छे न्यादे ते इणु मार्गमा नु हुतो त्यादे) ते स्थविर वातादि दोषने धरखे भूङ्गणी नय छे. तेथी तेजो तेने प्रायश्चित्त आदि करावी शकता नथी 'से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ?' तो हे भदन्त ! जेवी परिस्थितिमां ते निर्ग्रथने आराधक ] स यमने आराधक ] कडेवाय छे विराधक कडेवाय ?—आलोचना करवाने लाव हुतो यणु उपर्युक्त स जेजो उमा थवाथी तेनाथी आलोचना थर्ष शकी नहीं तो तेने आराधक कडेवाय छे विराधक ? ते प्रभने उत्तर आपता भडावीर प्रभु कहे छे— 'गोयमा !' हे गौतम !



विराधक ? तथा च आलोचना परिणती सत्यां, कथञ्चिदमाप्तापि आराधकत्वं  
स भवति, परिणामशुद्धेः सद्भावात् ।

‘सेय संपद्विष्ट असपत्ते अप्पणाय पुब्बामेव अमुहे सिया’ स खलु  
निर्ग्रन्थः सप्रभियत् किन्तु असपत्तः, गन्तव्यस्यान न पत्तः आत्मनाच  
स्वयमेव पूर्वमेव अमुन्वः चानादिकारणेन मूकः स्यात् मवेत् ‘सेय मते ।  
किं आराधय विराधय ?’ हे भवन्त ! स निर्ग्रन्थः खलु किम् आराधको  
भवति किं वा विराधको भवति इति प्रश्नः ? मगवानाह—‘गोयमा ! आराधय,  
नो विराधय,’ हे गौतम ! स निर्ग्रन्थः आराधको भवति, नो विराधको  
भवति २) तथा ‘सेय संपद्विष्ट असपत्ते अप्पणाय पुब्बामेव पेराय काम

अमण आराधकही है विराधक नहीं । क्योंकि कि उसके परिणाम शुद्धिकी  
और हैं । अतः आलोचना करनेकी परिणतिका उसमें सद्भाव होनेसे  
कथञ्चित् उस आलोचना की प्राप्ति नहीं होने परभी आराधकता ही  
संभवित्त होती है— विराधकता नहीं ।

‘सेय संपद्विष्ट असपत्ते अप्पणाय पुब्बामेव अमुहे सिया’ अब  
गौतमस्वामी प्रश्नसे चेसा पूछते हैं— हे भवन्त ! वह निर्ग्रन्थ अमण  
स्थविरेकि पास जानेके लिये बहसि चले और चलत २ यदि वह  
पीच ही में मूक होजाये—तो क्या ऐसी स्थिति में वह आराधक है  
या विराधक है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं ‘गोयमा !’ हे  
गौतम ! इस ग्रन्थि में वह अमण निर्ग्रन्थ विराधक नहीं है क्योंकि  
कि उसके परिणाम शुद्धिकी और अग्रसर हो रहे हैं । ‘से य संपद्विष्ट

‘आराधय नो विराधय’ वे निर्ग्रन्थे आराधक न उच्यी शक्य, विराधक इत्येव  
नही शक्ये तेन प्रसिद्धम् सुविनी तश्च ३ तेनाभा आलोचना स्वानी परिशुक्ति  
सद्भावात् केवाभी सन्नेगवत्ता आलोचना नही बरि शक्य छत्ता पत्तु तेन आराधक न  
क्यी शक्य — विराधक क्यी शक्य नही

से य संपद्विष्ट असपत्ते अप्पणाय पुब्बामेव अमुहे सिया’ हे जीतम स्वामी  
पद्धानीर मुकुने जेवा अत्र पूछते ३ ‘हे भवन्त ! ते निर्ग्रन्थ स्थविरेकि पासि जेवा  
पटे रवाना काय, परन्तु स्थविरेकि पासि पठेवत्ता पठेवा भवत्ता न ते मूक नही  
काय, तो जेवी परिशुक्तिमा तेन आराधक इत्येव ३ विराधक ।

उत्तर — ‘गोयमा !’ हे जीतम ! जेवी परिशुक्तिमा तेन आराधक न, इत्येव,  
विराधक इत्येव नही शक्ये तेना परिशुक्ति शुद्धिकी तश्च आरज नही रवां केव जे  
जीतम स्वामीने अत्र ३— ‘से य संपद्विष्ट असपत्ते अप्पणाय पुब्बामेव

करेज्जा' सच निरग्रन्थः संप्रस्थितः किन्तु असंप्राप्तः गन्तव्यस्थानमप्राप्तः आत्मना च स्वयमेव पूर्वमेव स्थविराश्चेत् कालं कुर्युः 'सेणं भंते ! किं आराहए ? विराहए ?' हे भदन्त ! स खलु निरग्रन्थः किम् आराधको भवति, विराधको वा ? भगवानाह— 'गोयमा ! आराहए, नो विराहए' हे गौतम ! स निरग्रन्थः आराधको भवति, नो विराधकः, इ 'सेय संपट्टिए अमंपत्ते अप्पणाय पुव्वामेव कालं करेज्जा, सेणं भंते ! किं आराहए, विराहए ?' सचानगारः संप्रस्थितः किन्तु असंप्राप्तः आत्मना च स्वयमेव पूर्वमेव कालं कुर्यात् स खलु हे भदन्त ! किमाराधको भवति ? विराधको वा भवति ?

असंपत्ते अप्पणाय पुव्वामेव थेराय कालं करेज्जा' अब गौतम प्रभुसे ऐसा पूछते हैं—वह निरग्रन्थ श्रमण वहांसे प्रायश्चित्त आदि ग्रहण करनेके लिये स्थविरोके पास चल दे—परन्तु जब तक वह उनके पास नहीं आपाना है कि इतने में वे स्थविर काल कर जाय—तो 'सेणं भंते ! किं आराहए, विराहए' हे भदन्त ! वह श्रमण निरग्रन्थ आराधक होता है या विराधक होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—'गोयमा' हे गौतम ! वह निरग्रन्थ श्रमण 'आराहए नो विराहए' आराधक होता है, विराधक नहीं । अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं कि—'सेय संपट्टिए असंपत्ते, अप्पणाय पुव्वामेव कालं करेज्जा, सेणं भंते ! किं आराहए, विराहए, यह निरग्रन्थ श्रमण वहांसे तो चल देता है—परन्तु उन स्थविरोके पास आनेसे पहिले यदि उसकी मृत्यु होती है—तो ऐसी हालत में वह आराधक है या विराधक है ? उत्तर में प्रभु

थेराय काल करेज्जा' हे भदन्त ! ते निग्रन्थ आलोचयना आदि क्खवा निमित्ते त्यांथं खाना थाय परन्तु ते स्थविरोनी पासि पडोयता पडेथा स्थविरो काण करी जय तो 'से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ?' हे भदन्त ! ते निग्रन्थ सयमनो आराधक गणाय के विधारेक ?

मडावीर प्रभुने उत्तर :- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'आराहए नो विराहए' ते निग्रन्थने सयमनो आराधक व कडेवाय, विराधक कडेवाय नडी .

गौतम स्वामीने प्रश्न :- 'सेय संपट्टिए असंपत्ते, अप्पणाय पुव्वामेव कालं करेज्जा, से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ?' हे भदन्त ! ते निग्रन्थ आलोचयना आदि क्खवा निमित्ते स्थविरोनी पासि ज्वा माटे खाना थाय छे, परन्तु तेमनी पासि पडोयता पडेथा मार्गमा व काण करी जय छे, तो तेने आराधक कडेवाय के विराधक ?

मगधानाह- ' गौयमा ! आराहए, नो विराहए ' हे गौतम ! स निग्रन्यः  
आराधको भवति, नो विराधको भवति, ४

उक्तम्- ' आलोचना परिणतो, सम्मं सपट्टिओ गुरुसगासे जेरमर  
अतरेषिय, तहापि सुद्धो चि मात्राओ ॥ १ ॥ '

छाया- आलोचना परिणतः, सम्पक् सप्रस्थितः गुरुसकाशे,  
यदि म्रियते अन्तरे शेष, तथापि शुद्ध इति भावतः ॥१॥

गौतम : पृच्छति- ' सेय सपट्टिए सपचे घेराय अमुहा सिया ' सप  
निग्रन्यः सप्रस्थितः प्रस्थाने। कृतवान् अयस सप्राप्तः स्यपिरजदेशं गतः,  
किन्तु स्यविराम यदि अमुखा मूकाः स्युः सपनरहिता भवेयुः तदा ' से मं  
मंते ! कि आराहए, विराहए ? ' हे मदन्त ! स सुद्ध निग्रन्यः किम्

कहते हैं- ' गौयमा ' हे गौतम ! ' आराहए नो विराहए ' वह  
निग्रन्य अमण आराधक है, विराधक नहीं है । ४ ।

कहा भी है- आलोचना परिणतो । इत्यादि तात्पर्य कहनेका  
यह है कि अच्छी तरहसे आलोचनादि करने में परिणत हुआ आत्मा  
आलोचना करनेके लिये गुरुके पास जाता है परन्तु यदि वह पीछ  
में कारणवश मरणको प्राप्त होभावे तो ऐसी स्थिति में वह भावको  
अपेक्षा शुद्ध आराधकही माना गया है-विराधक नहीं ।

अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं- ' सेय सपट्टिए सपचे  
घेराय अमुहा सिया ' वह निग्रन्य अमण वम स्थानसे बह देता है  
जहाँ स्यविर होत हैं वहाँ आमी जाता है-परन्तु यदि वे स्यविर  
मूक हो जाते हैं - बचन बोलने में असमर्थ बन जाते हैं-तो  
' सेण मंते ! कि आराहए विराहए ' हे मदन्त ! वह निग्रन्य

उत्तर :- ' गायमा ! आराहए नो विराहए ? ' हे गौतम ! ते अमण निग्रंभने  
आराधक इहेनाथ, विराधक इहेनाथ नही कही पव छे-आलोचना परिणतो भूतादि  
आलोचना आदि इस्थाने परिशुद्ध भवेथे आत्मा अरुणी पासे बचने भाटे छपडे छे  
परन्तु भाठ कस्ये भाज भां न वेनु भु-पु बह ज्ञान, तो जेवी स्थितिमां भावनी अपे  
क्षाने तेरे शुद्ध-आराधक न मानवामा आवे छे तेने विशधक मानवामां भावतो नही'

द्विजे गौतम स्वामी जेणे प्रभु पूछे छे :- ' से य संपट्टिए सपचे घेराय अमुहा  
सिया ' हे मदन्त ! ते निग्रंभ ते स्थानेथी आधी नीकजे छे जने रवविशनी पासे  
भावनी बहने छे पव अरे, परन्तु ते रवविर भूक जनी ज्ञान छे जने अथवियत  
आपधाने असमर्थ जनी ज्ञान छे जेवी परिस्थितिमां ' सेण मंते ! कि आराहए,

विहारभूमिवा, निक्खन्तेणं अन्नयरे अकिञ्चद्वाणे पडिसेविए' निर्ग्रन्थेन श्रमणेन च वहिः, विचारभूमिवा शरीरचिन्ताद्यर्थगमनं विहारभूमिं वा ग्रामादौ गमनं निष्क्रान्तेन निर्गतेन अन्यतरद् एकतमम् अकृत्यस्थान श्रमणा-नुचितकार्याधिकरणस्थान प्रतिसेवितम् 'तस्सणं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एवं' तस्य खलु निर्ग्रन्थरय एवं मनसि भावना भवति-इहेव अस्मिन्नेव तावत् अकृत्यस्थाने अहम् एवंरीत्या एतत्स्थानम् आलोचयामि, प्रतिक्राम्यामि, निन्दामि, गर्हं, वित्रोटयामि विशोधयामि, अकरणतया अभ्युत्तिष्ठामि, यथार्हं प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपद्ये ततःपश्चात् स्थविराणामन्तिकम् आलोचयिष्यामि, यावत् तपःकर्म प्रतिपत्स्से, सच सप्रस्थितः असप्राप्तः, स्थविराश्च पूर्वमेव

पडिसेविए' हे अदन्त ! बाह्य शौच आदि की निवृत्ति के लिये या ग्राम आदि में जाने के लिये गये हुए श्रमण निर्ग्रन्थ से यदि किसी एक अकृत्यस्थान का-अनुचित कार्य के आश्रयश्रुत स्थानका प्रतिसेवन हो जाता है और 'तस्स णं एवं भवइ' उसके बाद उसके मन में तब ऐसी भावना उठती है कि मैं यहीं पर पहिले इस अकृत्यस्थान की आलोचना कर लेता हूँ, प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, निन्दा कर लेता हूँ, गर्हा कर लेता हूँ उसके अनुबंध को छेद डालता हूँ, प्रायश्चित्त लेकर पापपङ्क (पापरूपी कीचड़)को दूर कर देता हूँ और अब भविष्य में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ तथा यथायोग्य प्रायश्चित्तरूप तपकर्म को स्वीकार करता हूँ बाद में स्थविरों के पास जाकर मैं इसकी आलोचना कर लूँगा, यावत् तपकर्म स्वीकार कर लूँगा । इस प्रकार का विचार कर वह वहाँ से अकृत्यस्थान से चल देता है ।

हे अदन्त ! बाह्य शौच आदिनी निवृत्तिने माटे अथवा ग्राम आदिमां जवाने माटे नीकणेला डोळ्येक श्रमण्य निर्ग्रन्थ द्वारा जे डोळ्येक अकृत्य स्थाननु-अनुचित कार्याना आश्रयभूत स्थाननु-प्रतिसेवन यथं नय्य अने त्यार भाद 'तस्स णं एवं भवइ' तेना मनमां तेवी भावना यथं आवे डे हुं अडीज पडेलीं ते आ अकृत्यस्थाननी आलोचयना करी लउ, प्रतिक्रमण्य करी लउ, निन्दा करी लउ, गर्हा करी लउ, तेना अनुबंधननुं छेदन करी नाय्यु, प्रायश्चित्त बधने पापपङ्कने दूर करी नाय्यु, भविष्यमां जेवुं न करवानी प्रतिज्ञा लउ अने यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपकर्मना स्वीकार करी लउ, त्यार भाद हुं स्थविरां पासे जधने तेनी आलोचयने आदि करी लउथ [अडी तपकर्मना स्वीकार पर्यन्तनुं पूर्वोक्त कथन भड्यु करवुं] आ प्रभाण्ये विचार करीने ते त्याथी-अकृत्यस्थानेथी स्थविरांनी पासे जवाने माटे उपडे छे पण्य ते स्थविरांनी पासे पडोच्ये

आलापकौ उक्तौ, शेषो यथा—सच सप्रस्थितः, सप्राप्तः पूर्वमेव स्थविराम  
 कीस कुर्युः, स खलु मदन्त ! किम् आराधकः, कि वा विराधकः ? गौतम !  
 स आराधकः । सच सप्रस्थितः सप्राप्तः आत्मना च पूर्वमेव काल कुर्यात्,  
 स खलु मदन्त ! किम् आराधकः ? कि वा विराधकः ? गौतम ! स आराधकः,  
 नो विराधक इति, 'गौतमः ! पृच्छति—'निर्गन्धेण य वहिया विचारभूमि वा,

अमणके चार आलापक कहे गये हैं उसी तरहसे सप्राप्तको लेकर  
 भी चार आलापक कहलेना चाहिये । इन में सप्राप्तका लेकर ये दो  
 आलापक तो मकट ही किये जा चुके हैं । शेष दो आलापक समाप्तको  
 लेकर इस प्रकारसे हैं—जैसे वह निर्ग्रन्थ अमण वहासे चल देता है—परन्तु  
 संसके आनेके पहिले ही यदि स्थविर काल कर जाते हैं, तो ऐसी  
 स्थितिमें वह निर्ग्रन्थ अमण आराधक है या विराधक है ? इसके उत्तरमें  
 प्रभु कहते हैं 'गोयमा' हे गौतम ! वह निर्ग्रन्थ अमण आराधक है,  
 विराधक नहीं । इसी तरहसे वह निर्ग्रन्थ अमण वहासे चल देता है—  
 परन्तु स्थविरोंके पास पहुँचनेके पहिले ही वह मर जाता है—तो ऐसी  
 वृथा में क्या वह निर्ग्रन्थ अमण आराधक है या विराधक ? उत्तर  
 में प्रभु कहते हैं— हे गौतम ! इस स्थिति में भी वह निर्ग्रन्थ अमण  
 आराधक ही है—विराधक नहीं ।

अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—'निर्गन्धेण य वहिया  
 विचारभूमि वा, विहारभूमि वा निवर्त्ततेण अक्षयरे अकिञ्चद्वाणे

नेवी रीते असप्रप्त (स्वविशानी पास न पहुँचिवा) निर्ग्रन्थे अनुलक्षी वा  
 आलापके इहेवाभा आत्मा छे केवल प्रभावे सप्राप्तने अनुलक्षीने पक्ष वा अलापक  
 इहेवा लेशके तेभान्ना ने आलापके तो उपरं प्रकट अन्वयान् आत्मा छे (तां  
 पक्षेवेवा) निर्ग्रन्थ विषेना जीवा छे आलापके नीचे प्रभावे छे— के अन्तर्गत ते निर्ग्रन्थ  
 तांभी नीकण्ठिने ते स्वविशानी पास पहुँचिवा अथ छे पक्ष ते आत्मान्ना आदि करेते पक्षेवा  
 ने स्वविशे हाज करी अथ, तो तेने आराधक इहेवाय के विराधक के औत्तम ! निर्ग्रन्थने  
 आराधक अ इही शक्य, विराधक इही शक्य नकीं। इहे शेषे आलापक नीचे प्रभावे  
 आत्मान्ना छे— ते निर्ग्रन्थ आत्मान्ना आदि करवा निमित्तो स्वविशेनी पक्षे अथ स्वान्ना  
 अथ छे अने तेभानी पास पहुँचिवा अ परपक्ष पास छे, तो तेने आराधक इहेवा के  
 विराधक के औत्तम ? तेने आराधक इहेवा लेशके विराधक नकीं।

इहे औत्तम स्वामी महावीर प्रभुने केने प्रश्न पूछे छे—'निर्गन्धेण य वहिया  
 विचारभूमि वा, विहारभूमि वा निवर्त्ततेण अक्षयरे अकिञ्चद्वाणे पक्षेवेविष्'

विहारभूमिवा, निष्कान्तेणं अन्नयरे अकिञ्चिद्वाणे पडिसेविए' निर्ग्रन्थेन  
 श्रमणेन च वहिः, विचारभूमिवा शरीरचिन्ताद्यर्थगमनं विहारभूमिं वा  
 ग्रामादौ गमनं निष्कान्तेन निर्गतेन अन्यतरद् एकतमम् अकृत्यस्थानं श्रमणा-  
 नुचितकार्याधिकरणस्थानं प्रतिसेवितम् 'तस्सणं एवं भवइ-इहेव ताव अहं  
 एवं' तस्य खलु निर्गन्धरय एवं मनसि भावना भवति-इहेव अस्मिन्नेव  
 तावत् अकृत्यस्थाने अहम् एवंरीत्या एतत्स्थानम् आलोचयामि, प्रतिक्राम्यामि,  
 निन्दामि, गर्हं, वित्रोटयामि विशोधयामि, अकरणतया अभ्युत्तिष्ठामि, यथार्हं  
 प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपद्ये ततःपश्चात् स्थविराणामन्तिकम् आलोचयिष्यामि,  
 यावत् तपःकर्म प्रतिपत्स्ते. सच सप्रस्थितः असप्राप्तः, स्थविराश्च पूर्वमेव

पडिसेविए' हे अदन्त ! बाहर शौच आदि की निवृत्ति के लिये या  
 ग्राम आदि में जाने के लिये गये हुए श्रमण निर्ग्रन्थ से यदि किसी  
 एक अकृत्यस्थान का अनुचित कार्य के आश्रयभूत स्थानका प्रतिसेवन  
 हो जाता है और 'तस्स णं एवं भवइ' उसके बाद उसके मन में  
 तब ऐसी भावना उठती है कि मैं यहीं पर पहिले इस अकृत्यस्थान  
 की आलोचना कर लेता हू, प्रतिक्रमण कर लेता हू, निन्दा कर लेता  
 हू, गर्हा कर लेता हू उसके अनुबंध को छेद डालता हू, प्रायश्चित्त  
 लेकर पापपङ्क (पापरूपी कीचड़)को दूर कर देता हू और अब भविष्य  
 में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हू तथा यथायोग्य प्रायश्चित्तरूप  
 तपकर्म को स्वीकार करता हू बाद में स्थविरों के पास जाकर मैं  
 इसकी आलोचना कर लूंगा, यावत् तपकर्म स्वीकार कर लूंगा ।  
 इस प्रकार का विचार कर वह वहां से अकृत्यस्थान से चल देता है ।

हे अदन्त ! बाहर शौच आदि की निवृत्ति के लिये या ग्राम आदि में जाने के लिये गये हुए श्रमण निर्ग्रन्थ से यदि किसी एक अकृत्यस्थान का अनुचित कार्य के आश्रयभूत स्थानका प्रतिसेवन हो जाता है और 'तस्स णं एवं भवइ' उसके बाद उसके मन में तब ऐसी भावना उठती है कि मैं यहीं पर पहिले इस अकृत्यस्थान की आलोचना कर लेता हू, प्रतिक्रमण कर लेता हू, निन्दा कर लेता हू, गर्हा कर लेता हू उसके अनुबंध को छेद डालता हू, प्रायश्चित्त लेकर पापपङ्क (पापरूपी कीचड़)को दूर कर देता हू और अब भविष्य में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हू तथा यथायोग्य प्रायश्चित्तरूप तपकर्म को स्वीकार करता हू बाद में स्थविरों के पास जाकर मैं इसकी आलोचना कर लूंगा, यावत् तपकर्म स्वीकार कर लूंगा । इस प्रकार का विचार कर वह वहां से अकृत्यस्थान से चल देता है ।

मगनानाह- 'गोयमा ! आराहए, नो विराहए' हे गौतम ! स निग्रन्वा  
आराधको भवति, नो विराधको भवति, ४

उक्तञ्च- 'आलोचना परिणमो, सम्मं सपट्टिमो गुरुसगासे जेसमए  
अतरेबिय, तहाचि सुद्धो चि भावाओ ॥ १ ॥'

छाया- आलोचना परिणतः, सम्पक् सप्रस्थितः गुरुसकाशे,  
यदि क्षियते अन्तरे चेत्, तथापि शुद्ध इति भावतः ॥१॥

गौतम : पृच्छति- 'सेय सपट्टिए सपचे येराय अमुहा सिया' सच  
निग्रन्व्यः सप्रस्थितः प्रस्थातो कृतवान् अयत्न सप्राप्त स्वविराधेशं गतः,  
किन्तु स्वविराध यदि अमुखा मूकाः स्युः पचनरहिता भवेयुः तदा 'से प  
मंते ! किं आराहए, विराहए ??' हे मदन्त ! स खलु निग्रन्व्यः किम्

कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'आराहए नो विराहए' वह  
निग्रन्व्य अमण आराधक है, विराधक नहीं है । ४ ।

कहा भी है- आलोचना परिणमो । इत्यादि तात्पर्य कहनेका  
यह है कि मन्त्री तरहसे आलोचनादि करने में परिणत हुआ आत्मा  
आलोचना करनेके लिये गुरुके पास जाता है परन्तु यदि वह बीच  
में कारणवशा मरणको प्राप्त होजावे तो ऐसी स्थिति में वह भावको  
अपेक्षा शुद्ध आराधकही माना गया है-विराधक नहीं ।

अब गौतम स्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं- 'सेय सपट्टिए संपचे  
येराय अमुहा सिया' वह निग्रन्व्य अमण उस स्थानसे चक वेता है  
जहाँ स्वविर होते हैं वहा आती जाता है-परन्तु यदि वे स्वविर  
मूक हो जाते हैं - घबन घोषने में अस्तमय पन जाते हैं-तो  
'सेर्ण मंते ! किं आराहए विराहए' हे मदन्त ! वह निग्रन्व्य

उत्तर :- 'गोयमा ! आराहए नो विराहए' हे गौतम ! वे अमण निग्रन्व्यने  
आराधक कहैवाच, विराधक कहैवाच नहीं कहुं पक् छे-आलोचना परिणमो ईत्यादि  
आलोचना आदि करवाने परिणत अपेक्षा आत्मा गुरुकी पासे आने भाटे छपटे छे  
परन्तु अहं कहुं आर्षार्थ न वेनु भू-भू वध अथ, वे आनी स्थितिमा आनी अपे  
क्षाने तेने शुद्ध-आराधक न अनवासा आवे छे तेने विराधक मानवार्थ अनवतो नहीं'

हवे गौतम स्वामी जेने प्रश्न पूछे छे छे- 'से प सपट्टिए संपचे येराय अमुहा  
सिया' छे मदन्त ! ते निग्रन्व्य ते स्थानेही आनी नीकने छे जेने स्वविराधनी पासे  
आनी रहैने छे पक् अरे, परन्तु ते स्वविर मूक जनी अथ छे जेने अचक्षित  
आपवाने अक्षमर्थ जनी अथ छे जेनी परिस्थितिमा 'सेर्ण मंते ! किं आराहए,

आराधकः ? विराधकोषा भवेत् ? भगवानह- 'गोयमा ! आराहए, नो विराहए' हे गौतम ! स निर्ग्रन्थः स्थविरभदेशं प्राप्तश्चेत्तदा स्थविराणां मूकत्वेऽपि आराधक एव भवेत्, नो विराधक इति भावः, 'सेय सपट्टिए सपत्ते अप्पणाय' हे भदन्त ! सच निर्ग्रन्थः सप्रस्थितः प्रचलितः, सप्राप्तः स्थविर-समीपं गतश्च, किन्तु आत्मानाच स्वयमेव चेत् अमुखः मूकः स्यात्तदा किं स आराधकः ? किंवा विराधको भवेदिति ? प्रश्नः, हे गौतम ! सप्राप्तः स स्वयमेव मूकोऽपि यदि भवेत्तदापि स आराधक एव नो विराधक इति 'एवं संपत्तेण वि आलावगा भाणियन्वाः यथा असंप्राप्तेन भाणिताः तत्र द्वौ

श्रमण आराधक है या विराधक है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'आराहए, नो विराहए' वह निर्ग्रन्थ श्रमण आराधक ही है, विधायक नहीं है। अब गौतम स्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं- 'सेय संपट्टिए संपत्ते अप्पणाय अमुहे सिया से णं भंते ! किं आराहए, विराहए' वह निर्ग्रन्थ श्रमण वहांसे तो चल देता है और जहां पर वे स्थविर हैं-वहां पर अभी जाता है-परन्तु वह आतेही मूक हो जाता है तो ऐसी हालत में वह अकृत्य स्थान के प्रतिसेवल करनेकी अपनी बातको उनसे प्रकट नहीं कर सकनेके कारण आराधक माना गया है कि विराधक माना गया है ! इसके उत्तर में प्रभु उनसे कहते हैं- 'गोयमा' आराहए नो विराहए हे गौतम ! वहां आनेपर भी यदि वह अपने आप मूक होता है तो वह आराधकही माना गया है विराधक नहीं। 'एवं संपत्तेण वि चत्तारि आलावगा भाणियन्वा' जहेव असंपत्तेण' जिस तरहसे यहाँ पर असंप्राप्तको लेकर निर्ग्रन्थ

'विराहए ?' ने निर्ग्रन्थने आराधक मानवे के विराधक ? 'गोयमा ! आराहए, नो विराहए' हे गौतम ! तेने आराधक मानवे नेधये-विराधक नही

गौतम-वाहीने प्रश्न - 'से य संपट्टिए संपत्ते अप्पणाय अमुहे सिया-से णं भंते ! किं आराहए, विराहए ?' हे भदन्त ! आलोचना करवा निमित्त त्वांथा उपडेवो ते श्रमण स्थविरानी पसे आवी पणु नय छे, पणु आवतानी साथेव ते पोते मुक्क थम नय छे अवी परिस्थितिमा ते पोताना द्वारा थयेवा अकृत्य प्रतिसेवननी बात तेभने कही शकतो नथी तो तेने आराधक मानवे के विराधक ?

भडावीर प्रभुने उत्तर - 'गोयमा ! आराहए, नो विराहए' त्या आव्या पाह मूक्क णनी नवाथी आलोचना नही करी शकनार निर्ग्रन्थने आराधक न कही शकिय, विराधक नही. 'एवं संपत्तेण वि चत्तारि आलावगा भाणियन्वा जहेव असंपत्तेण'



आलापकी उक्तों, शेषो यथा—सच समस्थितः, समाप्तः पूर्वमेव स्पष्टिराम  
कील कुर्युः, स खलु मदन्त ! किम् आराधकः, कि वा विराधकः ? गौतम !  
स आराधकः । सच समस्थितः समाप्तः आत्मना च पूर्वमेव काल कुर्यात्  
स खलु मदन्त ! किम् आराधकः ? कि वा विराधकः ? गौतम ! स आराधकः,  
नो विराधकः इति, 'गौतमः ! पृच्छति— 'निर्गण्येण यद्विया विचारभूमि वा,

अमणके चार आलापक कहे गये हैं उसी तरहसे समाप्तको लेकर  
भी चार आलापक कहलेना चाहिये । इन में समाप्तका लेकर ये दो  
आलापक तो मकट ही किये जा चुके हैं । शेष दो आलापक समाप्तको  
लेकर इस प्रकारसे हैं—जैसे वह निर्ग्रन्थ अमण वहाँसे चल देता है—परन्तु  
उसके आनेके पहिले ही यदि स्पष्टिर काल कर जाते हैं, तो ऐसी  
स्थितिमें वह निर्ग्रन्थ अमण आराधक है या विराधक है ? इसके उत्तरमें  
प्रश्न करते हैं 'गोयमा' है गौतम ! वह निर्ग्रन्थ अमण आराधक है,  
विराधक नहीं । इसी तरहसे वह निर्ग्रन्थ अमण वहाँसे चल देता है—  
परन्तु स्पष्टिरोंक पास पहुँचनेके पहिले ही वह मर जाता है—तो ऐसी  
दृशा में क्या वह निर्ग्रन्थ अमण आराधक है या विराधक ? उत्तर  
में प्रश्न करते हैं— है गौतम ! इस स्थिति में भी वह निर्ग्रन्थ अमण  
आराधक ही है—विराधक नहीं ।

अथ गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—'निर्गण्येण यद्विया  
विचारभूमि वा, विहारभूमि वा निबल्लतेण अक्षयरे अकिण्हण्णे

नेही रीते अत्र प्राप्त (स्वविशेनी धामे न पदेमिहा) निमग्ने अनुवक्षी चार  
आलापक। अरेवाम्मा आम्मा अ, अरेव प्रमात्ते सम्पत्तने अनुवक्षीने पण चार आलापक  
अरेवाम्मा अरेवाम्मा, तेमांता ने आलापक। तो उत्तर प्रकट करवामा आम्मा अ (त्वं  
पदेमिहा) निर्गण्येण विरेणा जीवा ये आलापक। नीचे प्रमात्ते अ— अ लइन्ता ते निर्गण्ये  
त्वांभी नीवण्णिते त स्वविशेनी धामे पदेमिहा अथ अ पणु ते आलोचना आदि करेते फेडोवा  
ने स्वविशे अत्र ही अथ, तो तेने आराधक अरेवाम्मा विराधक। है गौतम ! निर्गण्येने  
आराधक अ कही अथ, विराधक कही अथ नहीं। उवे यथा आलापक नीचे प्रमात्ते  
अत्तमे अ— त निर्गण्येण आलोचना आदि करवा निमित्ते स्वविशेनी धामे अथ स्वाम्मा  
धाम अ अने तेमनी धामे पदेमिहा अ अणु धामे अ, तो तेने आराधक अरेवाम्मा है  
विराधक। है गौतम ? तेने आराधक अरेवाम्मा अरेवाम्मा विराधक नही।

हवे गौतम स्वामी भद्रापीर प्रश्नने जेने प्रथ पूछे अ— 'निर्गण्येण यद्विया  
विचारभूमि वा, विहारभूमि वा निबल्लतेण अक्षयरे अकिण्हण्णे पडिसेविण्'

विहारभूमिं वा, निखणंतेणं अन्नयरे अकिञ्चिद्वाणे पडिसेविए' निर्ग्रन्थेन  
 श्रमणेन च वहिः, विचारभूमिं वा शरीरचिन्ताद्यर्थगमनं विहारभूमिं वा  
 ग्रामादौ गमनं निष्क्रान्तेन निर्गतेन अन्यतरद् एकतमम् अकृत्यस्थानं श्रमणा-  
 नुचितकार्याधिकरणस्थानं प्रतिसेवितम् 'तस्सणं एवं भवइ-इहेव ताव अहं  
 एवं' तस्य खलु निर्ग्रन्थरय एवं मनसि भावना भवति-इहेव अस्मिन्नेव  
 तावत् अकृत्यस्थाने अहम् एवरीत्या एतत्स्थानम् आलोचयामि, प्रतिक्राम्यामि,  
 निन्दामि, गर्हे, वित्रोटयामि विशोधयामि, अकरणतया अभ्युत्तिष्ठामि, यथार्हं  
 प्रायश्चित्तं तप कर्म प्रतिपद्ये ततःपश्चात् स्थविराणामन्तिकम् आलोचयिष्यामि,  
 यावत् तपःकर्म प्रतिपत्स्ते, सच सप्रस्थितः अस प्राप्तः, स्थविराश्च पूर्वमेव

पडिसेविए' हे भदन्त ! चाहंग शौच आदि की निवृत्ति के लिये या  
 ग्राम आदि में जाने के लिये गये हुए श्रमण निर्ग्रन्थ से यदि किसी  
 एक अकृत्यस्थान का अनुचित कार्य के आश्रयभूत स्थानका प्रतिसेवन  
 हो जाता है और 'तस्स णं एवं भवइ' उसके बाद उसके मन में  
 तब ऐसी भावना उठती है कि मैं यहीं पर पहिले इस अकृत्यस्थान  
 की आलोचना कर लेता हूँ, प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, निन्दा कर लेता  
 हूँ, गर्हा कर लेता हूँ उसके अनुबंध को छेद डालता हूँ, प्रायश्चित्त  
 लेकर पापपङ्क (पापरूपी कीचड़)को दूर कर देता हूँ और अब भविष्य  
 में ऐसा नहीं करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ तथा यथायोग्य प्रायश्चित्तरूप  
 तपकर्म को स्वीकार करता हूँ बाद में स्थविरों के पास जाकर मैं  
 इसकी आलोचना कर लूँगा, यावत् तपकर्म स्वीकार कर लूँगा ।  
 इस प्रकार का विचार कर वह वहाँ से अकृत्यस्थान से चल देता है ।

हे भदन्त ! अहार शौच आदिनी निवृत्तिने माटे अथवा आम आदिमां जवाने माटे  
 नीकणेला कोष्ठ अथ श्रमणु निर्ग्रन्थ द्वारा जे कोष्ठ अथ अकृत्य स्थाननु-अनुचित कार्यना  
 आश्रयभूत स्थाननु-प्रतिसेवन अथ ज्ञय अने तयार भाइ 'तस्स णं एवं भवइ'  
 तेना मनमां तेवी भावना अथ आवे डे हुं अर्धींज पडेला तो आ अकृत्यस्थाननी  
 आलोचना करी लउं, प्रतिक्रमणु करी लउं, निन्दा करी लउं, गर्हा करी लउं, तेना  
 अनुबंधनु छेदन करी नायुं, प्रायश्चित्त लधने पापपङ्कने दूर करी नायुं, भविष्यमा अणु  
 न करवानी प्रतिज्ञा लउं अने यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपकर्मने स्वीकार करी लउं,  
 तयार भाइ हुं स्थविरा पासे जधने तेनी आलोचना आदि करी लधश. [अर्धीं तपकर्मने  
 स्वीकार पर्यन्तनु पूर्वोक्त कथन ग्रहणु करवुं] आ प्रभाणु विचार करीने ते त्वाथी-  
 अकृत्यस्थानेथी स्थविरांनी पासे जवाने माटे उपडे छे पणु ते स्थविरांनी पासे पडेअे

अमुखाः स्युः, स खलु भवन्त ! किम् आराधकः ? विराधकोवा भवेत् !  
 गौतम ! स आराधको भवेत्, नो विराधकः स्यात्, 'एत्यत्रि एतेष्वेव ऋ  
 आलाभगा, माणियन्त्रा जाव नो विराहए' पश्येत्तान्यष्टौ पिण्डपातार्थं  
 गृहपतिकुले प्रविष्टस्य, एव विचारभूम्यादावपि, एवं विहारभूमिग्रामादी  
 ग्रामनेष्टौ एवमतानि चतुर्विंशतिः मुद्राणि भवन्ति । निम्नयेणय ग्रामाणुगामं  
 दृङ्गजमाणेण भक्षयरे भक्तिघट्टाणे पडिसेविण, तस्सण एव भवइ-इहेण  
 ताव अहं' निर्घ्रयेन भ्रमणेन च ग्रामानुग्रामं व्यतिव्रजता परिभ्रमता इत्यर्थः।

चलत ० घट्ट स्थिरी क पास नहीं पहुच पाता है कि इतने में  
 स्पष्टिर मूक हो जात हैं । तो ऐसी दशा में हे भवन्त ! वह  
 निर्घ्र-य भ्रमण आराधक होता है या विराधक होता है ? इसके  
 उत्तर में प्रभु कहते हैं-हे गौतम ! वह निर्घ्र-य भ्रमण ऐसी दशा  
 में आराधक ही होता है विराधक नहीं । 'एत्य त्रि एए चेष अह  
 आलाभगा माणियन्त्रा जाव नो विराहए' जिस प्रकार से पिण्ड  
 ग्रहण की इच्छा से गृहपति के घर पर गये हुए निर्घ्र-य भ्रमण के  
 आठ आलापक कहे गये हैं-उसी तरह से विचारभूमि आदि में गए  
 हुए भ्रमण निर्घ्र-य के आठ आलापक कहे गये हैं, इसी तरह से  
 विहारभूमि-ग्रामादि में जाने पर आठ आलापक कहे गये हैं । इस  
 तरह य ० ४ आलापक होते हैं । अब गौतम प्रभु से ऐसा पूछते  
 हैं-निम्नयेण य ग्रामाणुगामं दृङ्गजमाणेण भक्षयरे भक्तिघट्टाणे पडि  
 सेविण, तस्स ण एव भवइ, इहेच ताव अहं' एक ग्राम से दूसरे ग्राम

त परदा वे ते रथावर भूय ऋण जाय ० तो वे भवन्त ! क्या परिस्थितिमें आलाभक  
 आदि नहीं करी शकता है निम्न बने आराधक गली शक्य है विराधक ?

उत्तर :- हे गौतम ! जेवा परिस्थितिमें तने आराधक च भावी शक्य, विराधक  
 नहीं पश्य वि एए चेष अह आलाभगा माणियन्त्रा जाव नो विराहए'  
 अदार प्राप्ताना धर्मिणी देव्यं बृहस्पते येर अथेता अभ्युन्निव च विरे न प्रकल्प  
 आठ आलापक अष्टौगामां आलाभ ० जेवा च आठ आलापक विहारभूमि आदिमें  
 गयेवा अभ्युन्निव विरे पञ्च अष्टौगामे लोभजे. जेवा प्रमज्जे विहारभूमि [ग्रामादि] में  
 गयेवा निम्न बने पञ्च आठ आलापक देवा लोभजे. ज्य रीते कुल २४ आलापक दाल से  
 उने गौतम स्वामी नदावार प्रभुने जेवा उच पूछे ० हे 'निम्नयेण य ग्रामा  
 णुगाम दृङ्गजमाणेण भक्षयरे भक्तिघट्टाणे पडिसेविण, तस्स ण एव भवइ,  
 इहए ताव अहं' इत्यादि जेक आभधी नीने ज्यम विहार करतं अभ्युन्निव च दाल

अन्यतरत् एकतमम् अकृत्यस्थानम् प्रतिसेवितम्, तस्य निर्ग्रन्थस्य खलु एवंरीत्या मनसि भावना भवति-इहैव तावत् अकृत्यस्थाने अहम् एतत्स्थानम् आलोचयामि, प्रतिक्रामामि, निन्दामि, गर्हं, वित्रोटयामि, विशोधयामि, अकरणया अभ्युत्तिष्ठामि यथाहं प्रायश्चित्त तपःकर्म प्रतिपद्य. ततःपश्चात् स्थविराणामन्तिवद् आलोचयष्यामि, यावत्-तपः कर्म प्रतिपत्स्ये, स च संप्रस्थितः असप्राप्तः, स्थविताश्च पूर्वमेव अमुखाः स्युः, स खलु भदन्त ! किम् आराधकः,

मे विचरण करते हुए निर्ग्रन्थ श्रमण के द्वारा जब कोई अकृत्यस्थान का सेवन कर लिया जाता है तब उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मैं पहिले इसी अकृत्यस्थान पर इस अकृत्यस्थानकी अलोचना करलेताहूँ, प्रतिक्रमण करलेताहूँ, निन्दा करलेताहूँ, गर्हा करलेताहूँ इसके अनुबंधको छेद डालता हूँ, प्रायश्चित्त लेकर पाप-पंककी शुद्धि करलेताहूँ-अविष्य में अब ऐसा सुझसे न हो इसके लिये तैयार हुआ यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप कर्मको स्वीकार करता हूँ- बाद में स्थविरोके पास जाकर मैं इसकी आलोचना करलूंगा यावत् तपःकर्मको स्वीकार करलूंगा। इस प्रकारकी भावनासे प्रेरित हुआ वह अकृत्य स्थान सेवी निर्ग्रन्थ श्रमण उस अकृत्य स्थानसे स्थविरोके पास चल देता है। परन्तु जब तक वह निर्ग्रन्थ श्रमण उनके पास नहीं आपाना-तबतक वे स्थविर मूगे बन जाते हैं-उसे प्रायश्चित्त देने में अक्षम हो जाते हैं-बोल नहीं सकते हैं-ऐसी स्थिति में हे भदन्त ! वह निर्ग्रन्थ श्रमण आराधक है या विराधक ? उत्तर में

ज्यारे काष्ठ अकृत्य स्थाननु सेवन थधं ज्य छे, त्यारे तेना मनमा जेवी भावना थाय छे ते हुं अहीं ज आ अकृत्य स्थाननी आलोचयना करी लउ छु, प्रतिक्रमण करी लउ छु, निन्दा करी लउ छु, गर्हा करी लउ छु, तेना अनुबंधने छेदी नाथु छु, प्रायश्चित्त लधने पापपकने घेधं नाथु छु, अविष्यमा जेवु न करवानी प्रतिज्ञा लउ छु अने यथा योग्य प्रायश्चित्त रूप तपःकर्मने स्वीकार करी लउ छु त्यार भाद स्थविरनी पास जधने हु तेनी आलोचयना आदि करी लधश अने प्रायश्चित्त रूप तपःकर्मने स्वीकार करीश आ प्रभावे अकृत्य स्थाननी आलोचयना आदि करवानी भावनार्थी प्रेरित थयेदो ते निर्ग्रंथ ते अकृत्य स्थानेथी स्थविरनी पास जवाने नीकणे छे यथु ते निर्ग्रंथ ते स्थविरनी पास पडोयता पडेलां ते स्थविर वार्तादि देवथी भूंगा थधं ज्य छे तथा तेजो तेने प्रायश्चित्त देवाने असमर्थ अनी ज्य छे हे लदन्त ! आ परिस्थितिमां आलोचयना आदि न करी सकनार ते अमलुनिर्ग्रंथने आराधक कही अकार्य के विराधक कडेवाय ?

विराधको या ? हे गौतम ! स आराधक , नो विराधक : 'एत्विति ते चैव ऋ आलापका माणियन्वा जाव नो विराध' अप्रापि ग्रामानुग्रामभ्यतिव्रजन-विपयेऽपि ते चैव उपर्युक्ताभत्वार असमाप्त विपयकाभत्वारश्च समाप्तविपयका ऋ आलापका माणितन्वा यावत् नो विराधक' इत्यन्तम्, 'एष रीत्या निर्म-न्यस्वपाराधकत्व प्रतिपाद्य निर्मन्थ्या आराधकस्य प्रतिपादयति- 'निर्माषी ए य गाहावङ्कुल पिण्डवायपट्टियाए अणुपविट्टाए अन्नयरे अकिञ्चद्वाणे पट्टिसेविए' निर्मन्थ्या भ्रमणया साध्या च घृष्टपट्टिकुल पिण्डपातप्रतिष्ठाया आहारमहणेच्छया अनुप्रविष्टया अन्यतरद् एकतमम् अकृत्यस्थानं प्रतिसेवितम्,

महु कहत हैं- हे गौतम ! ऐसी स्थिति छाने पर भी वह निर्मन्थ्य भ्रमण आराधक ही है विराधक नहीं । इस विपय में भी असमाप्त विपयक ४ आलापक और समाप्तविपयक ४ आलापक इस प्रकार आठ आलापक कहना चाहिये । और ये आठ आलापक 'यावत् घट्ट विराधक नहीं है' यहाँ तक कहना चाहिये ! इस तरह यहाँ तक निर्मन्थ्य भ्रमण में आराधकता प्रतिपादन करके अब सूत्रकार निर्मन्थी-साध्वीमें इसी विपयको लेकर आराधकताका प्रतिपादन करते हैं इसमें गौतम मनुसे ऐसा पूछते हैं- निग्गधीए य गाहावङ्कुल पिण्डवायपट्टियाए अणुपविट्टाए अन्नयरे अकिञ्चद्वाणे पट्टिसेविए' गाथापतिके घर पर आहार लेनेकी इच्छासे गई हुई किसी साध्वीके द्वारा यदि किसी एक अकृत्यस्थानका प्रतिसेवन बन गया होवे-

तेने उत्तर आपता अन्नावीर मधु डडे छे डे डे गौतम । जेवी परिवर्तितभा तेने आराधक न मानी सधम विराधक मानी सधम नहीं आ विपयने अनुष्ठीने महु मस प्राप्त [ स्वविर पासे पट्टीवी न शकेवा ] निर्मन्थ्य विवेना आर आलापक जने स प्राप्त [ स्वविर पासे पट्टीवी मुठेवा ] निर्मन्थ्य विवेना आर आलापक, जेम इह आठ आलापक डडेवा जेधजे. आ रीते जेही सुधीना विवेन दास अमयनिर्मन्थ्या सूत्रकारे आराधकतानु प्रतिपादन कर्तुं छे जे तेजो निर्मन्थी [ साध्वी ] न महु जेव परिवर्तितनी अपेक्षाजे आराधकतानु प्रतिपादन करे-

जे साध्वी अपेक्षाजे गौतम साध्वी अन्नावीर मधुने जेना मस पूछे छे- 'निर्माषीय य गाहावङ्कुल पिण्डवायपट्टियाए अणुपविट्टाए अन्नयरे अकिञ्चद्वाणे पट्टिसेविए' जेध अकृत्यने घर आहार प्रतिस्वी छेअधी अयेवा जेध साध्वी द्वारा जेध जेध अकृत्यस्थाननु प्रतिसेवन महु मधु डेव' 'तीसे'पं एवं मवेह' जेध त्वार

‘तीसे णं एवं भवइ-इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि जाव तवोकम्मं पडिवज्जामि’ तस्या मनसि खलु एवं भावना भवति-इहेव अत्रैव तावत् अकृत्यस्थाने अहम् एतस्य स्थानस्य एतद् अकृत्यस्थानम् आलोचयामि स्व मनसि, यावत् प्रतिक्रामामि-मिथ्यादुष्कृतं ददामि, निन्दामि, गर्हे, वित्रो-टयामि विशोधयामि, अकरणतया अभ्युत्तिष्ठामि यथाहं प्रायश्चित्तं तपःकर्म प्रतिपद्यं, ‘तओपच्छा पवत्तिणीए अंतियं आलोएस्सामि जाव पडिवज्जिस्सामि’ ततः पश्चात् प्रवर्तिन्याः साध्व्याः अन्तिकं समीपम् आलोचयिष्यामि, यावत् तपःकर्म प्रतिपत्स्ये स्वीकरिष्ये, ‘ना य संपट्टिया असंपत्ता पवत्तिणीय अमु-

‘ तीसेणं एवं भवइ, इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि, जाव तवोकम्मं पडिवज्जामि ’ और वन जाने पर फिर उसके मन में ऐसी भावना आ गई होवे कि मैं पहिले अपनेही मनसे इसी अकृत्यस्थानपर इस अकृत्यस्थानकी आलोचना करलेती हू-यावत् प्रतिक्रमण करलेती हू-मिथ्यादुष्कृत देती हू, निंदा करलेतीहू, गर्हाकर लेती हू, इसके अनुबधको छेद लेती हू, प्रायश्चित्त के लेनेसे पापपङ्कका (पापरूपीकीचड) प्रक्षालन करलेती हू, आगे ऐसा कार्यमुझसे न बने इसके लिये मैं अपने आपको तैयार करलेतीहू तथा यथायोग्य प्रायश्चित्त रूप तपकर्मको स्वीकार करती हू, इस प्रकारसे वह अपने मनसे मनमें सब कुछ पूर्वोक्त रूपसे करके ‘ तओपच्छा पवत्तिणीए अंतियं आलोएस्सामि, जाव तवोकम्मं पडिवज्जिस्सामि ’ बाद में ऐसा विचार और करती है कि मैं अब यहांसे चलकर प्रवर्तिनीके पास जाऊंगी और उनसे आलोचना करूंगी, यावत् तपःकर्म स्वीकार करूंगी । इस प्रकारसे विचार कर ‘ सायसंपट्टिया असंपत्ता-

आह तेना मनमा एवी भावना पेदा थाय छे इ ‘ इहेव ताव अहं एयस्स ठाणस्स आलोएमि, जाव तवोकम्मं पडिवज्जामि ’ पडेदा तो हुं अर्ही न [आ अकृत स्थान परञ्च ] आ अकृत्य स्थानना आलोचना करी लई छुं, प्रतिक्रमण करी लई छुं, निंदा तथा गर्हा करी लई छुं, तेना अनुबधने छेदी नाथु छुं-प्रायश्चित्त बधने पापपङ्के घेर्छी नाथु छुं, लविष्यमा एवु न करवानो निश्चय करे छुं, अने यथायोग्य प्रायश्चित्तइय तपकर्मना स्वीकार करी लई छुं आ प्रभाण्णे अतःकरण्णु पूर्वइ करीने ‘ तओ पच्छा पवत्तिणीए अंतियं आलोएस्सामि, जाव तवोकम्मं पडिवज्जिस्सामि ’ ते प्रवर्तिनी [ वृद्ध साध्वी ] पासो नबने आ अकृत्यसेवननी आलोचना आदि करीने प्रायश्चित्तइय सेवानो विचार करे छे, आ प्रभाण्णे विचार करीने, ‘ सा य संपट्टिया

हा सिया' सा च निर्ग्रन्थी संप्रस्थिता स्वस्यानात् प्रचक्षिता किन्तु असमाप्ताः प्रवर्तिनीसमीप नोपगता मार्गेस्थिता एव तावत् प्रवर्तिनी साध्वीष अमुखा मूका वाताविदोषवशात् वचनरहिता स्यात्, 'सा णे मते ! किं आराहिया, विराहिया ? हे भवन्त ! सा आलोचनार्थं गन्तुं प्रवृथा निर्ग्रन्थी खलु विमु आराधिका ! विराधक्य वा भवेत् ? मगधानाः - 'गोयमा ! आराहिया, नो विराहिया' हे गौतम ! सा निर्ग्रन्थी आराधिका स्यात् नो विराधिका स्यात्, 'सा य संपद्विया जहा निगगयस्स तिन्निगमा भणिया, एव निग्गयीएपि तिन्नि आलापगा भाणियच्चा, जाव आराहिया नो विराहिया सा च निर्ग्रन्थी साध्वी संप्रस्थिता यथानिग्रन्थस्य प्रयोगमा आलापका भणिताः एवतयेव निग्रन्थ्या' साध्व्या अपि प्रयः आलापका मणितव्याः, तथाहि-पसा संप्रस्थिता

पवत्तिणीय अमुहा सिया' वह उस्स भकृत्यस्यानसे खल वेती ऐ-परन्तु यह वहाँ पहुँच नहीं पाती है रास्ते में ही रहती है कि इतने में वह प्रवर्तिनी वाताविदोषवशात् अमुख-मूक हो जाती है। तो ऐसी हालत में साय मत ! किं आराहिया विराहिया' हे भवन्त ! वहसाध्वी जो कि आमोचनाके लिये खली जा रही है क्या आराधिका है या विराधिका है ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'आराहिया नो विराहिया' वह निर्ग्रन्थी-साध्वी आराधिका है किन्तु विराधिका नहीं है। 'सायसंपद्विया जहा निगगयस्स तिन्नि गमा भणिया एव निग्गयीए वि तिन्नि आलापगा भाणियच्चा, जाव आराहिया, नो विराहिया' जिस प्रकारसे संप्रस्थित हुए निर्ग्रन्थके असमाप्त विषयक तीन आलापक कहे गये हैं, उसी प्रकारसे संप्रस्थित हुई साध्वीके

असमाप्त पवत्तिणीय अमुहा सिया' ते त्पयी आली नीदवे छे, एवु ते त्प पडेवि ते पडेवा ते। ते प्रवर्तिनी वातावि दोषने दीपि मूक जनी जाव छे तथा ते साध्वीछने प्रवर्तिनी साध्वीछता नथी ते जेवी परिस्थितिभां 'सा णे मते ! किं आराहिया, विराहिया ?' आलोचनार्थं न ही जानार ते साध्वीने स यमनी आराधिका छी जहा छे विराधिका छेवाम । तने उत्तर आपना महावीर प्रश्न छे छे- 'गोयमा' हे गौतम ! आराहिया, नो विराहिया' ते साध्वीने स यमनी आराधिका छे छी जहा, विराधिका छेवाम नही। 'सा य संपद्विया जहा निगगयस्स तिन्नि गमा मणिया एव निग्गयीए वि तिन्नि आलापगा भाणियच्चा, जाव आराहिया, नो विराहिया' आलोचनार्थं आदि करवा छे त्पविर पासे ज्जाने छे छे उपदेवा निर्ग्रन्थ असमाप्त स्थिति विषयक प्रश्न आलापक इत्यां आलापक छे, जेव प्रमथे

असंप्राप्ता आत्मना अमुखा स्यात् ? सा संप्रस्थिता असंप्राप्ता, प्रवर्तिनी कालं कुर्यात् ? सा संप्रस्थिता असंप्राप्ता आत्मनैव कालं कुर्यात् ३, सा किम् आराधिका, विराधिका वा ? गौतम ! सा आराधिका भवेत्, नो विराधिका स्यात् गौतमस्तत्र कारणं पृच्छति—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-आराधिया, नो विराधिया ?’ हे भदन्त ! तत् अय केनार्येन एवमुच्यते—आराधिका, नो विराधिका इति ? इति प्रश्नः, भगवानाह—गोयमा ! से जहानामए-केइपुरिसे एगं महं उम्नालोमं वा, गयलोमं वा, सणलोमं वा कप्पासलोमं वा, तणम्वयं

असंप्राप्तविषयक तीन आलापक कहना चाहिये—जैसे—वह अपने अकृत्य स्थानसे आलोचना ग्रहण करनेके लिये प्रवर्तिनीके पास चलदेती है. परन्तु वहाँ पहुँचनेसे पहिले वह सूक बन जाती है ? साध्वी वहाँसे चलदेती है पर वहाँ तक वह नहीं आपाती है बीचही में कालकर जाती है—इन सब हालतों में हे भदन्त ! वह साध्वी आराधिका मानी गई है या विराधिका मानी गई है ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! वह साध्वी आराधिका मानी गई है, विराधिका नहीं। अथ गौतम इस विषय में कारण जाननेकी इच्छासे ‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ आराधिया नो विराधिया’ प्रभुसे ऐसा पूछ रहे हैं हे भदन्त ! ऐसा आप किस कारणसे कहते हैं कि ये सब आराधक ही होते हैं—विराधक नहीं होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘से जहा नामए केइ पुरिसे एगं

प्रवर्तिनी पासे ज्वाने उपडेला साध्वीनी असंप्राप्त स्थिति विषयक त्रयु आलापके कहेवा नेधये नेभके (१) ते आलोचना आदि करवाने भाटे प्रवर्तिनी पासे ज्वाने उपडे छे पथु त्या पडोयता पडेवां पोते न सूक जनी नय छे (२) साध्वी त्याथी याथी नीकणे छे पथु त्या पडोयता पडेवा प्रवर्तिनी काण करी नय छे. (३) साध्वी त्याथी नीकणे छे पथु प्रवर्तिनी पासे पडोयता पडेवां रस्तामां पोतेन काण करी नय छे हे लदन्त ! आ त्रये प्रकारनी परिस्थितिमा आलोचनां न करी शकनार साध्वीने आराधिका मानवी हे विराधिका मानवी ? तेना उत्तर आपता महावीर प्रभु कहे छे—‘गोयमा ! धत्याहि’ हे गौतम ! ते साध्वीने आराधिका न कही शकय, विराधिका कहेवाय नही

हेवे आ प्रकारना जवाणनुं कारथु जणुवा निमित्ते गौतम ज्वाभी महावीर प्रभुने नये प्रभाणे अश्र पूछे छे—‘से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ, आराधिया नो विराधिया ?’ हे लदन्त ! आप सा कारणे तेमने आराध कडे छे ? तेमने विराधक न कडेवानु शुं कारथु छे ?



वा,' हे गौतम ! तपयानाम कश्चित्पुरुषः एकं महत् उर्णासोम वा, (मेफलोमा) गमलोम वा, शणलोम वा, कार्पासलोम वा, वृण सूत्र वा, 'दुहा वा तिहा वा, सखेज्जहा वा, छिदिचा अगणिकायसि पक्खिवेज्जा द्विधा वा, त्रिधा वा, सरुयातथा वा छित्वा अग्निकाये पक्षियेत् 'से नून गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दग्गमाणे द्दुब्बेचि वचच्च सिया ? हे गौतम ! उत् उर्णासोमादिकम् नूनं किम् छिद्यमानं द्विधा क्रियमाणं छिन्नं पक्षिप्यमाणं पक्षिप्तं, दग्गमानं दग्गमिति वक्तव्यं स्यात् ? गौतम माह—'इता

महं उम्भालोम वा, गयलोम वा, सणलोम वा, कप्पामलोम वा, तणसूय वा' जैसे कोई एक पुरुष मेघ के यारों के ढेर को—ऊनको हावी के रोम के ढेर को, मणको, कपास को तथा घास के रस्से को 'दुहा वा तिहा वा सखेज्जहा वा छिदिचा' दो टुकड़े करके तीन टुकड़े करके अथवा सरुयात टुकड़े करके 'अगणिकायसि पक्खिवेज्जा' अग्निकाय में—अग्नि में डाल देता है । से पूर्ण गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दग्गमाणे द्दुब्बेचि वचच्च सिया' तो हे गौतम ! उस छेदे जाते हुए ऊन आदि पदार्थ में 'यह छिन्न हो गया' छेद दिया गया—इस तरह से वर्तमान काल में भूतकाल का प्रयोग होता है न ? अग्नि में डाले जाते हुए उसमें 'यह अग्नि में डाल दिया गया' ऐसा वर्तमान काल में भूतकाल का प्रयोग होता है न ? इसी तरह जलते उन ऊन आदिकों में 'ये जल गये' इस प्रकार से वर्तमान काल में भूतकाल का प्रयोग होता है न ? इसक

उत्तर :- गोयमा ' हे जीवन्म । ' से महा नामए केइ पुरित्ते एगं महं उम्भालोमं वा, गयलोम वा, सणलोमं वा कप्पासलोमं वा, तणसूयं वा ' जेभडे काम जेह पुरुष येथाना वाज—उनना दग्गमाने, दाधीना वणना दग्गमाने, वक्कद रेसाने उपासना रेसाने तथा वासना दुब्बडाने (द्वारडाने) 'दुहा वा तिहावा सखेज्जहा वा छिदिचा ' जे, क्खु अथवा अत्तअत्त दुब्बडा करीने 'अगणिकायसि पक्खिवेज्जा' अग्निमां नाम्हा दे छे 'से पूर्ण गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, दग्गमाणे द्दुब्बे चि वचच्चं सिया ' तो हे जीवन्म । ते अर्थ रहेबा उन अग्नि पदार्थनि भए तेने छेदी नाजवामां अत्तअत्त जेवे प्रथेज्ज वाय छे के नदी ? अग्निमां नाम्हा देवावे जेवे प्रथेज्ज वाय छे के नदी ? अग्निमां अत्तअत्त ने जिन अग्नि पदार्थनि भए 'अग्निमां जणी जया जेवे प्रथेज्ज वाय छे के नदी ? आ प्रकारे वत्तअत्तनाजमां अत्तअत्ताने प्रथेज्ज वाय छे के

भगवं ! छिज्जमाणे छिन्ने जाव दइढे ति वत्तवं सिया' हे भगवन् ! इन्त सत्यम् तद् ऊर्णाळोमादिकं छिद्यमानं छिन्नं यावत् प्रक्षिप्यमाणं प्रक्षिप्तं, दह्यमानं दग्धमिति वक्तव्यं स्यात् भवेत् ।

एवञ्च क्रियाकरणकालभूतकालयोरभेदेन प्रतिक्षणं प्रतिक्षणं कार्यस्य निष्पत्त्या यथा छिद्यमानं वस्तु छिन्नमितिव्यपदिश्यते तथैव आलोचना परिणामे सति असौ

उपर गौतम कहते हैं 'हंता, भगवं छिज्जमाणे छिन्ने जाव दइढेत्ति वत्तवं सिया' हां भदन्त ! छेदे जाते हुए ऊन आदि पदार्थों में वे छिन्न हो चुके हैं इस प्रकारसे वर्तमान काल में भूतकाल का प्रयोग होता है इसी तरह से अग्नि में डाले जाते हुए उनमें वे डाले जा चुके हैं ऐसा वर्तमान कालमें भूतकाल का प्रयोग होता है और इसी तरह से जलते हुए उनमें वे जले हैं ऐसा वर्तमान काल में भूतकालका प्रयोग होता है । तात्पर्य कहनेका यह है कि जो काल क्रिया करने का है उस काल में और जो काल बीत चुका है ऐसे भूतकाल में अभेद जब मान लिया जाता है तब ऐसा कथन हो जाता है । कार्य की निष्पत्ति होने का जो समय है वह वर्तमान काल क्रियाकरण काल है । अर्थात् यह काल क्रिया की निष्पत्ति का होता है और भूतकाल क्रिया की निष्पत्ति हो चुकने का होता है । परन्तु जब दोनों कालों में अभेद मान लिया जाता है तब ऐसा व्यवहार होता है इसीलिये 'छिद्यमान' वस्तु में 'छिन्न' ऐसे व्यपदेश होने

नहीं ? तेना उत्तर आपता गौतम स्वामी कहे छे क- ' हंता, भगवं छिज्जमाणे छिन्ने जाव दइढेत्ति वत्तवं सिया ' हा, भदन्त ! छेदाद्य-रुडेला ङिन आदि पदार्थने भाटे ' छेदाद्य गया ' ; अवेा प्रयोग थाय छे, अग्निमां नाथवामां आपता ङिन अदि पदार्थने भाटे ' अग्निमां नाथी देवामां आव्या ' ; अवेा प्रयोग थाय छे अने अग्निमां अणता ङिन अदि पदार्थ-भाटे ' अग्निमां अणी गया ' अवेा प्रयोग पञ्च थाय छे आरीते वर्तमानकाणमां भूतकाणनेा प्रयोग थाय छे अरे. आ कथननेा लावार्थ नीचे प्रमाणे छे- क्रिया करवाने ने काण छे तेमां ने काण व्यतीत थछ सुक्ये छे अवेा भूतकाणमां अयारे अवेाद भानी देवामां आवे छे तयारे आ प्रकास्तुं कथन थाय छे. कार्यनी निष्पत्ति थवाने ने समय छे ते वर्तमानकाण-क्रियाकरणे, काण छे-अरेवे के कार्य थवाने ने काण ते वर्तमानकाण छे. पञ्च क्रियानी निष्पत्ति थछ सुकवाने ने काण छे ते भूतकाण छे पञ्च अयारे ते अने काणमां अवेाद भानी देवामां आवे छे, तयारे आ प्रकास्तुनेा प्रयोग थाय छे. तेमां ' छिद्यमान ' छेदाती वस्तुमां ' छिन्न ' छेदाद्य सुक्येनी व्यवहार



द्रोण्यां मञ्जिष्ठारागभाण्डे प्रक्षिपेत् 'से पूणं गोयमा ! उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, रज्जमाणे रत्तेत्ति वत्तव्वं सिया ! तत् वस्सम् नूनम् उत्क्षिप्पमाणम् उत्क्षिप्पत्तम् प्रक्षिप्पमाणं प्रक्षिप्पत्तम्, रज्ज्यमानं रक्तमिति व- व्यं स्यात् किम् ? गौतम आह- 'हंता, भगवं ! उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, जाव रत्तेत्ति वत्तव्वं सिया' हे भगवन् ! इन्त सत्यम् तद्वस्सं मञ्जिष्ठाद्रोण्याम् उत्क्षिप्पमाणम् उत्क्षिप्पत्तम्, यावत्-प्रक्षिप्पमाणं प्रक्षिप्पत्तम्, रज्ज्यमानं रक्तमिति नूनं वत्तव्वं स्यात्,

प्रयोग होता है वह वर्तमान काल और भूतकाल में अभेद मानकर ही होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रभु गौतम से 'उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते रज्जमाणेरज्जेत्ति वत्तव्वं सिया' ऐसा कह रहे हैं- कहो गौतम ! जब यह वस्त्र मञ्जिष्ठा रंगके पात्रमें डाल डाला जाता है- उस समय उसमें 'उत्क्षिप्तम्' ऐसा भूतकाल संबंधी प्रयोग होता है न ? तथा जब उस मञ्जिष्ठा रंगके पात्रमें डाला जाता है- तब उसमें वह डाल दिया गया है ऐसा भी भूतकालका प्रयोग होता है न ? तथा-जब वह रंगनेकी अवस्था में होता है तब उसमें वह रंगा जा चुका है' ऐसा भी भूतकालका प्रयोग होता है न ? इस पर गौतम कहते हैं- 'हंता भगव ! उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, जाव रत्तेत्ति वत्तव्वं सिया' हां भदन्त ! ऐसा सब प्रयोग होता है- अर्थात् मञ्जिष्ठा रंगकी द्रोणी (कुंडी) में उत्क्षिप्पमाण वस्त्र में उत्क्षिप्त और रज्ज्यमान

रहेला वस्त्रने माटे 'रंगार्थ गयु' छे' जेवा जे भूतकालिक प्रयोग थाय छे ते वर्तमान अने भूतकालमां अलेह भानीने ज थाय छे जेवा वातने ध्यानमा राप्पीने प्रभु गौतम स्वाप्पीने आ प्रमाणे छे छे- 'उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, पक्खिप्पमाणे पक्खित्ते, रज्जमाणे रज्जेत्ति वत्तव्वं सिया' हे गौतम ! मञ्जिष्ठना रंगमां नाप्पवामां आवी रहेला ते वस्त्रने-माटे 'रंगमां नाप्पी हेवामां आव्यु', जेवा भूतकालिक प्रयोग थाय छे के नही ? ते रंगमां अणोणाछ रहेला वस्त्रने माटे 'जणोणाछ गयु' जेवा प्रयोग थाय छे के नही ? ते रंगमां रंगाता वस्त्रने माटे 'रंगार्थ गयु' जेवा प्रयोग थाय छे के नही ? आ रीते ते तथु वर्तमानकालिक क्रियाज्जे माटे भूतकालने प्रयोग थाय छे के नही ? गौतम स्वाप्पी जवाप आवे छे- 'हंता, भगवं ! उक्खिप्पमाणे उक्खित्ते, जाव रत्तेत्ति वत्तव्वं सिया' इह, भदन्त ! जेवा प्रयोग यथ शक्ये छे अट्टे के मञ्जिष्ठना रंगनी कुंडीमां उत्क्षिप्पमाणे (नाप्पार्थ रहेला) वस्त्रने माटे 'उत्क्षिप्त' (नाप्पी हेवामां आव्यु) जेवा प्रयोग करी सकाय छे अने रंगाता वस्त्रने माटे 'रंगार्थ गयु' जेवा प्रयोग करी सकाय छे.

मगधान् प्रकृतमुपसंहरति—‘से तेणहृणं गोयमा ! एव बुद्ध-भाराहए, नो विराहए’ हे गौतम ! तत् अथ तेनार्येण एवमुच्यते,—निर्ग्रन्थः आरापक एव नो विरापकः ॥ सू० ३ ॥

दीपस्वरूपवक्तव्यता—

मूलम्—‘पर्ईवस्स ण भत्ते ! श्शियायमाणस्स किं पर्ईवे श्शियाइ लट्ठी श्शियाइ, वत्ती श्शियाइ तेल्ले श्शियाइ, दीवधपए श्शियाइ, जोई श्शियाइ ! गोयमा ! नो पर्ईवे श्शियाइ, जाव नो पर्ईव धपए श्शियाइ, जोई श्शियाइ, आगारस्स णं भत्ते ! श्शियाय माणस्स किं आगारे श्शियाइ, कुडा श्शियाइ, कडणा श्शियाइ धारणा श्शियाइ, घलहरणे श्शियाइ, वसा श्शियाइ, मल्ला श्शियाइ वग्गा श्शियाइ, छित्तरा श्शियाइ, छाणे श्शियाइ, जोई श्शियाइ ! गोयमा ! नो अगारे श्शियाइ, नो कुडा श्शियाइ, जाव नो छाणे श्शियाइ जोई श्शियाइ ॥ सू० ४ ॥

छाया - मदीपस्य खलु भवन्त ! ध्यायतः किं मदीपो ध्यायति, वट्टिः ध्यायति, वनिका ध्यायति तैल ध्यायति, दीपचम्पक ध्यायति क्योति।

में रक्त ेसा प्रयोग होता है। अथ प्रकृत विषयका उपसंहार करते हुए प्रथमसे कहते हैं—‘से तेणहृणं गोयमा ! एव बुद्ध-भाराहए नो विराहए’ हे गौतम ! इसी कारणसे मैंने ऐसा कहा है कि आरापना करनेके लिये तैयार हुआ वह निर्ग्रन्थ भ्रमण तथा निर्ग्रन्थी साग्धी आरापक है विरापक नहीं है ॥ सू० ३ ॥

‘से तेणहृणं गोयमा ! एव बुद्ध-भाराहए नो विराहए’ हे गौतम ! तत् अथ तेनार्येण एवमुच्यते,—निर्ग्रन्थः आरापक एव नो विरापकः ॥ सू० ३ ॥

ध्मायति ? गौतम ! नो प्रदीपो ध्मायति, यावत् नो प्रदीपचम्पकं ध्मायति, ज्योतिः ध्मायति; आगारस्य खलु भदन्त ! ध्मायतः किम् आगारं ध्मायति, कुड्यानि ध्मायति कडनानि ध्मायति धारणे ध्मायतः, बलहरणं ध्मायति, वंशाः ध्मायन्ति, मल्लाः ध्मायन्ति, वल्का ध्मायन्ति, छित्तराणि ध्मायन्ति:

दीप स्वरूप वक्तव्यता-

‘पर्इवस्स णं भंते ! झियायमाणस्स किं पइवे ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ- ( पर्इवस्स णं भंते ! झियायमाणस्स किं पर्इवे झियाइ )

हे भदन्त ! जलते हुए दीपक में क्या जलता है ? क्या दीपक जलता है ? ( लट्टी झियाइ ) या दीपक की यष्टि जिस यष्टि पर दीवा रखा जाता है वह जलती है ? ( बत्ती झियाइ ) अर्थात् बत्ती जलती है ? ( तेल्ले झियाइ ) या तेल जलता है ? ( दीपचंपए झियाइ ) या दीपकका आधारभूत पात्र जलता है ? ( जोई झियाइ ) या ज्योति-अग्नि-जलती है ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( नो पइवे झियाइ जाव नो पइवचंपए झियाइ जोइ झियाइ ) प्रदीप नहीं जलता है-यावत् प्रदीपका आधारभूत पात्र नहीं जलता है, किन्तु ज्योती-अग्नि जलती है । ( अगारस्स णं भंते ! झियायमाणस्स किं अगारे झियाइ, कुडा झियाइ, कडणा झियाइ, धारणा झियाइ बल हरणे झियाइ, वंसा झियाइ, मल्ला झियाइ, वल्का झियाइ छित्तरा

दीप स्वरूप वक्तव्यता-

‘पर्इवस्सणं भंते ! झियायमाणस्स किं पइवे झियाइ ’ इत्यादि-

सूत्रार्थ :- ( पर्इवस्सणं भंते ! झियायमाणस्स किं पइवे झियाइ ) हे भदन्त !

अणता दीपकमा शुं अणे छे ! शुं दीपक अणे छे ? ( लट्टी झियाइ ) हे दीवानी वाट अणे छे ? ( वत्ति झियाइ ) हे अत्ति अणे छे ? ( तेल्ले झियाइ ) हे तेल अणे छे ? ( दीवचंपए झियाइ ) हे दीपकनु आधारभूत पात्र अणे छे ? ( जोई झियाइ ) हे ज्योती (अग्नि) अणे छे ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( नो पइवे झियाइ जाव नो पइवचंपए झियाइ-जोई झियाइ ) प्रदीप अणतो नथी, प्रदीपना आधारभूत पात्र पर्यन्तनी डोड पण वस्तु अणती नथी, परन्तु ज्योति (अग्नि) अणते छे । ( अगारस्स णं भंते ! झियायमाणस्स किं अगारे झियाइ, कुडा झियाइ, कडणा झियाइ, धारणा झियाइ, बलहरणे झियाइ, वंसा झियाइ, मल्ला झियाइ, वल्का झियाइ, छित्तरा

छादनं ध्यायति, ज्योतिं ध्यायति, गौतम ! नो आगारं ध्यायति, नो कुड्यानि ध्यायति, यावत् नो छादनं ध्यायति ज्योतिः ध्यायति ॥ सू० ४ ॥

टीका - आराधक प्रस्तावात् तस्य, च प्रदीपवद् दीप्यमानत्वेन प्रदीप स्वरूपं प्रस्तुपयितुमाह-‘पर्ष्वस्स ण भते’ इत्यादि । ‘पर्ष्वस्स ण भंते । क्षियायमाणस्स किं पइवे क्षियाइ, ल्ही क्षियाइ वची क्षियाइ, तेख्खे क्षियाइ, दीवर्षपप् क्षियाइ, जोइ क्षियाइ ?’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! प्रदीपस्य

क्षियाइ, छाणे क्षियाइ, जोइ क्षियाइ ) हे भदन्त ! जल्लो कुप घर में क्या जलता है ? क्या घर जलता है ? या भीते जलती है ? या दृटियां जलती हैं ? या खम्मे जलते हैं ? या मोम काष्ठ जलता है ? या खांस जलते हैं ? या मल्ल-भीतेके आधारभूत खम्मे जलते हैं ? या घरके ऊपरकी लकड़ियां - जलती हैं ? या छप्पर जलता है ? या ज्योति-अग्नि जलती है ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( नो आगारे क्षियाइ, नो कुड्डी क्षियाइ, नाव नो छाणे क्षियाइ, जोइ क्षियाइ ) न घर जलता है, न भीति जलती हैं, यावत् न छप्पर जलता है, किन्तु ज्योति-अग्नि जलती है ।

टीकार्थ- यहाँ आराधकका विषय चल रहा है । आराधक जो होता है वह प्रदीपकी तरह चमकता है इसलिये सूत्रकारने यहाँ प्रदीपका स्वरूप प्ररूपित किया है-इसमें गौतमने प्रश्नसे ऐसा पूछा है- ‘पर्ष्वस्स ण भंते ! क्षियायमाणस्स किं पइवे क्षियाइ, ल्ही

क्षियाइ, छाणे क्षियाइ जोइ क्षियाइ ) हे भदन्त ! जलता घरमां तु जले ॥ तु पर जले ॥ हे दीवासे जले ॥ हे बाळटियां जले ॥ हे बाळका जले ॥ हे मोल जले ॥ हे नांस जले ॥ हे दीवर्षोना आधारभूत खम्मे जले ॥ हे लज्जिमे जले ॥ हे लखर जले ॥ हे ज्योति ( अग्नि ) जले ॥ ( गोयमा ) हे गौतम ! ( ना आगारे क्षियाइ, नो कुड्डी क्षियाइ नाव नो छाणे क्षियाइ जोइ क्षियाइ ) घर जलता नहीं दीवासी जलती नहीं, जने जलता पर्ष्वत्तनी भीते जलती नहीं, ज्योती ( अग्नि ) जले ॥

टीकार्थ - आराधकने अर्धियां बाधी रही ॥ आराधक प्रदीप ( दीप ) नी लेभ जणे ॥ तेभी सवारे ल्ही प्रदीप ( दीप ) ना स्वइयत्त निरूपयुं कुं ॥- ना विवपने जल्लोक्षीने गौतम स्वामी भदावीर प्रश्नने जेने प्रश्न पूछे ॥- ‘पर्ष्वस्स ण भंते ! क्षियायमाणस्स किं पइवे क्षियाइ, ल्ही क्षियाइ, वची क्षियाइ, तेख्खे क्षियाइ, दीवर्षपप् क्षियाइ, जोइ क्षियाइ ?’ हे भदन्त ! अथरे ज्यो जलता दीप ॥

खलु ध्मायतो ध्मायमानस्य वा ज्वलतः, किं प्रदीपो ध्मायति ज्वलति, यष्टिः ध्मायति, ज्वलति, ध्मायतेवा ? अथवा यष्टिः दीपयष्टिः ध्मायति ज्वलति ? 'वत्तीक्ष्णियाइ' किं वा वत्तिका-दीपदशा ध्मायति ज्वलति 'तेल्ले क्ष्णियाइ' किं वा तैलं ध्मायति, 'दीव चंपए क्ष्णियाइ' दीप चम्पकं दीपाधारपात्रं वा ध्मायति, ज्वलति, 'जोई क्ष्णियाइ' ज्योतिः अग्निर्वा ध्मायति ज्वलति, भगवानाह गोयमा ! नो पइवे क्ष्णियाइ जाव नो पइवचंपए क्ष्णियाइ, जोई क्ष्णियाइ' हे गौतम ! नो प्रदीपो दीपयष्ट्यादिसमुदायो ध्मायति ज्वलति, यावत्-नो दीपयष्टिः ध्मायति, नो वत्तिका ध्मायति, नो वा तैलं ध्मायति, नैव दीप चम्पकं ध्मायति, अपितु ज्योतिः अग्निः ध्मायति ज्वलति, ज्वलनप्रस्तावाद् गौतमः पृच्छति- 'आगारस्स णं भंते ! क्ष्णियायमाणस्स किं आगारे क्ष्णियाइ,

क्ष्णियाइ, वत्ती क्ष्णियाइ, तेल्ले क्ष्णियाइ, दीपचंपए क्ष्णियाइ, जोई क्ष्णियाइ' हे भदन्त ! जब दीपक जलता है- तो उस समय जलते हुए उस दीपक में क्या जलता है ? क्या वह दीपक जलता है ? या यष्टि जलती है ? अथवा-यष्टि-दीपयष्टि-दीवट जलती है ? या दीपक में रहा हुआ तैल जलता है ? या दीपचंपक-दीपका आधारभूत पात्र जलता है ? या अग्नि जलती है ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! 'नो पइवे क्ष्णियाइ जाव नो पइवचंपए क्ष्णियाइ, जोई क्ष्णियाइ' न दीपक जलता है, न दीपयष्टि आदि रूप समुदाय जलता है अर्थात्-न दीपयष्टि जलती है, न वत्ती जलती है, न तैल जलता है, और न दीपचंपक जलता है, किन्तु-ज्योति-अग्नि जलती है। इसी ज्वलनका विषयको लेकर गौतम पूछते हैं 'आगारस्स णं भंते ! क्ष्णियायमाणस्स किं आगारे क्ष्णियाइ, कुडा क्ष्णियाइ, कडणा

त्तारे ते भजता हीवामां शुं भजे छे ? शु ते दीपक भजे छे ? के दीपकनी वाट भजे छे ? के वत्ती भजे छे ? के तेल भजे छे ? के दीपचंपक (दीपकना आधारभूत पात्र) भजे छे ? के न्योति (अग्नि) भजे छे ?

उत्तर :- 'गोयमा !' हे गौतम ! 'नो पइवे क्ष्णियाइ, जाव नो पइवचंपए क्ष्णियाइ, जोई क्ष्णियाइ' ज्वलता दीपकमां दीपक भलतो नथी, दीपकनी वाट भलती नथी, वत्ती भलती नथी, तेषां पूरेखुं तेष भलतुं नथी, दीपकना आधारभूत पात्र (काडियुं भजेरे) पथुं भलतुं नथी, भरन्तुं न्योति (अग्नि) भजे छे।  
 मां प्रकारनीं ज्वलन विषये यीजे प्रश्न गौतम स्वामी पूछे छे :- 'आगारस्स णं भंते ! क्ष्णियायमाणस्स किं आगारे क्ष्णियाइ, कुडा क्ष्णियाइ, कडणा क्ष्णियाइ,



कुइबा श्रियाइ, कइबा श्रियाइ, पारणा श्रियाइ, पलहरणे श्रियाइ, बंसा श्रियाइ, मल्ला श्रियाइ छिचरा श्रियाइ, छाणे श्रियाइ, मोई श्रियाइ ।' हे भदन्त ! अगारस्य गृहस्य खल्व ध्मायतो व्वलन्तः किम् आगारं गृहं ध्मायति व्वलन्ति ? किंवा कुइयानि मिचयो ध्मायन्ति व्वलन्ति ? कइनानि बहिकाः 'टाटी' इति मापायां मसिद्धम्-ध्मायन्ति ? पारणे वलहरणाधारभूते स्पूणे स्तम्भौ ध्मायतः व्वलन्तः किम् ? किंवा बलहरण्य धारणयो रुपरिभर्ति तिर्यगायत काष्ठम् 'मोम' इति मापामसिद्धम् ध्मायति व्वलन्ति ? अथवा बन्नाः ध्मायन्ति व्वलन्ति ? किंवा मल्लाः-कुइयाण्टम्ममस्यायव स्तम्भाः, वलहरणाधारमाभितानि चिच्वराधारभूतानि उट्ट्वायतानि काष्ठानि वा ध्मायन्ति, व्वमन्ति ? किंवा बरकाः बंशादिबन्धनभूता पटादि स्वचो रत्नवः ध्मायन्ति ! व्वलन्ति ? किंवा छित्वराणि ब्रह्मादिमयानि छादनाधारभूतानि आच्छादनानि ध्मायन्ति व्वलन्ति ! अथवा छादनं वर्मादिमय पटल ध्मायति व्वलन्ति ? किंवा ज्योति

श्रियाइ, पारणा श्रियाइ, पलहरणे श्रियाइ, वसा श्रियाइ, मल्ला श्रियाइ, छिचरा श्रियाइ, छाणे श्रियाइ, जोइ श्रियाइ ।' हे भदन्त ! जब घर जलता है- तो उस जलते हुए घर में क्या जलता है- क्या घर गलता है ? या कुइय-भिन्नियां जलती हैं ? या कइम-टटियां जलती हैं ? या पल हरणके आधारभूत स्तंभे जलते हैं (वलहरण म्यारी को कहते हैं) सो क्या म्यारी जलती है ? (वह एक प्रकारका तिरछा छिबा स्पूल काष्ठ होता है जो स्तंभो पर रखा रहता है) इसे 'मोम' भी कहते हैं । अथवा-बांस जलते हैं । या-मल्ल-भीतके सहाराके लिये लगाये गये स्तम्भे-जल हैं ? या बग्ग-वशादिको परस्पर में बाँधने वाली छाले 'बकोडे' जलते हैं या छित्वर म्यारी में ऊँचे करके लगाये हुए काठ-जलते हैं ? या 'जान' छप्पर-जलता है ?

पारणा श्रियाइ, वलहरणे श्रियाइ, बंसा श्रियाइ, मल्ला श्रियाइ, छिचरा श्रियाइ, छाणे श्रियाइ जोइ श्रियाइ ?' के जलन्तः । अगारे घरने अजल कायी छेव, त्यारे ते अजन्त घरमां छे जलते छे । छे वा जलते छे ? छे व्वली दिवाये जलते छे । छे अन्त (वलहरण्य) जलते छे ? छे मेलना आधार इम स्तम्भे जलते छे । छे मेलन जलते छे । छे बांस जलते छे ? छे मल्ल बर्तित्तय आधारभूत स्तम्भे जलते छे । छे 'मल्ल - मल्ल' बर्तित्तय अन्तरे अन्तरे बांस आधारभूत स्तम्भे जलते छे । छे व्वलीमो जलते छे । छे अथवा-बांस जलते छे । छे अथवा-बांस जलते छे ।

अग्निः ध्मायति ज्वलति ? भगवानाह—‘गोयमा ! नो अगारे झियाइ, नो कुइडा झियाइ, जाव नो छाणे झियाइ, जोइझियाइ’ हे गौतम ! नो अगारं गृहं ध्मायति ज्वलति, नो कुट्टयानि भित्तयो ध्मायन्ति, ज्वलन्ति, यावत् नो कडनानि ध्मायन्ति, नो धारणे ध्मायतः, नो बळहरणं ध्मायन्ति, नो वंशा ध्मायन्ति, नो चित्तराणि ध्मायन्ति, नो छादन ध्मायति, अपितु ज्योतिः अग्निः ध्मायति ज्वलति ॥ सू० ४ ॥

क्रियावक्तव्यता—

मूलम्—“जीवे णं भंते ! ओरालियासरीराओ कइ किरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउ किरिए, सिय पंच किरिए, सिय अकिरिए. नेरइए णं भंते ! ओरालियासरीराओ कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, असुरकुमारे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ? एवं चेव, एवं जाव वेमाणिए नवरं मणुस्से जहा जीवे, जीवेणं भंते ! ओरालियसरीरेहिंतो कइ करिए ? गायमा ! सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए नेरयिएणं भंते ! ओरालियसरीरेहिंतो कइ किरिए । एवं एसो जहा पढमी दंडओ तथा इसो वि अपरिसेसो भाणि-यव्वो जाव वेमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे, जीवाणं भंते ! ओरालिया सरीराओ कइकिरिया ? गोयमा ! सिय ति-किरिया जाव सिय अकिरिया, नेरइया णं भंते ! ओरालिय-

या ज्योति—अग्नि जलती है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘नो अगारं झियाइ, नो कुइडा झियाइ, जाव नो छाणे झियाइ’ न घर जलता है, न भीते जलती है और न यावत् छान जलता है, किन्तु अग्नि जलती है ॥ सू० ४ ॥

महावीर-प्रभुनेो उत्तर—‘गोयमा ! हे गौतम ! ‘न अगारं झियाइ, नो कुइडा झियाइ, जाव नो छाणे झियाइ’ घर भणतु नथी, दीवाडो भणती नथी, छापरि यथं-तनी डोअपथु वस्तु भणती नथी, परन्तु अग्नि ज भजे छे ॥ सू० ४ ॥

सरीराओ कइकिरिया एव एसोवि जहा पढमो दढओ तहा  
भाणियव्वो, जाव वेमाणिया, नवर मणुस्सा जहा जीवा,  
जीवा ण भते । ओरालियसरीरेहिंतो कइकिरिया ? गोयमा ।  
तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि, अकिरिया  
वि, नेरइयाण भते । ओरालियसरीरेहिंतो कइ किरिया ?  
गोयमा । तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि,  
एव जाव वेमाणिया, नवर मणुस्सा जहा जीवा, जीवे णं भते ।  
वेउव्विय सरीराओ कइकिरिण् ? गोयमा । सिय तिकिरिण्  
सिय चउकिरिण्, सिय अकिरिण्, नेरइण्णं भते । वेउव्विय  
सरीराओ कइकिरिण् ? गोयमा । सिय तिकिरिण् सिय चउ  
किरिण् एव जाव वेमाणिण्, नवर मणुस्से जहा जीवे, एव  
जहा ओरालियसरीराण चत्तारि दढगा भणिया तहा वेउव्विय  
सरीरेण वि चत्तारि दढगा भाणियव्वा, नवर पचमकिरिया  
न भन्नइ, सेस त चेष एव जहा वेउव्विय तहा आहारगंपि  
तेयगपि, कम्मगपि भाणियव्व, एक्केक्के चत्तारि दढगा  
भाणियव्वा, जाव वेमाणियाणं भते । कम्मगसरीरेहिंतो कइ  
किरिया ? गोयमा । तिकिरियावि, चउकिरियावि सेव भते ।  
सेव भते ! ति ॥ सु० ५ ॥

अट्टमसयस्स छट्ठो उरेसओ समत्तो ॥ ८-६ ॥

छाया—जीव स्वप्न मदन्त । औदारिकसरीरात् कतिक्रियाः ? गौतम ।  
स्यात् त्रिक्रियाः, स्यात् चतुष्क्रियाः, स्यात् पञ्चक्रियाः, स्यात् षडक्रियाः, नेरयिकः  
स्वप्न मदन्त । औदारिकसरीरात् कतिक्रिया । गौतम । स्यात् त्रिक्रियाः स्यात् चतु  
ष्यक्रियाः, स्यात् पञ्च क्रियाः असुरदुमार एव मदन्त । औदारिकसरीरात् कतिक्रियाः ?  
एव वैव, एव पावत् वेमानिच, नवर मनुष्यो यथा जीवः, जीवः स्वप्न

भदन्त ! औदारिकशरीरेभ्यः कतिक्रियः ? गौतम ! स्यात् त्रिक्रियः, यावत् स्यात् अक्रियः, नैरयिकः खलु भदन्त ! औदारिकशरीरेभ्यः कति क्रियः ?

क्रियावक्तव्यता-

‘ जीवे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ’ इत्यादि ।

सूत्रार्थ :- ( जीवे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ) हे भदन्त ! एक जीवं परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( गौयमा ) हे गौतम ! ( मिय त्रिकिरिए सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, मिय अकिरिए ) कभी वह तीन क्रियाओंवाला होता है, कभी वह चार क्रियाओंवाला होता है, कभी वह पांच क्रियाओंवाला होता है । और कभी वह अक्रिय क्रिया रहित होता है । ( नेरइए णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिए ) हे भदन्त ! एक नारक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( गौयमा ! सिय त्रिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ) हे गौतम ! एक नारक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कभी तीन क्रियाओंवाला होता है, कभी चार क्रियाओंवाला होता है और कभी पांच क्रियाओंवाला होता है । ( असुरकुमारेणं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ) हे भदन्त ! असुरकुमार देव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( एवंचेव, एवं जाव वेमाणिए-नवरं

क्रिया वक्तव्यता-

‘ जीवे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ’ इत्यादि-

सूत्रार्थ :- ( जीवे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ? हे भदन्त ! एक एव औदारिक शरीरने आधारे कइली क्रियाओवाणे होय छे ? ( गौयमा ! ) हे गौतम ! ( मिय त्रिकिरिए, सिय चउकिरिए, मिय पंचकिरिए, सिय अकिरिए ) क्यारेक ते त्रय क्रियाओवाणे होय छे, क्यारेक न चार क्रियाओवाणे होय छे, क्यारेक ते पांच क्रियाओवाणे होय छे अने क्यारेक ने अक्रिय-क्रिया रहित होय छे ‘ नेरइए णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए ) हे भदन्त ! एक नारक एव परकीय औदारिक शरीरने आश्रयथी कइली क्रियाओवाणे होय छे ? ( गौयमा ! सिय त्रिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ) हे गौतम ! एक नारक एव परकीय औदारिक शरीरने आधारे क्यारेक त्रय क्रियाओवाणे होय छे, क्यारेक चार क्रियाओवाणे होय छे अने क्यारेक पांच क्रियाओवाणे होय छे ( असुरकुमारेणं भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिए ? ) हे भदन्त ! एक असुरकुमार देव परकीय औदारिक शरीरने आश्रयथी कइली क्रियाओवाणे होय छे ? ( एवं चेव, एवं जाव

एषम् एष यथा प्रथमो दृष्टकस्तथा अयमपि अपरिज्ञेपो भणितव्यो यावत् वैमानिकः, नवरं मनुष्यो यथा जीवः, नीचाः स्वच्छ मन्त्र ! औदारिकशरीरात् कवि

मणुस्से जहा जीवे ) हे गौतम ! एक असुरकुमार देव कदाचित् तीन क्रियाओंवाला, कदाचित् चार क्रियाओंवाला और कदाचित् पांच क्रियाओंवाला होता है- इस तरहसे पूर्वकी तरह कथन जानना चाहिये । इसी प्रकारसे यावत् वैमानिक देव भी तीन चार आदि क्रियाओंवाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये । मनुष्योंको जीवोंकी तरहसे जानना चाहिये । ( जीवे णं भंते ! ओरासियसरीरेहितो क्व किरिए ) हे भदन्त ! एक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( गीयमा ? सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए ) हे गौतम जीव परकीय औदारिक शरीर के आश्रय से कदाचित् तीन क्रियावाला होता है यावत् कदाचित् अक्रिय होता है ( नेरयिएण भंते ! ओरासियसरीरेहिता क्व किरिए ) हे भदन्त ! नेरयिक औदारिक शरीरों के आश्रय से कितनी क्रियावाला होता है ? ( एवं एसो जहा पडमो दडमो तथा इमो वि अपरिसेसो माणियव्वो जाव वैमाणिए नवरं मणुस्से जहा जीवे ) हे गौतम ! एक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कमी तीन क्रियाओंवाला होता है, कमी चार क्रियाओंवाला होता है कभी पांच क्रियाओंवाला होता है और कभी बिना क्रिया के

वमाणिए-नवरं मणुस्से जहा जीवे ) हे गौतम ! एक असुरकुमार देव कदाचित् त्रय क्रियाओंवाला, कदाचित् चार क्रियाओंवाला और कदाचित् पांच क्रियाओंवाला होता है- इसी प्रकारसे यावत् वैमानिक देव भी तीन चार आदि क्रियाओंवाले होते हैं ऐसा जानना चाहिये । मनुष्योंको जीवोंकी तरहसे जानना चाहिये । ( जीवे णं भंते ! ओरासियसरीरेहितो क्व किरिए ? ) हे भदन्त ! एक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( गीयमा ! सिय तिकिरिए जाव सिय अकिरिए ) हे गौतम जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रय से कदाचित् तीन क्रियावाला होता है यावत् कदाचित् अक्रिय होता है ( नेरयिएणं भंते आरासियसरीरेहितो क्व किरिए ? ) हे भदन्त ! नेरयिक परकीय औदारिक शरीरों के आश्रय से कितनी क्रियावाला होता है ? ( एवं एसो जहा पडमो दडमो तथा इमो वि अपरिसेसो माणियव्वो जाव वैमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे ) हे गौतम ! एक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कमी तीन क्रियाओंवाला होता है, कमी चार क्रियाओंवाला होता है कभी पांच क्रियाओंवाला होता है और कभी बिना क्रिया के

क्रियाः ? गौतम ! स्यात् त्रिक्रियाः, यावत् स्यात् अक्रियाः, नैरयिकाः खलु भदन्त ! औदारिकशरीरात् कतिक्रियाः ? एवम् एषोऽपि यथा प्रथमो दण्डक-स्तथा भणितव्यो यावत् वैमानिकाः, नवरं मनुष्या यथा जीवाः. जीवाः खलु भदन्त ! औदारिकशरीरेभ्यः कतिक्रियाः ? गौतम ! त्रिक्रिया अपि, चतु-

भी होता है—इस तरहसे प्रथम दण्डक यहाँ संपूर्णरूपसे कहना चाहिये । यावत् वैमानिकों में भी ऐसाही कथन करना चाहिये । मनुष्य में सामान्य जीवकी तरह क्रियाओंका कथन जानना चाहिये । ( जीवा णं भन्ते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिया ) हे भदन्त ! अनेक जीव औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया ) कदाचित् वे तीनक्रियाओंवाले होते हैं यावत् अक्रियावाले भी होते हैं । ( नेरइया णं भन्ते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिया ) हे भदन्त ! नारक जीव परकीय औदारिक शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं । ( एवं एसो वि जहा पढमो दंडओ तहा भाणियच्चो—जाव वेमाणिया—नवरं मणुस्सा जहा जीवा ) हे गौतम ! इस विषय में समस्त कथन प्रथम दण्डककी तरहसे जानना चाहिये—वैमानिक देवों तक इस दण्डकको कहना चाहिये । परन्तु मनुष्यों में जीवोंकी तरहसे क्रियाओंके होनेका और न होनेका कथन जानना चाहिये । ( जीवा णं

पथु होय छे. आ प्रमाणे अही प्रथम दंडकमा आवेहुं समस्त कथन करवुं लेधये. वैमानिको पर्यन्तना अवेमां पथु अवेहुं न कथन करवुं लेधये. मनुष्योमां क्रियावु कथन सामान्य अवन कथन अनुसार समजवु. ( जीवाणं भन्ते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिया ? ) हे लदन्त ! अनेक अ औदारिक शरीरना आश्रयथी कइली क्रियाओवाणा होय छे ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया ) क्यारेक तेओ त्रयु क्रियाओवाणा, क्यारेक चार क्रियावाणा, क्यारेक पांच क्रियावाणा अने क्यारेक क्रिया रहित होय छे ( नेरइयाणं भन्ते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिया ? ) हे लदन्त ! नारक अवे परकीय औदारिक शरीरना आश्रयथी कइली क्रियाओवाणां होय छे ? ( एवं एसो वि जहा पढमो दंडओ तहा भाणियच्चो, जाव वेमाणिया—नवरं मणुस्सा जहा जीवा ) हे गौतम ! आ विषयमां समस्त कथन पडेला दंडक प्रमाणे न समजवुं—वैमानिक देवो पर्यन्तना अवे विषे आ दंडक प्रमाणे न कथन करवुं लेधये. परन्तु मनुष्योमां क्रियाओ विषेनुं कथन अवेना कथन प्रमाणे न समजवुं लेधये.

क्रिया अपि, पञ्चक्रिया अपि अक्रिया अपि, नैरयिकाः स्वष्ट मदन्त ! औदारिकशरीरेभ्यः कतिक्रियाः ? गौतम ! त्रिक्रिया अपि चतुष्क्रिया अपि, पञ्चक्रिया अपि, एव यावत् वैमानिका, नखरं मनुष्या यथा जीवाः, जीवः स्वष्ट मदन्त ! बैक्रियशरीरात् कति क्रियाः ? गौतम ! स्यात् त्रिक्रियाः, स्यात् चतु

मन्ते ! भोराखियसरीरेद्वितो कइ किरिया ) हे भवन्त ! अनेक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं । ( गोयमा ! त्रिक्रिया वि, चतुक्रिया वि, पञ्चक्रिया वि, अक्रिया वि ) हे गौतम ! अनेक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं, पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं और बिना क्रियाओंके भी होते हैं । ( नेरइया जं मते ! भोराखियसरीरेद्वितो कइ किरिया ) हे भवन्त ! नारक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( त्रिक्रिया वि, चतुक्रिया वि, पञ्चक्रिया वि, एव जाव वैमानिया, नखरं मनुस्सा जहा जीवा ) नारक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं और पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं । इसी तरहसे यावत् वैमानिकों में भी जानना चाहिये । मनुष्योंको जीवोंकी तरहसे जानना चाहिये । ( जीवेणं मन्ते ! वेउभिय-

( जीवार्णं मते ! भोराखियसरीरेद्वितो कइ किरिया ? ) हे भवन्त ! अनेक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं ? ( गोयमा ! त्रिक्रिया वि, चतुक्रिया वि, पञ्चक्रिया वि, अक्रिया वि ) हे गौतम ! अनेक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं, पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं और बिना क्रियाओंके भी होते हैं । ( नेरइयार्णं मन्ते ! भोराखियसरीरेद्वितो कइ किरिया ? ) हे भवन्त ! नारक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ( त्रिक्रिया वि, चतुक्रिया वि, पञ्चक्रिया वि, एव जाव वैमानिया, नखरं मनुस्सा जहा जीवा ) नारक जीव औदारिक शरीरेके आश्रयसे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं और पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं । इसी तरहसे यावत् वैमानिकों में भी जानना चाहिये । मनुष्योंको जीवोंकी तरहसे जानना चाहिये । ( जीवेणं मन्ते ! वेउभिय-

ष्क्रियः, स्यात् अक्रियः, नैरयिकः खलु भदन्त ! वैक्रियशरीरात् कतिक्रियः? गौतम ! स्यात् त्रिक्रियः, स्यात् चतुष्क्रियः, एवं यावद् वैमानिकः, नवरं मनुष्यो यथा जीवः, एवं यथा औदारिकशरीराणाम् चत्वारो दण्डका भणितस्तथा वक्रियशरीरेणापि चत्वारो दण्डका भणितव्याः, नवर पञ्चमक्रिया न भण्यते, शेषं तदेव, एवं यथा वैक्रियं तथा आहारकमपि तैजसमपि,

सरीराओ कइ किरिए ) हे भदन्त ! जीव परकीय वैक्रिय शरीरको आश्रय करके कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( सिय तिकिरिए सिय चउकिरिए, सिय अकिरिए ) एक जीव परकीय वैक्रिय शरीरको आश्रय करके कदाचित् तीन क्रियाओंवाला होता है, कदाचित् चार क्रियाओंवाला होता है ( पांच क्रियाओंवाला नहीं होता है ) और कदाचित् विना क्रियाओंके भी होता है । ( नेरइएणं भंते ! वेउन्वियसरीराओ कइकिरिए ) हे भदन्त ! एक नारक जीव वैक्रिय शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाला होता है ? ( गोयमा ) हे गौतम ! ( सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए एवं जाव वेभाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे ) एक नारक जीव परकीय वैक्रिय शरीरके आश्रयसे कदाचित् तीन क्रियाओंवाला होता है, कदाचित् चार क्रियाओंवाला होता है । इस तरहसे यावत् वैमानिक तक जानना चाहिये. परन्तु मनुष्यको जीवकी तरह कहना चाहिये । ( एवं जहा ओरालियसरीराणं चत्तारि दंडगा भणिया ; तहा वेउन्विय-

समञ्जु ( जीवे णं भंते ! वेउन्वियसरीराओ कइ किरिए ? ) हे भदन्त ! एव परकीय वैक्रिय शरीरना आश्रयथी क्खेत्थी क्रियावाणा होय छे ? ( गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय अकिरिए ) हे गौतम ! अेक एव परकीय वैक्रियशरीरने आश्रय करीते क्यारेक त्रयु क्रियाओवाणे पणु होय छे, क्यारेक चार क्रियाओवाणे पणु होय छे ( पांच क्रियाओवाणे होते नहीं ) अने क्यारेक क्यारहित होय छे ( नेरइए णं भंते ! वेउन्वियसरीराओ कइ किरिए ? ) हे भदन्त ! अेक नारक एव वैक्रिय शरीरना आश्रयथी क्खेत्थी क्रियाओवाणे होय छे ? ( गोयमा ! ) हे गौतम ! ( सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, एवं जाव वेभाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे ) अेक नारक एव परकीय वैक्रिय शरीरना आश्रयथी क्यारेक त्रयु क्रियाओवाणे होय छे अने क्यारेक चार क्रियावाणे होय छे वैमानिक पर्यन्तमां आपु ञ कथन समञ्जुं पणु मनुष्य विप्रेतु कथन एवना कथन मुञ्ज समञ्जुं.



कार्मणमपि, मणितव्यम्, एकैकस्मिन् चत्वारो दण्डका मणितव्याः, यावत्  
 वैमानिकाः स्वल्भ मवन्त ! कार्मणश्चरीरेभ्यः क्वचिक्रियाः ? गौतम ! त्रिक्रिया  
 अपि, चतुष्क्रिया अपि, तदेष भवन्त ! तदेषं भवन्त ! इति ॥ सू० ५

मरुरेण वि चत्वारि-दंडगा भाणियन्वा-नवरं पञ्चमकिरिया न मल्ल,  
 सेसं तथेव-एवं नहा वेउम्भिय तहा आहारगंपि, सेयगपि, कम्मगंपि,  
 भाणियम्बं-एक्केके चत्वारि दंडगा भाणियन्वा)इस तरहसे जैसे औद्योगिक  
 शरीरके चार दंडक कहे गये हैं उसी तरहसे वैक्रिय शरीरके भी  
 चार दण्डक कहना चाहिये। परन्तु वैक्रिय शरीरके दण्डक में पांचवी  
 क्रिया नहीं कहनी चाहिये। क्यों कि वैक्रिय शरीरको आश्रय करके  
 पांचवी क्रिया नहीं होती है। चाकोका मव कथन पहिलेकी तरहसेही  
 जानना चाहिये। जिस तरहसे वैक्रिय शरीरके विषय में कहा गया  
 है उसी तरहसे आहारक तैजस और कार्मण शरीरके विषय में  
 भी कथन कर लेना चाहिये। अर्थात् एक एक शरीरके आश्रयसे  
 चार २ दण्डक होते हैं-ऐसा जानना चाहिये। (जाव वेमाणिया व  
 मते ! कम्मगसरिरेहिंनो कइकिरिया ) हे भवन्त ! यावत् वैमानिक  
 कार्मण-शरीरके आश्रयसे कितनी क्रियाओंवाले होते हैं ? (गोयमा)  
 हे गौतम ! (तिक्रिया वि, चउकिरिया वि, सेव मंते ! सेवं मंते !

(एव नहा ओराम्भियसरीरण चत्वारि दंडगा मणिया तहा वेउम्भिय  
 सरुरेण वि चत्वारि दंडगा भाणियन्वा - नवरं पञ्चमकिरिया न  
 मल्ल, सेसं तं थेव-एवं नहा वेउम्भियं तहा आहारगं पि, सेयगं पि,  
 कम्मगं पि, भाणियम्बं-एक्केके चत्वारि दंडगा भाणियन्वा ) औद्योगिक शरीरका  
 नेत्र चार दंडक हंडेवाभा व्याख्या से जेव प्रकरणे चार दंडक वैक्रियशरीरका मव  
 हंडेवा नेत्रजे. परंतु विवेचना ओरवी व से हे वैक्रियशरीरका दंडका पांचवी क्रिया  
 हंडेवी नेत्रजे नहीं कारणके वैक्रियशरीरका व्याख्या करीने पांचवी क्रिया कती नहीं  
 व्याख्या संभवत इवन पहिलेका नेत्र व अमज्जुं वैक्रियशरीरका विषयमा नेत्रु इवन  
 इवनभां व्याख्या से जेतुं व इवन व्याख्या, रोगस जने कार्मण शरीरका विवे पक  
 इतुं नेत्रजे जेतुं हे इरेव शरीरका व्याख्यायी चार-चार दंडक मव से जेव अमज्जुं  
 जाव वेमाणिया व मंते ! कम्मगसरिरेहिंनो कइकिरिया ?) शीघ्र ज्ञे।  
 गेमानिकाने व्याख्या मव प्रमाणे जतुं-हे जतुं ! वैमानिके काम चउकिरिया व्याख्या  
 हेरवी क्रियजोवाला दोष से ? (गोयमा)। हे गौतम ! (तिक्रिया वि, चउकिरिया

टीका-पूर्वं तेजसां ज्वलनक्रिया परशरीराश्रया प्रतिपादिता तत्प्रस्तावात् औदारिकादिपरशरीरमाश्रित्य जीवसमुच्चयस्य नैरयिकादेश्च क्रियाः प्ररूपयितुमाह -‘जीवे णं भंते ! ओरालियसरीराओ कतिकिरिए ?’ गौतमः पृच्छति-हे भदन्त ! जीवः खलु औदारिकशरीरात्-परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य कतिक्रियो भवति ? कियत्प्रकारकक्रियावान् भवति इति प्रश्नः, भगवानाह-‘गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए, सिय अकिरिए’ हे गौतम !

त्ति ) वैमानिक देव कर्मण शरीरोंके आश्रजसे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं । हे भदन्त ! जैसा आपने कहा है-वह सब यह विषय सर्वथा सत्य है. हे भदन्त ! आपके द्वारा कहा गया यह सब विषय सर्वथा सत्य है । इस प्रकार कह कर गौतम यावत् अपने स्थान पर धिराजमान हो गये ।

टीकार्थ-पहिले अग्निकायों की जलनक्रिया पर शरीर के आश्रय से कही गई है । सो इसी विषय को सूत्रकार औदारिक आदि पर शरीरको आश्रित करके सामान्य जीव के और नैरयिक आदि विशेष जीवकी क्रियाओं का कथन करते हैं-इसमें गौतमने प्रभुसे ऐसा पूछा है-‘जीवेणं भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिए’ हे भदन्त ! एक जीव परकीय औदारिक शरीर को आश्रित करके कितनी क्रियाओं वाला होता है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं-‘गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंच किरिए, सिय अकिरिए’

वि, सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति ) वैमानिक देवो कर्मणुशरीराना आश्रयथी त्रलु क्रियाओवाणा पणु डोय छे अने थार क्रियावाणा पणु डोय छे

गौतमस्वामी महावीर प्रभुने कहे छे क हे भदन्त ! आ विषयनु आये ने प्रतिपादन कथुं ते सर्वथा सत्य छे हे भदन्त ! आये ने कथुं ते यथार्थ न छे. आ प्रमाणे कहीने वदणु नभस्कार करीने गौतम स्वामी पौताने स्थाने भेसी गया

टीकार्थ :- पर-शरीरने आश्रये अशिक्षायोनी ज्वलनक्रियानु आगता सूत्रमा प्रतिपादन करवामा आणुं डवे सूत्रकार औदारिक आदि परकीय शरीरने आश्रय करीने सामान्य ज्व अने नारक आदि विशेष ज्वोनी क्रियाओनु निरूपणु करे छे- आ विषयने अनुलक्षीने गौतम स्वामी महावीर प्रभुने जेवो प्रश्न पूछे छे क ‘जीवेणं भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिए ?’ हे भगवन्त ! जेक ज्व परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने कइली क्रियाओवाणा होय छे ? महावीर प्रभुने उत्तर - ‘गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, सिय अकिरिए’

नीच स्यात् कदाचित् प्रिक्रियो भवति, स्यात् कदाचित् चतृष्क्रियं, स्यात् कदाचित् पञ्चक्रियं, स्यात् कदाचित् षड्क्रियः क्रियारहितोऽपि भवति,

अथमाशय-कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी, पारितापनिकी प्राणातिपातिकी चेत्येता पञ्चक्रिया उक्तास्तत्र यथा एकं कथिद् जीवः अन्यपृथिव्यादि कायकजीवशरीरमाश्रित्य कायव्यापार करोति तदा तस्य जीवस्य कायिकी, आधिकरणिकी, प्राद्वेषिकी चैतास्तुतिस्र क्रिया भवन्ति, अनीतरागस्य कायिक्याः क्रियाया नद्भाष नियमेन आधिकरणिकी प्राद्वेषिकी चेति द्वे क्रिये भवत एष, अन्तिमे च द्वे क्रिय मननया भवत एतावता यदा स अन्यान् परितापयति तदा पारितापनिकी क्रिया भवति यदा धायान् इन्ति तदा प्राणातिपातिकी क्रिया भवति, अतएव कायिक्याधिकरणिकी प्राद्वेषिकीयां परस्परैणाधिनाभावत्

जीव परकीय औदारिकशरीर को आश्रित करके कमी तीन क्रिया ओंवाला होता है कमी चार क्रियाओंवाला होता है कमी पांच क्रियाओंवाला होता है और कमी क्रियारहित भी होता है । तात्पर्य यह है कि कायिकी १, आधिकरणिकी २, प्राद्वेषिकी ३ पारितापनिकी ४ और प्राणानिपातिकी ५ इस तरहसे ये पांच क्रियाएँ होती हैं । इनमेंसे जब एक जीव कोई अन्य पृथिवी आदि कायिक जीव के शरीर को आश्रित करके कायव्यापार करता है उस समय उस जीव के कायिकी आधिकरणिकी प्राद्वेषिकी, ये तीन क्रियाएँ होती हैं । जिस जान क राग नष्ट नहीं हुआ है ऐसे अधीतराग जीव के कायिकी क्रिया के सम्भाव से नियमसे आधिकरणिकी और प्राद्वेषिकी ये दो क्रियाएँ होती ही हैं । तथा अन्तिम जो दो क्रियाएँ हैं व उनमें भ्रमनासे होती हैं । जब वह अन्य जीवों को परितापित करता है

उे तीन। एव परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने ह्यारेक त्रय क्रियाओवाले होय उे ह्यारेक चार क्रियाओवाले होय उे ह्यारेक पांच क्रियाओवाले होय उे जने ह्यारेक क्रिया नहिन पव्यु होय उे आ ह्यननु तादृश्य नीचे प्रभाजे उे-क्रियाओवा पांच प्रभर उे- (१) कायिकी (२) आधिकरणिकी (३) प्राद्वेषिकी (४) पारितापनिकी जने (५) प्राणातिपातिकी ह्यारेक त्रय क्रिये एव अन्य पृथ्वी आदि कयिक लुपना करीने आश्रित करीने कायव्यापार ( काया द्वारा भवति ) करे उे त्यारे ते एव वडे कायिकी, आधिकरणिकी जने प्राद्वेषिकी को पव्यु क्रियाओ वाप उे ले ह्यनेते राज नष्ट कये नथी जेवा अनिराग एव द्वारा कयिकी क्रियाओ सहभावशी आधिकरणिकी जने प्राद्वेषिकी को ले क्रियाओ नियमयी क यथ उे तथा कायिकी ले ले क्रियाओ उे ते तेअभ्या विकरपी वाप उे ह्यारे ते अन्य लुपनेते परितापित करे उे (पीठे उे), त्यारे देव दा

‘त्रिक्रियः’ इत्युक्तम्, न तु कदाचित् एकक्रियः, कदाचिद् द्विक्रियो वा अ-  
वीतरागो जीवो भवितुमर्हति, तासामविनाभावश्चैवम्-अवीतरागस्यैव आधि-  
करणिकी क्रिया भवति, न तु वीतरागस्य, तथाविधकर्मबन्धहेतुत्वात्, अवीत-  
रागकायस्य चाधिकरणत्वेन प्रद्वेषान्वितत्वेन च कायक्रिया सद्भावे इतरयोरव-  
श्यंभावः, तद्भिन्नव्यसत्त्वे च कायिकी सद्भावः, उक्तं च प्रज्ञापनायाम्  
‘जस्म णं जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स अहिगरणिया किरिया  
नियमा कज्जइ, जस्म अहिगरणिया किरिया कज्जइ, तस्स वि काइया किरिया  
नियमा कज्जइ’ इत्यादि, यस्य खलु जीवस्य कायिकी क्रिया क्रियते, तस्य

तव उसके पारितापनिकी क्रिया होती है और जब वह अन्य जीवों  
को मारता है तब उसके प्राणातिपातिकी क्रिया होती है । कायिकी,  
आधिकरणिकी और प्राद्वेषिकी इन तीन क्रियाओं में आपसमें अवि-  
नाभाव निन्य परस्पर सम्बन्ध हैं-इसलिये तीन क्रियावाला एक जीव  
कहा गया है । अवीतराग जीव कदाचित् एकक्रियावाला कदाचित् दो  
क्रियावाला नहीं हो सकता है । इन क्रियाओंका जो अविनाभाव-  
नित्य परस्पर संबन्ध प्रगट क्रिया गया है-वह इस प्रकार से है-  
अवीतरागजीव के ही आधिकरणिकी क्रिया होती है- वीतराग जीव  
का जो शरीर है वह तथाविधकर्मबन्धका हेतु होता है. इसलिये काय-  
क्रिया के सद्भाव में आधिकरणिकी और प्राद्वेषिकी इन दो क्रियाओं  
का अवश्य सद्भाव होता है क्यों कि अवीतरागका काय अधिकरण-  
रूप और प्रद्वेष सहित होता है । इससे भिन्न दो क्रियाओंके सद्भाव

परित्यापनिकी क्रिया थाय छे अने न्मारि ते नील जेवने मारे छे, त्यारे तेना द्वारा  
प्राणातिपातिकी क्रिया थाय छे कायिकी, अधिकरणिकी अने प्राद्वेषिकी क्रियाओ वर्ये  
अविनाभाव-नित्य परस्पर-संबन्ध होय छे, कारणके कायिकी क्रियाना सद्भावमा  
आधिकरणिकी अने प्राद्वेषिकी क्रियानो पणु अवश्य सद्भाव होय छे तेही अर्थ छे वर्ये  
क्रियावाणो होय छे, अर्थ कहुं छे. अवीतराग छे कही पणु अर्थ क्रियावाणो अथवा छे  
क्रियावाणो होय शकतो नथी ते क्रियाओनो न अविनाभाव-नित्य परस्पर संबन्ध प्रकट  
करवामां आये छे ते नीचे प्रमाणे छे- अवीतराग छे वडे न अधिकरणिकी क्रिया  
थाय छे-वीतराग छे वडे थती नथी अवीतराग छे वर्ये न शरीर छे ते तथाविध  
(ते प्रमाणो) कर्मबन्धु कारण होय छे, तेही कायक्रियानो सद्भाव होय त्यारे अधिकरणिकी  
अने प्राद्वेषिकी क्रियाओनो अवश्य सद्भाव होय छे कारणके अवीतरागनी काय  
आधिकरणरूप, अने प्रद्वेष सहित छे. तेही अर्थ छे क्रियाओनो सद्भाव । कायिकी

आचिकरणिकी क्रिया नियमतः क्रियते, यस्य आचिकरणिकी क्रिया क्रियते, तस्यापि कायिकी क्रिया नियमतः क्रियते, इति तथा भाष्यक्रियाप्रयसङ्गात् उत्तरक्रियाद्वयं मननया भवति, तदुक्तम्—'जस्स ण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स पारियावणिया सिय कज्जइ सिय नो कज्जइ' इत्यादि, यस्य स्वच्छ जीवस्स कायिकी क्रिया क्रियते तस्य परितापनिकी स्यात् क्रियते, स्यात् ना क्रियते, इति, एवञ्च यदा काय-भ्यापारद्वारेणाद्यक्रियाप्रय एव वर्तते, न तु परितापन, न वा प्राणातिपात कराति तदा भ्रिक्रियाः एवेत्यतोऽपि 'स्यात् भ्रिक्रियाः' इत्युक्तम् यदा तु परि

में क्रियाका सङ्गाव होता है प्रज्ञापनाके पाईसवें क्रियापद में ऐसाही कहा है—'जस्स ण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स अहिगरणिया किरिया नियमा कज्जइ, जस्स अहिगरणिया किरिया कज्जइ, तस्स वि काइया किरिया नियमा कज्जइ' जिम जीवके कायिकी क्रिया होती है उसके नियमसे आचिकरणिकी क्रिया होती है और जिसके आचिकरणिकी क्रिया होती है उसके भी नियमसे कायिकी क्रिया होती है इत्यादि तथा आदिकी तीन क्रियाओंके सङ्गाव में उत्तरकी दो क्रियाओंकी भजना होती है—सोही कहा है—'जस्स ण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स पारियावणिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ', इत्यादि—इस तरह कायभ्यापार क द्वारा जीव जब भाष्यक्रियाप्रय में ही रहता है परितापन और प्राणातिपात वह नहीं करता है तब वह तीन क्रियाओंवालाही होता है—इस तरहसे भी यह कदाचित् तीन क्रियाओं

क्रियाओंके सङ्गाव होता है प्रज्ञापनाके पाईसवें क्रियापद में ऐसाही कहा है—'जस्स ण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स अहिगरणिया किरिया नियमा कज्जइ, जस्स अहिगरणिया किरिया कज्जइ, तस्स वि काइया किरिया नियमा कज्जइ' ये तीन वदे आचिकी क्रिया काय के ते तीन वदे आचिकीसुधी क्रिया प्रय नियमका व काय के ते तीन वदे आचिकीसुधी क्रिया प्रय के, तेना वदे आचिकी क्रिया प्रय नियमका व काय के, प्रयादि—तथा पदेवी प्रय क्रियाओंके सङ्गावमें केही के क्रियाओंके विकल्पे काय के केवल वात नीचिना सूत्रांशार्थ प्रष्ट करे के—'जस्स ण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, तस्स पारियावणिया सिय कज्जइ, सिय नो कज्जइ' इत्यादि आ हीते भाष्यभ्यापार द्वारा ज्यारै तीन पदेवी प्रय क्रियाओंके व करे के, प्रय परितापन आने प्राणातिपात कतेना नथे, तयारे तेने प्रय क्रियाओंके व

तापयति तदा चतुष्क्रियः, आद्यक्रियात्रयस्य तत्रावश्यंभावात्, यदात्वति  
पातयति तदा पञ्चक्रियः, आद्यक्रियाचतुष्कस्य तत्रावश्यंभावात्, तदुक्तम्—  
'जस्स पारियावणियाकिरिया कज्जइ तस्स काइया नियमा कज्जइ' इत्यादि,  
यस्य पारितापनिकी क्रिया क्रियते, तस्य कायिकी नियमात् क्रियते, इति,  
तदभिप्रायेणाह—'सिय चउकिरिए सिय पंचकिरिए'त्ति, तथा 'सिय अकिरिए' स्यात्  
कदाचित् वीतरागावस्थायाम् अक्रियो जीवो भवति इत्यर्थः, वीतरागावस्थायां  
हि वीतरागत्वादेव न सन्ति अधिकृतक्रिया इत्याशयः, गौतमः पृच्छति नेरइए  
णं भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिए ? हे भदन्त ! नैरयिकः—खलु औ-  
दारिकशरीरात् परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य कतिक्रियः कियत्प्रकारकक्रियवान्

चाला होता है ऐसा कहा है—जब यह अवीतराग जीव अन्य जीवोंको  
परितापित करता है—तब वह चार क्रियाओंवाला होता है क्यों कि  
ऐसी अवस्था में आदिकी तीन क्रियाएँ उस में अवश्य होती हैं ।  
तथा जब यह जीव अन्य जीवोंको मारता है तब वह पांच क्रियाओंवाला  
होता है—क्यों कि इस स्थिति से उसमें आदिकी चार क्रियाओंका  
अवश्यही सद्भाव रहता है सोही कहा है— 'जस्स पारियावणिया  
किरिया कज्जइ, तस्स काइया नियमा कज्जइ' इत्यादि—इसी अभिप्रायको  
लेकर 'सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, त्ति' ऐसा कहा गया है ।  
तथा 'सिय अकिरिए' ऐसा जो कहा है वह वीतराग अवस्थाको  
लेकर कहा है—क्योंकि वीतराग अवस्था में जीव इन क्रियाओंवाला  
नहीं होता है । अब गौतम स्वामी प्रभुसे पूछते हैं— (नेरइएणं भंते !  
ओरालियसरीराओ कइ किरिए ) हे भदन्त ! नारक परकीय  
औदारिक शरीरको आश्रित करके कितने प्रकारकी क्रियाओंवाला

इही शक्य छे न्यारे ते अवीतराग एव अन्य एवोने परितापित करे छे, त्यारे ते  
चार क्रियाओंवाला कहेवाय छे. तथा न्यारे ते एव अन्य एवोने मारते होय छे,  
त्यारे ते पांच क्रियाओंवाला होय छे, कारणके अवी परिस्थितिमां ते एवमा पडेकी चार  
क्रियाओंवाला पणु अवश्य सहभाव रहे छे तेथी न कहुं छे के 'जस्स पारियावणिया  
किरिया कज्जइ, तस्स काइया नियमा कज्जइ' इत्यादि अथ कारणे सूत्रकारे आ  
प्रमाणे कहुं छे— 'सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए त्ति' तथा 'सिय अकिरिए'  
'आरेक ते क्रिया रहिन होय छे,' आहुं के कहेवामां आबुं छे ते वीतराग अवस्थाने  
अनुवक्षीने कहुं छे, कारणके वीतराग अवस्थामां एव आ क्रियाओंवाला होते नथी.  
इवे गौतम स्वामी नारक एव विषे प्रश्न पूछे छे— 'नेरइएणं भंते ! ओरालियसरीराओ  
कइ किरिए ? हे भदन्त ! नारक एव परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने हेरकी

भवति ? मगधानाह—‘गोयमा ! सिय तिकिरिण, सिय चठकिरिण, सिय पंचकिरिण’ हे गौतम ! नैरयिको परकीयौदारिकश्चरीरमाभित्य काय व्यापारयति सदा स्यात् कदाचित् भिक्रियो भवति, स्यात् कदाचित् चतुष्क्रियो भवति, स्यात् कदाचित् पञ्चक्रियो भवति, तथाच नैरयिकः । यतः औदारिकश्चरीरवन्त पृथिव्यादिकं स्पृशति, परिष्ठापयति, विनाशयति च, अत औदारिकश्चरीरमाभित्य कदाचित् भिक्रियो कदाचित् चतुष्क्रियोः कदाचित् पञ्चक्रियो भवति, अक्रियस्तु नैरयिको न भवति, तस्याचीतरागत्वेन क्रियाणामप्रदयमाचात् । गौतमः पृच्छति—‘अमुरकुमारेण मते ! आराक्खिसरीराओ क्वकि

होता है ? इसक उत्तर में प्रभु कहते हैं— ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘सिय तिकिरिण सिय चठकिरिण’ सिय पंचकिरिण’ नारक जीव कदाचित्—तीन क्रियाओंवाला होता है, कदाचित् चार क्रियाओंवाला होता है कदाचित् पांच क्रियाओं वाला होता है । तात्पर्य कहने का यह है कि जब एक नारकजीव परकीय औदारिक शरीरको अभित करके कायका व्यापार करता है तब वह औदारिक शरीरवाले पृथिव्यादिकका स्पर्श करता है, उसे परिष्ठापित करता है, और धिनष्ट भी करता है इस लिये औदारिक शरीरको अभित करके वह कदाचित् तीन क्रियावाला और कदाचित् चारक्रियावाला और कदाचित् पांच क्रियावाला कहा गया है । नारक जीव अक्रिय—नहीं होता है । भक्रिय चीतराग जीव ही होता है । नारक जीव चीतराग नहीं होता है । इसलिये इसमें क्रियाओंका होना अवश्यमाधी है । अब गौतमस्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—

क्रियाओंवाला होय छे ? मगधानाह प्रभुने उत्तर—‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘सिय तिकिरिण, सिय चठकिरिण, सिय पंचकिरिण’ नारक छव क्यारेक त्रय क्रियाओंवाला होय छे, क्यारेक चार क्रियाओंवाला होय छे अने क्यारेक पांच क्रियाओंवाला होय छे तेषु तात्पर्य अ छे हे— व्यापार नारक छव परकीय औदारिक शरीरन अभित करीने कानेन व्यापार करे छे त्तारे ते पुञ्जाकाय अर्हन्ति रयस करे छे तेने परित पित पव्व करे छे अने तेमने नारक पव्व करे छे तेषी औदारिक शरीरने अभित करीने क्यारेक तेने त्रय क्रियाओंवा, क्यारेक चार क्रियाओंवा अने, क्यारेक पांच क्रियाओंवा क्यारे छे नारक छव अक्रिय (क्रिया रहित) होतो नथी चीतराग छव अ क्रिय होय छे । नारक छव चीतराग प्रवक्ष्यामहे होतो नथी तेषी तेषां (नारक छवम) क्रियाओंके सहकार्य अवश्य होय छे

रिए ?' हे भदन्त ! असुरकुमारः खलु औदारिकशरीरात् परकीयौदारिकशरीर-  
माश्रित्य कतिक्रियो भवति ? भगवानाह—'एवं चैव एवं जाव वेमाणिए,  
नवरं मणुस्से जहा जीवे' एवं चैव नैरयिकवदेव असुरकुमारोऽपि यदा परकी-  
यौदारिकशरीरमाश्रित्य कायं व्यापारयति तदा कदाचित् त्रिक्रियः, कदाचित्  
चतुष्क्रियः, कदाचित् पञ्चक्रियो भवति, अक्रियस्तु न भवति तस्यावीतरागत्वेन  
क्रियाणामवश्यभावात्, एवम्—असुरकुमारवदेव यावत् सुपर्णकुमारादि भवनपति  
एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रिय तिर्यग्मनुष्यवानव्यन्तर—ज्योतिषिक—वैमानिकोऽपि  
यदा परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य कायं व्यापारयति तदा कदाचित्

'असुरकुमाराण भन्ते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिए' हे भदन्त !  
असुरकुमार परकीय औदारिक शरीरका आश्रय करके कितने प्रकार  
की क्रियाओंवाला होता है ? उत्तरमें प्रभु कहते हैं—'एवं जाव वेमाणिए'  
नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे गौतम ! नारक जीवकी तरह ही असुर  
कुमार भी जब परकीय औदारिक शरीर का आश्रय करता है तब  
वह कदाचित् तीन क्रियाओंवाला होता है, कदाचित् चार क्रियाओं-  
वाला होता है और कदाचित् पांच क्रियाओं वाला होता है । यह  
अक्रिय तो होता नहीं है—क्यों कि यह वीतराग नहीं होते हैं अतः  
अवीतराग होनेके कारण इनमें क्रियाओंका होना अवश्यभावी है ।  
असुरकुमारकी तरह ही यावत्—सुपर्णकुमार आदि भवनपति देव, एके-  
न्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यक्, मनुष्य, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक,  
तथा वैमानिक ये सब भी जब परकीय औदारिक शरीरको आश्रित

हवे गौतम स्वामी महावीर प्रभुने भेदा प्रश्न पूछे छे— 'असुरकुमाराणं  
भन्ते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिए ?' हे भदन्त ! असुरकुमार परकीय  
औदारिक शरीर-ने आश्रय करीने केटकी क्रियाओंवाला होय छे ? तेने उत्तर आपता  
प्रभु कहे छे— एवं चैव एवं जाव वेमाणिए नवरं मणुस्से जहा जीवे ' हे गौतम !  
नारक जवनी जेभ असुरकुमार पणु न्यारे परकीय औदारिक शरीरने आश्रय करे छे.  
त्यारे तबु क्रियाओंवाला पणु होय छे, आर क्रियावाला पणु होय छे अने पाय क्रियाओंवाला  
पणु होय छे ते कही पणु अक्रिय (क्रिया रहित) होतो नथी, अरणुके ते वीतराग होतो  
नथी अवीतराग होवाने-दीधे तेनामा क्रियाओंने अवश्य सहभाव होय छे सुपर्णकुमार  
पर्यंतना भवनपति देव, अकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यक्, मनुष्य, वानव्यन्तर,  
ज्योतिषिक तथा वैमानिक देवनु कथन पणु असुरकुमारना कथन जेवुं समजवुं- अेटवे के  
ते अर्थां भवे पणु न्यारे परकीय औदारिक शरीरने आश्रय करीने पोत पोतानी क्षया



भिक्रियाः, कदाचित् चतुष्क्रियाः, कदाचित् पञ्चक्रियो भवति, किन्तु नवरम्-अन्या  
पेक्षया विशेषस्तु मनुष्येऽयमेव यत् यथा जीवसमुच्चयः अक्रियः प्रतिपादितस्तथा  
मनुष्येऽपि अक्रियो भवति, जीवसमुच्चयपदे मनुष्यसिद्धापेक्षयैव अक्रिय  
त्वस्य प्रतिपादितत्वात्, गौतम पृच्छति-‘जीवेण भते ! ओरास्त्रियसरीरेर्हिंशो  
कश्चिरिण् ?’ हे भदन्त ! जीवः खलु औदारिकशरीरेभ्यः परकीयौदारिकशरी-  
राण्याभिस्य कति क्रियो भवति इति प्रश्नः । तथा चात्र ‘औदारिकशरीरेभ्यः’  
इत्येवं बहुस्वापेक्षोऽय द्वितीयो जीवविषयको दण्डको घोष्यः, प्रथमस्तु प्रागुक्त-  
‘औदारिकशरीरात्’ इत्येवमेकस्वापेक्षो जीवविषयको दण्डको पिङ्गयः, एव

करके अपने-कायको व्यापारवाला करते हैं तब ये कदाचित् तीन  
क्रियाओंवाले कदाचित् चार क्रियाओंवाले और कदाचित् पांच क्रियामों  
वाले होते हैं । परन्तु मनुष्यमें यह विशेषता है कि वह जीव समुच्चय  
के अनुसार क्रियारहित भी होता है । जीव समुच्चयपदमें जो क्रिया  
रहितका प्रतिपादन किया गया है वह मनुष्य एष सिद्धकी अपेक्षा से  
प्रतिपादित किया गया है ऐसा जानना चाहिये । अब गौतमस्वामी  
प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं-‘जीवे ण भते ! ओरास्त्रियसरीरेर्हिंशो कश्चि-  
रिण्’ हे भदन्त ! जीवपरकीय औदारिक शरीरोंको आश्रित करके  
कितनी क्रियाओंवाला होता है ? यह बहुवचन की अपेक्षा द्वितीय  
दण्डक है अपतक एक जीव परकीय एक औदारिक शरीरकी अपेक्षा  
कितनी क्रियाओंवाला होता है-ऐसा एक औदारिक शरीरको लेकर  
जीव विषयक प्रश्न किया गया था यहाँ अनेक औदारिक शरीरोंको

द्वारा प्रकृत करे थे तब तेजो शरीरः तस्य त्रिभ्योवाणा, शरीरः चार त्रिभ्योवाणा  
अने शरीरः पांच त्रिभ्योवाणा होय थे तेजो त्रिभ्योवाणं होय नही मनुष्यमां कोटवी  
ए विषयता ३ ३ ते एव समुच्चयनी नम द्विभ्य रदित एव होय ३ एव समुच्चय  
परमां के त्रिभ्योवाणानु प्रतिपादन करवामां आन्तु ३ ते मनुष्य अने त्रिभ्योवाणो  
करवामां आन्तु ३ जेन समञ्जतु

इय गौतम स्वामी महापौर प्रश्नसे पूछे ३ ‘जीवेण भते ! ओरास्त्रिय  
सरीरेर्हिंशो कश्चिरिण् ?’ हे भदन्त ! एव परकीय औदारिक शरीरानो आश्रित करीने  
देवी त्रिभ्योवाणा होय ३ आ बहुवचननी अपेक्षामे वीलु ३ ३ आ पदेलां  
जे ३ एव परकीय जे ३ औदारिक शरीरनी अपेक्षामे देवी त्रिभ्योवाणा ३- आ रीते  
जे ३ एव अने जे ३ औदारिक शरीरनी अपेक्षामे प्रश्न पूछवामां ज्यन्तां कतां जर्हां  
अने ३ औदारिक शरीरानो आश्रित करीने अब त्वयमां आन्ते ३. तेथी आ एव विषयक

चैतौ जीवस्य एकत्वेन द्वौ दण्डकौ, एवमेव च जीवस्य बहुत्वान् अपरौ द्वौ दण्डकौ, एवं औदारिकशरीरापेक्षया चत्वारो दण्डकाः फलिताः, भगवानाह 'गोयमा ! सिय तिकिरिण् जाव सिय अकिरिण्' हे गौतम ! समुच्चयजावः औदारिकबहुपरकीयशरीराण्यश्रित्य यदा कार्यं न्यापारयति तदा स्यात् कदाचित् त्रिक्रिया भवति, यावत् स्यात् कदाचित् चतुष्क्रियो भवति, स्यात् कदाचित् पञ्चक्रिया भवति, स्यात् कदाचित् अक्रियो भवति, वीतरागावस्थायां मनुष्यजीवस्य सिद्धजीवस्य च क्रियारहितत्वादितिभावः, अथ बहुपरकीयोदा- रिकशरीरापेक्षया एकत्वविशिष्टनैरयिकविषयक दण्डकं पृच्छति - 'नेरडणं

आश्रित करके प्रश्न किया गया है—अतः यह जीव विषयक द्वितीय दण्डक है—इस तरह ये जीवके एकत्व से दो दण्डक और जीव के बहुत्व से दो दण्डक और दूसरे होते हैं—सब मिलकर औदारिक शरीरकी अपेक्षा से चार दण्डक तो जाते हैं यह फलित होता है। 'एक जीव परकीय अनेक औदारिक शरीरोंको आश्रित करके कितनी क्रियाओंवाला होता है ?' इस प्रश्नके उत्तरमें प्रभु कहते हैं—'गोयमा' हे गौतम ! सिय तिकिरिण् जाव सिय अकिरिण्' एक जीव—समुच्चय जीव परकीय अनेक औदारिक शरीरोंको आश्रित करके जब कार्यको व्यापारमें लगाता है, तब वह कदाचित् तीन क्रियाओंवाला होता है यावत्—कदाचित् वह चार क्रियाओंवाला होता है, और कदाचित् पांच क्रियाओंवाला होता है। तथा कदाचित् वह क्रियारहित भी होता है। मनुष्य जीव जब वीतराग अवस्था में आ जाता है, तब वह तथा सिद्ध जीव ये दोनों ही इन क्रियाओं से रहित हो जाते हैं। अब

भीणुं दंडकं च आश्रिते श्रवणा ऐकत्वनी अपेक्षाये चो दंडकं, अने श्रवणा बहुत्वनी अपेक्षाये भीणुं चो दंडकं याव चोभ समन्वुं. 'श्रव परकीय औदारिक शरीराने आश्रित करीने केवली क्रियाओवाणे होय चो?' आ प्रश्नतो उत्तर आपता महावीर प्रभु कहं चो—'गोयमा !' हे गौतम ! 'सिय तिकिरिण् जाव सिय अकिरिण्' ऐक श्रव (समुच्चय श्रव) परकीय अनेक औदारिक शरीराने आश्रित करीने न्यारे क्षयाने व्यापारमा (प्रवृत्तमा) प्रवृत्त करे चो, त्यारे क्षयारेक ते त्रय क्रियाओवाणे होय चो, क्षयारेक चार क्रियाओवाणे होय चो, क्षयारेक पांच क्रियाओवाणे होय चो. अने न्यारेक ते क्रिया रहित यथ होय चो. अनेक मनुष्य श्रव न्यारे वीतराग अवस्थामा आपी नाय चो आ क्रियारहित होय चो अने सिद्ध श्रव यथ क्रियाओयो रहित यथ नाय चो.

मत् ! आराध्यसरीरेहितो क्व किरिप ?' हे मदन्त ! नैरयिक खलु औदारिकशरीरेभ्य परकीयौदारिकशरीराण्याधित्य कति क्रियो भवति ? मयदान् आह-एवं एसो जहा पढमो दंडभो तथा इमो वि अपरिसेसो भाणियन्धो जाय वेमाणिए, नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे गौतम ! एषम् उपर्युक्त एष परकीयमहुस्वविशिष्टौदारिकशरीराभितो नैरयिकः यथा मयमो दण्डकः एकस्व विशिष्टपरकीयौदारिकशरीराधितनैरयिकविषयकः स्यात् अक्रियः, स्यात् षडुष्क्रियः, स्यात् पञ्चक्रियः इति रीत्या प्रतिपादितस्तथा अपमपि बहुस्व विषयक अपरिज्ञेयः सर्वः मणितव्यः, यावत् एकेन्द्रियविक्रमेन्द्रियपञ्चेन्द्रिय

गौतम परकीय अनेक औदारिक शरीरोंकी अपेक्षासे एकत्वविशिष्ट नैरयिकविषयक दण्डकको पूजते हैं- 'नैरयण मंते ! ओराखियसरीरे हितो क्व किरिप' हे मदन्त ! एक नारक परकीय अनेक औदारिक शरीरोंको आश्रित करके फितनी क्रियाओंवाला होता है ? इसके उत्तरमें मनु कहते हैं 'एवं एसो जहा पढमो दंडभो तथा इमो वि अपरिसेसो भाणियन्धो जाय वेमाणिए नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे गौतम ! जिस प्रकार से एक नारक जीव परकीय एक औदारिक शरीरको आश्रित करके कदाचित् तीन क्रियाओंवाला, कदाचित् चार क्रियाओंवाला और कदाचित् पाँच क्रियाओंवाला मयम दण्डकमें कहा गया है उन्ही प्रकारसे इस द्वितीय दण्डकमें भी बहु कदाचित् तीन क्रियाओंवाला, कदाचित् चार क्रियाओंवाला और कदाचित् पाँच क्रियाओंवाला कहा गया है । अर्थात् जिस समय एक नारक परकीय

द्वे औतम स्वामी अनेक औदारिक शरीरोंने अपेक्षासे अनेक नारक विषयक नीचेना प्रथम पूछे थे- नैरयण मंते ! ओराखियसरीरेहितो क्व किरिप ?' हे मदन्त ! अनेक नारक परकीय अनेक औदारिक शरीरोंने आश्रित करीने उन्ही क्रियाओंवाला होय है ।

उदाहरण मनुने उक्त- एव एसो जहा पढमो दंडभो तथा इमो वि अपरिसेसो भाणियन्धो जाय वेमाणिए-नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे औतम ! केनी रीते अनेक नारक एव परकीय औदारिक शरीरोंने आश्रित करीने क्यारके प्रथम क्रियाओंवाला अन्धारेक आर क्रियाओंवाला अने अन्धारेक पाँच क्रियाओंवाला होय है अर्थात् पहेला दंडकभा दंडेनाभा आश्रित है अन्धरे प्रथमसेतुं कवन जा जीवने दंडकभा प्रथम सभयसेतुं, दंडेवर्तुं तादृश्य अने उ के अन्धारे अनेक नारक परकीय अनेक औदारिक शरीरोंने आश्रित करीने क्यारके आर उन्धारे ते मनु क्रियाओंवाला होय है, आर क्रियाओंवाला प्रथम होय है अने पाँच क्रियाओंवाला प्रथम होय है. परन्तु मनु प्रथम अन्धारे केना उक्त

तिर्यग्मनुष्यभवनपति—वानव्यन्तरज्योतिषिकवैमानिकोऽपि यदा परकीयबहुत्व-  
विशिष्टौदारिकशरीराश्रित्य कायव्यापारं करोति तदा स्यात् त्रिक्रियः, स्यात्  
चतुष्क्रियः, स्यात् पञ्चक्रिया भवति, इति किन्तु नवरम् अन्यापेक्षया विशेषस्तु  
मनुष्ये यथा समुच्चयजीवः कदाचित् अक्रियोऽपि भवति, तथैव मनुष्योऽ  
क्रियोऽपि भवतीतिभावः, अथ समुच्चयजीवबहुत्वमाश्रित्य गौतमः पृच्छति  
'जीवाणं भंते ! ओरालियसरीराओ कइकिरिया ?' हे भदन्त ! जीवाः खलु

अनेक औदारिक शरीरोंको आश्रित करके कायव्यापार करता है तब  
वह तीन क्रियाओंवाला भी होता है, चार क्रियाओंवाला भी होता  
है और पांच क्रियाओंवाला भी होता है । किन्तु मनुष्य पद में जो  
इनकी अपेक्षा विशेषता है वह ऐसी है कि मनुष्य सामान्य जीव  
की तरह क्रिया रहित भी होता है । वीतराग अवस्था में ही क्रिया  
रहित जीव होता है. ऐसी बात अभी कही गई है. मो नारक जीव,  
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यंच, मनुष्य भवनपति, वानव्यन्तर,  
ज्योतिषिक और वैमानिक जब परकीय औदारिक शरीरोंको आश्रित  
करके कायका व्यापार करते हैं, तब वे तीन क्रियावाले भी होते हैं,  
चार क्रियावाले भी होते हैं और पाँच क्रियावाले भी होते हैं । परन्तु  
ये कोई भी क्रिया रहित नहीं हैं । परन्तु मनुष्य ऐसे नहीं होते हैं  
वे अक्रियावाले (इन क्रियाओं से रहित ) भी होते हैं । क्यों कि  
मनुष्य ही वीतराग अवस्थावाला बनता है—और वीतराग अवस्थामें  
ये कोई भी क्रियाएँ होती नहीं हैं । अब समुच्चय जीवकी बहुताको

अष्टवीज विशेषता छे के ते सामान्य जवनी जेम क्रिया रहित होय छे वीतराग  
अवस्थामा न जव क्रियारहित होय छे, जे वातजु डमथा न प्रतिपादन करवामा आवी  
गथुं छे. वैमानिक पर्यन्तना जव विषे जेवुं न ध्यन समजलु अष्टवे के जव, अकेन्द्रिय,  
विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक अने वैमानिक  
जव न्यारे परकीय औदारिक शरीराने आश्रित करीने कायव्यापार कर छं, त्यारे तेजो  
त्रय क्रियाओवाणा पशु होय छे, चार क्रियाओवाणा होय छे, अने पांच क्रियाओवाणा  
पशु होय छे परन्तु तेमाथी डोड पशु जव क्रिया रहित होतो नथी इकल मनुष्यमा न  
अष्टवी विशेषता छे के ते क्रिया रहित पशु होय छे, कारणके मनुष्य न वीतराग  
अवस्थावाणो बनी बडे छे अने वीतराग अवस्थामा तेना दरा डोडपशु क्रियाओ यती नथी  
हवे सामान्य जवनी बहुतानी अपेक्षाजे गौतम स्वामी महावीर प्रबुने प्रश्न  
पुछे छे के— 'जीवाणं भंते ! ओरालियसरीराओ कइ किरिया ?' हे भदन्त !

औदारिकशरीरात् परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य कतिक्रिया भवन्ति ? मग  
 वानाह- 'गोयमा ! सिय तिकिरिया जाव सिय भकिरिया' हे गौतम ! जीवा  
 यदा परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य काय व्यापारयन्ति तदा स्यात् कदाचित्  
 शिक्रिया भवन्ति, यावत् स्यात् कदाचित् घट्टक्रियाः, स्यात् कदाचित् पञ्च  
 क्रिया भवन्ति, स्यात् कदाचित् अक्रिया भवन्ति, गौतम पृच्छात- 'नेरइयाण  
 मत ! आराणियसरीराओ कइकिरिया ?' हे भदन्त ! नेरइयाण खलु  
 आदारिकशरीरात् औदारिकशरीरमाश्रित्य कतिक्रिया भवन्ति ? मगवानाह-

एव एमा वि महा पइमो वइओ तदा भाणियव्वो जाव वेमाणया, नररं  
 छेवर गौतमस्वामी मसु स पेसा एछते हैं 'जीवाण भंवे ! ओरालिय  
 सरीराओ कइकिरिया' हे भदन्त ! जीव परकीय औदारिक शरीरको  
 आश्रित करके पित्तने प्रकार की क्रियाओंवाले होते हैं ? उत्तरमें मसु  
 बहते हैं- 'गोयमा' हे गौतम ! सिय तिकिरिया, जाव सिय भकिरिया'  
 जीव जय परकीय औदारिक शरीरको आश्रित करके कायका व्यापार  
 करते हैं उस समय वे कदाचित् तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, कदाचित्  
 चार क्रियाओंवाले भी होते हैं और कदाचित् पांच क्रियाओंवाले भी  
 होते हैं । तथा कदाचित् य क्रिया रहित भी होते हैं । क्रिया रहित  
 पना इवमें मनुष्य और सिद्ध की अपेक्षा कहा है । अब गौतमस्वामी  
 मसु स पेसा एछते हैं 'नेरइयाण मत ! ओरालियसरीराओ कइकि  
 रिया' हे भदन्त ! नारक जीव परकीय औदारिक शरीरों को आश्रित  
 करके पित्तने प्रकारकी क्रियाओंवाले होते हैं ? इसके उत्तर में मसु कहते  
 हैं- 'एवं एसो वि जहा पइमो वइओ तदा भाणियव्वो जाव वेमाणया

अनरं एव परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करिने इत्थी क्रियाओवाला होय ॥  
 उत्तर- 'गोयमा' हे गौतम ! सिय तिकिरिया, जाव सिय भकिरिया'  
 एवे न्यारे परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करिने कयना व्यापारभा प्रवत् काय ए,  
 न्यारे क्यारे कय क्रियाओवाला पणु होय ॥ क्यारेक जाव क्रियाओवाला पणु होय ॥  
 क्यारेक पणु क्रियाओवाला पणु होय ॥ अने क्यारेक क्रिया रहित पणु होय ॥  
 मनुष्य अन सिद्धनी अपेक्षाजे तेभनता क्रिया रहितता अरी ॥ अथ समसुत्तुं  
 अने अतिव स्वामो नारोनी अपेक्षाजे प्रस भूउ ॥- 'नेरइयाण मते !  
 आराणियसरीराओ कइकिरिया ?' हे भदन्त ! नारक एवे परकीय औदारिक  
 शरीरने आश्रित करिने इत्थी क्रियाओवाला होय ॥  
 मगवाने प्रथमे उत्तर- 'एव एतो वि जहा पइमो वइओ तदा भाणियव्वो

मणुस्सा जहा जीवा' हे गौतम ! एवमुक्त्तरीत्या एषोऽपि बहुत्वविशिष्टनैर-  
यिकविषयको दण्डकः यथा प्रथमः-एकत्वविशिष्टनैरयिकविषयको दण्डको  
भणितस्तथा भणितव्यः, एवंच यदा नैरयिकाः परकीयौदारिकशरीरमाश्रित्य  
कायं व्यापारयन्ति, तदा स्यात् त्रिक्रियाः, स्यात् चतुष्क्रियाः, स्यात् पञ्च-  
क्रिया नैरयिका भवन्ति इत्याशयः, यावत्-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रिय-  
तिर्यग्मनुष्यभवनपतिवानव्यन्तरज्योतिषिकवैमानिका यदा परकीयौदारिक-  
शरीरमाश्रित्य कायं व्यापारयन्ति तदा कदाचित् चतुष्क्रियाः, कदाचित्  
पञ्चक्रिया भवन्ति, नवरम्-विशेषस्तु मनुष्या यथा समुच्चयजीवाः त्रिचतुः  
पञ्चक्रियातिरिक्ता अक्रियाअपि उक्तास्तथैव त्रिचतुः पञ्चक्रियातिरिक्ता अक्रिया-  
अपि वक्तव्याः, गौतमः पृच्छति-‘जीवाणं भंते ! ओरालियसरीरेहितो  
कइकरिया ?’ हे भदन्त ! जीवाः खलु औदारिकशरीरेभ्यः परकीयौदारिक-

नवरं मणुस्सा जहा जीवा' यह जो अनेक नैरयिक विशिष्ट  
दण्डक है वह जैसा पहिले एकत्व विशिष्ट नैरयिक दण्डक कहा  
गया है उसी के अनुसार कहना चाहिये-इसी तरह जब नारकजीव  
परकीय औदारिक शरीर को आश्रित करके काय का व्यापार करते  
हैं तब वे कदाचित् तीन क्रियाओंवाले होते हैं, कदाचित् चार क्रिया-  
ओंवाले होते हैं और कदाचित् पांच क्रियाओंवाले होते हैं। मनुष्यों  
में ऐसी बात नहीं है-क्योंकि वे इन क्रियाओंवाले होने पर भी इन  
क्रियाओं से रहित भी होते हैं। जैसे ममुच्चय जीव होते हैं। अब  
गौतमस्वामी प्रभुसे ऐसा पूछते हैं-‘जीवा णं भंते ! ओरालिय सरी-

जाव वेमाणिया-नवरं मणुस्सा जहा जीवा' एकत्व विषयक पडेवा-नारक द डकनु  
ने प्रमाणे कथन करवामा आव्यु छे, अने प्रमाणे आ अनेक नारक विषयक द डकनु  
कथन पणु धरनु जेधअ अेटले डे अनेक नारके न्यारे परकीय औदारिक शरीरने  
आश्रित करीने कायव्यापारमा प्रवत थाय छे, त्यारे क्यारेक तथु क्रियाओवाणा डोय छे,  
क्यारेक चार क्रियाओवाणा डोय छे अने क्यारेक पांच क्रियाओवाणा डोय छे, वैमानिके  
पर्यन्तना छुवा विषे पणु आ प्रकारनु कथन न समझनु परनु मनुष्योभा अेटली न  
विशेषता छे-डे तेओ आ क्रियाओवाणा डोय छे पणु परा अने आ क्रियाओथी रडित  
पणु डोय छे अेटले डे सामान्य छुवानी नुभ तेओ क्रियारडित पणु डोय छे. छे छुवानी  
अडुव तयो परकीय अनेक शरीरानी अपेक्षाओ क्रिया विषयक योयो द डकनु प्रतिपादन  
करवामा आवे छे-

शरीराण्याभित्य क्वचिक्रिया भवन्ति ? मगरानाह—‘गोपमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पच किरिया वि, अकिरिया वि, हे गौतम ! जीवा ! यदा परकीयौदारिकशरीराण्याभित्य काय व्यापारयन्ति तदा त्रि क्रिया अपि, चतुष्क्रिया अपि, पञ्चक्रिया अपि, अक्रिया अपि भवन्ति, गौतम पृच्छति—‘नेरइया ष मते ! ओरासियसरीरेहिं तो कइ किरिया ?’ हे भदन्त ! नेरयिका ! स्वच्छ भौद्धारिकशरीरेभ्यः परकीयौदारिकशरीराण्याभित्य कातिक्रिया भवन्ति ? मगरानाह—‘गोपमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि पंचकिरिया वि, एष आव वेमाणिया, नवरं मणुस्सा जहा जीवा’ हे गौतम ! नेरयिका यदा परकीयौ

रेहिं तो कइ किरिया’ हे भदन्त ! जीव परकीय भौद्धारिक शरीरों को आश्रित करके किन्ने प्रकार की क्रियाओंवाले होते हैं ? इसके उत्तर में प्रश्न कहते हैं—‘गोपमा’ हे गौतम ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि अकरयायि’ जीव अथ परकीय भौद्धारिक शरीरों को आश्रित करके काय का व्यापार करते हैं तब वे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं चार क्रियाओंवाले भी होते हैं, और पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं । तथा क्रियारहित भी होते हैं । अब गौतमस्वामी प्रश्न से ऐसा पूछते हैं—नेरइयाणं मते ! ओरासियसरीरेहिं तो कइ किरिया’ हे भदन्त ! नारक परकीय भौद्धारिक शरीरों को आश्रित करके किन्नी क्रियाओंवाले होते हैं ? उत्तर में प्रश्न कहते हैं—‘गोपमा’ हे गौतम ! ‘तिकिरिया वि चउकिरिया वि, पचकिरिया वि’ एष जाय वेमाणिया—नवरं मणुस्सा जहा जीवा’ नेरयिक जब परकीय

गौतम स्वाभीने प्रश्न— ‘जीवाण मते ! ओरासियसरीरेहिं तो कइ किरिया?’ हे भदन्त ! एते परकीय भौद्धारिक शरीराने आश्रित करीने हेरहा प्रकल्पनी द्विवापण्य डोय छे । भदन्तिय प्रश्नुते उत्तर— ‘गोपमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि, पचकिरिया वि, अकिरिया वि’ हे गौतम ! एते नन्धरे परकीय भौद्धारिक शरीराने आश्रित करीने अथव्यापार करे छे त्तारे तेके मणु द्विवापण्यवण्य मणु डोय छे, अर द्विवापण्यवण्य मणु डोय छे पांच द्विवापण्यवण्य मणु डोय छे जने क्रिया रहित मणु डोय छे । गौतम स्वाभीने प्रश्न— ‘नेरयाण मते ! ओरासियसरीरेहिं तो कइ किरिया ?’ हे भदन्त ! नारके परकीय भौद्धारिक शरीराने आश्रित करीने हेरहा प्रकल्पनी द्विवापण्यवण्य डोय छे ।

भदन्तिय प्रश्नुते उत्तर— गोपमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि, एष जाय वेमाणिया—नवरं मणुस्सा जहा जीवा’ हे गौतम !

दारिकशरीराण्याश्रित्य कायं व्यापारयन्ति तदा त्रिक्रिया अपि, चतुष्क्रिया अपि, पञ्चक्रिया अपि भवन्ति, एतदुक्तरीत्या यावत्-एकेन्द्रियविकलेन्द्रियपञ्चेन्द्रियतिर्यग्मनुष्यभवनपतिवानव्यन्तरज्योतिषिकवैमानिका अपि यदा परकीयौदारिकशरीराण्याश्रित्य कायं व्यापारयन्ति तदा त्रिक्रिया अपि, चतुष्क्रिया अपि, पञ्चक्रिया अपि भवन्ति, किन्तु त्वरं विशेषस्तु मनुष्या यथा समुच्चय जीवा अक्रिया अपि उक्तास्तथैव अक्रिय, अपि वक्तव्या गौतमः पृच्छति-जीवेणं भन्ते ! वेदव्ययसरीराओ कइ किरिण ? हे भदन्त ! जीवः

औदारिक शरीरोंको आश्रित करके कायका व्यापार करते हैं-तब वे तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं चार क्रियाओंवाले भी होते हैं और पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं। इसी उक्त रीति के अनुसार यावत् - एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यग्, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक और वैमानिक भी जब परकीय औदारिक शरीरोंको आश्रित करके कायको व्यापारयुक्त करते हैं तब वे तीनक्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं और पांच क्रियाओंवाले भी होते हैं। किन्तु इनकी अपेक्षा मनुष्यों में विशेषता है और वह ऐसी है कि मनुष्य समुच्चय जीवोंकी तरह अक्रियावाले भी होते हैं। अक्रियावाले होने में युक्ति पहिले दिखला दी गई है। अर्थात् वीतराग अवस्था में ही क्रियारहितपना होता है-मनुष्य ही वीतराग होते हैं और जीव नहीं। अब गौतमस्वामी प्रश्नसे ऐसा पूछते हैं-‘जीवेणं भन्ते ! वेदव्यय

न्यारे नारडे परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने कायव्यापार करे छे, त्तारे तेओ ऋ क्रियाओवाणा पणु होय छे, यार क्रियाओवाणा पणु होय छे अने पांच क्रियाओवाणा पणु होय छे. ओअ प्रमाणे ओकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यग्, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक अने वैमानिक पणु न्यारे परकीय औदारिक शरीरने आश्रित करीने कायव्यापार करे छे, त्तारे ऋ क्रियाओवाणा पणु होय छे, यार क्रियाओवाणा पणु होय छे अने पांच क्रियाओवाणा पणु होय छे. पणु तेभना करता मनुष्योमा ओवी विशेषता छे के तेओ सामान्य ओवानी नेम अक्रिय पणु होय छे कारणके वीतराग न्शामा न क्रियारहितता सबवी शके छे मनुष्यो न वीतराग अवस्थावाणा अनी शके छे, अनी ओवा वीतराग अनी शकता नथी.

इवे गौतम स्वामी महावीर प्रश्नने ओवो प्रश्न पूछे छे- ‘जीवेणं भन्ते ! वेदव्ययसरीराओ कइ किरिया ?’ हे भदन्त ! अब परकीय वैदिक शरीरने आश्रित करीने वैदिक क्रियाओवाणा होय छे !



खलु वैक्रियशरीरात् परकीयवैक्रियशरीरमाभित्य कतिक्रियो भवति ? मगधानाह-  
 'गोयमा ! मिय तिकिरिए, सिय चठकिरिए; सिय अकिरिए' हे गौतम !  
 जीवो यदा परकीय वैक्रियशरीरमाभित्य काय व्यापारयति तदा स्यात् कदाचित्  
 प्रिक्रिय, स्यात् कदाचित् चतुष्क्रिय, स्यात् कदाचित् अक्रिया मवति, कि  
 न्त्वत्र पञ्चक्रियश्च नोच्यते वैक्रियशरीरधारिणः प्राणातिपातस्य कतुमश्वपस्वात्  
 अपिरतिमाश्रस्य वेदाशिवसितरात् अतएव वक्ष्यते—'पंचमकिरिया न मम' इति,  
 पञ्चमक्रिया अत्र वैक्रियप्रकरणे न मण्यते, गौतमः पृच्छति—'नेरइएष मते !  
 वेउच्चियमरीराभा कइ किरिए ?' हे भदन्त ! नैरयिकः ! खलु वैक्रियशरी  
 रात् वैक्रियशरीरमाभित्य कतिक्रियो भवति ? मगधानाह—'गोयमा ! मिय ति-

मरीराओ कइ किरिया' हे भदन्त ! जीव परकीय वैक्रिय शरीरको  
 आश्रित करके कितने प्रकारकी क्रियाओंवाला होता है ? इसके उत्तर  
 में प्रभु कहते हैं—'गोयमा' हे गौतम ! मिय तिकिरिए 'मिय चठकि  
 रिए मिय अकिरिए' जीव जय परकीय वैक्रिय शरीर को आश्रित  
 करके कायको व्यापारयुक्त करता है—तब वह कदाचित् तीन क्रियाओं  
 वाला होता है, कदाचित् चार क्रियाओंवाला होता है। और  
 कदाचित् अक्रिया (क्रियारहित) होता है किन्तु यहाँ पाच क्रियाएँ  
 नहीं होती हैं। क्योंकि जो वैक्रिय शरीरवारी होता है  
 संसका प्राणातिपात अर्थात् घान नहीं किया जा सकता है। सो ही  
 भागे कहेंगे—'पंचम किरिया न मम' इम वैक्रिय प्रकरण में पंचमक्रिया  
 प्राणातिपातक्रिया नहीं रही गई है। अथ गौतमम्यामी प्रभुस पूछते  
 हैं—'नेरइए ष मते ! वेउच्चियमरीराओ कइ किरिए' हे भदन्त !  
 नैरयिक वैक्रिय शरीर को आश्रित करके कितनी क्रियाओंवाला होता

उत्तर—'गोयमा ! मिय तिकिरिए, सिय चठकिरिए, सिय अकिरिए'  
 हे गौतम ! इम व्यापार परकीय वैक्रिय शरीरन, आश्रित करीने कयन व्यापार युक्त  
 करे छे त्तारे क्यारेक ते मयु विच्योपाये छे छे क्यारेक अरु विच्योपाये छे छे  
 अने क्यारेक मिया रहित देण के परसु ते करी पयु पांच विच्योपाया डेतो नथी,  
 अरु छे वैक्रिय शरीर धारी ते छे छे देण छे तेने प्राणतिपात (घान) करी शकते नथी  
 आ विचयनु पयु रूपरीकरण आजग करीये आतरी. 'पंचम किरिया न मम',  
 आ गौतम शरीर विचयक प्रकरणे पाचमा क्रिया अरु छे छे प्राणतिपात क्रिया अरु पांचा  
 आतरी नथी, अे वात आतना राणय लेनी छे छे गौतम स्वामी प्रभुने जेये मयु पूछे छे—  
 'नेरइए ष मते ! चउच्चियमरीराओ कइ किरिए ?' हे भदन्त ! त्तारे छे  
 नैरयिक वैक्रिय शरीरन आश्रित करीने करीये विच्योपाये डेत के ?

किरिए, सिय-चउकिरिए, एवं जाव वेमाणिए नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे गौतम ! नैरयिको यदा वैक्रियशरीरमाश्रित्य कायं व्यापारयति तदा स्यात् कदाचित् त्रिक्रियः, स्यात् कदाचित् चतुष्क्रियः, एवमुक्तरीत्या यावत्-एकेन्द्रियो विकलेन्द्रियः पञ्चेन्द्रियः तिर्यग्मनुष्यः भवनपतिः-वानव्यन्तरः ज्योतिषिकः वैमानिको यदा वैक्रियशरीरमाश्रित्य कायं व्यापारयति तदा स्यात् त्रिक्रियः, स्यात् चतुष्क्रियो भवति, नवरं विशेषः मनुष्यो यथा जीवः स्यात् पञ्चक्रियोऽपि अक्रियोऽपि तथैव मनुष्योऽपि पञ्चक्रियोऽपि भवति, अक्रियोऽपि भवति, इतिभावः, 'एवं जहा ओरालियसरीराणं चत्तारि दंडगा भणिया तथा वेउन्विय

है ? उत्तर में प्रभु कहते हैं—'गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए एवं जाव वेमाणिए-नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे गौतम ! नैरयिक जब वैक्रिय शरीर को आश्रित करके कायका व्यापार करता है-तब वह कदाचित् तीन क्रियाओंवाला होता है : कदाचित् चार क्रियाओंवाला होता है, इसी प्रकार-यावत्-एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियतिर्यच, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक और वैमानिक जब वैक्रियशरीरको आश्रित करके कायव्यापारवाले होते हैं तब ये तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, और कदाचित् चारक्रियाओंवाले भी होते हैं । परन्तु मनुष्यपद में विशेषता है-और वह इस प्रकार से है-कि जिस तरह जीव तीन, चार क्रियावाला भी होता है और क्रियारहित भी होता है, उसी तरह मनुष्य भी तीन, चार क्रियाओंवाला भी होता है और क्रियारहित भी होता है । 'एव जहा

महावीर प्रभुने उत्तर- 'गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, एवं जाव वेमाणिए-नवरं मणुस्से जहा जीवे' हे गौतम ! नैरयिक शरीरने आश्रित करीने कायने व्यापार युक्त करे छे, तयारे ते क्यारेक त्रयु क्रियावाणे होय छे अने क्यारेक चार क्रियावाणे होय छे अथ प्रमाणे अकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक अने वैमानिक पणु न्यारे वैक्रिय शरीरने आश्रित करीने कायने व्यापार युक्त करे छे, तयारे ते दरेक पणु क्यारेक त्रयु क्रियावाणे अने क्यारेक चार क्रियावाणे होय छे पणु मनुष्य पदमा न विशेषता छे ते आ प्रमाणे समन्वी ने रीते एव त्रयु क्रियावाणे पणु होय छे, चार क्रियावाणे पणु होय छे अने क्रिया रहित पणु होय छे, अथ प्रमाणे मनुष्य पणु त्रयु क्रियावाणे पणु होय छे, चार क्रियावाणे पणु होय छे अने क्रिया रहित पणु होय छे 'एव जहा ओरालियसरीराणं चत्तारि दंडगा भणिया, तथा वेउन्विय

सरीरेण वि चत्तारि दहगा भाणियम्वा, नवरं पंचमक्रिरिया न मन्ना' एव मुक्करीत्या यथा औदारिकशरीराणाम् चत्वारो दण्डका मणित्ताः तथैव वैक्रिय शरीरेणाऽपि चत्वारो दण्डका मणित्त्व्याः, नवरं विशेषस्त्वम पञ्चम क्रिया न मभ्यतेचक्तन्या वैक्रियशरीरिणः प्राणातिपातस्य कर्तुमशक्यत्वादितिमाह, 'सेस त वेव' शेषम् भवशेषं तदेव पूर्वोक्तानुसारमेव पक्तव्यम्, 'एव मदा वेउच्चिय तथा आहारगंपि, तेयगंपि, कम्मग पि, भाणियम्ब' एवम् उक्करीत्वा यथा—वैक्रिय शरीरमाभित्य दण्डक उक्तस्तथैव आहारकमपि शरीरमाभित्य, तैजसमपि शरीरमाभित्य, कार्मणमपि शरीरमाभित्य मणितव्य दण्डकव्यम् 'एक्के-

ओरास्त्रिय सरीराण चत्तारि दहगा मणिया तथा वेउच्चियसरी रेण वि चत्तारी दहगा भाणितम्वा - नवरं पंचमक्रिरिया न मभइ' जिस प्रकार से औदारिक शरीरों के चार दण्डक कहे गये हैं उसी तरह से वैक्रिय शरीर को लेकर भी चार दण्डक का उल्लेख आहिये। वैक्रिय शरीरवाले का प्राणातिपात करना—घात करना—अशक्य है इसलिये यहाँ पर पञ्चम क्रिया नहीं कही गई है—यही यहाँ विशेषता है। 'सेस तवेव' शरीर का मध्य कथन पढ़िये कहे हुए कथन के अनुसार ही कहना चाहिये। 'एव जहा वेउच्चिय-तथा आहारग वि, तेयग पि, कम्मग पि भाणियम्ब' जिस तरह से वैक्रिय शरीर को आभित करके दण्डक कहा गया है, उसी तरह से आहारक शरीर को भी आभित करके, तैजस शरीर को भी आभित करके और कार्मण शरीर को भी आभित करके दण्डक कहना चाहिये। इस तरह एक शरीर में चार चार दण्डक हो जाते हैं—

सरीरेण वि चत्तारि दहगा भाणियम्वा—नवरं पंचमक्रिरिया न मभइ' नवनीहमे औदारिक शरीरना चार ४४५ हठेवार्थं आत्मा ३ ज्येष्ठ रीते वैक्रिय शरीर नियमक पञ्च चार ४४६ हठेवा ज्येष्ठजे वैक्रिय शरीरवणा छपनेः पात करवानुं अशक्य होवाणी ज्येष्ठ पञ्चमी किंवा हठेवार्थं आनी नथी ज्येष्ठी न ज्येष्ठी विशेषता ३. 'सेस त वेव' वाक्यनुं समस्त कथन पढेला करवानां आनेला कथन प्रभाये समज्यनुं 'एव मदा वेउच्चिय- तथा आहारगं पि तेयगं पि कम्मगं पि भाणियम्ब' नवनी रीते वैक्रिय शरीरने आभित करीने चार ४४६ हठेवार्थं आत्मा ३ ज्येष्ठ प्रभाये आहारक, तैजस जने क म च शरीरने आभित करीने पञ्च चार चार ४४६ हठेवा ज्येष्ठजे. आ रीने प्रभाये शरीरना चार चार ४४६ भाप ३ ज्येष्ठ समज्यनुं 'एक्के चत्तारि

क्के चत्वारि दंडगा भाणियन्वा, जाव वेमाणिया णं भंते ! कम्मगसरीरेहिंतो कइकिरिया ? गोयमा ! त्तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, एकैकस्मिन् आहारिकतैजसकामणान्यतमे चत्वारो दण्डका भणितव्याः, यावत्-समुच्चयजीवाः, नैरयिकाः, एकेन्द्रियाः विकलेन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियतिर्यग्गोनिका मनुष्याः, भवनपतयः वानव्यन्तराः, ज्योतिषिकाः, वैमानिकाः खलु भदन्त ! कर्मणशरीरेभ्यः कर्मणशरीराण्याश्रित्य कतिक्रियाः भवन्ति ? भगवानाह गौतम ! यावद् वैमानिकाः यदा कर्मणशरीराण्याश्रित्य कायं व्यापारयन्ति तदा त्रिक्रिया अपि, चतुष्क्रिया अपि, भवन्ति, एवञ्च आहारकादिशरीरत्रयमप्याश्रित्य दण्डकचतुष्केण नैरयिकादिजीवानाम् त्रिक्रियत्व, चतुष्क्रियत्वं चोक्तम्, पञ्चक्रियत्वन्तु निवारि-

यही बात 'एकेके चत्वारि दण्डगा भाणियन्वा' इस सूत्रपाठ द्वारा व्यक्त की गई है । अब गौतम स्वामी प्रभु से ऐसा पूछते हैं—'जाव वेमाणिया णं भंते ! कम्मगसरीरेहिंतो कइकिरिया ?' हे भदन्त ! यावत्-समुच्चय जीव, नैरयिक, एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रियतिर्यग्, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक और वैमानिक ये कर्मणशरीरों को आश्रित करके कितनी क्रियाओंवाले होते हैं ? इसके उत्तर में प्रभु कहते हैं—हे गौतम ! यावत् वैमानिक जब कर्मण शरीरों को आश्रित करके कायाका व्यापार करते हैं—तब ये तीन क्रियाओंवाले भी होते हैं, चार क्रियाओंवाले भी होते हैं । इस तरह से आहारक आदि शरीरत्रय—आहारक, तैजस और कर्मण को आश्रित करके चार दण्डकों द्वारा नैरयिक आदि जीवों में तीन क्रियाओं का और चार क्रियाओंका होना तो कहा गया है । परन्तु पांच क्रियाओंका होना

दंडगा भाणियन्वा ' अत्र वात आ सूत्राठे द्वारा प्रकट करवाभा आवी छे कार्मण्यु शरीरने आश्रित करीने छेव्हे आलापक आ प्रमाणे अनशे—

' जाव वेमाणियाणं भंते ! कम्मगसरीरेहिंतो कइ किरिया ' हे भदन्त ! सामान्य जव, नारक, अकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्ग्य, मनुष्य, भवनपति, वानव्यन्तर, ज्योतिषिक अने वैमानिक, कार्मण्यु शरीरने आश्रित करीने कइव्हे क्कियाओवाणा होय छे ? तेने उत्तर आपता महावीर प्रभु कहे छे के— हे गौतम ! वैमानिक पर्यन्तना उपर्युक्त जवो न्यारे कार्मण्यु शरीरने आश्रित करीने कायना व्यापारथी युक्त अने छे, तारे तेओ गण्यु क्कियाओवाणा होय छे अने यार क्कियाओवाणा पण्यु होय छे आ रीते आहारक आदि शरीरत्रयने (आहारक, तैजस अने कार्मण्यु शरीरने) आश्रित करीने यार इंडके द्वारा नारक आदि जवोमा प्रण्यु अथवा यार क्कियाओनी स भविततानु प्रतिपादन करवाभा आव्यु छे, परंतु पांच क्कियाओवाणा होवानो निषेध क्यो छे कारण्युके आहारक

तम् तस्य समूलघातमपह्नुमश्चनयत्वात्, न च नारकस्याधोलोकवर्षित्वात्  
 आहारकशरीरस्य च मनुष्यलोकवर्षित्वेन तरिक्रियाणामर्षिपयत्वात्, कथमाहारक  
 शरीरमाश्रित्य नारक स्यात् त्रिक्रिय ? स्याच्चतुष्क्रियः इतिवाच्यम्, यावत्पूर्व  
 शरीरमव्युत्सृष्ट मीचनिर्वर्षितपरिणाम न स्यजति तावत् पूर्वमाचमशापना-  
 नयमतेन निर्वर्षकजीवस्यैवेति व्यपदिश्यते पृथपटन्यायात्, अतो नारकपूर्व  
 मववेष्टो नारकस्यैव, तद्देशेन च मनुष्यलोकवर्षिनाऽस्थ्यादिरूपेण यदाहारकशरीरं

निपिद्य किया है। क्योंकि आहारक आदि शरीरत्रय का समूलघात नहीं  
 होता है। इसलिये यहा पांचवीं क्रिया का अस्तित्व नहीं हो सकता  
 है। शंका-नारक जीव तो अधोलोक में रहता है और आहारक  
 शरीर मनुष्यलोकवर्षी होता है-तो फिर कैसे नारक जीव आहारक  
 शरीर को आश्रित करके किये गये कायव्यापार से तीन क्रियाओंवाला  
 या चार क्रियाओंवाला हो सकता है ? क्योंकि आहारक शरीरकृत  
 क्रियाएँ तो मनुष्यलोक में ही होंगी-अधोलोक में नहीं-अतः अधोलो-  
 कवर्षि चट नारक आहारक शरीरज-प क्रियाओं का विषय नहीं बन  
 सकता ? उचर-जय तक पूर्वशरीर जायनिर्वर्षित परिणाम को नहीं  
 छोड़ता है तब तक यह शरीर निर्वर्षक जीव का ही कहा जाता है  
 जैसे मिस घड़े में पहिले घी रचखा जाता था-अब उसमें घी नहीं  
 रखा जाता है - परन्तु फिर भी यह घड़ा घी का घड़ा ही कहा  
 जाता है-इसी तरह से जीव पूर्वमवके देह को छोड़कर जीव

आदि तत्र शरीरशेष भात भक्ष्यते न च तेषां ते शरीरानी अपिज्ञाने पञ्चमी-  
 भावतिपातिस्त्रि क्रिया स भवी शक्यी नथी

उत्तर- नारक एव तो अधोलोक में रहे थे अने आहारक शरीरों का अभाव  
 तो मनुष्यलोक में होय है उतां अथवा शा का वे जेवुं कहे थे के आहारक करिने  
 कयव्यापार करता नारक तत्र क्रियाजोवाणा अथवा आर क्रियाजोवणा होय है ? आहा  
 रक शरीरकृत क्रियाजो तो मनुष्यलोक में न भई रहे के-अधोलोक में भती नथी, तो यही  
 अधोलोकवर्षी त नारक आहारक शरीर कयव क्रियाजोना उतां भवी रीते नथी रहे ?

उत्तर- जहां सुभी पूर्वशरीर एव निवर्तित परिणामने छोड़ते नथी, तहां सुभी वे  
 करिने निवर्तक एवतुं न कयव है जेथी रीते पहेला कथं पदार्थों की अस्तित्व आवत  
 होय, पक्ष कते तेभां भी शक्यनां आवतुं न होय तो तत्र वे भक्षने शीने, प्रथो  
 कथेयानां आवे है जेव प्रथोके पूर्वमवना करिने छोड़ने नारक पञ्चमी उचरत

स्पृश्यते परिताप्यतेवा, तदाहारकदेहाहारकद्विक्रियश्चतुष्क्रियो वा भवति, कायिकीभावे इतरयोरवश्यंभावात्, पारितापनिकीभावे चाद्यत्रयस्यावश्यंभावात्, यत्तु तैजसकार्मणशरीरापेक्षया जीवानां परितापकत्व तदौदारिक्राश्रितत्वेन

नारक हुआ है, वत् पूर्वभव का देह उस नारक का ही देह माना जावेगा। अतः अस्थ्यादिरूप वह पूर्वभव देह उसका मनुष्यलोकवर्ती था-उस समय इसके द्वारा जो आहारक शरीर हुआ गया है या परितापित क्रिया गया है, उस आहारक देह को आश्रित करके वह नारक तीन क्रियाओंवाला या चार क्रियाओंवाला होता है। क्योंकि कायिकी क्रिया के सद्भाव में इतर दो क्रियाओं का सद्भाव अवश्य आजाना है। और जहाँ पारितापनिकी क्रिया का सद्भाव होता है वहाँ आदि की तीन क्रियाओं का सद्भाव अवश्य आजाना है। इस तरह आहारक शरीर को आश्रित करके कायव्यापारवाला नारक जीव तीन क्रियाओंवाला और चार क्रियाओंवाला होता है-यह बात पूर्व भाव प्रज्ञापना नय के दत्त से सध जाती है। पूर्व के भाव को कहनेवाला नय पूर्वभाव प्रज्ञापननय है। पूर्व में आहारक शरीर को आश्रित करके कायव्यापार करनेवाला नारक इस नय के मतानुसार ही तीन क्रियाओंवाला अथवा चार क्रियाओंवाला कहा गया है तथा तैजस और कार्मण शरीर की अपेक्षा जो जीवों में परिता-

यत्तु नागक पूर्व भवना देखने ते नारकने देखे मानी शक्य छे तेथी अस्थि आदि रूप तेने पूर्वभवनेने देखे मनुष्यलोकवर्ती छते, ते देखे द्वारा त्यारे तेथेने आहारक शरीरने स्पर्श कर्ये छते अथवा ने आहारक शरीरने परितापित कथुं छतुं, ते आहारक शरीरने आश्रित करीने तेने त्रयु क्रियाओवाणा अथवा चार क्रियाओ कहेवाभा आओ छे, धारणु के कायिकी क्रियाने सहलाव होय त्यारे पीछे के क्रियाओने अवश्य सहलाव होय छे, अने नया पारितापनिकी क्रियाने सहलाव होय ने त्या पडेवी त्रयु क्रियाओने सहलाव पण अवश्य होय छे आ प्रकारना आहारक शरीरने आश्रित करीने कार्यव्यापारवाणा नारक भवने त्रयु क्रियावाणे अने चार क्रियावाणे कहेवाभा आओ छे, ये ने बात पूर्वभावप्रज्ञापना नयना मतथी सिद्ध थाय छे पूर्वना लावने भतावनार नयने पूर्वभाव नय कहे छे पूर्व (पूर्व भवमा) आहारक शरीरने आश्रित करीने काय-व्यापार करेनार नारकने आ नयना मतानुसार ने त्रयु क्रियाओवाणे अथवा चार क्रियाओवाणे कहेवाभा आओ छे, तथा तैजस अने कार्मण शरीरने अपेक्षा भवेना

तयोरवसेय स्वरूपेण तयोः परितापयितुमशक्यत्वात् । अन्ते गौतमो भगवदाकर्ष  
स्वीकृत्यन्नाह - 'सेवं मते ! सेवं मते ! चि, हे मदन्त ! मद्युक्त तवेव  
सर्वं सत्यमेव, हे मदन्त ! मद्युक्त तवेव सर्वं सत्यमेवेतिमावः ॥ सू० ५ ॥

इति श्री-विश्वविद्यालय-जगद्गुरु-प्रसिद्धभाषक-पञ्चदशमापाकछित्त-संज्ञित  
कलापाठ्यापर-प्रविशुद्ध-गद्यपद्यनैकग्रथनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्री  
ब्राह्मण्यपति-कोल्हापुरराम-प्रदत्त "जैनशास्त्राचार्य" पदभूषित-  
कोल्हापुरराजगुरु-वासप्रदाचारि - जैनाचार्य-नैन  
धर्मदिशाकर-पूज्यश्री-पासीलालप्रतिबिरचितायां  
"श्रीभगवतीसूत्रस्य" "प्रमेयचन्द्रिका"ऽऽख्यायां  
व्याख्यानार्थं अष्टमशतकस्य पण्डितेश्वरकः समाप्तः ॥८-६॥

पक्ता कही गई है-वह औद्योगिक आदि शारीरों के आभित होने से  
उन तैजस कार्मण में आती है ऐसा जानना चाहिये । क्योंकि ये दोनों  
शरीर स्वरूपतः किसी को भी परितापित नहीं कर सकते हैं ।  
अन्तमें गौतम भगवानके वाक्यको स्वीकार करते हुए कहते हैं-'सेवं  
मते ! सेवं मते ! चि' हे मदन्त ? आपके द्वारा प्रतिपादित किया गया  
यह सब विषय सर्वथा सत्य ही है-हे मदन्त ! आपके द्वारा प्रति  
पादित किया गया, यह विषय सर्वथा सत्य ही है । इस प्रकार कह  
कर वे गौतम यावत् अपने ध्यान पर विराजमान हो गये ॥ सू. ५ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'भगवती' सूत्रकी

प्रमेयचन्द्रिका व्याख्या के आठवें शतक का छठा

उद्देशक समाप्त ॥ ८-६ ॥

ने प्रतिपादित कहेनामा आये । वे औद्योगिक आदि शरीरों के आभित होने से  
तेजस काम कर्मा आये । जैन धर्मग्रन्थों में आये । वे औद्योगिक आदि शरीर स्वरूपतः किसी  
पक्षु परितापित करी सकते नहीं अन्ते ज जानना कहेनामा मद्युक्त तवेव सर्वं सत्यमेव  
स्वाभी कहे । 'सेवं मते ! सेवं मते ! चि' हे मदन्त ! आपने जो विषय  
के प्रतिपादन किये वे सर्वथा सत्य ही है मदन्त ! आपनी बात सत्य ही है ।  
प्रमाणों की मद्दत में प्रमाणों के द्वारा नभरकार करिने तेजो वेमने स्थाने विशालमान  
धर्म जयल ॥ सू० ५ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत 'भगवती' सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका  
व्याख्या के आठवें शतक के छठे उद्देशक समाप्त ॥ ८-६ ॥

## सप्तमोद्देशकः प्रारंभ्यते

अष्टमशतकस्य सप्तमोद्देशकस्य संक्षिप्तविषयविवरणम् ।

अन्यतीर्थिकाणां स्थविराणां च परस्परं संवादः, अन्यतीर्थिकाणां स्थविरान् प्रति अमंयतत्वेन एकान्तवालत्वेन च कथनम्, अन्यतीर्थिकान् प्रति स्थविराणां स्वासंयतत्वस्य एकान्तवालत्वस्य कथने हेतुप्रश्नः, अन्यतीर्थिकाणां च त्रिविधं त्रिविधेन इत्यस्यैव तत्र हेतुनया समाधानम्, स्थविराणां च तत्र सयुक्तिकं समाधानम् ।

प्रद्वेषक्रियानिमित्तकान्यतीर्थिकवक्तव्यता ।

मूलम्—‘तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे वण्णओ, गुणसिलए चेइए वण्णओ, जाव पुढविसिला वट्ठओ, तस्स णं गुणसिलस्स चेइयस्स अदूरसामंते वहवे अन्नउत्थिया परिवसंति, तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आदिगरे

अष्टमशतक का सप्तम उद्देशक प्रारंभ-

अष्टमशतक के इस सप्तम उद्देशकमें वर्णित हुए विषय का विवरण संक्षेप से इस प्रकार है—अन्यतीर्थिकजनोंका और स्थविरोका परस्परमें संवाद अन्यतीर्थिकजनोंका स्थविरो के प्रति असंयत होने का और एकान्तवाल होने का कथन उनसे स्थविरो का ऐसा पूछना कि हमलोग असंयत और एकान्तवाल क्या हैं—इसमें क्या हेतु है । तुम लोग त्रिविध रूपसे त्रिविध असंयत आदि का आचरण करते हो यही इसमें हेतु है ऐसा अन्यतीर्थिकजनोंका कथन इस पर सयुक्तिक स्थविरोका उत्तर ।

आठमा शतकेना सातमा उद्देशक-

आठमा शतकेना सातमा उद्देशकमा ने विषयनु निरूपण करवाभां आयुं छे ते विषयनु संक्षिप्त विवरण या प्रमाणे छे—अन्यतीर्थिके आने स्थविरो वचनेना संवाद—अन्य तीर्थिके स्थविरोने कहे छे के तमे असंयत आने एकान्तवाल (संयुक्त ज्ञानरहित) छे, स्थविरो तेमने पूछे छे—‘तमे अभने असंयत आने एकान्तवाल शा दारणे कहे छे ? अन्यतीर्थिके जवाब आपे छे—‘तमे त्रिविधरूप त्रिविध असंयत आदिनु आचरण करे छे, तेथी अभे जेवुं कहीअे छीअे स्थविरो तेमने ने तर्कशुद्ध उत्तर आपे छे तेनु कथन.



जाव समोसठे जाव परिसा पडिगयो, तेण कालेण, तेणं  
 समएण समणस्से भगवओ महावीरस्स व्हवे अतेवासी थेरा  
 भगवंतो जाइसपत्ता कुलसपत्ता जहा वित्तियसए जाव जीवियासा  
 मरणभयविप्पमुक्का समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर  
 सामते उइडजाणू अहोसिरा ज्ञाणकोट्टोवगया सजमेण  
 तवसा अप्पाण भावेमाणा जाव विहरति, तएण ते अन्न-  
 उत्थिया जेणेव थेरा भगवंतो तेणेवं उवागच्छति, उवागच्छित्ता  
 ते थेरे भगवते एव वयासी तुब्भेण अज्जो ! तिविह तिविहेणं  
 असजयअविरयअप्पडिइय जहा सत्तमसए वितिए उइसए  
 जाव एगतवाले यावि - भवह, - तए ण ते थेरा भगवतो  
 ते अन्नउत्थिए एव वयासी-केण कारणेण अज्जो ! अम्हे  
 तिविह तिविहेण असजय अविरय० जाव एगतवाला यावि  
 भवामो ? तएण ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवसे एव वयासि  
 तुब्भे ण अज्जो ! अदिअ गेण्हह, अदिअ भुजह, अदिअ  
 साइज्जह, तएण ते तुब्भे अदिअ गेण्हमाणो अदिअं भुज  
 माणा अदिअ साइज्जमाणा तिविह तिविहेण असजय अविरय  
 जाव एगतवाला यावि भवह, तए ण ते थेरा भगवतो ते  
 अन्नउत्थिए एव वयासी-केण कारणेण अज्जो ! अम्हे अदिअं  
 गेण्हामो, अदिअ भुजामो, अदिअं साइज्जामो ? जए ण अम्हे  
 अदिअं गेण्हमाणा जाव अदिअं साइज्जमाणा तिविह तिविहेण

असंजय जाव एगंतबाला यावि भवामो ? तए णं अन्न-  
उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुम्हाणं अज्जो !  
दिज्जमाणे अदिन्ने पडिग्गहेज्जमाणे अपडिग्गहिए निस्सरिज्जमाणे  
अणिसट्ठे, तुब्भे णं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्तं  
एत्थणं अंतरा केइ अवहरिज्जा, गाहावइस्स णं तं भंते !  
नो खलु तं तुब्भं, तएणं तुज्जे अदिन्नं गेण्हह जाव अदिन्नं  
साइज्जह, तएणं तुज्जे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव एगंतबालायावि  
भवह, तएणं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी  
नो खलु अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गिण्हामो, अदिन्नं भुजामो,  
अदिन्नं साइज्जामो, अम्हे णं अज्जो दिन्नं गेण्हामो, दिन्नं  
भुजामो, दिन्नं साइज्जामो तएणं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा,  
दिन्नं भुजमाणा, दिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय  
विरयपडिहय जहा सत्तमसए जाव एगंतपंडिया यावि भवामो  
तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी-केण  
कारणेणं अज्जो ! तुम्हे दिन्नं गेण्हह, जाव दिन्नं साइज्जह,  
जएणं तुज्जे दिन्नं गेण्हमाणा जाव एगंतपंडिया यावि भवह ?  
तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-अम्हेणं  
अज्जो ! दिज्जमाणे दिन्ने, पडिग्गहेज्जमाणे पडिग्गाट्ठिए, निस्सि-  
रिज्जमाणे निसट्ठे, जेणं अम्हेणं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं  
असंपत्तं, एत्थणं अंतरा केइ अवहरेज्जा अम्हाणं त, णो खलु  
तं गाहावइस्स, जए णं अम्हे दिन्नं गिण्हामो दिन्नं भुजामो

दिन्न साइजामो, तपणं अम्हे दिन्न गेण्हमाणा जाव दिन्न साइज्जमाणा -तिविहं -तिविहेणं सजय जाव एगंतपडिपा यावि भवामो, तुब्भे णं अज्जो ! अप्पणा चेष तिविह तिवि हेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवह, तप णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविह जाव एगंतवाला यावि भवामो ? तप णं ते थेरा भगवतो ते अन्नउत्थिय एव वयासी-तुज्जे णं अज्जो अदिन्नं गेण्हह अदिन्नं भुजह अदिन्न साइज्जह, तपणं अज्जो तुब्भे अदिन्न गेण्हमाणा जाव एगंतवाला यावि भवह, तप णं ते थेरे भगवते ते अन्नउत्थिय एव वयासी-तुज्जे णं अज्जो दिज्जमाणे अदिन्ने त चेष जाव गाहावइस्स णं, णो खल्ल त तुज्जे, तपणं तुब्भे अदिन्न गेण्हह, तं चेष जाव एगंतवाला यावि भवह ॥ सु० १ ॥

छाया - तस्मिन् काले तस्मिन् समये राजगृह नाम नगरं वर्णकः शुक्लं श्रीककं चैस्यं वर्णकः, यापत् पृथिवीष्विष्ठापट्टकः, तस्य खल्ल शुणसीककस्य चैस्यस्य

प्रदेपक्रियानिमित्तक अन्यतीर्थिकवक्तव्यता-

'तेज कालेण तेज समपण' इत्यादि ।

सूत्रार्थ-(तेज कालेण तेजं समपण राघगिहे नयरे) तस काल औरै एस समय में राजगृह नाम का नगर था ( वण्णओ ) वर्णन ( शुणसिलाए चेषए वण्णओ ) इसमें शुणसिलक चैस्य था-वर्णन

प्रदेपक्रियानिमित्तक अन्यतीर्थिक वक्तव्यता-

'तेज कालेण तेज समपण' इत्यादि-

सूत्रार्थ - (तेज कालेण तेज समपण राघगिहे नयरे) तेज काले अने ते समये राजगृह नामे नगर कट (वण्णओ) तेनु वर्णन अथानअरी तेनु वण्णवुं ( शुणसिलए चेषए - वण्णओ ) तेअं शुणसिलनामि चैस्य कट तेनु वण्ण वण्ण अथान अथान शुणसिल नामेन । एतानेनु । वण्णन

अदूरसामन्ते बहवः अन्ययूथिकाः परिवसन्ति, तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीरः आदिकरः यावत् समवसृतः, यावत् पर्वत् प्रतिगता, तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणस्स भगवतो महावीरस्य बहवोऽन्तेवासिनः स्थविरा भगवन्तः जातिसंपन्नाः कुलसंपन्ना यथा द्वितीयशतके यावत् जीवितागमरणभयविप्रमुक्ताः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अदूरसामन्तम् ऊर्ध्वजानवः अर्धः शिरसोऽध्यानकोष्ठोपगताः संयमेन तपसा आत्मान भावयन्तो यावत् विहरन्ति,

याने गुणशीलनामका उद्यानका वर्णन ( जाव पुढविसिला पट्टओ ) यावत् पृथिवीशिलापट्टक था ( तस्स णं गुणसिलस्स चेडयस्स अदूरसामन्ते बहवे अन्नउत्थिया परिवसन्ति ) उस गुणशिलक चैत्य ( उद्यान ) के आसपास थोड़ी दूर पर अनेक अन्यतीर्थिकजन रहते थे ( तेणं कालेणं तेणं समएणं ममणं भगवं महावीरे आदिगरे जाव समोसडे ) उस काल और उस समयमें श्रमण भगवान् महावीर जो कि तीर्थके आदि करने वाले आदि विशेषणों वाले थे वहाँ पर पधारे ( जाव परिसा पडिगया ) यावत् धर्मकथा सुनकर परिषद विसर्जित हो गई ( तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे अन्तेवासी थेरा भगवन्तो जाइसंपन्ना कुलसंपन्ना जहा वितियसए जाव जीवियासामरणभयविप्पमुक्का समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामन्ते उइहं जाणू अहो सिरा ज्ञाणकोट्टोवगया संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा जाव विहरन्ति ) उस काल आर उस समय में श्रमण भगवान् महावीर के अनेक शिष्य स्थविर भगवन्त जो कि

( जाव पुढविसिलापट्टओ ) ' त्या पृथ्वीशिला पट्टक डट्टु, ' अड. सुधीनु चमरेत उथन अडलु करुं ( तस्स णं गुणसिलस्स चेडयस्स अदूरसामन्ते बहवे अन्नउत्थिया परिवसन्ति ) ते शुशुशीलक चैत्यनी आसपास थोडे दूर अनेक अन्यतीर्थिक लोक रडेता डता. ( तेणं कालेणं तेणं समएणं ममणं भगवं महावीरे आदिगरे जाव समोसडे ) ते हाणे अने ते सभये तीर्थ कर आदि विशेषणोवाणा श्रमणु लगवान भडावीर त्या पधार्या ( जाव परिसा पडिगया ) धर्मकथा अवलु कराने परिषद विसर्जित थड, त्या सुधीनु सभन्त कथन अही अडलु करुं ( तेण कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे अन्तेवासी थेरा भगवन्तो जाइ संपन्ना कुलसंपन्ना जहा वितियसए जाव जीवियासामरणभयविप्पमुक्का समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामन्ते उइहं जाणू अहो सिरा ज्ञाणकेट्टोवगया संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा जाव विहरन्ति ) ते हाणे अने ते सभये श्रमणु लगवान भडावीरना अनेक शिष्य स्थविर भगवतो, के ने नतिस पत्त, कुलसंपन्न आदि विशेषणोवाणा डता



केन कारणेन आर्यो ! वयं त्रिविधं त्रिविधेन असंयताविरताप्रतिहता यावत् एकान्तबालाश्चापि भवामः ? ततः खलु ते अन्ययूथिकास्तान् स्थविरान् भगवतः एवम् अवादिषुः-यूयं खलु आर्यो ! अदत्तं गृह्णीय अदत्तं भुङ्क्ष्वे अदत्तं स्वदध्वे ? तेन खलु ते यूयम् अदत्तं गृह्णन्तः, अदत्तं भुञ्जानाः, अदत्तं स्वदमानाः त्रिविधं त्रिविधेन असंयताविरताप्रतिहता यावत् एकान्तबालाश्चापि भवथ, ततः खलु

ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय अविरय जाव एगंतबाला यावि भवामो) अन्ययूथिकों से इस प्रकार सुनकर उन स्थविर भगवंतोने उनसे ऐसा कहा-हे आर्यो ! हम लोग किस कारण से त्रिविधं प्राणातिपात आदि को त्रिविधरूप करते हुए असंयत हैं, अविरत हैं और अप्रतिहतपापकर्मवाले यावत् एकान्तबाल हैं(तएणं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एव वयासी-तुब्भेणं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह अदिन्नं भुजह अदिन्नं साइज्जह) तब उन अन्ययूथिकों ने उन स्थविरभगवंतों से ऐसा कहा-हे आर्यो ! तुम लोग अदत्त पदार्थ को लेते हो। अदत्त किसी के द्वारा नहीं दिये गये-पदार्थ का सेवन करते हो, अदत्त पदार्थ का स्वाद लेते हो-अर्थात् अदत्तपदार्थ को ग्रहण वगैरह करने की अनुमति देते हो (तएणं ते तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय अविरय जाव एगंतबाला यावि भवह) इस तरह अदत्त का ग्रहण करते हुए

अर्द्धो सुधीनु सभरत कथन अडणु करवु (तएणं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए) एवं वयासी केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय अविरय जाव एगंतबाला यावि भवामो) अन्यतीर्थिकेणं आ प्रारना वयनेन सासणीने ते स्थविर भगवतोअये तेभने आ प्रभाणु पृथु-डे आर्यो ! आप शा करणु अवे कुर्छे छे डे अमे त्रिविध प्राणुतिपात आदिनु त्रिविधश्य सेवन करता डोवाथी असंयता अविरत अने अप्रतिहत पापकर्मवाणा यावत् एकान्तबाल धीअये ? तएणं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एव वयासी-तुब्भेणं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुजह, अदिन्नं साइज्जह) त्वारे अन्यतीर्थिकेअये तेभने आ प्रभाणु-कलु-डे आर्यो ! तमे अदत्त पदार्थो दो-छो, अदत्त पदार्थेनु सेवन करे-छो, अदत्त पदार्थेनु स्वाद दो छे अट्ठे डे अदत्त पदार्थेने अडणु करवानी अनुमति दो छे। (तएणं ते तुब्भे अदिन्नं गेण्हमाणा, अदिन्नं भुंजमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा) त्रिविहं त्रिविहेणं असंजय अविरय जाव एगंतबाला यावि भवह) आ दीते अदती

ते स्पष्टिरा मगधन्तस्तान् अन्ययुषिकाम एवम अथादियुः—केन कारणेन  
 वायाः ! ययम् अदत्तं गृहीमः, अदत्तं सुज्जमहे, अदत्तं स्वदामहे ? येन खलु  
 ययम् अदत्तं गृह्णन्तो यावत् अदत्तं स्वदमानास्त्रिषि त्रिषिचेन असयता यावत्  
 एकान्तवासावापि मयाम ! ततः खलु अन्ययुषिकास्तान् स्पष्टिरान् मगधतः

-अदत्त का सेवन करते हुए और अदत्त की अनुमति देते हुए तुम  
 लोग त्रिषिष प्राणातिपात आदि को त्रिषिषरूप से करते हुए असयत  
 हो अविरत हो और यावत् एकान्तवाल भी हो। (तएव ते घेरा  
 मगधतो ते अमउत्थिए, एव वयासी, केण कारणेण अज्जो ! अम्हे  
 अदिअ गेण्हामो, अदिअ सुजामो, अदिअ साइज्जामो ?) ऐसा सुनकर  
 इन स्पष्टिर मगधन्तोंने उन अन्ययुषिकजनों से ऐसा कहा—हे आर्यो !  
 हम किस कारण से अर्थात् कैसे बिना दिया हुआ पदार्थ लेते हैं,  
 बिना दिया हुआ पदार्थ सेवन करते हैं और बिना दिये हुए को  
 ग्रहण करने की अनुमति देते हैं ? (जएण अम्हे अदिअ गेण्हमाणा  
 जाअ अदिअ साइज्जमाणा त्रिषिअ त्रिषिहेणं असजय जाअ एगंतवाला  
 णवि मयामा) कि जिससे हम लोग अदत्त को ग्रहण करनेवाले,  
 यावत् अदत्त का ग्रहण करने की अनुमति देनेवाले होकर त्रिषिष  
 प्राणातिपात आदि को त्रिषिषरूप से करते हुए असयत यावत्  
 एकान्तवाल तुम्हारी दृष्टि में प्रतीत हो रहे हैं ? (तएणं अमउत्थिया

(शिक्षण द्वारा नहीं अपायेतु) ने अदत्त करता अदत्तनु सेवन करता अने अदत्तनी अनु-  
 मति देता अथेव तमे होत। त्रिषिष प्राणातिपात आदिनु त्रिषिषरूपे सेवन करे हो-  
 तथी तमे अय वत् हो, अविरत हो यावत् अेकान्तवाल पय हो। (तएण ते घेरा  
 मगधतो ते अमउत्थिए एव वयासी, केण कारणेण अज्जो ! अम्हे अदिअ  
 गेण्हामो, अदिअ सुजामो, अदिअ साइज्जामो ?) तेभानां अय वयने अलणने  
 स्थवरे अमवतोअे ते अन्वत्थिअेने पूछु क हे अथी ! तमे अा अा वु अेवुं अेअे  
 हो। हे अमे अदत्तदान अदत्ते अीअे, अदत्तं पदार्थीनु सेवन करीअे अीअ अने अदत्त  
 पदार्थने अदत्त अथानी अनुमति अपीअे अीअे। (तएणं अम्हे अदिअ गेण्हमाणा  
 जाअ अदिअ साइज्जमाणा त्रिषिअं त्रिषिहेण असजय जाअ एगंतवाला णवि  
 मयामा) अय अा शरखे अेवुं अने। अे हे अमे अदत्त पदार्थीने अदत्तुं अनात्त-  
 अदत्त पदार्थीनु सेवन अथानी अने अदत्त पदार्थी अदत्तुं अथानी अनुमति देनाश होयाथी  
 त्रिषिष प्राणातिपात आदिनु सेवन करता अथ अय वत्, अविरत यावत् अेकान्तवाल अीअे ?

एवत् अवादिषुः-युष्माकं खलु आर्याः ! दीयमानम् अदत्तं प्रतिगृह्यमाणम् अप्रति-  
गृहीतम् निसृज्यमाणं निःसृष्टम्, युष्माकं खलु आर्याः ! दीयमानं प्रतिग्रहकम्  
असंप्राप्तम् अत्र खलु अन्तरा कश्चिद अपहरेत्, गृहपतेः खलु तत् भदन्त ! नो  
खलु तत् युष्माकम्, ततः खलु यूयम् अदत्तं गृह्णीथ. यावत् अदत्तं स्वदध्वे, तेन  
खलु यूयम् अदत्तं गृह्णन्तो यावत् एकान्तवालाश्चापि भवथ, ततः खलु ते

ते थेरे भगवंते एवं वयासी-तुम्हाणं अज्जो दिज्जमाणे अदिन्ने, पडि-  
ग्गहेज्जमाणे अपडिग्गहिए, निसरिज्जमाणे अणिसट्ठे, तुब्भेणं अज्जो !  
दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्त एत्थणं अंतरा केइ अवहरेज्जा, गाहावहस्स-  
णं तं भंते ! नो खलु तं तुब्भं, तएणं तुब्भे अदिन्नं गेण्हह, जाव  
अदिन्नं साइज्जह, तएणं तुज्जे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव एगंतवाला यावि  
भवह) तव उन अन्ययूथिकोने उन स्थविर भगवंतो से ऐसा कहा-  
हे आर्यो ! तुम्हारे मतानुसार दी जाती हुई वस्तु अदत्त होती है,  
प्रतिगृह्यमाणवस्तु अप्रतिगृहीत होती है, क्षिप्यमाण वस्तु अनिसृष्ट होती  
है । हे आर्यो ! आप लोगों को देने में आता हुआ पदार्थ जब तक  
पात्र में नहीं पडा है, यदि इतने में कोई उस पदार्थ को बीच में  
ही अपहरण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में वह पदार्थ गृहपति  
का ही अपहरण हुआ कहलावेगा, तुम्हारा अपहरण हुआ नहीं  
कहलावेगा-इस कारण तुम अदत्त का ग्रहण करते हो, यावत् अदत्त

(तएणं अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी) त्वारे ते अन्यतीर्थिकाञ्च  
ते स्थविर लगवतोने आ प्रभाण्णे कथ्थु- (तुम्हाणं अज्जो दिज्जमाणे अदिन्ने,  
पडिग्गहेज्जमाणे अपडिग्गहिए, निसरिज्जमाणे अणिसट्ठे, तुब्भेणं अज्जो !  
दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्त एत्थणं अंतरा केइ अवहरेज्जा, गाहावहस्स  
णं तं भंते ! नो खलु तं तुब्भं, तएणं तुब्भे अदिन्नं गेण्हह, जाव अदिन्नं  
साइज्जह, तएणं तुज्जे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव एगंतवाला यावि भवह)-  
हे आर्यो ! तुम्हारा मत प्रमाणे अपाध श्रेणी वस्तुने अदत्त मानवामा आवे छे,  
अथलु इरवामा आवी श्रेणी वस्तुने अप्रतिगृहीत मानवामा आवे छे, अने क्षिप्यमाण  
वस्तुने अनिसृष्ट मानवामा आवे छे, हे आर्यो ! आप लोकाने देवामा आवतो पदार्थ  
आप लोकाना पात्रमा परया पडेवां ने डोअ व्यकित वच्चेथी न तेतु अपहरणु करी ले,  
तो आप लोक अमे माने छे । गृहपति (गृहस्थ)ता पदार्थतु न अपहरणु थयुं छे-  
तुम्हारा पदार्थतु अपहरणु थयुं छे अमे । तमे मानता नथी ते कश्चिं तमे अदत्त-



स्यैविरा मगवन्ते सान् अन्ययूयिकान् एषम् अवादिषुः-नो खलु आपाः !  
 ययम् अदत्तं गृह्णामः, अदत्तं मुञ्जमहे, अदत्तं स्वदामहे, ययं खलु आपाः !  
 वचं गृह्णामः वचं मुञ्जमहे, वचं स्वदामहे, तेन खलु ययम् वचं गृह्णन्तः,  
 वचं मुञ्जानां, वचं स्वदमाना भिक्षिभ्यः भिक्षिभ्येन संयतचिरतमतिरता  
 यया सप्तमशतके यावद् एकान्तपश्चितोभापि भवामः, तत खलु ते अन्य-

को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं। इस कारण अदत्त को ग्रहण करते हुए तुम खावत एकान्तपाल हो। (तर्पण से घेरा मगवतो ते अश्वत्थिप एष ययासी-नो खलु अजो अग्ने अदिन्न गिण्णामो, अदिन्न मुजामो, अदिन्न साहजामो, अग्नेण अजो दिन्न मुजामो, दिन्न साहजामो, तर्पण अग्ने दिन्न गेण्णमाणा, दिन्न मुजमाणा, दिन्न साहजमाणा तिषिहं तिषिहेण सजयधिरयपडिडयजहा सचमसए जाव एगंतपंडिया यावि भवामो) इस प्रकार से अन्ययूयिकों की बात सुनकर उन स्थिर मगवतोंने उनसे इस प्रकार कहा-हे आर्यो ! हम लोग अदत्त वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, अदत्त वस्तु का आहार नहीं करते हैं, और अदत्त वस्तु को ग्रहण करने की हम लोग अनुमोदना नहीं करते हैं। हे आर्यो ! हम लोग दिये गये पदार्थ को ही खेत हैं, दिये गये पदार्थ का ही आहार करते हैं और दिये गये पदार्थ को ही हमलोग अनुमोदन करते हैं। इसलिये ही हुई वस्तु का ग्रहण करते हैं, वी हुई वस्तुका सेवन करते हैं और वी

पाठने अदत्त वस्तु को, अदत्त वस्तुनु सेवन करे। अने अदत्त पदार्थ अदत्त अस्वानी अनुमति आपीजे। आ रीते अदत्तने अदत्त करता जेवा तमे असवतथी अने अश्वत्थिप एष ययासी-नो खलु अजो ! अदिन्न गिण्णामो, अदिन्न मुजामो, अदिन्न साहजामो, अग्ने दिन्न गेण्णमाणा दिन्न मुजमाणा, दिन्न साहजमाणा, तिषिहं तिषिहेण सजयधिरय पडिडय जहा सचमसए जाव एगंतपंडिया यावि भवामो ) अन्य मतवादीजोनी अ प्रशस्नी बात सभजोने ते अविर् अश्वत्थोमे तेभने आ प्रभाष्यं अर्जु-दि आपी। अने अदत्त वस्तुने अदत्त करता नथी, अदत्त वस्तुने आहार करता नथी अने अदत्त वस्तुने अदत्त अस्वानी अनुमोदना आपदा नथी हे आपी। अने आपवाभा आवेता पराधी अ अदत्त वस्तुने अने आपवाभा आवेता पराधीने अ आहार वहीजे अने आपवाभा आवेता पराधी अनुमति आपीजे अने आ रीते इत वस्तुने अदत्त करता,

यूथिकोस्तान् स्थविरान् भगवतः एवम् अवादिषुः—केन कारणेन आर्याः ! यूयं दत्तं गृह्णीथ, यावत् दत्तं स्वदध्वे येन खलु यूयं दत्तं गृह्णन्तः, यावत् एकान्तपण्डिताश्चापि भवथ ? ततः खलु ते स्थविरा भगवन्तः तान् अन्य-यूथिकान् एवम् अवादिषुः—अस्माकं खलु आर्याः ! दीयमानं दत्तं प्रतिगृह्यमानं

हुई वस्तु का ग्रहण करने का अनुमोदन करते हैं, हम लोग त्रिविध प्राणातिपात आदि के त्रिविधरूप परित्याग से संयत तथा विरत हैं, एवं पापकर्म के नाश करनेवाले हम लोग ससप्त शतकर्मों के अनुसार एकान्तपण्डित हैं। (तएणं ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवन्ते एवं वयासी—केण कारणेणं अज्जो तुम्हे दिन्न गेण्हह जाव दिन्न साइज्जह, जइणं तुव्भे दिन्न गेण्हमाणा जाव एगंतपंडिया यावि भवह) इससे बाद उन अन्यतीर्थिकजनोंने उन स्थविर भगवन्तों से ऐसा कहा—हे आर्यो ! तुम किस तरह से दी हुई वस्तु ग्रहण करते हो यावत् दी हुई वस्तु को ग्रहण करने की अनुमोदना करते हो ? कि जिससे आप लोगोंको दी हुई वस्तु का ग्रहण करने से यावत् एकान्तपण्डित माने ? (तएणं ते येरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एव वयासी) इस प्रकार सुनकर उन स्थविर भगवन्तोंने उन अन्य-तीर्थिकजनों से ऐसा कहा—(अम्हे णं अज्जो ! दिज्जमाणे दिन्ने, पडिग्ग-

स्त वस्तुसेवन करनारा अने दत्त वस्तुने लेवानी अनुमोदना करनारा जेवा अमे त्रिविध प्रणुतिपात आदिना त्रिविधरूपे परित्याग करनारा छीजे. तेथी अमे संयत छीजे, विरत छीजे, अने पापकर्मने नाश करनारा जेवा अमे लोको (सातमा शतकमा कथा अनुसार) एकान्त पंडित (संपूर्ण ज्ञानी) छीजे (तएणं ते अन्न-उत्थिया ते येरे भगवन्ते एवं वयासी—केण कारणेणं अज्जो ! तुम्हे दिन्न गेण्हह जाव दिन्न साइज्जह, जइणं तुव्भे दिन्न गेण्हमाणा जाव एगंतपंडिया यावि भवह) त्पार आद ते अन्यमतवादीज्जो अने ते स्थविर भगवन्तोंने जेवा प्रश्न पूछये। हे, “हे आर्यो ! आप लोको आपवामा आवेक्षी वस्तुज्जोने न अडुषु करे छे, आपवामा आवेक्षी वस्तुनु न सेवन करे छे अने आपवामा आवेक्षी वस्तु लेवानी न अनुमति हे छे जेवुं डेवी राते मानी शक्य ? हे आर्यो ! शा भाटे अमादे जेवुं मानवुं जेधजे हे तमे-दत्त पदार्थने अडुषु करनारा अने स्त पदार्थने अडुषु करवानी अनुमति हेनारा होवार्थी त्रिविध प्राणातिपात आदिना त्रिविधरूप त्यागथी संयत, विरत यावत् एकान्तपंडित छे ? (तएणं ते येरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी)

प्रतिगृहीत निरुज्यमान निरुष्टम्, येन अस्माक स्वस्य भार्याः ! दीयमान प्रति  
 ग्रहकम् असमाप्तम् अत्र स्वस्य अन्तरा कश्चिदपहरेत्, अस्माक तत्, नो स्वस्य  
 तत् गृहपतेः येन स्वस्य वर्यं दत्तं गृहीताः, दत्तं गृह्यमाने, दत्तं स्वदामने,  
 येन स्वस्य वर्यं दत्तं गृह्यन्तो, यावत् दत्तं स्वदामानां त्रिविध त्रिविधेन सपत्ना  
 यावत् एकान्तपण्डिताभापि भवामो, यूय स्वस्य भार्याः ! आत्मना चैव त्रिविध  
 त्रिविधेन असयमा यावत् एकान्तबाह्याभापि भवय, तत् स्वस्य ते अन्ययुधिकास्तान्

द्विज्जमाणे पहिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे निसिहे, जे णं अम्हे णं अज्जा !  
 दिज्जमाण, पहिग्गहणं, असपत्त, एत्य ण अंतरा केइ अवहरेज्जा, अम्हा  
 णं त णो प्यसु तं गाहावइस्स, जएणं अम्हे दिन्नं सुजामो, तिन्नं  
 साइज्जामो, तएणं अम्हं दिन्नं गेण्हमाणा जाव दिन्नं माइज्जमाणा,  
 तिविहं तिविहेण संजय जाव एगतपडिया यावि भयामो, तुम्होणं  
 अज्जो ! अप्पणा चैव तिविहं तिविहेणं असजय जाव एगतपासा  
 यावि भवह) हे भार्या ! हमलोग दीयमानवस्तु को दत्त और प्रति  
 गृह्यमाणवस्तु को प्रतिगृहीत, तथा निरुज्यमानवस्तु को निरुष्ट मानते  
 हैं। अस्मिन् हे आर्यो ! हम को दी जा रही वस्तु जवतक हमारे  
 पात्र में नहीं पड़ती है और बीच ही में यदि कोई उस वस्तु  
 का अपहरण कर लेता है—तो ऐसी स्थिति में वह अपहार हमारी  
 ही वस्तु का कहलावेगा—गृहपति की वस्तु का वह अपहरण नहीं

त्परे त स्वविर भजयतामे त अन्वतीभि इते वा प्रपद्ये कर्तुं— (अम्हेणं अज्जो !  
 दिज्जमाणे दिन्ने, पहिग्गहिएणं पहिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे निसिहे,  
 जे णं अम्हेणं अज्जो ! दिज्जमाण, पहिग्गहणं, असपत्त, एत्य ण अंतरा  
 केइ अवहरेज्जा, अम्हाणं त णो प्यसु तं गाहावइस्स, जएणं अम्हे दिन्नं  
 सुजामो, दिन्नं साइज्जामो तए ण अम्हं दिन्नं गेण्हमाणा जाव दिन्नं  
 साइज्जमाणा, तिविहं तिविहेणं संजय जाव एगतपडिया यावि भयामो,  
 तुम्होणं अज्जो ! अप्पणाचैव तिविहं तिविहेणं असजय जाव एगतपासा यावि  
 भवह) हे भार्या ! हमने तो आपवामा आनी रहेही वस्तुने अप्पण भयेही, अहं  
 इवामा आवती वस्तुने अहंणं यथं भयेही, अने निरुज्यमान वस्तुने निरुष्ट आनीके  
 छीजे. तेथी हे भार्या ! हमने अन्वतीभि आनी रहेही देव जेथी वस्तुनुं—अभारा पात्रभां  
 पडे ते पडेता—अहं अप्पणं इरी जाव तो जेथी स्थितिभां अने तो। अने आनीके  
 छीजे । अभारी ते वस्तुनुं अप्पणं इवामां आप्पुं छे—अहं इवानी वस्तुनुं अप्पणं यथुं  
 छे अने अने अन्वती नथी. तेथी अने इत्त वस्तुने अहंणं इरीके छीजे इत्त वस्तुने।

स्थविरान् भगवतः एवम् अवादिषुः—केन कारणेन आर्या ! त्रयं त्रिविधं यावत् एकान्तवालाश्चापि भवामः ? ततः खलु ते स्थविराः भगवन्तः तान् अन्य-यूथिकान् एवम् अवादिषुः—यूयं खलु आर्याः ! अदत्तं गृह्णीथ, अदत्तं भुङ्गध्वे, अदत्तं स्वदध्वे, तेन खलु आर्याः ! यूयम् अदत्तं गृह्णन्तो यावत् एकान्त-

कहलावेगा । इसलिये हम लोग दत्तको ही ग्रहण करते हैं, दत्त का ही भोजन करते हैं और दत्त को ही ग्रहण करने की अनुमोदना करते हैं इस कारण दत्तको ग्रहण करने वाले, दत्तका भोजन करने वाले और दत्तकोही ग्रहण करनेकी अनुमोदना करने वाले हम लोग त्रिविधप्राणातिपात आदि के त्रिविध परित्याग से संयत, विरत और एकान्ततः पण्डित हैं । हे आर्यो ! तुम लोग ही त्रिविध प्राणातिपात आदि का त्रिविध से परित्याग नहीं करने क कारण असयत, अविरत, और एकान्ततःबाल हो । (तएणं ते अन्न-उत्थिया ते येरे भगवंते एवं वयासी) इस प्रकार से स्थविरभगवन्तों का कथन सुनकर उन अन्ययूथिकोंने उनसे इस प्रकार पूछा—(केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे त्रिविहं जाव एगंतवाला यावि भवामो) हे आर्या ! हम लोग किस कारण से त्रिविध आदि को त्रिविध से करते हुए यावत् एकान्ततःबाल हैं ? (तएणं ते येरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी) तब उन स्थविर भगवन्तोंने उन अन्यतीर्थिकों से ऐसा कहा—(तुज्झे णं अज्जो अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं भुजह

७ आहार करीये छीये अने दत्त वस्तुने अडुथु करवानी अनुमति आपीये छीये आ रीते दत्त वस्तुने अडुथु करनारा दत्त वस्तुने आहार करनारा अने दत्त वस्तु लेवानी अनुमति आपनारा अमे दोडो त्रिविध प्राणातिपात आदिने त्रिविधरूपे परित्याग करनारा होवाथी सयत, विरत अने अेकान्तपंडित छीये हे आर्यो ! तमे दोडो ७ त्रिविध प्राणातिपात आदिने त्रिविधरूपे परित्याग करता नथी ते कारखे तमे ७ असयत, अविरत अने अेकान्तबाल छे । (तएणं ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवंते एव वयासी) स्थविर भगवतोनु आ प्रकारनु कथन सालणीने ते अन्यतीर्थिकीये तेभने आ प्रभाखे पुछथुं (केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे त्रिविहं जाव एगंतवाला यावि भवामो) हे आर्यो ! आप शा कारखे अेवुं कडो छे के अमे त्रिविध प्राणातिपात आदिनु त्रिविधे सेवन करनारा होवाथी असयत, अविरत अने अेकान्तबाल छीये ? (तएणं ते येरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी) त्यारे ते स्थविर भगवन्तोअे ते अन्यतीर्थिकीने आ प्रभाखे कहु-तुज्झे णं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं

पालाशापि मय्य, ततः खलु ते अन्ययुधिकास्तान् स्थिरान् भगवत् एवम्  
 भवादिषु - केन कारणेन ययम् अदत्तं गृह्णीमो यावत् एकान्तपालाशापि  
 भवाम ? ततः खलु ते स्थिरा भगवन्तस्तान् अन्ययुधिकान् एवम् अवा-  
 दिषुः यय खलु आर्याः ! दीयमानम् अदत्तं तदेव यावत् गृह्यते खलु, नो  
 खलु तत् पुष्पाकम्, ततः खलु ययम् अदत्तं गृह्णीथ, तदेव यावत् एकान्त  
 पालाशापि मय्य ॥ सू० १ ॥

अदिन्न साङ्गह तएण अज्जे तुम्हे अदिन्न गेण्हमाणो जाव एगंतपाला  
 यायि भवह) हे आर्यो ! तुम लोग बिना दी हुई वस्तु को लेते हो,  
 बिना दी हुई वस्तु का आहार करते हो और बिना दी हुई वस्तु  
 का वृमरों को ग्रहण करने की अनुमति देते हो। इसलिये तुम  
 लोग असंयत और अविरत बने रहकर त्रिविध प्राणालिपात आदि का  
 त्रिविधरूपसे परिस्थापन नहीं करने के कारण एकान्त बाल हो (तएण ते  
 अन्नउत्थिया से घेरे भगवते एव वयासी - (केण कारणेणं अम्हे अदिन्न  
 गेण्हामो, भाव एगंतपालायायि भवामो) इसके बाद उन अन्ययुधिकों  
 न उन स्थिर भगवतों से ऐसा पूछा-हे अर्यो ! हम लोग किम  
 कारण से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करनेवाले कहे गए हैं  
 यावत् एकान्तपाल कहे गये हैं। (तएण ते घेरे भगवते ते अन्नउत्थिए  
 एव वयासी) इस प्रकार उन अन्ययुधिकों के पूछने पर उन स्थिर  
 भगवतों ने उनसे उत्तर के रूप में इस प्रकार स कहा- (तुम्हे णं

सुज्जह, अदिन्नं साङ्गह, तएणं अज्जे ! तुम्हे अदिन्न गेण्हमाणो जाव  
 एगंतपाला यायि भवह) हे आर्यो ! तमे दीपिथी अन्न वस्तुने अन्नं करो अने  
 अन्न वस्तु सेवानी धीनने अनुमति आपि छ। तेथी हे आर्यो ! तमे दोडो अन्न वत  
 अने अनिरत ध्यामां आहु रूद्धिने त्रिविध प्राणालिपात आदिनु त्रिविधरूप सेवन करो  
 छ। तेने परिस्थापन नहीं करवाथी तमे ज्ञेहान्तपालो जे। (तएण ते अन्नउत्थिया  
 से घेरे भगवते एव वयासी केण कारणेणं अम्हे अदिन्न गेण्हामो, भाव  
 एगंतपाला यायि भवामो ?) त्पारे ते अन्ययुधिको ते स्थिर भगवतोने जेये  
 प्रथ पूछथे हे हे आर्यो ! तमे अन्ने अन्न वस्तुने अन्नं करवारा यावत् ज्ञेहान्तपाल  
 या कावहे कही जे। (तएण ते घेरे भगवते ते अन्नउत्थिए एव वयासी)  
 त्पारे ते स्थिर भगवतोने ते अन्ययुधिकोने आ प्रथावे अह - (तुम्हे णं मंते !  
 अम्हो ! दिङ्गमाणे अदिम्हे तं चेष जाव गाहावास्स, णो खलु तं तुम्हे,  
 तएण तुम्हे अदिन्न गेण्हह, तं चेष माय एगंतपाला यायि भवह)

टीका—'षष्ठोद्देशकान्ते क्रिया सम्बन्धि वक्तव्यतायाः प्ररूपितत्वेन क्रिया प्रस्तावात् सप्तमांदेशके प्रद्वेषक्रियाहेतुकोऽन्यतीर्थिकविवादवक्तव्यतामाह—'नेणं' इत्यादि । 'नेणं कालेणं, तेणं समएण रायगिहे नयरे वण्णओ' तस्मिन् काले, तस्मिन् समये राजगृहं नाम नगरमासीत्—वर्णकः, एतस्य वर्णनन्तु चम्पानगरीवद् बोध्यम्, 'गुणसिलए चेइए वण्णओ' तत्र राजगृहनगरसमीपे गुणशीलकं नाम चैत्यम् उद्यानम् आसीत्, वर्णकः— एतस्यापि वर्णनं चम्पायाः पूर्णभद्रचैत्यमिव पूर्ववद्बोध्यम्, 'जाव पुढविसिलावट्टओ' यावत् तत्र गुणशीलकनामोद्याने पृथिवी

अज्जो दिज्जमाणे अदिन्ने तंचेव जाव गाहावड्डस्स, णो खलु तं तुज्जे, तएणं तुज्जे अदिन्नं गेण्हह, तं चेव जाव एगंनवाला यावि भवह) हे आर्यो ! तुम्हारे मत में दीयमान अदत्त है इत्यादि सब कथन पहिले की तरह कहना चाहिये ! यावत् वह वस्तु गृहपति की है— तुम्हारी नहीं है । इसलिये तुम लोग अदत्त को ग्रहण करते हो—इसलिये तुम लोग यावत् पूर्व की तरह एकान्तबाल हो ।

टीकार्थ—छठे उद्देशे के अन्त में क्रियासंबन्धी वक्तव्यता की प्ररूपणा की गई है—सो इसी क्रिया के प्रस्ताव को लेकर सूत्रकार ने इस सातवें उद्देशक में प्रद्वेष क्रिया निमित्तक अन्यतीर्थिक वक्तव्यता का कथन किया है—'तेण कालेणं तेणं समएण रायगिहे नयरे—वण्णओ' उस काल और उस समय में राजगृह नाम का नगर था । इसका वर्णन चम्पा नगरी के वर्णन की तरह जानना चाहिये । 'गुणसिलए चेइए—वण्णओ' उस राजगृह नगर के समीप गुणशिलक नाम का चैत्य — उद्यान था । इसका वर्णन भी चम्पानगरी के पूर्णभद्रचैत्य की तरह जानना चाहिये । 'जाव पुढविसिलावट्टओ' यावत् उस गुण-

'हे आर्यो ! तमारी मान्यता अनुसार दीयमानने अदत्त छडेवाभा आवे छे' त्यांथी श्रु करीने ति वस्तु गृहपतिनी छे—तमारी नहीं ते कारणे तमे अदत्तने अडुणु करनारा छे। तेथी तमे असयत, अविरत अने अेकान्तबाल छे,' त्यां सुधीनु पूर्वोक्त कथन अडुणु करवु

टीकार्थ—छठा उद्देशकने अन्ते क्रियाविषयक वक्तव्यतानी अइपण्ण करवामा आवी छे आ रीते क्रियाने अधिकार यालु होवाथी सूत्रकारे आ सातमा उद्देशकमा प्रद्वेषक्रिया निमित्तक अन्यतीर्थिकानी (अन्य मतवादीयोनी) वक्तव्यतावु कथन कथुं छे— तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे—वण्णओ' ते काले अने ते समये राजगृह नामे नगर छुं तेनु वणुंन चम्पानगरीना वणुंन प्रभाण्णे समणुणुं 'गुणसिलए चेइए—वण्णओ' ते राजगृह नगरीनी पासे गुणशिलक नामनु चैत्य (उद्यान) छुं तेनु वणुंन चम्पानगरीना पूर्णभद्र चैत्य जेवुं समणुणुं 'जाव पुढविसिलावट्टओ'

शिलापट्टक पाश्चाणचिन्नेपनिर्मितपरिष्कृतपीठ आसीत्, 'तस्मिन् ग गुणसिलस्स वेइयस्स अदूरमामत्ते वड्ढे अन्नउत्थिया परिवसंति' तस्य खलु गुणशीलकस्य चोत्थस्य उद्यानस्य अदूरमामन्ते नात्तिदूरे नात्तिसमीपे उचितस्थाने वड्ढः अनेके अन्ययूथिका अन्यतीर्थिका परिवसन्ति, 'तेण कालेण, तेण समएणं मगधं महावीरे आदिगरे जाव समोसडे, जाव परिमा पडिगया' तस्मिन् काले, तस्मिन् समये खलु मगवान् महावीरः स्वामी आदिकरः स्वशासनापेक्षया धर्मस्य आदिकरः तीर्थङ्गो यावत्-समवसतः-समागतः, यावत् पर्यत्-निर्गच्छति पर्यत् प्रतिगता यावत् श्रद्धात् मगवत्समागमनअवधानानन्तरं मगवन्त परिशुं धम श्रोतुं च पर्यत् निर्गता मगवद्वेशनानाक्या देशनाध्वणानन्तरं पपत्-प्रतिगता 'तेण कालेणं, तेण समएण समणस्स मगवओ महावारस्स वड्ढे अत्तेवासी वेरा

शिलक उद्यान में पापाण विशेष का बना हुआ, पृथिवीशिलापट्टक था। 'तस्मिन् ग गुणसिलस्स वेइयस्स अदूरमामत्ते वड्ढे अन्नउत्थिया परिवसंति' उक्त गुणशिलक उद्यान के आसपास छोड़ी सी वृक्ष पर अनेक अन्ययूथिक परतीर्थिक रहते थे। तेण कालेण तेण समएण मगध महावीरे आदिगरे जाव समोसडे' उक्त काल और उस समय अमण मगवान् महावीर जो कि स्वशासन की अपेक्षा धर्म के आदि करनेवाले थे तीर्थ कर थे यावत् पधारे-'जाव परिमा पडिगया' यावत् मगवान् का आगमन सुनकर परिषद् धर्मकथा सुनने के लिये अपने २ स्थान से निकली इमलिय कि मगवान् को घन्दना करने निमित्त और उनसे धर्मकथा अवण करने निमित्त। मगवान् की देशना सुनने के बाद वह परिषद् अपने २ स्थान पर वापिस गई यह सब पाठ यहाँ 'यावत्' शब्द से गृहीत हुआ है। 'तेण कालेण तेण समएण समणस्स मग-

यावत् ते अणुशिलक उद्यानमां पापाण विशेषतु अनेहु पृथीशिला-पट्टकं कटं 'तस्मिन् ग गुणसिलस्स वेइयस्स अदूरमामत्ते वड्ढे अन्नउत्थिया परिवसंति' ते अणुशिलक उद्यानमां आसपास, तयोथी वेडे च इह अनेके अन्यतीर्थिका (अन्य भववासीन्धि) वसता कता 'तेण कालेणं तेण समएणं मगधं महावीरे आदिगरे जाव समोसडे' ते अणु ते समये अमणु अमवान् महावीर डे ने स्वशासनमां अपेक्षासे धर्ममां श्रद्धात् अन्ययूथी-तीर्थिकर कता, तेणो ते अणुशिलक उद्यानमां पधारो 'जाव परिमा पडिगया' अणुवधाने च इणुा नभरकार करधाने तथा धर्मकथा संलग्गधाने धर्मकथा नीकणी अने अणुवधानी देशना संलग्गणाने परिषद् पीतपीताने कथाने पाणी इति (अणु अणु) श्रद्धात् अणु 'जाव' (यावत्) पधारी अणु अणु अणु ७) तेण कालेण

भगवंतो' तस्मिन् काले तस्मिन् समये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य बहवोऽन्तेवासिनः शिष्याः स्थविरा भगवन्तः 'जाइ संपन्ना, कुलसंपन्ना, जहा वित्तियसए जाव जीवियासामरणभयविप्पमुक्का' जातिसम्पन्ना सुविशुद्धमातृवंशयुक्ताः कुलसम्पन्नाः सुविशुद्धपितृवंशयुक्ताः यथा द्वितीयशतके यावत् पञ्चमोद्देशके प्रतिपादितास्तथैव जीविताशामरणभयविप्रमुक्ताः जीवनवाञ्छामरणभयाभ्यां विप्रमुक्ताः—रहिताः 'समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते उइह जाणू अहोसिरा ज्ञाणकोट्टोवगया' श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अदूरसामन्ते नातिदूरे नातिममीपे उचितस्थाने ऊर्ध्वजानवः ऊर्ध्वानि जानूनि येषां ते ऊर्ध्वजानवः—उत्कुट्टकासनवन्तः, अधः शिरसः—अधोमुखः नोर्ध्वं न तिर्यक् क्षिप्तदृष्टयः, ध्यानकोष्ठोपगताः—ध्यानं कोष्ठ इव ध्यानकोष्ठः तमुपगताः यथा कोष्ठगतं धान्यं विकीर्णं न भवति तथैव ध्यानगता इन्द्रियान्तःकरणवृत्तयोवहिनं यान्ति इति भावः, नियन्त्रितचित्तवृत्तिमन्त इत्यर्थः 'संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा जाव विहरंति' संयमेन

वओ महावीरस्स बहवे अंतेवासी थेरा भगवतो' उस काल और उस समय में श्रमण भगवान के अनेक शिष्य स्थविर भगवन्त 'जाइसंपन्ना, कुलसंपन्ना जहा वित्तियसए जाव जीवियासामरणभयविप्पमुक्का' जो कि जातिसंपन्न थे, कुलसंपन्न थे, जैसा कि द्वितीय शतक में यावत्—पंचम उद्देशक में कहा गया है उसी तरह से जीवित की आशा और मरण के भय से रहित थे, और जो श्रमण भगवान महावीर के 'अदूरसामंते उइह जाणू अहोसिरा ज्ञाणकोट्टोवगया' न अतिसमीप और न अतिदूर—किन्तु यथोचित स्थान पर उत्कुट्ट आसन से नीचामुख किये बैठे थे तथा ध्यानरूप कोठे में जो प्राप्त हुए थे—और 'संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा जाव विहरंति'

तेणं समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे अंतेवासी थेरा भगवंतो' ते ङणे अने ते समये श्रमण भगवान महावीरना अनेक शिष्य स्थविर भगवानो 'जाइसपन्ना, कुल संपन्ना जहा वित्तियसए जाव जीवियासामरणभयविप्पमुक्का' अति संपन्न, शुभसंपन्न आदि शुभवाणा इत्या पीला शतकना पांचमा उद्देशकमा तेमना ने शुभो दर्शाया छे ते अही अहंशु करवा 'तयोऽवननी आशा अने भरणना लयथी रहित इता,' अही' सुधीनु समस्त कथन अहंशु करवुं 'अदूरसामंते उइह जाणू अहो मिरा ज्ञाणकोट्टोवगया' अवे ते स्थविर भगवतो महावीर प्रभुथो अति दूर पथु नही, अने अति नजक पथु नही' अवे उचित स्थाने, उत्कुट्ट आसने (अने धुंठोला जिया शमीने) नीचु भस्तक करीने ध्यानइप ङाठाभाण (अज्ञाप्रतापूर्वकना चित्तनमा) 'संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा जाव विहरंति' प्रवृत्त थयेवा



तपसा आत्मान भावयन्तः यावत् विहरन्ति तत्र-सयमेन सप्तदशविधेन, तपसा  
 द्वादशविधेन आत्मान भावयन्तः यावत्पदात्-प्रकृत्युपशान्ताः प्रकृतिपतनुक्रोष  
 मानपायासोमाः मृदुमार्दवसम्पन्ना माष्ठीनाः मद्रकाः पिनीता सन्तो विहरन्ति  
 विष्टन्ति 'तृणं' से अन्नउत्पिया जेणेव वेरा मगधतो सेणेव उनागच्छन्ति'

सयम और तप से अपनी आत्मा का भावित किये हुए थे। जाति  
 सपथ से यहा यह प्रकट किया गया कि इनका मातृवश सुविशुद्ध  
 था-उससे ये युक्त थे। कुलसम्पन्न से यह सूचित किया गया है  
 कि इनका पितृवंश सुविशुद्ध था उससे ये युक्त थे। अषाशिर से  
 यह समझाया गया है कि इनकी दृष्टि न ऊपर की ओर थी और  
 तिरछी थी। ध्यान कोटोपगत से यह प्रकट किया गया है कि जिस  
 तरह से कोठे में रक्खा हुआ धान्य इधर उधर नहीं फैल पाता  
 है-इसी तरह से ध्यानगत इन्द्रियों की और मनकी वृत्तियां बाहर  
 नहीं जाती हैं। अर्थात् ये नियंत्रित चित्तवृत्तिवाले थे। मयम १७  
 प्रकारका और तप १२ प्रकार का होता है उससे अपनी आत्मा  
 को भावित किये हुए थे। यहाँ 'यावत्' शब्द-प्रकृति से १७ उपशान्त  
 थे, इनकी क्रोष, माया और लोभ रूप कषाय अत्यन्त स्वामाविक  
 मन्व थीं। मृदु (कोमल) और मार्दव (अत्यन्त कोमल) भाव से ये  
 सपन्न थे, ये आलीन थे मद्रक थे और पिनीत थे" इन अन्य  
 विशेषणोंका ग्रहण किया गया है। 'तृणं त अन्नउत्पिया जेणेव

हता, तेजो अथम अने तपशी पोताना आत्माने भावित करी रहा होता तेमने  
 भावयन्तः सुविशुद्ध होते, वेधी तेमन अतिसयम होता है तेमने पितृवश सुविशुद्ध  
 होते, तेधी तेमने कुलसंपन्न होता है अथ (नीचा) मस्तकधी जे सुमित इत्यर्थ  
 आभ्यु उ है तेमनी नखर उभरणी लागु पक्ष न होती अने तिरछी पक्ष इस्ती न होती  
 ध्यान कोटोपगत पर द्वारा जे सुचित भाव है है लेनी रीति/महीमां राजेसु अनाम  
 आश्रितेभ हेतव अथ नया जे अ प्रभाजे ध्यानभा हीन धयेता ते स्वधिरानु भ  
 धनिकेनी प्रवृत्तिजोतां ल भु न हत जेदेवे है तेजो नियंत्रित चित्तवृत्तिवाला होता  
 १७ प्रकारना सयम अने १२ प्रकारना तपशी तेजो पोताना आत्माने भावित करी  
 रहा होता अथी 'यावत्' परी नीचिना विशेषणेने मद्रक अथा जेधजे-तेजो  
 उपशान्त प्रवृत्तिवाला होता क्रोष भल माया अन भेदरूप कषायेने तेमने अतिक्रम  
 पातला पक्षी नाभ्य होता तेजो मृदु (कोमल) अने मार्दव (अत्यंत कोमल) भावशी  
 सुप्त होता तेजो आलीन होता, मद्रक होता अने पिनीत होता -

ततः खलु ते अन्ययूथिकाः अन्यतीर्थिकाः यत्रैव यस्मिन्नेव प्रदेशे स्थविरा भगवन्त  
स्तिष्ठन्ति तत्रैव तास्मिन्नेव प्रदेशे उपागच्छन्ति समीपे आगच्छन्ति उवागच्छिता  
ते श्रेरे भगवंते एवं वयासी' उपागत्य तान् भगवतः स्थविरान् एवं वक्ष्यमाण-  
प्रकारेण अवादिषुः-पृष्टवन्तः किंपृष्टवन्त इत्याह-‘तुम्हेणं अज्जो ! तिविहंति-  
विहेणं असंजय-अविरय-अप्पडिहय-जहा सत्तमसए वितिए उद्देसए जाव एगंत-  
बाला यावि भवह ?’ हे आर्याः ! स्थविराः ! यूयं खलु त्रिविधं कृतकारि-  
तानुमोदितलक्षणं प्राणातिपातादिकं त्रिविधेन मनोवचःकायलक्षणेन करणेन कुर्वन्तः  
असंयताविरताप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्मणिः ‘असंजय’ असंयताः-तत्र-संयता  
वर्तमानकालिकसर्वसावधानुष्ठाननिवृत्ताः इति न संयताः असंयताः ‘अविरय’

श्रेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति’ अब वे अन्ययूथिकजन जहां पर  
वे स्थविर भगवन्त बैठे थे वहीं पर आये. ‘उवागच्छिता ते श्रेरे  
भगवते एवं वयासी’ वहां आकर उन भगवान् स्थविरोंसे उन्होंने  
इस प्रकार से पूछा ‘तुम्हे णं अज्जो । तिविहं तिविहेणं असंजय अ-  
विरय-अप्पडिहय-जहा सत्तमसए वितिए उद्देसए जाव एगंतबाला  
यावि भवह’ हे आर्यो ! आप लोग न संयत हैं, न विरत हैं, न  
प्रतिहत प्रत्याख्यातपापकर्मवाले हैं. और एकान्तरूप से बाल भी  
हैं । क्योंकि त्रिविध कृत, कारित और अनुमोदित प्राणातिपात आदि  
को त्रिविध से-मन वचन एवं काय से आप लोग करते रहते हैं.  
वर्तमानकालिक सर्वसावधानुष्ठान से जो दूर रहते हैं वे संयत हैं  
ऐसे आप लोग नहीं हैं. अतः असंयत हैं । अतीत कालिक पाप से

‘तएणं ते अन्नउत्थिया जेणेव श्रेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छन्ति’  
इवे ओक वपत ओवु अन्थु के ते परित्तीर्थिका न्या ते स्थविर भगवतो विराजमान  
इता त्या आन्या ‘उवागच्छिता ते श्रेरे भगवंते एवं वयासी’ त्या आनीने  
तेमणे ते स्थविर भगवतोने आ प्रभाणे क्खुं-‘तुम्हे ण अज्जो ! तिविहं तिविहेणं  
असंजय-अविरय-अप्पडिहय-जहा सत्तमसए वितिए उद्देसए जाव एगंतबाला  
यावि भवह’ हे आर्यो ! तमे लोका संयत पणु नथी, विरत पणु नथी अने प्रतिहत  
प्रत्याख्यात पापकर्मवाणा पणु नथी। तमे तो ओका-तणाल (संपूर्ण अज्ञान) छे  
कारणु के त्रिविधे (कृत, कारित अने अनुमोदित इय तणु प्रकारना) प्राणातिपात आदिनु  
त्रिविधे (मन, वचन अने कायाथी) तमे सेवन करे छे। वर्तमानकालिक सर्वसावधा-  
नुष्ठानोधी-(पापकर्मोधी-दुष्कृतोधी) हर रडेनारने न संयत कडे छे. पणु ओवा तमे नथी.  
तेथी तमे असंयत छे। भूतकालिन, पापकर्मोधी अने अज्ञाना (निहा) पूर्वक, हर रडे छे

अविरताः तत्र-विरताः-अतीतकालिकपापजुगुप्सापूर्वक भविष्यति च सर्व  
 पूर्वक निवृत्ताः इति न विरताः-अविरताः, अतएव 'अप्यद्विद्वयपक्षस्ताम  
 पापकर्मो' अप्रतिहतता प्रत्याख्यातपापकर्माणाः तत्र-प्रतिहत पर्वमानका  
 स्थित्यनुमागहासेन नाशितम्, प्रत्याख्यातम्-पूर्वकृतातिचारनिन्द्या भवि  
 ष्यत्यकरणेन निराकृत पापकर्मानुष्ठान ये स्वयाभूताः प्रतिहतप्रत्याख्यातपाप  
 कर्माणाः इति न प्रतिहतं न पत्पाख्यातपापकर्मं येषां ते अप्रतिहतप्रत्याख्यात  
 पापकर्माणाः एतेषां इतरेतरयोगद्वन्द्वम असपताविरताप्रतिहताप्रत्याख्यातपाप  
 कर्माणाः यूयम् यथा सप्तमशतके द्वितीयोद्देशके उक्तास्तथैव अत्रापि यावत्-  
 सक्रिया कर्मवचसद्विताः असद्वता सवररदिताः, एकान्तदृष्टाः सर्वथा प्राणादि

जो जुगुप्सा (निन्दा) पूर्वक दूर रहते हैं और आगे होनेवाले पापका  
 जो संवर कर देते हैं वे विरत हैं-ऐसे भाव लोग नहीं हैं, अतः  
 अविरत हैं, इसीलिये-अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप कर्मवाले आप  
 लोग हैं-वर्तमानकालिक पापकर्मका अनुमाग हासद्वारा नाश करना  
 एव पूर्वकृत अतिचारोंकी निन्दा द्वारा तथा भविष्यत् में अब मैं  
 ऐसा नहीं करूंगा इस तरह के अकरणद्वारा पापकर्मका जो निरा  
 करण करना होता है वह प्रतिहतप्रत्याख्यातपापकर्म है ऐसा  
 पापकर्म आप लोगोंका नहीं है अतः आपलोग अप्रतिहत अप्रत्या-  
 ख्यात पापकर्मवाले हैं । सप्तमशतक में द्वितीय उद्देशकमें उस प्रकार  
 का कथन आया है उसी प्रकार से यह सब कथन यहाँ पर भी  
 लगा लेना चाहिये यावत् आप लोग कर्मवच सहित हैं, सवररदित

जने कविष्वभा धनाश पापने के सवर करी नाये छ तेने व विरत छहे छे पक्ष  
 तमे जेना विरत पक्ष नही, तमे ते अविरत छे तेही तमे अप्रतिहत अप्रत्याख्यात  
 पापकर्मवाला छे वत मानकाक पापकर्मना अनुमाग हास द्वारा नाश करने जने  
 पूर्वकृत अतिचारोंकी निन्दा करवी जने कविष्वभा कु जेवु नही छहे जे प्रकार  
 अत्रापि द्वारा पापकर्मनु के निराकरण करवानु बाय छे तेने प्रतिहत प्रत्याख्यात पापकर्म  
 छहे छे तमे जे प्रभाषे प्रतिहत प्रत्याख्यात पापकर्म वाण्य पक्ष नही तमे ते अप्रतिहत  
 अप्रत्याख्यात पापकर्म वाण्य छे सातमां कतजना जीव उदेशकमां ज्य प्रकारनु के कर्म  
 करवाभां जानु छे ते सभस्त कल जही पक्ष प्रकृत करवु बावत 'तमे कथने  
 सुकत छे, सवर रदित छे, सब या प्रकृतिपात रदित छे जने जेकालनाक छे  
 (जेकालनाक जेटले अब प्रकारना मानवी रदित) \*

प्र. टीका श.८ उ.७ सू.१ पद्वेपक्रियार्निमित्तकान्यतीर्थिकमतनिरूपणम् ७७१

पातसहिताः, एकान्तवालाः सर्वप्रकारेण ज्ञानरहिताश्चापि भवथ ? 'तएणं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एव वयासी' ततः खलु ते स्थविरा भगवन्तस्तान् अन्ययूथिकान् अन्यतीर्थिकान् एव वक्ष्यमाणप्रकारेण अत्रादिषु - 'केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय अविश्य जाव एगंतवाला यावि भवामो ?' हे आर्याः ! केन कारणेण वयं त्रिविधं कृतकारितात्तुमोदितलक्षणं प्राणातिपातादिकं त्रिविधेन मनोवचनकायलक्षणेन करणेन कुर्वन्तः असयताः अविस्ताः यावत् अपतिहताप्रत्याख्यातपापस्मरणः सक्रियाः, अमृताः, एकान्तदण्डाः, एकान्तवालाश्चापि भवामः ? 'तएण ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एव वयासी' ततः खलु ते अन्य यूथिकाः अन्यतीर्थिकास्तान् स्थविरान् भगवतः एव वक्ष्यमाणप्रकारेण अत्रादिषु - 'तुम्हेण अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह, अदिन्नं मुंजह, अदिन्नं साड्ज्जह' हे आर्याः ! स्थविराः ! गुर्यं

हैं, सर्वथा प्राणातिपात सहित हैं और एकान्तवाल-सर्व प्रकारसे ज्ञानरहित हैं 'तएणं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एव वयासी' उन अन्यतीर्थिक जनोंकी इस प्रकारसे बात सुनकर स्थविर भगवन्तोंने उनसे ऐसा पूछा - 'केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय अविश्य जाव एगंतवाला यावि भवामो' हे आर्यो ! आपलोग जो हम पर पूर्वोक्त रूपसे आक्षेप लगा रहे हैं - सो किस कारणसे लगा रहे हैं - 'तएणं ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एव वयासी' तब उन अन्यतीर्थिकजनोंने उन स्थविर भगवन्तोंसे ऐसा कहा - 'तुम्हेणं अज्जो ! अदिन्नं गेण्हह अदिन्नं मुंजह, अदिन्नं साड्ज्जह' हे आर्यो ! आप लोग बिना दी हुई वस्तु लेते हैं, बिना दिया हुआ

'तएणं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एव वयासी' परतीर्थिकानी आ प्रकारनी बात सांख्यीने स्थविर लगव तोअे तेभने आ प्रभाअे पूछयुं -

'केणं कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं असंजय अविश्य जाव एगंतवाला यावि भवामो ?' हे अहन्त ! तमे अमारा उपर अेवा आरोप (ने आरोप भूअेवाआ अ व्थेा छे ते वात उपर अेवा मुअेअ समअेवी) शा भाटे भूअी रअा छे ? अमने अअंयत, अविस्त अदि मानवानुं शु अरअु छे ?

'तएणं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एणं वयासी' त्थारे ते परतीर्थिकेअे तेभने आ प्रभाअे अवाप आथेा - 'तुम्हे णं अज्जो ! अदिन्न गेण्हह अदिन्नं मुंजह, अदिन्नं साड्ज्जह' हे आर्यो ! तमे अहत्त (आपवामां न आवी डोअ अेवी) वस्तु लेा छे, अहत्त आअारनेा उपयोग अरेा छे अने अहत्त वस्तुने

स्वल्प भद्रं च गृह्णीय, स्वीकुरुत, अदत्तं सुहृद्गणेषु मृत्यु, अदत्तं स्वदृश्ये, 'तएणं ते तुभ्ये अदिन्नं गेण्डमाणा, अदिन्नं सुभमाणा अदिन्नं साइज्जमाणा' ततस्तस्मात्कारणात् स्वल्पं ते यूपम् अदत्तं गृह्णन्त, अदत्तं सुञ्जानाः, अदत्तं स्वदमानाः अनुमोदयन्त 'तिविहं तिविहेण असजय अघिरय जाय एगंतपामा याचि मयइ' त्रिविधं पूर्वोक्तं भिन्नकारणं कृतादियं प्राणातिपातादिकं त्रिविधेन मनःप्रभृतिना कारणेन कृष्यन्त असयताः, अघिरता, यावत् अपतिहता प्रत्या' ख्यातपापकर्मणः, सक्रिया कर्मषु प्रसहिताः, असतृता, एकान्त दण्डा सर्ष प्रकारेण प्राणातिपातसहिताः, एकान्तपामाः सर्वथा ज्ञानरहिताभापि मयथ 'तएणं ते घेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एषं वयासी' ततः स्वल्पं ते स्यधिराः मगधन्तस्तान् अन्यं पृथिकान् अन्यतीर्थिकान् एव प्रथममात्मप्रकारेण

आहार अपने उपयोगमें लाते हैं और बिना दिये हुए पदार्थ को ग्रहण करने की अनुमोदना करते हैं। तएणं ते तुभ्ये अदिन्नं गेण्डमाणा, अदिन्नं सुभमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असजय अघिरय जाय एगंतपामा याचि मयइ' इस कारण बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करते हुए, बिना दिया आहार लेने हुए और-बिना दिये हुए पदार्थ को ग्रहण करने की अनुमोदन करते हुए आपलोग त्रिविध प्राणातिपात आदि को त्रिविध से करते हैं-इस कारण आप लोग असंयत अघिरत यावत् अपतिहता, अप्रत्याख्यातपापकर्मवाले हैं-सक्रिय-कर्मषु सहित हैं, संवररहित हैं, और सर्षप्रकार से प्राणातिपातसहित हैं तथा सर्वथा ज्ञानसे रहित हैं। 'तएणं ते घेरा भगवतो, ते अन्नउत्थिए एषं वयासी' इस प्रकार की उन अन्य-तीर्थिकजनों की बात सुनकर उन स्थितिर भगवन्तोनि उनसे इस-

अच्छ करानी अनुमोदना करे। छे। 'तएणं ते तुभ्ये अदिन्नं गेण्डमाणा, अदिन्नं सुभमाणा, अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असजय, अघिरय जाय एगंतपामा याचि मयइ' आ रीते अदत्तं वस्तुने अदत्तं कर्त्ता अन्नं आहारने उपवेशे कर्त्ता अने अदत्तं वस्तुने अदत्तं कर्त्तानी अनुमोदना करवा जेवा आप होथि त्रिविध प्राणातिपात आदिनु त्रिविधे (अन, वयन अने कायाकी) सेवन करे। छे। ते कारखे आप बोधि अक्षयत, अघिरत, अपतिहता अप्रत्याख्यात पापकर्मवाया, सक्रिय कर्मषु सहित संवर रहित सब प्रकारना प्राणातिपातधी मुक्त अने ता की कर्मया रहित छे।

'तएणं ते घेरा भगवतो, ते अन्नउत्थिए एषं वयासी' ते परितीक्षिकान् आ भगवन्तो यत संकल्पाने ते स्थितिर अत्रवतस्ते तेभने आ प्रभक्षे पृथुत्त

अत्रादिषुः—'केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गेण्हामो अदिन्नं भुजामो, अदिन्नं साइज्जामो ?' हे आर्याः ! अन्यतीर्थिकाः ! केन कारणेन दयम् अदत्तं गृह्णीमः, अदत्तं भुञ्जामहे, अदत्तं स्वदामहे—अनुमन्यामहे ? 'जएणं अम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवामो ?' येन कारणेन खलु अदत्तं गृह्णन्तः, यावत् अदत्तं भुञ्जानाः, अदत्तं स्वदमानाः त्रिविधं त्रिविधेन मनःप्रभृतिना कारणेन कुर्वन्तः असंयताः यावत्—अविरता, अप्रतिहताप्रत्याख्यातपापकर्माणः सक्रियाः, असंयताः एकान्तदण्डाः, एकान्तवालाश्चापि भवाम ? 'तएणं अन्नउत्थिया ते थेरे

प्रकार पूछा—'केण कारणेण अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गेण्हामो, अदिन्नं भुजामो, अदिन्नं साइज्जामो' हे आर्यो ! आप लोग हमें यह तो कहो कि हम लोग किस तरह से बिना दी हुई वस्तु को लेते हैं, किस तरह बिना दिया हुआ आहार लेते हैं और कैसे हम लोग बिना दी हुई वस्तु को लेनेकी दूसरों को अनुमोदना करते हैं ? 'जएणं अम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवामो' कि जिससे हमलोग अदत्त को ग्रहण करने वाले यावत् अदत्त वस्तु को लेने के लिये दूसरों को अनुमोदना करने वाले हैं और त्रिविध प्राणातिपात आदि को त्रिविध से करनेवाले बनकर अत्यंत, अविरत और अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पापकर्मा बन सके सकर्मा बन सके—संवर रहित प्रमाणित हो सके सर्वथा प्राणातिपात सहित सिद्ध हो सके तथा एकान्ततःवाल माने जा सके ? 'तएणं अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी' इस

'केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे अदिन्नं गेण्हामो, अदिन्नं भुजामो, अदिन्नं साइज्जामो' हे आर्यो ! आप अपने को तो कहे के देवी रीते अम्हे अदत्त वस्तु अदत्त अदत्त, देवी रीते अम्हे अदत्त आहारने उपयोग करीये छीये, देवी रीते अम्हे अदत्त वस्तु लेवानी अन्यने अनुमोदना करीये छीये ? 'जएणं अम्हे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव अदिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवामो ?' आप लोके अपने शा कारणे अदत्त वस्तु अदत्त अदत्त, अदत्त आहार लेनारा, अन्यने अदत्त वस्तु अदत्त अदत्त करवानी अनुमति देनारा कहे छे ? अम्हे तो सिद्ध करी जातावे के अम्हे देवी रीते त्रिविध प्राणातिपात आदिनुं सेवन करीने असंयत, अविरत, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पापकर्माणा, सकर्मा, संवर रहित, सर्वथा प्राणातिपात सहित अने एकान्ततःवाल कहेवाने योग्य छीये !

मगवते एवं वयासी' ततःसख्य अन्यपृथिका अन्यतीर्थिकास्तान् स्थविरान् मगवतः एव वस्यमाद्यभकारेण अवादिषुः—'तुम्हायं भञ्जो ! दिञ्जमाणे अदिन्ने, पडिग्गहेज्जमाणे अपडिग्गहिण, निसिरिज्जमाणे अणिसट्ठे' हे आर्या ! स्थविराः ! युष्माक मते सख्य दायकापेक्षया दीयमान वस्तु अदत्त भवति, प्रतिगृह्यमाण वस्तु ग्राहकापेक्षया अमतिगृहीतं भवति निवृत्त्यमाण क्षिप्यमाण पात्रापेक्षया वस्तु अनिसृष्ट भवति, तथा च दीयमानस्य वस्तुनो वर्तमानकालवर्तित्वात्, दत्तस्य प्रातीतकालवर्तित्वात् वर्तमानातीतयोश्चास्यन्तमिच्छत्वात् दीयमान दत्त न भवति,

मकार से स्थविर मगवन्तो का कथन सुनकर उन अन्यतीर्थिकजनों ने अपनी बातको साबित करने के लिये उनसे ऐसा कहा— 'तुम्हारा भञ्जो ! दिञ्जमाणे अदिन्ने, पडिग्गहेज्जमाणे अपडिग्गहिण, निसिरिज्जमाणे अणिसट्ठे' हे आर्या ! आपके मतमें दायक की अपेक्षा दीयमान वस्तु अदत्त होती है, ग्राहक की अपेक्षा प्रतिगृह्यमाणवस्तु अमतिगृहीत होती है पात्र की अपेक्षा क्षिप्यमाण वस्तु अनिसृष्ट होती है । अर्थात् दीयमान वस्तु वर्तमानकालवर्ती होती है और दत्त वस्तु अतीत कालवर्ती होती है । वर्तमानकाल और अतीतकाल में जब अन्तर है तो इन से युक्त हुई वस्तु में इन दोनों कालों की अपेक्षा अन्तर क्यों नहीं होगी अवश्य होगी । दीयमान वस्तु दत्त

'उरण ते अन्नठत्थिया ते येरे मगवते एवं वयासी' त स्थविर अजव तोनी आ प्रहारनी वत्त सख्यणीने त परतीर्थिभाज्जे पीतानी मान्थत्तने सखित्थयाने मग्गे तेमने अत्र प्रभाज्जे षड्—

'तुम्हायं भञ्जो ! दिञ्जमाणे अदिन्ने, पडिग्गहेज्जमाणे अपडिग्गहिण, निसिरिज्जमाणे अणिसट्ठे' हे आर्या ! आपणा अत्र सुवज्ज तो दाता वरे देवार्थं आणी षड्डी देव ज्जेवी वस्तु अदत्त अय्याय ते प्रादंके पठे ने वस्तु अदत्त अस्वार्थं आणी षड्डी देव ते तेने आप अमतिगृहीत आने थे, पात्रणी अहर क्षिप्यमाण (नाशवार्थं आवती वस्तुने तमि अनिसृष्ट (अक्षिप्त) ज्जेणुं छल ज्जेट्ठे के इत्थिमान (देवार्थं आवती) वस्तु अण्णा अपेक्षज्जे वर्तमानकालवती देव ते अने इत्त (अपचा मुठ्ठी) वस्तु अतृत्तावर्ति देव ते ज्जे वर्तमानकाल अने अतृत्तावार्थं वेद मानवार्थं आवे, तो तेमनाधी सुकत्त वयेवी वस्तुअं ते अन्ने अण्णाणी अपेक्षज्जे वेद देव न देव ज्जेट्ठे के तेमनी वय्थि वेद अस्सय मानने अ पठे ते इत्थिमान वस्तुने इत्त (अपचा मुठ्ठी) षड्डी वड्ढम नदि, ज्जेट्ठे के ने वस्तु अपचा मुठ्ठी नथी-अत्त ते-तेने अ तमि इत्त

दत्तमेव 'दत्त' मिति व्यपदिश्यते, एवं गृह्यमाणादावपि अत्रसेयम्, ततश्च 'तुब्धे णं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्तं, एत्थ णं अंतरा केइ अवहरेज्जा' हे आर्याः ! स्थविरा ! युष्माकं खलु मते दीयमानं प्रतिग्रहकम् असंप्राप्तं भवति, अत्र खलु अन्तरा मध्ये अवसरे यदि कश्चित्पुरुष दीयमानं तत्प्रतिग्रहकम् अपहरेत्, तदा 'गाहावइस्स णं तं भंते ! नो खलु तं तुब्धं,' हे भदन्त ! हे स्थविराः । गृहपतेः खलु तत्दीयमानं प्रतिग्रहकम् अपहृतं भवति, नो खलु नैव किल, तत् दीयमानं प्रतिग्रहकम् युष्माकम् अपहृतमिति व्यपदिश्यते, अयं भावः-यदि दीयमानं पात्रेऽ

नही होती है अर्थात् दी हुई नहीं है जो वस्तु दी हुई होती है वही दत्त होती है । इसी तरह से प्रतिगृह्यमाण आदि वस्तु के विषय में भी जानना चाहिये । इसलिये 'तुब्धेणं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं, असंपत्तं, एत्थ णं अंतरा केइ अवहरेज्जा गाहावइस्स णं तं भंते ! नो खलु तं तुब्धं' हे आर्यों ! आप लोगों के लिये जो वस्तु दी जा रही है वह दी हुई, नहीं दी जा रही है-अदत्त ही दी जा रही है अब दी जा रही वह वस्तु जब तक पात्र में आ करके नहीं पड़ जाती है-इतने के बीच में यदि उस दीयमान वस्तु को कोई बीच में ही अपहरण कर लेता है-तो वह वस्तु उसने आपकी हरण की है ऐसा नहीं माना जावेगा किन्तु वह वस्तु उसने दाता की ही हरण की है-ऐसा ही माना जावेगा-क्यों कि वह वस्तु अभी तक आप के लिये पूर्व में अदत्त है, दत्त होती तो आपकी मानी जाती-इस कथन से अन्ययूथिकों ने ऐसा ही साबित किया है कि

गणो छे अे न प्रभाणो प्रतिगृह्यमाण आदि वस्तुना विषयभां पणु समनतुं. आ इयनते लानार्थं अेदो न छे इ तमे दीयमानने अहत गणो छे माटे तमे अहतादान देनारा छे ।

तेथी 'तुब्धेणं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं, असंपत्तं, एत्थणं अंतरा-केइ अवहरेज्जा, गाहावइस्स णं तं भंते ! नो खलु तं तुब्धं' हे आर्यों ! आप लोडोने ने वस्तु आपवागा आपी रही होय छे, ते अपार्थ सुडेवी अपाती नथी पणु अहत न अपाती होय छे आपने आपवाभा आवती वस्तु नया सुधी आपना पात्रमा पठती नथी त्या सुधी आपनी गण्ठाती नथी तेथी आपने अपाती वस्तुनु वञ्चेथी न डोई अपहरणु करे तो आप लोडो तो ते वस्तुने, आपनी मानता नथी पणु दातानी न वस्तुनु अपहरणु थयुं छे अेम मानो छे ते वस्तु नयां सुधी आपना पात्रमा न पडे त्या सुधी आपने माटे तो अहत न छे. आ इयन दाश //परतीर्थिके



पतितं सद्य मरति तदा तस्य दत्तस्य सत् पात्रपतनलक्षण ग्रहण कृत मरति, यदा तु तृतीयमानमदत्त मरति तदा पात्रपतनलक्षणं ग्रहणमदत्तस्य नमासम् । इति, स्वप्निरोत्तरवाक्येतु 'अन्नाय अन्नो ! दिग्भमाणे विन्ने' इत्यादि यद् नस्यत्यग्रे तत्र क्रियाकालकप्रत्ययकालयोरभेदात् दीयमानादौर्दत्त्वादिक समवमेयम् । 'तए

जो वस्तु आप को दी जा रही है-वह दीयमान होने से दत्त नहीं है । अदत्त ही है, इस अदत्त वस्तु को आप लोग ग्रहण करते हैं-अतः अदत्त के आदान (ग्रहण) करने का प्रसंग आप में आता है । यही बात टीकाकार ने "यदि दीयमानं पात्रोपतितं सत् दत्तं मरति, तदा तस्य दत्तस्य मत्तः पात्रपतनलक्षणे ग्रहण कृत मरति, यदा तु तृतीयमानमदत्तं मरति, तदा पात्रपतनलक्षणं ग्रहणमदत्तस्य मासम्" इन पंक्तियों द्वारा स्पष्ट की है । "हम अदत्त को ग्रहण नहीं करते हैं किन्तु दत्त को ही ग्रहण करते हैं" ऐसा जो आगे स्वप्नि भगवतो द्वारा समाधान दिया जावेगा-वह दीयमान वस्तु को दत्त मानकर दिया जावेगा-क्यों कि क्रियाकाल और क प्रत्ययकाल-वर्तमानकाल और भूतकाल-इनमें अमेद मान लिया जाता है । इसी अमेद को लेकर दीयमान वस्तु में दत्तत्व बनताहै अतः दत्तादिरूप वस्तु का ही हम लोग ग्रहण करते हैं अदत्तादिरूप का नहीं ऐसा कथन बन जाता है । तात्पर्य कहने का यह है कि अन्यनीयिकोने स्वप्नि भगवतो

ज्येत्तु सान्निह्ये इत्यादि भागे से केने वस्तु आप देखने केपाठ रहेही से ते दीयमान होवाही इत्त नहीं अदत्त व से अने ते अदत्त वस्तुने आप ग्रहण करे से ज्येत्तु के आप अदत्तादान लेवाने होत करे से । ज्येत्तु वानटीकाकारे आ सूत्रपाठ द्वारा स्पष्ट करे से "यदि दीयमान पात्रोपतितं सत् दत्तं मरति, तदा तस्य दत्तस्य सत् पात्रपतनलक्षणं ग्रहण कृत मरति यदा तु तृतीयमानमदत्तं मरति, तदा पात्रपतनलक्षणं ग्रहणमदत्तस्य मासम्"

अमे अदत्तने अदत्तु करता नय पंजु इत्तने व अदत्तु करीजे छीजे, " आ प्रहासुं समाधान स्वप्नि भगवतो द्वारा आर्गण करवाभा आपरी ते दीयमान वस्तुने इत्त मानीने इत्तार्थं आप्नु से आरणु के वर्तमानकाल अने भूतकाल के अनेभा अन्तेह मत्तवाभा आप्नु से ते अन्तेही अपेक्षजे दीयमान वस्तुभा इत्तत्व मनी शक्य से तथी अमे होके इत्त वस्तुने अदत्तु करीजे छीजे-अदत्तने अदत्तु करता नथी," आ इत्तन सायु व से आ इत्तनु तत्त्वत्तं ज्ये से के "अन्तेही अन्तेजे स्वप्नि भगवतोने आत्त आप्नि अदत्तु करवाभा करीने तेमने अन्तेवत्त अन्ति अन्तेवत्तवत्तं इत्त से

णं तुञ्जे अदिन्न गेण्ह जात्र अदिन्नं साहज्जह । ततस्तम्मात् कारणात् खलु  
यूयम् अदत्तं गृह्णीथ, यावत् अदत्त भुङ्गध्वे, अदत्त स्वदध्वे, 'तएणं तुञ्जे  
अदिन्नं गेण्हमाणा जात्र एणंतवाला यात्रि भवह' ततस्तस्मात् खलु यूयम् अदत्तं  
गृह्णन्त आददाना, यावत् अदत्त भुञ्जानाः अदत्तं स्वदमाना त्रिविधं त्रिविधेन  
असंयताविरताप्रतितहाप्रत्याख्यातपापकर्माणः मक्रियाः असंवृताः, एकान्तदण्डाः,

को अदत्त आदि का ग्रहण करनेवाले कहकर असंयत आदि अवस्था-  
वाला उन्हें कहा है अदत्तादानी वे इसलिये कहे गये हैं कि जो  
आहारादि पदार्थ उन्हें दाता की ओर से दिये जाते हैं वे पूर्व में दत्त  
नहीं-दिये गये नहीं होते हैं-वे तो दीयमान - वर्तमान में ही दिये  
जा रहे होते हैं-इस कारण पूर्व में नहीं दिये गये वे आहारादि-  
पदार्थ वर्तमान काल की अपेक्षा अदत्त होने से उन्हें ग्रहण करने-  
वाला व्यक्ति-साधु अदत्तादानी होता है यदि दीयमान वस्तु को दत्त  
मानकर अदत्तादायी होने का निषेध किया जावे तो यह बात इस-  
लिये नहीं स्वीकार की जा सकती है कि दीयमान वस्तु जब देते  
समय यदि किसी के द्वारा बीच ही में अपहृत हो जाती है तो  
वह वस्तु ग्रहीता की नहीं मानी जाती है-किन्तु दाता की ही मानी  
जाती है। इसलिये जब वह वस्तु दाता की मानी जाती है तो  
ऐसी हालत में वह दत्त नहीं बनती है किन्तु दीयमान ही होती  
है। अतः दीयमान वस्तु को ग्रहण करनेवाला आत्मा अदत्तादायी  
माना जावेगा-इस प्रकार अदत्तादानी होने का कथन कर असंयत

तेभ्यो तेभ्यो अदत्तादानं ग्रहणं करुणारं अदत्ता माटे कहे छे-के ने आहारादि  
पदार्थ तेभ्यो दाता द्वारा आपवाभा आवे छे ते पूर्व अदत्त (नहीं देवायेला)  
होय छे, ते अर्थात् तो दीयमान-वर्तमानमा न आपवाभा आवी रहेला-होय छे.  
ते कारणे पूर्व नहीं देवायेला आहारादि पदार्थ वर्तमानकालनी अपेक्षासे अदत्त होवाथी  
तेभ्यो अदत्त करुणार साधु अदत्तादानी होय छे ने दीयमान वस्तुने दत्त मानीने  
अदत्तद्यथी होवानो निषेध करवासा आवे तो ते वातने से कारणे न स्वीकारी शक्य  
के ने दीयमान वस्तु देवासा आपती होय तयारे वस्तुथी न कोठना द्वारा पडावी  
देवासा आवे तो ते वस्तु गृहीतानी मनाती नथी-दान लेनारमी वस्तुनु अपहृत्य थयुं  
छे सेवु कहेवातु नथी पण्य दातानी वस्तुनु न अपहृत्य थयेलु मनाय छे ते कारणे ने  
ते वस्तुने दातानी मानवासा आवे, तो सेवी हालतमा ते दत्त बनती नथी पण्य  
दीयमान न होय छे तथी दीयमान वस्तुने अदत्त करुणार व्यक्तितने अदत्तादानी मानवी  
पडथी, आ रीते तेभ्यो अदत्तादानी मानवी पडथे आ रीते तेभ्यो अदत्तानी कहीने

एकान्तबाळाश्चापि मय्य तएण ते येरा भगवतो ते अन्नउत्तिए एव वयासी  
 तवःबद्ध ते स्पविरा भगवन्तस्सान् अन्ययूयिक्कान् एव वक्ष्यमाअप्रकारेअ  
 अत्रादिपुः- 'नो खलु अज्जो ! अग्गे अदिन्नं गिण्हामा, अदिन्नं सुजामा,  
 अदिन्नं साइज्जामा' हे मायाः ! अन्यतीर्थिका ! नो खलु वयम् अदत्त

आदि होने का उनमें प्रकट किया है । इस प्रकार 'तएण तुज्जे  
 अदिन्नं गेण्हइह, जाव अदिन्नं साइज्जइह, तएण तुज्जे अदिन्नं गेण्हमाणा  
 जाव एगंतवामा याधि मयइ' जब आपलोग अदत्त का ग्रहण करते हो  
 यावत्-अदत्त वस्तु का आहार करते हो और अदत्त वस्तु को लेने  
 की अनुमोदना करते हो ता अदत्त को ग्रहण करनेवाले, अदत्त का  
 आहार करने वाले और अदत्त लेने के लिये अनुमोदना करनेवाले  
 आप लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करते हुए मयत्त,  
 विरत्त, प्रतिहत, प्रत्याख्यातपापकर्मवाले कैसे हो सकते हैं ? अर्थात्  
 नहीं हो सकते हैं । ऐसी स्थिति में तो कबल आप लोग असयत्त,  
 अविरत्त, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले, सक्रिय, असद्वृत्त,  
 एकान्त प्राणातिपात महित और पिल्कुल ज्ञान रहित ही बनते हैं ।  
 'तएण त परा भगवतो ते अन्नउत्तिए एव वयासी' उन अन्य  
 तीर्थिकों की ऐसी धारणा जानकर उन स्वधिर भगवन्तों ने तब उनसे  
 इस प्रकार कहा- 'ना खलु अज्जो ! अग्गे अदिन्नं गिण्हामो, अदिन्नं

तेभनार्थं असकत्ता अदिन्निं सखायं देवानु तेभन्य द्वारा प्रतिपाद्य करवार्थं अज्जु  
 छे ते आ प्रभावे 'तएण तुज्जं अदिन्नं गेण्हइह, जाव अदिन्नं साइज्जइह, तएणं  
 तुज्जे अदिन्नं गेण्हमाणा जाव एगंतवामा याधि मयइ' तमि अइत्थे मइअ  
 इरो छे, अइत्त वस्तुने अइत्त इरो छे अने अइत्त वस्तु देवानी अनुमोदता इरो छे  
 तेषां अइत्थे मइअ इरनारा अइत्तने अइत्त इरनारा अने अइत्तने अदत्त इरवानी  
 अनुमोदना इरनारा तमि सोरो त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविध सेवन इरो छे। तो तमने  
 सवत्, विरत्त, प्रतिहत, प्रत्याख्यात पापकर्मवाणा इवी रीतं इवी शक्या ! आ प्रजाली  
 परिस्थिति । तमि असवत् अविरत्त, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पापकर्मवाणा अदिन,  
 अद्वयत्त अप्रतिहत, प्रत्याख्यात पापकर्मवाणा, सक्रिय असवृत्त सर्वथा प्राणातिपात  
 अदिन अने अिलकुल ज्ञान रहित न छे।

तएण त परा भगवतो त उन्नउत्तिए एव वयासी' त परतीर्थिकोणी  
 आ प्रजाली आकल्पने ते स्वधिर भगवतोन्ने तेभने आ प्रभावे अज्जु  
 अयो- 'नो खलु अज्जो ! अग्गे अदिन्नं गिण्हामो, अदिन्नं सुजामो,

गृहणीमः, अदत्त भुञ्जमहे, अदत्तं स्वदामहे, 'अम्हेण अज्जो ! दिन्नं गेण्हमो, दिन्नं भुंजामो, दिन्नं साइज्जामो' हे आर्याः ! अन्यतीर्थिकाः ! त्रयं खलु दत्तं गृहणीमः. दत्तं भुञ्जमहे, दत्तं स्वदामहे अनुमन्यामहे 'तएणं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा दिन्नं भुजमाणा, दिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय विरय पडिहय जहा सत्तमसए वीइएउद्देमए जाव एगतपडिया यावि भवामो' ततस्तग्मात् खलु त्रयं दत्तं गृह्यन्तः, दत्तं भुञ्जानाः, दत्तं स्वदमानाः अनुमन्यमानाः, त्रिविधं त्रिविधेन मनःप्रभृतिना करणेन संयतविरतप्रतिहतपापकर्माणो यथा सप्तमशतके द्वितीयोद्देशके प्रतिपादितामथा अत्रापि यावत्-अक्रियाः. संवृताः, एकान्त-

भुंजामो, अदिन्नं साइज्जामो' हे आर्या ! हम लोग न अदत्त को ग्रहण करते हैं न अदत्त का आहार करते हैं और न अदत्त को लेने के लिये अनुमोदना करते हैं किन्तु 'अम्हेणं अज्जो ! दिन्नं गेण्हमो, दिन्नं भुंजामो, दिन्नं साइज्जामो-तएणं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा, दिन्नं भुजमाणा, दिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय विरय पडिहय जहा सत्तमसए वीइएउद्देमए जाव एगतपडिया यावि भवामो' हम लोग तो हे आर्या ! दिये हुए को ही ग्रहण करते हैं, दिये हुए का ही आहार करते हैं, दिये हुए को ही लेने के लिये अनुमोदना करते हैं । इस तरह त्रिविध प्राणानिपात आदिका त्रिविध से त्याग करते हुए हम लोग संयत, विरत, प्रतिहत, प्रत्याख्यातपापकर्मा होते हैं जैसा कि सप्तम शतक में द्वितीय उद्देशे में कहा गया है-उसी तरह से यहां पर भी यावत्-अक्रिय, संवृत और एकान्तपण्डित हैं । 'तए णं

अदिन्नं साइज्जामो" हे आर्या ! अमे अदत्त वस्तुने अहंशु करता नथी, अदत्त वस्तुने आहार करता नथी अने अदत्त वस्तु लेवानी अनुमोदना करता नथी. "अम्हे णं अज्जो ! दिन्नं गेण्हमो, दिन्नं भुंजामो, दिन्नं साइज्जामो तए णं अम्हे दिन्नं गेण्हमाणा, दिन्नं भुंजमाणा, दिन्नं साइज्जमाणा तिविहं तिविहेणं संजय-विरय पडिहय जहा सत्तमसए जाव एगतपडिया यावि भवामो" हे आर्या ! अमे तो दत्त (आपवाभा आवेदी) वस्तुने अहंशु करीये छीये दत्त वस्तुने अ आहार करीये छीये अने दत्त वस्तु अहंशु करवानी अ अनुमोदना करीये छीये आरीते दत्त वस्तुने अहंशु करता, दत्तने अ आहार करता, दत्त लेवानी अनुमोदना करता अवे अमे त्रिविध प्राणानिपात आदिना त्रिविधे परित्याग करनारा होवथी अमे संयत, विरत, प्रतिहत प्रत्याख्यात पापकर्मा अ छीये सातमा शतकना इसमा उद्देशकमा अ कथन करवामा आयु छे ते अही अहंशु करवु यावत् "अमे अक्रिय, संवृत अने एकान्त पण्डित (सर्वथा ज्ञानयुक्त) अ छीये"

पण्डिताश्चापि भवाम्, 'तएष त अन्नउत्थिया ते येरे भगवते एषं भयासी' एतान्बलु ते अन्ययुधिकाः अन्यतीर्थिकास्तान् स्यविरान् भगवतः एष वक्ष्य-  
माणप्रकारेण अत्रादिपुः-केण कारणेण भञ्जो ! तुम्हे दिन्न गेण्डह जाव  
दिन्न साइज्जह' हे आर्याः ! स्यविरा ! केन कारणेन वय दत्त सुहणीष,  
यावत्-दत्त सुहणघ्वे, दत्त म्ददघ्वे अनुमन्यघ्वे, 'अएण तुज्जे दिन्न गेण्डमाणा  
भाव एगंतपण्डिया यावि भवइ ?' यन कारणेन खल्ल वय दत्त सुहणन्ता,  
यावत् दत्त सुहणाना दत्त स्वदमाना त्रिविध त्रिविधेन संयत्तभिरत्तप्रतिहत  
पापकर्मोण अक्रिया सहताः एकान्तपण्डिताश्चापि भवय ? 'तए ण ते येरा  
भगवतो ते अन्नउत्थिए एव भयासी -तत् खल्ल ते स्यविरा भगवन्तस्तान्

ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवते एषं भयासी-केण कारणेण भञ्जो ! तुम्हे  
दिन्न गेण्डह, जाव दिन्न साइज्जह' तब उन अन्ययुधिकोंने उन स्यविर  
भगवतो से हम प्रकार पूछा-हे आर्या ! तुम लोग कैसे दिये हुए  
को ग्रहण करते हो, दिये हुए का आहार करते हो और कैसे दिये  
हुए को छेने के लिये अनुमोदना करते हो ? 'अएण तुज्जे दिन  
गेण्डमाणा, जाव एगंतपण्डियायाविभवइ' कि जिससे ह आर्या ! आप  
लोग दिये हुए को ग्रहण करते हुए, दिये हुए का आहार करते हुए  
और दिये हुए का छेने के लिय अनुमोदना करते हुए माने जावे  
और इस तरह से त्रिविध पाणातिपात का त्रिविध से त्याग बाधे  
आप भोगों को मानकर सयत्त, बिरत्त, एष प्रतिहतपस्यासघातपाप-  
कर्मा माने, एष अक्रिय ( कर्मबंध रहित ) सपूत-(सबरमुक्त) और  
एकान्तपण्डित भी माने । 'तए ण ते येरा भगवतो ते अन्नउत्थिए

'तए ण ते येरा भगवतो एष भयासी' त्वारे ते पत्नीमिहाजे ते  
स्यविर भगवताने पूछु के 'केण कारणेण भञ्जो ! तुम्हे दिन्न गेण्डह जाव  
दिन्न साइज्जह' हे आर्या ! तमे शा भाषणे जेवुं उडे। छ। के तमे इत्त वस्तुने भङ्ग  
करे। छ। इत्त पराधने आहार करे। छ। अने इत्त वस्तु देवानी अनुमोदना करे। छ।  
'अएण तुज्जे दिन्न गेण्डमाणा, जाव एगंतपण्डिया यावि भवइ ?'  
हे आर्या ! आभारे शा भाषणे जेवुं मानवुं तेज्जे के तमे इरा वस्तुने भङ्ग करता यहा  
इत्त वस्तुने आहार करता यहा इत्त वस्तु भङ्ग करवानी अनुमोदना करता यहा त्रिविध  
आद्यातिपातना त्रिविधे त्याग करता यहा, अयत्त, बिरत्त, प्रतिहतपस्यासघात  
पापकर्मा अक्रिय ( कर्मबंध रहित ) सपूत (सबर मुक्त), अने जेसन्तपण्डित छ।

अन्ययूथिकान् एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अत्रादिषुः—‘अम्हेणं अज्जो ! दिज्जमाणे दिन्ने पडिग्गहेज्जमाणे पडिग्गहिए निसिरिज्जमाणे निसिट्ठे’ हे आर्याः ! वयं खलु दीयमानं दत्तं प्रतिगृह्यमाणं प्रतिगृहीतं, निसृज्यमाणं निसृष्टमिति मन्यामहे ‘जेणं अम्हेणं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्तं, एत्थं अंतरा केइ अवहरेज्जा, अम्हाणं तं, णो खलु तं गाहावडस्स’ येन कारणेन वयं खलु हे आर्याः ? हे अन्यतीर्थिका ! दीयमानं प्रतिग्रहकम् असंप्राप्तं न स्वहस्तग्रहण-विषयीकृतम्, अत्र खलु अन्तरा मध्ये एतदवसरे इत्यर्थः कश्चित् पुरुषः अपहरेत् चोरयेत् अस्माकं तत् प्रतिग्रहकम् अपहृतम् नो खलु नैव किल तत्प्रति-गृहकं गृहपतेरपहृतमिति मन्यामहे ‘जए णं अम्हे दिन्नं गिण्हामो दिघ्नं एवं वयासी’ इति प्रकारेण से अन्ययूथिको का कथनं सुनकर उक्तं स्थविर भगवन्तोने उक्तं अन्ययूथिको से इति प्रकारेण कहा—‘अम्हेणं अज्जो दिज्जमाणे दिन्ने, पडिग्गहेज्जमाणे पडिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे निसिट्ठे, जेणं अम्हेणं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्तं एत्थं अंतरा केइ अवहरेज्जा, अम्हाणं तं, णो खलु तं गाहावडस्स’ हे आर्या ! हम लोग दीयमान वस्तु को दत्तं, प्रतिगृह्यमाणवस्तु को प्रतिगृहीतं, निसृज्यमाण वस्तु को निसृष्ट मानते हैं । इस कारण हे आर्या ! दी जाती हुई उस वस्तु को कि जो हमारे पात्र में या हाथ में नहीं आई है यदि कोई इतने में बीच में ही हरण करलेता है—तो वह वस्तु हमारी ही है—गृहपति की नहीं है—ऐसा हम लोग मानते

“तद्वहणं ते थरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी” तेभन्ती कारुण्येणान्ती जिरासा जालीने ते स्थविर भगवतोअये तेभने आ प्रमाणे ज्वाण आर्यो—  
“अम्हे णं अज्जो ! दिज्जमाणे दिन्ने, पडिग्गहेज्जमाणे पडिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे निसिट्ठे, जेणं अम्हेणं अज्जो ! दिज्जमाणं पडिग्गहणं असंपत्तं एत्थं अंतरा केइ अवहरेज्जा, अम्हाणं तं, णो खलु तं गाहावडस्स” हे आर्या ! अमे दीयमान (आपवामां) आवती होय अवेवी) वस्तुने दत्तं (अपाठ सुडेवी) प्रतिगृह्यमाणे वस्तुने प्रतिगृहीतं अने निसृज्यमाण वस्तुने निसृष्ट मानीअये छीअये तेथी अमने आपवामा आची रहेवी वस्तु अमारा पात्रमां अथवा हाथमां आवी पडे ते पहेला वस्त्रेथी न कोष व्यक्तित द्वारा पडाची वेवामा आवे तो अमे अमे मानीअये छीअये डे अमारी ते वस्तुनु अपहरण थयुं छे अमे आ रीते अपहृत थयेवी वस्तुने गृहपतिनी

भ्रमामो, दिन्न साइजमामो' यतो यस्मात्कारणात् स्वल्प वय दक्ष गृह्णीमः  
 दक्ष मुञ्जमहे, दक्ष म्वदामहे अनुमन्यामहे 'तएणं अम्हे दिन्न गेहमाणा  
 नाव दिन्न साइजमाणा त्रिषिह त्रिषिहेण सजय भाव एगत्पडिया  
 यावि भवामो' ततम्बस्मात् कारणात् स्वल्प वय दक्ष गृह्णन्तो यावत् दक्ष  
 मुञ्जमानाः, दक्ष स्वदमाना अनुमन्यामाना त्रिषिध, कृताविरुक्षण त्रिषिधेन  
 मन प्रमृतिना करणेन सयताः यावत् धिरताः प्रतिहतपापकर्माणिः, अक्रियाः,  
 सष्टताः एकान्तपण्डिताश्चापि भवामः ।

अथ दीयमानमदक्षमित्यादेरन्यतीर्थिकमत्तत्वात् अन्यतीर्थिका एव अस-  
 यतस्वादियुगत् इति सूचयितुम् अन्यतीर्थिकान् प्रति म्यचिराणाम् उत्तरमाह

है । 'जएण अम्हे दिन्न गिण्जामो, दिन्न सुजामा, दिन्न साइजामो'  
 इसी कारण हम लोग दी हुई वस्तु को छेते हैं, दी हुई वस्तु का  
 आहार करते हैं और दी हुई वस्तु का छेने के लिये अनुमोदना  
 करते हैं । 'तएण अम्हे दिन्न गोहमाणा, जाव दिन्न साइजमाणा  
 त्रिषिह त्रिषिहेण सजय भाव एगत्पडिया यावि भवामो' अतः हे  
 आर्या ! दी गई वस्तु को ग्रहण करते हुए दी गई वस्तु का आहार  
 करते हुए, दी गई वस्तु को छेने के लिये अनुमोदना करते हुए  
 त्रिषिध माणातिपात आदिका त्रिषिध से त्याग करनेवाले होने के  
 कारण सयत, यावत् धिरत हैं, प्रतिहत, प्रत्यास्पातपापकर्मा हैं,  
 अक्रिय-कर्मबंध रहित हैं मवृत्त-सघरयुक्त हैं और एकान्तपण्डित  
 हैं । अथ स्यधिर भगवन्त एन अन्यतीर्थिक जनो से ऐसा कहते  
 हैं कि दीयमान वस्तु तुम्हारे मित्रात्मानुसार जब अदत्त मानी जाती

मानता नहीं "जएण अम्हे दिन्न गिण्जामो, दिन्न सुजामो, दिन्न साइजामो"  
 तेषी के वात सिद्ध थाय छे के अमे अथापेही (एत) वस्तुने अ प्रक्षु अरीजे जीजे,  
 इत वस्तुने अ आहार अरीजे जीजे अने इत वस्तुने प्रक्षु अरवानी अनुमोदना अरीजे जीजे  
 "तएण अम्हे दिन्न गेहमाणा, जाव दिन्न साइजमाणा त्रिषिहं त्रिषिहेण सजय  
 जाव एगत्पडिया यावि भवामो" तेषी के भाषो ! इत वस्तुने प्रक्षु अरव,  
 अने इत वस्तुने प्रक्षु अरवानी अनुमोदना करता जेवा अमे त्रिषिध प्राणतिपात आदिने  
 त्रिषिध त्याग करनारा होवाओ अमे अथत, विस्त अतिहत प्रत्यास्पात पापकर्मा अत्रिम  
 (अथ अंध रहित) सजय (सजय सुकत) अने अनेकान्त पण्डित (सयत भा ज्ञान युक्त)  
 जीजे अने स्वधिर कनवते ते परतीर्थिकने जेनु अडे छे के तमाही मानवता अनुसार  
 दीयमान वस्तुने अइत मानवता आवे छे ते भाजे जेवा वस्तुने प्रक्षु अरवारा तमे  
 अइतवानी अइतने त्रिषि अथयन, अविस्त आदि कर्माणा छे

‘तुञ्जेण अज्जो ! अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवह’ हे आर्याः ! यूयमेव खलु आत्मना चैव स्वयमेव त्रिविध त्रिविधेन मनःप्रभृतिना करणेन असंयता असयमवन्तो यावत् अविरताः अप्रतिहतपापकर्माणः, सक्रियाः, असंघृता, एकान्तदण्डा एकान्तवाला अपि भवथ ‘तएणं ते अन्नउत्थिया ते धेरे भगवंते एवं वयासी - ‘ततः खलु ते अन्ययूथिकास्तान् स्थविरान् भगवत एव वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादिपुः- ‘केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवामो’ हे आर्याः ! स्थविराः केन कारणेन वयं त्रिविधं कृतादिलक्षण त्रिप्रकारकं त्रिविधेन मनःप्रभृतिना करणेन यावत्-असंयता, अविरताः अप-

है तो उसे लेने वाले आपलोग ही अदत्त को ग्रहण करने वाले होने के कारण असंयतत्व आदि गुण वाले हैं- ‘तुञ्जेण अज्जो अप्पणा चेव तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यावि भवह’ हे आर्यो ! आप लोग ही त्रिविध प्राणातिपात आदि को त्रिविध से करने के कारण स्वयं असंयत-असंघमवाले, यावत्-अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यातपापकर्मवाले, कर्मबंधसहित, संवर-रहित, एकान्त-सर्वथा-प्राणातिपात सहित हैं और एकान्तवाल हैं । ‘तएणं ते अन्नउत्थिया ते धेरे भगवंते एवं वयासी’ इस प्रकार जब स्थविर भगवन्तों की बात उन अन्यतीर्थिक जनों ने सुनी-तब वे उनसे पूछने लगे ‘केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवामो’ हे आर्यो ! हम लोग कैसे त्रिविध प्राणातिपात आदि को त्रिविध से करते हैं और कैसे

“तुञ्जेण अज्जो अप्पणा चेव तिविहं तिविहेण असंजय जाव एगंतवाला यावि भवह” हे आर्यो ! तमे च त्रिविध प्राणातिपात आदिषु त्रिविधे सेवन क्षरता डोषात्थी असंयत छे, अविरत छे, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात पापकर्मवाणा छे, कर्मबंध सहित छे, संवर रहित छे, सर्वथा प्राणातिपात सहित छे अने ऐकान्त-वाल (सर्वथा ज्ञान रहित) छे।

“तएणं ते अन्नउत्थिया ते धेरे भगवंते एवं वयासी” स्थविर भगवतोच्चे-त्कारे आ प्रभाषे क्खु त्थारे ते परतीर्थिके तेमने पूछ्वा वाग्ग्य

“केण कारणेण अज्जो ! अम्हे तिविहं तिविहेण जाव एगंतवाला यावि भवामो ?” हे आर्यो ! शा करणे आप्पे बुं क्खो छे हे अमे त्रिविध प्राणातिपात आदिषु त्रिविधे सेवन क्षरीच्चे छीन्ने ? तमे हेम्पे बुं भावो छे हे अमे असंयत, अपि-



विद्वेषपापकर्मोण, सक्रिया, असृष्टाः, एकान्तदण्डाः, एकान्तवाभावापि भवाम ? 'तएण त वेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एव बयासी' ततःअन्नु ते स्यविरा भगवन्तस्तान् अन्ययुधिकान् अन्यतीर्थिकान् एव बक्ष्यमाण प्रसारेण भवादिपु - तुज्जेणं अज्जा ! अदिन्न गेण्हइ, अदिन्न सुजइ, अदिन्न साइज्जइ' हे आर्या ! यूय खलु अदत्त गृह्णीथ, अदत्त भुङ्गथ्थे अदत्तं स्वदत्थे, 'तएणं अज्जा ! तुज्जे अदिन्न गेण्हमाणा, जाय एगतवासा याधि भवइ ?' हे आर्याः ! ततस्तस्मात् कारणात् खलु यूयम् अदत्तं गृह्णन्त, यावत्-अदत्तं भुञ्जाना, अदत्तं स्वदमाना' त्रिविध त्रिविधेन भगवता, अविरताः, अप्रतिद्वेषपापकर्माण, सक्रिया, असृष्टाः, एकान्तदण्डाः,

असंयत, अचिरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात, पापकर्मवासि माने जाते हैं तथा सक्रिय, असंयत एकान्त दण्ड मण्डित होते हैं और एकान्त वाल भी कहे जाते हैं । 'तएण ते वेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एव बयामी' तब उन स्थिति भगवतों ने, उन अग्रतीर्थियों से ऐसा कहा- 'तुज्जे णं अज्जा ! अदिन्न गेण्हइ, अदिन्न सुजइ, अदिन्न साइज्जइ' हे आर्या ! आप लोग अदत्त वस्तु को छेरे हो, अदत्त वस्तुका आहार करते हो, अदत्त वस्तु को छेने की अनुमोदना करते हो 'तएणं अज्जा ! तुज्जे अदिन्न गेण्हमाणा, जाय एगतवासा याधि भवइ' इसलिये हे आर्या ! तुम लोग अदत्त को ग्रहण करने के कारण, अदत्त का भोजन करने के कारण, अदत्त को छेने की अनुमोदना करने के कारण त्रिविध प्राणान्तिपात आदिको त्रिविध से करते हो इसलिये असंयत, अचिरत, अप्रतिहत, अप्रत्या

स्त, अप्रतिहत अने अप्रत्याख्यात पापकर्मवाण छीअे ? तमे ठेवी रीत अमने सक्रिय (असंयत अद्वित), असंयत (संयत अद्वित) अने अन्त इह अद्वित (संयत अन्त्यातिपात अद्वित) अने अन्त्यातिपात इहो अे !

'तएण ते वेरा भगवता, त अन्नउत्थिए एव बयासी' तारे ते स्थिर अत्रयतोअ ते परतीर्थिकाने आ त्रयाजे अत्रय आप्पा- तुज्जे णं अज्जा ! अदिन्न गेण्हइ, अदिन्न सुजइ, अदिन्न साइज्जइ' हे आर्या ! तमे अदत्त वस्तुने अदत्त इहो अे अदत्त वस्तुने आहार इहो अे अने अदत्त वस्तु अदत्त करवानी अनुमोदना इहो अे ।

'तएण अज्जा ! तुज्जे अदिन्न गेण्हमाणा, जाय एगतवासा याधि भवइ' हे आर्या ! आ रीत अत्रयने अद्वित करवाने कारणे अदत्तने आहार करवने कारणे अने अदत्त अदत्त करवानी अनुमोदना करवने कारणे अद्वित तमे त्रिविध प्राणान्तिपात अद्वित त्रिविध सेवत इहो अे तथी तमे असंयत, अचिरत, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पाप-

एकान्तवालाश्चापि भवथ, 'तएण ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवते एव वयासी' ततः खलु ते अन्ययूथिकाः अन्यतीर्थिकास्तान् स्थविरान् भगवतः एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अत्रादिषुः—'केण कारणेण अम्हे अदिन्न गेण्हामो जाव एगंतवाला यावि भवामो ?' हे आर्या ! स्थविराः ! केन कारणेण अदत्तं गृह्णीमः, यावत्-अदत्तं भुञ्जमहे, अदत्तं स्वदामहे, त्रिविधं त्रेविधेन असयताः, अविरताः, अप्रतिहतपापकर्माणः, सक्रियाः, असवृताः, एकान्तदण्डा, एकान्तवालाश्चापि भवामः ? 'तएण ते येरे भगवंतो ते अन्नउत्थिए एव वयासी' ततःखलु ते स्थविराः भगवन्तस्तान् अन्ययूथिकान्

रुघ्यातपापकर्मवाले हो, सक्रिय हो, सवर रहित हो, एकान्तदण्ड सहित हो और एकान्तवाल भी हो 'तएणं ते आन्नउत्थिया ते येरे भगवंते एवं वयासी' इस प्रकार से मगत उत्तर सुनकर उन अन्य-यूथिकों ने उन स्थविरभगवन्तों से इस प्रकार से पूछा—'केण कारणेण अम्हे अदिन्न गेण्हामो जाव एगंतवाला यावि भवामो ?' हे आर्यो ! हम लोग कैसे तो अदत्त का आदान करते हैं, कैसे अदत्त-वस्तु का भोजन करते हैं और कैसे विना दी हुई वस्तु को लेने वाले की अनुमोदना करते हैं, कैसे त्रिविध प्राणातिपात आदि को त्रिविध से सेवन करते हैं, और कैसे असयत, अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात पापकर्मवाले सांचित होते हैं, कैसे सक्रिय (कर्मबंध-सहित) असवृत (संवर रहित) एकान्तदण्ड सहित और एकान्त वाल जाने जाते हैं ? 'तएण ते येरे भगवतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी' जब इस प्रकार से उन अन्ययूथिकों ने पूछा तो उन

कर्मवाणा, सक्रिय (कर्मबंधवाणा), असवृत (संवर रहित) एकान्त दंड सहित (सर्वथा प्राणातिपात सहित) अने एकान्तवाले पणुं छे "तएणं ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवंते एवं वयासी" आ प्रकारेण मगत उत्तर सांभलीने ते परतीर्थिकांणे (अन्य मतवादींणे) स्थविर भगवतोने आ प्रमाणे पूछथु— "केण कारणेण अम्हे अदिन्न गेण्हामो, जाव एगंतवाला यावि भवामो ?" हे आर्यो ! अे तो भतावे के अने केवी रीते अदत्त वस्तुंन अडणु करनारा, अदत्तनो आहार करनारा अने अदत्त अडणु करवानी अनुमोदना करनारा छीं ? अने केवी रीते त्रिविध प्राणातिपात आदिनु त्रिविधे सेवन करनारा छीं ? तमे अभने आ आ कारणे असयत अविरत अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात पापकर्मवाणा मानो छे ? वणी तमे अभने सक्रिय (कर्मबंध सहित), असवृत, एकान्त दंड सहित अने एकान्तवाले आ कारणे कडे छे ?

"तएणं ते येरे भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी" ते परतीर्थिकाना

अन्यतीर्थिकान् एव वक्ष्यमाणप्रकारम् अवाविपु- 'तुज्ज्जेण अज्जो ! दिज्जमाणे अदिन्ने तत्थेव जाव गाहावइस्स ण, णा खल्ल तं तुज्ज्जे' हे आर्या ! यूयं खल्ल दीयमानम् अदत्तं, सट्ठेयं यावत् प्रविशुद्धमाणम् अप्रतिशुद्धीतम्, निसृज्यमानम् अनिसृष्टम् मन्यध्वे, यूयच्च हे आर्या ! तीयमानं प्रतिग्रहकम् अमप्राप्तम् अत्र खल्ल भन्तरा-मध्यं तत्प्रतिग्रहकम् अपहरत् चोरयत् गृहपते खल्ल सद् प्रतिग्रहकम् अपहृतम्, नो खल्ल नैव किञ्चित् प्रतिग्रहकं युष्माकम् स्वप्पाम् अपहृतम् इति मन्यध्वे, 'तएण तुज्जे अदिन्नं गेण्हइ तं थेव जाव एगतवासायाविमवह' उत् तस्मात् कारणत् खल्ल हे आर्या ! यूयम् अदत्तं गृहणीयं, तदेव या तु अदत्तं सुकगध्वे, अदत्तम् स्वदध्वे अनुमयध्वे, त्रिविधं

स्वधियं मगधतीं ने वनसे ऐसा कहा- तुज्ज्जेण अज्जो दिज्जमाणे अदिन्ने तं थेव जाव गाहावइस्स ण णो खल्ल तं तुज्ज्जे' हे आर्या ! आप लोगो ने दीयमानं वस्तु का अदत्त माना है, यावत्-प्रतिशुद्धमाणं वस्तु को अप्रतिशुद्धीत माना है, निसृज्यमानं वस्तु को अनिसृष्ट माना है, तथा इसी कारण से हे आर्या ! तुम लोग ऐसा मानते हो कि दी जाती हुई वह वस्तु जब तक अपने हाथ में नहीं आजाती है इतने के पीछे में यदि कोई उस वस्तु का अपहरण कर लेता है तो वह वस्तु अपनी चोरी गई है ऐसा नहीं माना जाता है, किन्तु वह मालिक गृहपति की ही चोरी गई है ऐसा माना जाता है । 'तएण तुज्जे अदिन्नं गेण्हइ, तं थेव जाव एगतवासायाविमवह' इसी कारण-तुमलोग अदत्त वस्तु को ग्रहण करते हो, यावत्-अदत्त वस्तु का आहार करते हो, अदत्त वस्तु को लेने की अनुमोदना करते हो, और इस तरह से त्रिविध प्राणातिपात

आ प्रश्नो अत्रान् आप्ता स्वधियं अजयतिजे तेभने आ प्रभाजे इह-

'तुज्ज्जेण अज्जो ! दिज्जमाणे अदिन्ने तत्थेव जाव गाहावइस्स ण, णो खल्ल तं तुज्ज्जे' हे आर्या ! तत्रात् सिद्धितीनी भान्यता अनुसारं दीयमानं वस्तुने अदत्तं मानवामा आवे उ प्रतिशुद्धमाणं वस्तुने अप्रतिशुद्धीतं मानवामा आवे उ अने निसृज्यमानं वस्तुने अनिसृष्टं मानवामा आवे उ तथा तस्मिं ज्ञेयं भवति । उ तस्मिं आपवामा अचरी वस्तु तत्रात् आश्रमा आवी चरे ते पदेसा ने इत्थं अस्मि तेनुं च शेषं च अप्युत्तरं इति ते तेज्जे तत्रात् वस्तुनुं अपहृतं क्युं च ज्ञेयं तस्मिं मानतां थिं तस्मिं तो ज्ञेयं भवति । उ हे तेज्जे वस्तानी वस्तुनुं च अपहृतं क्युं च

'तएण तुज्जे अदिन्नं गेण्हइ, तं थेव जाव एगतवासा यावि मवह' तं आर्ये तस्मिं अदत्तं वस्तुने अदत्तं करो । अदत्तं वस्तुने अनुमोदं करो । अने अदत्तं वस्तुने सेवानी अनुमोदनां करो । उ आ रीते त्रिविधं अक्षतिपातनुं तस्मिं त्रिविधं सेवनं

त्रिविधेन असंयताः, अविरताः, अप्रतिहतपापकर्माणः, सक्रियाः, असंवृताः,  
एकान्तदण्डाः, एकान्तवालाश्चापि भवथ ॥ सू. १ ॥

मूलम्—‘तए णं ते अन्नउत्थिए ते थेरे भगवंते एवं वयासी  
तुज्जे णं अज्जो ! तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंत  
बाला यावि भवह, तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए  
एवं वयासी—केण कारणेणं अम्हे तिविहं तिविहेणं जाव एगंत-  
बाला यावि भवामो ? तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे  
भगवंते एवं वयासी—तुज्जे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढविं  
पेच्चेह अभिहणह, वत्तेह, लेसेह, संघाएह, संघट्टेह, परितावेह,  
किलामेह उवह्वेह, तए णं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवह्वेमाणा  
तिविहं तिविहेणं असंजय अविश्य जाव एगंतबालायावि  
भवह, तए णं ते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं  
वयासी नो खल्लु अज्जो ! अम्हे रीय रीयमाणा पुढविं पेच्चेमो  
अभिहणामो जाव उवह्वेमो अम्हे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा  
कायं वा, जोयं वा, रीय वा पडुच्च देसं देसेणं वयामो,  
पएणं पएसेणं वयामो, तेणं अम्हे देसं देसेणं वयमाणा  
पएसं पएसेणं वयमाणा नो पुढविं पेच्चामो अभिहणामो  
जाव उवह्वेमो, तए णं अम्हे पुढविं अपेच्चेमाणा अणभि-

को त्रिविध से करते हुए तुम लोग असंयत, अविरत, अप्रतिहत,  
अप्रत्याख्यात पापकर्मा हो, सक्रिय हो असंवृत हो, एकान्त दण्ड-  
सहित हो, और एकान्त वाल भी हो ॥सू. १॥

करो छे ते कारणे तमे असंयत, अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात पापकर्मा छे,  
सक्रिय, संवृत अने एकान्त दंड सहित छे तथा न तमे एकान्तवाल पणु छे ॥सू. १॥

हणेमाणा जाव अणुवद्देवाणा तिविह तिविहे ण सजयजाव  
 एगतपडिया यावि भवामो, तुज्जे ण अज्जो ! अप्पणा चेव  
 तिविह तिविहेण असजय जाव धाला यावि भवह, तए ण  
 ते अन्नउत्थिया थेरे भगवते एवं वयासी केण कारणे ण  
 अज्जो ! अम्हे तिविह तिविहेण जाव एगतधाला यावि  
 भवामो ? तए ण ते थेरा भगवतो अन्नउत्थिए एव वयासी  
 तुज्जे ण अज्जो ! रीय रीयमाणा पुढविं पेच्चेह जाव उवद्देह ?  
 तए ण तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवद्देमाणा ति  
 विह तिविहेण जाव एगतधाला यावि भवह, तए ण ते  
 अन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी तुज्जे ण अज्जो !  
 गममाणे अगते वीतिक्कमिज्जमाणे, अवीतिक्कते रायगिह  
 नगर सपायिउकामे असपत्ते, ताए ण ते थेरा भगवतो ते  
 अन्नउत्थिए एव वयासी नो खल्ल अज्जो ! अम्हं गममाणे  
 अगए वीतिक्कमिज्जमाणे अवीतिक्कते रायगिह नगर जाव  
 असपत्ते अम्हा ण अज्जो गममाणे गए वीतिक्कमिज्जमाणे वी  
 तिक्कते रायगिह नगर सपायिउकामे सपत्ते, तुज्जे ण अ  
 प्पणा चेव गममाणे अगए वीतिक्कमिज्जमाणे अवीतिक्कते  
 रायगिह जाव असपत्ते, तए ण ते थेरा भगवतो अन्नउत्थिए  
 एव पडिहणेति, पडिहरित्ता गइप्पवाय नाम अज्जयणं  
 पन्नवइसु ॥ सू० २ ॥

छाया-ततः खलु ते अन्ययूथिकास्तान् स्थविरान् भगवत एवम् अत्रादिषुः  
यूयं खलु आर्याः ! त्रिविधं त्रिविधेन असंयता यावत् एकान्तवालश्चापि भवत्य  
ततः खलु ते स्थविराः भगवन्तस्तान् अन्ययूथिकान् एवमत्रादिषुः-केन कारणेन  
वयं त्रिविधं त्रिविधेन यावत् एकान्तवालाश्चापि भवामः ? ततः खलु ते अन्य-  
यूथिकाम्तान् स्थविरान् भगवत एवमत्रादिषुः-यूयं खलु आर्याः ! रीतं  
रीयमाणा पृथिवीं पिच्वयथ, अभिहथ, वर्तयथ, श्लेषयथ, सङ्गतयथ, संघट्टयथ

‘तएणं ते अन्नउत्थिए’ इत्यादि

सूत्रार्थ-‘तएणं ते अन्नउत्थिए ते येरे भगवन्ते एवं वयासी’  
इस के बाद उन अन्यतीर्थिकजनोंने उन स्थविर भगवन्तों से ऐसा  
कहा-(तुज्जेणं अज्जो ! त्रिविहं त्रिविहेणं असजय जाव एगंतवाला  
यात्रि भवह) हे आर्यो ! आप लोग त्रिविध प्राणातिपात को  
त्रिविध से करते हुए असंयत यावत् एकान्तवाल हैं (तएणं ते येरा  
भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी) तब उन स्थविर भगवन्तों  
ने उन अन्ययूथिकों से ऐसा कहा- (केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे  
त्रिविहं त्रिविहेणं जाव एगंतवाला यात्रि भवामो) हे अन्ययूथिक  
आर्यो ! हम लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करते हैं, और  
इसीसे हम लोग यावत् एकान्त चाल हैं ऐसा आप किस कारण  
से कहते हैं (तएणं ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवन्ते एवं वयासी)  
तब उन अन्ययूथिकोंने उन स्थविरोंसे ऐसा कहा-(तुज्जेणं  
अज्जो ! रीय रीयमाणा, पुढविं पेच्चेह अभिहणह, वत्तेह, लेसेह,

“तएणं ते अन्नउत्थिए” इत्यादि-

सूत्रार्थ- (तएणं ते अन्नउत्थिए ते येरे भगवन्ते एवं वयासी) त्पारभाह  
ते परतीर्थिकोऽप्ये ते स्थविर भगवन्तोऽने आ प्रभाषे कथु (तुज्जेणं अज्जो ! त्रिविहं  
त्रिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यात्रि भवह) हे आर्यो ! त्रिविध प्राणातिपा-  
तनु त्रिविधे सेवन करता जेवा तमे असंयत आदि अवस्थावाणा अने जेकतभाष छे  
(तएणं ते येरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी) त्पारे ते स्थविर भगव-  
तोऽप्ये ते परतीर्थिकोऽप्ये आ प्रभाषे पूछथ-(केण कारणेणं अज्जो ! अम्हे  
त्रिविहं त्रिविहेणं जाव एगंतवाला यात्रि भवामो ?) हे आर्यो ! आप शां डारणे  
जेहुं कडा छे क अमे त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविधे सेवन करीजे छीजे ? तमे आ  
डारणे अभन्त असंयत यावत् जेकान्तभाष कडे छे ? (तएणं ते अन्नउत्थिया ते  
येरे भगवन्ते एवं वयासी) त्पारे ते परतीर्थिके ते स्थविर भगवन्तोऽने आ प्रभाषे

परितापयथ, फलमयथ, उपद्रवयथ ततःश्वल्ल युयं पृथिवीं पिबान्तः, यावत्  
 उपद्रवयन्तः त्रिविध त्रिविधेन असयताचिरता यावत् एकान्तबालाभापि भव्य,  
 ततः श्वल्ल ते स्वविरा भगवन्तस्तान् अययुयिकान एषम् अवादिषुः-नाश्ल  
 आपाः ! वयं रीत रीयमाणाः पृथिवीं पिबयामः, अभिहन्मः, यावत् उपद्रवयामा  
 वयं श्वल्ल आपाः ! रीत रीयमाणाः काय वा, योगं वा, भक्त वा मतीत्य वेसं दक्षेन

संघाएह, सघद्वेह, परितावेह किलामेह- तएण तुज्जे पुढविं पेच्चे  
 माणा जाय उवइवेमाणा तिघिह तिघिहेण असंजय अघिरय जाय  
 एगतमाणा याधि भवह ) हे आयो ! श्वल्लते हुए भाप पृथिवी के  
 जीव को दपाते हो, उसे चोट पहुंचावे हो, पैरों से उसे कुचलते  
 हो, पैरों से उसे सघर्षित करते हो इधर उधर से उसे इकट्ठा करते  
 हो, उसे सघर्षित करते हो, परितापित करते हो, छान्त करते हैं,  
 मारते हो । इस कारण पृथिवी के जीव को दपाते हुए यावत् उसे  
 मारते हुए भाप लोग त्रिविध मायातिपात को त्रिविध से करते हैं-  
 इससे भापलोग असयत हैं, अविरत हैं और यावत् एकान्ततः पाल  
 भी हैं । ( तएण ते वेरा भगवतो ते अन्नउत्थिण एव ययामी-  
 नो श्वल्ल भज्जो ! अग्हे रीय रीयमाणा पुढविं पेच्चेमो, अभिहणामो,  
 भाव उवइवेमो, अग्हे ण भज्जो ! रीय रीयमाणा काय वा, जोय

श्व- (तुज्जेण भज्जो ! रीयं रीयमाणा, पुढविं पेच्चेह अभिहणह, पचेह,  
 छेसेह, मघाएह, संघद्वेह, परितावेह, किलामेह- तएण तुज्जे पुढविं पेच्चे  
 माणा भाव उवइवेमाणा तिघिह तिघिहेण असंजय, अघिरय जाय एगत-  
 बाला याधि भवह ) हे आयो ! तने श्वल्लतं श्वल्लतां पृथ्वीनां छेवाने इज्जते अ,  
 तंभने श्वल्ल पछेअडे अ तंभने पत्रयां अत्रडे अ पत्रयां वेन सधर्षितं इहे अ, अही  
 तहीधी तंभने अउत्तं इहे अ। तंभने सधर्षितं इहे अ, तंभने परितापितं इहे अ,  
 तंभने इबान्तं (इअंभी) इहे अ। अने तंभने भासां अ। आ रीते पृथ्वीनां ) छेवाने इम-  
 ववाधी भावनां पचंन्तनीं कियाम्भे इतरां अने तंभने सोअं त्रिविधं प्राणतिपातं  
 त्रिविधं सेवनं इहे अ। तेषां तने अस्सत्तं आदिं निरुपेयं अ। अने अइत्तंमात्तं  
 अ। (तएणं त वेरा भगवतो ते अन्नउत्थिण एव ययामी) त्याए वे  
 श्वरिणं अत्रतोअं वे पातीं (भिं) देअने आ अभावे अणु- (मा ग्यल्लु भज्जो ! अग्हे  
 रीयं रीयमाणा, पुढविं पेच्चेमो, अभिहणामो, भाव उवइवेमो, अग्हेण भज्जो  
 रीयं रीयमाणा काय वा, जोय वा, रीय वा पहुंच वेसं वेसेवं ययामो,

व्रजामः, प्रदेशंप्रदेशेन व्रजामः, ते खलु त्रयं देशंदेशेन भुञ्जन्तः, प्रदेशं प्रदेशेन भुञ्जन्तो नो पृथिवीं पिच्यामः, अभिहनमः, यावत् उपद्रवयामः, ततःखलु त्रयं पृथिवीम् अपिच्यन्तः अनभिहनन्तो यावत् अनुपद्रवयन्तस्त्रिविधं त्रिविधेन संयता यावत् एकान्तपण्डिताश्चापि भवामः, यूय खलु आर्याः ! आत्मना चैव

वा, रीशं वा, पडुच्च देस देसेणं वयामो, पएस पएसेण वयामो, तेणं अम्हे देसं देसेण वयमाणा पएस पएसेण वयमाणा नो पुढवि पेच्चेमो अभिहणामो जाव उवद्वेमो- तएणं अम्हे पुढवि अपेच्चेमाणा अणभिहणेमाणा जाव अणुवद्वेमाणा तिविह तिविहेणं सजय जाव एगतपंडिया याचि भवामो ) तव उन स्थविर भगवंतोंने अन्य यूथिकजनों से इस प्रकार कहा- हे आर्यो ! चलते समय हम लोग पृथिवीकायिक जीव को दवाते नहीं हैं, उसको आघात नहीं पहुँचाते हैं, यावत् उसे मारते नहीं हैं । हे आर्यो ! गमन करते हुए हम लोग काय के कार्य को आश्रित करके, योग को - ग्लान आदि की सेवा को आश्रित करके, एवं स्वयं को-जीव संरक्षण रूप संयम का आश्रय करके एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाते हैं । एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाते हैं । इस तरह एक स्थल से दूसरे स्थल पर या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाते समय हम लोग पृथिवीकायिक जीव को दवाते नहीं हैं, उसे चोट नहीं पहुँचाते हैं यावत् उसे मारते नहीं हैं । अतः पृथिवीकायिक जीव को

पएसं पएसेण वयामो, तेण अम्हे देस देसेणं वयमाणा, पएस पएसेणं वयमाणा, नो पुढवि पेच्चेमो अभिहणामो जाव उवद्वेमो तएणं अम्हे पुढवि अपेच्चेमाणा अणभिहणेमाणा जाव अणुवद्वेमाणा तिविह तिविहेणं सजय जाव एगतपंडिया याचि भवामो ) हे आर्यो ! यावती वपते अमे पृथ्वीकायिक ज्वाने द्भावता नथी, तेमने आघात पडोयाडता नथी अने तेमने मारवा पर्यन्तनी डोष पथु किया करता नथी हे आर्यो ! अमे न्यारे गमन करता डोषमे छीमे न्यारे हायना हायने आश्रित करीने, (मणभूत आदि शारीरिक कार्य निमित्ते) योग निमित्ते (ग्लान आदिना वैयावृत्य निमित्ते) अने ज्वसरक्षणरूप सयमनी अपेक्षामे एक स्थलेथी भीने स्थले ज्वमे छीमे अने एक प्रदेशथी भीने प्रदेश तरक्ष ज्वमे छीमे आ रीते एक स्थलेथी भीने स्थले अथवा एक प्रदेशथी भीने प्रदेश तरक्ष जती वपते अमे पृथ्वीकायिक ज्वाने द्भावता नथी, तेमने आघात पडोयाडता नथी अने तेमने मारवा पर्यन्तनी डोष पथु किया करता नथी. आ रीते पृथ्वीकायिक ज्वाने नही द्भावतारा,



त्रिविधं त्रिविधेन असपता यावत् एकान्तबालाभापि मयध ततः स्वल् त्ते  
 अन्ययूयिकाः स्यधिरान भगवतः एवम् अत्राद्रिपुः-केन कारणेन भार्याः ।  
 वय त्रिविध त्रिविधेन यावत् एकान्तबालाभापि मयामः ? तत ग्यल् त्ते  
 स्थविराः मगवन्तः अययूयिकान एवम् अत्राद्रिपुः-युयं स्वल् भार्याः ! रीत  
 रीयमाणाः पृथिषीं पिचयय, यावत् उपद्रवयय, ततः स्वल् युयं पृथिषीं

नहीं दयाते हुए, वसे आट नहीं पहुँचाते हुए यावत् वसे नहीं  
 मारते हुए हम लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करनेवाछे  
 कैसे हो सकत हैं, अर्थात् नहीं हो सकत हैं इस तरह हम लोग  
 सयत, विलत यावत् एकान्ततः पण्डित हैं । ( तुज्ज णं अज्जा !  
 अप्पणा वेध तिविह त्रिविहेण भसजय जाय वाला यायि भयध ) हे  
 भार्यो ! प्रत्युत तुम स्वय ही त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से  
 करते हुए असपत यावत् बाल हा । ( तएण ते अनउत्थिया येरे  
 भगयंते एयं घयासी ) इस प्रकार सुनकर उन अययूयिकोने स्थविर  
 भगवन्तो से इस प्रकार कहा- 'केन कारणेण अज्जो ! अम्हे त्रिविहं  
 त्रिविहेण जाय एगंतबाला यायि भयामो ' हे स्थविर भार्यो ! हम  
 लोग कैसे त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करते हैं और यावत्  
 एकान्तबाल माने जाते हैं ? ( तएण ते येरा भगवन्तो अनउत्थिया  
 एय घयासी ) तब उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्ययूयिको से

तेमने छल नदी छोड़नाकरा यावत् तेमने नदी गारनरा जेना जगि होय त्रिविध  
 प्राणातिपातनु त्रिविध सेवन करनारा देवी रीते होय शक्ति ? जेदेवे हे जगि ते  
 त्रिविध प्राणातिपातने त्रिविध त्वाग करनारा छीज तेषा जगि सयत, विलत आदि  
 बुद्धेवाणा जने जेकान्त पंडित (सर्वथा ज्ञान शक्ति छीज) ( तुज्ज णं अज्जो !  
 अप्पणा वेध तिविह त्रिविहेण भसजय जाय बाला यायि मयध ) हे भार्यो !  
 तमे व त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविध सेवन करनारा होनाको लक्षयत आदि तब जात  
 (ज्ञान शक्ति) छे ( तएण ते अनउत्थिया येरे भगयंते एयं घयासी )  
 त्वारे ते परतीधित्तिजे ते स्थविर भगवतोने आ प्रभाजे १७५- ( केन कारणेण  
 अज्जो ! अम्हे त्रिविहं त्रिविहेण जाय एगंतबाला यायि भयामो ? ) हे भार्यो !  
 याय वा बाले जमने त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविध सेवन करनारा भयो छे । तमे  
 जमने जेकान्तबाल देवी रीते होय छे ? ( तएण ते येरा भगवन्तो अनउत्थिया  
 एय घयासी ) त्वारे ते स्थविर भगवतोने ते परतीधित्तिजे आ प्रभाजे जेबाल ज्योने-

पिच्यन्तः, यावत् उपद्रव्यन्तस्त्रिविधं त्रिविधेन यावत् एकान्तवालाश्चापि भवथ, ततःखलु ते अन्ययूथिकास्तान् स्थविरान् भगवत एवमत्रादिषु-युष्माकं खलु आर्याः ? गम्यमानम् अगतं व्यतिक्रम्यमाणम् अव्यतिक्रान्त राजगृह-नगरं संप्राप्तुकामम् असंप्राप्तम्, ततः खलु ते स्थविराः भगवन्तस्तान्

इस प्रकार कहा- ( तुज्जे ण अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह, जाव उवहवेह ) हे आर्यो ! आप लोग चलते समय पृथिवीकायिक जीव को दवाते हैं-यावत् उसे मारते हैं (तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चे माणा जाव उवहवेमाणा तिविहं तिविहेण जाव एगतवाला यावि भवह ) इस कारण पृथिवीकायिक जीव को दवाते हुए यावत् उसे मारते हुए आप लोग त्रिविध प्राणातिपान को त्रिविध से करते हैं- इसलिये यावत् आप लोग एकान्ततः बाल हैं । ( तएणं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी ) इस के बाद उन अन्य-यूथिकों ने उन स्थविर भगवन्तों से ऐसा कहा- ( तुज्जे ण अज्जो ! गममाणे अगते वीतिक्रमिज्जमाणे अवीतिक्रते रायगिहं नगरं संपावि उकामे असंपत्ते ) हे आर्यो ! तुम्हारे मतानुसार गम्यमान स्थल अगत, व्यतिक्रम्यमाण स्थल अव्यतिक्रान्त, तथा राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाले को वह नगर असंप्राप्त कहा जाता है ? ( तएणं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी-नो खलु अज्जो !

(तुज्जे ण अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह, जाव उवहवेह) हे आर्यो ! खलुती वपते तमे पृथ्वीकायिक भवने इभाववाथी लभने भारवा सुधीनी क्रियाभ्यो करे छे. (तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवहवेमाणा तिविहं तिविहेणं जाव एगतवाला यावि भवह) आ रीते पृथ्वीकायिक भवने इभाववाथी भाडीने भारवा यथन्तनी क्रियाभ्यो करता भ्येवा तमे दोक्के त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविधे सेवन करे छे तेथी तमे असंयत आदि विशेषणोवाणा पशु छे अने एकान्तत बाल पशु छे. (तएणं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवन्ते एवं वयासी) तारे ते पशुथीक्रियाभ्ये ते स्थविर भगवतोने आ प्रभासो कहुं- (तुज्जेणं अज्जा ! गममाणे अगते, वीतिक्रमिज्जमाणे अवीतिक्रते रायगिहं नगरं संपाविउकामे असंपत्ते) हे आर्यो ! तमारा मत अनुसार तो गम्यमान स्थल अगत, व्यतिक्रम्यमाण स्थल (भ्येण गवाभा आवतु स्थण) अव्यतिक्रान्त, तथा राजगृह नगरे यहाँयवानी धरुवावाणाने ते नगर असंप्राप्त कहेवाभा आवे छे (तएणं ते थेरा भगवन्तो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी) तारे ते स्थविर भगवतोभ्ये, तेभने आ प्रभासो कहुं- (नो खलु अज्जो !

अन्यपूधिकान एवमवादिषुः—नो खलु भार्या ! अस्माकं गम्यमानम् अगत  
 व्यतिक्रम्यमाणम् अव्यतिक्रान्तम्, राजगृहं नगरं यावत् अर्भमाप्तम्, अस्माक  
 खलु भार्या ! गम्यमानं गतम् व्यतिक्रम्यमाणं व्यतिक्रान्तं राजगृहं नगरं  
 ममाप्तुकामं संभाष्यम् युष्माकं खलु आत्मना वैषं गम्यमानम् अगत व्यति

अहं गममाणे अगए, वीदिकमिज्जमाणे अवीतिक्रान्ते रायगिहं  
 नगरं जाव अंसंपत्ते, अम्हाण अज्जो ! गममाणे गए वीतिकमिज्जमा  
 णे वीतिक्रान्ते रायगिहं नगरं मपायिउकामे सपत्ते, तुज्जण  
 अप्पणा वेव गममाणे, अगए वीतिकमिज्जमाणे अवीतिक्रान्ते राय  
 गिहं नगरं जाव अमपत्ते—तएण ते वेरा अगधत्तो उन्नतरिथए एव  
 पडिहणेति, पडिहणिवा गइप्पवाय नाम अज्जमण पन्नवइसु ) इस्से  
 वाद् उन स्थविरं अगधत्तो ने उन अन्यतीर्थिको से ऐसा कहा—हे  
 भार्या ! हमारे मत में गम्यमान स्थल—जिस स्थल पर जाना हो वह  
 स्थल अगत नहीं कहा गया है, व्यतिक्रम्यमाण—जो खलु घन करने में  
 आ रहा है ऐसा स्थल—अव्यतिक्रान्त नहीं कहा गया है, तथा राज  
 गृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाले को वह नगर अर्भमाप्त  
 नहीं माना गया है, किन्तु हे भार्या ! हमारे मत में गम्यमान स्थल  
 गत, व्यतिक्रम्यमाण स्थल व्यतिक्रान्त, तथा राजगृह नगर को प्राप्त  
 करने की इच्छा वाले को वह नगर संभाष्य कहा गया है। पर हां  
 तुम्हारे मतानुसार गम्यमान अगत,—व्यतिक्रम्यमाण अव्यतिक्रान्त,

अहं गममाणे अगए, वीदिकमिज्जमाणे अवीतिक्रान्ते रायगिहं नगरं जाव  
 अंसंपत्ते, अम्हाण अज्जो ! गममाणे गए वीतिकमिज्जमाणे वीतिक्रान्ते  
 रायगिहं नगरं मपायिउकामे सपत्ते, तुज्जण अप्पणा वेव गममाणे अगए,  
 वीतिकमिज्जमाणे अवीतिक्रान्ते रायगिहं नगरं जाव अंसंपत्ते तएण ते वेरा  
 अगधत्तो उन्नतरिथए एव पडिहणेति, पडिहणिवा गइप्पवाय नाम अज्जमण  
 पन्नवइसु ) के भार्या ! हमारा मत अनुसार तो गम्यमान स्थल (जो खलु घन  
 होव ते स्थल) अगत कहेवाट नहीं, व्यतिक्रम्यमाण (जो खलु घन होव ते स्थल  
 होव ते) स्थल अव्यतिक्रान्त कहेवाट नहीं, जो राजगृह नगर पदोपलब्धी  
 अर्भमाप्त करने की इच्छा वाले को वह नगर संभाष्य मानवामा आणु नहीं परन्तु हे भार्या ! हमें  
 तो अर्भमाप्त स्थल गत मानीजे जीजे, व्यतिक्रम्यमाण स्थल अव्यतिक्रान्त मानीजे  
 जीजे, जो राजगृह नगर पदोपलब्धी अर्भमाप्त होने के लिये नगर को प्राप्त मानीजे  
 जीजे वरदा तथा सिद्धी अनुधार के प्रकार की मानवता है। तबे दोनो अर्भमान

प्र. टीका अ.८ उ.७ मू.२ प्रह्वपक्रियानिमित्तकान्यतीर्थिकमतनिरूपणम् ७९५

क्रम्यमाणम् अव्यतिक्रान्तं राजगृहं नगरं यात् असंप्राप्तम्, ततः खलु ते स्थविरा भगवन्तः अन्ययूथिकान एव प्रतिघ्नन्ति, प्रतिहत्य गतिप्रपात नाम अध्ययन प्रज्ञापितवन्तः । मू० २॥

टीका—‘तए णं ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एव वयासी’-ततः खलु ते अन्ययूथिकाः अन्यतीर्थिकास्तान् स्थविरान् भगवतः एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादिषु—‘तुज्जेण अज्जो ! तिविह तिविहेणं अमजय जाव-एगंतवालायात्रि भवह ?’ हे आर्याः ! स्थविरा ! यूथ खलु त्रिविधं कृतादिलक्षणं त्रिविधेन मनः प्रभृतिना करणेन असंयताः. यावत् अविरताः, अप्रतिहतपापकर्माण, सक्रियाः, असंवृताः, एकान्तदण्डाः एकान्तवालाश्चापि भवथ ? ‘तएण ते थेरा भगवंतो ते

तथा राजगृह नगर का प्राप्त करने की इच्छा वाले को वह नगर असंप्राप्त कहा गया है । इस तरह से उन स्थविर भगवंतों ने उन अन्यतीर्थिक जनों को निरुत्तर किया ? निरुत्तर करके फिर उन्होंने गतिप्रपात नाम के अध्ययन की प्रवृत्त की ।

टीकार्थ—‘तएण ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी’ इसके बाद उन अन्यतीर्थिकोंने उन स्थविर भगवंतों से ऐसा कहा—‘तुज्जे णं अज्जो ! तिविह तिविहेणं अमजय जाव एगंतवाला यात्रि भवह’ हे आर्यो ! आप लोग त्रिविध प्राणातिपात आदि को कृत, कारित एवं अनुमोदित हिंसा को मन वचन और काय से करते हैं—इस कारण आप असंयत हैं, अविरत हैं, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यातपापकर्मा हैं, सक्रिय-कर्मबन्ध सहित हैं, असंवृत-सवर रहित

स्थाने अगत व्यतिक्रान्तान् अन्यतीर्थिकान् राजगृह नगरने प्राप्त करवानी प्रवृत्त-वाणा भाटे नगर असंप्राप्त माने छे आ प्रभावे तर्क शुद्ध धर्मीको वडे ते स्थविर भगवतोमे तेभने निरुत्तर करी दीधा, आ सीते तेभने निरुत्तर करी धने तेभणे “गतिप्रपात” नामना अध्ययननी प्रवृत्त करी.

टीकार्थ—“तएण ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी” तार भाव ते परतीर्थिकोमे ते स्थविर भगवंतोने आ प्रभावे कथु—“तुज्जेणं अज्जो ! तिविहं तिविहेणं असंजय जाव एगंतवाला यात्रि भवह” हे आर्यो ! तमे त्रिविध प्राणातिपातनु (करुणु, करारवु अने अनुमोदु अने त्रय प्रकारनी हिंसानु) मन, वचन अने कायाइप त्रय प्रकारे सेवन करे छे ते कारणे तमे असंयत छे, अविरत छे, अप्रतिहत अप्रत्याख्यात-पापकर्मा छे, सक्रिय (कर्मबन्ध सहित) छे, असंवृत (संवर रहित) छे, एकान्त दंड (प्राणातिपात) सहित छे, अने एकान्ततः भाव अज्ञ (सर्वथा गान रहित) पथु छे ।

अन्नउत्थिए एष वयासी'—नतःस्त्रुते ते स्थविरा भगवन्तगतान् भन्पयुधिकान्  
 अन्यतीर्थिकान् एष वक्ष्यमात्मप्रकारम् भयादिपुः—कण कारणेण भग्ने तिविह  
 तिविहेण जाव एगंतभामायापि भयामो ? हे आर्या ! केण कारणेण स्त्रुते एष  
 विविध कृतादिलयण विविधेन करणेन मनःप्रभृत्तिलयणेन यावत् अत यताः  
 भविरताः, भवतिहत्तपापकर्माः सक्रियाः, असद्वृत्ताः, एतान्तदृष्टाः एकान्त-  
 वालाभापि भयामः ? तए न ते भन्नउत्थिया, न येरे भगवते एष वयासी'  
 तनःस्त्रुते ते अययुधिकान् स्तान् स्थविरान् भगवतः एष वक्ष्यमात्मप्रकारमवा  
 दिपु—'तुन्ने न भज्जो । रीय रीयमाणा पुडविं पेक्खेह, अभिहणह, वणेह  
 छेमेह, सघाएह' हे आर्या ! स्थविरा ! यूय म्बलु रीठ गमन रीयमाणाः

हैं, एकान्त दण्ड-प्राणातिपातमहित हैं और एकान्ततः आप लोग काम  
 भक्ष भी हैं । 'तएण ते येरा भगवतो ते भन्नउत्थिए एष वयासी'  
 इस प्रकार से जब अन्ययुधिकों ने उन स्थविर भगवतों से कहा-  
 तय उन्हों ने उनसे ऐसा कहा कि 'केण कारणेण भग्ने तिविहं  
 तिविहेण जाव एगंतभाला यापि भयामो' हे आर्या ! जो तुम  
 लोग हम पर इस प्रकार का आरोप लगाते हो सो यह तो बताओ  
 कि इसका क्या कारण है—कि जिससे तुम्हारा यह कथन कि "आप  
 लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करते हैं इसलिये यावत्  
 एकान्ततः आप लोग पाल अन्न हैं" हम पर लागू हो सके—तएण  
 ते भन्नउत्थिया ते येरे भगवते एष वयासी' तय उन अन्ययुधिकों  
 ने उन स्थविर भगवतों से ऐसा कहा—'तुन्ने नं भज्जो । रीय  
 रीयमाणा पुडविं पेक्खेह, अभिहणह, वणेह, छेमेह, सघाएह' हे

"तएण ते येरा भगवतो ते भन्नउत्थिए एष वयासी" ते अन्यतीर्थि-  
 कान् आ प्रकान्ते आशय अल्लोने ते स्थविर भगवतीन्ने तेभन्ने आ प्रकान्ते पूणु ?  
 "केण कारणेण भग्ने तिविहं तिविहेण जाव एगंतभामा यापि भयामो"  
 हे आर्या ! तमे अमरा उपर अन्ना आशय का कारणे भूया छे । ते अन्ने त्रिविध प्राणा  
 तिपातनुं त्रिविध सेवत् करीन्ने छीन्ने ? अमने अन्नयत् आदि था भाये उठे, आ ? अन्ने  
 उन्नी इति अन्नततः आत्त अन्न (अन्न वा शान्त शक्ति) छीन्ने ।

"तएण ते अन्नउत्थिया ते येरे भगवते एष वयासी" त्वरे ते भन्ती-  
 किन्ने ते स्थविर भगवतोने आ प्रकान्ते अन्ना आशये—'तुन्ने नं भज्जो ।  
 रीय रीयमाणा पुडविं पेक्खेह अभिहणह, वणेह, छेमेह, सघाएह'

गच्छन्तः, गमनं कुर्वन्तः, पृथिवीं पिच्ययथ, पिष्ट, पीडयथ, पृथिवीं विराधयथ इतिभावः । अभिहृथ-पादाभ्यामाभिमुख्येन हथ, वर्तयथ-पादाभिघातेनैव-श्लक्ष्णतां चूर्णतां वा नयथ, श्लेषयथ-भूमिश्लिष्टां संवद्धां कुरुथ, संघातयथ-सहतां कुरुथ, 'संघट्टेह, परितावेह, किलावेह. उवहवेह, संघट्टयथ-स्पृशथ-सघट्टी कुरुथ, परितापयथ-समन्तात् सतापयुक्तां कुरुथ, क्लमयथ-मारणान्तिक समुद-घातं प्रापयथ, उपद्रवथ-मारयप्रतिभावः 'तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवहवेमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय-अविरय-जाव एगंतवालायावि भवह' ततस्तस्मात् कारणात् खलु यूयं पृथिवीं पिच्यन्तः पिपन्तो यावत् अभिघ्नन्तः, वर्तयन्तः, श्लेषयन्तः, सघातयन्तः, संघट्टयन्तः, परितापयन्तः, क्लमयन्तः, उपद्रवन्तस्त्रिविध कृतादिलक्षणं त्रिविधेन मनःप्रभृतिना करणेन असंयताः,

आर्यो ! जब आप लोग रीत-गमन-रीयमाणा करते हैं. तब उस समय पृथिवी को-पृथिवीकायिक जीव को आप लोग पीसते हैं- अर्थात् दवाते हुए चलते हैं, 'अभिहणह' उसे अपने पैरों द्वारा आघात पहुँचाते हैं, 'वत्तेह' पैरों के आघात से उसे चूर्ण २ कर देते हैं, 'लेसेह' भूमि में भूमि को संवद्ध करते हैं 'संघाएह' संघट्ट करते हैं 'संघट्टेह, परितावेह, किलावेह, उवहवेह' उसे संघट्टित करते हैं, परितापित - सब ओर से सतापित करते हैं, उसे मारणान्तिक अवस्था में ला देते हैं, मार देते हैं 'तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवहवेमाणा तिविहं तिविहेणं असंजय अविरय जाव एगंतवाला यावि भवह' इस तरह से पृथिवी को पीसते हुए यावत् उसे मारते हुए आप लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करते हैं-अतः आप लोग असंयत हैं. अविरत हैं, यावत्

हे आर्यो ! तबे दोड़ो न्यारे गमन करे छे, तयारे पृथ्वीकायिक जीवने तभारा पग तबे दयावता आबे छे, "अभिहणह" तबे तभारा पगथी तेभने आघात पहुँचायेछे छे, 'वत्तेह' तभारा पगना आघातथी तबे तेभना बूरे बूरा करी नाथे छे, "लेसेह" तेभन भूमि साथे जकडी हो छे, "संघाएह" तेभने संवद्ध करे छे, "संघट्टेह, परितावेह, किलावेह, उवहवेह" तेभने संघट्टित (अेकत्र) करे छे, परितापित (स ताप युक्त) करे छे, तेने मारणान्तिक अवस्थाभा लावी हो छे अने मारी नाथे छे "तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवहवेमाणा तिविहं तिविहेण असंजय-अविरय-जाव एगंतवाला यावि भवह" आ रीते पृथ्वीकायिकने दयावताथी दधने मारवा पर्यन्तनी क्रियाओ करनारा तबे दोड़ो त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविध



पएसेणं वयामो' हे आर्थाः । अन्यतीर्थिकाः । वयं खलु रीत गमनं  
रीयमाणा गच्छन्तः गमन कुर्वाणा कार्यं वा प्रतीत्य आश्रित्य उच्चारप्रवस्रणादि  
कार्यकार्यमपेक्ष्येत्यर्थः, योगं वा ज्ञानवैयावृत्यादिव्यापारं प्रतीत्य अपेक्ष्य  
ऋतं सत्यं वा प्रतीत्य अप्कायादिजीवसरक्षणलक्षणं संयममाश्रित्य देशं देशेन  
व्रजामः प्रचुरायाः पृथिव्याः यो स्वाभीष्टत्वेन विवक्षितो देशः एकदेशस्तं  
देशेन-एकदेशेन व्रजामो नतु अविशेषेण ईर्यासमितिपरायणत्वेन सचेतनदेश  
परिहरन्तोऽचेतनदेशैर्व्रजाम इत्याशयः एवं प्रदेशं प्रदेशेन व्रजामः, तत्र

माणा ' जब गमन करते हैं तब ' कार्यं वा जोगं वा रीयं वा पडुच्च  
देसं देसेण वयामो पएस पएसेणं वयामो ' प्रस्रवण उच्चार आदि  
शारीरिक कार्य की अपेक्षा करके, या योग-ज्ञान के वैयावृत्य आदि  
व्यापार को लेकर के, या अप्कायादि जीवों के मरक्षण रूप संयम  
को आश्रित करके एकदेश से दूसरे देश में जाते हैं. जाने के  
लिये जो अपने को अभीष्ट स्थान है उसका नाम एकदेश है—  
क्यों कि भूमण्डल तो बहुत बड़ा है. उस पूरे भूमण्डल पर तो जाते  
नहीं हैं—अभीष्ट गन्तव्य स्थान पर ही जाते हैं—अतः ये जो अभीष्ट  
गन्तव्य स्थान है वही यहाँ पर एकदेश से गृहीत किया गया है.  
सो उस स्थान पर भी जाते समय जो वहाँ पर जाने का रास्ता  
है उम्मी से होकर जाते हैं यदि उस रास्ते में कोई सचेतन स्थान  
आ जाता है. दूर्वा आदि से सकुलित मार्ग पडता है. तो उस स्थान  
मार्ग से होकर हम लोग नहीं जाते हैं—किन्तु ईर्यासमिति में परा-  
यण रहने के कारण हम लोग उस सचित्त मार्ग को बचाते हुए

'रीयं रीयमाणा' ने गमन करीये छीये ते तो 'कार्यं वा जोगं वा रीयं वा  
पडुच्च देस देसेणं वयामो पएस पएसेण वयामो' उच्चार प्रस्रवण आदि शारीरिक  
कार्यनी अपेक्षाअ अथवा योगनी अपेक्षाये (ज्ञान-विभार आदिना वैयावृत्य आदि कार्य  
माटे) अथवा अप्काय आदि छीवाना सरक्षण रूप संयमनी अपेक्षाये करीये छीये  
आ निमित्तोनी अपेक्षाये अ अमे अेकदेशथी (स्थानथी) नीने स्थाने नथये छीये  
नवाने माटेनु अभीष्ट के स्थान तेने देश कडे छे, भूमंडल तो बहुत मोट्ट छे ते आभा  
भूमंडल पर तो अमे जाता नथी पणु अभीष्ट स्थाने न नथये छीये. आ रीते अही  
देश' पदथी अभीष्ट गन्तव्य स्थानने न अडुछ करवामा आभ्यु छे वणी त्यां नती  
वभते गमे ते मार्गे अमे जाता नथी पणु त्या नवाने ने रस्तेो डाय त्या थधने न  
नथये छये वणी ने ते मार्गे उपर धास आदि कौछ अथेय पदार्थ पडयेो डाय तो





पृथिवीम् अपिञ्चयन्तः—अपीडयन्तः, अनभिघ्नन्तः, यावत् अवर्तयन्तः, अश्लेष-  
यन्तः, असंघातयन्तः, असंघट्टयन्तः, अपरितापयन्तः, अक्लमयन्तः, अनुपद्रव-  
यन्तः त्रिविध कृतादिलक्षणं त्रिविधेन मन प्रभृतिना करणेन सयताः संयमवन्तः  
यावत् विरताः, प्रतिहतपापकर्माणः, अक्रियाः, संवृताः, अनेकान्तदण्डाः,  
एकान्तपण्डिताश्चापि भवामः, अथोक्तगुणयोगेन नास्माकामत्र एषामन्यतीर्थिकानां  
गमनं भवतीति अभिप्रायेण स्थविरास्तेषां पृथिव्याक्रमणादितोऽसंयतत्वादिगुणत्वं  
प्रतिपादयितुम् अन्यतीर्थिकान् प्रत्याहुः—‘ तृज्जेणं अज्जो ! अप्पणा चेव

परिस्थिति के नहीं हैं. अर्थात् पृथिवी को जब हम लोग दयाते नहीं  
हैं, उसे किसी भी तरह की चोट पहुँचाते नहीं हैं यावत् उसे मारते  
नहीं हैं तो फिर क्यों कर हम लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध  
से करने वाले माने जा सकते हैं ? अतः हम लोग संयत हैं यावत्  
एकान्ततः पण्डित हैं। यहाँ पर प्रथम ‘यावत् पदसे ‘अवर्तयन्तः,  
श्लेषयन्तः, असंघातयन्तः, असंघट्टयन्तः, अपरितापयन्तः, अक्लमयन्तः’  
इन पदोंका संग्रह हुआ है। तथा दूसरे यावत् शब्दसे विरताः, प्रतिहतपाप-  
कर्माणः, अक्रियाः, संवृताः, अनेकान्तदण्डाः’ इन शब्दोंका संग्रह हुआ है।  
अब सूत्रकार यह प्रकट करते हैं कि जिस तरह से इन पूर्वोक्त  
गुणों से युक्त होकर स्थविर भगवन्तों का गमन होता है उस तरह  
से इन अन्यतीर्थिकजनों का गमन नहीं होता है इसी अभिप्राय  
से स्थविर जन उन अन्यतीर्थिकजनों से ऐसा कहते हैं कि आप  
लोग पृथिवी के आक्रमणादि से असंयत हैं अविरत हैं यावत्

नथी, तेमने आघात पहुँचाउता नथी अने तेमने मारवा पर्यन्तनी डोष पण्य पूर्वोक्त  
क्रियाओ अमे करता नथी छतां आप अमने त्रिविध प्राणातिपातनु त्रिविधे सेवन  
करनारा केवी रीते कहे छे ! अमे तो आ रीते त्रिविध प्राणातिपातने त्रिविधे त्याग  
करनारा होवाधी अथत छीये, विरत छीये, प्रतिहत, प्रत्याप्यात पापकर्मा छीये,  
कर्मांध रहित छीये सवृत्त छीये अने प्राणातिपात रहित छीये अमे तो  
अनेकान्ततः पण्डित अ छीये अही ‘ जाव अणुवद्दवेमाणा ’ साथे आवेला  
‘ जाव ’ ( यावत् ) पदथी ‘ अवर्तयन्तः अश्लेषयन्तः, असंघातयन्तः, असंघट्ट-  
यन्तः अपरितापयन्तः, अक्लमयन्तः ’ पदोने संग्रह थयो छे हुवे सूत्रकार अमे  
वात प्रकट करे ● के अ रीते आ पूर्वोक्त गुणोथी युक्त थअने स्थविरा गमन  
करे छे, अ रीते आ परतीर्थिको गमन करता नथी. ते कारणे अ स्थविर  
भगवतो तेमने कहे छे के तमे लेके पृथ्वीकधिकेने अगहवानी, आघात पहुँ-  
चाउवानी वगेरे क्रियाओ करनारा छे, तेनी तमे असंयत आदि अवस्थावाणा अनेकान्ततः

त्रिविधं त्रिविधेण असजय जाय एगंतवाला यायि मयह' हे आर्या, यूयं स्वच्छ  
आत्मना स्वयमेव चैव त्रिविधं कृतादिलक्षणं त्रिविधेन मन मभृतिना करणेन  
असपत्ता सयमरहिता, यावत् यरिरताः, अप्रतिहतपापकर्माणि, सक्रियाः-  
कर्मबन्धमहिताः, अमदृताः, एकान्तदण्डा-सर्वथा हिमाकारकाः, एकान्तवालाः  
सर्वथा ज्ञानरहितामापि, मनय, 'तए ण त अजउत्थिया घेरे भगवते एषं  
वयासी' तत् त्वत्तु ते अपयुथिकाः अन्यतीर्थिका स्थविरान् मगवत एव  
वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादिषुः 'केण कारणेण अज्जो ! अग्दे त्रिविह जाय  
एगंतवाला यायि मयामो ?' हे आर्याः ! स्थविराः ! केन कारणेण त्वं  
त्रिविधं कृतादिलक्षणं त्रिविधेन मनोबन्ध पायम्भरणेन करणेन यावत् अमपत्ताः,

एकान्ततया चाले- 'तुज्जे णं अज्जो ! अप्पणाचेय त्रिविहं त्रिविहणं  
असजय जाय एगंतवाला यायि मयह' इमं सूत्रं द्वारा स्थविर भग  
वत यह पात अन्यतीर्थिकजनों से कह रहे हैं कि हे आर्यो ! आप  
लोग कृत, कारित और अनुभोवित प्राणातिपात का मन, पचन,  
और काय से परने के कारण स्वयं ही असायत, अधिरत, अप्रतिहत  
अप्रत्याख्यात पापकर्मा हैं, सक्रिय हैं, कर्मबन्ध सहित हैं, अमदृता-  
सवररहित हैं, सर्वथा हिंसा कारक हैं, तथा सर्वथा ज्ञान रहित हैं !  
'तए ण ते अजउत्थिया घेरे भगवत एषं वयासी' इस प्रकार स्थविर  
मगवतोंकी यात सुनकर उन अन्ययुथिकों त उनसे ऐसा कहा-  
'केण कारणेण अज्जो ! अग्दे त्रिविहं त्रिविहणं जाय एगंतवाला यायि  
मयामो' हे आर्यो ! हमलोग किस कारण से त्रिविधं प्राणातिपात  
को त्रिविध से करनेपाछे माने जाते हैं ? कि जिससे हम अज्ञयत,

आत्तं च छिन्नं वात नीक्षिना सत्तं द्वारा प्रथमं चाले- 'तुज्जेण एज्जो ! अप्पणा  
चेय त्रिविहं त्रिविहणं असजय जाय एगंतवाला यायि मयह' स्थविर भगवतो  
अन्यतीर्थिकोंने कहे छे- तमे च हृतं कर्तितं अने अनुभोवितं इयं त्वे प्रभारना  
प्रजातिपातनुं मन, पचन अने कायसी सेवन इये छे। तथी तमे च, असंयत, अविश्व  
अने अप्रतिहत अप्रत्याख्यात पापकर्मा छे। तमे च सक्रिय (इमं च सक्रियं),  
अमदृता, सवथा हिंसाकारक अने सवथा ज्ञानरहित छे। 'तए ण ते अजउत्थिया  
घे घेरे भगवते एषं वयासी' तं स्थविर भगवतोनी आ प्रभारनी यातं सत्तं नीक्षिने  
ते पर तीर्थिकोंने तंभने आ प्रभावे पृच्छ- 'केण कारणेण वं अज्जो ! अग्दे  
त्रिविहं त्रिविहणं जाय एगंतवाला यायि मयामो' हे आर्यो ! तमे वा कारणे  
अभने त्रिविधं प्राणातिपातनुं त्रिविध सेवन अज्ञयत माने छे ? अभने

विरताः, अप्रतिहतपापकर्माणिः, सक्रियाः, असंवृताः, एकान्तदण्डाः,  
 कान्तवालाश्चापिमंदाव ? 'तए णं ते येरा भगवंतो अन्नउत्थिए एवं वयासी'  
 तः खलु ते स्थविराः भगवन्तः अन्ययूधिकान् अन्यतीर्थिकान् एवं वक्ष्यमाण-  
 कारणेण अवादिपुः 'तुव्भे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह जाव  
 उवह्वेह' हे आर्याः ! अन्यतीर्थिकाः ! यूयं खलु रीत गमन रीयमाणाः  
 च्छन्तः गमन कुर्वाणा इत्यर्थः पृथिवीं पिच्चयते-पिष्ठ, यावत् अभिहते, वर्त  
 ते, श्लेषयते, सघातयते, सघट्टयते, परितापयते, क्लमयते, उपद्रवयते, 'तए  
 णं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा, जाव उवह्वेमाणा तिविह तिविहेणं जाव एगंत-  
 ाला यावि भवह' ततः खलु यूयं पृथिवीं पिच्चयन्तः पीडयन्तः, यावत्

विरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यातपापकर्मा हों सक्रिय हों, असंवृत  
 हों, एकान्तप्राणातिपात कारक हों, और एकान्तवाल हों । ' तएणं  
 येरा भगवंतो अन्नउत्थिए एव वयासी' तब स्थविर भगवतों ने  
 उनसे ऐसा कहा- ' तुव्भे णं अज्जो ! रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह  
 जाव उवह्वेह ' हे आर्यो ! तुम लोग गमन करते हुए पृथिवी को  
 दबाते हो, यावत् उसे मारते हो. यहां यावत् शब्द से ' अभिहथ,  
 वर्तयथ, श्लेषयथ, सघातयथ, सघट्टयथ, परितापयथ, क्लमयथ' इन  
 क्रियापदों का संग्रह किया गया है । ' तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा  
 जाव उवह्वेमाणा तिविहं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवह '  
 अतः पृथिवी को दबाने के कारण, यावत् उसे मारने के कारण आप  
 लोग त्रिविध प्राणातिपात को त्रिविध से करते हैं, यावत् एकान्त

मस्यथ, अविरत, अप्रतिहत, अप्रत्याख्यात पापकर्मा, सक्रिय असंवृत  
 एकान्त हिंसाकारक अने सर्वथा गान रहित शा भाटे कहे छे ।  
 तएणं येरा भगवंतो अन्नउत्थिए एवं वयासी' त्वादि ते स्थविर भगवतोऽप्ये ते  
 इत्थीतिष्ठानि आ प्रभाषे कथु- 'तुव्भेणं अज्जो रीयं रीयमाणा पुढविं पेच्चेह  
 जाव उवह्वेह' हे आर्यो ! यावती वयते तमे लोकं पृथ्वीने (पृथ्वीकाय उवातेने)  
 आवापथी लभने मारवा पर्यन्तनी पूर्वोक्त क्रियाओ करे छे। अही 'जाव' पदथी  
 अभिहथ, वर्तयथ, श्लेषयथ, सघातयथ, सघट्टयथ, परितापयथ, क्लमयथ'  
 आ क्रियापदोने संग्रह थयो छे 'तएणं तुज्जे पुढविं पेच्चेमाणा जाव उवह्वे-  
 माणा तिविह तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवह' आ रीते पृथ्वीकायोने  
 आवापथी माडीने मारवा पर्यन्तनी क्रिया करनार तमे लोकं त्रिविध प्राणातिपातवु  
 त्रिविधे सेवन करे छे। ते कारणे तमे अस्ययथी लभन अनेकान्तथाव सुधीनी अवस्थावाणा

अभिघ्नन्तः, वर्तयन्तः, श्लेषयन्तः, सघातयन्तः, सघट्टयन्तः, परितापयन्तः, क्लमयन्तः, उपद्रवयन्तस्त्रिभिर्घा कृतादिक्लमण त्रिभिधेन मनःममृतिना करणेन यावत्-अस यताः, अप्रतिहतपापकर्माणः, सक्रियाः, अस वृत्ताः, एकान्त दृष्टाः एकान्तवासा अत्यन्ताज्ञावापि मद्यथ, 'तएण ते अन्नउत्थिया ते येरे मगवते एष वयासी'-तत् खलु ते अन्ययूयिका अन्यतीर्थिकास्तान् स्वविरान् मगवतः एवम् वक्ष्यमाणामकारेण भवादिषु-तुज्झे ण अज्जो ! गममाणे अगते धीतिक्कमिज्जमाणे अशीतिक्कते रायगिहं नगरं सपाचितकामे अमपत्ते हे- आर्या ! स्वविराः ! यूय खलु गम्यमानम् अगत व्यतिक्रम्यमाणम् उल्लङ्घ्यमानम् अभ्यतिक्रान्तम् अनुत्लपितम् राजगृहं नगरं समाप्तुकामम्

बाल माने जाते हो । यहाँ प्रथम यावत् शब्द से "अभिघ्नन्तः, वर्तयन्तः, श्लेषयन्तः, सघातयन्तः, सघट्टयन्तः, परितापयन्तः, क्लमयन्तः" इन क्रियापदों का संग्रह हुआ है । दूसरे यावत् शब्द से 'अस यताः, अचिरताः, अप्रतिहतपापकर्माणः, सक्रियाः, अस वृत्ताः, एकान्तदृष्टाः' इन पदों का संग्रह हुआ है । 'तएण ते अन्नउत्थिया ते येरे मगवते एष वयासी' इसके बाद उन अन्ययूयिकों ने उन स्वविर मगवन्तों से क्या कहा सो इसे यों प्रकट किया गया है- 'तुज्झे ण अज्जो ! गममाणे अगते, धीतिक्कमिज्जमाणे अशीतिक्कते, रायगिहं नगरं सपाचितकामे अमपत्ते' हे आर्यों ! आप लोग गम्यमान स्थल को अगत, व्यतिक्रम्यमाण स्थल को अभ्यतिक्रान्त-अनुत्लपित, तथा प्राप्त करने की इच्छा के विषयमूल हुए राजगृहं नगर

मानवाने योज छे। पठेथ 'याव' (यावत्) पश्ची 'अभिघ्नन्तः, वर्तयन्तः, श्लेषयन्तः, सघातयन्तः, सघट्टयन्तः, परितापयन्तः क्लमयन्तः' आ क्रियापदोने अरुण् इत्याभा आत्था छे आने पीअ 'याव' वं-त पश्ची अस्संयता अचिरताः, अप्रतिहतपापकर्माणः, सक्रियाः अस वृत्ताः, एकान्तदृष्टाः' आ पदोने अरुण् इत्याभा आत्था छे 'तएण ते अन्नउत्थिया ते येरे मगवते एष वयासी' त्वात्तएण ते परतीविधेअन्ते ते स्वविर अजवतोने आ प्रभात्ते अणु-तुज्झे ण अज्जो ! गममाणे अगते धीतिक्कमिज्जमाणे अशीतिक्कते, रायगिहं नगरं सपाचितकामे अमपत्ते' छे आने। तस्मिं कोट्टे अज्जमान (अथां अज्जामां आत्तं होय) स्थाने अजत माने। छे। अतिअभात्त (अतिअभात्त आत्ता) स्थाने अभ्यतिक्रान्त (अनुत्लपित) माने। छे। तथा राजगृहं नगरे पठेयवानी अज्जमाने

असंप्राप्तम् भवतीति मन्यध्वे, तएण ते थेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एव वयासी 'ततः खलु ते स्थविरा भगवन्नस्तान अन्ययूथिकीन् अन्यतीर्थिकान् एवं वक्ष्यमाणप्रकारेण अवादिषुः- 'णो खलु अज्जो ! अम्हे गममाणे अगए वीइक्कमिज्जमाणे अवीइक्कते रायगिह नगर जाव असपत्ते' हे आर्याः ! नो खलु वयम् गम्यमानम् अगतम् व्यतिक्रम्यमाणम् अव्यतिक्रान्त राजगृहं नगरं यावत् संप्राप्तुकामम् अय प्राप्त भवतीति मन्यामहे, अपितु- 'अम्हाणं अज्जो ! गममाणे गए वीतिक्रमिज्जमाणे वीतिक्रान्ते रायगिह नयरं सपाविउकामे सपत्ते' हे आर्याः ! अन्यतीर्थिका ! अम्माव मते गम्यमानं गते व्यतिक्रम्यमाण व्यतिक्रान्त राजगृहं नगरं संप्राप्तुकामं संप्राप्त भवति, तुज्जेण अप्पणाचेन गममाणे अगए वीइक्कमिज्जमाणे अवीइक्कते रायगिह नयरं

को असंप्राप्त मानते हैं, 'तएणं ते थेरा भगवतो ते अन्नउत्थिए एव वयासी' उनकी ऐसी बात सुनकर स्थविर भगवन्तोंने उन अन्य यूर्थिकों से ऐसा कहा- 'णो खलु अज्जो ! अम्हं गममाणे अगए, वीइक्कमिज्जमाणे अवीइक्कते, रायगिहं नयरं जाव अमपत्ते' हे आर्या ! हम लोग गम्यमान को अगत, व्यतिक्रम्यमाण को अनुल्लघित और प्राप्त करने की इच्छा के विषयभूत हुए राजगृह नगर को असंप्राप्त नहीं मानते हैं, अपि तु- 'अम्हाण अज्जो ! गममाणे गए, वीतिक्रमिज्जमाणे वीतिक्रान्ते, रायगिहं नगरं सपाविउकामे सपत्ते' हे आर्या ! हम लोग गम्यमान को गत, व्यतिक्रम्यमाण को उल्लघित, तथा प्राप्त करने की इच्छा के विषयभूत बने हुए राजगृह नगर को संप्राप्त मानते हैं 'तुज्जे ण अप्पणा चेव गममाणे अगए, वीतिक्रमिज्जमाणे

भाटे तमे लोडो राजगृहनगर असंप्राप्त माने छे तए ण ते थेरा भगवतो ते अन्न-उत्थिए एव वयासी' तेमनी आर्या वात सालणीने ते स्थविर लगव तोने ते परतीर्थिकेने आ प्रभाषे क्खु- 'णो खलु अज्जो ! अम्हं गममाणे अगए, वीइक्कमिज्जमाणे अवीइक्कते, रायगिहं नयरं जाव असपत्ते' हे आर्या ! अम्हे गम्यमाने अगत, व्यतिक्रम्यमाणे अनुल्लघित अने राजगृह नगर ने प्राप्त करवानी इच्छावाण भाटे राजगृह नगर असंप्राप्त छे, अेषु मानता नथी जित्तु 'तुम्हाणं अज्जो ? गममाणे गए, वीतिक्रमिज्जमाणे वीतिक्रान्ते, रायगिह नयरं सपाविउकामे सपत्ते' हे आर्या ! अम्हे नो गम्यमाने गत, व्यतिक्रम्यमाणे उल्लघित अने राजगृह प्राप्त करवानी इच्छावाण भाटे राजगृह नगर संप्राप्त मानीअे छीअे अट्ठे इ राजगृहनगरे पडोयवानी इच्छायी तोडणेसे। भाषुस राजगृह नगरे पडोयची न जतय छे अेम मानीअे छीअे 'तुज्जे ण अप्पणा

‘माघभसंपते’ यूर्यं स्वच्छ आत्मना स्वयमेव चैव गम्यमानम् अगत, व्यतिक्रम्य  
माणम् अभ्यतिक्रान्त राजगृहं नाम नगरं यावत् सोपापुष्कामम् असमाप्त भवति  
इति मन्यच्च, ‘तद्यत् ते येरा भगवतो अन्नठस्यि एव पडिहणेति, पडि  
हणिणा, गडप्पवाय नाम अञ्जयण पत्ते वइसु’ तत् स्वच्छ ते स्यावरा मगधन्तः  
अन्ययूधिकान् अन्यतीर्थिकान् एवम् उक्तप्रकारेण प्रतिष्णन्ति निरुत्तरान् कुर्वन्ति  
प्रतिहस्य निरुत्तरीकृत्य गतिप्रपातं नाम अप्ययन प्रज्ञापितवन्तः, गतेः प्रवृत्तेः  
क्रियायाः प्रवातप्रपतर्न समरः प्रयोगादिष्वर्थेषु वर्तन गतिप्रपातस्तस्मिन्  
पादकमध्ययन गतिप्रपात तत्प्रज्ञापितवन्तः प्ररूपितवन्त गतिचिन्तारप्रस्तावा  
विस्तारान् ॥सू० २॥

अधीशक्ते, रायगिह नगरं जाव भसपत्ते’ परन्तु हे भायौ ! तुम  
लोग ही स्वयं इस यात को मानते हो कि जो गम्यमान होता है  
वह अगत होता है, जो व्यतिक्रम्यमाण होता है वह अनुल्लंघित  
होता है तथा प्राप्त करने की इच्छा का विषयभूत राजगृह नगर  
असमाप्त है, ‘तद्यत् ते येरा भगवतो अन्नठस्यि एव पडिहणेति,  
पडिहणिणा गडप्पवाय नाम अञ्जयण पन्नवइसु’ इस तरह से उन  
स्वविर भगवतों ने उन अन्ययूधिकों को निरुत्तर कर दिया निरुत्तर  
करके पाद में उन्होंने ने गतिप्रपात नाम का अप्ययन प्रज्ञापित किया।  
गति-प्रवृत्ति क्रिया इसका प्रपतन-समर-प्रयोगादि अर्थोंमें वर्तन-  
इसका नाम है गतिप्रपात, इस गतिप्रपातका प्रतिपादक जो अप्ययन  
है वह गतिप्रपात ही है इस गतिप्रपात अप्ययन की उन्होंने प्ररूपणा  
इमलियेकी कि यहाँ पर गति के विचारका प्रकरण चल रहा है ॥सू० २॥

चेव गममाणे अगत्, श्रीतिक्रमिञ्जमाणे अवीकृते, रायगिह नगरं जाव  
भसपत्ते’ हे भायौ ! तमि दोहो पाते न् अन्तु भानो छे । अन्तु भान् अगत होय छे,  
व्यतिक्रम्यमाण् ने स्वयं होय छे वे व्यतिक्रान्त होय छे अन्ते राजगृहं नगरं  
असमाप्त भवती उक्तावाणो भाटे राजगृहं नगरं असमाप्त होय छे ।

‘तद्यत् ते येरा भगवतो अन्नठस्यि एव पडिहणेति, पडिहणिणा  
गडप्पवाय नाम अञ्जयण पन्नवइसु’ आ हीने इतीति करीने ते स्वविर भगव  
तोने ते परतीर्थिकेने निरुत्तर करी दीया तेभने निरुत्तर करीने तेभने अतिप्रपात  
नामना अप्ययननी प्ररूपणा करी अतिनु ( प्रवृत्ति अप्ययन क्रियानु ) प्रपतन ( समर  
प्रवे आदि अर्थोभा वगन ) अन्ते अतिप्रपात आ अतिप्रपातनु अनिपादन इत्यादि  
ने अप्ययन छे तेने अतिप्रपात अप्ययन कहे छे अन्ती अतिनु प्ररूपणा आही रगुं छे  
वेधी तेभने अतिप्रपात अप्ययननी प्ररूपणा करी ॥ सू० २ ॥

गतिप्रपाताध्ययनवक्तव्यता ।

मूलम्- 'कइविहे णं भंते ! गइप्पवाए पण्णत्ते ? गोयमा ! पंचविहे गइप्पवाए पण्णत्त, ! तंजहा-पयोगगई, ततगई, बंधण-छेयणगई, उववायगई, विहायगई, एत्तो आरब्भ, पयोगपयं निरवसेसं भाणियव्वं जाव सेत्तं विहायगई, सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति' ॥३॥ अट्टमसयस्स सत्तमो उद्देशो सम्मत्तो ।

छाया-कतिविधः खलु भदन्त ! गतिप्रपातः प्रज्ञप्तः ? गौतम ! पञ्च विधो गतिप्रपात प्रज्ञप्तः, तद्यथा-प्रयोगगतिः, ततगतिः, बन्धनच्छेदनगतिः, उपपातगतिः, विहायोगतिः, इत आरभ्य प्रयोगपदं निरवशेषं भणितव्यम्, यावत् सा एषा विहायोगतिः, तदेव भदन्त ! तदेवं भदन्त ! इति ॥ सू० ३ ॥  
अष्टमगतकस्य सप्तम उद्देशकः समाप्तः ।

गतिप्रपाताध्ययनवक्तव्यता

'कइविहे णं भंते ! गइप्पवाए पण्णत्ते' इत्यादि ।

सूत्रार्थ- (कइविहेणं भंते । गइप्पवाए पण्णत्ते) हे भदन्त । गतिप्रपात कितने प्रकारका कहा गया है ? (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहे गइप्पवाए पण्णत्ते) गतिप्रपात पांच प्रकारका कहा गया है । (तंजहा) जैसे- (पओगगई, ततगई, बंधणछेयणगई, उववायगई, विहायगई) प्रयोगगति, ततगति, बंधनच्छेदनगति, उपपातगति और विहायोगति (एत्तो आरब्भ पओगयंचनिरवसेसं भाणियव्वं जाव सेत्तं विहायगई सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति) यहाँसे लेकर प्रयोगपद पूरा कहलेना चाहिये यावत् वह यह विहायोगति है- यहाँतक. हे

गतिप्रपाताध्ययननी वक्तव्यता-

'कइविहे णं भंते ) गइप्पवाए पण्णत्ते ?'-

सूत्रार्थ- (कइविहे णं भंते ! गइप्पवाए पण्णत्ते ?) हे भदन्त ! गतिप्रपातना केवल प्रकार कखा छे । (गोयमा) हे गौतम ! (पंचविहे गइप्पवाए पण्णत्ते) गतिप्रपात पाच प्रकारना कखा छे (तंजहा) ते पाच प्रकारे नीचे प्रमाणे छे (पओगगई) प्रयोगगति, (ततगई) ततगति, (बंधण छेयणगई) बंधन छेदन गति, (उववायगई) उपपातगति (विहायगई) अने विहायोगति (एत्तो आरब्भ पओगयंचनिरवसेसं भाणियव्वं जाव सेत्तं विहायगई-सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति) अहीथी शङ्करीने- 'ते आ विहायोगति छे' त्यां सुधीनु प्रमाणानु १६सु 'प्रयोग, प६





इत्याशयः, तत्र प्रयोगस्य सत्यमनःप्रवृत्तिकस्य सत्यमनोयोगादिव्यापारस्य पञ्चदशविधस्य गतिः प्रवृत्तिः प्रयोगगतिः, तता-विस्तीर्णा गतिः ततगतिः, एतावता ततस्य-ग्रामनगरादिकं गन्तुं प्रवृत्तत्वेन, तच्चाप्राप्तत्वेन तदन्तरालपथे वर्तमानतया प्रसारितक्रमतया च विस्तारं गतस्य गतिः, ततोवाऽवधिभूतग्रामादेर्नगरादौ गतिः, ततगतिः, यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छति इत्यादि बन्धनस्य कर्मणः सम्बन्धस्य वा छेदने अभावे मति या गतिः सा बन्धनच्छेदनगतिः यथा जीवस्य शरीरात्, शरीरस्य वा जीवाद् बन्धच्छेदनगतिः, उपपातगतिम्लु त्रि-

अतः गति के भेदों के कहने पर गतिप्रपात के भेद ही कहे गये हैं ऐसा ज्ञान हो जाता है अतः इस प्रकार के कथन में विषयान्तर का कथन किया गया है ऐसा नहीं जानना चाहिये । सत्यमनः आदि के व्यापार रूप जो पन्द्रह प्रकार का योग कहा गया है-उसकी गति प्रवृत्ति का नाम प्रयोगगति है । अर्थात् सत्यमनोयोगादि व्यापार द्वारा जो मन वगैरह के पुद्गलों की गति होती है-वह प्रयोगगति है । विस्तीर्णगति का नाम ततगति है, जैसे ग्राम नगर आदि में जाने के लिये कोई पुरुष अपने स्थान से तो निकल गया, परन्तु वह अभी-तक उस ग्राम आदि में पहुँच नहीं पाया है, बीच मार्ग में है, अब वह जो जल्दीर चरण उस गाँव तक पहुँचने के लिये बढ़ रहा है सो उसकी गति का नाम ततगति है । तात्पर्य यह है कि अवधिभूत ग्राम आदि से जो नगरादिक जाना होता है-ऐसी उस विस्वृतगतिगमन का नाम ततगति है, जैसे जिनदत्त अमुकस्थान से

छे, ओ वात जाण्वाभा आवी जाय छे तेथी आ प्रकारना कथनमा विषयान्तर करवाभा आव्यु छे ओम मानवु जोधओ नही सत्यमनः आहना व्यापाररूप (प्रवृत्तरूप) ने पंद्र प्रकारना योग कहेवाभा आव्या छे, तेनी गति प्रवृत्तिवु नाम प्रयोगगति छे अटले के सत्य+मोयोग आदि व्यापार द्वारा मन वगैरेना पुद्गलोनी ने गति थाय छे, ते गतिने विस्तीर्ण गतिने ततगति कहे छे नेम के काष्ठ गाम के नगरमा जवाने माटे काष्ठ भाण्यस पोताने स्थानेथी उपडे छे आवी रीते त्या जवाने माटे उपडया पछी त्या जखी पहोअवा माटे ते मार्गमा पोतानी अडप वधारी हे छे तो तेनी ते गतिने ततगति कहे छे अटले के अमुक गामया भीने गामके नगरे जवाने माटे ने विस्वृत गति करवाभा आवे छे, तने ततगति कहे छे नेभके जिनदत्त अमुक स्थानेथी भीण गाम सुधी जाय छे, तो तेनी ते गतिने ततगति कहे छे

टीका-अथ गतिप्रपातस्यैव भेदान् प्ररूपयति-‘कश्चिद्दृष्टं भत ! गृह्य-  
वाए पण्यसे ! गौतम पृच्छति हे भदन्त ! पञ्चविधं सुष्ठु गतिप्रपातः  
प्रकृतः ? भगवानाह-‘गोयमा ! पञ्चविद्दे गृह्यवाए पण्यसे’ हे गौतम ! पञ्च  
विधं गतिप्रपातः प्रकृतं ‘तजडा-पयागगई, ततगई, वघणछेयणगई, उववाय  
गई विहायगई तद्यथा-प्रयोगगतिः, ततगतिः, वघनच्छेदनगति उपपातगति  
विहायोगतिः, अथ गतिप्रपातभेदप्रक्रमे यद्गतिभेदं भणितम्, तद्गतिभेदं स्वार्थ-  
पातस्य, गतिभेदमणने गतिप्रपातभेदा एव भविता भवन्तीति नात्रियान्तरम्  
भवति ! तेसा आपन यद् प्रतिपादितं किमा हे, यद् सर्वथा ऐसा ही  
है- हे भदन्त ! यद् सर्वथा ऐसा ही है- ऐसा कहकर ये गौतम  
पाषत् स्थान पर त्रिगजमान हो गये ।

टीकार्य- सूत्रकारने इस सूत्र द्वारा गतिप्रपातके भेदोंकी प्ररूपणा  
कीहै- इसमें गौतम ने प्रश्न रूप ऐसा पूछा है- ‘कश्चिद्दृष्टं भत !  
गृह्यवाए पण्यसे’ हे भदन्त ! गतिप्रपात किजने प्रकारका कहा गया  
है ? उत्तर में प्रश्न न करा- ‘गोयमा’ हे गौतम ! ‘पञ्चविद्दे गृह्यवाए  
पण्यसे’ गतिप्रपात पांच प्रकार का कहा गया है ‘तजडा’ जा इस  
प्रकार से है- ‘पयागगई ततगई वघणछेयणगई, उववायगई, विहाय  
गई’ प्रयोगगति ततगति, वघनच्छेदनगति उपपातगति, विहायो-  
गति । यहाँ गतिप्रपात के भेद प्रकरण में जो गति के भेदों का कथन  
किया गया है उसका कारण यह है कि प्रपात गति का धर्म है

पूरैपुः क्वत्तु जेठजे गौतमस्वामी कहते हैं कि भदन्त ! आपनी बात भरी है, हे  
भदन्त ! आप विषयन आपी के प्रतिपादन प्रश्न से यथायत्न है आप प्रमाणों कीने  
पण्यसे नमस्कार करीने तेसा तेमना स्थाने ऐसी यथा.

टीका- सूत्रकारने आप सूत्रभांति प्रपाताना भेदोंकी प्ररूपणा करी है अतिप्रपातने  
अनुवर्तनीने गौतमस्वामी कहती हैं प्रश्नने जेठजे प्रश्न पूछते हैं- ‘कश्चिद्दृष्टं भत !  
गृह्यवाए पण्यसे ?’ हे भदन्त ! अतिप्रपातना इत्था प्रकार कहा है ?

भदन्तविर भ्युने उत्तर - ‘गोयमा’ हे गौतम ! पञ्चविद्दे गृह्यवाए पण्यसे  
तजडा’ अतिप्रपातना नक्षे प्रमाणों पांच प्रकार कहा है- ‘पयागगई, ततगई वघण  
छेयणगई, उववायगई, विहायगई (१) प्रयोगगति (२) ततगति (३) वघन  
छेदनगति (४) उपपात गति - न (५) विहायोगति अर्थात् अतिप्रपात । प्रश्नकार  
गौतम जेठजे के प्रतिपातन यथां गौतम कहते हैं कि प्रश्नने जेठजे  
प्रश्न है तेसी अतिप्रपात भेदों कहनेवाला आपने तजडे अतिप्रपातने भेदों कहनेवाला आपने

इत्याशयः, तत्र प्रयोगस्य सत्यमनःप्रवृत्तिकस्य सत्यमनोयोगादिव्यापारस्य पञ्चदशविधस्य गतिः प्रवृत्तिः प्रयोगगतिः, तता-विस्तीर्णा गतिः ततगतिः, एतावता ततस्य-ग्रामनगरादिकं गन्तुं प्रवृत्तत्वेन, तच्चाप्राप्तत्वेन तदन्तरालपथे वर्तमानतया प्रसारितक्रमतया च विस्तारं गतस्य गतिः, ततोवाऽवधिभूतग्रामादेर्नगरादौ गतिः, ततगतिः, यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छति इत्यादि बन्धनस्य कर्मणः सम्बन्धस्य वा छेदने अभावे सति या गतिः सा बन्धनच्छेदनगतिः यथा जीवस्य शरीरात्, शरीरस्य वा जीवाद् बन्धच्छेदनगतिः, उपपातगतिस्तु त्रि-

अतः गति के भेदों के कहने पर गतिप्रपात के भेद ही कहे गये हैं ऐसा ज्ञान हो जाता है अतः इस प्रकार के कथन में विषयान्तर का कथन किया गया है ऐसा नहीं जानना चाहिये । सत्यमनः आदि के व्यापार रूप जो पन्द्रह प्रकार का योग कहा गया है-उसकी गति प्रवृत्ति का नाम प्रयोगगति है । अर्थात् सत्यमनोयोगादि व्यापार द्वारा जो मन वगैरह के पुद्गलों की गति होती है-वह प्रयोगगति है । विस्तीर्णगति का नाम ततगति है, जैसे ग्राम नगर आदि में जाने के लिये कोई पुरुष अपने स्थान से तो निकल गया, परन्तु वह अभी-तक उस ग्राम आदि में पहुँच नहीं पाया है, बीच मार्ग में है, अब वह जो जल्दीर चरण उस गाँव तक पहुँचने के लिये बढा रहा है सो उसकी गति का नाम ततगति है । तात्पर्य यह है, कि अवधिभूत ग्राम आदि से जो नगरादिक जाना होता है-ऐसी उस विस्तृतगतिगमन का नाम ततगति है, जैसे जिनदत्त अमुकस्थान से

छे, ये वात जाणुवामा आवी जाय छे, तेथी या प्रकारना कथनमा विषयान्तर करवामा आव्यु छे अमे मानवुं जेधअे नही सत्यमन, आहना व्यापाररूप (प्रवृत्तरूप) जे पंद्र प्रकारना योग कहेवामा आव्या छे तेनी-गति प्रवृत्तिवु नाम प्रयोगगति छे अेटले के सत्यमनोयोग आदि व्यापार द्वारा मन वगैरेना पुद्गलोनो जे गति थाय छे, ते गतिने विस्तीर्ण गतिने ततगति कहे छे जेम के कोष गाम के नगरमा जवाने माटे कोष भाष्यस पोताने स्थानेथी उपडे छे आवी रीते त्यां जवाने माटे उपडया पछी त्या जेह्दी पहोयवा माटे त मार्गमा पोतानी अडप वधारी हे छे तो तेनी ते गतिने ततगति कहे छे अेटले के अमुक गामथी थीजे गामके नगरे जवाने माटे जे विस्तृत गति करवामा आवे छे, तने ततगति कहे छे जेभके जिनदत्त अमुक स्थानेथी थीज गाम सुधी जाय छे, तो तेनी ते गतिने ततगति कहे छे

विधा, क्षेत्र-मय-नोमयभेदात् तत्र नैरयिकतिर्यग् नरदेवसिद्धानां यत् क्षेत्रे उपपाताय उत्पादाय गमनं सा क्षेत्रोपपातगतिः, याचनैरयिकादीनामेव स्वमये उपपातरूप्या गतिः सा भवोपपातगतिः, यच्च सिद्धपुद्गलयोगमनमात्रं सा नो भवोपपातगतिः, 'विहायोगतिश्च स्पृशद्गत्यादिकाऽनेकविधा आकाशे गमन विहायो गतिः, यथा परमाणोः लोकान्तपर्यन्त गतिर्मपत्ति, इत आरभ्य प्रज्ञापनायां पौञ्ज्य प्रयोगपद भणितम् तच्चेहापि निरवशेषम् मणितव्यम्, तद् बधिमाह-यावत् सा एषा विहायोगतिः प्रज्ञप्ता । तथाचोऽपि प्रज्ञापनायाम्

दूसरे गाँथ तक जाता है । क्षेत्र, भय और नोभय के भेद से उपपातगति तीन प्रकार की होती है । इनमें नैरयिक, तिर्यक्, मनुष्य देव और सिद्ध इनका जिस क्षेत्र में उत्पाद होना होता है-वहातक जो इनका गमन है वह क्षेत्रोपपातगति है । नैरयिक आदि जीवों की ही जो अपने मय में उत्पादरूप गति है वह भवोपपातगति है । तथा सिद्ध और पुद्गल का जो गमनमात्र है वह नो भवोपपात गति है । याचनछेदनगति वह है जो याचन के अथवा कर्मसंयम के अभाव होने पर होती है यह गति जीव मुक्त शरीर की या शरीर मुक्त जीव की होती है । विहायोगति अनेक प्रकार की है । आकाश में गमन करना इसका नाम विहायोगति है । जैसे परमाणु की लोकान्ततक गति होती है । यहाँ से-गति से लेकर प्रज्ञापन में १६ वां प्रयोगपद कहा गया है वही प्रयोगपद विहायोगति तक यहाँ पर भी संपूर्ण रूपसे कहना चाहिये । प्रज्ञापना में ऐसा कहा है 'संघण-

क्षेत्र, भय अने नोभवना क्षेत्रोपपात गति तत्र प्रकारनी क्षेत्र छे उत्पाद क्षेत्र पर्यन्तया कर्मसंयम अतिने क्षेत्रोपपातगति हके छे । नारक निर्विकार, मनुष्य, देव अने सिद्धना के क्षेत्रमा उत्पाद यवाने क्षेत्र, ते क्षेत्र पर्यन्तयुं तेभन्तुं के अमन कथं छे ते अमनने क्षेत्रोपपात गति हके छे नारक आदि अनेानी के पीताना अथवा उत्पादक्षेत्र गति छे वे अतिने अवोपपाति गति हके छे तथा सिद्ध अने पुद्गलतुं के अमनमात्र क्षेत्र छे तने नेलवोपपात गति हके छे के अति कम अथने अभाव क्षेत्र नारे कथं छे वे अतिने याचनछेद गति हके छे । आ प्रज्ञप्ती गति अत्युक्त शरीरनी के शरीर मुक्त अपनी क्षेत्र छे विहायोगति अनेक प्रकारनी छे आकाशमा अमन अर्थुं तेषुं नाम विहायोगति छे । केम ३ परमाणुनी लोकान्त सुधी गति बाध छे अतिनु प्रतिपादन करैवा भरी प्रज्ञापनायां ११ सु प्रयोगपद आपवायां आनु छे ते प्रयोग पदनु चतुर्थेयी विहायोगति पर्यन्त सम्पत्त कथन कही अर्थुं अर्थुं अर्थुं अर्थुं । प्रज्ञापनायां अर्थुं

‘वधणछेयणगई, उववायगई, विहायगई’ इत्यादि, बन्धनच्छेदनगतिः उपपात-  
गतिः, विहायोगतिः ‘अन्ते गौतमो भगवद्वाक्यं स्वीकुर्वन्नाह-‘सेवं भंते ! सेवं  
भंते त्ति हे भदन्त ! तदेवं भगवदुक्तं सर्वं सत्यमेव, हे भदन्त ! भवदुक्तं  
सर्वं सत्यमेवेत्याशयः ॥ सू० ३ ॥

इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्ब्रह्म-प्रसिद्धवाचक-पञ्चदशभाषाकलित-ललित-  
कलापालापक-प्रविशुद्ध-गद्यपद्यनैकग्रंथनिर्मापक-वादिमानमर्दक-श्री-  
शाङ्खच्छत्रपति-कोल्हापुरराज-प्रदत्त “जैनशास्त्राचार्य” पदभूषित-  
कोल्हापुरराजगुरु-बालब्रह्मचारि-जैनाचार्य-जैन-  
धर्मदिवाकर-पूज्यश्री-घासीलालव्रतिविरचितायां  
“श्रीभगवतीसूत्रस्य” “प्रमेयचन्द्रिका”ऽऽख्यायां  
व्याख्यायां अष्टमशतकस्य सप्तमोद्देशकः समाप्तः ॥८-७॥



छेयणगई, उववायगई, विहायगई’ इत्यादि. अन्त में गौतम स्वामी  
भगवान् के वाक्य को स्वीकार करते हुए कहते हैं-‘सेवं भंते ! सेवं  
भंते ! त्ति’ हे भदन्त ! आप के द्वारा कहा गया सब सत्य ही है.  
आपके द्वारा कहा गया सब सत्य ही है ॥ सू० ३ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत ‘भगवती’ सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका  
व्याख्याके आठवें शतकका सप्तम उद्देशक समाप्त ८-७



धुं छे डे- ‘वधण छेयणगई, उववायगई, विहायगई’ इत्यादि अन्ते गौतम स्वामी  
भडावीर प्रभुनां वचनेनो स्वीकार करतां डडे छे- ‘सेवं भंते ! सेवं भंते ! त्ति’  
डे भदन्त ! आप सायुं न डडे छे ! डे भदन्त ! आ विषयनु आपे ने प्रतिपादन ध्युं  
ते सवधा सत्य छे अेभ कहीने वदण्णा नभस्कार करीने गौतम स्वामी उचित स्थाने  
नछने विराजमान थया ॥ सू ३ ॥

जैनाचार्य श्री घासीलालजी महाराजकृत ‘भगवती’ सूत्रकी प्रमेयचन्द्रिका  
व्याख्याके आठवां शतकेका सातवां उद्देशक समाप्त. ८-७





